

---

Printed by R. D Desai at his New Bharat Printing Press, 6 Kelewadi, Bombay 4,  
and Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary,  
Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, 1.  
Hirabag, Girgaum, Bombay 4.

---

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालाया एकचत्वारिंशत्तमो ग्रन्थ

महाकविपुष्पदन्ताविरचितं  
त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकारं नाम  
अपभ्रंशभाषानिबद्धं

# महापुराणम्

तस्यायं  
उत्तरपुराणप्रथमार्धभूतः  
द्वितीयः खण्डः

पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरनियुक्तेन  
संस्कृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन  
वैद्योपाह्वपरशुरामशर्मणा  
संपादितः

प्रकाशिका

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रमाब्दाः १९९६ ]

[ ख्रिस्ताब्दाः १९४०

मूल्यं दश रूपिकाः



# TABLE OF CONTENTS

PREFACE	...	...	...	...	...	vii
INTRODUCTION	...	...	...	...	...	ix-xxi
1. Critical Apparatus	...	.	...	...	...	ix
2. Summary of Contents						x
3. The Appendices	...	...	...	...	...	xxi
TEXT WITH CRITICAL APPARATUS & FOOT-NOTES						... १-५२५
३८	अजियणिव्वाणगमण अट्टतीसमो संधि	...	...	...	...	३
३९	सयरणिव्वाणगमणं एक्खुणचालीसमो संधि	...	...	...	...	२०
४०	संभवणिव्वाणगमण चालीसमो संधि	...	...	...	...	३२
४१	अहिणदणणिव्वाणगमणं एक्कचालीसमो संधि	...	...	...	...	४५
४२	सुमइणिव्वाणगमण दुचालीसमो संधि	...	...	...	...	५८
४३	पउमप्पहणिव्वाणगमणं तियालीसमो संधि	...	...	...	...	६८
४४	सुपासणिव्वाणगमणं चउयालीसमो संधि	...	...	...	...	७८
४५	पउमणाहवइजयतसंभवो पचचालीसमो संधि	...	...	...	...	८५
४६	चंदप्पहणिव्वाणगमण छायालीसमो संधि	...	...	...	...	९६
४७	सुविहि ( पुप्फयत ) णिव्वाणगमण सत्तचालीसमो संधि	...	...	...	...	१०५
४८	सीयलणाहणिव्वाणगमणं अट्टयालीसमो संधि	...	...	...	...	११६
४९	सेयसणिव्वाणगमणं एक्खुणपण्णासमो संधि	...	...	...	...	१३०
५०	बलएववासुदेवउप्पत्ती पण्णासमो संधि	...	...	...	...	१३९
५१	सिंघमारणं कोडिसिल्लुच्चायणं एक्कवण्णासमो संधि	...	...	...	...	१४७
५२	विजयतिविट्ठहयगीवकहंतरं दुवण्णासमो संधि	...	...	...	...	१५८
५३	वासुपुज्जणिव्वाणगमणं तिवण्णासमो संधि	...	...	...	...	१८१
५४	अचलदुविट्ठतारयकहंतरं चउवण्णासमो संधि	...	...	...	...	१९०
५५	विमलणाहणिव्वाणगमणं पंचवण्णासमो संधि	...	...	...	...	२०२
५६	घम्मसयभुमहुकहंतरं छप्पण्णासमो संधि	...	...	...	...	२०९
५७	संजयतमेरुमदरकहंतरं सत्तवण्णासमो संधि	...	...	...	...	२१७
५८	अणतसुप्पहमहसूयणकहंतरं अट्टवण्णासमो संधि	...	...	...	...	२३६
५९	घम्मसुदंसणाइकहंतरं एक्खुणसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	२४९
६०	सतिणाहभवावलिवण्णं सट्ठिमो संधि	...	...	...	...	२६५
६१	वज्जाउहचक्कवट्ठिवण्णं एक्कसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	२८४
६२	मेहरहतित्थयरगोत्तणिबंधणं दुसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	२९९
६३	सतिणाहणिव्वाणगमणं तिसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	३१२
६४	कुथुणिव्वाणगमणं चउसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	३१९
६५	अराणिव्वाणगमणं परसुरामविहवो पंचसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	३२६
६६	सुभउमचक्किहंतरं णदिसेणपुंडरीयणिसुंभकहंतरं छसट्ठिमो संधि	...	...	...	...	३४१

६७	मल्लिणाहणिव्वाणगमणं पउमचक्किणंदिमित्तदत्तयवल्लिपुराणं सत्तसट्ठिमो संधि	३४८
६८	मुणिसुव्वयणिव्वाणं हरिसेणकहंतरं अट्टसट्ठिमो संधि ... ..	३६०
६९	रामलक्खणुप्यत्ती जागणिवारणं एकूणहत्तरिमो संधि	३६८
७०	सीयाविवाहकह्त्ताणं सत्तरिमो संधि ... ..	३९०
७१	णारयआगमणं रावणमणखोहणं एकहत्तरिमो संधि...	४०३
७२	सीयाहरणं दुसत्तरिमो संधि ... ..	४१७
७३	सुग्गीवह्णुमतागमणं सीयादंसणं तिसत्तरिमो संधि ... ..	४२६
७४	ह्णुमंतदूयगमण चउहत्तरिमो संधि ... ..	४४६
७५	वाल्लिणह्णण रामलक्खणविज्जासाहणं पंचहत्तरिमो संधि	४५७
७६	णंदणवणमोडणं लंकाडाहं छहत्तरिमो संधि ... ..	४६५
७७	राह्वरामवल्लसंगहणं सत्तहत्तरिमो संधि ... ..	४७३
७८	रावणणिह्णणं विहीसणपट्टवधो अट्टहत्तरिमो संधि ... ..	४८३
७९	रामलक्खणगुणकित्तण हरिसेणचक्कवट्ठिकहंतरं एकूणासीमो संधि	५०४
८०	णमिणिव्वाणं जयसेणचक्कहरकहतरं असीतिमो संधि	५१३
NOTES ... ..	527-559	
APPENDIX : I दिगम्बरमतेन तीर्थेकरमूर्तिविज्ञानम्	560	
APPENDIX : II तीर्थेकरपित्रादिवर्णनपट्टिका	561-563	
APPENDIX : III गणघरसंख्या	564-565	
APPENDIX : IV चक्रवर्तिपित्रादिवर्णनपट्टिका	566-567	
APPENDIX : V बलदेववासुदेवप्रातिवासुदेवाः	568-569	
ADDENDA ET CORRIGENDA	570	

## PREFACE

THE first Volume of the Mahāpurāṇa of Puspadanta containing the first thirtyseven samdhis out of a total of one hundred and two was issued in 1937 as No 37 of the Manikchand Dīgambara Jaina Granthamālā, Bombay, under the kind patronage of the Trustees of that Series. I am now issuing the second Volume of the work containing the next forty-three samdhis (xxxviii- lxxx) in the same Series as No 41 and under the patronage of the same Trustees as also of the University of Bombay. I hope to issue the third and the last Volume of the work within a year from now.

It is my pleasant duty to thank all those who have assisted me in the production of this second Volume. In the first place I should like to thank most heartily the Managing Trustee of the Manikchand Dīgambara Jaina Granthamālā, Mr. Thakordas Bhagvandas Javeri, who, in spite of low funds of the Mālā, agreed to finance the publication. To Pandit Nathuram Premi and Professor Hiralal Jain of King Edward College, Amraoti, the Secretaries of the Mālā, I owe a special debt of gratitude. The funds of the Mālā, after the publication of the first Volume of the work, were completely exhausted, and I feared that I would be forced to abandon the work unfinished, but these learned scholars moved heaven and earth to find out the required amount for publication. I am to thank Professor Hiralal Jain specially for his having secured for my use the Ms of the Uttarapurāṇa designated A in the Critical Apparatus and also of the Tippana of Prabhācandra from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakalaya, Jaipur, who very kindly placed them at my disposal as long as I wanted them for collation work. My thanks go to Master Motilal for this kindness. Mr R. G. Marathe, M A, formerly my pupil and now Professor of Ardha-Māgadhī at the Willingdon College, Sangli, helped me for the collation of this Volume also. My thanks go to him for the help he rendered me. Nor should I forget to mention thankfully the work of Mr R. D. Desai of the New Bharat Printing Press, Bombay, and his willing staff of Proof-readers and Pressmen who are responsible for the excellent get-up and faultless execution of this Volume. I must particularly mention here that the brief Corrigenda at the end of the Volume is not at all due to their negligence but to oversight on my part.

Lastly, the Editor and the Publishers acknowledge their indebtedness to the University of Bombay for the substantial financial help (Rs. 650/-) it has granted towards the cost of publication of this Volume.

Nowrosjee Wadia College, Poona  
August 1940

}

P. L. VAIDYA



# INTRODUCTION

## 1. Critical Apparatus

THE Text of Mahāpurāṇa or Tisatthmahāpurisagunālamkāra of Puspadanta in this Volume is based upon three Mss designated K, A and P which are fully collated. Occasional help for the purpose of settling the text was also derived from the Tippana of Prabhācandra. I give below the full description of this material —

(1) K. This Ms is fully described in my Introduction to Vol I on pages xi and xii. The Uttarapurāṇa portion begins on leaf No 289 of this Ms. As this Ms was found to contain the older of the two recensions of the Āḍipurāṇa with corrections to accord with the other recension, I have relied upon it for the constitution of the text in this Volume. It is to be regretted that no Ms corresponding to Ms G of the Āḍipurāṇa Mss could be discovered for this Volume. I may say here that the No. of the Uttarapurāṇa Mss known to me is much smaller than those of the Āḍipurāṇa.

(2) A. This Ms was obtained for me by Professor Hiralal Jain of the King Edward College, Amraoti, from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakālaya, Jaipur. It consists of 423 leaves measuring 13 inches by 5 inches with 11 lines to a page and about 40 letters to a line. This Ms presents in its original form a recension as in P, but seems to have been corrected to another recension no longer available to me with the result that the variants recorded are those of the corrected recension. The Ms further seems to have been made up of (a) leaves of the original Ms of which a few were lost, and (b) of leaves newly added to make up the lost portion and written in a different hand. This hypothesis of mine is supported by reference to Folio No 383-384 which leaves half the page blank in order that the matter should run on with the first syllable on Folio No 385 of the original part. The pages so substituted have nine lines to a page and about 38 letters to a line. That this Ms. presents a recension different from those of K and P is clear from the fact that it contains Praśasti Stanzas 46, 47 and 48 (See Introduction to Vol I, page xxvii) which are not common to any other Ms of the Uttarapurāṇa. The Ms begins ॐ नमो वीतरागाय । बंभहो बंभालयसामियहो and ends इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालकारे महाकइपुष्कयतविरइए महाभन्वभरहाणुमणिए महाकव्वे दुउत्तरसयमो परिन्छेओ समत्तो ॥ संधि ॥१०२॥ इति उत्तरपुराण समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ संवत् १६१५ वर्षे माघदि ६ सुक्रवासरे उत्तरपुराण समाप्त ॥ त्राईहठोपठनार्थं ज्ञानावर्णाकिर्मस्वयार्थं ग्रथसख्या ॥ १२००० ॥

This last page however is not the original page of the Ms but is newly written. According to this colophon the Ms is dated Friday, the 6th day of the month of Māgha (Feb-March) of the Samvat year 1615, corresponding to 1558 A. D.

(3) P. This is Ms No 1106 of 1884-87 of the Deccan College Collection, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It has 681 leaves measuring 11 inches by 4½ inches with 8 lines to a page and 33 letters to a line. It is dated the full-moon day of the month of Bhādrapada (Aug-Sept) of the samvat year 1630 corresponding to 1573 A. D. The last page of the Ms. is damaged and hence it was rewritten on the 6th day of the bright half of Āsāḍha (July) of the samvat year 1934 corresponding to 1877 A. D. It has a brief marginal gloss. It begins, ॐ नमो वीतरागाय ॥



बंभहो बंभालयसामियहो... The original page ends. इय महापुराणे.....दुइत्तरसइमो परिच्छेओ समत्तो. In second hand we have further. सवत् १६३० वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमातिथौ क ( विवासरे उक्त ) राभाद्रपदानक्षत्रे नेमिनाथचैत्यालये श्रीमूलसवे बलात्कार...छे श्रीकुंदकुंदान्वये..... The replaced page ends. बलदेवदास टौंग्याकाकारज मीती असाडसुदी ६ समत १९३४ का सालम श्रीघीयामडीका मंदर पंचाहतीमदरने चडायो ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

This Baladevadāsa had before him the damaged page of the Ms in two parts, the first part of which is still preserved alongwith the Ms at the Institute. The year 1630 put on the original page and the Pattāvalī portion on the original page seems to have been written in a different hand.

In addition to these three Mss fully collated, I have made full use of the Tippāna of Prabhācandra, a Ms of which was procured for my use by Professor Hiralal Jain from Master Motilal Sanghi Jain of Jaipur. This Ms of the Tippāna has 57 leaves measuring 12 inches by 5 inches with 13 lines to a page and 31 letters to a line. It begins: ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ बंभहो परमात्मनः and ends श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपदविवरण सागरसेनसैद्धांतान् परिज्ञाय मूलटिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं ॥ अक्षपातभीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदोर्दैदाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥१०२॥ इतिउत्तरपुराणटिप्पणक प्रभाचद्राचार्यविरचित समाप्तं ॥ छ ॥ अथ सवत्सरे-स्मिन् श्री नृपविक्रमादित्यगताद्धः सवत् १५७५ वर्षे भाद्रवा सुदि । बुद्धदिने । कुरुजांगलदेशे । सुलितान सिंदरपुत्रु सुलितानब्राह्मिपुराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासवे माथुरान्वये पुष्करगणे । महारकश्रीगुणभद्रसूरिदेवाः । तदाम्नाये जैसवालु चौ. टोडरमल्लु । इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । सुभ भवतु । मांगल्य ददाति लेखकपाठकयोः ॥ छ ॥

The colophon of this Ms raises some interesting problems which have been fully discussed in my Introduction to Vol I, page xv, and hence it is not necessary to restate and reexamine them here. I need only say that I have made full use of this T as also of the marginal gloss in K and P in constituting my text and in preparing my Foot-Notes.

There is one more Ms of the Uttarapurāna known to me. It is deposited in the Balātkāra Gapa Jain Mandir at Karanja, Berar, and bears No 7029 in the Catalogue of Sanskrit & Prakrit Mss in the C P and Berar, by the late Rai Bahadur Hiralal. This Ms is dated Thursday the 8th day of the dark half of Mārgasīrsa of the samvat year 1606, i. e., 1549 A. D. I have personally examined this Ms at Karanja during my visits to that place in 1927 & 1929, have had some trial collations, was promised the loan of it by the trustees of the temple, but could not get it when I actually required it owing to some strange attitude which the trustees then took. From my trial collations however, it appears that this Ms agrees very closely with P which is fully collated for this edition.

I have constituted my text in this Volume on the material described above. In doing so I have mostly relied upon the text as preserved in K which was found to represent the earliest of the three recensions of the Uttarapurāna.

## 2. Summary of Contents

This second Volume of the Mahāpurāna contains samdhis XXXVIII-LXXX of the great epic, and describes the lives of twenty Tīrthamkaras beginning with Ajta the

second and ending with Nami the twenty-first, eight each of the nine Baladevas, Vāsu-devas and Prati-Vāsudevas, and ten out of twelve Cakravartins from Sagara to Jayasena. In narrating these lives the poet has followed the information handed down by tradition and seems to have been greatly influenced by Gunabhadra's Uttarapurāna in Sanskrit. It appears that the details of the lives of these Great Men were codified by old monks, but individual poets handling the theme were free to use their poetic genius in detailed description. Vimalasūri in his Paumacariya, for instance, says.—

नामावलियनिबद्धं आयरियपरपरागयं सन्व ।

वोच्छामि पउमचरिय अहाणुपुन्वि समासेण ॥ १-८.

Although most of the information seems to have been codified and tabulated and handed down by tradition of each of the two schools of the Jainas, there is considerable uniformity in the subject matter. I have myself prepared some Tables and given them in the form of Appendices to this Volume. I now proceed to give the summary of contents by samdhis where such summary cannot be given in a tabular form.

XXXVIII The Poet at the beginning offers salutations to the five Paramesthis and assures the reader to continue his work by narrating the life of Ajīta the second prophet of the Jainas. But before he proceeds he says that for some reason he was uneasy at heart and so stopped his literary activity for some time. One day the goddess of Learning appeared before him in dream and asked him to offer his salutations to the Arhats. The poet woke up but saw nobody before him. At this juncture Bharata, his patron, came to his house and asked him whether he (Bharata) offended him any way as a result of which he did not continue his work. Bharata reminded the Poet further that the life was fickle and that he should make full use of the gift of his poetic powers. The Poet then said to his patron that he was uneasy at heart because he found the world to be full of wicked people, and that, for that reason, he was not inclined to continue his composition, but that he would resume it at his request which he could not refuse. The Poet then resumes the work and narrates the life of Ajīta. For details see Notes and the Tables in Appendices I, II, and III.

XXXIX. There lived a king named Jayasena at Prthvīpura, the capital of Vatsāvati in the eastern Videha. He had two sons, Ratisena and Dhrtisena by name, possessing great beauty. Of these Ratisena died early. His father, overcome by grief, and disgusted with the worldly life, gave his kingdom to his son, Dhrtisena, and alongwith his minister Mahāruta, became a monk. Both Jayasena and Mahāruta practised penance, and after death became gods named Mahābala and Maniketu. These two gods made an agreement between themselves that whoever would be born on the earth earlier should be taught by the other the highest Dharma. Of these Mahābala was born first on the earth as king Sagara of Sāketa, and in course of time became a Cakravartin. Once a monk named Caturmukha attained Kevalajñāna, on which occasion gods arrived on the earth. Sagara went there to pay his respects to the monk. Maniketu saw king Sagara there and was reminded of his promise to god Mahābala. Maniketu thereupon took the opportunity to tell Sagara how fickle the earthly prosperity was, but Sagara paid no heed to him. Once again Maniketu came to Sagara's palace to enlighten him, but this time also he failed. Now just about this time, sixty thousand sons of Sagara approached their father and asked him to give some work of command as they were tired of being idle.

Sagara at first told them that there was nothing that was left for them to do as his cakra had already achieved everything for them. His sons however insisted and then Sagara asked them to go to Mandara mountain and make some arrangement for the protection of the temples of the twenty-four Jinas built by Bharata the first Cakravartin. The sixty thousand sons of Sagara then started on their mission, dug up a huge ditch round Mandara and filled it with waters of the Ganges which flowed into the Nāgaloka. This time Maṇiketu thought of enlightening Sagara by a new method. He became a big snake, looked at the sons of Sagara with anger, and burned them to ashes. Only two, Bhīma and Bhagīrathī, escaped alive. Sagara was informed of this disaster, was advised by a Brahmin on the fickleness of samsāra. Following his advice, Sagara placed his son Bhagīrathī on the throne, and with his son Bhīma, became a monk. Maṇiketu was delighted to see this and showed to Sagara how he wrought about by his magic the death of his sons. All the sons were then brought to life, but they also followed their father by becoming monks. Bhagīrathī also, in due course, became a monk and attained emancipation.

XL, XLI, XLII, XLIII, and XLIV. For the lives of Saṃbhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha and Supārśva, see the Tables.

XLV. This samdhi describes the six previous births of Candraprabha the eighth Tīrthamkara. In the earliest of these births, the soul of Candraprabha was born Śrīśarman or Śrīvarman, son of king Śrīseṇa and queen Śrīkāntā of Śrīpura in the Sugandha country of Western Videha. Leading a pious life he was next born as a god named Śrīdhara. In the next life he was born as a son named Ajitasena to king Ajitamjaya and queen Ajitasenā of Ayodhyā in the Alakā country. This Ajitasena became a cakravartin, led a pious life, and was next born as the lord of the Acyuta heaven. After this he was born as Padmanābha or Padmaprabha, son of Kanakaprabha and Kanakamālā of the town Vastusamcaya in the Mangalāvati region. In his next birth he was born as Ahamindra in the Vaijayanta heaven.

XLVI. For the life of Candraprabha as a Tīrthamkara see the Tables.

XLVII. For the life of Suvīdhi or Puspadanta see the Tables.

XLVIII. Śītala the tenth Tīrthamkara was in his previous life king Prthvīpāla of Susīmā. His wife, Vasantalaksmī by name, died in the prime of youth, and the king, reflecting on her death, renounced the worldly life. In his next birth he was born as a god in the Āruna heaven. In his next birth he was born as a son named Śītala to king Dṛdharatha and queen Sunandā of the town of Rājabhadra or Bhadrīlapura. On seeing a bee dead in the lotus flower, he formed a disgust for the worldly life, renounced it, and going through the usual course of a Tīrthamkara, attained emancipation. After his nirvāṇa Jainism fell on bad days for want of persons preaching and practising it. There was at this time a king called Megharatha at Bhadrīlapura. He wanted to spend his wealth in making gifts to suitable persons and asked the advice of his minister what type of gift was the best gift. His minister mentioned Śāstradāna to be the best form. The king however, did not like this advice, and asked a Brahmin named Mundaśālāyana who told the king that he should make the gifts to Brahmins of girls, elephants, cows etc. The king followed his advice which only went to enrich the Brahmins but did the king no good.

IL. For the life of Śreyāmsa see the Tables.

L, LI and LII. These three sandhis describe the narrative of the first set of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. During the regime of Śreyāmsa there lived at Rājagṛha a king named Viśvabhūti and queen Jamī. The king had a younger brother named Viśākhabhūti and his queen was called Laksmanā. Jamī gave birth to a son called Viśvanandi and Laksmanā to Viśākhanandi. One day Viśvabhūti saw an autumnal cloud disappearing in the sky. From this the king realised impermanence of samsāra, and giving his kingdom to his younger brother Viśākhabhūti, renounced the worldly life. When Viśākhabhūti became king, Viśvanandi became the Yuvarāja.

Now Viśvanandi once went to his pleasure garden called Nandana, and while he enjoyed life there in the company of women, Viśākhanandi saw him. A desire to possess that very garden arose in his mind. He went to his father and pressed him to give it to him. The king agreed to do this, called Viśvanandi and asked him to take charge of his father's kingdom, and told him further that he (Viśākhabhūti) would go to the frontier to overcome the rebelling tribes. Viśvanandi did not like the idea that his uncle should go to fight, but told him that he would rather himself go for that purpose. Viśākhabhūti agreed and Viśvanandi went away. During his absence Viśākhabhūti gave the Nandana garden to his son Viśākhanandi. When Viśvanandi returned, he found that his garden was taken possession of by Viśākhanandi. Viśvanandi got angry with his uncle and cousin. He wanted to attack his cousin who climbed up the tree. Viśvanandi uprooted the tree with Viśākhanandi on, and wanted to smash them both. Viśākhanandi however escaped but climbed a stone pillar which Viśvanandi smashed into pieces. Viśākhanandi then ran away for life. At this time Viśvanandi was filled with pity that he attacked his cousin, and made up his mind to be a Jain monk. Viśākhabhūti also made up his mind to follow Viśvanandi, placed Viśākhanandi on the throne, went to the forest and practised penance. After his death he was born in the Mahāśukra heaven.

Now Viśākhanandi was overcome by a powerful enemy, and ran away from his capital. He went to Mathurā and became the minister of the king. Once his cousin, the monk Viśvanandi, was going along the road on his begging tour when he was hit by a young cow that had recently delivered a calf, and Viśvanandi fell on the ground. Viśākhanandi saw this from the terrace of the house of his courtesan, and insulted him. Unable to bear the insult Viśvanandi formed a hankering that he should in his next life have a revenge on Viśākhanandi. After his death Viśvanandi was born in the Mahāśukra heaven where his uncle Viśākhabhūti was born. Viśākhanandi also was later overcome with disgust for his conduct, practised penance, and after death was born in the same heaven.

Now there lived in Alakā a king named Mayūragrīva and queen Nilāñjanaprabhā. Viśākhanandi in his next life became their son and was named Aśvagrīva, a Prati-Vāsudeva. He defeated his enemies and became the lord of the three continents of the earth, i e., an Ardha-cakravartin.

There lived in Podanapura a king named Prajāpati. He had two queens, Jayāvati and Mrgāvati. Jayāvati gave birth to a son called Vijaya, who was Viśākhabhūti in his previous birth. This Vijaya is the first Baladeva of the Jain Mythology and had a white complexion. Mrgāvati gave birth to a son called Triprstha, who in his previous birth was Viśvanandi. This Triprstha is the first Vāsudeva and had a dark complexion. These two step-brothers were greatly attached to each other.

LI. Once a report was brought to king Prajāpati that a terrific lion had been working a havoc on the subjects. His subjects requested him to remove this scourge. Thereupon the king himself prepared to go to kill the lion when his son Vijaya requested his father to allow him to go on that mission. The king allowed Vijaya to go, his younger brother Triprstha followed him. Both of them approached the cave of the lion, which, on being roused by the din and cry of warriors, came out, and was about to attack Vijaya, when Triprstha with his arms caught both the claws of the lion and struck it on the face. The lion fell dead.

One day the door-keeper approached the king and told him that there was at the door a Vidyādhara who wanted to see him. He was admitted to the king's presence. The Vidyādhara told king Prajāpati that he was Indra by name and had come there as a messenger of king Jvalanajati. He came there to invite the king and his two sons to the region of the Vidyādharas in order that Triprstha should lift up the huge slab of stone known as the Kotśilā, to kill Aśvagrīva and marry his daughter Svayamprabhā, and thereafter to rule over the three continents of the earth and to make Jvalanajati the lord of both the sides of the Vaitādhya mountain. King Prajāpati accepted the invitation and went to the region of the Vidyādharas. King Jvalanajati received them well and introduced them to his son Arkakirti. In the course of their talk it was arranged that Triprstha should first lift up the Kotśilā which would convince them that he was capable of killing Aśvagrīva. Thereupon they all went to the forest where the Kotśilā stood and asked Triprstha to lift it up. He did so with ease. Jvalanajati and others praised Triprstha for his great strength. Thereafter they all returned to Podanapura and celebrated the marriage of Triprstha with Svayamprabhā. The news of this marriage reached the ears of Aśvagrīva who resented the action of Jvalanajati in marrying his daughter outside his clan, i e., in giving her to Triprstha, a human being, instead of to Aśvagrīva, a Vidyādhara. Aśvagrīva thereupon marched against Jvalanajati and king Prajāpati even against the advice of his ministers.

LII. Spies brought the news of the arrival of the army Aśvagrīva to the gates of Podanapura. Thereupon king Prajāpati consulted with Jvalanajati as to how they should meet the situation when Vijaya told them that he was sure in his mind that Triprstha would kill Aśvagrīva. King Jvalanajati then taught Triprstha several magic lores, after which order was given to the army to march against Aśvagrīva. Before however the fight began Aśvagrīva sent a messenger to Triprstha to see if Triprstha was prepared to make peace with Aśvagrīva by handing over Svayamprabhā. Triprstha rejected the proposal. The fight began. The goddesses gave to Triprstha a bow called Śārṅga, a conch called pāñcajanya, Kaustubha gem, a gadā called kaumudī, and to Vijaya a plough, a pestle and a gadā. The armies met and there was a terrible fight between them. In the course of the fight, Aśvagrīva threw his discus at Triprstha, but instead of doing any harm to him, it remained on his arm. He then used this very discus against Aśvagrīva who was killed. Immediately on his death Triprstha became the Ardha cakravartin. Jvalanajati thereafter returned to his capital Rathanūpura, and enjoying the sovereignty of both the sides of the Vaitādhya mountain for a considerable time, became a monk. King Prajāpati also did the same.

Now Triprstha remained ever unsatiated with pleasures, died and went to the seventh hell. After his death Vijaya handed over his kingdom to Śrīvijaya, practised penance and attained emancipation. Svayamprabhā also did the same.

LIII. For the life of Vāsūpūjya see the Tables.

LIV. This sandhi gives the narrative of the second set of Baladevas and Vāsudevas. There lived in Vindhyapura a king named Vindhyaśakti. King Susena of Kanakapura was his contemporary. Both of them were great friends. Now king Susena had at his court a beautiful courtesan named Gunamañjarī. King Vindhyaśakti hearing about the beauty of Gunamañjarī sent a messenger to Susena and asked him to send the courtesan to him. This request was, of course, rejected and the two friends met in a battle in which Susena was defeated. On hearing the defeat of Susena, his friend, king Vāyuratha of Mahāpura, got disgusted with the worldly life and became a monk. King Susena also became a monk, but formed a hankering to avenge his defeat in one of his next births. Both Vāyuratha and Susena were born in the Prānata heaven. King Vindhyaśakti also was born in one of the heavens.

In the next birth Vindhyaśakti was born as son to king Śrīdhara and queen Śrīmatī of Bhogavardhana, and was named Tāraka, who, in course of time became an Ardha-cakravartin. Vāyuratha and Susena were born sons to king Brahmā and queens Subhadrā and Uvavādevī or Usādevī and were named Acala and Dviprsthā who were the Baladeva and Vāsudeva. They had an excellent elephant. Now Tāraka had a desire to have that elephant and sent a messenger to Acala to hand it over. As Acala refused to do so, there was a fight between Tāraka and Dviprsthā in which Tāraka was killed. Dviprsthā then became the Ardha-cakravartin. After death both Tāraka and Dviprsthā went to hell, and Acala, seeing the death of his brother, became a monk and secured emancipation from samsāra.

LV. For the life of Vimala the thirteenth Tīrthamkata see the Tables.

LVI. There was a king called Nandimitra in Śrīpura in the western Videha. One day he reflected on the impermanence of the world, renounced the pleasures, became a monk, and after death was born in the Anuttaravimāna heaven.

There lived in Śrāvastī a king named Suketu. There lived in the same town another king named Bali. They once indulged in the play of dice in which Suketu lost everything. Out of disgust he became a monk, but while practising penance he formed a hankering that he should take revenge on Bali in the next birth. Suketu, after death, was born in the Lāntava heaven. Bali also was born as a god in heaven.

In their subsequent births Bali was born as a son of king Samarakesarī and queen Sundarī of Ratnapura, and was called Madhu. He was a Prati-Vāsudeva and an Ardha-cakravartin. Nandimitra and Suketu were born as sons to king Rudra of Dvāravatī by his wives Subhadrā and Prthivī, and were named Dharma (Baladeva) and Svayambhū (Vāsudeva). One day Svayambhū, while seated on the terrace of his palace, saw an army encamped outside the city and asked his minister whose army it was. His minister told him that a feudatory named Śāśisomya sent his tribute to king Madhu and that it consisted of elephants, horses etc, which was being taken to him. Svayambhū would not allow that, defeated Śāśisomya and carried off the tribute. The news reached the ears of Madhu who thereupon marched against Svayambhū. In the fight that followed Svayambhū killed Madhu, and became an Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom Svayambhū died and went to hell. Dharma became a monk and attained emancipation.

LVII. This sandhi narrates an episode of Samjayanta, Meru and Mandara, out of which the two latter were the Ganadharas of Vimala, the thirteenth Tīrthamkara.

There are two more persons connected with the story, viz., Śrībhūti the minister and Bhādrāmītra the merchant. Of these the name of Śrībhūti is confounded with Satyaghosa. The poet describes the seven previous births of the first three and only a few of the last two. A glance at the lists given in Notes on this Saṁdhi will facilitate the understanding of the reader.

In the city of Vītaśoka there lived a king named Vaijayanta. His queen was called Sarvaśrī. She gave birth to two sons, Saṁjayanta and Jayanta. One day on hearing the discourse of a Jain monk they all renounced the world. In course of time Vaijayanta secured emancipation. Gods arrived on this occasion to show their reverence to Vaijayanta. Among them was the lord of snakes who was very beautiful. Jayanta formed a hankering to have a beautiful body like that of the lord of snakes in the next birth. He was then born in the nether world as lord of snakes.

One day, when Saṁjayanta was practising the pratimās, a Vidyādhara, Vidyuddanstra by name, saw him, picked him up and threw him into the waters of the confluence of five rivers, and told the people that the monk was a demon. The people thereupon beat him, but the monk remained undisturbed, and bearing the hardships, died and attained emancipation. On the occasion of his nirvāṇa gods arrived including Jayanta who was then the lord of snakes. Finding the plight of his brother Saṁjayanta, the lord of snakes began to attack people. They however said that they beat the monk on the report of Vidyuddanstra. The lord of snakes then caught Vidyuddanstra, and while the former was about to throw the latter into the sea, god Ādityaprabha intervened and narrated the story of the former lives of them all.

There was a king named Simhasena in the city of Simhapura. His queen was named Rāmadattā. He had two ministers, Śrībhūti and Satyaghosa. There was a merchant named Bhādrāmītra, the son of Sudatta and Sumitrā of Padmasandapura. Now this Bhādrāmītra, while wandering, obtained precious gems in Ratnadvīpa, which, during his halt at Simhapura, he deposited with Satyaghosa (There is later a confusion between Śrībhūti and Satyaghosa). After some time Bhādrāmītra asked for the return of his gems, but Satyaghosa denied all knowledge of gems even though he was questioned by the king. Bhādrāmītra then went mad and ascending a tree in the neighbourhood of the king's palace, used to decry the minister. Queen Rāmadattā got angry with the minister, but arranged to play a trick on him. She arranged a game of dice with Satyaghosa, in which he lost his signet ring and the sacred thread to the queen, who then sent the ring to the treasurer of the minister through her maid, and obtained from him the gems of Bhādrāmītra. In order to ascertain that Bhādrāmītra has told the truth, the king got a few gems of his mixed with those of Bhādrāmītra, to whom they were shown. Bhādrāmītra picked only his gems saying that others were not his. The king was then pleased with him, punished the minister, treating him as a thief would be treated. The minister bore ill-will towards the king for this. In his next birth he became an agandhana snake, stood at the treasury of the king and bit him.

In his next birth Bhādrāmītra became the son of Rāmadattā, and was named Simhacandra. He had a younger brother called Pūrnacandra.

It is in this strain that the previous lives of all the three persons mentioned at the beginning of the saṁdhi are narrated.

LVIII. For the life of Ananta the fourteenth Tīrthamkara, see Tables.

During his regime were born the fourth set of Baladeva, Vāsudeva, and Prati-Vāsudeva. Their names were Suprabha, Purusottama and Madhusūdana

There was a king named Mahābala in Nandapura. He became a monk and after death was born in Sahasrāra heaven. There lived at this time at Podanapura a king named Vasusena. His queen Nandā was very beautiful. Once his friend Caṇḍaśāsana came to stay with him, saw Nandā, fell in love with her, and asked Vasusena to give her to him. He refused to do so, but Caṇḍaśāsana carried her by force. Vasusena thereafter became a monk, and after death was born in the same heaven where Mahābala was born.

Caṇḍaśāsana in his next birth became the son of king Vilāsa and queen Gunavati of Vārāṇasī. Mahābala and Vasusena became sons of king Somaprabha by his queens Jayavati and Sitā, and were named Suprabha and Purusottama. Madhusūdana made a demand of tribute from them, and as they refused to pay it, there was a fight between Madhusūdana and Purusottama in which Madhusūdana was killed. After him Purusottama became the Ardha-cakravartin.

LIX. For the life of Dharma the fifteenth Tirthamkara see Tables

During his regime there appeared the fifth set of Baladeva and Vāsudeva. There was a king called Naravrsabha in the city of Vīṭaśoka. He practised penance and was born in the Sahasrāra heaven. At this time there was at Rājagṛha a king named Sumitra. He was defeated in battle by Rājasimha. Sumitra thereupon practised penance, formed a hankering to defeat Rājasimha in the next birth, and after death was born in the Māhendra heaven. Now Rājasimha in his next birth became king Madhukrīda of Hastināpura. King Naravrsabha and king Sumitra were born as sons to king Simhasena and queens Vijayā and Ambikā, were called Sudarśana and Purusasimha and were the fifth of the Baladevas and Vāsudevas. King Madhukrīda sent his messengers to Sudarśana and demanded tribute from him which he refused. They fought. Purusasimha killed Madhukrīda and became an Ardha-cakravartin.

In the same regime there lived a king named Sumitra at Sāketa. He had a queen called Bhadrā. She gave birth to a son, Maghavan by name, who, having conquered the six continents of the earth, became the third sovereign of the Jain Mythology. After having enjoyed the kingdom for a long time, he renounced the world and attained emancipation.

After some time in the same regime there came the fourth cakravartin, Sanat-kumāra by name. He was the son of king Anantavīrya and queen Mahādevī of Vinitapura. He was said to be extremely beautiful. Two gods sent by Indra came to see his beauty and said to the king that his beauty would have been everlasting if there had been no oldage and death. On hearing the mention of oldage and death Sanat-kumāra renounced the world and attained emancipation.

LX. A Brahmin named Amoghajihva once predicted that within a week lightning would fall on the head of king Śrīvijaya, the son of Triprstha Vāsudeva, and that he would receive a shower of gems on his head. When the Brahmin was asked how he could predict such a thing, he said he studied the science under a famous teacher. One day, when he asked his wife for his meals, she served him only cowries in a plate, as, owing to extreme poverty, she had nothing else in her house. His wife then rebuked him that he did not work and earn money. Just at this time a spark of fire fell on his



plate and his wife disbursed a pot of water over his head. It is from this incident that he predicted the fall of lightning on the head of king Śrīvijaya and a shower of gems over his head. The ministers thereupon advised the king to abdicate the throne for a while in order to escape the calamity and to place some one on the throne for the time being. The samdhu then narrates the enmity and fight between Śrīvijaya and Amitatejaś, a Vidyādhara. A monk intervenes, preaches them the doctrines of Jainism as a result of which they both become monks.

LXI. In their next birth Śrīvijaya and Amitatejas were born in heaven as gods Maṇicūla and Ravicūla. In their next birth they were born as sons of Smitasāgara of the city of Prabhāvati by his queens Vasundharā and Anumati, and were called Anantavīrya and Aparājita. They had two beautiful dancing girls in their court which were demanded by a Vidyādhara king named Damitāri.

LX-LXIII. These four samdhis narrate the life of Śānti together with his previous births as also of Cakrāyudha, as detailed in LXIII 11 and explained in the Notes.

LXIV. For the life of Kunthu see the Tables.

LXV. For the life of Ara see the Tables.

During the regime of Ara, there appeared the eighth cakravartin, Subhauma by name. There was a king named Sahasrabāhu. His queen Vicitramati gave birth to a son, Krtavīra by name. Vicitramati's sister Śrīmatī was married to king Śatabindu. A son was born to them and was named Jamadagni. Owing to the death of his mother in early childhood, Jamadagni became a tāpasa ascetic. Śatabindu and his minister Hariśarman also became ascetics under Jainism and Hinduism respectively. After death Śatabindu was born in the Saudharma heaven and Hariśarman was born in the Jyotiska heaven. They both wanted to test the piety of Jamadagni, assumed the form of a couple of sparrows, built their nest in the beard of Jamadagni, and talked something insulting to him. He then got angry with the birds and threatened to kill them. One of the birds thereupon said to the sage that he did not know that he could not obtain heaven as he did not beget a son. Jamadagni was then set to thinking, went to his maternal uncle, and sought a girl for marriage. Owing to his oldage however, no girl was prepared to marry him. He thereupon cursed all the girls of the town to be dwarfish or hump-backed, which town thereafter became known as Kānyakubja (Modern Kanauj). He however found his uncle's daughter, all dusty, called her Reṇukā (Dusty), attracted her by showing her a plantain, made her sit on his lap, and married her, as, he said, she liked him. In course of time she gave birth to two sons, Indrarāma and Śvetarāma. Her brother gave to her a gift of a cow that would yield everything desired, as also a charm (mantra) of axe (Paraśu). Reṇukā and her husband Jamadagni thereafter lived happily.

One day king Sahasrabāhu with his son Krtavīra came to her hermitage. They were both treated to a royal feast by Reṇukā. The king and his son were struck with the excellence of the food and asked Reṇukā how she, the wife of an ascetic, could treat them so sumptuously. She said that her brother had given her a cow that yielded desired things. Krtavīra wanted that cow, and, inspite of Reṇukā's protests, carried her off.

\* The story of Jamadagni, Paraśurāma and Subhauma here is a mixture of two stories on the side of the Hindu mythology, viz, the story of the carrying away of Vasistha's cow, Nandini, by Gādhi, and of Kārtavīrya Sahasrārjuna and Paraśurāma.

In the fight that ensued between Krtavira and Jamadagni, Sahasrabāhu killed Jamadagni. His sons Indrarāma and Śvetarāma were away, but when they returned and learnt from their mother that their father was killed by Sahasrabāhu and his son Krtavira, and that their cow was carried off by them, they got angry. Renukā taught them the Paraśu-mantra. They then went to Sāketa, killed Sahasrabāhu and Krtavira, and all other members of the Ksatriya race twentyone times. After the extermination of all living Ksatriyas they gave the earth to Brahmins who thereafter ruled over it. Vicitramati, the queen of Sahasrabāhu, was pregnant at this time, and bore in her womb the soul of a former king Bhūpala by name, who was destined to be a cakravartin. She ran for life into the forest, and was offered shelter by a sage named Śāndilya. There in his hermitage she gave birth to a son who was named Subhauma.

LXVI. Subhauma passed his childhood in the hermitage of the sage Śāndilya in the forest, and grew to be a strong and powerful youth. One day he asked his mother how it was that he did not see his father and pressed her to tell him his whereabouts. Thereupon Vicitramati narrated to him how his father Sahasrabāhu was killed by Paraśurāma.

In the meanwhile an astrologer came to the house of Paraśurāma who asked the astrologer how he would meet his death. The astrologer told him that he at whose glance the plate filled with the teeth of his enemies (Sahasrabāhu and Krtavira) would turn into a plate of rice, would be his killer. Thereupon Paraśurāma established a dānaśālā in the city where Brahmins were served meals free and were shown the plate of teeth. Subhauma was asked to visit the dānaśālā to see if he was the person at whose hands Paraśurāma was to meet his death. Subhauma thereupon went to the dānaśālā, saw the plate when it turned into a plate of cooked rice. Immediately the keepers attacked young Subhauma who was unarmed. But the plate itself turned into a discus with which he killed them and also Paraśurāma. He thereafter became a cakravartin.

King Subhauma was once served a cincā fruit by his cook. He got angry with the cook and killed him for this offence. The cook was born as a Jyotiska god and assuming the form of a merchant offered the king some nice fruits. The king liked them very much and pressed the merchant to have more of them. The merchant said that gods gave him the fruits which were exhausted. As the king persisted in his demand, the merchant told him that the king would obtain them if he would accompany him to an island. The king agreed, went with the merchant who placed him on a rock and killed him. Subhauma after death went to hell.

In the regime of Ara, there appeared the sixth set of Baladeva etc, whose names were Nandisena, Pundarika and Niśumbha. For details see Tables

LXVII. For the life of Malli, see Tables

During his regime there appeared the ninth cakravartin, Padma by name. For details of his life see Tables

It is in the regime of Malli that there appeared the seventh set of Baladeva etc, whose names were Nandimitra, Datta and Bali. For details see Tables

LXVIII. For the life of Śuṣrta see Tables.

LXIX-LXXIX These eleven samdhis narrate the story of the eighth set Baladevas etc, and are popularly known as the Rāmāyaṇa, Paumacariya, or Padmapurāṇa. The story of the Rāmāyaṇa is so well-known that it need not be reproduced here fully, But there are some factors in the Jain version which have to be brought to the notice of the general reader. Rāma and Laksmāna in their previous births were sons respectively of king Prajāpati and his minister, and were named Candracūla and Vijaya. In youth they were intimate friends and carried off Kuberadattā, the wife of a merchant named Śrīdatta. The king got a report about this affair, got angry with them, and ordered his minister to take them to the forest and kill them. The minister took them to the forest, but instead of killing them showed them to a Jain monk, Mahābala by name, who told the minister that these youths were destined to be Baladeva and Vāsudeva in their third birth. They then became monks and practised penance. Candracūla once saw Suprabha Baladeva and Purusottama Vāsudeva on their way, and formed a hankering that he should have a similar fortune in his next birth. Both the young monks after death were born as gods named Maṇicūla and Suvarṇacūla. In their next birth they were born as sons to king Daśaratha by his queens Subalā and Kaikeyī, Suvarṇacūla (Vijaya in his former birth) becoming Subalā's son named Rāma, and Maṇicūla (Candracūla in his former birth) becoming Kaikeyī's son named Laksmāṇa.

According to the Jain version Sitā is the daughter of Rāvaṇa, a Vidyādhara, and Mandodarī. As it was predicted that Sitā would bring calamity on her father, she was put into a box and left buried in a field. She was discovered by a farmer while ploughing his fields, was brought to king Janaka, who adopted her as his daughter. He gave her in marriage to Rāma.

Once Nārada came to Rāvaṇa and told him that Rāma married the beautiful Sitā who was really fit for him. This created a desire in the mind of Rāvaṇa to have Sitā. Rāvaṇa then sent Candramukhī (better known as Sūrpaṇakhā) to Sitā to ascertain her mind, but she failed in her mission.

Rāvaṇa thereupon went in his celestial car to the forest where Rāma and Sitā were then enjoying pleasures, asked Mārīca to assume the form of a golden deer and to tempt the mind of Sitā to have it. While Rāma was away in search of the golden deer, Rāvaṇa carried off Sitā to Lankā.

Rāma made a careful search for Sitā but did not get any trace of hers. Daśaratha at this juncture dreamt a dream which indicated that Sitā was carried off by Rāvaṇa. While Rāma was thinking how he should proceed to search Sitā, Sugrīva and Hanūmat came to Rāma to seek his aid for Sugrīva to get his place in the kingdom of his brother Vāh. In the course of their conversation Hanūmat promised to Rāma that he would obtain the news of Sitā. Hanūmat then went to Lankā. Assuming the form of a bee he entered the palace of Rāvaṇa, searched it and at last found Sitā in the garden being coaxed by Rāvaṇa to yield to his desires. Rāvaṇa, however, did not succeed in his attempt to win her. She did not look at him. Mandodarī came there and recognised Sitā to be her daughter and comforted her. After her departure Hanūmat saw Sitā, convinced her that he was the messenger of Rāma, and conveyed to her his message. Hanūmat then returned to Rāma and told him that he saw Sitā in the garden of Rāvaṇa. Before Rāma undertook marching against Rāvaṇa he sent Hanūmat as a messenger to ascertain if Rāvaṇa would return Sitā peacefully, but Rāvaṇa insulted Hanūmat.

In the meanwhile Laksmāna fought with Vāli, killed him, and gave his kingdom to Sugrīva Rāma and Laksmāna practised fasts to acquire the magic lores which would enable them to fight successfully with Rāvana Vibhīsaṇa, his brother, did not like Rāvana's behaviour, left him, and came over to Rāma Then there was a fight between Rāma and Rāvana in which Laksmāna killed Rāvana After his death Rāma placed Vibhīsaṇa on the throne of Lankā Laksmāna thereafter became the Ardha cakravartin After enjoying the kingdom he died and went to hell. Rāma, grieved over the death of his brother's death, renounced the world, became a monk, and attained emancipation.

LXXX. For the life of Namī refer to Tables

For details of Jayasena the tenth Cakravartin see Tables

### 3 The Appendices

The monotony with which the traditional details of the lives of Sixty-three Great Men of Jain Mythology are given and a hint by Vimalasūri in his Paumacariya quoted on page xi above suggested to me the idea of tabulating the information under suitable heads I have therefore appended to this Volume Five Tables. Appendix I gives the iconographical information about the images of the Tirthamkaras according to the school of the Digambaras I have taken this Appendix from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, a very valuable book in Marathi on Iconography I have made slight modifications in Mr. Khare's Table so that the information in my Table should agree with the same as supplied in the works of Puspadanta and Guṇabhadra Appendix II gives details about the Tirthamkaras such as their previous lives, place of birth, parents etc. Appendix III supplies the number of Ganadharas of different Tirthamkaras Appendix IV supplies some information about the Twelve Cakravartins or sovereign rulers of the Jain Mythology Appendix V gives information about the eight out of nine sets of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas The sources of my information are of course the Ādipurāna of Jināsena, the Uttarapurāna Guṇabhadra and the Mahāpurāna of Puspadanta, which works, I hope, represent one of the best, if not the best, of the Digambara tradition At one or two places I used Śvetāmbara sources as my texts failed to give, or I failed to trace therein the material I shall be greatly obliged to scholars if they bring to my notice inaccuracies or deficiencies in them which I shall most thankfully consider.

Nowrosjee Wadia College, Poona }  
August 1940

P. L. Vaidya



तिसड्विमहापुरिसगुणालंकारु

णाम

# म हा पु रा णु

वीड खंड





## XXXVIII

वंभहु वंभालयसामियहु ईमहु ईसरवंदहु ॥  
अजियहु जियकामहु कामयहु पणविधि परमजिणिंदहु ॥ धुवकं ॥

### 1

सुहयरुओहं	सुहयरुमेहं ।	
वीरमघोरं	वयविहिघोरं ।	
उवसमणिलयं	पसमियणिलयं ।	5
कंदरवालं	कंदरणीलं ।	
मंदरसित्तं	मंदरसित्तं ।	
रामारमणे	रामारमणे ।	
विणयजणाणं	विणयजणाणं ।	
जेण कयं तं	जे ण कयंतं ।	10
आलयंते	आलयंते ।	
भमइ जसोहो	भवइ जसोहो ।	

1 १ A भवइ. २ A भमइ.

1 1 a वंभहुं परमात्मनः; वंभालयं मोक्षः. 2 a कामयहु वाञ्छितप्रदस्य. 3 a सुहयरुओहं सुष्ठु हतो रुजां रोगाणामोघो येन तम्; b सुहयरुमेहं शुभतरुमैघम्. 4 a अघोर सौम्यम्, b वेयेविहिघोरं व्रतविधिः घोरो दुर्धरो यस्य. 5 a उवसमणिलयं उपगमस्थानम्, b पसमियणिलयं मोक्षप्रापकत्वेन प्रेषमितो नृणा मनुष्याणा लघो विनागो येन. 6 a कंदरवालं कन्दो मेघः तस्यैव ख. शब्दो विद्यते यस्य, b कंदरणील कन्दरे नीडं गृहं यस्य. 7 a मंदरसित्तं मेरौ स्थापितम्. 8 a रामारमणे स्त्रीक्रीडायाम्, b रामारमणे रा द्रव्य मारः कामः तौ रामारौ तयोर्मथन यत्र स्त्रीक्रीडने. 9 a विणयजणाणं विनयोजातं विनयज तच्च तत् ज्ञानं च तत्प्रसिद्धं श्रुतज्ञानादिरूप तदपि कृतं विनतेजानाम्. 10 a जेण कयं त येन जिननाथेन कृत त वन्दे, b जेण कयंत येनेत्यादि, येन पुरुषा भुक्तिप्रापेकोपायानुष्ठानेनास्थितत्वात् कृतान्त यममालोकन्ते. 11 b-12 a आलयंते भमइ जसोहो येषां पुरुषाणामालोकन्ते यशओघश्च भ्रमति, किंविशिष्टो यशसामोघः. 12 b भवइ जसोहो भानां नक्षत्राणा पतिश्चन्द्रो भपतिस्तस्माज्जाता भपतिजाः किरणाः तद्रच्छोभा यस्य यशओघस्य.



णाहो ताणं	जो भत्ताणं ।	
जो भयवंतो	जो भयवंतो ।	
जमकरणवहं	जमकरणवहं ।	15
अण्णाणमहं	सण्णाणवहं ।	
णिद्दारहियं	णिद्दारहियं ।	
अवसावसणं	आसावसणं ।	
आसासमणं	आसासमणं ।	
वररमणीसं	वररमणीसं ।	20
णीसंसाळं	णीसंसाळं ।	
परसमयंतं	परसमयंतं ।	
अहिवांदिययं	सुहमिंदिययं ।	
जेणं ण कहियं	तेल्लोक्कहियं ।	
णिरुवमदेहं	तं वंदे हं ।	25

घत्ता—पुणु पणविवि पंच वि परमगुरु णियजसु तिजगि पयासवि ॥  
घणदुरियपडलणिण्णासयरु अजियहु चरिउ समासवि ॥ १ ॥

## 2

मणि जाएण किं पि अमणोज्जे  
णिन्विण्णउ थिउ जाम महाकइ  
भणइ भडारी सुहयरुओहं

कइवयदियहइ केण वि कज्जे ।  
ता सिविणंतरि पत्त सरासइ ।  
पणमैह अरुहं सुहर्येरुमेहं ।

३ A णिदारहियं. ४ P जेण णं. ५ AP पयासमि. ६ AP समासमि.

2 १ A कइवयदियहे, P कइवयइ दियहे. २ K णिन्विणोउ थिउ but gloss निर्विण्णः;  
P णिन्विणु उड्डिउ. ३ A पणमहु; P पणवह. ४ A सुहर्येमेहं but gloss in K शुभतरुमेघम्.

13 a णाहो ताण तेषा पुरुषाणां भक्ताना नाथ.. 14 a जो भयवतो यो ज्ञानवान्; b जो भयवंतो यः सप्तभयविनाशकः. 15 a जमकरणवहं जमकरणस्य रोगादेर्वधकं विनाशकम्, b जमकरणवहं यमानां व्रतानां करणमनुष्ठानं तस्य वहं पंथानं धारकं वा. 16 a अण्णाणमहं अज्ञानमथकम्; b सण्णाणमहं शोभनज्ञानतेजसम्. 17 a णिद्दारहियं निद्रारहितम्, b णिद्दारहियं निर्दारमकलत्रं हितं च, अथवा निर्दारा मुनयस्तेभ्यो हितम्,. 18 a अवसावसणं अपगतगापशब्दम्; b आसावसणं दिग्वाससम्. 19 a आसासमण इहपरलोकाशोपशामकम् b आसासमणं आसमन्तात्सा त्रैलोक्य-लक्ष्मीस्तयोपलक्षितः श्रमण.. 20 a वररमणीसं वररमणी मुक्तिवधूस्तस्या ईश.., b वररमणीसं वरं राति ददाति. इति वररा वररा मनीषा बुद्धिर्ऋस्य. 21 a णीसंसाळं मनुष्यप्रशंसावन्तम्, b णीसंसाळं निर्गतसंसारम्. 22 a परसमयंतं परसमयस्यान्तो विनाशो यत्मात्; b परसमयंतं उत्कृष्टोपशमेन कान्तं कमनीयं उत्कृष्टोपशमन्त्रं वा. 23 a अहिवांदिययं धरणेन्द्रस्तुतम्; b सुहमिंदिययं सुखं हृन्दिधजं येन कथितम्. 24 b तेलोक्कहियं त्रैलोक्यहितम्. 26 पयासवि प्रकाशयामि. 27 समासवि संक्षेपेण कथयामि.

इय णिसुणेवि विउद्धंउ कइवरु  
दिसउ णिहालइ किं पि ण पेच्छइ  
ताम पराइएण णयवंतें  
दसँदिसिपसरियजसतरुकंदें  
छणससिमंडलसंणिहवयणें

सयलकलायरु णं छणससहरु ।  
जा विमिहयमइ णियघरि अच्छइ । 5  
मउलियकरयलेण पणवंतें ।  
वरमहमत्तवंसणहयंदें ।  
णवकुवलयदलदीहरणयणें ।

घत्ता—खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करोप्पिणु संवरिय ॥

वच्चंति वि सुणसुसुण्णवहि जेण सरासइ उद्धरिय ॥ २ ॥ 10

## 3

अइयणदेवियव्वतणुजाणं  
जिणवरसमयणिहेलणखंभें  
मइ उवयारभाँवु णिव्वहणें  
तेओहामियपवरकरहें  
बोलाविउ कइ कव्वपिसल्लउ  
किं दीसहि विच्छायउ दुम्मणु  
कि किउ काइं वि मइं अवराहउ  
भणु भणु भणियउं सयलु पडिच्छंविं

जयदुंदुहिसरगहिराणिणाणं ।  
दुत्थियमित्तें ववगयंडंभें ।  
विउसविहुरसयभयंणिम्महणें ।  
तेण विगव्वं भव्वें भरहें ।  
किं तुहुं सच्चउ वण्य गहिल्लउ । 5  
गंथकराणि किं ण कराहि णियमणु ।  
अवरु को वि किं विरसुम्माहउ ।  
हउं कयंपंजलियरु ओहच्छंविं ।

घत्ता—अथिरेण असारें जीविणण किं अप्पउ संमोहहि ॥

तुहं सिद्धहि वाणीधेणुयहि णवरसखीरु ण दोहहि ॥ ३ ॥ 10

## 4

तं णिसुणेप्पिणु दरविहसंतें  
कसणसरीरें सुद्धंकरुवें  
कासवगोत्तें केसवपुत्तें  
पुप्फयंतकइणा पडिउत्तउ  
कालिमलमलिणु कालु विवरेरउ

मित्तमुहारधिंदु जोयंतें ।  
मुद्धाएविगम्भसंभूवें ।  
कइकुलतिलएं सरसइणिलेंपं ।  
भो भो भरह णिसुणि णिक्खुत्तउ ।  
णिग्घिणु णिग्गुणु दुण्णयगारउ । 5

५ A विबुद्धउ. ६ AP विंभियमइ. ७ P दसदिस°. ८ AP °णहचदे. ९ P संवरिइ. १० A विसण्ण सुसुण्ण°. ११ P उद्धरिइ.

3 १ A अइयणदेविअंत्त°, P इयणुदेवियव्व°. २ A ववगयडिंभे. ३ AP परउवयार°, ४A °भार°, P °हार°. 5 A °रय°. ६ AP पडिच्छमि. ७ A कयंपंजलि अरुहं अच्छमि. ८ PT ओहच्छमि. ९ AP तुहु.

4 १ A सुद्धसुव्वे, P सुद्धकरुव्वे. २ P कयकुल°. ३ A omits सरसइणिलएं and reads उत्तमसत्ते in its place, P सरसय°. ४ P adds after this: उत्तमसत्ते जिणपयभत्तें.

2 4 a विउद्धउ जागरितः. 10 °सुसुण्ण व हि आकाशमार्गे.

3 3 b विउसविहुरसय° विद्वजनकष्टशतानि°. 8 b ओ ह च्छं वि एय तिष्ठामि.

4 4 b णिक्खुत्तउ निश्चितम्.

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु  
राउ राउ णं संझहि केरउ  
उव्वेउ जि वित्थरइ गिरारिउ

णिष्कलु णीरसु णं सुक्कउ वणु ।  
अत्थि पयइइ मणु ण महारउ ।  
एक्कु वि पउ वि रएँवउ भारिउ ।

घत्ता—दोसेण होउ तं णँउ भणमि चोञ्जु अवरु मणि थक्कउ ॥

जगु एउ चडाविउं चाउं जिह तिह गुणेण सह वंकरुं ॥ ४ ॥ 10

## 5

जैइ वि तो वि जिणगुणगणु वण्णैवि  
चायभोयभोउग्गमसत्तिइ  
राउ साल्वाहणु वि विसेसिउ  
कालिदासु जें खंधं णीयउ  
तुहुं कइकामधेणु कइवच्छलु  
तुहुं कइसुरवरकीलागिरिवरु  
मंदु मयालसु मयणुम्मत्तउ  
केण वि कव्वपिसल्लउ मँणणउ  
णिच्चमेव सव्भाउं पउंजिउ

किह पइं अब्भत्थिउ अवगण्णैवि ।  
पइं अणवरयरइयकइमेत्तिइ ।  
पइं णियजसु भुवणयलि पयासिउ ।  
तहु सिरिहरिसहु तुहुं जगि वीयउ ।  
तुहुं कइकप्परुक्खु ढोइयफलु । 5  
तुहुं कइरायहंसमाणससरु ।  
लोउ असेसु वि तिइइ भुत्तउ ।  
केण वि थँइ भणिवि अवगण्णिउ ।  
पइं पुणु विणउ करिवि हउं रंजिउ ।

घत्ता—धणु तणु समु मज्झु ण तं गहणु णेहु णिकारिमु इच्छवि ॥ 10

देवीसुय सुहणिहि तेण हउं णिलइ तुहारइ अच्छवि ॥ ५ ॥

## 6

महुसमयागामि जायहि ललियहि  
काणणि चंचरीउ रुणुसंठइ  
मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि  
विमलगुणाहरणंकियदेहउ  
कमलगंधु घेप्पइ सारंगे  
गमणलील जा कय सारंगे  
सज्जेणदूसियदूसणवसणे

वोल्लइ कोइल अंवयकलियहि ।  
कीरु कि ण हरिसेण विसइइ ।  
पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहि ।  
एउं भरइ णिसुणइ पइं जेहउ ।  
णउ साल्लरें णीसारंगे । 5  
सा किं णासिज्जइ सारंगे ।  
सुक्कइकित्ति कि हम्मइ पिसुणे ।

५ A रएंतउ. ६ A णव.

5 १ P जय वि. २ A वणम्मि, P वण्णमि. ३ AP अवगण्णमि. ४ AP सालिवाहणु. ५ APT मण्णिउ. ६ A मंदु P थइ; T वठ जड., ७ AP सव्भाव. ८ A तिणु. ९ AP इच्छमि. १० AP अच्छमि.

6 १ P एह. २ AP द्विप्पइ. ३ AP वड्डियसज्जेणदूसण°, ४ P सुकय°.

8 a गिरारिउ अतिशयेन.

5 7 b तिइइ वृण्णया. 8 b मण्णउ पूजित., b अवगण्णिउ अवज्ञात..

6 3 a जिणपयभत्तिहि जिनपादभक्त्यर्थम्. 5 a सारंगे भ्रमरेण, b साल्लरें मण्डूकेन; णी सारंगे निःसागत्तेण निहृष्टशरीरेण.

कहमि कञ्चु वम्महसंधारणु

अजियपुराणु भवणवतारणु ।

घत्ता—जिणगुणरयणावलिवेयडिउ सहसुवण्णंसमुज्जलु ॥

आहासइ गणहरु सेणियहु करहु कणिण कहँकोडलु ॥ ६ ॥ 10

7

सरपंकयररत्तविदेहइ

जंवूदीवहु पुव्वविदेहइ ।

सीयहि दाहिणं कूलि रवणणउ

वच्छउ णाम देसु वित्थिणणउ ।

सहलारामहि गामहिं घोसहि

दहियविरोलणमंथणिघोसहिं ।

पविउलपक्केकलवकेयारहिं

कणिसु चुणंतहिं जंपिरकीरहिं ।

घणकणगुरुभरणवियहि धण्णहिं

हंसहि णवबंभहरणिसण्णहि । 5

चंपयदेवदारुसाहारहिं

कुसुमालीणभमरञ्जकारहिं ।

णच्चिरमुक्कमोरकेकारहिं

पवलवलालवसहदेक्कारहि ।

महिसंभेसजुञ्जुच्छवमिलियहि

जो<sup>१०</sup> सोहइ णदंतहिं हलियहि ।

घत्ता—तहि अत्थि सुसीमा णाम पुरि सररुहछण्णमहोसर ॥

णंदणवण्णंसंठियदेवसिरंमउडरयणकर सियघरं ॥ ७ ॥ 10

8

परिहाजलपरिघोलिररसणहि

हिमपंडुरपायारणिवसणहि ।

विविहदुवारंतरवरवयणहि

गेहगवक्खुग्घाडियणयणहिं ।

धूवधूमधम्मेल्लयकसणहिं

तोरणमोत्तियमालादसणहिं ।

लंवियचलच्चिंघावलिवत्थहि

ठाणंमाणलक्खणहि पसत्थहिं ।

मंदिरकंचणकलसयथणियहि

कि वणिणज्जइ सीमंतिणियहि । 5

जं वणणहुं भेसइ वि ण सक्कइ

सुरवइ फणिवइ अवरु वि सक्कइ ।

अत्थि विमलवाहणु तहिं राणउ

जसुं विहवेण ण सक्कु समाणउ ।

५ AP सुवण्णु. ६ AP कहकुडलु.

7 १ A उत्तर°, K उत्तर but connects it to दाहिण°. २ A° पिक्क°. ३ AP° कल्लम°. ४ AP अण्णहिं; K धण्णहिं and gloss धान्थैः. ५ A देवदार° ६ AP कुसुमालीण°. ७ AP णच्चिरमोरमुक्क°. ८ P °केक्कारहिं. ९ AP महिसहि भेसहिं जुञ्जिवि मिलियहि. १० P omits जो. ११ P adds णिरु after णदंतहि. १२ P महासरि. १३ P °वणमंडिय°. १४ AP °देवसिरि मउड°. १५ P सियघरि.

8 १ P धूप°. २ AP °धम्मेल्लहिं कसणहि. ३ P रायमाण°. ४ A जसु विहवे सक्कु वि ण समाणउ.

9 वे य डि उ जडितम.

7 1 a° वि देहइ °पक्षिशरीरे. 3 a वो स हिं गोकुलैः. b° वि रो ल णं मन्थनकर्म. 5 b वं भ हर° °कसल°. 7 b ब ल ल° ब ल व न्तः.

8 6 a भे स इ ब्रह्मपतिः; b स क इ सत्कविः.

जसु सोहग्गं वम्महु भज्जइ  
जसु वइवसुं वसु दंडहु संकइ  
पडिगयभडंथड भड भंजंतहु  
जाणियसारासारविवेयउ

तेण अणंगत्तणु पडिवज्जइ ।  
तेयहु तरणि तवंतु चवक्कइ ।  
तासु णरिंदलच्छि भुंजंतहु । 10  
एक्कहिं दिणि जायउ णिव्वेयउ ।

वत्ता—पुरु परियणु ह्य गय रह सधय अंतेउरु अवगणिणवि ॥  
सीर्हासणछत्तइं चामरइं गउ सर्यलइं तणु मणिणवि ॥ ८ ॥

## 9

गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु  
वीयरायवयणेण विणांयउ  
अप्पाणउं तिहि गुत्तिहि भावंइ  
वेज्जावच्चु करइ मुणिणाहहं  
धम्मु अहिंसालक्खणु अक्खइ  
आगच्छंतुवसग्गु समिच्छइ  
दंसमसय सुउसंत ण सार्डइ  
दंसणसुद्धिविणउ आराहइ  
विकहउ ण कहइ ण रुसइ ण हसइ  
णाणु णिरंतरु तेणअसियउ  
एम घोरु तवचरणु चरेप्पिणु

जायउ परमभिक्खु तउ लेप्पिणु ।  
पालइ पंचमहव्वयमायउ ।  
णीरसु जेवंइ णिसिहि ण सोवइ ।  
वालहं बुद्धहं रुयहयदेहहं ।  
मित्तु वि सत्तु वि समं जि णिरिक्खइ ।  
लंविक्खरु उब्भुअमउ अच्छइ ।  
सप्प वि लग्ग देहि णउ फेडइ ।  
सहइ परीसह इंदिय साहइ ।  
भीसणि णिज्जाणि काणाणि णिरसइ ।  
कम्मु अहम्मकारि संपुसियउ । 10  
तित्थयरत्तु णाउं वंथेप्पिणु ।

वत्ता—तेलोक्कचक्कसंखोहणइं सुहकम्माइं समाज्जिवि ॥  
मुउ मुणिवरु णिरसणविहि करिवि चित्तु समात्ति णिउंजिवि ॥९॥

## 10

तेत्तीसंवुहिआउपमाणइ  
कि वण्णविं पुण्णेणुप्पणउ  
णिप्पडियारउ णिरहंकारउ

पंचाणुत्तरविजयविमाणइ ।  
हत्थमेत्तणु ससहरवण्णउ ।  
भूसणहरु अहमिदंभडारउ ।

५ PT वइवसुपसु. ६ A चमक्कइ P चमुक्कइ. ७ P 'धडथड'. ८ A सिहासण', P सिंघासण'.  
९ AP सयउ वि तिणु.

9 १ P विण्णायउ. २ A गोवइ. ३ AP जेमइ. ४ AP विजावच्चु. ५ AP समु.  
६ P उब्भअमउ. ६ AP झाडइ. ७ A विकहउ कहइ ण हसइ ण रुसइ. ८ AP अणसण'.

10 १ A तेत्तीसंवुहि'. २ AP पंचाणुत्तरि. ३ AP वण्णमि. ४ A पुण्णेण पउण्णउ;  
P पुण्णेणु पउण्णउ. ५ AP हत्थमेत्तु तणु. ६ AP अहमिदु.

९ a भजइ पराजीयने. १० a वइवसुवसु यमसंखं यष्टिश्च.

9 2 a विणायउ विज्ञाता, b पंचमहव्वयमायउ पञ्चविंशतिर्भावनाः तत्तथैर्यार्थं भावनाः  
पद्म पद्म. 7 a सुउसंत सुउ दगल ; सा ड इ स्पेयति निवारयति. 13 समत्ति समत्वे, स्वमात्रे आत्मनि वा.

णियवासहु वासंतरु ण सरइ  
सीहासणि सुणिसणणउ अच्छइ  
लेइ मणेण भक्खुं छुह णासहि  
णिग्गयदइयधवणणिहदुक्खहि  
छम्मासाउसु वट्टेइ जइयहु  
सो अहम्ममराहिउ आवेसइ  
इम चित्तेवि भणिउ जक्खवाहिउ  
जंबूदीवभरहेउज्झाउरि

उत्तरवेउव्विउ वउ ण करइ ।  
ओहिइ तिजगणाडि संपेच्छइ । 5  
सो तेत्तीसहिं चरिससहासहिं ।  
णीसंसेइ तेत्तियहिं जि पक्खवाहि ।  
सोहम्मिंदे जाणिउ तइयहु ।  
जियसत्तुहि घरि जिणवरु होसइ ।  
धरणीगयणिहाणलक्खवाहिउ । 10  
धणय कणयमयणिलयण लहु करि ।

घत्ता—ता णयरि कुवेरे णिम्मविय कंचणभवणविसेसहिं ॥  
सरिसरवरउव्वणजिणहरहि पहं चच्चरविण्णासहि ॥ १० ॥

## 11

आर्यउ देविउ इंदाएसं  
सिरिहिरिदिहिमइकंतीकित्तिउ  
तणुसंसोहणगुणसंजोयंहिं  
गच्चि ण थंतंहु अमरवरिडुउ  
सुहदंसणि णियमणि संतुडुउ  
पल्हत्थंतु णिहाणइं दिट्टुउ ।  
णरवइंपंगणि दविणु ण माइउं  
पवरिक्खाउवंससंभूयहु  
विजयदेवि णं चंदहु रोहिणि  
अहिणवसयदलकोमलगत्ती

पुरवरु माणवमाणिणिवेसें ।  
विजयादेविहि सेव करंतिउ ।  
थक्कउ णाणाविहिहिं विणोयहिं ।  
वसुधारहिं वइसवणु वरिडुउ ।  
जा छम्मासहिं ता परिउट्टुउ । 5

सयलहं दीणाणाहहं ढोइउं ।  
वम्महरूवपराजियरूवहु ।  
जियसत्तुहि णरणाहहु गोहिणि ।  
हंसवणिण पलंकि पसुत्ती । 10

घत्ता—परमेसरि णिसि पच्छिमपहरि एक्केक्कउ जि समिच्छइ ॥  
णिहालसवस मउलियणयण सोलह सिविर्णय पेच्छइ ॥ ११ ॥

७ P भिक्खु. ८ A तेतीसहिं. ९ P °दयिधवण°. १० P adds वि after णीससेइ. ११ AP वट्टेइ.  
१२ AP सो लहु अमराहिउ. १३ AP आएसइ. १४ A जबूदीवे भरहे उज्झा°, P जबूमरहदीउ  
उज्झा°. १५ P °णिलयहु लहु. १६ P °जिणहरउववणेहिं. १७ A अहरमणीयपएसहिं.

11 १ P आइउ. २ P °सजोवहिं. ३ P णाणविहिहिं. ४ A गन्भेच्छतहु, P गच्चि ण  
छतउ. ५ A परिवुडुउ but connects it to परिवुडुउ, P परिवुडुउ, T परिउडुउ. ६ AP add  
after this: षणु जिह पुणु वरिसतु अणिडुउ. ७ AP °पंगणि. ८ A सविणय, P सिविणइ.

10 4 a वासतरु स्थानान्तरम्, b उत्तरवेउव्विउ वउ प्रतिशरीरं न करोति वपुः. 5 b  
ओ हि इ अवधिज्ञानेन. 7 a णि ग य द इ य ध व ण णि ह दु क्ख हिं खल्वाधमनी खीलधमनी, यदा मनुष्याः  
श्वसं गृह्णन्ति तदा धमनीवत् दु.खसुखद्यमानम् (?). 10 b °णि हाण लक्खा हिउ °निधानस्वामी.

11 3 b थक्कउ स्थिताः. 4 a °वरिडुउ प्रधानः, b वरिडुउ वृष्टः. 5 b परिउडुउ  
परितुष्टः. 11 समिच्छइ शुभं मन्यते.

## 12

मउल्लुगडं  
गिरिंदप्पमाणं  
धरिन्ती खणंतं  
हयारिंदपक्खं  
करिंदाहिसित्तं  
सयामोयधामं  
सुहं सेयमाणुं  
सिणिद्धं समाणं  
रईलीलयाणं  
वरं वारिपुण्णं  
रमारामरम्मं  
लयापत्तणीलं  
मरालालिरोलं  
जलुल्लोलमालं  
गहीरं रवालं  
पहारिद्धिरूढं  
णहे धावमाणं  
धरारंधणित्तं  
जसेणुण्णयाणं  
गयासामऊहं  
सिहालीचलंतं

पमत्तं पयंडं ।  
गयं गज्जमाणं ।  
विसं ढेक्करंतं ।  
हरिं तिकखणक्खं ।  
सिरिं पोमवत्तं ।  
णवं पुष्पदामं ।  
दिसुब्भासिमाणुं ।  
दहे कीलमाणं ।  
जुयं मीणयाणं ।  
सियंभोयच्छण्णं ।  
घडाणं च जुम्मं ।  
विउद्धारणालं ।  
सरं सारसालं ।  
महामच्छवालं ।  
समुहं विसालं ।  
मइंदूढपीढं ।  
सुराणं विमाणं ।  
पसत्थं पवित्तं ।  
घरं पण्णयाणं ।  
मणीणं समूहं ।  
हुयासं जलंतं ।

5

10

15

20

घत्ता—इय सिविणयपंति मणोहरिय जोइवि सीलविसुद्धइ ॥

सुविहाणइ रायहु वज्जरिय सुत्तविउद्धइ मुद्धइ ॥ १२ ॥

12 १ P पोम्मवत्तं. २ AP विवुद्धा°. ३ P °णेत्तं ४ A सिहालीपलित्तं, P सिहालीवलत्तं, but T सिहालीचलंतं. ५ P °विउद्धइ.

12 1 a मउल्लुगडं मदार्द्रगण्डम्, b पयंडं प्रचण्डम्. 5 b पोमवत्तं कमलम्. 6 a सयामोयधामं सतः शोभनस्यामोदस्य स्थानम्. 7 a सुहं अनुपहतम्; सेयमाणुं चन्द्रम्. 11 a रमारामरम्म रमा लक्ष्मी., गोभा इत्यर्थः; तस्या आरामः वनं, समूह इत्यर्थः, तेन रम्यं मनोरमम्. 13 a मरालालिरोलं हंसभ्रमरकोलाहलम्. 16 b मइंदूढपीढं सिंहासनमित्यर्थः. 18 a °णित्तं निर्गतम्. 20 a °मऊहं किरणम्. 21 a सिहालीचलंतं शिखाली ज्वालासमूहश्चलन्ती यत्र. 23 सुविहाणइ प्रमाते.

## 13

पहुणा विहासिवि गुणगणवंतहि  
होही तुह सुउ जियवम्मीसरु  
तासु विमलवाहणअहमिंदहु  
कुंजरवेसें नैवरामाणाणि  
गम्भि परिट्टिउ जिणु जगमंगलु  
णच्चिउ णवरसालु तियसेसरु  
तासु धरंगणि वण्णविचित्तइं  
धणयाएसें जक्खकुमारिहिं  
कामकोहमयमोहविहंजणि  
जलणिहिसमहं कालपरिवाडिहिं

सिविणयफलु विण्णासिउ कंतहि ।  
तिहुयणगुरु तिणाणजोईसरु ।  
आउ पउण्णउ बुहयणचंदहु ।  
झ त्ति पइट्टउ णं दिणयरु घणि ।  
उट्टिउ घरि सुरसंथुइकलयलु । 5  
अहिणंदिउ जियसत्तु णरेसरु ।  
रयणइं पुणु णवमास णिहित्तइं ।  
घोसियसुमहुरसाहुंकारिहिं ।  
णिव्वुइ रिसहजिणिदि णिरंजणि ।  
जा पण्णासलक्खुं गय कोडिहिं । 10

घत्ता—ता माहमाससियदसमिदिणि बीयउ सिवंपयगामिउ ॥

तित्थंकरु णाणत्तयसाहिउ उप्पण्णउ जगसामिउ ॥ १३ ॥

## 14

उप्पण्णइ जिणि आऊरिय धर  
कहिं वि मइंदणिणाय सुभइरव  
आसणकंपे विम्हावियमइ  
दसणकमलसरणच्चियसुरवरि  
सयमहु मुणिमहसयणिव्वूढउ  
भंभाभूरिभेरिसंधायहिं  
जिणकमकमलजुयलसंगयमणु  
सोमभीमभूसाभाभासुर  
कोसलणयरि झड त्ति पराइय

कहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।  
कहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।  
कंपिउ अहिवइ महिवइ सुरवइ ।  
मयजलमिलियघुलियबहुमहुयरि ।  
अइरावणि वारणि आरूढउ । 5  
वज्जंतहिं वाइत्तणिणायहिं ।  
सवहु सवाहणु सधउ सपहरणु ।  
चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर ।  
परियंचेवि तिवार घरु आइय ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पियरइं आयरिण सहसा चित्ति विर्येप्पिउ ॥ 10

जिणमायहि मायइ सुरवरहिं मायावालु सैमप्पिउ ॥ १४ ॥

13 १ AP add after this . नेट्टहु मासहु पक्खि अचंदणि ( P पक्खियचंदणि ), मावसदिणि  
ससहरि थियरोहिणि. २ AP णिव°. ३ A °कुमारहिं ४ A °साहुकारहिं. ५ A °लक्ख. ६ A °मासि.  
७ A सिवपुर°. ८ A तित्थंकर.

14 १ AP कहिं मि. २ A विंभाविय°. ३ P भंभाभेरिपडह°. ४ P वायत्त°. ५ P  
वियप्पियउ. ६ P समप्पियउ.

13 1 b विण्णा सिउ विन्यसितं कथितम्.

14 5 a मुणिमहसयणिव्वूढउ मुनेस्तीर्थंकरस्य पूजाभिषेकशतनिर्वाहकः. 8 b हरि इन्द्रः;  
सरसरसिर प्रेम्णा शब्दवन्तः. 9 b परियचेवि प्रदक्षिणीकृत्य. 11 मायइ मायया.



## 15

जंगगुरु लेवि देव गय तेत्तहि  
तहि सीहासणि णिहिउ भडारउ  
इंदजलणजमणेरियवरुणहं  
आवाहणु करेवि पोमाइवि  
अमरपंति अवितुट्टं करोप्पिणु  
किसलयल्लण कलस उच्चाइवि  
देविदहि जिणिंदु अहिंसिंचिउ  
देवंगइं वत्थइं परिहाविउ  
भूसिउ भूसणेहिं साणंदं

सुरागिरिपंहुसिलायलु जेत्तहि ।  
मयणवाणसंताणणिवारउ ।  
पवणधणयभवससिखरकिरणहं ।  
जण्णभाउ सव्भावें ढोइवि ।  
णीरु खीरंमयरहरि भरेप्पिणु । 5  
मंतु पणवसाहा संजोइवि ।  
कुवलयकमलकयंवाहि अंचिउ ।  
देउं दिव्वगंधेहि विलेविउ ।  
णामकरणु विरइउं देविंदं ।

घत्ता—जाएण जेण जसु वंधुयणु कीलासु वि अविसंकिउ ॥

वहिरंतरंगवइरिहि ण जिउ अजिउ तेण सो कोक्किउ ॥ १५ ॥

10

## 16

णमो जिणा कयंतपासणासणा  
णमो कसायसोयरोयवज्जिया  
णमो अदीणकामवाणवारणा  
णमो विसालमोहजालछिंदणा  
णमो णिहित्तसुण्णवाइवासणा  
णमो गयालसालसीलभूसणा  
णमो विमुक्कदिव्वघोसणीसणा  
णमो अणंतसंतसम्मंभावणा

णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।  
णमो फणिंदं चंदविदपुज्जिया ।  
णमो महाभवंवुरासितारणा ।  
णमो जियारिरायरायणंदणा ।  
णमो अणेयभेयभावभासणा । 5  
णमो पसण्ण दिण्णरोसंदूसणा ।  
णमो रिसी तवोविहीपयासणा ।  
णमो रंहंत मोक्खमग्गावणा ।

घत्ता—इय वंदिवि अमराणंदियहि णंदणवणसुच्छायहि ॥

आणेप्पिणु उज्झहि परमजिणु इंदं अप्पिउ मायहि ॥ १६ ॥ 10

15 १ AP सिंहासणि. २ A °संताव°. ३ P अविट्टु. ४ P खीर. ५ A देव.

16 १ AP विसुद्धबुद्धिसिद्धसासणा. २ AP फणिंदं चंदविदपुज्जिया. ३ AP °दिण्णदोस°. ४ AP °संतसोमभावणा. ५ A णमो अरहत.

15 ३ b भव शंकर., खरकिरण सूर्यः. 4 a पो मा इ वि प्रगत्य; b जण्णभाउ यज्ञभागः, पूजाभागः. 5 a अ वितुट्ट अविच्छिन्ना. 6 b पणवसाहा ॐ स्वाहा. 10 जसु यस्य, कीलासु श्रीडाशील..

16 3 a अदीण° प्रौढ.. 4 b जियारिरायराय° जितशत्रुराजाधिराज.. 6 a गयालसाल° गतं आलसं आलं असत्यं यत्र, b दिण्ण° विदारितः. 7 a विमुक्कदिव्वघोसणीसणा विमुक्ता. उच्चैस्वारिता. दिव्यघोषा. सर्वभाषाप्रकाशका नित्वनाः शब्दा येन.

## 17

कालें जंतें जायउ पोढउ  
 का वि णारि आलिंगणु मग्गइ  
 का वि कुमारि भणइ मइं परिणहि  
 एक्कंसु देहि दिट्ठि सुहगारी  
 इय णारीयणु होंतु रसिल्लउ  
 रक्खहि देवदेव णियसंगें  
 पिउणा सुरच्चणु घरु गंपिणु  
 कह व कह व मड्डइ इच्छाविउ  
 सुसिरु तंति घणु पुक्खरु वज्जइ  
 जहिं उव्वसिरंभहि णच्चिज्जइ

जयवइ णवजोव्वणि आरूढउ ।  
 क वि कामाउर पायहि लग्गइ ।  
 विरहु भडारा किं तुहुं ण मुणहि ।  
 जा जीवमि ता दासि तुहारी ।  
 कामासत्तउ कामगहिल्लउ । 5  
 मारिजंतु वराउ अणंगें ।  
 पत्थिउ जिणकुमारु पणवेषिणु ।  
 कण्णासहसहिं पँहु परिणाविउ ।  
 जहिं तुंवुरुणा सुसरउ गिज्जइ ।  
 अणवमरसविसेसु संत्थिज्जइ । 10

घत्ता—जहिं मंगलदव्वविहत्थियहिं उरघोलिरहारमणिहिं ॥

आवंतिहिं जंतिहिं सुललियहिं छेउ णत्थि सुररमणिहिं ॥ १७ ॥

## 18

जहिं उवमाणउ किं पि ण दिज्जइ  
 सब्वतित्थपरिपुण्णहि कलसहिं  
 खीरतुसारतारणित्तारहिं  
 कोमलकिसलयच्छाइयवत्तहिं  
 मंगलघोसविलासाविसेसहिं  
 किउ रज्जाहिसेउ सूर्यसेवहु  
 महि भुंजंतहु पीणियभव्वहुं  
 एक्कहि दिणि णरणियरणिरंतरि  
 वसुवइवसुमइकंताकंतें

तं उच्छउ मइं किं वणिज्जइ ।  
 मुणिवयणहिं णं वियलियकलुसहिं ।  
 जित्तविलासिणिमोत्तियहारहिं ।  
 विसहरसुरणरखयरुक्खित्तहिं ।  
 तियसिदहिं मिलेवि पुहईसहिं । 5  
 वद्धु णिलाडि पड्डु तहु देवहु ।  
 एक्कुणवीसं लक्ख गय पुव्वहं ।  
 अच्चंतें अत्थाणव्वंतरि ।  
 रयणिहिं गयणभाउ जोयंतें ।

घत्ता—ताँ तेण दीह ससहरधवल उक्क पडंती दिट्ठिय ॥ 10

णं णहसिरिकंठहु परियलिय चलमुत्ताहलकंठिय ॥ १८ ॥

17 १ A एक सुदिट्ठि देहि सुहगारी; P एक सदिट्ठि देहि सुहगारी. २ AP add after this:; कुमरत्तें ( P कुमरत्तिं ) पुणु काळ सुहासिउ, पुव्व अट्टदहलक्ख पणासिउ. ३ A मंडइ, P मडइ. ४ P सह. ५ AP अणुवम°, T अणुवम° but the meaning given is शान्तरमरति .

18 १ AP णं मुणि°. २ P जिणिवि विला°. ३ A कमलकिसलयच्छाइय°, P कमलहिं किसलयच्छाइय°. ४ A सुरसेवहु; P सियसेवहु. ५ A एक्कुणलक्खवीम गय P तयपंचाल लक्ख गय. ६ P अच्छइ जा अत्थाण°. ७ A तो.

17 1 b जयवइ जगत्ततिः. 8 a मड्डइ इच्छाविउ एटादिच्छा जनिन्. 10 b अणवमरस° नवमरसरहितम्, शान्तरत्त विना. 12 छेउ छेद. टुटि.

18 6 a सुयसेवहु श्रीसेवित्तत्त्व. 9 a वसुवइ लक्ष्मी वसुमइ पृथ्वी. 10 उक्क उक्क.

## 19

पेच्छंतहु सा तहिं जि विलीणी  
 गयणुम्मुक उक्क गय जेही  
 लग्गामि णिरवज्जहि मुणिविज्जहि  
 छणि छणि जडयणु किं हरिसिज्जइ  
 जीय भणंतहं विहसइ तूसइ  
 ण सहइ मरणह केरउ णाउं वि  
 कालि महाकालिहिं घरु दुक्कइ  
 जोइणीहि को किरं रक्खिज्जइ  
 खयकालहु रक्खंति ण किकर  
 खयकालहु रक्खंति ण केसव  
 होइ विसूई संपे धेप्पई  
 जलि जलयर थलि थलयर वइरिय  
 तो वि जीउ जीवेवइ वंछइ

ईसमणीस समासमलीणी ।  
 अथिर णरेसरसंपय तेही ।  
 पभणइ सामि जामि पावज्जहि ।  
 आउ वरिसवरिसेणं जि खिज्जइ ।  
 मर पभणंतहं रंजइ रूसइ । 5  
 पहरणु धरइ फुरइ णित्थाउ वि ।  
 मज्जु मासु ढोवंतु ण थक्कइ ।  
 पीडिवि मोडिवि काले खज्जइ ।  
 मय मायंग तुरंगम रहवर ।  
 चक्कवट्टि विज्जाहर वासव । 10  
 दाडिविसाणिंमृगहिं दारिज्जइ  
 णहि णहयर भक्खंति अवारिय ।  
 लोहें मोहें मोहिउ अच्छइ ।

घत्ता—सुहुं वंछइ परं तं णउ लहइ मरणह तसइ ण चुक्कइ ॥

इच्छाभयपरवसु एहु जणु जममुहकुहरहु दुक्कइ ॥ १९ ॥ 15

## 20

तांवाइय लोयंतिय सुरवर  
 चंगउ चित्तंडिभु संथवियउ  
 छंडेहि पणइणि कंचणगोरी

ते भणंति जय जगगुरु सुरवर ।  
 णाणणिहेलाणि पइं संथवियउ ।  
 धरंहि भुवणसंवोहणगोरी ।

19 १ P पव्वज्जहि. २ AP वरिसु वरिसेण. ३ A मरणु भणंतहं P मरु पभणंतहं. ४ A किर को रक्खिज्जइ, P किं किर. ५ A सपेसिज्जइ. ६ AP add after this दहि बुद्धइ जलणेण पलिणइ. ७ AP<sup>o</sup> मिगहिं ८ AP add after this विसविवक्खसत्थहिं मारिज्जइ. ९ A जीवेवउ; P जीवेव्वउ. १० P तं पर णउ. ११ A इच्छाहय परवसु, P मिच्छाभयपरवसु.

20 १ AP तावाइय. २ चित्तंडिभु but gloss वालकः. ३ A छंडिवि, P छडुहि. ४ AP चपर्य. ५ P वरहि.

19 1 b ईसमणीस स्वामिनो बुद्धिः; समासमलीणी सम्यगासमन्तादुपगमेन लीना. 2 a उं उम्मुक उद्गता. 4 a छणि छणि आयुर्ग्रन्थिपर्वणि पर्वणि. 5 a जीय भणंतहं हरिसइ त्वं जीव इति कथिते हर्षति, b रंजइ दुष्टं शब्दं करोति. 6 b णित्थाउ निर्वल. 11 a विसूई विपूचिका.

20 1 a तांवाइय तांवा तावत्, तदा, आइय आगता.; b सुरवर हे सुराराच्य. 2 a संथवियउ प्रयोचितम्; b णिहेलाणि गृहे; संथवियउ घृतम्. 3 b गोरी सरस्वती, अन्यत्र दिव्यस्त्री.

गइ दुचरित्तकम्मसंताणइ  
पभणिउ पुत्त चरसु संताणइ  
तहि अवसरि णहु छण्णु विमाणहि  
किउ दिक्खाहिसेउ तियसेसहि  
गय खग सुर णियंसिवियाजाणें  
णारवइ णविउ सहेउवणामें  
णिच्च करंति पणयकलहं सइ  
तंडगंधव्वगीयकलहंसइ  
तहि सत्तच्छयतालि सुणिसण्णउ

अजियसेणु णिहियउ संताणइ ।  
सयलमहीयलकयसंताणइ । 5  
पत्तहिं गिक्खाणेहि विमाणिहि ।  
अंचिउ पहु पसत्थतियसेसहि ।  
फलतरुणाविणं पवरुज्जाणें ।  
सो सोहंतु सुद्धपरिणामें ।  
जहिं सरि सरु मुयंति कलहंसइ । 10  
ताहं चलणि रसियइं कलहंसइ ।  
जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णउ ।

घत्ता—मांहे मासे सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्ख गयासैं ॥

अवरणहइ केसलोउ करिवि लइय दिक्ख परमेसैं ॥ २० ॥

## 21

जे धम्मेल्ल विमुक्क सुवत्तें  
लेवि घित्त खीरणवणीरइ  
विसयंपरीसहरिउहु ण संकिउ  
णाणु चउत्थउ खणि उप्पण्णउं  
उज्झाणयरिहि वीयइं वासरि  
कुसुमवरिसु सुरवड्डहणिणायइं  
गेहण्णेहबंधणु विच्छिण्णउं  
पूसहु सुक्कपक्खि संपत्तइ

ते सुरणाहें मणिमयंपत्तें ।  
को णउ करइ भत्ति जइ णीरइ ।  
नृवसहासु तें सहुं दिक्खंकिउ ।  
छट्टुववासैं व्रुं पडिवण्णउं ।  
किउं पारणउं वंभरायहु घरि । 5  
पंचच्छरियइं तहि संजायइं ।  
वारहवरिसइं तउ संचिण्णउं ।  
एथारसि रोहिणिणक्खत्तइ ।

६ P धरसु. ७ A णर, P णिव. ८ A तावइ णमिउ. ९ AP सहेउअणामे, K सहेउपणामें but gloss and T सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानम्. १० A णडगंधव्व°, P तडि गंधव्व°. ११ AP माहहो मासहो.

21 १ AP °वत्तें. २ AP विसहपरीसह°. ३ AP णिव°. ४ AP वउ. ५ A तीयइ. ६ AP °पडह°. ७ P गेहि णेह°.

4 a °कम्मसंताणइ क्रियाविस्तारे, b संताणइ अन्वये वंशे. 5 a संताणइ सत्पुरुषाज्ञया, b °कय-सताणइ कृतसत्पुरुषलक्षणेन. 6 a विमाणहिं विगतसख्यै. 7 a तियसेसहिं देवेन्द्रैः, b पसत्थ-तियसेसहिं प्रशस्तस्त्रीविशेषाभि. 9 a सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानेन. 10 a पणयकलहसइं प्रणयकलहकं झगडकं स्वय कुर्वन्ति, b सरि सरोवरे. 11 a गीयकलहंसइ गीताना मनोज्ञताश्वसकानि, b ताहचलणि रसियइं कलहंसइ तेषा तटगतगन्धर्वाणा पादेषु रसितानि शब्दितानि मनोज्ञहंसकानि नूपुराणि, हसशब्दोऽत्र नूपुरवाची. 13 गयासैं विनष्टवाञ्छेन.

21 1 a सुवत्तें शोभनवक्त्रेण शोभनपात्रेण वा. 2 b णीरइ रजोरहिते. 5 a वीयइ वासरि द्वितीये पारणादिने इत्यर्थः.

भावाभावालोयविराइउ  
हय दुंदुहि णं गज्जिउ सग्गे

केवलणाणु तेण उप्पाइउ ।

आय देव दिसिविदिसंहं मग्गे । 10

घत्ता—चत्तारि सयाइं सरासणहं सड्डइं देहु जिणिंदहो ॥

अमरिदें दूरासंकिण मण्णिउ सरिसु गिरिंदहो ॥ २१ ॥

## 22

णवकणयवण्णु

खमभावु पुण्णु ।

संथुउ अणेण

अमराहिवेण ।

जय भव भवंत

जय दाणवंत ।

जय भूर्यणाह

विरइयविवाह ।

जय गोरिरमण

जय सुविसगमण । 5

जय तिउरडहण

जय मयणमहण ।

जय मोक्खमग्ग

णिग्गंथ णग्ग ।

जय सोमसीस

जय तिहुवणीस ।

जय णायहार-

भूसियसरिीर ।

सुतिलोयणास-

हर हरविलास । 10

सुरयंतवित्त-

पन्भाररत्त ।

णीसरियविमल

चउवयणकमल ।

जय वेयभासि

पसुवहपयासि ।

८ AP भावाभावलोएं पविरायउ. ९ A °विदिसहं मग्गे, P °विदिसि णहग्गे.

22 १ P भूवणाह.

9 a मा वा भा वा लो य वि रा य उ विश्वस्थितसमस्तपदार्थदर्शनेन विराजितम्.

22 3 a भव हे शंकर, भवत ससारस्य अन्त अन्तक मोक्षप्रदानाल्पल्यविधानाच्च, b दा ण व त अभयदानदायक एकः, अन्यो दानवविनाशक. 4 a भूयणाह एकः सकलप्राणिस्वामी, अन्यः पिशाचनाथ, b विरइयविवाह विरचिता विनष्टा बाधा येन, अन्यत्र कृतपाणिग्रहण. 5 a गोरिरमण सरस्वतीप्रिय, अन्यत्र गौर्या पार्वत्या रमण पते, b सुविसगमण शोभनस्य वृषस्य धर्मस्य गमन प्रवर्तनं यस्मात्, अन्यत्र शोभनवलीवर्देन गमनं यस्य. 6 a तिउरडहण जातिजरामरणलक्षणत्रिपुर-विध्वंसक, अन्यत्र त्रिपुरदानवविनाशक. 7 a मोक्खमग्ग मोक्षपथ, अन्यत्र मोक्षे वेध्ये मार्गो मार्गणो यस्य. 8 a सोमसीस उपशान्तशिष्य, चन्द्रोपलक्षितमस्तकोऽन्यत्र, b तिहुवणीस त्रिभुवनस्वामिन्, अन्यत्र त्रिभुवनायास्त्रिपथगाया गङ्गाया स्वामिन्. 9 a णायहार सन्मार्गधारक सन्मार्ग एव हारो'यस्येति वा, सर्प एव हारोऽन्यत्र. 10 a सुतिलोयणासहर सुद्धु त्रिलोकविनाशहर, परमकारुणिकत्वादजरामर-पदप्रापकत्वाच्च, अन्यत्र शोभनत्रिलोचनस्य धर, अथवा सुत्रिलोकस्य नासधरो धर्मधरो वा हर शिवश्च, b विलास विगतक्रीड, विशिष्टक्रीड. 11 सुरयंतवित्तपन्भाररत्त सुरतस्थान्तो विनागो यस्मिन् वृत्ते चरिते तस्य व्रतस्य प्राग्भारे संघाते रत, अन्यत्र सुरपर्यन्त यद्वृत्तं चेष्टित तस्य प्राग्भारे रत. 13 a वेयभासि प्रथमानुयोगादिपरमागमचतुष्टयप्रकाशक, वेदकर्ताऽन्यत्र; b पसुवहपयासि पशूनामपि सत्यप्रकाशक; अन्यत्र पशुवधप्रकाशक.

णिद्वंद्वंभ	जय परमवंभ ।
कंपावियक्क	कयधम्मचक्क ।
जय चक्कपाणि	जय दिव्वणाणि ।
बहुसोक्खहेउ	जय गरुलकेउ ।

15

घत्ता—तुह गब्भणिवासि हिरण्णमयविट्ठिइ सुट्ठु पसिद्धउ ॥  
तुहुं तेण हिरण्णगब्भं भणिउ अण्णहु एउं णिसिद्धउ ॥ २२ ॥

## 23

वंदिवि एम सुरिंदे सत्तिइ	विरइउ समवसरणु जिणभत्तिइ ।
माणखंभसरवरसरपरिहहिं	संकुसुमवेत्तिहि मरगयफलिहहिं ।
णिम्मियपायारेहि विचिच्चिहिं	धूहहिं सूरयंतमणिदिच्चिहिं ।
कप्पहुमचेईहरचिंधहिं	धूवहडेहिं सुधूवसुगंधहिं ।
णडसालाहि णैट्ठतंडवियहिं	थामि थामि मणिमयमंडवियहिं । 5
तोरणेरयणालंकियदांमहिं	कणयदंडवैरफणिपडिहारहिं ।
जं एहउं तहिं मोक्खहु पंथिउ	अजियणाहु सीहासणि संठिउ ।
पुव्वासासमुहुं आसीणउ	किं वण्णामि तेल्लोक्कपहाणउ ।

घत्ता—चउतीसातिसयविसेसधरु जिणु हरिवीढि बइट्टउ ॥  
उययदिसिहरि उययंतु रवि लुहु णं लोए दिट्टउ ॥ २३ ॥ 10

## 24

सव्वभहु तं तहु सीहासणु	कुसुमवासु भसलावलिपोसणु ।
णवकंकेल्लिरुक्खु कोमलदलु	भामंडलु णं दिणयरमंडलु ।
छत्तइ तिण्णि चंदसंकासइ	चमरइ हिमगोखीराभासइ ।

२ A णिद्वंद्वंभ. ३ AP दिव्ववाणि. ४ AP °गब्भु. ५ A एउण सिद्धउ.

23 १ P सुकुसुम°. २ P सुयंधसुयधहिं. ३ A णट्टमडवियहिं. ४ AP रयणतोरणालं°. ५ AP °दारहिं. ६ AP °दडधर°. ७ P ज एहउ तं सक्के पथिउ, जगकारुणे आवेप्पिणु थिउ. ८ P पुव्वासासुहुं तेण आसीणउ. ९ A णं तइलोए दिट्टउ.

14 a णि द्द्वंभ निर्दग्धदम्भः; अन्यत्र निश्चितो दग्धदम्भो निकृष्टदम्भो यस्य, b परमवंभ परमात्म-स्वरूपः, अन्यत्र परमब्रह्म आत्मा स्वरूप यस्य, एकमूर्तिस्त्रयो भागा ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वर इत्यभिधानात्. 15 b कयधम्मचक्क कृतधर्मचक्र, अन्यत्र कृत धर्मस्य धनुष चक्रं मण्डल येन, सप्रामकाले कृतचक्राकार-चाप इत्यर्थः. 16 a चक्कपाणि चक्रं लाञ्छन पाणौ यस्य, अन्यत्र चक्रं प्रहरणं पाणौ यस्य. 17 a बहुसोक्खहेउ बहुभिरिन्द्रादिभिः. सौख्यार्थं सेव्य, अन्यत्र वधूभिः. सौख्यार्थं सेव्यः; b गरुलकेउ गरुडध्वजः. 18 °विट्ठिइ °वृष्टया.

23 3 b सूरयंतमणि° सूर्यकान्तमणिः. 4 b धूवहडेहिं धूपघट्टैः. 7 a पथिउ पान्यः. 10 उययंतु उदयन्.

वज्जइ दुंदुहि भुवणाणंदणु  
 णिग्गय दिव्वभास सच्चुण्णय  
 अक्खइ जिणु सत्त वि पायालइं  
 अक्खइ जिणु भावणसंपत्तिउ  
 अक्खइ जिणु अहमिद वि सुरवर  
 अक्खइ जीवकम्मभेयंतरु  
 सीहसेणरायाइय गणहर

विरइयरिद्धिउ सइं सकंदणु ।  
 तं णिसुणंति अमर णर पण्णय । 5  
 णरयेलक्खदुक्खग्गिगविसालइं ।  
 वैतरजोइससग्गुप्पत्तिउ ।  
 बहुविह णर तिरिक्ख तस थावर ।  
 अक्खइ पेक्खइ तिजग्गु णिरंतरु ।  
 जाया णउंइ तासु सम्मयधर । 10

घत्ता—सहसाइं तिण्णिण पण्णासियइं सयइं सत्त भयवंतहं ॥  
 पुव्वंगधरहं तहिं मुणिवरहं जायइं संतहं दंतहं ॥ २४ ॥

## 25

उडुंसयाइं इगिवीससहासइं  
 चउसयाइं णवसहसइं सिट्ठइं  
 केवलणाणिहि वीससहासइं  
 ताइं जि पणु चउसयहिं समेयइं  
 तवसमसहसइं पुणरवि उत्तइं  
 सग्गारोहणसुहयणिसेणिहि  
 तेत्तियइं जि पण्णासइ रहियइं  
 एव गणंतगणंतहुं आयउ  
 अज्जहं लक्खइं तिण्णिण समासविं  
 तेत्तिय हउं सावय आहासविं  
 संखारहिय देव णिदेसविं

सिक्खुयारिसिहिं विमुक्कधणासइं ।  
 णाणत्तयसंजुत्तहं दिट्ठइं ।  
 जाइं अणंगसंगणिण्णासइं ।  
 विक्किरियारिद्धिहरहं णेयइं ।  
 चउसयाइं पण्णासइ जुत्तइं । 5  
 संभूयइं मणपज्जवणाणिहिं ।  
 दिण्णुत्तरहं विवाइहि विहियइं ।  
 एक्कु लक्खु भिक्खुहुं संजायउ ।  
 उप्परि सहसइं वीस णिवेसवि ।  
 पंचलक्ख अणुवइयहि घोसविं ।  
 देविहि किहं परिमाणु गवेसवि । 10

घत्ता—इय एत्तियसंधे परियरिउ पुव्वहं विरइयपरहिय ॥

तेपण्णलक्खु महियलि भमिचि वारहवारिसहि विरहिय ॥ २५ ॥

24 १ P दिव्ववाणि. २ A सच्चुण्णय, P सच्चुण्णय, but K सच्चुण्णय and gloss सत्यो-  
 न्नता. ३ P °कम्महो यतरु. ४ A तिजयव्भंतरु. ५ AP णवइ, K णउवि and gloss नवतिः.  
 ६ A सम्मइधर.

25 १ AP °सजुत्तइ. २ P °उत्तइ. ३ AP सुहयणिस्तेणिहिं, but T सुहय° सुखद°. ४ P  
 संभूयहिं. ५ P वहियइं. ६ AP एम. ७ AP समासमि. ८ AP णिवेसमि. ९ AP सावइ आहासमि.  
 १० AP घोसमि. ११ AP णिदेसमि. १२ AP कहिं. १३ AP गवेसमि. १४ AP विहरइ परहिय.  
 १५ A तेवण्ण लक्ख, P सो एक्कु लक्खु.

24 4 b विरइयरिद्धिउ विरचित्तिरिन्द्र. स्वयमेव शरीरेण. 5 a सच्चुण्णय सत्योन्नता.

25 1 a उडुंसयाइं षट् शतानि. 5 a तवसम° द्वादश°. 6 a °सुहय° °सुखद°. 7 b  
 दिण्णुत्तरहं दत्तोत्तराणाम्. 9 a °अज्जहं आर्याणाम् 12 विरइयपरहिय कृतपरहितः.

## 26

सिहरिहि दरिसियदरिमयवेयहु  
 मासमेत्तु थिउ पडिमाजोयं  
 एक्कपिंड वाहत्तरिलक्खइं  
 मासि चइत्ति पक्खि ससिजोणहइ  
 रोहिणिरिक्खि कम्मसंधारणु  
 अंतिमझाणु झ त्ति विरएप्पिणु  
 भुवणत्तयसिहरहु सुहठाणहु  
 कय णिव्वाणपुज्ज सुरसारहि  
 गउ सुरवइ जिणगुणरंजियमणु

पुणु अवसाणि गंपि संमेयहु ।  
 जाणमि णाहु विमुक्कउ जोएं ।  
 जीवेप्पिणु पुव्वहं कयसोक्खइं ।  
 पंचमिदिवसि जाइ पुव्वणहइ ।  
 दंडकवाडुरुजगजगपूरणु । 5  
 तिण्णि वि तणुबंधणइं मुएप्पिणु ।  
 अजिउ भडारउ गउ णिव्वाणहु ।  
 तणु संपूर्इउ अग्गिकुमारहिं ।  
 अवरु वि जिहिं आयउ तहिं गउ जणु ।

घत्ता—जिह रिसहें भरहहु वजरिउं तिह हउं तुह सृयमाणण ॥ 10

आहासमि सयररायचरिउ कुंदपुप्फदंताणण ॥ २६ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
 महाभवभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे अजियणिव्वाणगमणं णाम  
 अद्वितीयसो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३८ ॥

॥ अजियचरियं समत्तं ॥

26 १ A दावियदरिसरिवेयहु, P दरिसियदरिसरिवेयहु. २ AP जाणिवि. ३ AP कय-  
 सखहं ४ A दंडु कवाडं पयरजयपूरणु, P दंडु कवाडु पयर जयपूरणु. ५ A भुवणत्तय, P भुवणत्तइ.  
 ६ AP सकारिउ. ७ APT सियमाणण ८ AP omit अजियचरिय समत्तं.

1 a दरि सिय दरि मय वेयहु दर्शितो दरीपु मृगाणा वेगो यस्मिन्नेरो. 6 ७ ति ण्णि चि  
 तणु बंधणइं औदारिकतैजसकर्मणान्नि. 8 a सुरसारहिं देवेन्द्रैः. 10 सृयमाणण हे श्रीमानन श्रेणिक.



गुणगणहरु भासइ गणहरु वहुरसभावाणिरंतरु ॥  
मगहाहिव णिसुणि मंहाहिव सयरणरिंदकहंतरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

इह जंबुदीवि खरयरकराहि	मंदरगिरिपुव्विल्लइ विदेहि ।
सीयहि दाहिणयलि संपिसण्णु	उद्दामगामसीमापउण्णु ।
णं धराणिइ दाविउ सुहपपसु	वच्छावइ णामे अत्थि देसु । 5
भायंदणवदलुक्कंठियाउ	जहि कलयलंति कलयंठियाउ ।
कमलायर धरियसुपुंडरीय	णं णरवइ धरियसुपुंडरीय ।
उववणइं विविहवच्छंक्रियाइं	गोउलइं धवलवच्छंक्रियाइं ।
जहिं मंडव दक्खोहल वहांति	धरि धरि करिसाणियहं हल वहांति ।
जहिं णिच्चु जि सुंहु सुंहिक्खु खेउं	कामिणिउ देति कामुयहं खेउं । 10

यत्ता—विम्हिर्यसुरु तहिं पुहईपुर पविमलमणिमयमहियंल ॥  
सरयामलु चंदयरुज्जलु घरचूलाहयणहयंल ॥ १ ॥

2

तहिं णिवसइ सिरिजयसेणु राउ	जिणसेणापणइणिजणियराउ ।
रइसेणु पुत्तु पररमणिअवरु	उप्पण्णु ताहं दिहिसेणु अवरु ।

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi—

शशधरविम्वात्कान्ति ( न्ति ? ) स्तेजस्तपनाद्भीरतामुदधे ।  
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः कृतो विधिना ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XVIII of this Work in certain Mss. of the Mahāpurāna. For details see Introduction to Vol I. pp. xvi-xxvii and also foot-note on page 295 of the same Vol. K does not give it there or here.

1 १ AP महाणिव. २ A उत्तरयलि, K उत्तरयलि but corrects it to दाहिणयलि.  
३ A कलियठियाउ. ४ AP दक्खारसु. ५ A करसणियहं. ६ AP सुत्थ. ७ AP सुभिक्खु. ८ AP विमियं. ९ AP नहियल १० चूडाहयं. ११ AP णहयलु.

1 2 महाहिव महाधिप. 3 a खरयरकराहि आदित्यक्रामे, आदित्यतेजोयुक्ते इत्यर्थः.  
4 a सीयहि सीतानद्या, b पउण्णु पूर्ण. 6 b कलयंठियाउ कोकिला. 7 a पुंडरीय कमलम्,  
b पुंडरीय छत्रम् 8 a वच्छक्रियाइं वृक्षलाञ्छितानि. 9 a दक्खाहल द्राक्षाफलानि. 10 a खेउं  
क्षेत्रं कुद्यालम्; b खेउं आलिङ्गनम्. 11 पुहईपुर पृथ्वीपुर नाम नगरम्

2 २ a पररमणिअवरु पररमणीना अभर्ता, अपुंश्चल इत्यर्थ. चुशील इति वा.

ते विणिण वि जण पञ्चक्खकाम  
ते विणिण वि जण ससिसूरधाम  
ते विणिण वि जण परहियविवेयं  
गुरुदेवमित्तबंधवविणीउ  
करपल्लवग्गताडियउराइं  
अप्पउ ण मुणांति ण धैरु दुवारु

ते विणिण वि जण संपण्णकाम ।  
ते विणिण वि जण जयलच्छिधाम ।  
ते विणिण वि जण जणणहु विहेय । 5  
रइसेणु णवर कालेण णीउ ।  
पडियइं पियरइं सोयाउराइं ।  
सिसुमोहणीउ मुणिहि वि दुवारु ।

घत्ता—णिवडंतहं विहिं वि रडंतहं उवसमभाउप्पायणु ॥

कयसंतिहिं दिण्णउं मंतिहिं जिणवरवर्यणु रसायणु ॥ २ ॥ 10

## 3

कुलकंचुइहिं संबोहियाइं  
जणमयगलमूलालाणरज्जु  
जयसेणं णासियरइरुएण  
णियदेविइ सहं रयंविहुणएहिं  
दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु  
परिसेसेप्पिणु णीसेसु संगु  
वोलीणइ गुरुसेवाइ कालि  
मणि तिहुयणलच्छीवइ सरेवि  
मुणिवरहिं मयणघणमारुएहिं

कहं कह व ताइं उम्मोहियाइं ।  
तक्खणि दिहिसेणहु देवि रज्जु ।  
सामंतं समउं महारुएण ।  
अण्णेहिं मि बहुणरमिहुणएहिं ।  
वउं लइयउ पणविवि जसहरासु । 5  
तउ चिण्णउं तेहि दुवालसंगु ।  
पच्छा संपत्तइ मरणकालि ।  
वरपरगणचरियइं पइसरेवि ।  
दोहि मि जयसेणमहारुएहिं ।

घत्ता—दुरियल्लइं तिणिण वि सल्लइं हिययहु कट्ठिवि घित्तइं ॥ 10

किउ अणसणु दूसहु भीसणु पंच वि करणइं जित्तइं ॥ ३ ॥

## 4

जयसेणु मरेवि महावलक्खु  
वेउव्विउ जहिं णीरोउ काउ

संजायउ सुरवरु जसवलक्खु ।  
वावीसजलहिसमपरिमियाउ ।

2 १ A संपुण्णकाम. २ A °विहेय but gloss °विवेक.. ३ AP घर दुवार. ४ AP कुलमंतिहिं. ५ A °वयणरसायणु.

3 १ P कह व कहव. २ A णं मयगलथूणा°, P णं मयगलाथूला°. ३ AP रइविहुणएहिं. ४ A दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु, P दुक्कियदुण्णयदुज्जयहरासु. ५ AP वउ. ६ AP परपरगण°.

5 a पर हि य वि वे य परहितविवेकिनौ, b वि हे य विनययुक्तौ. 8 b सि सु मो ह णी उ पुत्रत्नेह .

3 2 a जण म य ग ल मू ल ल ण र ज्जु जना एव मत्तगजास्तेया मूलभूता आलानरज्जु वन्वनदोग'. 3 a णा सि य र इ रु ए ण नाशितरतिरोगेण, b म हा रु ए ण महावतनाम्ना मन्त्रिणा सह. 6 a परि से से-प्पि णु त्यक्त्वा. 8 a ति हु य ण ल च्छी व इ त्रिभुवनलक्ष्मीपतिर्जिन ; स रे वि स्मृत्वा. 10 घि त्त इ भित्तानि.

4 1 a महावलक्खु महावलनामा, b ज स व ल क्खु यज्ञसा शुक्र. उज्वल .

इयर वि सुहकम्मं तहि जि धामि  
तणु मुइवि महारुंउ पउरतेउ  
ण सुयंति सयण ससणेहवंधु  
जो पावइ अगइ मणुयजम्मु  
विण्णि वि ते दिवि णिवसंति जांव  
कोसलपुरि राउ समुइविजउ  
विजया णामं तहु अत्थि घरिणि  
सो तियसु सग्गसिहराउ ल्हसिउ

सोलहमइ अञ्चुयकप्पणामि ।  
संभूयउ सिरिमणिकेउ देउ ।  
किउ दोहिं मि पडिवोहणाणिवंधु । 5  
तहु अमरु समासइ परमंधम्मु ।  
कालेण महावलु ढल्लिउ तां व ।  
जसु घरि घोसिज्जइ णिच्चविजउ ।  
परमेसरि णाइं अणंगधरणि ।  
तहि केरइ गव्वणिवासि वसिउ । 10

घत्ता—हरिकंधरु बहुलक्खणधरु छणससहरमंडलमुहु ॥

कणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियउ जणणिइ तणुरुहु ॥ ४ ॥

## 5

संगामसमुहरउइमयरु  
णं केसरि दरदीसंतदाहु  
कालेण गलंतं जाउ पोहु  
तणु तासु जोहकरभूसणाहं  
मंदरभित्ति व उत्तुंगिमाइ  
तहु णिवकुमारकीलाइ ललिय  
तेत्तिय जि महामंडलवइत्तु  
गय जइयहुं तइयहुं सुक्कियसारु  
असि चम्मं छत्तु गहवंइ पुरोहु  
वरजुवइ थवंइ वरंकुलिसदंडु  
चोदंइ रयणइं महियलु छखंडु  
दुइं पोम संख दुइ अवरं दिव्वु

कोक्किउ कुमारु ताएण सयरु ।  
दुव्वारवेरिसंगामसोहु ।  
पलयक्कु व तिव्वपर्यावरुहु ।  
चउरइसयाइं सरासणाहं ।  
छज्जइ गोरी सेविय रमाइ । 5  
पुव्वहं अट्टारहलक्ख गालिय ।  
पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु ।  
उप्पण्णउ चक्कु फुरंतघारु ।  
कंरि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु ।  
परपहरणगणणिइलणचंडु । 10  
महकालु कालु पिगलु पयंडु ।  
माणव इय णव णिहि देति सव्वु ।

4 १ AP धामि. २ A महारुइ. ३ A सयणि ४ AP पवर धम्मु.

5 १ A पयायल्लु. २ P उत्तंगिमाइ. ३ P कुमारलीलाइ. ४ AP चम्म. ५ AP गिहवइ.  
६ AP हरि करि. ७ K omits थवइ. ७ AP दढ°. ८ A णिद्वहणचंडु, P णिव्वहणचंडु. ९ A  
चउदह. १० AP पचंडु ११ A तह पोम संख णेसप्पु सव्वु. १२ P पवरभव्वु.

5 a ससणेहवंधु स्वत्तेहवन्ध b णिवंधु वाग्वन्ध. 6 b समासइ कथयति. 7 b ढल्लिउ च्युत.  
10 a तियसु महावल्लेव.

5 1 a उइमयरु रौद्रमकर.; b सयरु सगर. 4 a जोहकरभूसणाहं चापानाम  
5 a उत्तुंगिमाइ उन्नत्या, b गोरी सरस्वती, रमाइ लक्ष्म्या. 7 b पयत्तु प्रयत्नेन 9 b सेण्णणाहु  
नेनापति. 10 a कुलिसदंडु वज्रम्. 12 a दुइ पोम पक्को महापन्नश्च. संख दुइ अंतो  
महाशान्ध

घत्ता—महि हिंडिवि समरु संमोड्विवि दुर्ज्जण दुडु दुसाहिय ॥  
जलयलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पसाहिय ॥ ५ ॥

## 6

वरवसुमइ असिणा वसि करेवि  
आवेप्पिणु कउ उज्झहि णिवासु  
जिवं भरहहु तिंवं सयरहु जि होइ  
णामेण चउम्मुहु देउ संतु  
आसीणु भडारउ णिलइ जेत्यु  
किंकरकरवालकरालधारु  
गउ वंदणहत्तिइ सयरं राउ  
अवलोइउं जिणपयणिहियचित्तु  
भो देव महावल णिव्वियप्प  
पुहईपुरि णरव्वरसंथुरहिं  
चिरु चिण्णउ तउ जइणिंदमग्गि

णीसेसणरेसहं कण्णु लेवि ।  
एत्तिय संपय भुवणयलि कासु ।  
तं वण्णहुं ण वि सकंति जोइ ।  
उप्पण्णउं तहु केवलु अणंतु ।  
संजायउ देवागमणु तेत्थु । 5  
अण्णहिं दिणि सुंदरु सपरिवारु ।  
अवयरिउ तहि जि मणिकेउ देउ ।  
बोलाविउ तियसें परममित्तु ।  
ओलक्खहि किं मइं णाहिं वप्प ।  
होइवि जयसेणमहारुपहि । 10  
जाया विण्ण वि सोलहमि सग्गि ।

घत्ता—तुहुं सुहमइ ह्यउ णरवइ हउं ओहँच्छवि सुरवरु ॥  
जं जंपिउ आसि वियप्पिउं तं हियउल्लइ संभरु ॥ ६ ॥

## 7

जे गय ते मय मउलवियणयण  
संदण ण मुणांति विइण्णु णेहु  
रायहं हियवइ धम्मु जि ण थाइ  
अंतरि छत्तइं छत्तहर देंतु  
अंगइं लच्छिहि दोसंक्रियाइं  
रायउलइं पहु पइं जेरिसाइं  
णिवडंति णरइ घोरंधयारि  
किं रक्खइ तेरउ विजयचक्कु

जे हरिवर ते चल वंकवयण ।  
किंकर णियकज्जहि देंति देहु ।  
चामरपवणे उड्ढेवि जाइ ।  
तं तइ वि वप्प पेक्खइ कयंतु ।  
भुजंतइं केव ण संक्रियाइं । 5  
पंचिदियसुहविसरसवसाइं ।  
ण विरप्पइ कि तुहुं भोयभारि ।  
सिरि पडइ भयंकरु कालचक्कु ।

१३ AP सुमंडिवि. १४ P दुज्जस.

6 १ AP जिम. २ AP तिम. ३ P वदणभत्तिइ. ४ AP सयरराउ. ५ P अवलोयउ.  
६ AP णरवइ°. ७ AP सो अच्छमि.

7 १ P मउलेवि णयण. २ P वियण्णु. ३ A के णउ संक्रियाइं, P केम ण सक्रियाइं.

13 समोड्विवि उड्ढत्य.

6 1 b कण्णु कर. दण्डो वा. 8 b तियसें मणिकेतुना. 13 संभरु संस्सर.

7 1 a मउलवियणयण मुकुलितनेत्रा. 2 a विइण्णु वितीणो दत्त. ३ a अंगइं  
रक्खत्तानि सस, गीतवृत्त्यादीनि वा. 7 b विरप्पहि विरज्यसे.

तहु वयणहु तेण ण दिण्णु कण्णु  
पुणु अण्णहि वासरि रथणकेउ  
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवाणि  
तं पेच्छिवि पुरु जंपइ असेसु

भउ सुरवरु सुरहरु माणि विसण्णु ।  
णियरुवोहामियमयरकेउ । 10  
आइउं थिउ सयरजिणिंदभवणि ।  
एहंउं ण रूवु पावइ सुरेसु ।

घत्ता—जणणेत्तइं जहिं जि णिहित्तइं तहिं जि गिरारिउ लग्गइं ॥  
बुहयंदहु तासु मुणिंदहु को वण्णइ तणुअंगइं ॥ ७ ॥

## 8

तं वंदिवि चितइ सयर एंव  
एहउ सुरूवु णउ वम्महासु  
मुणि किं तुह किर वेरंगु थियउ  
तं सुणिवि भणइ मायारिसिदु  
भरियउ पुणु रिक्तउ होइ राय  
तणु धणु परियणु सिविणयसमाणु  
किज्जइ तरुणत्तणि तवपवित्ति  
जर पसरइ विहडइ देहवंधु  
पम्भट्टचेदु गयरमगराउ  
डहु थेरु सो वि कि णिवियारि  
जीविज्जइ जहिं सो णिययदेसु

किं एहा होंति ण होंति देव ।  
पुणु चवइ णिवइ दरवियेसियासु ।  
भणु किं जोव्वणु वणजोगु कियउ ।  
झिज्जंतु ण पेक्खहि पुण्णिमिदु ।  
सासय कि चितहि अब्भञ्जाय । 5  
तसथावरजीवहुं अभयदाणु ।  
बुद्धत्तणि पुणु परियलइ सत्ति ।  
लोयणजुयलुल्लउ होइ अंधु ।  
तरुणिहि कोकिज्जइ हसिवि ताउ ।  
दइवेण जि पंडउ वंभयारि । 10  
तं भोयणु जं मुणिभुत्तसेसु ।

घत्ता—कि भव्वे पंडियगव्वे लोउ असेसु णडिज्जइ ॥

विउसत्तणु तं सुकइत्तणु जेण ण णरइ पडिज्जइ ॥ ८ ॥

## 9

सो सूरउ जो इंदियइं जिणइ  
सो इहु वंधु जो धम्मु कहइ  
ते कर जे पडिलिहणुं धरंति

सो सुद्धवुद्धि जा तच्चु मुणइ ।  
तं तणुवलु जं वयभारु वहइ ।  
ते कम जे मउयउं संचरंति ।

४ P omits पुणु. ५ AP आइवि. ६ P एहउ णरु ण अचुयसुरेसु.

8 १ A सरुउ, P सरुव. २ AP दरविहसियासु. ३ A मुणि, P मुणे. ४ P वहरगु.  
५ A वणजोगु, P वणिजोगु. ६ AP सुदु पडुत्तणु.

9 १ A सो सुद्धवुद्धि जो. २ AP पडिलेहउ धरति.

10 b °ओहामियं तिग्गतं 11 b सयरजिणिंदभवणि सगरवत्थालये. 13 गिरारिउ  
अनिदायेन. 14 बुहयदहु बुधचन्द्रत्य.

8 2 b दरवियसियासु उपदिकसितारय. 3 a मणि चित्ते. 4 b झिज्जंतु क्षीयमाण. 5 a  
भरियउ पुणु रिक्तउ होइ को भूत. म रिक्तो भवति. 7 a तवपवित्ति तप प्रवृत्ति. 10 a डहु  
दग्धः, येरु रुद्ध, b पण्डउ नपुंसक. 13 णरइ नरके.

9 1 a तसु तन्वम्. 2 b वयभारु वतभार. 3 a पडिलिहणुं न्यूरपिच्छम्.

तं सिरु जं जिणपयजुयलि णवइ  
ते चक्खु ण जे तियमइ णियंति  
सा जीह ण जा रसलोल लुलइ  
सुंकारु देतु णिंदइ दुगंधु  
तं अंगु ण जं कुसयणहु तसइ  
ते चारु केस संजमधरेहि  
सँकयत्थइं जईकररुहइं ताइं  
डज्जउ कामाउरु सीलरहिउ

तं तोंहु णं जं विप्पियेइं चवइ ।  
ते सवण ण जे रइसुइ सुणंति । 5  
तं हियउ ण जं परमत्थि चलइ ।  
तं णंकुं ण जं इच्छइ सुयंधुं ।  
सो मित्तु समउं जो रणिण वसइ ।  
उप्पाडिय जे मुणिवरकरेहि ।  
लग्गाइं विलासिणियणि ण जाइं । 10  
तं जीविउ जं चारित्तसहिउ ।

घत्ता—उज्जयमणु जं गुणभायणु तं माणुसु सुकुलीणउ ॥

तं जोव्वणु हउं मण्णविं घणु जं तवचरणे खीणउ ॥ ९ ॥

10

आवेहि जाहुं लइ तुहुं वि दिक्ख  
इय कहइ जइ वि सो देवसाहु  
लइ अज्जि वि ण लहइ काललद्धि  
गउ चक्खवट्ठि साणिहेलणासु  
अत्थाणि परिट्ठिउ लुडु जि जाम  
आयाइं भणंतइं जीये देव  
दे देहि तुरिउ आपसु किं पि  
मंदर महिहर जेवँडु जं पि  
तं णिसुणिवि सक्कसमाणण  
आपसहु कारणु कि पि णत्थि  
अणुहुंजहु महु रिद्धिहि फलाइं

सिक्खहि गयमयरय मोक्खसिक्ख ।  
पडिबुद्धउ तो वि ण पुहविणाहु ।  
जाणिवि देवे<sup>३</sup> कय गमणसिद्धि ।  
णं इंदिंदिरु कमलिणिवणासु ।  
सहसाइं सट्ठि तणुरुहहं ताम । 5  
पायडहुं तुहारी पायसेव ।  
णोसरहुं महारिउ रणि पयं पि ।  
लीलाइ समाणहुं कज्जु तं पि ।  
विहसेप्पिणु वुत्तउं राणण ।  
आरुहिवि तुरंगम मत्तहत्थि । 10  
मा जंपह वयणइं चप्फलाइं ।

घत्ता—किं वग्गाह पेसणु भग्गाह मंडलाइं धणरिद्धइं ॥

महु एके मुके चके सुट्ठु दुसज्जइं सिद्धइं ॥ १० ॥

३ A जं ण. ४ AP विप्पियउ. ५ AP णकु. ६ A सुगंधु. ७ P सकइत्थइ. ८ AP जण<sup>०</sup>.  
९ A उज्जयमणु. १० AP मण्णवि.

10 १ A पुहइणाहु. २ AP अज्ज वि. ३ P कय देवे जाणसिद्धि. ४ AP जीव. ५ AP  
जेवँडु. ६ P तं सुणिवि. ७ P उत्तउ. ८ P लग्गाह.

5 a तियमइ स्त्री, b रइसुइ रतिशास्त्रं कामशास्त्रम्. 7 a णंकु नासिका. 8 a कुसयणहु भूमि-  
शयनात्. 10 a जइकररुहइ यतीनां नखानि. 11 उज्जयमणु सरलचित्तः.

10 4 a सणिहेलणासु स्वर्गहे, b इंदिंदिरु भ्रमरः. 6 b पायडहुं प्रकटीकुर्मः. 7 b  
णोसरहु न अपसरामः पश्चात्पादं न दक्षः. 11 b चप्फलाइं चपलानि तिप्फलानि. 12 वग्गाह  
उच्छ्रूल्लवेष्टां कुरुत.

## 11

अह जइ सुर्यत्तु दक्खविउं अज्जु  
देवेण जाइं चक्केसरेण  
लंबियघंटाचामरधयाहं  
वरसिहरहं चउवीसहं वि ताहं  
जिहं णासइ खलमाणवहं मग्गु  
ता णिग्गय तणय पसाउ भणिवि  
धरंधरणक्खम उद्धसोड  
धाइय जुवाण मुहमुक्कराव

तो करह महारउ धम्मकज्जु ।  
कारावियाइं भरहेसरेण ।  
केलासु गंपि कंचणमयाहं ।  
परिरक्ख पउंजह जिणहराहं ।  
तिह विरयह तरुसिलसलिलदुग्गु । 5  
जंमदंडचंड भुयदंड धुणिवि ।  
णं मयगल मयंजलगिल्लगंड ।  
णं पलयजलय गज्जणसहाव ।

घत्ता—पविदंडं खणरुइचंडं फाडिउ खणि खोणीयलु ॥

णरसारहि रायकुमारहि देवहं दाविउं भुयवलु ॥ ११ ॥ 10

## 12

णियचिरपवाहपिहुपहु मुयंति  
परिभमियवारिविभम भमंति  
परिमलमिलियालिहि गुमुगुमंति  
सविसइं विसिविवरइं पइसरंति  
गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति  
उत्तुंगतरंगहि णहि मिलंति  
कच्छवमच्छोह समुच्छलंति  
पविउलजलवलयहिं चलवलंति  
वलइयउ ताइ कइलासु कैव

करिकरडगलियमयंमलु धुयंति ।  
कमलोयरमयरंदइं वैमंति ।  
वणयवजालोलिहि सिमिसिमंति ।  
फणिफुक्कारिहि दरोसरंति ।  
दिसं णहयलु थलु जलु जलु करंति । 5  
विर्यडयरसिलायल पक्खलंति ।  
हंसावलि कलरव कलयलंति ।  
कह्विय गंगाणइ खलखलंति ।  
वेसाइ पमत्तु भुयंगु जैव ।

घत्ता—धवलंगइ वेढिउ गंगइ पुणु वि मज्झु सो भावइ ॥

सुरमणहरु मंदिरमहिहरु तारापंतिइ णावइ ॥ १२ ॥ 10

11 १ A सयत्त. २ AP दक्खवहु. ३ A वर रक्ख. ४ A जिम. ५ A जयदंड°. ६ A वर-  
धरणुक्खम उद्धायसोड. ७ A जलमयगिल्ल°. ८ A °राय. ९ A सहाय. १० A परियट्टिउ गंगाजल,  
P परियट्टिउ गंगाजल.

12 १ A चिरु पवाहपिहमहु. २ A °मयजल चुवंति, P °मयजलु धुयति. ३ P मुयंति.  
४ AP वणदव°. ५ A विसिविवरइ. ६ A दिसि. ७ P जलु थलु. ८ A वियलयलसिलायलि.  
९ P खलहलंति. १० A मज्झि. ११ P भाइ.

11 1 a सुयत्तु पुत्रत्वम्, 4 b परिरक्ख पउंजह रथा कुरुत. 5 b °दुग्गु अगम्यस्थानम्.  
8 b °जलय° मेघा.. 9 खणरुइचंडं विद्युद्वत्प्रचण्डेन.

12 1 a पिहुपहु पृथुमार्गम्, b °मयमलु मद एव मल. 3 b वणयवजालोलिहि  
वनदावज्जालापंक्तिभि.. 4 a विसिविवरइं सर्पाणा विवराणि विलानि, b दरोसरंति ईपदपसरन्ति.  
9 b भुयंगु विट. 10 भावइ प्रतिभासते.

13

फणिभवणि विलग्गु दंडरयणु  
भयथरंहरंत कुंडलिय णाय  
झलझलिये जलहि ढैलढलिय धरणि  
पडिवोहर्णकारणु मुणिउं तेण  
फणिमणिपहपिहियदिणाहिवेण  
तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं  
जोइवि कुमार कय भूइरासि  
तहिं कासु वि ण हवइ पलयकालु  
अमुयाइं वि मुयाइं व दिट्ठु वंधु  
उव्वारिय कह व ते विहिवसेण

तहु सहें कंपिउ सयलु भुवणु ।  
वाणि वणयरोहिं पविमुक्क णाय ।  
विमिहउं सुरिंदु कंपविउ तराणि ।  
मणिकेउणा हिं पवरामरेण ।  
होइवि मायाणायाहिवेण ।  
गुंजारुणदारुणलोयणेहिं ।  
णं पुंजिय सजसविभूइरासि ।  
दरिसाविउ देवे इंदजालु ।  
गय भीम भूइरहि पुंरु सच्चिधु ।  
घरु पत्तु मुक्का पोरिसेण ।

5

10

घत्ता—घरु गंपिणु पिउ पणवेप्पिणु आसणेसु आसीणा ॥

सविसापं विणिण वि तापं दिट्ठु सुट्ठु विद्वाणा ॥ १३ ॥

14

कक्केयणकिरणुव्भासणाहं  
विहिं ऊणी सट्ठि दुसंठिएण  
मणिमयकुंडलचंचइयगंडु  
दुइ आया इयर ण पइसरंति  
पुव्वं चिय सुरसंकेइएण  
तं णिसुणिवि मंतिं वुत्तु तेण  
अत्थमइ ण कि रवि उययभाउ  
ण वि णासइ कि ताडि मेहसोह

जोयवि सहसहं सुण्णासणाहं ।  
सुयदंसणसोक्खुक्कंठिएण ।  
राएण पलोइउं मंतितांडु ।  
भणु कारणु तणुरुह कि करंति ।  
संबोहणवुद्धिविराइएण ।  
हे महिवइ महिलाहिययथेण ।  
उल्हाइ ण कि पज्जलिउ दीउ ।  
फुट्ठंति ण कि जलवुव्वुओह ।

5

13 १ A थरहरंति. २ A झलझलिय. ३ A टलटलिय. ४ AP विभिउ ५ AP कंपियउ.  
६ A पडिवोहणु. ७ AP वि. ८ P फणमणि. ९ A भूय. १० P सजसविहूइ. ११ A कासु ण  
हूयउ. १२ AP अमुया वि. १३ AP पुरि. १४ A उव्वरिय ते ण कह विहिवसेण.

14 १ A जोइवि सहास सुण्णा, P अवलोइवि सुयसुण्णा. २ A सुक्खुक्कंठिएण, P  
मोहुक्कंठिएण. ३ A पलोयउ, P पलोविउ. ४ A ते महिवइ महिलहियय, P हे महिवइ महिलहिआय-  
थेण. ५ A अत्थवइ. ६ P उययभाउ. ७ A जलपुव्वओह but gloss जलवुद्धुद.

13 2 a कु ड लिय कुण्डलाकारा जाता., b णाय नादा. शब्दा. 3 a ढलढलिय कम्पिता.  
5 b णायाहिवेण सर्पाणामधिपेन. 7 a भूइरासि भस्मराशि, b सजसविभूइरासि स्वकीयस्य  
मणिकेतोर्यशसो विभूतिराशि. 9 b सच्चिधु सध्वज. 12 विद्वाणा ग्लानवदनौ.

14 1 a कक्केयण कर्केतनरत्नम्. 2 a दुसंठिएण व्याकुलचित्तेन. 3 a चंचइय  
अलंछतौ. 7 a उययभाउ उदयभाक्, b उल्हाइ विख्याति 8 a मेहसोह मेघशोभाभूता, b वुव्वु-  
ओह बुद्धदौष.



थिरु होइ ण संझारायरंगु  
विहडइ ण काइं सुरचावदंड  
कालेण गिलिर्य देविंद देव

गउ आवइ णउ सरिसरतरंगु ।  
किं खयहु ण वच्चइ मणुयपिहु । 10  
पच्छण्णपउत्तिहिं कहिउ एम्ब ।

घत्ता—ता रायहु वहियसोयहु वाहजलइइं णेत्तइं ॥

चलपत्तइं ओसासित्तइं णं गलंति सयवत्तइं ॥ १४ ॥

## 15

तावेक्कु परायउ दंडपाणि  
जिणवरु व णिवारियभव्वविहैरु  
सोत्तरियफुरियजण्णोववीउ  
सो मंतिहिं गहियखणेहिं माहिउ  
ता भासइ लद्धावसरु विष्णु  
संसारु असारु णिरायराय  
जिह तरुवेल्लिहिं परगम्मु होइ  
जीहोवत्थहि जगमारणेहिं  
संसारिय सयल सणेहु लेंति  
मोहें बद्धा भँवि संसरंति

कासायचीरंधरु महुरवाणि ।  
कुंडलियणीलममरउलचिहुरु ।  
रूवेण गुणेण वि अहुत्तीउ ।  
कुलवंभणु भणिवि नृवस्सुं कहिउ ।  
को पुत्तु एत्थु किर कवणु बप्पु । 5  
कि सासय मण्णहि अब्भछाय ।  
तिह णरु णारिहि अप्पउं ण वेइ ।  
डिभहिं उंभुंभवकारणेहिं ।  
केसा इव वंधणजोग्ग होंति ।  
पुणु पुणु हंवंति पुणु पुणु मंरंति । 10

घत्ता—महु वित्तइं पुत्तकलत्तइं एम भँणंतु जि णिज्जइ ॥

सुंहुं माणइ धम्मु ण याणइ जगु खयरक्खें खज्जइ ॥ १५ ॥

## 16

दारिवि धरणीयलु दिढभुण्हिं  
अहिभवणि विलगउ दंडरयणु

आणिय मंदाइणि तुह सुएहिं ।  
णिगगउ फाणि गरलुप्पेच्छणयणु ।

८ A गलिय. ९ A पच्छणयउत्तिहिं.

15 १ A °चीरु धरु. २ AP°विहुरु. ३ A अहुईउ, P अहुईउ. ४ AP णिवस्स. ५ A डिंभुभव°. ६ A मोहं बद्धा. ७ P जगि. ८ P संसरंति. ९ A मरति; P भवंति. १० A हवंति. ११ A रुणंतु. १२ P सुकु माणइ.

16 १ P गरलु दुपेच्छणयणु.

11 b पच्छणपउत्ति हिं प्रच्छन्नोक्तिभि. 12 वाहजलइइ वाष्पजलेन आर्द्राणि. 13 ओसासित्तइं हिमविन्दुभिरभिषिञ्चितानि.

15 2 a °विहरु कष्टा. 3 a सोत्तरिय° उत्तरीयवस्त्रेण सह, जण्णोववीउ यज्ञोपवीतम्; b अहुत्तीउ अद्वितीय. 4 a गहियखणेहिं तपोनिमित्तं गृहीतनियमै. 6 a णिरायराय नृराजराज. 7 a परगम्मु होइ परवशाभि भूयते, b अप्पउं णवेइ आत्मान न जानाति. 11 णिज्जइ नीयते. 12 खयरक्खें यमराक्षसेन.

16 1 a दारिवि विदार्य. 2 b गरलुप्पेच्छणयणु गरलपरिपूर्णनयनः.

आरूसेपिणुं आसीविसेण  
 ता चवइ सयर गयदुरियकलिलु  
 किं एण पणासइ ईडुसोउ  
 जहि कहिं मि ण पेच्छमि सुहिविओउ  
 जहिं सयलकाल अयरामरत्तु  
 तं सिउ साहंवि गिणहंवि चरित्तु  
 लइ वसुह ण इच्छिय तेण केम  
 ता थविवि भईरहि पुहइराज्जि  
 दढधम्महु पायंतिइ समग्गु  
 घत्ता—सहुं भीमं णिज्जियकामं चारित्तेण विहूसिउ ॥  
 चक्केसरु हुउ जोईसरु मणिकेउं वि सुरु तोसिउ ॥ १६ ॥

जोइय णिवं णंदण वइवसेण ।  
 णहाइज्जइ दिज्जइ काइं सलिलु ।  
 वंर पंचमुट्ठि सिरि देमि लोउ । 5  
 ण हु होइ कयाइ अणिट्ठजोउ ।  
 जहि थक्कइ अप्पउ णाणमेत्तु ।  
 पुणु भीमकुमारु णिवेण वुत्तु ।  
 गुणवंतं परगेहिणिय जेम ।  
 अप्पणु लग्गउ परलोयकज्जि । 10  
 आराहिउ भावें मोक्खमग्गु ।

17

गउ तेत्तहि जेत्तहि पडिय पुत्त  
 अवहरिवि विउव्वियगरल भप्पु  
 उट्ठिय ते सायरि सायरेण  
 वसु वसुमइ सीहासंणु मुपवि  
 णियजीवियचायपरिग्गहेण  
 ता तेहिं विमुक्कउ णिहिलु गंधु  
 जाया जइ णियजणणाणुयारि  
 दोर्वासपयडपासुलियगत्त  
 उत्ताणखप्परोयरकराल  
 जणदिट्ठपुट्ठिगंधंयंसपव्व  
 कडयडियजाणुकोप्परपपस  
 कंकालरूव जगभीमवेस

मायाविसमुच्छारयंवलित्त ।  
 जीवाविय कउ णिम्मलु वियप्पु ।  
 भासियसुरेण महुरक्खरेण ।  
 गउ तुम्हहं पिउ पावज्ज लेवि ।  
 तुम्हइं विणडिय गंगागहेण । 5  
 गउ जेण महाजणु सो जि पंधु ।  
 णीरंजण थिरमंण णिव्वियारि ।  
 सकवालमूलसुणिलीणणेत्त ।  
 दीहरणह भासुररोमंवाल ।  
 विच्छिण्णगाव तवतावतिव्व । 10  
 उववासखीण चम्मट्टिसेस ।  
 णिज्जणंणिवासि सुइसुक्कलेस ।

२ P रूसेपिणु आसीविसविसेण. ३ AP तुह. ४ A दुडुसोउ. ५ P वरि. ६ AP सव्वकाल.  
 ७ AP अयरामरत्तु. ८ AP साहमि. ९ AP गेण्हमि. १० AP मणिकेउ वि सतोसिउ.

17 १ AP जेत्तहि तेत्तहि. २ A रसपलित्त, P रयपलित्त. ३ A गरलु दप्पु, P गरलु  
 सप्पु. ४ AP सिंहासणु. ५ A जीवियराय. ६ AP मायागहेण. ७ P थिर मणि. ८ AP दोपासु-  
 पयडपसुलिय. ९ A उत्ताणुयखप्परो. १० AP रोमजाल. ११ P गयवभपव्व. १२ AP विच्छिण्ण-  
 गव्व. १३ AP णिज्जणि णिवासि.

3 b वइवसेण यमेन. 6 a सुहिविओउ सुहदा वियोग.. 8 a साहवि साधयामि.

17 1 b मुच्छारयं मूर्च्छवेगः. 2 a भप्पु भरम. 3 a सायरि सगरपुत्रा.. 4 b पावज्ज  
 लेवि दीक्षां गृहीत्वा. 5 a चायं त्याग, b गंगागहेण गङ्गानयनग्रहेण. 8 a दोवासपयडं द्वयो-  
 पार्श्वयोः प्रकटानि, पासुलियं पार्श्वस्थि. 10 b विच्छिण्णगाव नष्टगर्वा..

घत्ता—दिहिपरियर पसमियमयजर जमसंजमधरणुच्छव ॥

बहुखेमदम कुंचियकरकम णावइ थलगय कच्छव ॥ १७ ॥

## 18

सुरधणुवलप	विज्जुज्जलए ।	
गज्जंतघणे	हयविरहियणे ।	
सरिवहसरिसे	धारावरिसे ।	
संविहियथले	पवहंतजले ।	
मृगंरवमुहले	वणविडवितले ।	5
णिवसंति इसी	विलुलंति विसी ।	
गलकंदलए	पुणु कंदलए ।	
ओसापसरे	पत्ते सिसिरे ।	
दरिसियगयणे	वाहिरसयणे ।	
णिक्कंपमणा	धीरा समणा ।	10
तमच्छइयदिसं	गमयंति णिसं ।	
हिमणिगमणे	गिम्हंणगमणे ।	
गिरिसिहरगया	सज्झाणरया ।	
संतावणिहिं	रविकिरणसिहिं ।	
विसहंति जई	सुविसुद्धमई ।	15
णिज्जियविसयं	इय परिसयं ।	
पालेवि समं	पुत्तेहिं समं ।	
विद्धत्थरयं	णिव्वाणगयं ।	
जणतोसयरो	पत्तो सयरो ।	
णिट्टुवियरिउं	णिसुणेवि पिउं ।	20
अयमेय वयं	गयमयणमयं ।	
णियपुत्तयहो	वरयत्तयहो ।	
जयलच्छिसहि	दाऊण महि ।	
आंसमि गुणिहे	गुत्तर्यंमुणिहे ।	

१४ AP पिहुखमदम.

18 १ AP विज्जुज्जलए. २ AP सपिहिय°, K सविहिय but gloss संपिहित°. ३ AP मिगरव°. ४ AP दरसिय°. ४ AP गिंभागमणे. ५ A °रइ. ६ A °गइ. ७ AP अपमेयवयं. ८ A वरदत्तयहो, P वरपत्तयहो. ९ P असमे. १० AP गोत्तयमु णेहं.

18 3 a सरिवहसरिसे नदीप्रवाहसदृशे. 7 b कदलए मस्तकप्रदेशे. 8 a ओसापसरे तुषारप्रसरे. 13 a सज्झाणरया ध्यानरता. 21 a अयमेय वयं एतदेव व्रतम्. 22 b वरयत्तयहो वरदत्तस्य.

घत्ता—अरितरुसिहि राउ भइरहि हिंसारंभु मुपप्पिणु ॥ 25  
सरहंगहि ताडे थिउ गंगहि जिणंपावज्ज लपप्पिणु ॥ १८ ॥

## 19

ताराहारावलिपविमलेहिं	सतुसारखीरसायरजलेहिं ।	
कलहोयकलसकविलियकरेहिं	तहु पयजुयलउ सिचिउ सुरेहिं ।	
तप्पायधोयसलिलेण सिच्च	तहिं हूई सुरवरसरि पवित्त ।	
हिमवंतपोमसरवरपसूय	अज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूय ।	
मंदारजाइसिदूरएहिं	अरविंदकुंदकणियारएहिं ।	5
सुपउरमयरंदायंबएहिं	अंचिवि णवकुसुमकरंबएहिं ।	
आमोयमिलियचलंमहुलिहेहिं	गंधेहि दिण्णणासासुहेहिं ।	
थोत्तेहिं जईसरु धरियजोउ	वंदेवि देव गय सग्गलोउ ।	
उप्पाइवि केवलु तिजगचक्खु	संपत्तु भईरहि परममोक्खु ।	
घत्ता—सो मुणिवरु अजरामरु हूयउ खाणि असेरीरिउ ॥		10
भरहत्थहिं णिवसत्थहिं पुप्फदंतु जयकारिउ ॥ १९ ॥		

इय महापुराणे तिसड्ढिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सयरणिव्वाणगमणं णाम  
एकूणचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३९ ॥

॥ सैयरचरियं समत्तं ॥

११ AP जिणपव्वज्ज.

19 १ A °महुवरेहिं, P °महुयोरेहिं. २ A असरीरउ. ३ AP omit सयरचरियं समत्तं..

26 सरहंग हि सरथाङ्गाया चक्रवाकसहिताया .

19 1 b सतुसार° सकर्पूर°. 3 a तप्पा य° तस्य पादाभ्याम्. 6 a °आ यम्यए हिं आताम्रैः.  
7 a °महु लिहे हिं भ्रमरै. 11 भरहत्थ हिं भरतक्षेत्रवासिभिः.

पणवेप्पिणु संभवु सासयसंभवु संभवणासणु मुणिपवरु ॥  
पुणु तहु केरी कह रंजियबुहसंह कहंवि सरासइ देउ वरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

सदयं परिरक्खियमयं  
चूरियअलियलयंसयं  
दूसियपरहणहरणयं  
विणिवारियपरदारयं  
रयणीभोयणविरमणं  
कयगिहिसंगपमाणयं  
णाणेणं अपमाणयं  
पविहियभव्वसुरायमं  
जं तवतावेणुग्गयं  
अणुहुत्तं संसारयं

अदयं विद्धंसियमयं ।  
लुंचियअलिअलयं सयं ।  
पुसियवंभहरिहरणयं ।  
परदरिसियपरदारयं ।  
धीरं अविवेविरमणं ।  
बहुणयणिहियपमाणयं ।  
सवराणं पि पमाणयं ।  
णिंदियसोंडसुरायमं ।  
जेण वीयराउग्गयं ।  
णो बद्धं हरिसा रयं ।

5

10

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi.—

विनयाङ्कुरसातवाहनादौ नृपचक्रे दिवि (व) मीयुषि क्रमेण ।  
भरत तव योग्यसज्जनानामुपकारो भवति प्रसक्त एव ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XXXIII of this Work in certain Mss. See foot-note on page 530 of Vol I. K does not give it there or here.

1 १ AP बुहसुह. २ P वीर. ३ AP add after this : देवं ज सुपमाणय, T seems to omit it. ४ P सवरे दरिसियमायमं. ५ P adds after this सवरेवि परमायम, T seems to omit it. ६ P सुरामयं.

1 3 a सदयं परिरक्खियमयं सदयं यथा भवत्येव परिरक्षितमृगम्, b अदयं विद्धसियमयं अदयं यथा भवत्येवं विध्वस्तमदम्. 4 a चूरियअलियलयंसयं चूर्णिता अलीकलताया अंशा येन, b लुंचियअलिअलयं सयं लुञ्जिता अलिसमाना अलका केशा येन, स्वय आत्मना. 5 b पुसियनिराकृतानि. 6 b परदरिसियपरदारयं परेषा दर्शितं मोक्षद्वार येन. 7 a रयणी भोयणविरमणं रात्रिभोजनविरमणं यस्मान्द्रव्यानाम्, b अविवेविरमणं अविवेपिर परीषहादिभ्यो निश्चलं मनो यस्य. 8 a कयेत्यादि कृत गृहिणा सङ्गस्य परिग्रहस्य प्रमाण येन, b बहु इत्यादि बहुभिर्न्यायैर्युक्ताभिर्निहिते स्थापिते प्रमाणे येन. 9 b णाणेणं अपमाणयं ज्ञानेन कृत्वा अप्रमाणक सर्वव्यापकम्, 9 a सवरेत्यादि स्वपरेषामपि प्रकृष्टलक्ष्मीप्रापकम्. 10 a पविहियेत्यादि प्रविहितं कृतं भव्यसुराणामागमनं येन; b सुरायमं मद्यप्रशंसकं शास्त्रम्. 11 a तवत्यादि तपसस्ताप. शरीरक्लेशस्तेन उग्रम्, b वीयराउग्गयं वीतरागत्वेनोन्नत उत्पन्नम्. 12 a अणुहुत्तं संसारयं अनुभुक्तं सुखं सार अनन्तं सुखं येन; b हरिसारयं हर्षात्प्रापम्.

दूरज्जियसंसारयं	ण हि संसासंसारयं ।	
देवासुरकंपावणं	जं देवं कं पावणं ।	
जयपायडियसयारयं	सिद्धिपुरंधिसयारयं ।	15
कंतं तीइ अयारयं	पढमद्वाणि अयारयं ।	
वीपे सरहंकारयं	अरुहं णिरहंकारयं ।	
उयरलीणसयलक्खरं	मंतेसं परमक्खरं ।	
भुवणकुमुयवणसंभवं	तं वंदे हं संभवं ।	
ओसांरियअसिआउसं	णविऊणं असिआउसं ।	20
भणिमो संभवसंकहं	जोणीमुहदुहसंकहं ।	

घत्ता—तियसिदफणिंदहि खयरणरिदहिं जं थुव्वइ कयपंजलिहि ॥  
तं जिणगुणकित्तणु महं सुकइत्तणु अमिउं पियह कण्णंजलिहिं ॥ १ ॥

## 2

दिणयरपईवए	इह पढमदीवए ।	
मेरुपुव्विल्लए	पसुकणघणिल्लए ।	
तहिं विदेहे वैरे	सीयसरिउत्तरे ।	
पविमलदियंतरे	कच्छदेसंतरे ।	
रायहंसुज्जलं	सच्छविच्छुल्लु जलं ।	5
फुल्लपंकयवणं	पवणहल्लिरवणं ।	
णवकुसुमपरिमलं	सरंससुमहुरफलं ।	
रुणुरुणियमहुयरं	रइरमियणहयरं ।	

७ A पढमद्वाणअयारयं. ८ A सुमहियसरहकारयं. ९ AP add after this पाइय ( A ज्ञाइय )  
णिरहंकारय, पावियसाहुकारय. १० AT ओहामिय°, P ऊसारिय°. ११ A भरिऊणं.

2 १ P वसुकण°. २ P विदेहे पुरे. ३ A विच्छुल्लजल. ४ AP सरसमहुरं फलं.

13 b ण हि स सा स सा रयं हि स्फुट स्तुतिनिन्दोपरतम्. 14 b ज मित्या दि य देव कं ब्रह्माणं तथा पावन  
पवित्र च. 15 a ज य इत्या दि जगत प्रकटित सन् गोभन आचारोऽनुष्ठानं स्वकीयो वाचारोऽनुष्ठान येन,  
b °सयारय सर्वदानुरक्तम्. 16 a क त इत्या दि कान्त नाथम्, ती इ तस्या सिद्धिपुरध्याः, अयारयं  
चारेण उपचारेण दूतेन वा रहितम्, b पढमेत्या दि प्रथमस्थाने अकार, तत सुमहितं सुभूजितम् 18 a  
सरहकारय रेफहकारम्, अरुह इत्यर्थ, b णिरहकारयं अहकारान्नि.कान्तम् 18 a उ यरेत्या दि उदरे  
मध्ये लीनानि प्रविष्टानि सकलान्यकारादीनि सकारपर्यन्तान्यश्रवाणि यस्यार्हमित्यस्य, b मतेसं मन्त्रोत्वत्ति-  
स्थान मन्त्रप्रधान वा, परमक्खर पर परमात्मानं अक्खर विनाशहीनम्. 19 a भुवणेत्या दि भानि  
नक्षत्राणि तानि पातीति भपश्चद्र, भुवनमेव कुमुदवन तस्य समीचीनो भपश्चन्द्र. 20 b ओसा रिय-  
असिआउसं स्फेटित लक्ष्म्या आयुस्वस्थानं येन, b असिआउस पञ्चपरमेष्ठिनम्. 21 b जोणीत्या दि  
योनिमुखदु खं जन्मदु खं तस्य शङ्का भयं तस्या घातकम्.

2 1 a दिणयरपईवए सूर्यप्रदीपे. 4 b °देसतरे देगविगेपे.

तुंगपायारयं	गोउरदुवारयं ।	
विरइयमहुच्छवं	तुरंयहिलिहिलिरवं ।	10
रसियनृववारणं	णीलदलतोरणं ।	
चिंधमालाउलं	विविहजणसंकुलं ।	
हेममयमंदिरं	खेमणामं पुरं ।	
तहिं सुहडसाहणो	पहु विमलवाहणो ।	
वसइ सिरिसेविथो	पणइणीणं पिओ ।	15
चाररजे कए	दीहकाले गए ।	
तिविहणिव्वेइणा	तेण वरराइणा ।	
थोरदीहरभुए	विर्मलकित्तीसुए ।	
सधरधरणी पया	विणिहियां संपया ।	
जिणमसंसयपहं	पणविवि सयंपहं ।	20
जायओ जइवरो	णिम्मम णिरंवरो ।	
संहिवि तवतावणं	धरिवि सुहभावणं ।	
जिणगुणणिवंधणं	भुवणयलखोहणं ।	
चिणिवि सुहसंपयं	धुणिवि भवभवरयं ।	25
उवसमविहसणं	करिवि संणासणं ।	
अवियलियसंजमो	मरिवि मुणिपुंगमो ।	
पढमगइवेयए	पढमयणिकेयए ।	
विस्सुयसुदंसणे	दुक्खविद्वंसणे ।	
अहममरवइ हुओ	भविययणसंथुओ ।	30

घत्ता—तेवीस अणूणइं जलहिसमाणइं आउ णिवद्धउं सुरवरहु ॥  
विहिं रंयणिहिं जुत्तउ अद्ध णिरुत्तउ तणुपरिमाणु वि भणिउं तहु ॥२॥

## 3

तेवीसवरिससहसहिं असइ  
वण्णं भावेण वि सुक्किलउ  
णउ गेयवज्जसरकलयलउ

तेत्तियहिं जि पक्खिहिं ऊससइ ।  
विलुलंतहारमणिमेहलउ ।  
णउ णारि ण हियवइ कलमलउ ।

५ P तुरियं. ६ AP णिववारणं. ७ A विवलवाहणो. ८ A विवलकित्तीं. ९ APT विणिहया.  
१० A सहइ तवं. ११ AP सुहसंचयं. १२ A भवभयरय. १३ AP अविहलियं. १४ A पढमणिके-  
यए, P पढमइ णिकेयए. १५ A विहरयणिहिं.

3 १ A तेवीससहासवरिसहिं, P तेवीससहसवरिसेहिं. २ A सुक्किलउ.

17 a ति वि ह णि व्वे इ णा संसारअरीरभोगर्वराग्येण. 19 b वि णि हि या समर्पिता. 24 a वि णि वि  
अर्जयित्वा. 26 a अ वि य लि यं अम्रप . 28 a वि स्सु य सु द स णे विश्रुते विख्याते सुदर्शने विमाने.

3 1 a असइ अश्रोति. 3 a °वजसरं वाचत्वरः, b कलमलउ व्याकुलत्वम्.

पाविट्ट दुट्ट जहिं णत्थि जणु  
 णाणं जाणइ सुरणरणियइ  
 तं तेत्तिउ वैट्टइ णिट्ठियउं  
 ता एत्तहि उववणि रमित्तिसुरि  
 इक्खाउवंसु सुविसुद्धमइ  
 धणुगुणसंधियपंचमसरहु  
 एक्कहिं दिणि णिसि पच्छिमपहरि

जो जो दीसइ सो सो सुयणु ।  
 सत्तमणरयंतु जाम णियइ । 5  
 जांवाउसेसु तहु णिट्ठियउं ।  
 इह भरहखेत्ति सावत्थिपुरि ।  
 हयसद्धुं ददु णामं पुहइवइ ।  
 तहु घराणि सुंसेण सेण सरहु ।  
 सुहुं सुत्ती देवि सवासहरि । 10

घत्ता—सा सालंकारी सेण भडारी पइवय सोलह सुंदरइ ॥

महिमंडलसामिणि मंथरगामिणि अवलोयइ सिविणंतरइ ॥ ३ ॥

## 4

करिणं वसहं केसरिणं  
 झसजुय कुंभजुयं च वरं  
 हरिवीढं देविदघरं  
 विष्फुलिगपिगालियणहं  
 इय जोइवि पीणत्थिणिया  
 सिंसुमयणयणा पत्तलिया  
 अहिणववेह्लि व कोमलिया  
 करि धरिवि सविलासिणियं  
 पत्ता कंता रायंहरं  
 अवलोइवि पइमुहकमलं  
 णियवुद्धीइ परिग्गहियं  
 जस्स वसा तेलोक्कसिरी  
 अमरउलं चियं भिच्चउलं  
 सो भदे तुह दिण्णवरो

लच्छिं दामं चंदमिणं ।  
 सरवरममलिनमयरहरं ।  
 फणिभवणं फुडमणिणियरं ।  
 सिहिणं जलियं दीहंसिहं । 5  
 पविउद्धा सीमंतिणिया ।  
 णीलुप्पलदलसामलिया ।  
 गहियाहरणा संचलिया ।  
 कलहंसी विव हंसिणियं ।  
 सिहरोलंबियसलिलहरं ।  
 पुच्छइ सत्था सिविणहलं । 10  
 तेण वि तित्त्सा तं कहियं ।  
 मज्जणवीढं मेरुगिरी ।  
 जस्स घरं तिजगं विउलं ।  
 होही तणओ तित्थयरो ।

३ AP वट्टइ. ४ A रमित्तिसुरि. ५ A इक्खागुवस. ६ A हयसयददु. ७ A ससेण. ८ A सुहसुत्ती, P सुहं सुत्ती.

4 १ AP झसजुयल कुंभजुय पवर. २ A दीयसिह. ३ P विउद्धा. ४ P मयसिसु°. ५ P रयणहर ६ A विय, P पिय°. ७ P तित्थहरो.

5 a णियइ °कर्मविपाकः, b णियइ निरीक्षते. 6 a णिट्ठियउं निर्गतम्, b णिट्ठियउ निश्चयेन स्थितम्. 8 b ददु ददरथ. 9 b सुसेण सुपेणानाम्नी, सेण सरहो स्मरस्य सेना सैन्यम्. 11 सेण सुपेणा.

4 1 b हण सूर्यम्. 2 b °मयरहर समुद्रम्. 3 a देविं दघर सुरविमानम्. 6 a सिंसुमय° शिशुमृगः. 9 a रायहर राजमन्दिरम्, b °सलिलहर मेघम्. 11 a परिग्गहिय परिज्ञातम्. 13 a भिच्चउलं भृत्यकुलम्



घत्ता—तं णिसुणिवि सुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलण किह ॥ 15  
महुसमयहु वत्तइ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहविय जिह ॥ ४ ॥

## 5

वाज्जिणा धम्मकज्जं तओ पीणियं  
एत्थ सावत्थिरायस्स गेहे जिणो  
जाहि ताणं तुमं होहि तोसायरो  
तामयासाहिवाणाइ मावट्टणं  
सव्वहेमालयं सूरयंतप्पहं  
आगया गम्भसंसोहणत्थं इरी  
जाम छम्मास ता संपयाळिणणे  
फग्गुणे मासए सुक्कपक्खंतरे  
सिंधुरायारधारी सुहेणुण्णओ  
णारिदेहे थिओ सुद्धधाउत्तए  
धम्मचंदस्स सच्चंदिमाणंदिया  
णिच्च माणिक्करासी पुणो घत्तिया  
दीहरद्धीसमाणं खणेणं खणं  
जित्तसत्तसुए कम्मणिम्मुकए  
कत्तिए पुण्णिमासीइ भे पंचमे  
तइउ तइया तिणाणी समुप्पण्णओ  
आइया भावणा जोइसा वितरा  
अंकुसो भामिओ देहभाधारिणा  
णच्चमाणा परे गायमाणा परे

चितियं चिंतणिज्जं मणे भावियं ।  
जक्ख होही सुसेणासईणंदणो ।  
वासवित्ताइरिद्धीपचित्तीयरो ।  
दव्वणाहेण वेउव्वियं पट्टणं ।  
सव्वकालंघिवं सव्वसोक्खावहं ।  
कंतिं कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी ।  
भम्मबुद्धी कया राइणो पंगणे ।  
पंचमे रिक्खए अट्टमीवासरे ।  
पुज्जगेवज्जदेवो समोइण्णओ ।  
वारिविंदु व्व राईविणीपत्तए । 10  
देवदेवेण मायापिऊ वंदिया ।  
दोससंखेहि पक्खेहि णिव्वत्तिया ।  
कोडिलक्खा गया तीस जइया घणं ।  
पत्तिए वीर्यतित्थंकरे तुक्कए ।  
सोमंजोए दुजोयावलीणिग्गमे । 15  
इंदुं इंदो रवी कंपिओ पण्णओ ।  
सायरा भासुरा कप्पवासी सुरा ।  
चोइओ वारणो ज्ञत्ति जंभारिणो ।  
धावमाणा परे खेलमाणो परे ।

८ P जह.

5 १ A मणे जाणियं, P कज्जयं जाणिय. २ AP मावट्टणं. ३ A सूरयंत पह. ४ A सोहणत्थे इरी and gloss इरी त्वरिता, T इरी, PK सिरी. ५ P कित्ति कंती. ६ P पुव्वगेवज्ज°. ७ AP पत्तए. ८ A वीइ तित्थकरे. ९ A सोम्मजोए. १० A इंदु इंदो रई किं पि उप्पण्णओ, P सहसु लक्खणह वसुअहियसंपुण्णओ. ११ A देहभावारिणो, P देहसाधारिणा. १२ A जंभारिणो. १३ AP खेलमाणा.

15 सरमहिहरदरि स्मरपर्वतदरी. 16 पणइणि सस्नेहा पियमाहविय प्रिया माधवीलता यस्याः सा कोकिला.

5 1 a पी णियं पीनं महत् कृतम्. 3 b वासवित्ताइ° गृहद्रव्यादि. 4 a अमयासाहिवाणाइ इन्द्राज्ञया, मावट्टणं लक्ष्मीप्रवर्तनम् 5 a सूरयंतप्पहं सूर्यकान्तप्रभम् 6 a इरी त्वरिता. 10 a सुद्धधाउत्तए अदूषितवातपित्तश्लेष्माण, b राईविणी° पद्मिनी. 11 a धम्मचदस्स धर्मोद्योतकस्य जिनस्य; सच्चंदिमा° शोभनदीप्ति, b दोससंखेहिं अष्टादशभि. 13 a दीहरद्धीसमाण दीर्घसागरोपमानम्. 14 b पत्तिए प्रवृत्ते. 15 a भे पंचमे मृगशिरोनक्षत्रे.

सदृहाँसा परे गज्जमाणा परे सीहसद्दाँ परे संखसद्दा परे । 20  
 छाइयासारसा सारसा सासुरा चित्तचारेहिं पत्तेहि पत्ता सुरा ।  
 घत्ता—पुरु परियंचेपिणु घरु जाणपिणु जणणिहि देपिणु सिंसु अवरु ॥  
 पियरइं पुज्जेपिणु कर मडलेपिणु लइउ सुरिदें तित्थयरु ॥ ५ ॥

## 6

जिणरूवरिद्धि पेच्छंतियइ सुरवरपंतिइ गच्छंतियइ ।  
 तक्खाणि तारायणु लंघियउ सुरसिहरिसिहरु आसंघियउ ।  
 पविलोइय पंडुर पंडुसिलं सा खंडससंकसमाण किलं ।  
 ता तहि सईइ सइं धारियउ करिकंधराउ उत्तारियउ । 5  
 हरिआसणि पहु वइसारियउ इंदेण मंतु उच्चारियउ ।  
 दिण्णउं दब्भासणु णिहयमलु दसदिसु परिघित्तु संकुसुमजलु ।  
 दसदिसु सुंधूवु उच्चाइयउ दसदिसु चरुभाउ णिवेइयउ ।  
 दसदिसु थियं सुरवर कलसकर दसदिसु वित्थरिय मुइंगसर ।  
 खीरोयखीरधाराधरहिं सिचिउ जिणिदु सयलामरहि ।  
 हारावलितडिफुरिपहि किह गजंतिहिं मेहहि मेरु जिह । 10  
 घत्ता—मंगलु गायंतिहिं पुरउ णडंतिहिं दावियवहुरसंभावहि ॥  
 णाणाविहभासहि थोत्तसहासहिं जगगुरु संथुउ देवहि ॥ ६ ॥

## 7

हरिणा परमेद्धि पसाहियउ सुइथुइगिराहिं आराहियउ ।  
 सिहिणा तहु दीवउ बोहियउ जउं जंपइ हउं पइं साहियउ ।  
 रिछाहिउ रिछहु ओयरिउ विणएण णएण जि संचरिउ ।  
 जडवइंणा जडमणु परिहरिउ परमण्णउ णियहियवइ धरिउ ।  
 वाएण भडारउ विज्जियउ रयणेसें रयणाहि पुज्जियउ । 5

१४ A सदृहासा. १५ P सखसद्दा परे पडहसद्दा परे. १६ A चित्तचारेहि, P चित्तयारेहि.

6 १ AP पंडुसिला. २ AP किला. ३ P सुकुसुम°. ४ A दसदिस सुधूसु, P दसदिसु सुधूसुच्चा°. ५ AP सुरवर थिय. ६ A °भाविहिं, P °भावेहिं. ७ A णाणाविहभासहिं P णाणाविहिभासेहिं.

7 १ P सदृथुइ°. २ AP जडवयणा.

21 a सारसा उत्कृष्टलक्ष्मीकाः, सासुरा ससुराः सुरसहिता, b चित्तचारेहि नानाप्रकारवृत्तिभिः; पत्तेहिं वाहनै. 22 परियचेपिणु प्रदक्षिणीकृत्य.

6 2 b आसंघियउ आश्रितम्. 3 b खडससकसमाण अर्धचन्द्रसदृशी. 4 a सईइ शच्या. 7 a उच्चाइयउ उल्लिखतः, b चरुभाउ चरुभाग. 12 णाणाविहभासहिं विचित्रभापायुक्तै.

7 2 b जउ यमः. 3 a रिछाहिउ नैर्ऋतः. 4 a जडवइणा वरुणेन. 5 b रयणेसे धनदेन.

ईसाणें ईसु भणिवि णविउ  
सूरेण वि मोहंधारहर  
धरणिं दे धरणिससुद्धरणु  
इय बहुगिवाणहिं वंदियउ

सुसुहासूपं सुहाहि णहविउ ।  
सूरु जि णिज्जाइउ परमपरु ।  
पत्थिउ महं देव तुहुं जि सरणु ।  
धुंभु संभवु संभवु सहियउ ।

घत्ता—पुणु पुणु पणवेप्पिणु घरु आणेप्पिणु दिण्णु सुसेणासुंदरिहि ॥ 10  
गुरुचरणइं अंचिवि सुक्किउ संचिवि गउ सुरवइ सुरवरपुरिहि ॥ ७ ॥

## 8

कणयच्छवि सुट्टु सलक्खणउ  
अंगउ लायणमहिद्धियउ  
जसु आयत्तउ सयमेव विहि  
जसु अंगि दुद्धु लोहिउं गणमि  
जसु गुणपरिमाणु णेय लहंवि  
अच्छरणररामाणंदणहु  
कीलंतहु अमरवरेहि सहं  
घरघडियारयदंडेण हय  
पइरत्तउ पेच्छिवि तरुणियणु  
उर्वणेप्पिणु नृवंइकुमारिगणु

जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणउ ।  
चउचावसयाइं पवद्धियउ ।  
सो कि वण्णिज्जइ रूवणिहि ।  
सो खमवंतउ कि किर भणमि ।  
सो सूहउ हउं किरं कि कहंवि । 5  
तहु तेत्थु सुसेणाणंदणहु ।  
भुंजंतहु रायकुमारसुहुं ।  
पुव्वहं पण्णारहलक्ख गय ।  
आहंडलु आयउ तहिं वि पुणु ।  
पारंभिउ रायहु परिणयणु । 10

घत्ता—तूरहिं वज्जंतहि गलगज्जंतहि तियसेहि कि ण विसंइ महि ॥  
जिणणाहु ण्हवंतिहिं वारि वहांतिहि कि जाणहुं सोसिउ उवहि ॥ ८ ॥

## 9

भालयलइ पट्टु चडावियउ  
चितंतहु तासु णयाणयइं  
पुव्वहं परमाउहि संचलिय  
तडयहं तहि दियेहि सुसोहणइ  
अवल्लोइवि गयणि विलीणु घणु  
वेरगु पट्टयउं जिणवरहु

रायासणि राउ चडावियउ ।  
पालंतहु गाम्मणयरसयइं ।  
चालीस चयारि लक्ख गलिय ।  
अच्छंतहु सुहुं सणिहेलणइ ।  
थिउ महिगयणयणु विसण्णमणु । 5  
हरि सजव वि णंति ण सिवपुरहु ।

३ A समुहाम्हे, P समुहाम्हे. ४ A ध्रुव संभव संभव; P ध्रुव संभव संभव. ५ A आवेप्पिणु.

8 १ AP महद्धियउ. २ A कि किर. ३ A रामावंदणहु ४ A ता तेत्थु. ५ AP पेक्किवि.  
६ T उवणेप्पिणु. ७ AP णिवद°. ८ AP णाहहु. ९ P विसइ.

9 १ P पट्ट. २ A णयरगामसयउ. ३ A दिवमि. ४ AP महु. ५ A पट्टउ.

6 b सुसुहासूपं चन्द्रेण सुहाहि अमृतन.

8 3 a आयत्तउ उर्वान 1 a लोहिउ लोहितम्. 9 a पट्टरत्तउ न्यामिति नम्.  
10 उवणेप्पिणु दत्ता. 11 विसइ उवमिता. 12 उवहि मसुइ.

9 2 a ण जाणयइं न्यावान्वायम्. 6 b हरि सजव उभा मरेगा.

गय मत्ता मरुं वि जणंति मउ  
चामरवाणं नृवु मोडियउ  
सिरि धरियइं वारिणिवारणइं  
तहिं अवसरि लोयंतिय अइय  
जं इंदियसोकगु समुज्जियउं  
यत्ता— जो पइ सवोहइ सो संवोहइ सूरहु दीवउ मूढमइ ॥

पइं मुइवि गुणुभव सामिय संभव को परियाणइ परमगइ ॥ ९ ॥

पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ ।  
भणु कवणु ण कालें तोडियउ ।  
पुणु होंति ण मारिणिवारणइं ।  
ते विण्णवंति भत्तिइ लइय । 10  
तं चारु चारु पइं वुज्जियउं ।

10

आणंदु ण हियवइ माइयउ  
पुणु परिवृद्धि देवावलिहिं  
थिरदीहरहत्थगलत्थियहि  
सण्हंविउ णविउ पोमाइयउ  
दुम्मोउं मुपप्पिणु रज्जंगहु  
परमेसरु पणइणिपाणपिउ  
वहुखगमाणियफलसाउयउं  
परिसेसेप्पिणु सिरिरमणिउरु  
उप्पाडिउ केसकलाउ किह  
सकुसुमु सभसलु सु करिवि करि  
किउ रोसपसायंहं णिक्खवणु  
उववासु करोप्पिणु सावसरि  
सावत्थिहि चरियामग्गु किउ

पुणु तेत्थु पुरंदरु आइयउ ।  
आहंय दुद्धसलिलावलिहि ।  
चामीयरघउपल्हत्थियहि ।  
वत्थालंकारविराइयउ ।  
सिद्धत्थयसिवियारुहु पहु । 5  
णरखयरहिं तियसहिं वहिवि णिउ  
णंदणवणु गंपि सहेउयउं ।  
पणवेप्पिणु देवे सिद्धगुरु ।  
भवकुरुहंमूलपन्मारु जिह ।  
सइरमणें धित्तउ मयरहरि । 10  
रीयहं सहसें सहं णिक्खवणु ।  
वीयइ दिणि दिणयरकरपंसेरि ।  
देविंददत्तणिवभवणि थिउ ।

६ AP गितु. ७ AP गुणणव.

10 १ AP परितुट्ठिहि. २ A आहूउ. ३ A सो ण्विउ. ४ A दुम्मोह. ५ P रज्जु गहु ६ P णरखेयरतियसहिं. ७ P adds after this: आगहणमासि सियकुहुयदिणि, सिलउवरि णिहिउ उइयइणि. ८ A रमणियरु. ९ A मूलु पन्मारु. १० A रोसकसायहं. ११ AP रायहससहसें. १२ A °कयपसरि. १३ P देवेदुदत्त°.

7 b पहु मार्गम्, रहति रुन्वन्ति आच्छादयन्तीत्यर्थः, मुणिधम्ममउ उत्तमधमादिरूप. 8 a मोडियउ भग्नपृष्ठीकृतः. 9 a वारिणिवारणइ छन्नाणि. 10 a अइय आगता. 12 संवोहइ प्रज्वालयति.

10 2 a परिवृद्धि विवर्धिताभि, b आहूय आनीय. 4 a पोमाइयउ प्रशंसित. 5 a दुम्मोउ दुखेन मोचनीयः. 7 a °साउयउ स्वादु, b सहेउयउ सहेतुकसज्ञम् 8 a परिसेसेप्पिणु त्यक्त्वा, °उरु चित्तम् 9 b भवकुरुहंमूलपन्मारु ससार एव कुरुहो वृक्षस्तस्य मूलाना समूहः. 10 b सइरमणें इन्द्रेण. 11 a रोसपसायह रोषतोषाणाम्. 12 a सावसरि निजप्रस्तावे पारणवेलायाम्. 13 b देविंददत्तणिव° इन्द्रदत्तनृप°.

घत्ता—सुररवु मंदाणिलु घणवँरिसियजलु सुरहिउ मणिकोडिहिं सहिउ ॥  
दायारउ पुज्जिउ दुंडुहि वज्जिउं दाणपुण्णुं देवहिं महिउं ॥ १० ॥ 15

## 11

दँतेण ण संकहु चितविउं	जं अण्णहु कासु वि णिम्माविउ ।
जं संजमजोग्गउ वुज्जियउं	दहिसप्पिखीरतेल्लुज्जियउं ।
तं भुंजइ सउवीरोयणउं	पडिसेहियदप्पुंक्कोयणउं ।
गहणंति कहिं वि अहणिसु गमइ	जंपइ ण किं पि सं संसमइ ।
विहरइ मणपज्जवणाणधरु	विसमं जिणक्कप्पं जिणपवरु । 5
तउ एंव करंतहु झीणाइं	चउदहवरिसइं वोलीणाइं ।
कत्तियसियपक्खि चउत्थिदिणि	अवरणिह जम्मरिक्खि वियणि ।
छट्टेणुववासं णिड्डियहु	सुविसालसालतलि संठियहु ।
गइ पढमि वीइ सुक्कुग्गामणि	चउकम्मकुलक्खयसंकमणि ।
उप्पण्णउं केवलु केवलिहि	गयणोवडंतकुसुमंजलिहि । 10

घत्ता—तहु जाएं णाणं णेयपमाणं जे केण वि णं वि चितविय ॥  
ते विवरि अहीसर महिहि महीसर सग्गि सुरिंद वि कंपविय ॥११॥

## 12

खगामिणा	ससामिणा ।
समेयया	अमेयया ।
अमाहरा	रमाहरा ।
मलासयं	णियासयं ।
कुणंतया	शुणंतया । 5

१४ A °वरसिय.° १५ AP गज्जिउ. १६ A दाणवंतु.

11 १ A चित्तियउ. 2 A दुक्खुक्कोहणउं. 3 A सं सम्ममइ. ४ A ण वि चित्तिय. P ण वि चित्तविया. ५ A वि कंपिय, P वि कंपविया.

14 सुरहिउ उरमिवात .

11 2 b उज्जियउं त्यक्तम्. 3 a सउवीरोयणउ काज्जिकोदनम्, b पडिसेहियदप्पुक्कोयणउं प्रतिषेधितदर्पोत्कोचनक्रमम्. 4 a गहणंति वनान्ते. b सं संसमइ आत्मान सम्यक् शमयति. 7 b वियणि वने. 9 a सुक्कुग्गामणि शुक्लव्याने उदरते सति. 12 विवरि पातान्ते.

12 1 a-b खनेत्यादि आकाशगामिना स्वस्वामिना समेता सुरादुराः (12 b) प्राप्ता. मदि संवन्ध.. 2 b अमेयया प्रचुरा. 3 a अमाहरा अलम्बीविनागका., b रमाहरा लम्बीधारका.; 4 a मलेत्यादि मलासयं मलनेपकम्. b णियासयं निजचित्तम्. 5 a कुणंतया कुर्वन्तः; b शुणंतया सुवन्तः.

मुणीसरं	सरो सरं ।	
ण संधण	ण विधण ।	
ण जम्मि सा	मलीमसा ।	
रइच्छिहा	कया विहा ।	
महाजसं	तमेरिसं ।	10
महाइया	पराइया ।	
समासुरा	सुरासुरा ।	
सिमुग्गया	समुग्गया ।	
रसुद्धुरा	इमी गिरा ।	
सुसाइया	अणाइया ।	15
सुवत्तया	अवत्तया ।	
रसंकिया	रसुज्झिया ।	
सरूवया	अरूवया ।	
सुगंधया	अगंधया ।	
सकारणा	अकारणा ।	20
ससंभवा	असंभवा ।	
ससंगया	असंगया ।	
रयासवं	पुणो णवं ।	
देयाणिही	तवोविही ।	
अहंगया	अहंगया ।	25
ण ते णया	वरायया ।	
सरायया	समायया ।	

12 १ P रईच्छिहा. 2 P adds after this: सत्तच्चया, अतच्चया. ३ AP सगंधया. ४ P दयामही.

6 *b* सर इत्यादि स्मरः काम शर व्राणम्. 8 *a* ण जम्मीत्यादि यस्मिन् मुनीश्वरे सा प्रसिद्धा, *b* मलीमसा मलिना. 9 *a* रइच्छिहा रतिस्पृहा, *b* कयाविहा द्विधा खण्डिता पुनर्न संजाता यस्मिन्नित्यर्थः. 10 *b* तमेरिस त ईदृश मुनीश्वरम्. 11 *a* महाइया महादृतास्ते सुरासुराः. 12 *a* समासुग सम युगपत् आसमन्तात् शोभन रान्तीति. 13 *a* सिमुग्गया सि तेषां सुरासुराणा उद्गता नि सृता *b* समुग्गया सम्यगुच्चैर्दशदिक्षु गता. 14 *a* रसुद्धुरा रसाढ्या. 15 *a* सुसाइया हे शोभनश्चासौ सादिश्च सर्वत्रापेण, *b* अणाइया जीवद्रव्यापेक्षया हि अनादिभूत. 16 *a-b* सुवत्तया अवत्तया इत्यादयः सुवत्ता अव्यक्तादिधर्मा शरीरापेक्षया ज्ञानापेक्षया च योजनीयाः. 21 *a* ससंभवा सह सभवेन सुखमद्रावेन वर्तमाना, *b* असंभवा ससाररहिता. 22 *a* ससंगया सह समीचीनेन गतेन ज्ञानेन मयुक्ता, *b* असंगया सङ्गरहिता यदि वा असंगया असप्राप्ता. 23 *a-b* रयासवं पुणो नव कर्माश्रव पुनर्गपि नवम्. 25 *a* अहंगया अभंगक भगरहित देव, *b* अहंगया अघं पापं गता. 26 *a* ण ते णया न ते तव नता. *b* वरायया वराका. 27 *a* सरायया सरागा. नृपतिसहिता वा *b* समायया वञ्चनायुक्ता पञ्चतराः.

खयं गया	महादिया ।	
सइंदिया	अण्णदिया ।	
णिविंदियाँ	णिवंदियाँ ।	30
पसाहिओ	पवोहिओ ।	
कुक्कम्मरं	सुयंतरं ।	
कहंति जे	कुवुद्धि ते ।	
ण्णिसु या	पुरीसुं या ।	
पढंतुं मा	ण ताण मा ।	35
सुसांसया	णिरंसया ।	
सुणीरण	तुहारण ।	
अदुण्णण	बुहा मण ।	
कउज्जमा	महाखमा ।	
चरंति जे	लहंति ते ।	40
महुंणइं	परंगइं ।	
सुहं गया	हयावया ।	
णिरामया	सरामया ।	
णिरंजणा	णमो जिणा ।	

घत्ता—कर्यमाणवखंभहिं सारसरंभहिं वेल्लीदुमंमणिवेइयहिं ॥ 45  
वरधूलीसालहिं णच्चणसालहिं गोउरधूहहिं वेइयहिं ॥ १२ ॥

## 13

जहिं समवसरणु सुरणिम्मविउं गुरु कंठीरवविद्धरं ठविउं ।

५ AP णिवंदिया. ६ A omits this foot. ७ P कुक्कम्मदं. ८ AP णणसु वा. ९ P पुरेसु वा.  
१० A पढंत मा. ११ A सुसंसया. १२ APT महुण्णइं. १३ A माणवहरखंभहिं, K omits कर्यं.  
१४ P वल्ली°.

13 १ A विद्धर.

28 a-b खयं गया क्षय गतास्ते महाद्विजा लिङ्गिनो वा. 29 a सइंदिया द्रव्येन्द्रियसहित, b अणिदिया भावेन्द्रियरहित, अथवा अणिदिया अनिदित. 30 a णिविंदिया मनुष्यवन्दित अथवा णिविमित्यादि नृपं राजानं विप्रां द्विजाः. 32 a कुक्कम्मर कुक्कर्मदम्, b सुयंतरं श्रुतान्तरम्. 35 b ण ताण मा न तेषां लक्ष्मीर्द्विजानाम्. 36 a सुसासया सुष्ठु शाश्वता मोक्षलक्ष्मीरित्यर्थः, अथवा सुसासया शोभनलक्ष्म्या आश्रय, b णिरसया निष्कल. 37 a सुणीरण सुष्ठु निर्मले, b तुहारण त्वदीये. 38 a अदुण्णण दुर्नयरहिते. b बुहामण मते मार्गे बुधाः. 41 b महुंणइं स्वर्गादिलक्ष्मीम्, b परंगइं मुक्तिं वा. 42 b सुहंगया हे देव शुभशरीर. b हयावया हतापदा येन. 43 a गिरामया रामारहित, b सरामया स्वरस्य कामस्यामथो रोग इति सुरासुराणा निर्गता गी..

जहिं सुविहावलउं विलंबिकरु  
जहिं णहणिवडिउं पसूयपयहं  
जहिं छत्तइं तिण्णिण समुब्भियइं  
जक्खिंदमउंडसिहरुद्धरिउ  
जहिं वंति गंति णच्चंति सुंर  
तहिं संणिसण्णु सो परममुणि  
झुणि साहइ जणजम्मंतरइं  
झुणि साहइ मणुयदेवसुहइं  
झुणि साहइ जीवरासिकुलइं

अलिच्चुंबियफुल्लुं असोयतरु ।  
आहंडलडिंडिमु मुयइ सरु ।  
विविहइं चिंधइं चमरइं सियइं ।  
जहिं धम्मचक्कु आराफुरिउ । 5  
विभयंरसपरवस थक्क णरं ।  
मुणिवयणविणिग्गउ दिव्वझुणि ।  
झुणि साहइ भूभुं वणंतरइं ।  
झुणि साहइ णंरतिरियदुहइं ।  
झुणि साहइ बंधमोक्खफलइं । 10

घत्ता—झुणि सुणिवि पबुद्धहं जाइविसुद्धहं णिग्गंथहं मउलियकरहं ॥  
जायउ गयगामिहि संभवसामिहि पंचुत्तरु सउ गणहरहं ॥ १३ ॥

14

तहिं चारुसेणु पहिलउ भंणिवि  
दोसहसइं अवरु दिवहु सउ  
सयतिउ सलक्खु सिक्खुयमइहि  
परमोहिणाणधारिहि मियइं  
पण्णारहसहसइं केवलिहिं  
सहसाइं रिंसिंदहं वसुसयइं  
सउ सहु सहासइं तवसमइं  
सउ सयहं समउ सयवीसइइ  
जायइं वम्मीसरदारहं  
लक्खाइं तिण्णिण रइवाजियहं  
सावियहं लक्ख पंच जि भंणमि

पुणु गणमुणि मेल्लिवि मुणि गणंविं ।  
पुव्वंगधरहं थिउ जिणिवि मउ ।  
एक्कूणतीससहसइं जइहि ।  
छहसयइं रंधसहसंकियइं ।  
एक्कूणवीस पसामियकलिहि । 5  
वेउव्वणरिद्धिहि कयवयइं ।  
मणपज्जवधरिहि धरियसमइं ।  
जइवाइहिं संखं करविं मइइ ।  
दुइलक्खइं एंव भडारहं ।  
दहगुणिय तिण्णिण सहसज्जियहं । 10  
सावयहं तिण्णिण ते हउं मुंणमि ।

घत्ता—अहणिसु कयसेवहं चउविहदेवहं देविहि संख ण दीसइ ॥

संखेज्जतिरिक्खहं इच्छियसोक्खहं धम्मु अधम्मं वि भासइ ॥१४॥

२ AP फुल्ल. ३ A णिवडिय. ४ AP °पवरु. ५ A °मउल°. ६ AP सुरा. ७ A विभिय. ८ AP णरा. ९ P °विणिग्गय. १० P भुवणु अणतरइं. ११ A णरयतिरिय°.

14 १ P भणमि. २ A गणिवि. २ A सिक्खुव°, P सिक्खय°. ३ AP सहु. ४ P सयवीमइहु. ५ AP करमि सख. ६ P मइहु. ७ A जाया. ८ A °दारयह. ९ A भडारयह. १० AP मुणमि. ११ AP भणमि. १२ AP अहम्मु वि हासइ.

13 2 a सुविहावलउ शोभन भावल्यम्, विलंबिकरु प्रस्तुतकिणम् 3 a पयपयरु पुप्पप्रकरः. 6 a वंति वादयन्ति.

14 4 a मियइं मितानि, b रंधसहसंकियइ नवसहस्युक्तानि. 8 a सयवीसइइ शतानां विशत्या.



## 15

महि विहरिवि भवियतिमिरु लुहिवि  
 तहिं दोण्णि पक्ख तणुचाड किड  
 दिक्खहि लग्गिवि पुव्वहं तणउं  
 वद्धाउहिं पुव्वहं यित्ताइं  
 मासम्मि पहिल्लइ पक्ख सिइ  
 णियजम्मरिक्खि संभाइयड  
 छेइल्लड सुक्कज्जाणु धरिवि  
 पुग्गलपरिणामहु णवणवहु  
 ठिड अट्टमपुहइहि अट्टगुणु  
 सुरमुक्ककुसुमरयमहमहिड  
 वड वीयरायरायहु लल्लिड  
 लोएहिं पावित्त पावरहिय

संमेयहु सिंहरु समारुहिवि ।  
 रिसिसहसें सहं पडिमाइ थिड ।  
 चोइहवरिसूणउं लक्खु गड ।  
 लक्खाइं सट्ठि अणुहुत्ताइं ।  
 छट्ठइ दिणि मज्झण्हइ ल्हसिइ । 5  
 अवि घाइचउक्कु वि घाइयड ।  
 किरियाविच्छित्ति झ त्ति करिवि ।  
 गड मुक्कड संभवु संभवहु ।  
 महं पसियड णिक्कलु णाणतणु ।  
 दीवेहिं गंधधूवहिं महिड । 10  
 अग्गिंदमउडमणिसिहिज्जलिड ।  
 अरुहंगभूइ सीसें गहिय ।

घत्ता—जिणाणिव्वाणुच्छवि सच्छरु सविहवि सुरवइ भरहु पणाच्चिड ॥  
 गड णियंघररंगहु सिंगारंगहु पुष्पदंतणियराच्चिड ॥ १५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे संभवणिव्वाणगमणं णाम  
 चालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४० ॥

॥ संभैवचरियं समत्तं ॥

15 १ A सिहरि. २ P रिसिसहसे पडिमाजोएं ठिड. ३ A चउदह°: P वारह°. ४ AP  
 वित्ताइं. ५ AP अणुहुंताइं. ६ P इय वाइ°. ७ A परिमाणहु. ८ AP पुहविहि. ९ P पियवा  
 रगहु वज्जियभंगहु. १० AP omit संभवचरियं समत्तं.

15 1 a लुहिवि स्फेययित्वा विनाय्य. 2 a तणुचाड कायोत्तर्गः. 4 b अणुहुकाइ  
 अनुभूतानि. 5 a मासम्मि पहिल्लइ चैत्रे. 6 a संभाइयड संभावितः. 9 b पसियड प्रदीदु.  
 11 a वड वपुः शरीरम्. 12 b अरुहंगभूइ अर्हत. शरीरमत्स. 13 सच्छरु साप्तगः; सवि  
 ह वि स्वविभावः.

अहिणंदणु इदाणंदयरु णिंदिदियइं णिवारउ ॥  
वंदारयवंदहिं वंदियउ वंदिवि संतु भडारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

असोक्खकंतारयं	हयभवोहकंतारयं ।	
ण जं च कंतारयं	णहवणयम्मि कं तारयं ।	
जैणस्स सं गंगयं	कुणइ जस्स संगं गयं ।	5
विइण्णमलभंगयं	हुणइ वट्टमाणं गयं ।	
सुवण्णरुइरंगयं	जसपउण्णभूरंगयं ।	
विहंसियणिरंगयं	जणियभावणारंगयं ।	
रयं परमघोरयं	असमसंपयावारयं ।	
सुजायमसररीरिणं	णिहणिकुणमसररीरिणं ।	10
जमीसममरच्चियं	गुणणिसेणियाहिं चियं ।	
भहं तमहिणंदणं	पणविऊण धीणंदणं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं  
यदपि च जलधिवलयमधिलंघ्य विधेस्तदनन्तर दिशः ।  
विगलितजलपयोदपटलद्युति कथमिदमन्यथा यशः  
प्रसरदमादमल्लकदनाभारत भुवि भरत सांप्रतम् ॥ १ ॥

A reads °किरणद्धिमण्डलं in the first line ; P reads विधिसूदनन्तर दिशः. P repeats the stanza at the beginning of XLVII. A gives it only here K does not give it here or there.

1 १ AP °विंदहिं. २ AP add जं before जणस्स. ३ AP हणइ. ४ A °मसररीरिणं. ५ P गुणणिसेणि°.

१ - 1 णिं दिं दियइं निन्द्यानि इन्द्रियाणि. 2 व दारयवंद हिं देववृन्दैः. 3 a असोक्खकं-  
तारयं असौख्यजलतारकम्, b हयभवोहकंतारय हतजन्मौघाद्यटवीकम्. 4 a कंतारय स्त्रीरतम् ;  
b कं जलम्, तारय पाण्डुरम्. 5 a स शम्, गंगय गङ्गाजातं जलम्, b संग गय स्वाङ्गं स्वशरीर  
प्राप्तम्. 6 a विइण्णमलभंगयं वितीर्णो दत्तः मलानां भङ्गो येन सः तम्, b हुणइ भस्मीकरोति,  
गयं रोगम्. 7 a सुवण्णरुइरंगय सुवर्णवद्भुचिराङ्गम्, b जसपउण्णभूरंगयं यगःपूर्णभूमण्डलम्.  
8 a °णिरंगय मदनम् ; b °भावणारंगयं षोडशभावनासु रागम्. 9 a रयं आत्मरतम् ; पर परमा-  
त्मानम् ; अघोरयं अरौद्रम्, b असमसंपयावारयं क्रोधसंपदो निवारकम्. 10 a सुजायं सुजातम्,  
असररीरिणं सिद्धम्, b असरीरिणं अश्री दारिद्र्यं सा एव ऋणम्. 11 a जंईस+अमरच्चियं अमरैः  
पूजितम्, b गुणणिसेणियाहिं चिय गुणपक्तिभिः प्रवृद्धम्. 12 b धीणंदणं बुद्धिविवर्धकम्.

भणामि तच्चवसियं	किर कहं तिणा ववसियं ।	
वणे चडुलवाणरे	सुहयमाणिणीवाणरे ।	
मुएउ मा णा सणं	सुणउ पावणिण्णासणं ।	15
इमं सुकियवासणं	लहउ सम्मईसासणं ।	

यत्ता—जिं व सुयकेवलि जिं व तियसवइ जिवं पुणु थुणउ फणीसरु ॥  
हउं णरु जीहासहसेण विणु किं वण्णविं परमेसरु ॥ १ ॥

## 2

सालतालतालीदुमोहए	मेरुसिहरिपुंवे विदेहए ।	
संचरंति करिमयरसंतई	वहइ गहिर सीया महानई ।	
तीई तीरि दाहिणइ पविउले	चूयचारफलधुलियसुंविउले ।	
वारिवाहधाराहि सित्तए	मुग्गमासजं वीहिछेत्तए ।	
छेत्तवालिणीसइसंगए	दिण्णकण्णसंठियकुरंगए ।	5
वेकंरंतवहुदुद्धगोहणे	वच्छमहिसवसहिंदसोहणे ।	
सच्चधण्णल्लणे अणूसरे	सरतरंतकिणरवहूसरे ।	
कंजपुंजरुंजंतमहुलिहे	कयलिललियलवलीलयागिहे ।	
णिसुयमहुरपियमाहवीसरे	पहियहिययगयविसमसरसरे ।	
उच्छुवीलणुल्लियरसजले	मंगलावईभूमिमंडले ।	10
कोट्टवट्टुल्लालदुग्गमं	रुद्धं कुद्धलुद्धारिसंगमं ।	
खोल्लखाइयावूढकोमलं	पंचवण्णकेलिल्लिचंचलं ।	
मणिगणंसुमालाविरोहियं	कूयं दीहियावाविसोहियं ।	
कणयघडियघरपंतिपिंगलं	णिच्चमेव संगीयमंगलं ।	
अमियरायरिद्धीपवट्टुणं	रयणसंचयं णाम पट्टुणं ।	15

६ A चडुलवाणरे, P चवलवाणरे. ७ A जिण पुणु.

2 १ A पुव्वविदेहए. २ A संचरंत°. ३ A ताइ. ४ P पविउले. ५ A मुग्गमाह°. ६ P छत्तए. ७ A वेकरंतवहुदुद्ध°, P बुक्करंत°. ८ A पुंजरयरत्त°. ९ P विसमसरसरे. १० A उच्छुपीलणु°, P उच्छुपीलणु°. ११ A कोट्टवट्टुल्लालदुग्गमं, P कोट्टवट्टुल्लालसंगमं. १२ P कुद्धलुद्धारिसंगमं. १३ A पंचवण्णकेलिल्लि°. १४ P दीविया°. १५ A पवट्टुणं.

13 a तच्चवसियं तस्य चरितम्; b तिणा तेन. 14 b सुहयमाणिणीवाणरे सुभगमानिनीना कामवाणे पीडाजनके. 15 a मुएउ मा णा सणं ना पुरुष मा त्वनं गवदं मुञ्चतु, मौनेन शृणोत्विद कथान्तरमित्यर्थ.. 16 a सुकियवासणं सुकृतवर्षणम्.

2 2 a संतई संततिः. 3 b सुविउले पक्षिसमूहे. 4 b छेत्तए क्षेत्रे. 7 b अणुसरे क्षारभूमिरहिते. 9 b विसमसरसरे कामवाणे. 12 a खाइया खातिका परित्ता, b केलिल्लि घना. पताका. 15 a अमियरायरिद्धी प्रचुरराजलक्ष्मी..

तत्थ वसइ राया महाबलो  
जस्स लच्छिकंता उरत्थले  
दीहकालमविर्यल्लमणोरहं  
कि कुणामि णिच्चं परासुहं  
माणसं दमेणं णियंतियं

भुयबलि व्व धीरो महाबलो ।  
रमइ कित्तिरमणी महीयले ।  
भुंजिऊण रज्जं रमासुहं ।  
हो<sup>०</sup> मुयामि इणमो परासुहं ।  
एम तेण सहसा विचितियं । 20

घत्ता—घणवालहु बालहु णियसुयहु विरइवि पट्टणिवंधणु ॥  
सो पासि विमलवाहणजिणहु जायउ राउ तवोहणु ॥ २ ॥

## 3

सो णिगंथु गंथुं ण समीहइ  
ण पसंसाइ करइ पहंसिउं मुहुं  
दूसंतउ परु पिसुणु ण दूसइ  
लाहालाहइ जीवियमरणइ  
जिणिवि कुहेउवाय णयचंडहं  
एयारह अंगइ अवगाहिवि  
बंधिवि कयसोलहकारणहल्लु  
णिहणयालि अणसणु अब्भसियउं  
कामकोहधरणीरुह खंडिवि  
णाणसासु वट्टारिउ चंगउं

सणियउं वियरइ पावहु बीहइ ।  
णउ केण वि णिदिउ मण्णइ दुहुं ।  
हिंसंतउ मणावि णउ हिंसइ ।  
समु जि समणु संठिउ समचरणइ ।  
तिण्णि तित्तरसय पासंडहं । 5  
दंसणु सुद्धि बुद्धि आराहिवि ।  
सिरिअरहंतणाउं गोत्तुज्जल्लु ।  
देहखेत्तु रिसिहल्लिएं किसियउं ।  
पासहिं दिहिवइ दढयर मंडिवि ।  
सासु मुयंतें मुक्कु णियंगउं । 10

घत्ता—सुहझाणें मुउं सो परमरिसि णिम्मल्लु णिरुवमरूयउ ॥  
अहमिंदु अणुत्तरि धवलतणु विजयविर्माणइ ह्यउ ॥ ३ ॥

## 4

जलहिसर्माणि  
कालि णिग्गए

तीसतियहिए ।  
सुरेहं मग्गए ।

१६ AP °मविलय° . १७ A °मणोहर . १८ A °रमाहर १९ P कुणोमि . २० हो ण जामि .

3 १ P ण गंथु . २ AP पहसियमुहु . ३ A परपिसुणु ण दूसइ , P परि पिसुणु ण दोसइ .  
४ AP तिण्णि तिसट्टिसयइ . ५ AP दंसण° . ६ A रिसिहलि सक्तिसियउ . ७ A मुरउ . ८ AP  
°रुवउ . ९ A अणुत्तर . १० P °विमाणे .

4 १ A समणिए , P समसिए . A २ सुरहर गए .

18 a °अ वियल° निर्विघ्नम् 19 a परासुहं परप्राणवातकम् , b परासुह अनीवाद्युभम् .

3 1 b सणियउ जनै . 3 b मणावि मनागपि . 5 a कुहेउवाय कुत्तेतुवादा . 8 a  
णिहणयालि मरणकाले , b °हल्लिएं कर्षकेण . 10 a णाणसासु ज्ञानमेव धान्यम् .

4 1 b °तियहिए त्र्यधिके . 2 b सुरहं मग्गए देवानां रीत्या .

तम्मि सुंदरे	हं पुरंदरे ।	
थिइ सुहासए	आउसेसए ।	
धरियंजीवए	पढमदीवए ।	5
वइरिखंडणा	भरहमंडणा ।	
अत्थि सुहयरी	कोसलाउरी ।	
रिसहकुलरुहो	पुण्णससिमुहो ।	
तहिं महीसरो	णाम संवरो ।	
तस्स इत्थिया	साहियत्थिया ।	10
चारुहारिया	सुइसरीरिया ।	
भवणलच्छिया	मउलियच्छिया ।	
णिसिविरामए	चरमजामए ।	
पेच्छए हियं	सिविणमालियं ।	
गालियमयजलं	अमरमयगलं ।	15
कुंदंपंडुरं	गोवइं वरं ।	
णहरदारुणं	दुरयवइरिणं ।	
बहुविलासिणी	णलिणवांसिणी ।	
भमररामयं	कुसुमदामयं ।	
णयणपरिणयं	सिसिरकिरणयं ।	20
णिहयंतिमिरयं	तरुणमिहिरयं ।	
रमणरसणयं	मीणमिहुणयं ।	
सजलकमलयं	कलसजुवलयं ।	
रमियंरोयरं	पंकयायरं ।	
मयरभीयरं	खीरसायरं ।	25
लच्छिसासणं	हरिवरासणं ।	
हरिणिहेलणं	फणिणिकेयणं ।	
सुमणिसंगहं	अवि य हुयवहं ।	

घत्ता—इय दंसणणिउरुवउ सइइ सुहसुत्ताइ णिरिक्खिउ ॥

सुविहाणइ संवरंणरवइहि जं जिह तं तिह अक्खिउ ॥ ४ ॥ 30

३ A थिय. ४ P reads this line as पढमदीवए धरियजीवए. ५ AP कोसलापुरी. ६ P सरीरया. ७ A मीलियच्छिया. ८ A चरिम°. ९ P reads this line as : गोवइं वर कुदपडुर. १० A कमलवासिणिं. ११ A णिहिय°. १२ A तरुणि°. १३ P रमियखेयर. १४ A णिउरंवउ. १५ AP सुहं सुत्ताइ. १६ A सवरणिवइहि.

4 a सुहासए शुभाश्रये. 17 b दुरयवइरिणे गजशत्रु सिंहम्. 20 a °परिणयं °मनोसम्. 21 a °रोयर °चक्रवाकम्. 29 दंसणणिउरुवउ स्वप्नसमूहः.

5

तं णिसुणिवि जसधवलियमहियलु  
जो तिहुवणमंगलु तिहुयणवैइ  
सो तुह होसइ सुउ मई णायउं  
तहिं अवसरि दिवि सक्कं बुक्किउं  
सिरिअरहंतु देउ अँवलोयउ  
मा होज्जउ तहु कि पि दुगुंछिउ  
ता सौँकेयणयरु वित्थारिउ  
फुरियपसंडिपिंडुं पविरइयउ  
कडयमउँडंमंडियवरगत्तउ

कहइ कंतु कंतहु सिविणयफँलु ।  
जं ज्ञायंति जोइँ गयमलमइ ।  
णञ्चहि सुंदरि चंगउं जायउं ।  
संवरँमहिवइ भुंजउ सुक्किउ ।  
सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेव्वउ । 5  
अहु णिहिणाह करहि हियइच्छिउं ।  
अहिणवु धणणं सव्वु सवारिउं ।  
जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयउ ।  
उयरसुद्धिपारंभणित्तउ ।

घत्ता—सोहम्मसुरिंदेँ पेसियउ सव्वउ पुण्णपसत्थउ ॥

10

घरु रायहु आयउ देवयउ मंगलद्ववविहत्थउ ॥ ५ ॥

6

छम्मासइं वसुहार वरिद्धी  
ता वइसाहहु पंडरपक्खइ  
विजयणाहु तिहुयणविक्खायउ  
मयणविलासविसेसुप्पत्तिहि  
पुणु सो णिहिवइ णिवँहि पसाहिइ  
धरणीयरुगयणिहिआकरिसइं  
जसससहरकरधवलियदिग्गइ  
जइयहुं सायरसरिसहुं झीणइं  
तइयहुं माहमासवारसियहि  
वारँहमम्मि जोइ कोमलतणु  
णाणत्तयजाणियजगरूयउ

थिय जिणँजणाणि जाम संतुद्धी ।  
छट्टीवासरि सत्तमरिक्खइ ।  
करिरूवँ सिविणंतरि आयउ ।  
उयरि परिट्ठिउ संवरपत्तिहि ।  
प्रंगँणि छडरंगावलिसोहिइ । 5  
णँव वि मास माणिककइं वरिसइ ।  
संभविं संभवपासविणिग्गइ ।  
दहलक्खइं कोडिहि चोलीणइं ।  
पालेयंसुकरावलिसुसियहि ।  
वारहअणुवेक्खाभावियमणु । 10  
देउ चउत्थउ जिणु संभूयउ ।

5 १ P °हलु. २ A तिभवणवइ. ३ A जोणि. ४ A मयणायउ. ४ AP बुक्किउं, ५ A सवरणरवइ भुजइ. ६ A अविलेवउ, P अवलोइउ. ७ A सक्केयणयरु. ८ AP समारिउ. ९ A °पिंडु. १० A °मउलमंडिय°.

6 १ A णियजणणि. २ P वयसाहहु. ३ AP पडुर°. ४ A पवरपमाहिइ. ५ AP पंगणि. ६ P धरणीयले. ७ P णवमासइ. ८ A ज ससहरकरधवलियदिग्गइ; P °धवलिय, दिग्गइ. ९ A संभवि. १० AP संभवपासहु णिग्गइ. ११ A पालेयसकरावलि°; P पालेयसुकलावलि°. १२ AP वारहयमि.

5 4 a बुक्किउ कथितम्. 6 b अहु णि हि णा ह दे कुंवर. 8 a °पंगंदि° सुयणंम. 6 2 b सत्तमरिक्खइ पुनर्वसौ. 4 b °पत्तिहि पत्त्याः. 7 a °दिग्गइ °दिग्गजे. 9 b पालेयंसु° हिमांशुश्चन्द्रः; °सुसियहि उज्ज्वले.

घत्ता—जिणजम्मणु आसणथरहरणि जाणिवि कुंजरु सज्जिउ ॥  
महि आयउ ससुरु सुराहिवइ सुरकरचमराहि विज्जिउ ॥ ६ ॥

7

पुंरि परियंचिवि पइसिवि णिवघरि  
सयणुकिरणकविलियपविउलणहु  
वहुंभवकयवयणियंमियणियमइ  
कमलकुलिसकलसंकियकमजुउ  
णंद वद्ध जय देव भणेप्पिणु  
अंकि चडाविउ चंपयगोरउ  
जायउ जंतहु गुरु रहसुब्भहु  
पडिवाहणहयवाहणसेणिहि  
वारणु चरणचारु संजोईउ  
जिणदेहच्छविइ अहिहवियउ  
ससिरवितारापंतिउ लंघिवि

कित्तिमु सिसु दिण्णउ जणणिहि करि ।  
पोमरायपहणिहतंविणहु ।  
विसमविसयविसहरणहयरवइ ।  
विरइयरइसंवरु संवरसुउ ।  
सुरणाहं मुणिणाहु लप्पिणु । ७  
गोरो सो तेण जि अवियारउ ।  
अमरविमाणहं घणवहि संकहु ।  
इंइ कह व मंदसंदाणिहि ।  
मंदरु मंदरुइल्लु पलोइउ ।  
गुरुयणतेणं कवणु ण खवियउ । 10  
तं तहु तणउ सिहरु आसंघिवि ।

घत्ता—तहिं पंडुसिलायल्लु ससिधवल्लु तित्थु पसणु णिहाल्लिउ ॥  
अहिमंतिवि पाणिउं सयमाहिण सीहंवीदु पक्खाल्लिउ ॥ ७ ॥

8

कयविहिपरियम्मं छिण्णदुक्कम्मजम्मं  
घिवंइ दसादिसासुं सेयभिंणारणीरं  
वहुदसणविसाले कक्खणक्खत्तमाले  
पविहरममराणीसेवियं देववंदं  
जलियकविलवालं भासुरालं करालं  
पयपहयउरब्भं भाविणीभावियासं

संइ सिरिअरहंतं तम्मि अर्रोहिउं तं ।  
कुणइ सुरवरिंदो सिद्धमंताहियारं ॥ १ ॥  
चलियचमरलीले संठियं पीलुवाले ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामोमरिदं ॥ २ ॥  
दिसि पसरियजालं धूमचिघेण णीलं । ५  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो हुयासं ॥ ३ ॥

१३ AP °जम्मणि.

7 १ A पुरु. २ A सयणुकिरण°. ३ P °पविमल°. ४ A बहुतव°. ५ AP °णिवसियणियमइ

६ A कमलकलसकुलिसंकिय°. ७ AP गोरउ तेण जि सो अवियारउ. ८ A संजोयउ, P सजोइउ.

९ A पसत्थु. १० P सीहपीदु.

8 १ A °कुक्कम्म°. २ A सयसिरि°. ३ AP °अरिहंत. ४ A आराहिजण. ५ P खिवइ. ६ A

°ममराणीसंजुयं देवदेवं, P °ममरेहिं सेवियं देवविदं. ७ P अग्निवाल पहाल. ८ P °णिद्धणीलाल्लिमे.

7 - 2 a सयणुकिरण° स्वतनुप्रभा, b °पहणिह° प्रमासद्वगानि. ३ b °णहयरवइ गरुडः

6 b गोरो (गोरउं) ज्ञाननिरत. 9 b मंदरुइल्लु मन्दकान्ति. 13 सयमहिण इन्द्रेण.

8 - 3 a कक्ख° वरत्रा, b पीलुवाले ऐरावते. 4 a अमराणी इन्द्राणी अफरसो वा, b अम-  
रिदं इन्द्रम्. 6 a °उरब्भं मेघम्, भाविणीभावियासं भामिन्या निजभार्याया सामान्यस्त्रीणा वा  
भावितं सानुरागमवलोकितं आत्यं येन.

जलयपडलकालं णिद्धर्णालं व सेलं  
करवलइयदंडं छाहिसंसत्तसंतं  
भसलगरलमालाकालरोमं तुरंतं  
जुवइजणियकामं साहिरामं करामो  
करिमयराणिविद्धं हारणीहारतेयं  
वरुणममरसारं माणसे संभरामो  
तरुपहरणपाणि वाइसंदिण्णरायं  
चहुलगमणसीलं लंघियायासपारं  
विमलमणिवियाणं मंदरहीसमाणं  
धणयमधणदुक्खातंकपकावहारं  
सगणगुणगणालं भालभीमच्छिवत्तं  
फणिवलयकरगुग्गिण्णसुलं दुरिक्खं  
अमयमयसररं कूरकंठीरवत्थं  
जणणयणसुहंके संकमुच्छिण्णसंकं  
मणिफुरियफणालं दित्तिदिच्चक्कवालं  
महिविवरणिवासं रम्मपोम्मावईसं

महिसमुहसमीरुहीणजीमूयमालं ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो कयंतं ॥ ४ ॥  
अरुणणयणछोहं रिंछमावाहयंतं ।  
जिण्हवणविसेसे णेरियं वाहरामो ॥५॥ 10  
धुवंधवलधओहं कामिणीए समेयं ।  
जिण्हवणविसेसे सायरं वाहरामो ॥ ६ ॥  
सुरहिपरिमलंगं माणिणीजायरायं ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो समीरं ॥ ७ ॥  
कयमयरविमाणं देहभाभासमाणं । 15  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो कुबेरं ॥ ८ ॥  
वरविसयसहंदुक्खित्तपायं महंतं ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो तियक्खं ॥ ९ ॥  
णवकुवलयमालीमालियं कौतहत्थं ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो ससंकं ॥१०॥20  
अहिणवरविवणं कुम्मयदीणिसेणं ।  
जिण्हवणविसेसे वाहरामो फणीसं ॥ ११ ॥

घत्ता — णियवाहणपहरणपियरमणिचिंधावलिहिं विराइय ॥

इंदे संहं इदावाहणए लोयवाल संप्राइय ॥ ८ ॥

9

पवं पत्ते पंकयणेत्ते विस्से देवे णविऊणं  
दुहणासणयं सुहसासणयं दम्भासणयं ठविऊणं ।

९ A °वडइय°. १० A छाहिससत्तगतं, P छाहिसंसत्तवत्तं. ११ P कसणभसलमालाकार°. १२ P साहिरामो. १२ A °मयरणिविद्ध. १४ AP धुयधवल°. १५ AP वायसं. १६ P कामिणीजाय°. १७ A °विताणं. १८ AP कणयमयविमाणं. १९ P °तंसकावहार. २० A सगुणगुण°. २१ AP °भीमच्छिवत्त. २२ A वरविसविसहत्थं खित्त°, P वरसियवसहपुढे खित्त°. २३ A °करगुग्गिण्ण°. २४ A °मालियाकुतहत्थ. २५ A सुक्कमुच्छिण्ण°, P सक्कमुच्छिण्ण°. २६ AP कुम्मपिटी°. २७ A °रवण. २८ A फणिंद. २९ A सहु देवाणदएण. ३० AP सपाइय.

9 १ P दुहणासणयं.

7 a जलय° मेघा, b °जीमूय° मेघा. 8 a छाहि° यमस्य भार्या तस्यां ससत्तं आसक्त सत्तं स्वान्त करण चित्त यस्स. 9 b °छोह विक्षेपम्. 10 a साहिरामं सानुरागम्. 11 a करिमयर° गजाकारशुण्डाग्रयुक्त मकरम्. 13 a वाइसंदिण्णरायं वातप्रमी मृगी तस्या सदत्तरागम्. 16 a धणयं धनदम्. 17 b वसहंदु स्कन्धकुटीति प्रसिद्धम्. 18 b तियक्ख व्यभ शिवम्. 20 A सुहंके अमृत-जलम्, संक सचिहम्, b ससकं चन्द्रम्. 24 इदावाहणए इन्द्रस्य आह्वानेन,

9 1 विस्से सर्वान्, 2 सुहसासणयं सुखाना शासनम्.



सरगंभीरं पणवुञ्चारं साहाकारं काऊणं  
 अग्धं पत्तं गंधं धूवं चरुवं दीवं दाऊणं ।  
 दुण्णयंतावं मिच्छागावं दुक्कियभावं मैहिऊणं 5  
 पव्वयसरिसे पयणियहरिसे कंचणकलसे गहिऊणं ।  
 आसासंते रवियरवंते गयणयलंते चरिऊणं  
 भंगरउद्दे खीरसमुद्दे खिण्णं खीरं भरिऊणं ।  
 कीलालोलं गेयरवालं सुरवरमालं रइऊणं 10  
 ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थाहत्थं लइऊणं ।  
 सोहम्मणेण ईसाणेण तियसयणेणं सण्हविओ  
 दाउं वासं कुसुमं भूसं तेहिं जिणंदो पुणु णँविओ ।  
 सिंगुत्तुंगं वसियकुरंगं मेरुं मोत्तुं वारिदरिं  
 णरंसोक्खयरिं कोसलणँयरिं आगंतूणं पुरिसहरिं ।  
 णयणिरयाणं गुरुपियराणं दाउं णहयलदिण्णपया 15  
 हरिसविसट्टं रइउं णट्टं देवा सग्गं झ त्ति गया ।  
 घत्ता—सज्जणहं णेहु दिहि दुत्थियहं तरुणिहि पेम्मपहावउ ॥  
 णाहँ वहुंते वड्हियउ पिसुणहं मणि संतावउ ॥ ९ ॥

## 10

जोव्वणभावे देहि <sup>१</sup> चडंतें	घडियौमाणें कालें जंतें ।
देहपमाणु पत्तु रणचंडहं	सइइं तिण्णि सयइं धणुदंडहं ।
सिसुकीलाइ रमियगंधव्वहं	दोण्णि दहद्धलक्ख गय पुव्वहं ।
फणिसुरणरमणयणाणंदणु	जणणें हैक्कारिउ अहिणंदणु ।
भणिउ देव किं देवि सकित्तणु	भुवणत्तयसामिहि सामित्तणु । 5
लइ लइ रज्जु अज्जु जाएसंवि	हउं परलोयकज्जु थँहेसविं ।
तहिं अवसरि आयउ सकंदणु	पुरि घरि गयणि ण माइउ सुरयणु ।
वाइउ सुसिरु तंति घणु पुक्खरु	गायउ कि पि गेउ महुवरक्खरु ।

२ A दुण्णयमावं. ३ P गहिऊणं. ४ P हत्थाहत्थे गहिऊण. ५ A तियसवरेणं. ६ P सण्हविउ.  
 ७ P णविउं. ८ A धीरदरिं. ९ P सोक्खयरी. १० P णयरी. ११ A णरणियराण. १२ P रइयं  
 णट्टं. १३ P णेहपहावउ.

10 १ A देह चडंतें. २ AP घडियामालें. ३ A कोक्काविउ. ४ P साहेसमि. ५ A वायउ  
 सुसरु. ६ A गेय.

5 म हि ऊ णं मानयित्वा. 7 आ सा सं ते उच्छ्वासमध्ये; र विय र वं ते सूर्यकिरणवति. 9 सुरवरमाल  
 सुरवरश्रेणिम्. 10 जलवाहे कलगान्, जियजलवाहे जितमेघान्. 11 तियसयणेणं त्रिदशजं  
 13 वारिदरिं निवारितशत्रुं जलयुक्तगुम्फं वा. 15 णयणिरयाण न्यावरतानाम्.

10 3 b दो णि द ह द्द लक्ख सार्धद्वादशलक्षणि. 8 a पुक्खरु मृदङ्गमुखम्.

पुरउ णडंतें अमराणिहापं  
सायरसरिसरजलसंघापं  
हार् तार जोयणवित्थिणी

वइयालियदिण्णासीवापं ।  
पुणु ण्हाणिउं कुमारु सुररापं । 10  
णं णहि गंगाणइ अवइणी ।

घत्ता—जलधार पडइ सिरि दुद्धेरिय देउ तांइ ण वि हम्मइ ॥  
भांवइ महं णंतु वि घडंसयहिं विंदुएण णउ तिममइ ॥ १० ॥

## 11

मउडपट्टधरु वीर्यविणिट्टिउ  
विणिहयराउ ताउ रिसि जायउ  
अच्छइ जाम सपुत्तु सपरियणु  
गय छत्तीस लक्ख लक्खद्धे  
भुयणभाणु णहि णयणइं ढोयइ  
पेच्छइ सत्तभूमिघरसिहरइं  
पेच्छइ धयमालउ उल्ललियउ  
पेच्छइ चंदसाल मुहसालउ  
पेच्छइ दाणसाल णडसालउ  
पेच्छइ हट्टमग्ग चउदारइं  
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्टउ

पिउसंताणि णिओइ अंहिट्टिउ ।  
पँहु वि महि भुजंतु सजायउ ।  
रक्खइ पोसइ माभीसइ जणु ।  
सहुं पुव्वहं सिरिसोक्खसमिद्धे ।  
ता गंधव्वणयरु अवलोयइ । 5  
पेच्छइ जालगवक्खइं पवरइं ।  
पेच्छइ पुत्तलियउ चित्तलियउ ।  
पेच्छइ लेहसाल गयसालउ ।  
मणुयारोगसाल असिसालउ ।  
पेच्छइ पहु आरामविहारइं । 10  
तहिं तं पुरु पुणु तेण ण दिट्टउ ।

घत्ता—णासंतें णयरें साहियउ णासु अत्थि नृर्वरिद्धिहि ॥  
किं णरु रइपरवंसु परिभमइ उज्जमु करइ ण सिद्धिहि ॥ ११ ॥

## 12

ता लोयंतिपहि संबोहिउ  
उट्टिउ सयलदेवडिंडिमसरु

आएणिंदें ण्हाविउ पसाहिउ ।  
चडिउ विचित्तहि सिवियहि जिणवरु ।

७ AP ण्हाविउ. ८ A हारसुतारतोयविच्छिणी, P हारसुतारजोयविच्छिणी. ९ A सिरिसिहरि, PT दुद्धरेस. १० AP तहिं ण वि हम्मइ. ११ A णावइ but records a p भावइ. १२ AP घडसएण. १३ A जं विंदुएण, P तं विंदुएण.

11 १ A धीरविणिट्टिउ, P पीढि णिविट्टु. २ AP पहिट्टिउ. ३ P विणियराउ. ४ P एहु वि महि भुजतु. ५ A णयरि. ६ A धयमालाउल्ल<sup>०</sup>. ७ P हट्टमग्गि. ८ AP णिवरिद्धिहि. ९ A<sup>०</sup>परवसु मूढमइ उज्जमु.

12 १ A आइवि इंदें, T आयंदेण आगतेनेन्द्रेण.

9 a<sup>०</sup>णि हाए सघातेन, b वइयालिय<sup>०</sup> वैतालिका बन्दिन. 11 a हार धारा. 12 दुद्धेरिय अतिशयेन महती. 13 ति म्मइ आर्दीक्रियते.

11 1 a वी य वि णि ट्टिउ भार्यास्वीकृतः ( द्वितीया=भार्या ), अथवा वीता विगेषेण गता स्त्री तथा अचिनष्ट सहित इत्यर्थ . 2 b स जा य उ जायासहित . 9 b मणु या रो ग सा ल वैद्यशाला.

12 1 b आ ए णिं दे आगतेनेन्द्रेण, प सा हि उ शृङ्गारितः.

णरखेयरसुरेहिं पणवेप्पिणु  
णिहियउ पुरवाहिरि णंदणवाणि  
अवरणहइ णियसंभवरिक्खइ  
मण्णेप्पिणु घरु गिरिवरकंदर  
भावु करेवि अहप्पयरासिहि  
दावियणिट्ठे छट्टुववासं  
मुक्कउ जीयधणासाकेयइ  
पंथु पलोयइ जंतु ण खंडइ  
लहुयउं गरुयउं गेहु ण चितइ

वाहुदंडखंधेहिं वहेप्पिणु ।  
मग्गसिरइ सिइ वारहमइ दिणि ।  
अप्पुणु अप्पउ भूसिउ दिक्खइ । 5  
दढमुट्ठिहिं उप्पाडिय कंदर ।  
ते सक्केण घित्त पयरासिहि ।  
जइ हूयउ सहं णिवहं सहासं ।  
वीयइ दिणि पइइ साकेयइ ।  
भे<sup>३</sup> भे भवइ व घरि घरि हिंडइ । 10  
प्रंगणु प्राविवि पुणु वि णियत्तइ ।

घत्ता—जहिं रंज्जु कियउ तहिं तेण पुणु दरिसिउ भिक्खविहाणउं ॥  
भयलज्जामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं ॥ १२ ॥

## 13

सयमहदत्तें पहु पाराविउ  
पंचविहु वि जयजयपभणंतिहि  
अक्खयदाणु भणेप्पिणु णिग्गउ  
जो ण समिच्छइ विप्परियावहु  
जेण मूलु रइवालहु छिण्णउं  
जेण सहियवउं णाणे भिण्णउं  
णीसंगेण णिरुत्तु विहारिउ  
पूसैहु मासहु पक्खि पहाँलइ  
उहुवरि सत्तमि जेणुप्पाइउं

तहु देवहिं दाणुच्छवु दाविउ ।  
आयासहु कुसुमाइं धिवंतिहिं ।  
गउ वणु चरणविसेसहु लगगउ ।  
पहि चरंतु ण करइ इरियावहु । 5  
दाणु जेण अभयावहु दिण्णउं ।  
अट्टारहवरिसइं तवु चिण्णउं ।  
पुणुं वि जेण तं छट्टु संवारिउं ।  
चउदहमइ दिणि सिणतरुमूलइ ।  
केवलणाणु तिलोउ वि जोइउ ।

घत्ता—सो मोहमहामाहिरुहजलणु जिणवरु जिर्यपंचिदिउ ॥ 10  
गिन्वाणहि समउं पराइएण वाणबलेण पवंदिउ ॥ १३ ॥

२ A मग्गसिरासिइ, P माहमासि सिइ. ३ A भे भे विरइ व, but records a p भवइ इति पाठ'. ४ AP पंगणु पाइवि. ५ A रज्जि.

13 १ P णीसंगत्तु. २ P पुणिवि. २ A संचारिउ, P समादिउ. ३ AP पउसहु. ४ AT पहिलइ. ५ AP सिणितरु°. ६ A पंचेदियउ. ७ AT वालबलेण, P वणवालेण. ८ A पवदियउ.

5 a स भ व रि क्ख इ जन्मनक्षत्रे पुनर्वसौ. 6 b कंदर केशा. 7 a अहप्पयरासिहि अधो मध्ये पयोराशोः समुद्रस्य, अथवा अधप्रकर सघात अश्राति विध्वंसयत्येवशीलस्य भगवत. 9 a °आसाकेयइ आशारज्ज्वा.

13 1 a सयमहदत्तें इन्द्रदत्तेन, पाराविउ पारणं कारित. 4 a विप्परियावहु विप्र-  
ऋचा वेदानां मार्गः, b इरियावहु ईर्यावध. 5 a रइवालहु कामस्य. 6 a सहियवउ स्वहृदयं  
स्वचित्तम्. 8 a पहालइ प्रभाले शुक्ले. 11 वाणबलेण वाणा गीर्वाणा बलं सैन्य यस्य, तेन इन्द्रेण.

## 14

थुणइ सुरिंदु सरइ गुण समणें  
 तुहं जि अणंगु अणंगहु वंछहि  
 तुहं सरूखु किं तुह आहरणें  
 तुहं अकामु किं तुह णारियणें  
 सुद्धिवंतु तुहं किं तुह ण्हाणें  
 तुज्जु ण वइरु ण भउ णउ पहरणु  
 तुहं जि सोम्मं सोम्मं किं किज्जइ  
 गुणणिहि तुहं तुह किं किर थोत्तं  
 हरिकरिगिरिजलणिहिहि समाणउ

तुहं जिं देउ किं देवागमणें ।  
 अणुदिणु णिकल्लगइ पर वंछहि ।  
 तुहं सुयंधु किं तुह सबलहणें ।  
 तुहं अणिदु किं तुह वरसयणें ।  
 दिव्वासहु किं तुह परिहाणें । 5  
 तुज्जु ण रइ णउ कीलाविहरणु ।  
 तुह छविहउ रवि काइं भणिज्जइ ।  
 तो वि थुणइ जणवउ सहियत्तं ।  
 पइं किं भणइ वराउ अयाणउ ।

घत्ता—ससिसूरहं सरिसउ पइं परम भत्तिइ कइयणु अक्खइ ॥ 10  
 गयणयलहु अवरु वि तुह गुणंहं पारु को वि किं पेक्खइ ॥ १४ ॥

## 15

इंदणरिंदचंदसूराउल्लु  
 बहुपालिद्धय अट्ट महाधय  
 धम्मचक्कु अग्गइ अवइण्णउं  
 पुण्णमणोरह जे ते णं रह  
 जसु तवेण कंपइ भूमंडल्लु  
 छत्तइं दुरियायवविणिवारइं  
 जासु मोक्खुं सोक्खु जि जायउं फल्लु  
 अवरु वि अरुहहु उत्तमसत्तहु  
 आयासहु णिवडइ कुसुमांवालि

समवसरणु जिणरायहु राउल्लु ।  
 पसुकोट्टइ दक्खालिय ह्य गय ।  
 प्रंगणुं सुरणैररमणिहिं छण्णउं ।  
 मउलियकर थिय संमुह णव गह ।  
 अवसें तासु होइ भामंडल्लु । 5  
 चमरइं भवसीणत्तणतारइं ।  
 सो असोउ किं वण्णामि चल्लदल्लु ।  
 आसणु सासणु तिजगपट्टत्तहु ।  
 सरु भीयउ भासइ ण सरावालि ।

14 १ P वि. २ AP तुह अणगु जो अगु ण इच्छहि. ३ A सरुउ, P मुनुउ. ४ AP अणिदु. ५ A सोमु सोमिं कि. ६ A भणमि. ७ A गुणह सामि पारु को लक्खइ, P गुणं सामिय पारु कु लक्खइ.

15 १ AP रावल्लु. २ AP पगणु. ३ P सुवत्तरमणिहि. ४ A ते णयइ. ५ AP दुरियायवविणिवारइ. ६ A भवसीणत्तणु, P भवसीणत्तणु. ७ AP मोक्खसोक्खु. ८ AP पणदल्लु. ९ A कुसुमाउलि.

14 1 a सरइ गुण समणें स्मरति गुणान् त्वमनमा. 2 b सबलहणें समालोचनेन विवे-  
 पनेन. 3 b अणिदु अनिद्र. 4 b दिव्वासहु दिगभ्यस्त. 5 a सोम्मं चत्तेण. 6 b विहउ कम्म  
 एत तिरस्सुत.

15 2 a पालिद्धय इन्द्रध्वजा. 6 a दुरियायवो दुरितकार. 7 b मोक्खसोक्खु  
 9 b सरु स्मर

रंजउं अलि तइ सिथ ण मेरी  
दुंदुहि खणु वज्जति ण थक्कइ  
दिव्वे धोसें भुवणु वि सुज्जइ

णिच्छउ सामिय आण तुहारी । 10  
लोउ धम्मु णिसुणहुं णं कोक्कइ ।  
अप्पउं परु परलोउ वि वुज्जइ ।

घत्ता—सिरिवज्जणाहु णिवु धुरि करिवि सीलविमलजलवाहं ॥  
तिहिं सहियउ सउ संतासयहं संजायउ गणणाहं ॥ १५ ॥

## 16

अट्टाइज्जसहस णिरणंगहं  
पण्णासइ संजुत्तहं भिक्खुहुं  
अट्टाणउवि सैयाइं तिणाणिहिं  
एक्कुणवीससहसइं विक्किरियहं  
सावयगुणठाणेहिं सहासहिं  
एक्कारहसहसाइं विवाइहिं  
तवसंजमवयतणुरुहमाइहि  
भोयभूमिसमसहसइं चेर्यहि  
अज्जियसंख एम जाणिज्जइ  
पंचलक्ख सावियहं णिरुत्तउ

रिसिसीहहं सिक्खियपुव्वंगहं ।  
तीससहसदोलक्खइं सिक्खुहुं ।  
सोलह सहसइं केवलणाणिहिं ।  
संख भणमि मणपज्जवरिसियहं ।  
छहसपहिं अण्णु वि पण्णासहिं । 5  
रिसिहिं तिणिण लक्खइं सज्जाइहि ।  
संजमधरिहिं सुद्धकुलजाइहिं ।  
लक्ख तिणिण रिदुसयइं वि वेयहि ।  
लक्खत्तउ सावयहं गणिज्जइ ।  
देवहि देविहिं माणु ण उत्तउ । 10

घत्ता—विहरंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतहु भव्वहं ॥

अट्टारहवरिसइं ऊणयरु एक्कु लक्खु गउ पुव्वहं ॥ १६ ॥

## 17

इय पुव्वहं पण्णास जि लक्खइं  
गयइं ण किं पि वि धांइ णियाणइ  
हरिणहअविहयकरिक्कुंभत्थलि  
लंविक्करु सहं मुणिसंदोहं

गणहरमुणिवरसाहियसंखइं ।  
माससेसि थिय आउपमाणइ ।  
तहि संमेयगिरिंदवणत्थलि ।  
दुणिण पक्ख थिय जोयणितोहं ।

१० AP रंजइ. ११ A धरिवि धुरि.

16 १ A रिसिसीसहं. २ P सयइं तिणाणिहि. ३ AP एयारह. ४ A omits this foot. ५ A omits this foot. ६ A विरयहिं. ७ P लक्खतइउ. ८ AP add after this : मिलिउ तिरिक्खविंदु संखेज्जउ, एत्तियजणहं करिवि साहिज्जउं. ९ AP कहंतहं. १० A वरिसइं.

17 १ AP ठाइ. २ A माससेस थिय°. ३ A हरिणहअविहय. P हरिणहयारि हय°.

10 a सिं थ प्रत्यञ्चा. 14 संतासयहं उपशान्तचित्तानाम्.

16 1 a णिरणंगह नि कामानाम्, अथवा निरणं अप्रच्छादनमङ्गे वेषाम्. 8 a मोयभूमि-सम° त्रिंशत्, b रिदु° षट्; वेयहि जानीहि.

17 2 a णियाणइ अवसाने. 3 a °अविहय° °अहत°.

वइसाहहु मासहु सियछट्टिहि  
 खंतिवयंसियाइ संमाणु  
 णाहु चारुचारित्तु विवज्जइ  
 किरियाभट्टु उँहु संचलियउ  
 जीवपक्खिवंदिग्गहपंजरु  
 अग्गिकुमारहि अग्गि विइणणउ  
 चउदहभूयगामरइ छंडिय  
 गउ गउ गउ जि पडीवउं णायउ

सत्तमभवि हियचंदाइट्टिहि । 5  
 एकल्लउ समाहिघरु आणुउ ।  
 गग्गउ थिउ णिल्लुज्ज ण लज्जइ ।  
 सिद्धिविलासिणीहि जिणुं मिलियउ ।  
 इँदें पुज्जिउ मुक्ककलेवरु ।  
 सर्वइ चवइ णहि जंतु सउणणउ । 10  
 अहिणंदणेण मोक्खपुरि मंडिय ।  
 मज्झु वि होज्जउ तंहिं जि णिकेयउ ।

घत्ता—जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ ॥  
 महं हियवइ भरहाणंदर्यरपुप्फयंतससु भावइ ॥ १७ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे अहिणंदणणिव्वाणगमणं  
 णाम एकचालीसमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ४१ ॥

॥ अहिणंदणचरियं समत्तं ॥

४ A सत्तमभवियहिं चंदा°. ५ AP णिल्लु. ६ A उवसंचलियउ. ७ P जणु. ८ AP सकु, but T सवइ  
 स्वर्गपति. ९ A तं जि णिकेवउ, P वहि जि णिकेयउ. १० P °णंदयरु. ११ AP omit the line.

५ b सत्तमभविहियचंदाइट्टिहि सत्तमे भवे विहिताया चन्द्रेणाकृष्टौ आगमने, चन्द्रयुक्ते सत्तमनक्षत्रे  
 इत्यर्थ. 8 a किरियाभट्टु अपरिस्पन्द. 10 b सवइ स्व.पतिः, इन्द्र इत्यर्थः. 12 a पडीवउं प्रतीपम्,

पंचमगङ्गमणु पद्म पंचगुरुहं पहिलारउ ॥  
पंचमतिथयरु पणविवि पंचेसुवियारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिज्जियसंवणं	संतं सवणं ।	
णिज्जियरुवं	णिरुवमरुवं ।	
णिज्जियगंधं	सुरहियगंधं ।	5
णिज्जियसरसं	वज्जियसरसं ।	
णिज्जियकोहं	वरवक्कोहं ।	
णिज्जियमाणं	सुहरिसमाणं ।	
णिज्जियमायं	चत्तपमायं ।	
णिज्जियलोहं	गयसल्लोहं ।	10
मुणियपयत्थं	भासातत्थं ।	
कयसुत्तत्थं	जं दिव्वत्थं ।	
पालियमहिमं	धल्लियमहिमं ।	
महिलाकुमइं	मोत्तुं कुमइं ।	
इच्छियसुमइं	णमिउं सुमइं ।	15
तस्स पवित्तं	वोच्छं वित्तं ।	

A has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza:—

सोऽय श्रीभरतः कलङ्करहित. कान्तः सुवृत्त शुचिः  
सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्घ्यो गुणैर्भासते ।  
वंशो येन पवित्रतामिह महामन्नाह्वयः प्राप्तवान् ( प्रापितः ? )  
श्रीमद्वल्लभराज— कटके यश्चाभवन्नायक. ॥ १ ॥

No other known MS of the work gives it.

1 १ AP पंचसु तित्थयरु. २ P °समणं. ३ P °समणं. ४ A °सुरहिसुयधं; T सुरहिसुगंधं.  
५ A °सुवतत्थ. ६ T लघियमहिम.

1 2 पंचेसु° कामः. 3 a णि ज्जियसवण निर्जितं श्रवणेन्द्रियं यस्य; b सवणं महासुनिम्.  
4 a णि ज्जियरुव निर्जित रूपग्राहीन्द्रियं चक्षुर्येन. 5 a °गंध °घ्राणेन्द्रियम्, b सुरहियगंध सुरभिः  
शरीरगन्धो यस्य. 6 a °सरसं °कामसुखम्, b सरस विशिष्टाहार सरागवचनं च. 7 b वरवक्कोहं  
उत्तमवाक्यौघम्. 8 b सुहरिसमाणं शोभनेन हरिणा इन्द्रेण समानं पूजन यस्य. 10 b °सल्लोहं माया-  
भिथ्यानिदानशल्यसघातम्. 11 b भासातत्थ निर्वाधवचनम्. 12 a कयसुत्तत्थ अनुष्ठितागमार्थम्,  
b दिव्वत्थ दिग्वाससम्. 13 b धल्लियमहिम त्यक्ता मही लक्ष्मीश्च येन. 14 a महिलाकुमइ महिला  
भार्या कु पृथ्वी ताभ्यां निवृत्ता मतिर्यस्य, b कुमइं कुवृद्धिम्. 15 a इच्छियसुमइ वाञ्छितसुमतिम्.  
16 b वित्तं चेष्टितं चरितम्.

घत्ता—जिह तें लईउ वउ जिह हुयउ अणुत्तरि सुरवरु ॥  
जिह जायउ सुमइ तिह कहमि समासइ वइयरु ॥ १ ॥

## 2

जलवरिससीयए दीवए बीयए  
भमियमत्तंडए तमपडलखंडए  
तरुणणरमिहुणपरिवद्धियसणेहए  
णडियवरहिणणडे सरिवरुत्तरतडे  
दुक्खणिग्गमणरइरमणवणासिरिसही  
तम्मि गच्छंतसामंतभडसुहयरी  
घुसिणरससिंचिए हसियगयणंगणे  
अमलिणा सणलिणा जत्थ जलवाविया  
मंदिरे मंदिरे सइरंगइ गोमिणी  
महुसमयसंगमो उववणे उववणे  
वूढसिगारए जोव्वणे णवणवे  
जत्थ सव्वो जणो जित्तगिवाणओ  
किंकरा बंधुणो दाणसंमाणिया  
मंतियं चितियं चारु कज्जं पुणो

कुंभयण्णेहिं णिक्खित्तमहिबीयए ।  
फुल्लतरुसंडए धौदईसंडए ।  
पुव्वंसुरसिहंरिणो हरिदिसिविदेहए ।  
पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे ।  
जत्थ तत्थ त्थि पिहु पुक्खलावइ मही ।  
सेयसउहंवाली पुंडरिगिणि पुरी ।  
मोत्तियकणंचिए प्रंगणे प्रंगणे ।  
कुररकारंडकंलहंससंसेविया ।  
हम्मइ महलो णच्चए कामिणी ।  
रमइ वइसवणओ आवणे आवणे । 10  
वसइ वरसरसई माणवे माणवे ।  
तत्थ पहु अत्थि णामेण रइसेणओ ।  
रायलच्छी चिरं तेण संमाणिया ।  
मोक्खसोक्खंकरो णत्थि रज्जे गुणो ।

घत्ता—उवसमवाणिणं सिंचेप्पिणु किज्जइ सीयलु ॥  
भोयतणेण पुणु पज्जलइ भीसु कामाणलु ॥ २ ॥

## 3

गच्छामु इच्छामु  
इय भणिवि समु चिणिवि  
मोहणिव मेलेवि

गुरुपाय पेच्छामु ।  
जिणु थुणिवि मणु जिणिवि ।  
अइरहहु मंहि देवि ।

७ A लयउ वउ, P लहउ वउ.

2 १ AP कुभयण्णेहिए खित्त°. २ A धायई°. ३ AP °णरमिहुणए वद्धिय°. ४ A हरि-  
दिस°. ५ AP °सिहरिए. ६ A सउहाउली. ७ AP पुंडरिंकिणि. ८ AP पंगणे पंगणे. ९ A  
समलिणा. १० AP कलहंसजुयसेविया. ११ A सइ रमइ but gloss स्वेच्छाचारिणी. १२ AP  
वइसवणु पुणु. १३ AP °पाणिणएण. १४ AP भोयत्तणेण.

3 १ P एच्छामु. २ P मही देवि.

2 1 b कुभयण्णे हिं घट्टे कुम्भगणनामिर्वा. 3 b हरिदि सि पूर्वदिशि. 4 a °वरहिणणडे  
मयूरनटे. 9 a सइरगइ स्वेच्छाचारिणी. 15 उवसमवाणिण उपगमजलेन. 16 भोयतणेण  
भोगा एव तृणं तेन.

3 3 b अइरहहु मंहि देवि अतिरथस्य भूमिं दत्त्वा.



घल्लहहु णंदणहु  
 प्रायंति वउ लइउ  
 रामाहिरामेसु  
 दुव्वारवारणइं  
 भावेण भावेवि  
 जिणसुत्तु जिणवित्तु  
 गुरुपुण्णु अज्जेवि  
 मउ करिवि संणासु  
 णिवसेइ कंतम्मि  
 कालेण दीहरहं  
 सरिसाउ माणियउं  
 पुणु तस्स सुहभाउ  
 सक्केण जाणियउ  
 घणयस्स णेहेण  
 इह जंनुदीवम्मि  
 चिरु वसियसयरम्मि  
 मेहरहु पुहईसु  
 हंविही सुओ ताहं  
 पुरु करहि सोवण्णु

तं अरुहणंदणहुं ।  
 हियवउ ण विम्मिह्यउं ।  
 इट्ठेसु कामेसु ।  
 सोलह वि कारणइं ।  
 णीसट्ठु ववसेवि ।  
 जिणणाउं जिणगोत्तु ।  
 मोहं विसज्जेवि ।  
 हुउ वइजयंतीसु ।  
 तं वइजयंतम्मि ।  
 तेत्तीस सायरहं ।  
 णियंवंध णीणियउं ।  
 छम्माससेसाउ ।  
 संबंधु भाणियउ ।  
 हरिसुद्धदेहेण ।  
 भो भरहखेत्तम्मि ।  
 साकेयणयरम्मि ।  
 पिय मंगला तासु  
 जिणु जाहिं पियराहं ।  
 ता झ त्ति बहुवण्णु ।

5

10

15

20

घत्ता—वज्जहिं मरगयहिं वेरुलियहं गयणुब्भासणु ।  
 जक्खेणं णिम्मंविउं कोसलपुरु पावविणासणु ॥ ३ ॥

## 4

पत्थंतरण जणमणरामे  
 मउपल्लंके णिहायंती  
 पेच्छइ देवी सिविणयपंती  
 गयणाहं गोमंडलणाहं  
 पोमं पीणियपुहईणाहं

वासहरे णिसि पच्छिमजामे ।  
 हंसी विव कमले णिवसंती ।  
 तुहिणतारमुत्ताहलकंती ।  
 पिंगलचलणयणं मयणाहं ।  
 दामं रंजियभसलसणाहं ।

5

३ AP जित्तिरिसंदणहु. ४ AP add after this. मुण्णित्तणामासु रविकिरणधामासु. ५ AP प्रायंति तउ. ६ AP विंमविउ. ७ AP उवसेवि. ८ AP सुउ. ९ AP तं. १० P णियवंधणियउ. ११ A होही. १२ A बहुपुण्णु. १३ AP णिम्मियउं.

4. १ A लच्छीवियसियकमलसणाहं; P पोमापीणियं.

5 a प्रायंति पादान्ते. 7 a दुव्वारं संसारः. 12 a कतम्मि कमनीये. 14 b णी णियउं निर्जाणम्. 17 b हरिसुद्धदेहेण हर्षोद्द्युषितशरीरेण. 23 वज्जहिं वज्रहीरैः.

4. 5 a पोमं पद्मा लक्ष्मीः.

ताराणाहं वासरणाहं	झसजुयलं तडिजुयलगुणाहं ।	
कलसजुयं मंगलकुलणाहं	कमलसरं कीलियकरिणाहं ।	
तुंगतरंगं तीरिणिणाहं	वइसणयं च ससावयणाहं ।	
गेहं सुवसियसुरवरणाहं	अवरं पवरं थियफणिणाहं ।	
रयणगणं विम्हियधणणाहं	दीहसिहालं साहाणाहं ।	10
इय दैहुं पुच्छइ णियणाहं	जाया अज्ज दिट्ठसिविणाहं ।	
भो सोलहपुरिल्लगयणाहो	ताणं कहसु फलं मह णाहो ।	
तं णिसुणिवि पभणइ णरणाहो	होही पुत्तो तुह जगणाहो ।	
सँव्वणहं सँव्विदसमच्चो	देवो णं हु सो भण्णइ मच्चो ।	
हूप हरिभणणे णिरँवज्जे	सइसरीरपक्खालणकज्जे ।	15
आया देवी हिरि <sup>१४</sup> सिरि कंती	लच्छी बुद्धी दिहि मँइ कित्ती ।	

घत्ता—अणवइण्णि अरुहे पहिलउ जि जाम छम्मँसिउ ॥

ताम धणाहिवेण धणधारहिं नुँवघरि वरिसिउं ॥ ४ ॥

## 5

णीलियदिसावणइ	मासम्मि सावणइ ।	
तहिं सुद्धवीयाइ	दूरं विणीयाइ ।	
गन्मम्मि अवयरिउ	जणणीइ उरि धरिउ ।	
सो वइजयतँदु	पुण्णिमइ णं चंदु ।	
कयजयरवालाइ	आवेवि लीलाइ ।	5
कैरधरियवीणाइ	सहुं तियससेणाइ ।	
तं णयरुं तं भवणु	सा जणणि सो जणणु ।	
अंगंतरंगत्थु	वंदेवि मुँणितित्थु ।	

२ A णिज्जियधणणाहं, P विंमियधणणाह. ३ P दिट्ठ. ४ A णिवणाह. ५ A °सिविणोह. ५ A जे सोलह°. P जो सोलह°. ६ AP °गयणाहं. ७ AP णाह. ८ AP महिणाहो. ९ P जयणाहो. १० P सव्वणह सविंद°. ११ A देवो णउ भण्णइ सो मच्चो, P देवो ण हि सो भण्णइ मच्चो. १२ AP हरिभवणे. १३ A णिरुवज्ज. १४ P सिरि हिरि. १५ P सइ. १६ P छमासिउ. १७ AP णिवघरि.

5 १ A जणणीउरे. २ P करि धरिय°. ३ AP मुणि तेत्थु.

6 b तडिजुयलगुणाह विद्युद्युगलसदृशं चञ्चलमित्यर्थः.. 7 a मंगलकुलणाहं मङ्गलसमूहप्रधानम्. 8 a तीरिणिणाहं समुद्रम्; b वइसणय आसनम्, ससावयणाहं सिंहयुक्तम्. 10 b साहाणाहं स्वाहानायम् अग्निमित्यर्थः. 11 b दिट्ठसिविणा दृष्ट स्वप्नो यया सा. 12 a पुरिल्लगयणाहो पुरिल्ल प्रथमो गजनाथो येषाम्. 15 b °पक्खालण° शरीराभ्यन्तरशुद्धि 17 अणवइण्णि अनवतीणे सति, पूर्वमेवेत्यर्थः .

5 2 b दूरं विणीयाइ अतिविनीतया. 8 b मुणितित्थु तीर्थप्रायं मुनिम्.

गड सयमहो तेत्थु	सविमाणु तं जेत्यु ।	
रयणप्पहाकिट्टि	पुणु विहिय वसुविट्टि ।	10
जक्खीकडक्खेण	तूसेवि जक्खेण ।	
ता जाव णवमास	संपुण्णविहलास ।	
केवलसिरीरिद्धि	अहिणंदणे सिद्धि ।	
हयदियहपांडीहिं	णवलक्खकोडीहिं ।	
जइया गया ताहं	सायरसमाणहं ।	15
तइया महंतेण	पुण्णेण होंतेण ।	
चित्ताइ पिउजोइ	पविमलदिसाटोई ।	
तिण्णाणमयदिट्टि	पंचमउ परमेट्टि ।	
संभूउ सो जाम	संखुहिय सुर ताम ।	20

घत्ता—णाणावाहणहिं दिसि दिसि झुल्लंतवडायहिं ॥  
आइउ अमरवइ सहं चउंविहअमरणिकायहिं ॥ ५ ॥

## 6

पाविऊण पट्टणं	देवि तिप्पयाहिणं ।	
गंपि रायमंदिरं	णिम्मिऊण णिब्भरं ।	
बंधुचित्तविब्भमं	अण्णवालसंकमं ।	
वज्जपाणिणा पुणो	वंदिओ सयं जिणो ।	
अंकप णिवेसिओ	सूहवो सुहासिओ ।	5
कुंभकंठबंधुरो	चोइओ ससिधुरो ।	
पत्तओमरायलं	पंडुरं सिलायलं ।	
तम्मि देहमाणवो	तेण दिव्वमाणवो ।	
णाहओ णिरूविओ	भत्तएहिं भाविओ ।	
पावतावहारिणा	दुद्धरासिवारिणा ।	10
देवएहि ण्हाणिओ	पुष्पगंधमाणिओ ।	
आलयं पुण्णाणिओ	जेहि सो वियाणिओ ।	

४ P हयदियहणाडीहिं. ५ AP पविमलदिसाटोइ, T दिसाभोइ दयदिशाटोपे. ६ P adds after this: एयादसिए पक्खि, सिए चंदे महारिक्खि. ७ A वहुविहअमरं.

6 १ A वज्जपाणिणो. २ AP मरालयं but A corrects it to नुरालयं; gloss in K अमराचल. ३ P सिलालयं. ४ A माणवे. ५ A माणवे. ६ A णाहए. ७ A पुणो णिओ.

14 a हय दिय ह पा डी हिं गुणितदिवमपरिपाटीभिः. 17 b दि सा टो इ दयदिशाटोपे.

6 3 a अण्णवालं कुत्रिमवालः. 6 a वंधुगे मनोगः. 7 a अमरायलं नमरायलं मेरुः. 8 a देहमाणवो शरीरश्रिया अभिनवः. 9 a णिरूविओ न्याभितः. 11 b मणिओ दृग्णिः.

ते जयम्मि धण्णया  
मंडणेहिं राइओ  
जोइएहिं झाइओ  
अप्पिओ विपंकए  
वज्जिणा जिणेसरो  
संसिऊण तं णिवं

णाणिणो र्खउणिया ।  
किंणरेहिं गाइओ ।  
अत्थिणत्थिवाइओ ।  
माउंपाणिपंकए ।  
जीयलोयणेसरो ।  
कोसिओ गओ दिवं ।

15

घत्ता—सुरसीमंतिणिहिं थणथण्णएण वहारिउ ॥

सुमइसमग्घविउ पड्डु सुमइ भणिवि हक्कारिउ ॥ ६ ॥

20

## 7

पुव्वाण गिब्वाणकीलाइ कयसोक्ख  
अइऊण ता णवर दणुयारिराएण  
सिंचेवि सुइंसलिलधाराणिवाएहिं  
सवलहिवि कप्पूरचंदणपयारेहिं  
कलरवतुलाकोडिकंचीकलावेहि  
वद्धो सिरे पड्डु देवाहिदेवस्स  
अंधाइं बहिराइं धणविहवहीणाइं  
महि भुंजमाणस्स दिब्वाइं सोक्खाइं  
ता चित्तिं चित्तिणिज्जं जिणिंदेण  
तं चयमि तउ करमि संचरमि मग्गेण

कुमरत्तणेणेय बोलीण दहलक्ख ।  
भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण ।  
संमहिंवि णवमालइंपारियाएहिं ।  
भूसेवि केऊरहारेहि दोरेहि ५ ।  
णच्चेवि विब्भमहिं हावेहिं भावेहिं । 5  
णिर्व्विधकामावहो णिव्विलेवस्स ।  
संपीणयंतस्स काणीणदीणाइं ।  
गलियाइं पुव्वाइं णवँलक्खसंखाइं ।  
रज्जेण मह होउ भववेल्लिकंदेण ।  
विसहिंदच्चिण्णेण जडकसरदुग्गेण 10

घत्ता—गिरिकक्करि पड्डु महुकारणि जिह हयकरहउ ॥

रज्जरसेण तिह भणु महियलि को किर ण णिहउ ॥ ७ ॥

८ A समुण्णया, P सउण्णया. ९ A विकपए. १० समाउपाणिपंकए. ११ PT सुमइ समणियउ  
and gloss in T सुमति समर्पिता अतिशयवती येन. १२ P सुम्मइ.

7 १ P अविऊण. २ P सिंचेवि सो सलिल°. ३ A सम्मोवणिव°. ४ P °परियाएहिं. ५ A  
डोरेहिं. ६ AP णिव्वध°, T णिव्वध सातत्यम्. ७ P णवत्रीसलक्खाइ.

13 b सउ णिण या सपुण्याः. 15 b अत्थि णत्थि वा इ ओ स्यादस्ति स्यान्नास्तीति वादक. प्रतिपादकः.  
16 a विपंकए निष्पापे. 17 b जीयलोयणेसरो जीवलोकस्य सूर्यः. 18 b कोसिओ  
देवेन्द्रः.

7 2a अइऊण आगत्य. 3 b समहिंवि पूजयित्वा, b °परियाएहिं पारियात्रपुष्पैः. 4 a  
सवलहिवि विलेप्य. 5 a °तुलाकोडि° नूपुरम्. 6 b णिव्विध° सातत्यम्, कामावहो कामविध्व-  
सकस्य. 10 b विसहिंदच्चिण्णेण वृषभनाथो धुर्यो गौश्रतेन आचरितेन. 11 महुकारणि मधुरनिमित्तम्,  
°करहउ उष्ट्रः.

## 8

अणुभासियं तं जि लोयन्ति<sup>१</sup> विबुहेहिं  
तिपुरिल्लकल्लाणविहि तेहिं संविहिउ  
मुक्काइं वत्थाइं भीमाइं सत्थाइं  
लुंवेवि कुंतलकलावो वि कौतलैइ  
सो देवदेवेण घित्तो समुद्दम्मि  
मणपज्जउप्पणणाणेण सुवसिल्लु  
णीसंकु णिकंखु णिम्मुकुदुविहासु  
वइसाहसियणवमि पुव्वणहवेलाइ

घत्ता—अवरहिं दियहि पुणु संसारमहणवतारउ ॥

पुरवरु सउमणसु चरियाइ पइट्टु भडारउ ॥ ८ ॥

आवेवि देवेहिं पज्जणपमुहेहिं ।  
सिवियाइ णेरुण णंदणवणे णिहिउ ।  
गहियाइं सत्थाइं णियधम्मसत्थाइं ।  
सहुं छट्ठिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलइ ।  
दुद्धं बुकल्लोलमौलारउद्दम्मि । 5  
छट्ठोववासत्थु णीसंगु णीसल्लु ।  
सियलेसु णिद्दोसु णीरोसु णीहासु ।  
आलिं गिओ सामिओ दिक्खवालाइ ।

10

## 9

तत्थ सो पेमणामेण राएण संभाविओ  
पंचचोज्जाइं जायाइं दाणिस्स तंस्सालए  
वीसवासाइं घोरे गहीरे तवे संठिओ  
तम्मि दिक्खावणे वायहल्लंततालीदले  
आइमे मासए चंदजोण्हंकिए पक्खए  
इच्छियं णो सइत्तम्मि रायाणसंमाणसं  
मेरुधीरेण हंतूण कम्मारिकूरं वलं  
आसणाणं पयंपेण पायालए पणया  
माणवा माणवाणं णिवासाउ संचल्लिया  
आगओ वित्तसच्चू ससुरो सतारो ससी  
तिण्णि वाणासणाणं सयाइं सरौरुणओ

घत्ता—सुरवइअहिवहिहि महिर्वइहिं मि णियणियसत्तिइ ॥

पारद्धउ थुणहुं सुमईसरु परमइ भत्तिइ ॥ ९ ॥

भावन्तेण सत्तीइ भत्तीइ भुंजाविओ ।  
लोयणाहो भंमंतो वसंतो गिरिदालए ।  
ता रओ दूसहो दुम्महो दुज्जओ णिट्ठिओ ।  
णिच्चलं ज्ञायमाणेण ज्ञेयं<sup>३</sup> पियंगूतले ।  
वोरसीए इणे पच्छिमत्थे मघारिक्खए । 5  
तेण मोत्तूण भत्तं तिरत्तं च कारुण सं ।  
सव्वदव्वावलोयं समुप्पाइयं केवलं ।  
कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिहुणया ।  
वाहणोहेहि खं ढंकिंयं मेइणी डोल्लियाँ ।  
जोइओ दीहणीलालिमालाजडालो रिसी 10  
अंगवण्णेण सोवण्णवण्णं समावण्णओ ।

8 १ P लोयन्त°. २ AP कुंतलइ. ३ P °कल्लोलवेलारउद्दम्मि.

9 १ A हम्मालए. २ P समतो. ३ A जायं. ४ A वारसीए दिणे; P गारसीए इणे. ५ P सइत्त. ६ A पक्कपेण. ७ P हल्लिया. ८ AP महिवइहि णविउ णियसत्तिइ.

8 1 b पज्जण° इन्द्र. 2 a ति पुरिल्ल कल्ला ण वि हि तृतीयोऽग्रकल्याणविधिः. 4 a कौतलइ  
पुष्पमालया सह. 7 a णि म्मुक्कदु वि हा सु निर्मुक्कदुष्टविभाषण, द्विविधाया इहपरलोकाशा येन; b सि य लेसु  
शुक्कलेइय. S b दिक्खवालाइ दीक्षा एव बाला तरुणी तथा.

9 2 a दा णि स्स दानवतः. 3 b रओ रज कर्म. 5 b इणे आदित्ये; पच्छिमत्थे अस्ताचर  
प्राप्ते. 6 a सइत्तम्मि स्वचित्ते, ग या ण स मा ण स गज्ञा संमानसुत्तम्, b स सग्गइ S b णि हु ण या  
दुर्नयगहिता. ( निद्रोत्थिता ? ). 10 a वित्तसच्चू वृषशत्रुचिन्द्रः.

## 10

जय देव णिप्पाव	णिकोव णित्ताव ।	
जय तुंग णिब्भंग	दिव्वंग णिव्वंग ।	
जय वाम णिव्वाम	णिक्काम णिद्धाम ।	
जय धीरं संसार-	कंतारणित्थार ।	
जय संत विककंत	परमंत अरहंत ।	5
जय कंत कुकयंत	कुणयंत भयवंत ।	
जय संथ मयमंथ	णिग्गंथ सिवपंथ ।	
जय दित्त तमच्चत्त	अणिमित्तजगामित्त ।	
जय राय रिसिराय	णीराय णिम्माय ।	
जय णंद रुइरुंद-	मुहयंद बुहयंद ।	10
भुजगिंद भूमिंद	खयरिंद तियसिंद ।	
णित्तंद णिहंद	मुणिवंदसयवंद ।	
जयणाह णिण्णाह	णिव्वाह दुव्वाह ।	
समयार सिदूर-	मंदारकणियार-	
सुरधित्तसियरत्त-	सयवत्त सुविचित्त ।	15
कुसुमोहकयसोह	णिल्लोह णिम्मोह ।	
जय तिक्ख दुणिरिक्ख-	तवपक्खधुवसोक्ख-	
फलसाहि महं देहि	सुसमाहि लहुं बोहि ।	

यत्ता—इय वंदिउ सुमइ जीहासयहिं सहसक्खें ॥

चउदारहिं सहिउ किउ समवसरणु ता जक्खें ॥ १० ॥ 20

## 11

मइंदासणं लच्छित्तुंगत्तंवासं  
सुरुम्मुकसेलिंधविट्ठी विसिद्धा

वरं आयवत्तत्तयं चंदभासं ।  
पडंती सराणीसरोलि व्व दिट्ठा ।

10 १ A णित्ताव णिकोव, २ P वीर, ३ A तवतत्त, ४ A सिरिराय, ५ P णीमाय, ६ P adds after this अणवद्, ७ A तववेक्ख.

11 १ A तुंगत्तु, २ A आयवत्त तय, ३ A सेलधविट्ठी.

10 2 b णिव्वंग निर्दोष, 3 a वाम मनोज्ञ, णिव्वाम स्त्रीरहितः, 5 a विककत कर्मनिर्मुल्लने विक्रमोपेतः, b परमत परो मन्त्र, 6 a कुकयत कुत्सित कृतान्तो यस्य, 7 a संथ स्वस्थ, 10 b बुहयंदे त्यादि बुधचन्द्रादिभिर्मुनिपर्यन्तैर्वन्द्यः, 13 b णिव्वाह वाधारहित, 14 a समयार उपग्रामाचार, 15 a सियरत्त शुक्करक्त° 17 a-b दुणिरिक्ख दुर्धर तप, पक्षे मते यस्य.

11 2 a °सेलिध° शिलीन्ध्रपुष्पम्, b सराणीसरोलि व्व स्मरत्येय सरोलि त्राणपंक्तिरिव.

ण सा तस्य काही समारं वियारं  
 तवेणुम्भवाए बुहाणंदिरीए  
 णहे सुम्मए दुंदुही गज्जमाणो  
 अम्भवो वि देवस्स पाए णवंतो  
 चला चामराली मरालीलिसेया  
 असोयहुमो दिव्वपक्खिदरावो  
 सुणिज्जंति दव्वत्थपज्जायमेया  
 गणिज्जंति कम्माइं छज्जीवकाया

मणुम्मोहया ते हया जेण दूरं ।  
 विहामंडलं कुंडलं णं सिरीए ।  
 मुहालोयणेणेय विद्धत्थमाणो । 5  
 भिसं दीसए साणुकंपं चवंतो ।  
 सुभासाविभासाहि गिज्जंति गेया ।  
 जगुम्मोहणो भारहीए पहावो ।  
 मुणिज्जंति लोएहिं पंचत्थिकाया ।  
 पवहुंति देहीण चित्ते विवेया । 10

घत्ता—पुच्छंतहु जणहु संदेहतिमिरु संणिरसइ ॥

जलि थलि णहि विवरि तं णत्थि जं ण जिणु सासइ ॥ ११ ॥

## 12

संड सोलहउत्तरु गणहरहं  
 दुण्णि सहस चत्तारि सय  
 दोण्णि लक्ख चउपण्ण पुणु  
 अवरु वि पण्णासइ सहिय  
 ऐक्कारहसहसइं परहं  
 देवधित्तकुसुमंजलिहिं  
 चउसयअट्टारहसहस  
 दहसहास चउरो सयइं  
 तेत्तिय पुणु पण्णासजुय  
 लक्खइं गुत्तिसमय गणमि  
 सरिसइं वंभीसुंदरिहिं  
 णिच्चमेव मउलियकरहं  
 पंचलक्ख घरचारिणिहिं  
 विहरंतहु तहु महिठाणाइं

पुव्ववियाणहं मुणिवरहं ।  
 णिच्चपउंजियजीवदय ।  
 सहस तिण्णि सय तहिं जि भणु ।  
 पत्तिय सिक्खुव सवरहिय । 5  
 अत्थि तेत्थु अवहीहरहं ।  
 तेरहसहसइं केवलिहिं ।  
 वेउव्वियहं सुज्झाणवस ।  
 मणपज्जवहहं हयमयइं ।  
 वाइ तासु णिप्पणसुय । 10  
 सहसइं अवरु तीस भणमि ।  
 तहु जायइं संजमधरिहिं ।  
 तिण्णि लक्ख सावयणरहं ।  
 णारिहि अणुवयधारिणिहिं ।  
 वीसवरिसपरिहीणाइं ।

४ P मणुम्मोहयंता हया. ५ AP कौंडल. ६ A संगंधो वि. ७ P मगलाणिमेया. ८ P सुभासाहि  
 भासाहि. ९ K दिव्वत्थ° but gloss द्रव्यार्थ°. १० AP भासइ.

12 १ AP सड जि ससोलह. २ AP एयाह°. ३ P चउरो व सटं. ४ A मणपज्जवहं मण-  
 मयइं; P मणपज्जवहु वि हयमयइं. ५ P ममइं. ६ A omits तहु. ७ A पराणाइं.

3 a समार सारप्रभवम्. 4 b विहामंडलं भामण्डलम्. 7 a मराला लिसेया अम्भवादिरीयम्.  
 12 सासइ शक्ति ऋषयति.

12 10 a गुत्तिसमय पीणि. 11 a टाणाइ प्रदेगण.

पुञ्जहं गडिमालाहयं	एकवीसलक्षद्वयं गयं ।	15
कायविसर्गं थिउ वियडि	माससेसुं संमेयताडि ।	
मामि पहिहइ पभिय सिह	प्योरसिदिणि दिण्णसिह ।	
मग्गणम्पत्तं णिव्वुयउ	सहं जोइहिं णिकलु हुयउ ।	
देविंदिहि जयकारियउ	पुञ्जिदि साहुकारियउ ।	
अद्दगुणालंकिउ सुमइ	देउ मज्झु अविंयल सुमइ ।	20

घना—भरहेण अण्णहि मि परमेसरु सो वण्णिज्जइ ॥  
सइं अमराहिवेण गुणपुप्फयंतु जसु गिज्जइ ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
महाभध्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सुमइणिव्वाणगमणं  
णाम दुचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४२ ॥

॥ सुमइचरियं समत्तं ॥

८ P पुण्णाहं. ९ P एकपुञ्जलक्षद्व. १० A मासमेत्तु. ११ A एगारसि°. १२ AP महणक्खत्ते.  
१३ A अग्गिदेहिं सकारियउ, P अग्गिदेहिं संकारियउ. १४ P देउ मज्झु विमलमइ. १५ A पुप्फयंत.  
१६ A किज्जइ.

16 a वि य डि विस्तीर्णे. 17 b दि ण्ण सि इ दत्तमोक्षलक्ष्मीके. 22 गुणपुप्फयंतु गुणपुष्पाणां सूत्रं  
क्रियते यदा..



दप्पिट्टुदुट्टपाविट्टुजगजणियभासु दावियपहु ॥  
कम्मट्टुगंठिणिट्टुवणखमु पणवेप्पिणु पउमप्पहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिरंतरु जो तवलच्छिणिकेउ	गइंदखगिंदविसंकिणकेउ ।
परज्जिउ जेण रणे झसकेउ	समुग्गंउ जो कुगईखयकेउ ।
णियायमग्गणिओइयसीसु	अपासु अवासु अणीसु रितीसु । 5
वियट्टुविवाइविइण्णवियारु	रयासववारु विमुक्कवियारु ।
विवज्जिउ जेण वियालविहारु	सयाँ गलकंदलु जस्स विहारु ।
कडीयलि मेहल णेय णिवद्ध	ण कामिणि जेण सणेहणिवद्ध ।
खमासरिसित्तसरोसहुयासु	सुझाणदवग्गिसिहोहहुयासु ।
भडारउ जोरुणपंकयभासु	अमिच्छअतुच्छपर्यापियभासु । 10
पमेल्लिउ जो विहिणा विविहेण	णमामि तमीसमहं तिविहेण ।
समिच्छियणिकर्खयसोक्खपयस्स	णइच्छियविप्पवियप्पपयस्स ।
दुगुंछियकण्हमयाइणयस्स	भणामि समायरियं इणयस्स ।
भविस्सजिणिंद अणिंदसमीह	अहो सुणि सेणियराय णिसीह ।
जगुत्तमु गोत्तमु भासइ पंव	सुणंति महोरय दाणव देव । 15

घत्ता—धादइसंडइ दीवम्मि वरे जणगोहणसंकिण्णइ ॥

तहिं पुव्वमेरुपुव्वइ दिसइ पुव्वविदेहि रवण्णइ ॥ १ ॥

1 १ A समगउ. २ A णियागम°. ३ A सयामयकंदलु. ४ AP पयासियभासु. ५ A तिविहेण. ६ A ° अक्खयसोक्खपयासु. ७ A °पयासु. ८ P कण्हमयं अइणस्स. ९ P इणमस्स.

1 1 °भासु शुभपरिणामः 3 a °णि केउ निवासः; b ° केउ ध्वज. 4 b °खयकेउ विनाशार्थमुद्यतः. 5 a °णि ओ इय° नियोजिताः; b अपासु बन्धनरहितः. 6 a विवट्टु° विदग्धा, 'विइण्णवियारु दत्तो विचारो विकारो कर्मभङ्गो येन, b रयासववारु कर्माश्रवप्रतिषेधकः. 7 a वियालविहारु अकालविहरणम्; b विहारु हाररहित. 8 b सणेहणिवद्ध निजस्नेहे न धृता. 9 a 'समेसट्टुयासु स्वरोपाग्निः; b °हुयासु हुतवाञ्छ. 10 a अरुणपंकयभासु रक्तोरलप्रभ, b अमिच्छेत्यादि अमिथ्यानां भव्यानां अतुच्छानां प्रचुराणां प्रजाना प्रिया भाषा यस्य. 11 a विहिणा कर्मणा. 12 a णिकरयसोक्खपयस्स शाश्वतसौख्यपदस्य; b णइच्छियेत्यादि नेट् ब्राह्मणकल्पितानेकयशुप्रधाना पदं यथादित्थयेन. 13 a दुगुंछियकण्हमयाइणयस्य जुगुप्सित निन्दित कृष्णमृगादिना येन, b इणयस्स इदमस्य पद्मप्रभस्य. 14 a अणिंदसमीह उत्तमसम्यक्चेष्ट.

2

सयामयणाहिसुंगंधसमीरि  
सकच्छउ वच्छउ देसु विसालु  
समीवसमीवपरिट्टियगामु  
फलोणयच्छेत्तणियत्तणरिद्ध  
तहि पुरि अत्थि पसिद्ध सुसीम  
दुभूमितिभूमिसमुणयणीड  
सरोरुहकेसरलग्गदुरेह  
हरीमणिवद्धमणोहरमग्ग  
तहिं अपरज्जिउ णाम णरिंदु  
रईसु व भाविणिर्दुल्लहसंगु  
खल्लुज्जिउ तेल्लु व णेहलभोउ  
सविग्गहु सहुं व लक्खणवंतु

सुसीयहि सीयंहि दाहिणतीरि ।  
मरालविहंगंविहिण्णमुणालु ।  
पँरीणपँवासिपऊरियकामु ।  
पिँओ जाहिं रोसणियत्तणणिद्ध ।  
दुवारविलंबियमोत्तियदाम । 5  
महंतफुरंतसुवण्णकवाड ।  
जिणालयचूलियचुंबियमेह ।  
णिभोयविसेसविसेसियसग्ग ।  
करिदु व दाणि कुलंबरँचंदु ।  
सरासणु जेम गुणेणं वियंगु । 10  
णहं व समेहु णिवेसियलोउ ।  
पउंजइ संधि वियाणइ मंतु ।

घत्ता—अण्णहि दिणि तेण णराहिवेण चित्तिउं होउ पहुच्चइ ॥  
जं पुरउं पमेल्लइ वल्लहउं अण्णणु तं लहु मुच्चइ ॥ २ ॥

3

अरे जडजीव समांसमि तुज्जु  
गयालसु लालसु लोहरसेणं  
जणेण जणो पणविज्जइ तँव  
मयंग तुरंगम किंकर कासु  
ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण बंधु  
विचित्तिवि पँव णिरुत्तु मणेण

ण कस्स विहं जगि कोवि ण मज्जु ।  
णिरंतरयं णियकज्जवसेण ।  
सजीउ विँतासु णरक्खइ जँव ।  
फलक्खइ पक्खि व जंति दिसासु ।  
सरीरु वि पँउं विणासि दुगंधु । 5  
पकोक्किउ पुँत्तु सुमित्तु खणेण ।

2 १ A °सुगधि°, P °सुयध.° २ P तीरिणि ३ A मरालमुहग्ग°. ४ A पहीण°. ५ A °पवासियऊरिय°, P °पवासियपूरिय°. ६ A पउजहि. ७ P कुलवरइदु. ८ P भामिणिदुण्णयसंकु. ९ P गुणेण अवकु. १० A खल्लुज्जियतेल्लु व णेहलभोउ, P खल्लुज्जिय तेल्लु व णेहल भोउ. ११ P सहु सलक्खणवतु.

3 १ A पयासमि. २ P ण को वि. ३ P मोहरसेण. ४ A तासु वि. ५ A एम विणासि. ६ A मित्तु सुपुत्तु.

2 1 a °मयणा हि° कस्त्रिकामृग, b सुसीयहि सुशीतगुणयुक्ताया सुश्रीकाया वा. 4 b °णिद्ध कुशल.. 7 a °दुरेह भ्रमर. 8 b °विसेसिय° अतिगयित. 9 b दाणि दानगील.. 11 b समेहु समेव सुबुद्धिश्च. 12 a लक्खणवतु व्याकरणमिव. 13 पहुच्चइ पूर्णम्.

3 1 a समासमि सक्षेपेण कथयामि. 4 b फलक्खइ फलक्षये. 6 a णिरुत्तु निश्चयेन.

सवित्ति धरित्ति णिवेइय तासु  
गुरुं पिहियासव्वयं पणवेवि  
दसेक्कसुयंगवयाइं धरेवि  
सुर्पासुयभोयणुभक्खु गसेवि  
छुहा भंय मेहुणु णिइ मुएवि  
सहेवि परीसह भीमुवसंग्ग  
चएण्णिणु दुव्वहसीलवहाउ  
तवेण करेवि कलेवरु खामु  
विहंडिवि छंडिवि चंड तिदंड

धराभरधारणु कंधरु जासु ।  
थिओ जिणदिक्खवयक्खमु होवि ।  
पुरायरगामसयाइं चरेवि ।  
अपंडयथीपसुवासि वसेवि । 10  
सणाणजलेण कलंकु धुएवि ।  
मुणित्तणवित्ति चिणेवि समग्गं ।  
णिरिक्खवहूणिवभत्तकहाउ ।  
णिवांधिवि गोत्तु जिणेसरणामु ।  
मंथो पमुएवि चउव्विहपिंड । 15

अत्ता—अवराइउ रिसि उवरिल्लियहि णरवंदहि णिरवज्जहिं ॥  
पीइंकरणांमविमाणवरि सुरु जायउ गेवज्जहि ॥ ३ ॥

4

गिहीगुणठाणवएहिं विमीस  
संसंतहु अंतरु तेत्तिय पक्ख  
ण को वि महीयलि संगिहु जासु  
छमासुं परिट्टिउ आउसु जांव  
पुरीकउसंविचईसु मंणीसु  
सुसीम णियंविणि वल्लह तस्सं  
भिसं भरहेसरवंसरुहस्स  
अहो णिहिणाह विहंसियसोउ  
तओ धणिणा पुरुपेसणरम्म

तहिं तहु आउ महोवहि वीस ।  
दुहैत्थपमाणिय वौदि वलक्ख ।  
दिणेहिं अहंसुरणाहहु तासु ।  
इणं घणवाहि पजंपइ तांव ।  
धराधरणो धरणीसु महीसु । 5  
अखंडसुहारुहसोम्ममुहस्स ।  
करेहि दिहिं णिलयं व णिवस्स ।  
पहोसइ णंदणु णंदियलोउ ।  
विणिम्मिउं भम्मविणिम्मियहम्मु ।

अत्ता—अण्णाहिं वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवलक्खिय ॥ 10

पासायतंलिमतलसुत्तियइ सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥ ४ ॥

६ A धराभरधारण, P धराभरु धारणु. ७ A पिहियासव ण पणवेवि. ८ A सुफासुय°. ९ A दुहामयमेहुणु.  
१० A °वसग्गि. ११ A समग्गि. १२ AP सुओ. १३ A पीइंकरणांम°, P पीयंकरमाण°.

4 १ A आव. २ A सुसंतहु. ३ P दिवहुयहत्थय. ४ AP छमास. ५ A सुर्पासु. ६ A  
धरणोद्वरणे. ७ A तासु. ८ A °सुहायरसोम्ममुहासु. ९ A °तलि सुत्तियइ; P ° तले सुत्तिइ.

8 b जिण दिक्खवयक्खमु जिनत्रीध्वाव्रतयो धम्म 9 a °वयाइ पदानि. 10 b °पउयंनपुसह.  
13 a °सीलवहाउ शीलवधकारिका विकथा.; b णिरिक्ख° चोर; °णिव° नृपकथा, °भम्म°  
भोजनकथा. 15 b °पिंडु आहार. 16 उवरिल्लियहि तृतीये त्रिके.

4 1 a गिही गुण ठाण व ए हिं गृहस्थगुणस्थानपदंरेजादयभिः. 2 b वौदि शरीरम्. ३ कस्य  
शुद्धा. 4 b घणवाहि इन्द्र. 6 b °सुहायकह° चन्द्र.. 9 a पुरुपेसणरम्म इन्द्रभ्रमणेन आदेशेन गन्तः  
b भम्म° सुवर्णम्.

सुहाहिमसारयणीरयवणु  
 गलंतमभोलकवोर्लु करिंदु  
 खरेहि खुरेहि धरग्गु दलंतु  
 विसेसैविसेसु विसाण धुणंतु  
 गिरिदग्गुहाकुहरंतविणिचु  
 लयादललोलललावियजीहु  
 णिसावइसेय दिसागयकंति  
 अणेयपसूयकरंवयगुंथु  
 णिहित्ततमीतमु णिम्मलु चंदु  
 पमत्तं रमंत ईहंति तरंत  
 महूपल कुंभलएसु णिसण्ण  
 अलीरंवफुल्लियपोमरयालु  
 णिमज्जणकील्लणलीण गइंदु  
 पंदंसियभीयरमीणरंडहु  
 सुहावहु सुट्टु परिट्टिउ इट्टु  
 णियच्छिउ अच्छरणाहविमाणु  
 णियच्छिउ वोमदिसाणणभासि  
 पविचुं पल्लिचु घिण्ण व सिचु  
 णियच्छिउ चिच्चि णराच्चियदेहु

पईहरपाणि झलज्जलकणु ।  
 णियच्छिउ जंगमु णाइं धरिंदु ।  
 बलाल गंविंद वलेण खलंतु ।  
 णियच्छिउ संमुहु पंतु डरंतुं ।  
 रुसारुणदारुणदूसहणेचु । 5  
 णहालिफुरंतु णियच्छिउ सीहु ।  
 णियच्छिय लच्छि सरोवरि णहंति ।  
 णियच्छिउ दामयजुम्मु णहत्थु ।  
 णियच्छिउ तिव्वु तवंतु दिणिदु ।  
 णियच्छिय मच्छ चलंत वलंत । 10  
 णियच्छिय कुंभ वरंभपउण्ण ।  
 विहंगसिल्लिवयचक्खियणालु ।  
 णियच्छिउ तामरसायंर रंदु ।  
 णियच्छिउ वारिरउट्टु समुहु ।  
 णियच्छिउ विट्ठरु सीहणिविट्ठु । 15  
 अहीसरमंदिरु मेरुसमाणु ।  
 पहाइ अणूण मणीण य रासि ।  
 महंतु जलंतु णहंणिगि मिलंतु ।  
 पहायइ गंपि णराहिवगेहु ।

घत्ता—णियदइयहु देविइ वज्जरिउं जं जिह दंसणु दिट्टुं ॥ 20

तुह होसइ तणुरुहु परमजिणु तेण ताहि फलु सिट्टुं ॥ ५ ॥

5 १ A कवोल° २ P गइद. ३ AP विसेसु विसेसु. ४ AP रंडंतु. ५ AP गुंथु. ६ A reads this line after चक्खियणालु below. ७ A भमंतु. ८ AP दहंति. ९ AP अलीरउ. १० A कीलणसीलु P कीलणणीलु. ११ P °रसायरु. १२ AP रवहु. १३ AP पणिट्टियदुट्टु. १४ AP अहीसरगेहु गिरिंदसमाणु. १५ A पल्लिचु पविचु घिण्ण, P पदीवि पल्लिचु घिण्ण. १६ A णहगामिलंतु.

5 1a सारयणीरय° शरन्मेघ, b पईहरपाणि प्रदीर्घशुण्ड. 2 a °मओल° मदप्रवाह. 3 b बलाल बलवान्. 4 a विसेसविसेसु वृषमेशाना प्रधान, विगेपोपलक्षितो वृषेशो वा, b डरतु गर्जन्. 6 b णहालि° नखश्रेणी. 7 a णिसावइसेय चन्द्रवत् श्वेता उज्ज्वला. 8 a पसूयकरवयगुंथु पुष्यसमूहैर्गुम्फितम्, b णहत्थु नभस्थं खलमम्. 9 a °तमी° रात्रि. 10 a इहति हृदमध्ये. 11 a कुंभलएसु कुम्भमालालु. 12 a °पोमरयालु पद्मपरागयुक्त, b विहंगसिल्लिवय° हंसशिशुः. 13 b तामरसायरु कमलाकर 16 a अच्छरणाह° देवा. 19 a चिच्चि अग्नि..

6

पुरंदरणांरि हिरी धवलच्छि  
 पसाहिउ सोहिउ सीमहि गव्भु  
 हिमागमि संगमि माहि पवण्णि  
 असेयहि छट्टिहि रत्तिविरामि  
 इहाहिवरूवधरो वलिरेहि  
 भुयंग णरामर मंदिरु आय  
 दहड्ड जि पक्ख सिणा दुहहार  
 गए सुमईसि महँद्विसमेहि  
 समायइ कत्तिइ कंदवियोइ  
 हुओ परमेसु सुहाइं जणंतु  
 पुणाइउ जीय जिणिद भणंतु  
 पुरं पणवेवि णिवासि विसेवि  
 जिर्णम्महि हत्थि परो सिंसु देवि  
 पवज्जियढळुं कमक्कमियळुं  
 गओ गहमंडलु लंघिवि तांव

सिरी दिहि कंति पराइय लच्छि ।  
 रिदुत्तिउ बुट्टुउ हेमवरंभु ।  
 णहे दहदिच्चलयम्मि पसण्णि ।  
 ससंकदिवायरसंगि सँकामि ।  
 थिओ मुणिणाहु समायरिदेहि । 5  
 रिहुच्छिण उच्छवि सुँक्कियमाय ।  
 धरंगणि पाडिय कव्वुरधार ।  
 असीदहकोडिसहासपमेहिं ।  
 अचंदिणतेरासि तट्टुयजोइ ।  
 असंखसहाँसु महामहवंतु । 10  
 णहं तुरएहिं गएहि पिहंतु ।  
 सुहीहिययंतरि भत्ति करेवि ।  
 जगत्तयणाहु णवेवि लएवि ।  
 णिओइउ वारणु चल्लिउ सकु ।  
 सिला इणसिचणमेइणि जांव । 15

घत्ता—तहिं मेरुसिगि संपिण्हिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥

कल्लहारपिहियघडसहसकरु सइं पुलोमिपिउ ण्हाणइ ॥ ६ ॥

7

वियाणिवि ण्हाणिवि ण्हाणविहीइ  
 पणांच्चिवि अग्गइ वालुं चलेहिं

पुणो अवयारु करेवि महीइ ।  
 थुणेवि सुरेहि गुणौलकुलेहि ।

6 A °णारिदि धी धवलच्छि. २ A उडुत्तिउ. ३ AP °सगमिकामि. ४ A सुँक्किय. ५ A महमद्विसमेहि. ६ A तट्टिय°. ७ AT' सुहासु. ८ APT जिणवहि. ९ A °ढक. १० A कमक्कमियडु.

7 १ AP read a as b and b as a. २ AP वाहुवलेहिं. ३ AP गुणाग.

6 2 b सी म हि सुमीमाया. b रिदुत्तिउ ऋतुत्रय पण्मासा.. 3 b दहदिच्चलयम्मि दह दिशाचक्रे. 4 b ससक चन्द्र दिवायरसंगि आदित्योदये. 5 a इहाहिव° गजरूपम्, वल्लिरेहि वलीशोभिते. 6 b रिहुच्छिण इन्द्रेण सह, b सुक्कियमाय सुष्ठु उत्तमा कृता मात्रा विक्रियानिर्भूते नंगमर्गः; अथवा सुष्ठु कृता गण्डिता मात्रा यै. 7 a सिणा धनदेन, b कव्वुरधार सुपुंजगण. 8 a यद विदोइ मेवापगमे. b तट्टुयजोइ त्वष्टृयोगे चित्रानक्षत्रे. 10 b असंखसहाँसु अमरुदयेव, महाभर घंतु महामहा पञ्चवत्याणानि पिणले राक्षसेन यत्य स यत्न. 12 b सुहीहिययंतरि यन्धुमान्दरुणे. 13 b पने सिंसु मायाशिशु. 14 a कमक्कमियडु प्रयोग चरणेन आश्रयित अर्धे देन, b रिहिययंतरि प्रेरित. 15 b इणसिचणमेइणि त्तिनाभियेकभूमि.. 17 पुलोमिपिउ पौलोमी शरीर मय्य रति इत्थ.

7 2 a चलेहिं विगुणार्थ..

समप्पिउ मायहि पंकयणेत्तु  
 गयामयभोइ सवासपएसु  
 ण वण्णहं सकंवि तासु कयाइं  
 सरासणयाहं सर्रीरपमाणु  
 समं णरडिंभयणेण रमेवि  
 वयंकसमंकिउ सुण्णचउक्क  
 तओ तहिं पत्तु सयं सयमण्णु  
 दु एक्कु जि विदुय पंच जि देहि

सुलक्खणवेज्जेणरजियगत्तु ।  
 पवह्णित्तायहरम्मि जिणेसु ।  
 सयद्ध णित्तइं दोणिण सयाइं । 5  
 रुईइ विरेहइ णं णवभाणु ।  
 इसीसमपुव्वहं लक्ख गमेवि ।  
 इणं पि दिणेहि पमाणु पदुक्क ।  
 कुमारु णिवेसित्ता रज्जि पसण्णु ।  
 पुणो वि सिसुत्तरसंख गणेहि । 10

घत्ता—इय पुव्वकालु पुहईसरहु गउ सुहुं सिरि माणंतहु ।

विण्णवियउ ता किंकरंणरिण कर मउलिवि पणावेवि तहु ॥७॥

## 8

णराहिव दीहरपासणिरुद्ध  
 समुण्णयकुंभु णहग्गविलग्गु  
 तओ परिचिंतिउं दिव्वंणिवेण  
 ण विंझसरीजलकील मणोज्ज  
 ण कंदल मिट्ठु ण कोमलवेणु  
 करेणुरई करताडणु णत्थि  
 दढंकुसघट्टणु फासणिरोहु  
 ण एक्कु इहिंदु मए इह उत्तु  
 ण णिगगइ जग्गइ कि पि ण मूदु  
 अहं पि हु मोहिउ किं परु मोक्खु  
 विणासिरु जाणिवि पेच्छमि लोउ  
 असासउं रज्जु असुंदरु अंति

करीसरु वारिणिबंधणि बंधुं ।  
 धराहिव जाणवि तुम्हहुं जोग्गु ।  
 पमग्गियकेवलणाणासिवेण ।  
 ण सल्लइपल्लवभोज्ज ण सेज्ज ।  
 ण मग्गविलग्गिरवालकरेणु । 5  
 सफासवसेण विडंबित्ता हत्थि ।  
 सहेइ वराउ वियंभियमोहु ।  
 भहो जणु दुक्कियदेहणि खुत्तु ।  
 सिरीमयणिहपरव्वसु मूंदु ।  
 दुमाणवु चम्मविणिम्मिउ हक्खु । 10  
 विरप्पमि तो वि ण भुंजमि भोउ ।  
 ण इच्छमि अच्छमि गंपि वणंति ।

घत्ता—तावायहिं लहुं लोयंतियहिं णाहहु वयणु समत्थियउ ।

अंबरु धावंतहिं दणुयरिहिं चित्तचीरु णावइ थियउ ॥ ८ ॥

४ AP °विंजण°, ५ A ण वण्णहं सकंमि, P ण वण्णवि सकंमि. ६ AP सरीरु पमाणु. ७ P पंच जि विंदुय. ८ P चयारि. ९ A °णरिणा.

8 १ AP वद्ध. २ A दिव्वु. ३ A पासणिरोहु. ४ AP वृद्ध. ५ A विरप्पवि. ६ AP समत्थियउ.

4 a अ म य भो इ अमृताशिनो देवाः. 8 a व य क स म कि उ मतानि पञ्च तैश्चिहितम्. 9 a स य म ण्णु इन्द्रः. 10 a दु ए क्कु जि विं दु य प च एकविंशतिलक्षाः, b सिसुत्तरसंख त्रिशुत्तरसंख्या राज्यकालः.

8 1 b वारिणि बंधणि गर्तानिवन्धेन. 5 b °करेणु हस्तिनी. 8 a इ हिं दु गजेन्द्रः, b °दे ह णि कर्दमे, खु तु धित्तः 14 द णु य रि हिं दानवदेवैः.

9

गिरि व्व जलागमणं जलएहिं  
समच्चिउ लोयगुरू कुडएहिं  
सुवण्णमियाइ णरच्छिपियाइ  
वणंतरु चारु पहुल्लियचारु  
खमाविउ लोउ सिरे कउ लोउ  
करेप्पिणु छट्टु वि सुट्टु वरिट्टु  
समट्टममासि जंगंतपयासि  
दिणे असियम्मि सुतेरसियम्मि  
विणिग्गउ हत्थु पहूइय चित्त  
सुयाइं मुणेवि रयाइं धुणेवि  
समं सकिवाहं सहासु णिवाहं

सुरेहिं पहू णहविओ कुलएहिं ।  
थुओ दुवईवयणुकुडएहिं ।  
महिंदणियाइ गओ सिवियाइ ।  
सकंकणु हारु पमेल्लिवि दोरु ।  
भवणवपोउ विसुद्धतिजोउ । 5  
पदिट्टसट्टु समासियणिट्टु ।  
घणागमगासि हिमालपवसि ।  
दिणेशरि जाम दुयालसियम्मि ।  
अलंकिय तहिणि संजमज्जंत ।  
महव्वय लेवि थिओ रिसि होवि । 10  
तवांकिउ ताहं ण मच्छरु जाहं ।

घत्ता—वारहविहतवणिव्वाहणहि धम्मजोयपरिक्खहि ॥

पउमप्पहु वट्टमाणणयरि देउ पइट्टुउ भिक्खहि ॥ ९ ॥

10

णमौत्थु भणेवि गहीररवेण  
तिणा तहु णिम्मल्लु भोयणु दिण्णु  
णिहेलणि उग्गंय अब्भुय पंच  
गओ रिसि घोसिवि अक्खयदाणु  
पमाय कसाय विसाय हरंतु  
विहूयतमोमयमंदकलंकि  
सुचित्तहि चित्तइ चित्तविमुक्कु  
परंदिसमासिइ वासरराइ

धरं णिउ सो ससियत्तणिवेण ।  
मुणिंदणिहालणि संचिउ पुण्णु ।  
अहासवदारइं हंभिवि पंच ।  
सुंवंधु सुवेरि सुणिच्चसमाणु ।  
छमास विहिंडिउं विचु चरंतु । 5  
चइत्तछणाम्मि पउण्णससंकि ।  
दहं माणि पूरिउ धीयउ सुक्कु ।  
उइण्णउं केवलणाणु विराइ ।

9 १ A सुवण्णमियाइ. २ AP जगत्तपयासि. ३ A संजमजुत्त. ४ A निव्वाहणउ. ५ A पउ  
६ P जोइपरिक्खहि. ७ A पयट्टउ.

10 १ A ससिदत्त°. २ A भोयणु णिम्मल्ल. ३ A णिग्गय. ४ AP सुंवंधु. ५ A सुवेरि.  
६ P सुभिच्च°. ७ A विहंदिउ. ८ P उण्णणउं.

9 1 b कुलएहिं वट्टे. 2 a कुडएहिं कुट्टजपुपं. b दुवईवयणुकुडएहिं निरि  
छन्दोविशेष. तद्वचनेन उक्तं. ३ a सुवण्णमयाइ सुवण्णनिर्मितया. 5 a लोउ लोउ, b विसुद्धति-  
जोउ विसुद्धवात्पनःशरीरयोगः. 6 b समासियणिट्टु समाश्रितानारिप. 7 b निमात्तं शीत्तम्. 8 b  
जामदुयालं सामदरम्.

10 1 b ससियत्तं मोमदत्त. 2 b णिहालणि आत्मेकमे. 3 b जामदुयालं सामदरम्.  
6 b उण्णाम्मि पुण्णणम्. 5 a परदिगपथिगारिण, 7 विग्गय विग्गयं भण्यते.

णियासणचालणचालियसग्गु  
समागड श्रंत्ति पवाहियपीलु

विमाणपऊरियवारियमग्गु ॥

विडोउ सभिञ्चु सच्चिंधु सलीलु । 10

घत्ता—दह भावण वेंतर अट्टविह जोइस पंचविहाइय ॥

सोलहविह कप्पणिवासिसुर जिणु णवंति गुणराइय ॥ १० ॥

## 11

णमो अरिहंत णमो अरिहंत  
णमो दयवंत णमो दयवंत  
णमो बुहराम णमोहविराम  
णमो गिरिधीर णमो गयसीर  
णमो णियमाल सुपंकयमाल  
फलाइं गसंतु जलाइं रसंतु  
ण जे तवसीह अहो मुणिसीह  
तुमं सुमरंति भवेसु मरंति  
पणासियसासयसंपयमूलु  
कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुदेउ  
वियंभउ णाणविलोयणसत्ति

णमो विसयंत णमो विसयंत ।

णमोत्थु अभंत भयंत भवंत ।

णमो गुणथाम णमोमियथाम ।

णमो हयमार णमो धुवमार ।

कयंघिसुसील महाकरिलील । 5

दलाइं वसंतु वणम्मि वसंतु ।

परत्तसिरीह णिरीस णिरीह ।

ण ते सुहि होंति मूंगेसु हि होंति ।

महं तुह धम्मसिरीपडिकूलु ।

कुपत्ति कुमित्तु म जम्मि विहोउ । 10

सुणिच्चल होउ तुहुप्परि भत्ति ।

घत्ता—णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामणि पइं वण्णमि ॥

जहु कव्वपिसाएं विणडियउ अप्पउ हँउं तणु मण्णमि ॥११॥

## 12

थुणेप्पिणु एम गुणोहु जिणेसु  
चउडिसु उब्भिय सोहिय खंभ

तओ तियसेहिं कओ तहु वासु ।

चउडिसु सारसरावसरंभ ।

१ P तांव.

11 १ AP अरहंत. २ A णमोत्थु भयत. ३ P कलंघि°. ४ A मिगेसु, P मगेसु. ५ A °सिरचूलामणि. ६ A मण्णमि. ७ A तणु हँउ.

9. b °वारियमग्गु मेघमार्गः. 10 a पवाहिय° प्रेरित; b विडोउ विडौजा इन्द्रः.

11 1 a अरिहंत अर्हन्नाथ, अरिहत कर्मरिघातक, b विसयत ज्ञेयवस्तुपर्यन्त, विसयत विषयविनाशक, 2 a दयवत दयायुक्त, अदयवत अदया वान्ता लृदिता येन, b अभंत अभ्रान्त, भयंत भदन्त सुने, भवंत भयविनाशक. 3 a बुहराम पण्डितमनोज्ञ, अहविराम पापान्तक, b गुणथाम गुणनिलय; अमियथाम अनन्तवीर्य. 4 a गिरिधीर गिरिवद्वैर्ययुक्त, गयसीर हल्लरहित; b हयमार निर्जितकाम, धुवमार ध्रुवल्क्ष्मीदायक. 5 a णियमाल नियमसहित, सुपंकयमाल शोभनपङ्कजमालागोमितं, b कयघिसुसील कृता अंग्रिपु सुगीला यतय. प्रणता येन. 13 तणु मण्णमि तृणवन्मन्ये.

12 1 b वासु समवसरणम्. 2 b सारसरावसरंभ सारसशब्दयुक्तानि सरोगतानि अम्भासि जलानि.



चउदिसु दारैइं गोउरयाइं  
 चउदिसु पायववेळिहराइं  
 चउदिसु दीसइ सम्मुहुं देउ  
 चउदिसु भावलउम्भउ तेउ  
 चउदिसु छत्तइं पंडुरयाइं  
 चउदिसु अट्टमहाधयपंति  
 चउदिसु दुंदुहिसइ घडंति  
 असेसहं भासविसेसहं खाणि

चउदिसु चेइयमंदिरयाइं ।  
 चउदिसु थूहइं दिव्वैघराइं ।  
 चउदिसु आसणु सीहसमेउ । 5  
 चउदिसु पल्लवरत्तु असोउ ।  
 चउदिसु सुव्वमइं चामरयाइं ।  
 चउदिसु पुष्पचयाइं पडंति ।  
 चउदिसु इंदत्तयाउ णडंति ।  
 चउदिसु तस्स वियंभइ वाणि । 10

घत्ता—तच्चाइं सत्त दह धम्मविहि णव पयत्थ छहद्वइं ॥

आहासइ परमप्पउ जणहु सव्वइं भूयइं भव्वइं ॥ १२ ॥

## 13

खण्णु पुणेक्कु गणेसवराहं  
 तिर्विदुय रंध रिऊदुयजुत्त  
 सहास दसेव य ओहिजुयाहं  
 सहासइं सोलह अट्टसयाइं  
 महामणपज्जयणाणधराहं  
 सहासहं उप्परि रंधसमाहं  
 सहासइं वीस पयोणिहि लक्ख  
 वयत्थघरत्थहं तासु तिलक्ख  
 तिरिक्ख ससंखं सुरा वि असंख  
 समासिवि धम्मु पंधंसियदुक्खु

दुसुण्णइं तिण्णिण दु पुव्वधराहं ।  
 जिण्णिंदहु एत्तिय सिक्खंपउत्त ।  
 दुवालस ते च्चिय सव्ववियाहं ।  
 विउव्वणरिद्धिरिसिंदहं ताइं ।  
 धुवं तिसयंकिउ सउ जि सयाहं । 5  
 खजुम्मु सडंक्कु वि वाइवराहं ।  
 वियाणहि संजमधारिणिसंख ।  
 अणुव्वयणारिहिं पंच जि लक्ख ।  
 पणासिवि राईरईसुहकंख ।  
 छमासविहीणउं पुव्वहं लक्खु । 10

घत्ता—संमेयहु सिहंरि समासुहिवि मासमेत्तु थिउ जोएं ॥

जिणु अंतिमु ज्ञाणु पराइयउ सहं मुणिवरसंघाएं ॥ १३ ॥

12 १ P दाविय. २ A वेळिवणाइ. ३ A दिव्वयराइं. ४ P जक्खकरे. ५ AP इंदतियाउ.  
 ६ A तासु. ७ A धम्मविह. ८ P छदव्वइं. ९ A सव्वभूइभूयइं भवइ.

13 १ A सिक्खय उत्त. २ AP अणुव्वयधारिहि. ३ A सुसख. ४ A रायरईसुह°, P पारि-  
 रईसुह°. ५ A पंधंसिय°. ६ A सिहर.

6 a भावलउम्भउ तेउ भामण्डलोद्भूतं तेज. 6 b इंदत्तयाउ देवाङ्गना. 10 b वियंभइ  
 विजृम्भते.

13 1 a ख शून्यम्. 3 b सव्ववियाहं केवलिनाम्. 9 b राइरईसुहकंख रात्रि-  
 त्तखकांक्षाम्.

14

मंहग्गामि फग्गुणपक्खि सुक्किण्हि  
 स णाणसरुवु तिदेहविमुक्कु  
 ण कण्हँ ण पीउ ण लोहिउ सुक्कु  
 ण पुंसुँ ण संदु ण भण्णइ इत्थि  
 हुओ परमेसरु अट्टगुणहु  
 सिहिदसिरोमणिमुक्कसिहीहि  
 णंमंसिवि सिद्धणिसीहियथत्ति  
 गओ पविहारि समीरवहेण

संचित्तचउत्थितिहीअवरण्हि ।  
 जगग्गधरित्तिं जाइवि थक्कु ।  
 ण लाहवु तासु ण चत्थि गुरुक्कु ।  
 फुरंतसकेवलवोर्हगभत्थि ।  
 सरीरु सलक्खणु तक्खणि दहु । ॐ  
 समच्चणवंदणहोमविहीहिं ।  
 पएहि णिओइउ कुंजरु झ त्ति ।  
 सुरण्ण वि अण्णविभाणुमहेण ।

घत्ता—महुं तूसउ भंरहभव्वणामिउ पउमप्पहुं णिहयावइ ॥

तिजगिदहु केरउ एम जसु पुप्फयंतु को पावइ ॥ १४ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे पउमप्पहणिव्वाणगमणं  
 णाम तियालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४३ ॥

॥ पउमप्पहचरियं समत्तं ॥

14 १ A महुग्गामि. २ A सुचित्त. ३ AP जगग्गधरित्तिहि. ४ A किण्ह. ५ A ण पुंसउ  
 संदु ण. ६ A बोधगभत्थि. ७ A समंचिवि. ८ AP भव्वभरह°. ९ A पउमप्पउ, P परमप्पहु  
 १० AP omit the line.

14 1 a मग्गमि माघे गते; b स चित्त° चित्रासहिताया . 2 a ति दे ह वि मुक्कु औदारिकं  
 तैजसकार्मणदेहत्रयविमुक्तः. 6 a सि हिं द° अग्नि . 9 a पवि हारि इन्द्र., b सुरण्ण वि अन्येऽपि सुराः;  
 अण्ण वि भा णु म हे ण चन्द्रादित्यतेजसा, अर्णवस्यापत्यं आर्णविश्वन्द्रः. 10 पुप्फयंतु चन्द्रसूर्यादिकः.

अगहियभसिपासहु गयदप्पासहु पासाइयवम्महजयहु ॥  
तोडियपसुपासहु णविवि सुपासहु पासियपासंडियणयहु ॥ धुवकं ॥

1

गिरायसं महाजसं	गिरंजसं समंजसं ।
अमोसयं गिरंजणं	सुवच्छलं गिरंजणं ।
पुंरं गुरुं गिरासवं	तवोणिहं गिरासवं ।
असंगयं गिरंवरं	मयप्पमाणियंवरं ।
अमंदिरं णयालयं	वियक्खणं णयालयं ।
मुणीसरं गिरामयं	समोसहं गिरामयं ।
अलं कुलेण उत्तमं	सणाणण णित्तमं ।
जिणाहिवेसु सत्तमं	णमंसिऊण सत्तमं ।
जयाहियं जइहियं	भणामि तस्स इहियं ।

अत्ता—णररयणकरंडइ धाँदइसंडइ पुव्वविदेहि पुव्वगिरिहि ॥  
हिमजललवसीयहि उँत्तरि सीयहि कच्छउ देसु महासरिहि ॥ १ ॥

2

तेत्थुं सत्तभूयलसउहयलहि  
पाणियपूरियपविमलपरिहहि

चूलाकलसलिहियेवोमयलहि ।  
कोट्टट्टालयणच्चियवैरिहहि ।

1 १ P महायसं. २ A पर, P पुर. ३ AP तवोणिहिं. ४ A णियालयं. ५ P reads a as b and b as a. ६ A धायइ°. A उत्तरसीयहि.

2 १ P तत्थ. २ A °णिहिय°. ३ P वरिहहि.

1 1 गयदप्पासहु गते दर्पागे यस्य; पा सा इय° पाशायितो नियन्त्रितः अथवा प्रकर्षणात्वा दितोऽनुभूतः. 2 पा सि य° प्रक्षिप्तः. 3 गिरायसं निर्गतरागसुखम्, रागो दोषस्तस्य निष्क्रान्त वा, b गिरंजसं परमार्थभूतम्; समंजस अकुटिलम्. 4 a अमोसय अमृपावादिनम्; गिरंजणं अपानम्, b पुंरं महान्तम्; गुरुं हितोपदेशदायकम्. 5 a गिरासवं निराशान् मुनीन्यातीति निरासयस्तम्; b गिरासवं कर्माश्रवरहितम्. 6 a असंगयं अपरिग्रहम्, 6 b मयप्पमाणियंवरं मयो ज्ञानं तेन प्रमाणित परिच्छिन्न अम्बरमाकाश येन. 7 a णयालयं पर्वतालयम्; b णयालयं सप्तप्रकारैः नवप्रकारैश्च नयैयुक्तम्. 8 a गिरामयं रोगरहितम्, b समोसहं उपशमोपधम्. गिरामयं रामारहितम्. 9 a अलं अर्थात्, b सणाणण केवलज्ञानेन. णित्तम अज्ञानताग्रहितम्. 10 a सत्तम सर्वेभ्योऽनिगयेन प्रयस्तम्, b सत्तमं सत्तमं जिनाधिपेषु सुपार्श्वम्. 11 a जयाहियं जगत आममन्तादधिकं हितं वा; जइहियं यत्नीधितोऽस्मिन्.

2 1 a °मउहयलहि °सौधतलायाम्, b °वोमयलहि °व्योमन्तायाः. 2 °णच्चियवैरिहहि °नर्नितमयूरायाम्.

णाणावणतरुकीलियखयरिहि  
महि भुंजेवि सुइरु णिव्वेइउ  
धणवइणामहु णामसमाणहु  
अरहंतहु सिरिणंदणसामिहि  
एयारह अंगइं अवगाहिवि  
पावपडलपसरणु आउंचिवि  
दीहु कालु तवु तिव्वु तवेप्पिणु  
पाणिदियसंजमु अविराहिवि  
चउविहु पच्चक्खाणु लपप्पिणु

णांदिसेणु पहु खेमाणयरिहि ।  
लच्छिभारु णियतणयहु ढोइउ ।  
णरवम्मीसहु विक्कुसुमवाणहु । 5  
पासि लइउ वउ सिवपयगामिहि ।  
अप्पउं सीलगुणेहिं पसाहिवि ।  
तित्थयरत्तु पुणुं संसंचिवि ।  
हियवउ जिणकमकमलि थवेप्पिणु ।  
आराहणभयवइ आराहिवि । 10  
णांदिसेणु मुणिणाहु मरेप्पिणु ।

घत्ता—मज्झिमगेवज्जहि संभवसेज्जहि चंदकुंदसंणिहंरुइरु ॥

भद्दामरमंदिरि णयणाणांदिरि संजायउ अहमिंदु सुहु ॥ २ ॥

3

दुरयाणितणु लोयणइं अणिइइं  
तेत्तिपेहि सो वरिससहासहि  
अक्खिउ भिक्खुवरेहि जियक्खहि  
काले तं तहु आउ विणिट्ठिउ  
उइमासाउसु थक्कउ जइयहुं  
जवुदीवि वहुदीवणिवासइ  
सरयसलिलहरससहरसियगिहि  
परमारिसरिसहणवजायउ  
तासु अत्थि पृथं प्राणपियारी  
ताहं विहि मि होसइ तित्थंकरु  
ताहं विहि मि करि तुहु जं जोगगउ  
ता जक्खे तं तेम समारिउ

आउ वि सत्तावीससमुइइं ।  
भुंजइ अणु णियमणविण्णासहिं ।  
णीससइ जि तेत्तियहिं जि पक्खहि ।  
काले तिहुयणि कि पि ण संठिउ ।  
अक्खइ सुरवइ धणयहु तइयहुं । 5  
भारहवारिसइ कासीदेसइ ।  
वाणारसिपुरि सुरपुरसंणिहि ।  
सुपइइउ णामे महिरायउ ।  
पुहइसेण णामेण भडारी ।  
देवदेउ जिणु पावखयंकरु । 10  
पट्टणु भवणु भोयसुहुं चंगउं ।  
रयणविच्चित्तु णयरु वित्थारिउ ।

४ P णिव्वेइयउ. ५ AP विक्कमठाणहु. ६ P अरिहंतहु. ७ A अलुचिवि. ८ A तित्थयरत्तु पुणु, P तित्थयरत्तु गोत्तु. ९ P आराहणा. १० AP °सणिहु. ११ P अहिमिंदु.

3 AP अणिइइं. २ P तेत्तीयहिं जि सु. ३ A छम्मासाउसु. ४ AP °दीवणिवेसइ. ५ A सुरपुरि°. ६ A °सुरिसहं णयजायउ. ७ AP पिय पाण°. ८ A भोयभवणु सुहु.

5 a णामसमाण हु अन्वर्थनाम्न . 8 a आउंचिवि वि सकोच्च्य; b संसंचिवि वि सम्यक्प्रकारेण संचित्य. 12 संभवसेज्जहि उत्पत्तिशिलासंपुटे.

3 1 a अणिइइं निद्रारहितानि. 2 b अणु स्तोकम्, णियमणविण्णासहिं संकल्पप्रवृत्ति-विशेषैः. 3 a जियक्खहिं जितेन्द्रियैः. 5 a उइमासो षण्मासा. 8 a परमारिसरिसहणवो परमर्षिवृषभान्वये.

घत्ता—तुंगियहि विरामइ पच्छिमजामइ बालमराललीलगइ ॥  
मणिमंचइ सुत्तिइ ढंकियणेत्तइ दीसइ सिविणावलि सइइ ॥३॥

4

दीसइ पीणपाणि सुरपूणउ  
दीसइ भंगुरु णहरुक्केरउ  
दीसइ दिग्गयवरसिंचिय चल  
दीसइ जोउसु जोणहावासउ  
दीसइ पाढीणहं मिहुणुल्लउ  
दीसइ वियसिउ वंभहरायरु  
दीसइ पीडु सीहरूर्वालउ  
दीसइ गेयमुहल्लु विसहरघरु  
दीसइ जायवेउ जालाहरु

दीसइ सरुं मुयंतु उच्छाणउ ।  
कंठीरुं करिकुं भविसारउ ।  
दीसइ सुसुपर्णमाल सपरिमल ।  
दीसइ उगंमंतु णहि पूसउ ।  
दीसइ ससलिलु कुडुंजुयल्लुउ । 5  
दीसइ सरिवइ सरयरभीयरु ।  
दीसइ घंटाखु तियसालउ ।  
दीसइ रयणरासि पसरियकरु ।  
इय जोइवि जाइवि रायहु घर ।

घत्ता—जं जिह मणलालिउं णिसिहि णिहालिउं तं तिह दइयहु भांसियउं ॥ 10  
तेण वि तहि तुट्टे पत्थिवजेट्टे सिविणयफल्लु उवएंसियउं ॥ ४ ॥

5

होही सुंदरि तुह सुउ तेहउ  
जासु कित्ति लोयंतु पधावइ  
वारहपक्ख जांव ससिवासहु  
सोच्चठाण गहयण सुहदिट्ठिहि  
वट्टंतेण विसाहारिक्खे  
गयरुवे विम्हावियसिट्ठिहि  
घरु आवेप्पिणु खणि सुत्तामं  
गउ देवाहिउ देवावासहु

को वि ण दीसइ जंगि जं जेहउ ।  
णाणु अलोयंतु वि दरिसावइ ।  
भूरिचंदु णिवडिउ आयासहु ।  
भद्वयहु मासहु सियछिट्ठिहि ।  
सुमुहुत्तेणुप्पाइयसोक्खे । 5  
हुउ गम्भावयारु परमेट्ठिहि ।  
गुरु गुरुयणु अंचिउ जसरामं ।  
पय वंदवि भावे देवेसहु ।

4 १ AP सुरपूणउ; K सुरपूणउ and notes a p: पूर्णो वा पाठः. २ A सर. ३ P वियडदाहु सिविणयकंठीरु. ४ AP सुमणसमाल. ५ A उगंमंतु. ६ A जुयल्लुउ. ७ A कुंमहिणु-  
णुल्लउं. ८ P सीहरूर्वालउ. ९ P मणलालउं. १० P भांसिउं. ११ AP उवएसिउं.

5 १ A जं जगि जेहउ; P जगि जं जेहउ. २ AP विभाविय°. ३ A वदिवि, P वदिय.

13 तुंगियहि राग्या..

4 1 a सुरपूणउ सुरगज., b उच्छाणउ उक्षा वलीवर्दः. 3 a चल लक्ष्मी. 4 a जोउसु चन्द्र., b पूसउ सूर्यः. 5 b कुडुजुयल्लुउ कुम्भयुगलम्. 6 a वंभहरायरु कमत्सर; b सरिवइ समुद्रः. 9 a जायवेउ जातवेदाः अग्निः. 10 मणलालिउं परिभावितम्. 11 जेट्टे प्रधानेन.

5 3 a ससिवासउ चन्द्रग्रहात्, आकाशादित्यर्थः b भूरिचंदु सुवर्णम्. 6 a सिट्ठिहि जगत्. 7 a सुत्तामं इन्द्रेण, b जसरामं वगसा मनोहरेण धवलेन वा.

घत्ता—णरणाहहु केरइ हरिसजणेरइ णव मासइं तूसवियजणु ॥  
जंबुण्णयधारहिं दुहमलहारहिं घरि बुद्धउ वइसर्वेणु घणु ॥५॥ 10

## 6

नयडिंडिमि दंडेणं समाहइ  
सायरसमहं पमाणे लइयहं  
कालपमाणे संखहि आयउ  
पसवणु देवहु जाइ सुहासिइ  
सामरु सच्छरु सधउ सवारंणु  
अम्महि अवरु डिंभु संजोइवि  
सिंचिउ सुरगिरिसिंरि सुररायहि  
सुहतणुपासु सुपासु पकोक्किउ  
पुज्जिवि वंदिवि णिउ सणिकेर्यहु  
देउ पियंगुपसवसरिसण्णहु

णिव्वुइ पउमण्णहि पउमाहइ ।  
णवसहासकोडिहि गय जइयहं ।  
तइयहुं तहि वइसाहहु जायउ ।  
वारसिवासरि जेट्टाभूसिइ ।  
पुणु संम्राइउ सो हरिवाहणु । 5  
णिउ हरिणा जगगुरु उच्चाइवि ।  
मुहवियलियसिवणिवसंघायहिं ।  
सयमहु थोत्तु करंतउ संकिउ ।  
पहु करपंकइ णिहियउ तायहु ।  
दोधणुसयपमाणु माणावहु । 10

घत्ता—जे<sup>०</sup> णाहतणुत्तणु गय दिव्वत्तणु ते<sup>०</sup> तेत्तिय परिमाणु भणु ॥  
जे<sup>०</sup> तेणं समाणउं रुवपहाणउ अण्णु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥

## 7

खेलंतहु दरिसियसिसुलीलहु  
णाहु सुणासीरे खीरोहे  
रायलच्छिदेविइ अवरंडिउ  
तित्ति ण पूरइ भोयहं दिव्वहं

पंचलक्ख पुव्वहं गय वालहु ।  
पुणु ण्हवियउ पुव्वुत्तपवाहे ।  
थिउ णरवइ णर्यसत्तिइ मंडिउ ।  
चउदहलक्ख जांव गय पुव्वहं ।

४ P वइसवणवणु.

6 १ P डंडेण. २ A चंदसुहासिइ. ३ A जेट्टपभूसिइ. ४ A सवाहणु. ५ AP सपाइउ.  
६ P सणिकेवहु. ७ A जो णाह<sup>०</sup>. ८ A तो तेत्तिय<sup>०</sup>; P तेत्तिओ जि. ९ A जेणु समाणउ; P तं  
तेण समाणउं.

7 १ खेळतहु. २ P सुणात्तिरेहिं. ३ A ष्हावियउ. ४ A गिवसत्तिइ.

10 जंबुण्णय<sup>०</sup> जाम्वूनदं सुवर्णम् वणु नेव .

6 1 b पउमाहइ रत्तकमलाभे. 3 b वइसाहहु विद्याखानक्षत्रम्. 4 a पसवणु संभव.  
उत्पत्तिः. सुहासिइ सुवाश्रिते चन्द्रे. 7 b दिव्वणिव जलवदा. 8 a सुहतणुपासु शोभने उभये तनु-  
पाशे वल्ल. 10 a पसव<sup>०</sup> पुष्पम्. b नाणावहु मानापवाति. 11 तणुत्तणु चरोत्त्वम्: दिव्वतणु  
दिव्यस्वरूपम्.

7 2 a सुणासीरे इन्द्रेण. 3 a अवरंडिउ अलिङ्गित b पयसत्तिइ नवसत्तिम्याम्.  
4 a तित्ति वृत्तिः.

तावेकहिं दिणि उहुपल्लइउ  
काले कालु वि जेण गिलिज्जइ  
जांवि थांवि पावज्ज लपप्पिणु  
एमं बुहाहिव तुज्जु जि छज्जइ

पेच्छिवि णाहु समग्गि पयट्टउ । 5  
तेण किं ण माणुसु कवल्लिज्जइ ।  
तां भणांति सुर रिस्सि पणवेप्पिणु ।  
अण्णु ण एहँउ जग्गि पडिवज्जइ ।

घत्ता—जणु तिट्ठइ छित्तउ भमइ पमत्तउ पावइ जम्मि जम्मि मरणु ॥

पइं मुइवि भडारा तिहुयंणसारा एंव हणइ को जमकरणु ॥७॥ 10

## 8

पुणु पाईणवरिहि संपत्तउ  
विहिउ तेणं लहुं सिवियारोहणु  
जेट्टहु मासहु पक्खि वलक्खइ  
खत्तियदहसएहि संजुत्ते  
छट्ठुववासु करिवि कयकिरियहु  
तेत्थु महिंददत्तणरराएं  
तहु घरि तिर्यंसणिघोसणिणायइं  
णववरिसइं छउमत्थु हवेप्पिणु  
पुणु सहेउवणि मूलि सरीसहु  
णाणावाहणवलइयपायउ

जिणु कल्लाणणहाणि अहिसित्तउ ।  
दुक्खु सहेउयंकु णामे वणु ।  
वारसिदिवसि ससंभवरिक्खइ ।  
लइय दिक्ख भुवणुत्तमसत्ते । 5  
सोमखेडपुरवरु गउ चरियहु ।  
पाराविउ णवेवि अणुरायं ।  
पंचच्छेरैयाइं संजायइं ।  
अच्छिउ जिणु जिणकप्पु वैरेप्पिणु ।  
पंचमु हुयउ णाणु तिजगीसहु । 10  
देवलोउ णीसेसु वि आयउ ।

घत्ता—उट्टंतपडंतहिं पुरउ णडंतहि णविउ णाहु पंजंलियरहिं ॥

दहविहअट्ठविहहिं पुणु पंचविहहिं सोलंहविहहिं वि सुरवरहि ॥८॥

## 9

पइं थुणांति रिस्सि अमर सविसहर  
एक्कु जि फल्लु जइ भक्ति समुज्जल

माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर ।  
लइं पुणु हियवइ सा णउ णिम्मल ।

५ P ताम भणहि सुर. ६ A एहु. ७ A तेहउ. ८ AP जम्मजरामरणु. ९ P सुरवरसारा.

8 १ T records a *p*: दाणवरिउवइ इति पाठेऽपि इन्द्रः. १ A तेहिं. २ P वारिसिदिवसि.  
३ A संभवरिक्खइ, P सुसंभवरिक्खइ. ४ A णिघोसणिणायं. ५ A पंचच्छरियइं ता सजायइं. ६ AP  
छम्मत्थु. ७ A वहेप्पिणु. ८ P adds after this: फग्गुणि किण्हि पक्खि छट्ठियादिणि, भे विसाहि  
पच्छिमसमुहइ दिणि. ९ AP सरीसहु. १० P अंजलिकरेहिं. ११ A °विहहिं सुरवरहिं, P °विहहिं  
वि सुरवरेहिं.

9 १ A संथुणांति. २ AP जइ.

5 A उहुपल्लइउ नक्षत्रपतनम्, b समग्गि स्वमाणे रत्तवये. 8 a छजइ शोभते. 9 तिट्ठइ वृष्ण्या.

10 जमकरणु यमभृत्या रोगाश्च.

8 1 a पाईणवरिहि प्राचीनवर्हिंरिन्द्रः. 3 b संभवरिक्खइ जन्मनक्षत्रे विशाखायाम्.

9 2 b सा भक्तिः.

ताँ अच्छउ पदंतु थुइलक्खइं  
 कैहउ सकु फणिराउ सरासइ  
 जइ तो कि वायइ वणणइ जइ  
 देव तुहारी हयदुहवेळिहि  
 अट्टु वि पाडिहेर थिय जांवहिं  
 भासइ धम्मु भडारउ जेहउ  
 पालइ कोँ वि कहि मि जइ सूरउ

पावउ मुहवायामें दुक्खइं ।  
 तुह गुणरासिहि छेउ ण दीसइ ।  
 जलहिमाँणि कि आणिज्जइ घडु । 5  
 भत्ति मूलु आँसिद्धि सुहेळिहि ।  
 समवसराणि आसीणउ तांवहि ।  
 भासहुं सकइ को वि ण तेहउ ।  
 णासइ णिट्टुहि जणु विवरेरउ ।

घत्ता—पाणिर्वह पमेळ्ह अलिउं म बोळ्ह दव्वु परायउ मा हरह ॥ 10  
 परदार म माणह धणु परिर्माणह रयाणिहि भोयणु परिहरह ॥१॥

## 10

पंव भणिवि संबोहिय मणहर  
 विण्णि सहस भासिय तीसुत्तर  
 विण्णि लक्ख चालीससहासइं  
 अवर वि वीस जि सिक्खुय साहिय  
 णव जि सहासइं ओहिविवोहं  
 सयइं तिण्णि सहसइं पण्णारह  
 सोत्तसर्माणसहासपमाणं  
 वसुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं  
 लक्खइं तिण्णि तीससहसालइं  
 सागारहं वि लक्खु गुणगुत्तिहि

पंचणवइ संजाया गणहर ।  
 अंगसपुव्वधारि तहु मुणिवर ।  
 चउसहसइं णवसयइं विमीसइं ।  
 जे णीरंजणेण णिव्वाहिय ।  
 सहसेयारह पंचमवोहं । 5  
 विकिरियालहं रिसिहि सुहीरंहं ।  
 पण्णासुत्तरु सउ मणजाणहं ।  
 सुद्धसुरूवदेसकुलजाइहिं ।  
 विरयंहं णारिहिं लुंचियवाँलइं ।  
 वयंगुणियाइं ताइं तप्पत्तिहिं । 10

घत्ता—तियसेहिं असंखहि संखतिरिक्खहि सहं दुच्चरियइं खंडिवि ॥  
 णववरिसविहीणउ जयविजयाणउ पुव्वलक्ख महि हिडिवि° ॥१०॥

३ A तो. ४ AP कहइ. ५ AP जलहिमाणु. ६ A आसुद्धि. ७ A कहिं मि को वि. ८ AP पाणिवहु. ९ P परदार. १० P परियाणह.

10 १ A दोण्णि. २ A अगसुपुव्वधारि, P अगपुव्वधारिय. ३ A ओहिविमोहइ. ४ P सयाइं. ५ P सुधीरहं. ६ P °समारण°. ७ A विरइयणारिहिं. ८ P लुंचियकुल्लहिं. ९ A वयगण्णियाइ. १० P मडिवि.

3 b मुहवायामें मुखकष्टेन. 6 b आसिद्धि सिद्धिपर्यन्तम्, सुहेळिहि सुगणपगयाम्. 8 b भासए भाषितुम्. 9 b णिट्टुहि विवरेरउ अनुष्ठानात् विपरीतश्चारित्रगून्व..

10 4 b णीरंजणेण भगवता तीर्थकरेण, णिव्वाहिय गन्धारनिस्तारिताः. 6 b सुधीरं सुधीराणाम्. 7 a सोत्तसमाणसहस नव सहस्राणि. 8 a वसु° अष्ट°, रिदुसयइ पदद्वयानि. 9 b लुंचियवालइं लुञ्चितकेयानि.



## 11

महियमाहिउ महमहियाणंगउ  
 संमेयहु जाइवि गिरिधीरउ  
 फग्गुणमासि कालंपक्खंतरि  
 सूरुग्गमि वुहदेवहं देवें  
 णिट्ठिउ अट्टमवैसुह पदुक्कउ  
 चंदणकहमेण पव्वालिय  
 दिग्गणी मउडाणलजालोलिय  
 वंदिवि भर्प्य पावणिष्णासउ  
 णायारूढउ कहइ णयंगहं

सहुं सीसेहिं समाहिवसंगउ ।  
 तीस दिर्यह थिउ मुक्कसरीरउ ।  
 साणुराहि सुहसत्तमिवासरि ।  
 णिक्किरियत्तु पत्तु विणु खेवें ।  
 गउ सुपासु पासेहिं विमुक्कउ ।  
 पउलोमीसें मालहिं मालिय ।  
 चिच्चिकुमारें तणु पज्जालिय ।  
 णायणाहु गउ णायावासउ ।  
 पवणवरुणवइसवणपयंगहं ।

घत्ता—जहिं भरहजिणेसहु णाणु सुपासहु पसरइ देवहु केवलिहि ॥ 1  
 तहि वाइ ण वायउ ण तसु ण तेयउ पुष्पदंतकिरणावलिहि ॥११॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयन्ताविरहए  
 महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे सुपांसणिव्वाणगमणं  
 णाम चउयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४४ ॥

॥ सुपांसचरियं समत्तं ॥

11 १ AP दिवह. २ P कालि पक्खंतरि. ३ A अट्टमिवसुह. ४ AP पोलोमीसे. ५ A मालइमालिय. ६ P मणिमउडाणलेण जालोलिय. ७ P चच्चिकुमारिहिं. ८ A भव्व. ९ AP पुष्पयन्त°. १० A सुपासजिणिव्वाण°. ११ AP omit this line.

11 a महियमहिउ पूजिते. पूजिते, महमहियाणगउ तेजसा मथित' कामो येन. 3 a साणुराहि अनुराधानक्षत्रसहिते. 4 b णिक्किरियत्तु व्युपरतक्रियानिर्वर्ति चतुर्थध्यानम्; विणु खेवें ग्रीष्मः. 5 a णिट्ठिउ मुक्कः. 6 a पव्वालिय प्रल्लितः. 8 b णायणाहु स्वर्गपतिः. 9 a णायारूढउ गजारूढो देवेन्द्र; णयंगहं नताङ्गानां विनीतानाम्.

णित्तेइयर्भरिवंदहु  
पणविवि कुवलयचंदहु

वयणचंदजियचंदहु ॥  
चंदप्पहहु जिणिंदहु ॥ धुवकं ॥

1

णियंगरस्सीहिं तमं विणीयं  
कयं कयत्थं किर जेण णिच्चं  
अतुच्छलच्छीहलकप्पभूयं  
दयावरं पालियसव्वभूयं  
ण जं पियालीविरहे विसण्णं  
विसुद्धभावं विगयप्पमायं  
णिहीसरं जं महियंतरायं  
पवुद्धदुक्कम्मविवायवीलं

सुयंगउत्तीहिं जयं विणीयं ।  
णमंति जं देववई वि णिच्चं ।  
उदारचित्तं गुणपत्तभूयं ।  
गिराहिं संबोहियरक्खभूयं ।  
मुंणिं महंतं विमलं विसण्णं ।  
परं परेसं परिञ्जीणमायं ।  
परज्जियाणंतदुरंतरायं ।  
विइण्णदुव्वाइविवायवीलं ।

5

10

A has, at the beginning of this samdhi, the following stanza.—

वापीकूपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं  
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जैनं सुराणां ( पुराणं ) महत् ।  
तत्कृत्वा प्लवमुत्तमं रविकृतिः ( १ ) संसारवार्धे सुखं  
कोन्यत् ( १ ) ससहसो ( १ ) स्ति कस्य हृदयं तं वन्दितुं नेहते ॥ १ ॥

This stanza is not found in any other known MS. of the work.

1 १ A अरविंदहु; P अरिविंदहु. २ A दयावरं. ३ A संबोहियसव्वभूयं, T records a p सव्वभूयमिति पाठे सर्वभूकं सर्वभूमिकम्. ४ P मुणीमहत्. ५ AP परिखीण°. ६ A दुव्वायविवाय°.

1 1 a °अरिवंदहु °शत्रुवृन्दस्य. 3 a णियंगरस्सी हिं निजशरीररश्मिभिः, विणीय विना-  
शितम्; b सुयंगउत्ती हिं शोभनद्वादशाङ्गयुक्तिभिः, b जय विणीय जगद्विनीतं विनयप्रधान कृत कृतार्थे  
च कृतम्. 4 a किर निश्चयेन, b देववई देवपतय. 5 a कप्पभूय कल्पवृक्षं सजातम्, b गुणपत्त-  
भूय गुणानामेव पात्र भाजनम्. 6 a पालियसव्वभूय रक्षितसर्वजीवम्, b संबोहियरक्खभूय संबो-  
धितराक्षसभूतम्. 7 a पियालीविरहे प्रियसखीवल्लभभार्यावियोगे, ण विसण्ण न विपादः कृतः 7 b  
विसण्ण विनष्टाहारमैथुनपरिग्रहसन्नम्. 8 a विगयप्पमाय विगतपञ्चदशप्रमादम् b परं उत्कृष्टम्, परसं  
जगत्स्वामिनम्, परिञ्जीणमाय मायारहितम्. 9 a णिहीसर समवसरणे ये निधयस्तेप्राप्तीश्वरम्, महियत-  
रायं मथितान्तरायकर्माणम्, b परज्जियेत्यादि दु.खे नान्तो यस्यासौ दुरन्त पराजितोऽनन्तो दुरन्तो रागो  
येन. 10 a °विवायवील कर्मविपाकपीडम्. b विइण्णदुव्वाइविवायवीलं विशेषेण दत्ता दुष्टवादिना  
वादे व्रीडा पीडा वा येन.

सुसञ्चतच्चंगवियारणासं  
सदित्तियाभक्खरभाँवहारं  
पुरंदरालोयणजोगगतं  
णिवारियप्पव्वहसेलपायं  
खगिंदेविंदमुणिदधेयं  
भणामि तस्सेव पुणो पुराणं  
घत्ता—अमलइ अत्थरसालइ  
अट्टमु जिणवरु पुज्जमि

अणंगसिगारवियारणासं ।  
भवोहसंभूइभयावहारं ।  
समुज्झियाहम्मदुपंकगतं ।  
फणिंदचूडामणिघट्टपायं ।  
णमामि चंदप्पहणामधेहं ।  
गणेशगीयं पवरं पुरा णं ।

15

चयणणवुप्पलमालइ ॥  
पउंरु पुण्णु आवज्जमि ॥ १ ॥

## 2

मणुउत्तरोइल्लि  
दीवे पसिद्धमि  
जलभरियकंदरहु  
सुरलोयसोहमि  
धणकणसमिद्धमि  
छक्खंडधरणिवइ  
उद्धयरिउरेणु  
सिरिकंत तहु धरिणि  
सुयराहिउ णरणाहु  
किं करामि कहिं चरामि  
को देइ मह पुत्तु  
ता भणइ सुपुरोहु  
तो कुणसु सुहहेउ  
धम्माणुरापण

भूभाइ सुसहिल्लि ।  
पुक्खरवरद्धमि ।  
पुव्विल्लमंदरहु ।  
पच्छिमविदेहमि ।  
देसे सुगंधमि ।  
सिरिपुरवरे णिवइ ।  
णामेण सिरिसेणु ।  
करिवरहु णं करिणि ।  
चित्तवइ थिरवाहु ।  
को देउ संभरामि ।  
गुणरयणसंजुत्तु ।  
जइ महसि सुयलाहु ।  
जिणणाहअहिसेउ ।  
तं सुणिवि रापण ।

5

10

७ AT °भाविहार ८ A °संभूइयभावहारं. ९ A पुरंदरालोयणजोगगतं, P पुरंदरालोयणजोगगतं.  
१० A °घिट्टपाय, ११ AP पवरं.

## 2 १ AP मणुउत्तरोइल्लि.

11 a सुसञ्चतच्चंगवियारणासं सुसत्यतत्त्वस्वरूपविचारणेनोपलक्षित आस्यं यस्य, b अणंगसिगारवियारणासं कामशृङ्गारविनाशकम्. 12 a सदित्तियाभक्खरभावहारं स्वदीप्त्या भास्करप्रभापहारकम्, b भवोहसंभूइभयावहारं ससारौघजन्मभयविनाशकम्. 13 a गत्तं शरीरम्; b समुज्झियाहम्मदुपंकगतं समुज्झिताधर्मदुपङ्गतार्ता येन. 14 a णिवारियप्पव्वहसेलपायं निषिद्ध. आत्मवधाय पर्वतात्मातो येन. 15 a °धेयं °स्मरणीयम्, b °णामधेयं °नामानम्. 16 b गणेशगीयं गणधरकथितम्; पुरा पूर्वे ण एतत्. 17 अत्थरसालइ अर्थवत्या रसवत्या च.

## 2 1 a मणुउत्तरोइल्लि मानुषोत्तरादर्वाक. 12 b महसि वाञ्छसि.

जरमरणभयहरहं	पडिमाउ जिणवरहं ।	15
रयणेहि रइयाउ	कलहोयमइयाउ ।	
मंतेहिं थवियाउ	खीरेहिं ण्हवियाउ ।	
संसुहं सुयंतीइ	महिरायपत्तीइ ।	
सिविणम्मि सुहईइ	छेयम्मि राईइ ।	
करि सीहु सिरि चंडुं	दिट्ठो विहाँरंडु ।	20
घत्ता—वरपुत्तासइ लइयहु	अक्खिउ जाइवि दइयहु ॥	
तेण वि तहु परियाणिउं	दंसणंफलु वक्खाणिउं ॥ २ ॥	

3

सज्जणगणमणपयणियपणउ	तुह सुंदेरि होसइ पियतणउ ।	
कइवयदियहहि वेळ्ळि व लल्लिउ	लायणवहलजलविच्छुलिउ ।	
वउ देविहि गम्भालंकरिउं	ओलक्खिवि देहंविधु तुरिउं ।	
कंचुइहि णरिदहु वज्जरिउ	तहु हियवउं हरिसं विप्फुरिउं ।	
संतोसं देविहि पांसि गउ	णं वणगणियारिहि मत्तगउ ।	5
पेच्छिवि कसणाणणु थणजुयलु	पेच्छिवि मुहमंडलु दरधवलु ।	
सालसुयंगउ गयगईपसरु	पेच्छिवि पिय संभासिवि सुसरुं ।	
णरवइ णियंमंदिरि गंपि थिउ	णवमासहि जणियउ प्राणप्रिउ ।	
सुंउ दुल्लहु वल्लहु सज्जणहं	कुलमंडणु खंडणु दुज्जणहं ।	
णच्चिज्जइ गिज्जइ महुरंसरु	धेहु वज्जइ दिज्जइ धणणियरु ।	10
काणीणहुं दीणहुं दुत्थियहं	णिहविणहु किविणहु पंथियहं ।	
घत्ता—तूररंवें दिस हम्मइ	कण्णि वि पडिउं ण सुम्मइ ॥	
णारीणं चणपेल्लिय	वसुमइ णावइ हल्लिय ॥ ३ ॥	

२ AP सुसुहं सुवतीइ. ३ A सुसईइ. ४ P पच्छम्मि. ५ A चडु and gloss सर्य. ६ A विहोरुउ and gloss चन्द्र. ७ A सिविणयफल.

3 १ A सज्जणगणमणपयणियपणउ, P सज्जणजणमणपयणिउ पणउ. २ AP होसइ सुंदरि. ३ A लल्लिय. ४ A विच्छुलिय. ५ P देहि विधु. ६ A पाउ. ७ A वरधवलु, P दुहयवलु. ८ A गदगप-पसरु, P गउ गयपसरु. ९ A ससरु. १० A मंदिरु. ११ AP पाणपिउ. १२ AP सो दुल्लहु १३ P महुरयरु. १४ AP पडु. १५ P पत्थियह. P adds after this निरिसम्मणिलविउ पाउ ननु, सुहलक्खणु जणवइ लद्धजसु. १६ A तूरवरहं. १७ P वडिउ. १८ K णघगपटिपेल्लिय.

19 सुहईइ सुभगया. 20 b वि हा रंडु प्रभावहुल.

3 1 a णमणपयणियं वित्ते जनित. 3a वउ वपु जगंणु 5b वणगणियारिणि वन-कणेष्वा. 7a सालसुयगउ आलस्ययुक्तं शरीरम्, b सुमरु एत्थम् 10b वउ वउ दान्णमणे निज्जिण्ण-घटाः संघट्टात् शब्द कुर्वन्ति, अथवा. सभ्यत्थित धन सट्टसट्ठि. 12 दिउ रम्मइ दिग हउरं.

तृयंसिरमणि गुणमणिणिवहखाणि  
सुपसुत्त पुत्तसंणिहियमइ  
घत्ता—सीहु हत्थि ससि दिणयरु  
सिरि वसहिंदु पमत्तउ

सरसेणाजियसेणा रमाणि ।  
सा सिविणयं सुविणिय णियइ सइ ।  
पुण्णकलसु पंकयसरु ॥  
संखुं दाहिणावत्तउ ॥ ६ ॥

## 7

दिट्टउ सिट्टउ सुहिमाणियइ  
फलु विलसिउं भासिउं तेण तहि  
तहि गम्भि अब्भि णं चंदमउ  
उप्पण्णउ धण्णउ पुण्णाणेहि  
जं जाणिउं भाणिउं जेण जहिं  
णयरिद्धिइ बुद्धिइ लक्खियउं  
मायइ पियवायइ गुणसहिउं  
सवियक्कउ थक्कउ तरुणिरुं  
ता रापं तापं तालघणु  
दुहहरु सिरिहरु जिणु सेवियउ

घत्ता—चितइ माहिपरमेसरु  
कण्णहु णियइइ घुलियइं

णियकंतहु कंतहु राणियइ ।  
दिसवल्लेण विमल्लइ थियइ णहि ।  
थिउं सिरिहरु सिरिहरु सच्चमउ ।  
तरु धराणिहि अराणिहि णाइं सिहि ।  
वड्ढंते संते तेण तहिं । 5  
णिहिलत्थु वि सत्थु वि सिक्खियउं ।  
णियणामु सधामु तासु णिहिउं ।  
णवजोव्वाणि णं वणि महुसमउ ।  
गंपिणु गयसोउ असोयवणु ।  
भवपासु सुदूरु विहावियउ । 10

एवहिं धम्महु अवसरु ॥  
मरणु कहंति व पलियइं ॥ ७ ॥

## 8

सो अजियसेणु वेणुं व धरहि  
रिसिसिक्खहि दिक्खहि लग्गु किह

अहिथविउ णहविउ ढोइयकरेहि ।  
पिउ हयकलि केवलि हुयउ जिह ।

१० AP तियसिरं. ११ A सविणय सिविणय, P सुविणय सिविणय. १२ AP सखु वि दाहिणवत्तउ.

7 १ सुहमाणियइ. २ A दिसिवल्लइ विमलि थियम्मि णहि, P दिसवल्लइ विमलि थियम्मि णहि. ३ AP omit थिउ. ४ A उप्पण्णउ वण्णउ सच्चणिहि, P उप्पण्णहु धण्णहु पुण्णाणेहि. ५ A तरुणियउ. ६ AP वणि ण. ७ A तालहिं तालघणु. ८ AP भवयार ९ A सदूरु.

8 १ A वेणु व धरहु. २ A °करहु.

9 b अजियसेणा अजितसेनानाम्नी. 10 a पुत्तसंणिहियमइ पुत्रे स्थापिता मतिर्यया, b सि विणय स्वमान् सुविणिय निद्रायुक्ता, णियइ पश्यति.

7 a चंदमउ चन्द्रमाः. 4 b अराणिहि मन्थनकाष्ठात् 7 b णियणामु निजनाम अजितनेन इति. 8 b महुसमउ वसन्त. 10 b विहावियउ निकटमानीत.. 12 पलियइ पलिनानि.

8 1 b अहिथविउ अभिस्थापित..

एत्तहि जयजत्तहि जोत्तियहु  
 तसियक्कु चक्कु तहु हुयउ धरि  
 जणजोणिहि खोणिहि साहियइं  
 णवणिहि मणादिहिउप्पायणइं  
 चउदह दहंगभोएण सहुं  
 कयदमु अरिदमु णामे समणु  
 जो मण्णइ वण्णइ जिणचरिउं  
 घरु पत्तु पत्तु ते जोइयउ  
 णवपुण्णइं णवणवभावणइ  
 गुणवंतहं संतहं महरिसिहिं  
 महिवट्टयणिकंटयवइहि

घत्ता—चक्कवट्टिसिरिलीलइ  
 दिट्टउ जिणु तईणीलइ

णिकखत्तियखत्तियसोत्तियहु ।  
 रुइपुंजु कंजु ण कंजैसरि ।  
 चंडैइं छक्खंडइं साहियइं । 5  
 रयणइं चेयणइं अचेयणइं ।  
 घरु एंति देंति चितविउं लहु ।  
 मासोववासि धर्णारासितणु ।  
 जे सुत्तु सुजुत्तु समुद्धरिउ ।  
 अणवज्जु भोज्जु संप्राइयउ । 10  
 ते वद्धइं णिद्धइं कर्यंपणइ ।  
 आदंसियसंसियसुहदिसिहिं ।  
 पंचभुय तहु हुय णरवइहि ।  
 एंव तासु गयकालइ ॥  
 मणहरणामवणालइ ॥ ८ ॥

## 9

सुहावहं	गईवहं ।
रविप्पहं	गुणप्पहं ।
थिरं थियं	सुयं सुयं ।
णिवाइणा	सराइणा ।
महाणिणा	पुणो तिणा । 5
मुएवि सं	रईविसं ।
कयं तवं	गयासवं ।
णिरासयं	अहिसयं ।
अदोसयं	अमोसयं ।

३ P रजसरि. ४ P °भोएहिं ६ A गुणरासितणु. ७ P सज्जु ८ AP संप्राइयउ. ९ P णवपुण्णय  
 १० P कयविणइ. ११ A महिवट्टयणिकंटयवइहो, P महिवट्टयणिकट्टियमहिहि १२ A णरवइहो.  
 १३ P तरुलीलइ.

9 १ A omits अहिसय.

3 a जयजत्तहि विजययात्रायाम्. 4 b कजसरि कमलसरसि 7 a दहगभोएण सरत्ता निधयो  
 देव्यः पुर शय्यासने चम् । भोजनं भाजन नाद्य भोगस्तस्य दशाङ्गक.. 8 b धणरासि तणु धनराशिः  
 तृणवद् यस्य. 10 a पत्तु पात्रम्. 13 a °वट्टय भागः.

9 1 a सुहावह सुखप्रापकम्, b गईवहं चतुर्गतिविनाशकम्. २ a रविप्पह आदित्यतुल्य-  
 तेजसम्, b गुणप्पहं गुणाना मार्गभूतम् 3 b सुय सुयं श्रुत श्रुतमार्कणितम्. 4 a णिवाइणा नृप-  
 भास्करेण, निश्चितवादिना वा, b सराइणा धर्मानुरागयुक्तेन. 5 a महाणिणा चक्रवर्तिना. 6 a मुएवि  
 मुक्त्वा, स श सुखम्, b रईविस रतिविषम्.

अरोसयं	अतोसैयं ।	10
विहट्टियं	पलोट्टियं ।	
चैलं खलं	मणोमलं ।	
मँओ मुणी	हुँओ गुणी ।	
अणप्पए	सुकप्पए ।	
वुहत्थुए	सँ अच्चुए ।	15
विहंकरे	सुहंकरे ।	
समाणए	विमाणए ।	
घत्ता—आउमाणु हयणिइइं	तहु वावीससमुइइं ॥	
तेत्तियवाससहासहिं	भुंजइ मणविण्णासहिं ॥ ९ ॥	

## 10

ससेइ सो पमत्तए	दुवीसपक्खमेत्तइ ।	
सहंतकंठरेहओ	तिहत्थमेत्तदेहओ ।	
अमस्सरोमकेसओ	ससंकसुकुल्लेसओ ।	
अमोहवोहसंणिही	पँहू तमप्पभावही ।	5
किरीडँकोडिमंडिओ	अपाढओ वि पंडिओ ।	
अधूविओ सुगंधओ	अण्हँयओ सिणिद्धओ ।	
सहावजायभूसणो	कणंतिकिंकिणीसणो ।	
विचित्तचारुचेलओ	ललंतफुल्लमालओ ।	
जहिं जहि विजोइओ	तहिं तहिं विराइओ ।	10
गुणेहि सो अदुज्जसो	अणालसो अतामसो ।	
मणेण चितियं जहिं	खणेण गच्छए तहि ।	
कवाडवेइअंतरे	असंखदीवसायरे ।	
कुलायलावलीवणे	रमेइ गंधमायणे ।	
जलंतरणणपावए	दुइज्जयम्मि दीवए ।	

२ A सतोसयं. ३ A वल. ४ A मुओ. ५ P हओ. ६ AP सुअच्चुए.

10 १ AP पमेत्तए. २ AP अमंसु°. ३ P पहुत्तमप्पहा°. ४ A किरीडिकोडि°, ५ AP अण्हाणिओ. ६ AP कणंत°.

11 a विहट्टियं अतीव घर्षितम्, b पलोट्टियं उन्मूलितम् 14 a अणप्पए अनत्यके. 16 a विहंकरे विशिष्टप्रभाजनके. 17 a समाणए पूजासहिते.

10 1 a पमत्तए प्रकृष्टमात्रासंयुक्ते काले. 2 a सहंतकंठरेहओ गोभमाना कण्ठरेखा यस्य. 3 a अमस्सरोमकेसओ अमश्रुरोमकेशरहितः. 4 b तमप्पहावही तम.प्रभापर्यन्तमवधिज्ञानं यस्य. 5 b अपाढओवि अपाठितोऽपि. 10 a अदुज्जसो दुर्ग्रशोरहितः. 13 a कुलायलावलीवणे कुलपर्वतपंक्तिवने. 14 a °रणपावए °रत्नामौ.

तर्हि पि सीयतीरिणी	णिदाहडांहहारिणी ।	15
गंद्घट्टचंदणे	तडम्मि तीइ दाहिणे ।	
विलासवाससंतर्ह	धरित्ति मंगलावर्ह ।	
पुरं तर्हि घमृशयं	विहाइ चत्थुसंचयं ।	
घत्ता—सूहउ कामसमाणउ	कणयप्पट्टु तर्हि राणउ ॥	
कणयमाल तट्टु गेहिणि	णं जलहिदि जलवाहिणि ॥ १० ॥	

11

तओ सो सुवत्तो	जिणिंदस्स भत्तो ।	
चुओ देवणाहो	ट्टुओ पोमणाहो ।	
सुओ तीइ दिव्वो	अगव्वो सुभव्वो ।	
सरुवेण मारो	वलेणं समीरो ।	
पयावेण सुरो	धणेणं कुवेरो ।	5
गर्हणं विसिंदो	जुंइए णिसिंदो ।	
मर्हणं महल्लो	गुणीणं पहिल्लो ।	
रमाए सुर्दिदो	खमाए मुणिदो ।	
पिऊ तुट्टुचित्तो	स पुत्तेणं जुत्तो ।	
गओ रिद्धंक्खं	सरुहंक्खदंक्खं ।	10
णहालगतालं	फलालं लयालं ।	
भमंतालिंसांमं	मणोहारिणामं ।	
वणं तं पइट्टो	सयासिद्धुणिट्टो ।	
तर्हि तेण दिट्टो	मुणीणं वरिट्टो ।	

घत्ता—तट्टु धुवसिवंपुरगामिहि णरवइ सिरिहरसामिहि ॥ 15  
जम्मभंवनसमभग्गउ दिट्टु कमकमलंहि लगगउ ॥ ११ ॥

७ AP °डाहधारिणी. ८ P गयद°. ९ A जलणिहि.

11 १ P पडमणाहो. २ A तेए दिव्वो. ३ AP सरुवेण. ४ P रूइणं सुचदो. ५ A रिद्धि-  
क्खं. ६ A सुरो दक्खदक्ख. ७ P भमंतालिंमं, P adds after this मरालीमरालं, सुच्छाइसामं.  
८ T सिद्धणिट्टो उत्तमानुष्ठानः. ९ P °पुरिगामिहि. १० P जम्ममरणसम°. ११-A °कमलहो लगगउ.

11 1 a सुवत्तो शोभनवदन. 6 a वि सिं दो वृषभेन्द्रः, b णि सिं दो चन्द्र. 8 a रमाए  
ऐश्वर्येण. 9 a पिऊ पिता कनकप्रभः. 10 b सरुहंक्खदंक्ख रुद्राक्षेण द्राक्षालतया चःसहितम्. 11 b  
लयाल लतायुक्तम्. 13 b सिद्धणिट्टो श्रेष्ठमनुष्ठान यस्य. 15 सिरिहरसामिहि श्रीधरमुनेः. 16 जम्म-  
भंवनसमभग्गउ संसारभ्रमणश्रमेण भ्रमः.



## 12

णिवदरणि मारणि साइणिय  
 लहु ढोयवि जोयवि सुयमइउ  
 पडिवणुणउं सुणुणउं तेण वणु  
 सोमप्पह सुप्पह तासु पुर्ये  
 णिरवणुणु सुवणुणु ताहं तणउ  
 सासिअक्कचक्कचंचलपयहिं  
 सइं सासणि आसणि थियउ जहिं  
 विणुणविवि णंवि वि ओलगियउ  
 णिगंथहु पंथहु खैणु ण चुउ  
 घत्ता—सयलहं जीवहं मित्तउ  
 णियदेहे वि णिरीहउ

णियतणयहु पणयहु मेइणिय ।  
 कणयप्पहु दप्पहु पावइउ ।  
 चलसंदणु णंदणु गउ भवणु ।  
 किं अक्खमि पेक्खमि णाइं सुयं ।  
 लद्धुणुणइ भणुणइ किं मणुंउ । 5  
 दियहेहिं रहेहिं व संगयहिं ।  
 पहसियमुहु तणुरुहु थंविउ तहिं ।  
 वंउ सिरियरु सिरिहरु मगियउ ।  
 सो पोमंप्पहु रिसिणाहु हुउ ।  
 हेमधूलिसमचित्तउ ॥ 10  
 वणि णिवसइ मुणिसीहउ ॥ १२ ॥

## 13

पयारह मणहरकहियाइं  
 मयदवणे तवणे तवियाइं  
 उद्धोमकामविहावणउ  
 तहु लीणउं झीणउ रयपसरु  
 णामल्लउं भल्लउं जाणियउ  
 आराहिवि साहिवि संतमइ  
 अववग्गहु सग्गहु मज्झि जइ  
 उच्छणुणुच्छिणुणामिच्छत्तगंहि  
 तिगुणियंदहतिजलहिंआउहरि

अविहंगइं अंगइं गहियाइं ।  
 तुंगइं अटुंगइं खवियाइं ।  
 सुहंसीलहं सोलहहं भावणउं ।  
 लइ लद्धउं वद्धउं तित्थयरु । 5  
 परिछेयहु छेयहु आणियउ ।  
 जीविउं संप्राविउं दिव्वगइ ।  
 णिव्वाणठाणसंबद्धरइ ।  
 संपुणुणपुणुणफलभुत्तिवहि ।  
 तइसंखपक्खणीसासयरि ।

12 १ P णिवमारणि. २ P मारणि. ३ A सइरिणिय. ४ AP पिय. ५ AP सिय. ६ A णाहतणउ. ७ P मणउ. ८ A थियउ, P णिहिउ. ९ A णविउ. १० AP वउ सिरिहरु. ११ P खणिण कउ. १२ A पोमणाहु, P पउमणाहु.

13 १ AT मणहरणिहियाइ. २ P omits this foot. ३ A°सील्लउ. ४ AP add after this : भोवेप्पिणु सिवपहदावणउ. ५ P झीणउ लीणउ. ६ P रइपसरु. ७ AP संप्राविउ. ८ AP उच्छिणुण°. ९ A °गिहे but gloss ग्रहे.

12 1 a साइ णिय शाकिनी; b पणयहु प्रणतस्य. 2 a सुयमइउ शुचिमतिः. b दप्पहु दर्पघातकः. 5 a णिरवणु नृणां रम्यः. 8 b सिरियरु श्रिया कर्ता, सिरिहरु श्रीधरनामा जिन.

13 1 a मणहरकहियाइं अमनस्कै केवलिमि. प्रतिपादितानि. 2 a तवणे आदित्येन तपसा च; 5 b परिछेयहु परिच्छेदं आयुः छेदमानीतम्; छेयहु उत्तमस्य.

तेत्तीसवाससहसंतरिड  
करमेत्तु गत्तु विच्छुरियंदिस्तु

घत्ता—तहिं सियंगु सुच्छायड  
जं पेक्खिवि पंहहीणी

आहारु चारु जहिं अवयरिड । 10  
जहिं णिहिलु धवलु जणु णं सुंजसु ।

वइजयंति सो जायड ॥  
भरह पुष्फदंताणी ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसड्ढिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्फयंतविरइए  
महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे पडमणाहवइजयंतसंभवो  
णाम पंच<sup>१३</sup>चालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४५ ॥

१० AP वित्थरियदिस्तु. ११ A णदजसु. १२ A पहाणी. १३ P पंचचालीसमो.

13 पहाणी प्रभाहीना जाता, मलिना वभूव निजभर्तृकान्तिविच्छेदात्, भरह स्मरत, पुष्फदंताणी पुष्पदन्तभार्या.

तद्देवहु तेत्तीसंवुणिहिपरिमियाउ पुणु णिड्डिउ ॥  
काले कलियउ तं तेत्तिउ वि छम्मासंतु परिड्डिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

तद्देवहुं सहसंच्छि सहासवाहु	अक्खइ जक्खहु सोहम्मणाहु ।
भो जक्ख जक्ख सयदलदलक्ख	परिपालियवसुहाणिहाणलक्ख ।
इह जंबुदीवि भरहंतरालि	चंदउरि पउरि धणकणजणालि । 5
धरसेणु महासेणक्खु णिवइ	जं लंघिवि उवरि ण रवि वि तवइ ।
सोहग्गे तिहुयणाहिययलीण	गमणेण हंसि घोसेण वीण ।
सियसरलतरलणयणाहिं कुरंगि	लक्खण णामे लक्खणहरंगि ।
तद्देव पणइणि णं ससहरहु कंति	णं मुणिवरणाहहु लग्ग खंति ।
अद्धमउ दयासरिमहिहरिंदु	एयहु धरि होसइ जिणवरिंदु । 10
सयणासणु भूसणु असणु वसणु	करि पुरवरु सुंदरं दलहि वसणु ।

घत्ता—ता भूरिचंदमउ चंदउरु चंदमुह्णिण तं विरइयउ ॥  
धणदेवीभत्तारेण खणि मोत्तियरयणहि खइयउ ॥ १ ॥

2

समविउलवाहियालीणिवेसु	अवितुइहट्टिटंटापपसु ।
वियसियवणपरिमलमहमहंतु	चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु ।
जिणवरघरघंटाटणटणंतु	कामिणिकरकंकणखणखणंतु ।
माणिककरावलजलजलंतु	सिहरग्गधयावलिललललंतु ।
ससिमणिणिज्झरजलझलझलंतु	मग्गावलग्गहरिहिलिहिलंतु । 5
करिचरणसंखलाखलखलंतु	रविंयंतहुयासणधगधगंतु ।

1 १ AP कवल्लिउ. २ A सहसत्ति but gloss सहस्रपाक इन्द्र. ३ A धणकयजणालि.  
४ A वरसेणु. ५ AP सुंदरु दलियवसणु. ६ P भूरिचंदसुहचंदउ. ७ A चंदमुहेणं विरयउ.

2 १ P समु जेत्यु वाहिं. २ टंटापपेसु. ३ P चरणह सखला. ४ AP रविअंतं.

1 2 कलियउ कवल्लितम्. 3 a सहसच्छि सहस्राक्ष. 4 a सयदलदलक्ख कमलपत्रवनेत्रे  
यस्य. 5 b पउरि प्रचुरे महति. 6 a धरसेणु घृता सेना येन. 8 b लक्खण लक्ष्मणा. 11 b दलहि  
वसणु व्यसनं कष्टं-नाशय. 12 भूरिचंदमउ सुवर्णमयम्. 13 धणदेवी भत्तारेण कुवेरेण.

2 1 a समविउलवाहियालीणिवेसु समविस्तीर्णवाह्यालीप्रदेश, b टंटापपेसु श्रुतस्या  
नम्. 5 a ससिमणिं चन्द्रकान्तमणि., b हरिं अश्वः. 6 b रविंयंतहुयासणं सूर्यकान्तोद्भूत. अग्नि.

बहुमंदिरमंडियंजिगिजिगंतु  
गंभीरतूररवरसंसंतु  
कालायरुध्रुवियणायरंगु

सद्वलदलतोरणवलचलंतु ।  
तरुगयवसंतु णिच्चु जि वसंतु ।  
णाणारंगावलिलिहियरंगु ।

घत्ता—सा सुंदरि पियमणहारिणिय सुंरहियगंधं मालइ ॥ 10  
सुहं सुत्त विरामि विहावरिहि सिविणयमाल णिहालइ ॥ २ ॥

3

गलियदाणचलजललवलोलिरभिगयं

पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं ।

इट्टुगिट्टितणुफंसणकंटइयंगयं

वसहममलथलकमलपसाहियसिंगयं ।

तिक्खणक्खणिह्रारियमारियकुंजरं

रत्तलित्तमुत्ताहलमंडियकेसरं ।

सीहयं मुहावालुयणिगयदाढयं

गोमिणि च दिसकुंजरसिचणरूढयं ।

इट्टुगंधसेलिंघकरंबयकोसयं

दामजमलमलिमालासहपरिपोसयं ।

पुण्णयं विहुं जामिणिकामिणिदप्पणं

उग्गयं इणं पीणियपंकइणीवणं ।

मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं

चारुहारिकल्लाणघरं घडंसंपुडं ।

हंसचंचुपुर्डखुडियभिसं भिसिणीहरं

सेयसलिलवेलागहिरं रयणायरं ।

कुलिसणहरकेसरिकिसोरधरियासणं

अवि य पायसासणजसस्स णं सासणं ।

५ A °मंडण°. ६ A समसमतु. ७ A सुरहिगंध णं मालइ, P सुरहियगध स मालइ. ८ A सुहसुत्ति;  
P सुहं सुत्त.

3 १ P °विहारिय°. २ P °मुत्ताहलमालामंडिय°. ३ AP सुहावालुय°. ४ AP °करविय°,  
५ AT घडसघड. ६ A °फुडखुडिय°.

7 a बहुमं दिर° स्त्रीणा शयनावासः, b सद्वलदल° सार्द्रपत्राणि. 8 a °रसमसतु शब्दायमानम्,  
b तरुगयवसंतु बहुजनाधिष्ठितम्, णिच्चु जि वसंतु नित्यमेव वृक्षस्थितो वसन्त. 9 b °रगु  
प्राङ्गणप्रदेशः.

3 1 °भिगयं भ्रमरम्. 2 °मयगयं मतङ्गजम्. 3 इट्टुगिट्टि° वल्लभा गौ. 7 मुहावालुय°  
दीर्घम्. 8 गोमिणिं लक्ष्मीम्. 9 इट्टेत्यादि इष्ट. उत्कटो गन्धो येषा तानि सेलिंघपुष्पाणि तेषां करवयं  
सघातः तस्य कोसय स्थानम्. 10 अलिमालासह° भ्रमरश्रेणिसभा. 12 इणं मयं. 13 °अणिहणं  
प्रचुरम्. 14 घडसपुडं घटयुगलम्.

इंदधामँमहिचंदवइस्स णिहेलणं

रयणपुंजमरुणंसुसिहातर्महालणं ।

20

झत्ति दित्तजांलासयछित्तणहंगणं

हुयवहं च सँइ पेच्छइ जालियकाणणं ।

घत्ता—इय पेक्खवि रायहु राणियइ संतोसेँ आहासिउ ॥

तेण वि तहु मंगलदंसणहु फलु पणँइणिहि पयासिउ ॥ ३ ॥

4

सुओ देवि होही तुहं तित्थणाहो  
दिही आगया देवया पंकयच्छी  
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासकालं  
चइत्तस्स पक्खंतरे चंदिमिल्ले<sup>३</sup>  
रिसी पौमणाहो चुओ सोहमिंदो  
सुँपासाहिवे णिव्वुए संगएहि  
णहाजक्खणिक्खित्तमाणिक्खएहिं  
तओ पूसमासे पडंतम्मि सीए  
पहूओ पहू पुण्णपाहोहमेहो  
सपायालमगं सतारक्कसकं

असामणसंपत्तिवित्तीसणाहो ।  
हिरी कंति कित्ति सिरी बुद्धि लच्छी ।  
णिहिंत्तं सुवण्णं सुवण्णं पहालं ।  
सुहोहायरे वासरे पंचमिल्ले ।  
थिओ गब्भवासे पुलोमँरिवंदो । 5  
समुद्दाणहो रंधकोडीसएहिं ।  
पउण्णेहि मासेहिं रामंकएहिं ।  
सुहे सक्कजोयम्मि एयारसीए ।  
जगाणं गुरू लक्खणुप्पत्तिगेहो ।  
खणे कंपियं झत्ति तेलोक्कचकं । 10

घत्ता—परतेउ ण कत्थइ विप्फुरइ अंधारउ णउ रेहइ ॥

जम्मणु उग्गमणु वि भुवणयलि जिणदिणणाहहं सोहइ ॥ ४ ॥

5

सहसा जायउ सुरलोयँखोहु  
उच्छाहँ रक्खस किलिकिलंति

वीणारवु चल्लिउ किणरोहु ।  
वँडंतइं भूयइं णहि मिलंति ।

७ A इंदधाम वरउरवइणिहेलणं. ८ A °तमहारण. ९ P °दित्तिजाला°. १० A हुयवहस्स ज सा पेच्छइ, P हुयवह च सा पेच्छइ. ११ पणइणिही.

4 १ P असावण्ण°. २ A णिहत्तं. ३ A चंदमिल्ले. ४ A पुणोमारिवंदो. ५ A सुपयासिउ. ६ P पुण्णयंभोहमेहो. ७ P जयाणं. ८ P सपायालसगं सतार ससक.

5 १ सुरलोइ खोहु. २ A वगतइ.

19 अ हि च द व इ स्स अतिवृन्दपते नागराजस्य. 20 °त महालण अन्वकाग्रप्रधालनम्. 21 षिण सृष्टम्. 22 सइ सर्ती.

4 1 b असामणसंपत्तिवित्तीसणाहो अद्वितीयवर्दीप्रवृत्तिमन्त्रिः. 3 a णिहीमेण कुवेणेण. b सुवण्ण जोमनवर्णम्. 4 b सुहोहायरे ? सुभोगाकरे शति मयोगनम्. 5 a ममउर मम गीर्वा. 7 b गमंकएणि गमाद्धिर्वनवभिवंभट्टः. 8 b मक्कजोयम्मि इन्द्रतोमं उरुवणम्. 9 पुण्णपाहोहिं पुण्णमेव कथो जउ तस्य जीव .

किंपुरिस के वि किं किं भणंति  
 रयवंत महोरय फुफुयंति  
 अणिवद्धु पिसायउ लइ चवंति  
 ससहररवितेणं महि णहवंति  
 दुग्गह गहचरियइं णिक्खवंति  
 णक्खत्तइं णवणक्खत्तमहिउ  
 दाविय णियपंति पइण्णएहिं  
 णहवडणविवरमुहणिगंमेहिं  
 संगलियंइं मिलियंइं सुरउलाइं

सहिद्धिदेव पुच्छिवि मुणंति ।  
 गंधव्व गेयसरु सँइं मुयंति ।  
 दसदिसइं जक्ख रयणइं धिवंति । 5  
 तारउं तारत्तणु पक्खवंति ।  
 जय णंद वँडु सामिय चवंति ।  
 वंदहुं चलियाइं वियाररहिउ ।  
 सासेहि वं चासपइण्णएहिं ।  
 दिसिविदिसामग्गसमागमेहिं । 10  
 भावणभाभरियइं जलथलाइं ।

घत्ता—अइरावयकुंभविइण्णकरु पत्तउ जियपरसेणहु ॥

पुरुहूयउ पुरपासहि भमिवि घरि पइट्टु महसेणहु ॥ ५ ॥

## 6

तओ तेण छम्मेण णिच्छम्मयाए  
 तडालग्गतारावलीमेहँलालं  
 रमंतच्छराणेउरारावरम्मं  
 फणिदाणियापायरायावलित्तं  
 लयामंडवासीणविज्जाहरिंदं  
 दरीचंदणामोयलर्गाहिकण्णं  
 गुहाकिणरीकिणरालत्तगेयं  
 णिओ सुंदरं मंदरं देवदेवो  
 पविच्छिण्णकुंभेहिं कुंभीसगामी  
 गुणुप्पण्णणेहेहि णिण्णट्टणेहो  
 जिणिंदो जियारी जयंभोयमित्तो

परं डिंभयं दिण्णयं अम्मयाए ।  
 ससिगप्पहापिगादिच्चैक्कूलं ।  
 दिसादीसमाणुद्धजेणिंदहम्मं ।  
 अदिट्टेक्कलंवत्तंकिंकिल्लिवत्तं ।  
 तुरंगासणोसत्तकीलापुलिंदं । 5  
 मँओमत्तमायंगदंतग्गभिण्णं ।  
 सपायंतणिक्खत्तचंदक्कतेयं ।  
 तहि तेहि सो णाणणिकंपभावो ।  
 तिलोयंतवासीहि तेलोकम्मामी ।  
 अक्खवारखीरेहि खीराहदेहो । 10  
 फणिदेहिं इंदेहिं चंदेहिं सित्तो ।

३ P पुफुयति. ४ P सयं. ५ A °तेयं महि, P तेयह महि. ६ P तागउ. ७ AP वद्ध. ८ A व वास-  
 पइण्णएहिं; P व वण्णपयण्णएहिं, ९ A °णिग्गएहिं. १० A संचलियह. ११ P °भाभारिय जल?

6 १ P अंययाए. २ A °मेहलील, P °मेहजाल. ३ AP दिग्गवाण. ४ AP °क्केहिं.  
 ५ A °णासत°. ६ A °लगाहिकिण्ण. ७ P मयमत्त°.

5 1 a रयवंत सवेगा. 6 b तारत्तणु चैत्तत्वम्. 7 a दुग्गह दुग्गामिद्रया णा. 9 c  
 पइण्णएहिं प्रकीर्णकै; b सानेहिं धान्यै; चासपइण्णएहिं क्षेत्रल्लेग्गामा शेरियला तद्व्यर्त्ति.  
 13 पुरुहूयउ इन्द्रः

6 1 a णिच्छम्मयाए निष्कपटावाः. 2 a गिराल मोग्गणुत्तम्. 3 a °तेहिं पइण्ण-  
 जिनालयम्. 4 a फणिदाणिया° पन्नावती. b °किं किं लिक्ख अम्मोन्वाम्. 6 c विमगादिक्कण्णं णाण-  
 अदिट्टन्या नागक्कन्या रस्मिन्. 7 l सपायन्तं न्यवाणन्ते. 9 a ट्टु नीसं मनेन्द्रः. 10 b अक्खवारं मण्डु.

घत्ता—तं दुद्धं पडंतउ जिणतणुहि कंतिई पयंहु ण होंतउ ॥  
णं अमिउं ससंकहु विर्यंलियउं दिट्ठु महिहि धावंतउं ॥ ६ ॥

7

दिव्वं गंधं पुष्पं धूवं	वासं भूसं चरुयं दीवं ।	
दाउं सव्वं सव्वाणिट्ठं	काउं पुज्जं सत्ये दिट्ठं ।	
णाणत्तयघणपुष्पसमुद्धं	तं गहिऊणं भयंवं भद्दं ।	
तं पेच्छंता तं पणवंता	तं गायंता तं णञ्चंता ।	5
चंदउरं मणितोरणंदारं	आया देवा रायागारं ।	
उर्वंसमवेल्लीवासारत्तं	जणणीहत्थे दाऊणं तं ।	
सोहम्मीसाणा देवेसा	पत्ता सग्गं णाणावेसा ।	
वाणासणदिवहुसयंतुंगो	सेयंगो णं सेयपयंगो ।	
उप्पाइयखाइयसम्मत्तो	इक्खाऊ कासवणिवगोत्तो ।	
दो लक्खा पुव्वाणं छिण्णा	पण्णासंहुसहासाउण्णा ।	10
एस तस्स तरुणत्तणकालो	पच्छा हूंओ मेइणिवालो ।	
तत्थ वि जायं देवागमणं	पारावारवारिघडण्हवणं ।	
वइसवणाणियवसुंसंदोहे	भोए भुजंतस्स ससोहे ।	
छहु लक्ख पुव्वाणं झीणा	अरिहसंखपुव्वंगविलीणा ।	
घत्ता—अण्णाहिं दिणि दप्पणयलि वयणु जोयंतं तं दिट्ठुं ॥		15
जेणेत्यं दहसंसारसुहि हियउल्लउं उव्विट्ठुं ॥ ७ ॥		

8

आवेप्पिणु पंजलिहत्थएहिं  
पंचमगइसमुद्धं मउज्जुणीहिं

दूराउ पणांमियमत्थएहिं ।  
पडिसारिउ आहंडलमुणीहिं ।

८ P कंति. ९ P विर्यलिय.

7 १ AP चरुवं. २ A इट्ठ सिहं, P णिट्ठं सिहं. ३ A सव्वं भद्दं. ३ A °तोरणवार. ४ P तव-  
सम°. ५ P सउतुगो. ६ AP पण्णासहसहासा. ७ AP हूयउ. ८ P पारावार वारि. ९ P °सदोहं.  
१० P ससोहं. ११ A जेणित्यु दहु संसारसुहि.

8 १ A पणाविय°. २ A पडिवारिउ.

7 2 a सव्वाणिट्ठं सर्वेषामिष्टम्. 3 a णाणत्तयघणपुष्पसमुद्धं ज्ञानत्रयमेव घनपुष्पं जलं  
तस्य समुद्रम्. 6 a °वासारत्तं वर्षोऽस्तु.. 8 b सेयपयंगो चन्द्रः 13 b ससोहे शोमनायुक्ते. 14 b  
अरिहसखं चतुर्विंशति. 16 उव्विट्ठुं उद्विग्नं वैराग्यं प्राप्तम्.

8 2 a मउज्जुणी हिं मृदुध्वनिभिः; b पडिसारिउ प्रोत्साहितः.

मुहपयलमाणधारासिवेहिं  
 कल्लाणाहरणविहूसियंगु  
 वरचंदु सणंदणु णिहिउ रज्जि  
 सिवकंखइ पडु सिवियहि चंडिणु  
 दयविच्छिणीगरुईणिसीहि  
 अणुराहाणक्खत्तावयारि  
 णिल्लूरिवि मंदिरमोहंवासु  
 णिक्खंतु लेवि छट्ठोववासु  
 तंहु को वि ण मित्तु ण को वि वेसु  
 दंडगविलंविचेलमयरि

अहिसिंचिउ विहु अज्जुणणिवेहिं ।  
 पैरदिण्णदाणु णं वरमयंगु ।  
 तहिं कालइ सुरहयविविहवज्जि । 5  
 सव्वत्तुवणंतरि समवइणु ।  
 पूसम्मि कसणएयारसीहि ।  
 णिण्णेहत्तणु जुंजिउ सररि ।  
 लुंचिवि घल्लिउ सिरकेसंवासु ।  
 सुंहुं पावइयउ रायहं सहासु । 10  
 मज्झत्थु महत्थु विसुद्धलेसु ।  
 अवरहि दिणि पइसइ णलिणणयरि ।

घत्ता—णंउ करयलि पत्तलि पत्तु ण वि णउ पइ णेउरघोसणु ॥

णंउ भूरिभूइ भूरकुंडियउ णउ मंसिरेहाभूसणु ॥ ८ ॥

## 9

हुंकारु ण सुयइ ण देहि भणइ  
 परमेसरु पंचायारसारु  
 जा लुहु जि भवणप्रंगणु पइहु  
 कर मउलिवि करेवि उरुत्तरीउ  
 काणं वयणं सुद्धं मणेण  
 दुंदुहिसरु सुरसर पुप्फविट्ठि  
 तहिं चोज्जइं पंच समुग्गयाइं  
 थिउ तिण्णिण मास छम्मत्थु तांव

णउ सण्णइ णउ गंधव्वु झुणइ ।  
 दक्खवइ वीर भिक्खावयारु ।  
 ता सोमयत्तराएण दिहु ।  
 संचिउं पुण्णंकुंरपवरवीउ ।  
 आहारदाणु तहु दिण्णु तेण । 5  
 घणु वरिसिउ हूई रयणविट्ठि ।  
 पालंतु संतु संतइं वयाइं ।  
 णायावणिरुहतल्लु पत्तु जांव ।

३ P परिदिण्ण°. ४ P चडंतु. ५ A संपत्तु. ६ P समयवंतु. ७ P मोहपासु. ८ AP सिरि केसपासु.  
 ९ A सहु. १० P तहु मित्तु अमित्तु ण को वि देसु. ११ P ण वि. १२ AP णउ कुंडियउ. १३ A ससिरेहा.

9 १ A reads *a* as *b* and *b* as *a*. २ AP ° पंगणु. ३ A सोमदत्त°. ४ A करु मउलि करेविणु रतरिउ, P कर मउलिकरेविणु उत्तरीउ. ५ A सिंचिउ. ६ AP पुण्णंकरु. ७ AP वरिसिवि.

3 *a* धारासिवेहिं धाराजलै, *b* अज्जुणणिवेहिं शुभ्रकलशै. 6 *b* सव्वत्तुवणतरि सर्वर्तुकवने. 7 *a* दयविच्छिणीगरुईणिसीहि उदकमार्गेणानीता गुर्वी निशा यस्यामेकादश्याम्; तदा काले हि समुद्रमध्यं प्रविश्य गच्छत्यादित्यः, तेन रात्रिर्दीर्घा, अथवा दयाविस्तीर्णा गुर्वी सर्वप्राण्यभयदानदायिका दीक्षादिनत्वात्. 9 *a* णिल्लूरिवि विध्वस्य. 14 भूरिभूइ प्रचुरभस्म, भुरकुंडियउ भूरकुटिला, मसिरेहा° इमश्रुराजि..

9 4 *a* ऊरुत्तरीउ गरिष्ठोत्तरीयम्. 6 *a* सुरसर देवसाधुकारः अहो साधुदानं इत्येवंरूपः. 8 *b* णायावणिरुहतल्लु नागकेशरवृक्षतल्लम्.



फग्गुणि दिणि सत्तमि किण्हवक्खि  
छट्टेणुववासं केवलक्खु

अवरण्हइ तहिं णिक्खवणरिक्खि ।  
उप्पाइउं णाणु विवज्जियक्खु । 10

घत्ता—कल्लाणि चउत्थइ जइवइहि सुरयणु दिसहिं ण माइउ ॥

अहिरामे अहिणवभत्तिवसु अहिहुं अहीसरु आइउ ॥ ९ ॥

## 10

लोयालोयविलोयणणाणं सिरिणाहं  
ससहरकंतं पयडियदंतं कंकालं  
कडिहि रवाला किकिणिमाला झणंझणिया  
मइरावाणं मिट्टुं खाणं मृगमासं  
पेयावासो रक्खसभीसो णियठाणं  
एसो वेसो देवे जाणं धम्माणं हाणी  
जे सरगायणवायणणञ्चणलद्धरसा  
कट्टा दुट्टां णिट्टाणट्टा णायचुया  
संसरमाणो भवभमभग्गो भुत्तदुहो  
पइं ण मुणंतो पइं ण थुणंतो कयमाओ  
छिंदण भिंदण कप्पण पउलण घयतलणं  
परघरवासं परकयगासं कंखंतो  
परलच्छीओ धवलच्छीओ सलहंतो  
कउलवियके जोइणिचके रइधरणी

थुणइ मियंको अंको सक्को मुणिणाहं ।  
हत्थे<sup>१</sup> सूलं खंडकवालं करवालं ।  
पासे रामा मुद्धा सामा घणथणिया ।  
दाढाचंडं कुद्धं तौंडं जणतासं ।  
चित्तविचित्तं रम्मं चम्मं परिहाणं । 5  
उज्जियसुत्तो हिंसाजुत्तो रयखाणी ।  
वामच्छीणं रत्ता मत्ता कामवसा ।  
मइमिच्छेणं मइतुच्छेणं ते वि थुया ।  
भो चंदप्पह दरिसियसुप्पंह तुह विमुहो ।  
आसो मेसो महिसो हंसो हं जाओ । 10  
पत्तो तिरिए पुणरवि णरए णिइलणं ।  
णीरसपिंडं तिलखलखंडं भक्खंतो ।  
अलहंतो णियहंतो दीणो हं हौंतो ।  
लोयणगामिय हा मइं रमिया परघरिणी ।

घत्ता—मइं<sup>१०</sup> विप्पे होइवि आसि भवि पसु मारिवि पल्लु भुत्तउं ॥ 15  
गंडयहु हंडु हरिणयहु अइणु देव पवित्तु पवुत्तउं ॥ १० ॥

८ A उप्पायउं, P उप्पणउं. ९ A अहहु.

10 १-A हत्थे सडं फूलकवंडं करवालं. २-A झणिझणिया. ३ A सुद्धा. ४ P मइरापाण.  
५ AP मिगमास ६ AP omit हाणी. ७ AP रयखाणं. ८ AP सरगायणं. ९ AP तुद्धा. १० A  
णिहाणट्टा. ११ AP भवभयं. १२ A सुहपय, P सुहपह. १३ AP हसो महिसो. १४ P कयपरगास.  
१५ A खडखंडं. १६ A रइघरिणी. १७ A विप्पहु होइवि. १८ AP हहु हरिणहु अयणु.

9 b णिक्खवणरिक्खि अनुराधानश्चरे. 10 b विवज्जियक्खु अतीन्द्रियज्ञानम्. 12 अहिहु अभिभु  
भुव लक्षीकृत्य.

10 3 a रवाला शब्दायमाना. 4 a मइरावाणं मदिरापानम्. 5 a पेयावासो श्मशानम्  
6 b रयखाणी रजसां पापाना खनि. 8 b मइमिच्छेणं बुद्धिमिथ्यात्वेन. 11 b तिरिए तिर्यग्योर्ना.  
13 a सलहंतो इच्छन्. 14 a कउलवियके चार्वाकाणा वितर्के भेदे, रइधरणी रतीनां भूमिप्राण,  
b लोयणगामिय अवलोकिता. 16 हहु अस्थि, अइणु अजिन मृगचर्म.

11

णिद्धम्महं मांसाहारियाहं  
तुहुं देव ण होसि सुसामि जाहं  
महयालइ गाइ वि जासु वज्ज  
पंचहि सुदयावर तुहुं जि सरणु  
वलदेवहं अग्गइ देहि तिण्णि  
जे परमविराय वसंति रण्णि  
णंहु सहसइं पुणु चउरो सयाइं  
अट्टंसहसइं सावहिलोयणाहं  
ते चोइंस विक्किरियागुणीहि  
घत्ता—पिंडीदुमु चमरइं दिव्वञ्जुणि कुसुमवरिसु सियछत्तइं ॥  
भामंडलु दुंदुहि सुरवरहि जिणचिधाइं णिउत्तइं ॥ ११ ॥

रसलोलहं णियपरवेइरियाहं ।  
अजिणु वि अजिणहं चुक्कइ ण ताहं ।  
हो हो किं वेएं तेण मज्झ ।  
तुह पायमूले महुं होउ गरणु ।  
तहु गणहर सुंयहर सहस दोण्णि । 5  
ते तहु मुणिसिक्खुव लक्ख दोण्णि ।  
सिक्खंति सत्थु गुरुसम्मर्याइं ।  
अट्टारहसहस णिरंजणाहं ।  
वसुसहसइं मणपज्जवमुणीहि ।

10

12

भयसहसइं छंसय विवाइयाहं  
भणु असीयसहासइं तिण्णि लक्ख  
सावयहं लक्ख गुत्तीसमाण  
देवहं देविहि णउ छेउ अत्थि  
चउवीसहं पुव्वंगहं विहीणु  
वसुमइ विहरिवि तेणेकु पुव्वु  
संमेयहु सिहरु समारुहेवि  
णामइं गोत्तइं वेयणिययाइं  
कम्मइयतेयअंउयारियाइं  
घत्ता—सियपक्खहु फग्गुणसत्तमिहि परमविस्सुद्धिइ रिद्धउ ॥  
जेट्टहि णिट्ठियंमल्लु वहरिसिहिं सहं चंदणहु सिद्धउ ॥ १२ ॥

छलहेउजाइकुलघाइयाहं ।  
संजमधारिणिहिं वहांति दिक्ख ।  
ते अणुवयणारिहिं वयपमाण ।  
तेलोकसूरु केवलगभत्थि ।  
अणु वि मासहि तिहिं मुणहि झीणु ।  
संबोहिवि मणुयसमूहु भव्वु ।  
थिउ जोउ मासु पेरंतु लेवि ।  
आउट्टिदिसरिसइं लहु कयाइं ।  
तिण्णि वि अंगइं ओसारियाइं ।

10

11 १ P मंसाहारि°. २ P परवेरियाहं. ३ AP सुदयावर. ४ A omits portion from सुयधर down to मुणि in 6 b, K writes it in marg. ५ A दहसहसइं. ६ A adds after this; चउसहस ताह पुव्वंधराह. ७ A दोसहसइ. ८ P जाणिय दहसहस. ९ P तेचउदस. १० A रिदु-सयइ सुविक्किरिया°.

12 १ A तासु; K तासु but corrects it to छंसय. २ P जाउ. ३ A चस्सासीसहसइ. ४ P तेहिं अणुवय°. ५ AP देविउ. ६ AP चउवीसइ पुव्वंगह ७ P°अउदारियाइ. ८ A. विसिद्धिइ. ९ A णिट्ठिवि.

11 2 b अजिणुवि चर्मापि, अजिणहं जिनरहितानाम्. 3 a महया लइ यत्तकाले. 10 पिंडीदुमु अशोकवृक्षः.

12 1 b कुलघाइयाह केवलज्ञानिनाम्. 3 b ते लक्षा. 4 a छेउ सख्या. 6 b मुणहि जानीहि. 7 b पेरंतु पर्यन्त 8 b आउट्टिदिसरिसइ आयु स्थितिसदृशानि, यावदायुस्तावत्परिमाणानि. 9 a °अउयारियाइं °औदारिकाणि.

जिणं पुष्पयंतं  
ण हत्थेण छिँत्तं  
सया जस्स सीलं  
पयासेइ संतो  
महीदिणमारो

जिणा पुष्पयं तं ।  
दयाधम्मछिँत्तं ।  
बुहाणं सुसीलं ।  
खणेणं इसंतो ।  
कओ जेण मारो ।

घत्ता—तहु वरचरियविसेसयं  
मेल्लह मोहविडंबणं

आयण्णह महिमासयं ॥  
अथिरं घर घरिणी धणं ॥ १ ॥

## 2

दीवि खरंसुदीवि कुसुमियतरु  
पुव्वविदेहि तासु मंथरगइ  
णवलवंगपल्लवसुरहियजलं  
खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल  
तडवरविडविपंडियणाणाहल  
देहँणिलोलमाः-सूररउल  
जिणपडिमा इव सार्वयसंगिणि  
उत्तरि तीरिं ताहि हयखलवइ  
पुरि णहसिरि व भमालाकंतिहि  
राउ महापउमउ पउमाणणु

पुक्खरद्धि पुव्वामरमहिहरु ।  
णीरगहिर सीय सीयाणइ ।  
मज्जमाणगज्जिरवरमयंगल ।  
गुरुतरंगघोलिरमहुलिहचल ।  
कीलियमहिसेवंदहयणाहल ।  
पक्खितुंडपविहंडियसयदल ।  
किं वणिणज्जइ दिव्वतरंगिणि ।  
अत्थि भूमि णामे पुक्खलवइ ।  
पंडु पुंडेरिकिणि घरपंतिहि ।  
पउमविलोयणु पउममाणणु ।

घत्ता—करतरवारिवियारिया  
णिवडिय सूर वणंगया

जेण रिऊ संघारिया ॥  
णासिवि भीरु वणं गया ॥ २ ॥

६ A छिणं. ७ A छिणं. ८ A घणी.

2 १ AP सीयल. २ A °जले, P °जल. ३ P °गज्जिय°. ४ A °मयगले, P °मयगल.  
५ A °पलिय°. ६ AP महिसविद°. ७ A दहिणीलोल°. ८ P °सिगिणि. ९ A उत्तरतीरे. १० A  
पुंडेरिगिणि.

16 b जिणा येन पुष्पयं कुसुमं पानीयं वा, तं प्रसिद्धम्. 17 a छिँत्तं सृष्टम्; b दयाधम्मछिँत्तं  
दयाधर्मकलितम्. 18 b बुहाणमित्यादि बुधानां सुशीलं शोभनं व्रतरक्षणं प्रकाशयति. 19 a सतो  
विद्यमानः; b इसंतो वाणविनाशकः. 20 a महीदिणमारो पृथ्वीवर्तिप्राणिदत्तमारणः; b मागे  
कामः. 21 b महिमासयं महिम्नां साहाय्यानां शतानि यत्र.

2 1 a खरंसुदीवि सूर्यदीप्ते. b पुव्वामरमहिहरु पूर्वमेरुः. 2 a सीय शीतला. 4 a  
खयरीसिहिणं विद्याधरोत्तनौ. 5 b णाहल भिल्ला. 6 a देहणं उपलेप. कर्दमः. 7 a सार्वयसंगिणि  
श्रावकयुक्ता श्रापदयुक्ता च. 9 a भमालां नक्षत्रमाला. 12 वणंगया व्रणितवरीगः.

3

परियाणिय णिव अत्थाणत्थहु  
भावेप्पिणु अक्खिउ वणवालें  
तं णिसुंणिवि सो रइयरहंतहु  
वंदिउ वंदणिज्जु जो वंदहुं  
जिह जिह तेणें देउ णिज्जाइउ  
भिच्चलोउ दूसणु परलोयहु  
णारि मारि भीसण तें दिट्ठी  
पुत्तहु वालकमलदलणेत्तहु  
मुक्कउं घरु बहुदुक्खहं भंडउं

एक्कहिं दिणि तहु अत्थाणत्थहु ।  
नृव वणु भूसिउं तिहुवणवालें ।  
वंदणहत्तिइ गउ अरहंतहु ।  
इंदचंदणाइंदणरिंदहुं ।  
तिह तिह सो णिव्वेउ पराइउ । 5  
भोउ गणिउ सरिसउ फणिभोयहु ।  
हियवइ विसयविरत्ति पइट्ठी ।  
देवि धरत्ति झत्ति धणयत्तहु ।  
लइयउं वरुं संसारतरंडउं ।

यत्ता—सुंयरंतो जिणपुंगमं  
पालइ मुक्कणियंगउ

इसि प्राणिदियसंजमं ॥  
सुयएयारहअंगउ ॥ ३ ॥

10

4

णारीचितणु णं करइ दंसणु  
गंधु मल्लु सरु राउप्पायणु  
तं परिहरइ वच्छुं जहिं रोसहु  
भाविवि भावणाउ णयजुत्तिउ  
कम्म अहम्मु णियाणु णिसिद्धउं  
मुउ संणासणेण जोईसरु  
अह्हाइज्जहत्यतणु सुंदरु  
मुयइ सासु सुहणिहि दहंमासहिं  
ओहिणामंणाणेण परिक्खइ  
कालें कालाणु संप्राविइ

णउ संभासणु णउ करफंसणु ।  
णउ अइमत्तपाणरसभोयणु ।  
होइ सूइ माणाइयदोसहु ।  
दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिउ ।  
तित्थयरत्तगोत्तु तें वद्धउं । 5  
जायउ प्राणयकप्पि सुरेसरु ।  
वीससमुहमाणंजीवियधरु ।  
भुंजइ वीसहि वरिससहासहिं ।  
धूमप्पह महि जांव णिरिक्खइ ।  
थिइ छम्माससेसि तहु जीविइ । 10

3 १ AP णिव. २ AP तं णिसुणेवि रइय°. ३ A वदणभत्तिइ. ४ P देउ तेण. ५ P धरित्ति उत्ति. ६ AP वउ. ७ A सुमरतो जिणपुंगव, P सुमरतहो जिणपुगमं. ८ AP पाणिदिय°.

4 १ P करइ ण. २ A °पाणु रस°. ३ P वासु. ४ A णियाणि. ५ AP पाणयकप्पि. ६ A अद्दाहियतिहत्थ°, P आहुइ जि हत्थ°. ७ P °माणु. ८ P सुहीणिहि. ९ A दसमासहिं. १० P ओहि-  
णाणमाणेण. ११ AP सपाविइ.

3 1 a अत्थाणत्थहु अर्थानर्थयोः, b अत्थाणत्थहु आस्थानस्थितस्य. 3 a रइयरहतहु रतिकरः कामः तस्य विनाशकस्य; अथवा, रचितो रहस अन्तरायस्य अन्तो विनाशो येन. 4 a वंदहुं वृन्दानाम्. 6 b फणि भो यहु सर्पफणावत्. 9 b °तरडउ °तारकम्.

4 2 a राउप्पायणु रागोत्पादकम्. 3 b सूइ प्रसूतिस्त्यत्ति.. 5 a णियाणु निदानशल्यम्. 7 a अद्दाइज° सार्धत्रय°.

घत्ता—दिण्णविवक्खासंकयं सुहसोहाजियपंकयं ॥  
सुहलियसुहमाणियसिवं भणइ कुलिसि दविणाहिवं ॥ ४ ॥

5

जंबुदीवि रविदीवयदरिसइ  
मंडुधरियपरमहिवइवंदिहि  
कासवगोत्तहु गुत्तससंकहु  
मुत्ताहलमंडियसुग्गीवहु  
वासवकुलिसु व मज्जे खामहि  
विद्धंसियदुद्धरमणसियसरु  
जाहि ताहं तुहुं दुज्जण जूरहि  
करि चंगउं पुरुं घरु सुहदंसणु  
णिम्मिउं णर्यरु काइं वण्णज्जइ  
भाणुविंबु तहिं परु किं सीसइ

भरहें भुत्तइ भारहवरिसइ ।  
णरभरियहि णयरिहि काकंदिहि ।  
वइरिरणंगणि वज्जियसंकहु ।  
इक्खाउहु रायहु सुग्गीवहु ।  
जसरामहि देविहि जयरामहि । 5  
होसइ देउ णवमतित्थंकरु ।  
चिंतियं सयल मणोरह पूरहि ।  
ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु ।  
जहिं मणिक्किरणविरोहें भिज्जइ ।  
तेणं रयणि ण वासरु दीसइ । 10

घत्ता—पयगयरंगविहंतियं  
ढंकइ जत्थ वहुल्लिया

पोमरायमणिपंतियं ॥  
कि सा चंदगहिल्लिया ॥ ५ ॥

6

कज्जलु णयणि देंति हरिणीलहु  
दंतपंति ससियंतकरोहें  
भणइ धरिणि सहियउ सरलच्छउ  
जोयवि घरि मोत्तियरंगावलि  
णीलउं णेत्तु ण णिहिउं णियच्छइ  
कक्केयणकुड्डुयलइ पेच्छिवि

आरूसइ किरणावलि कालहु ।  
दप्पणयलि ण णियंति समोहें ।  
एवंहि दसण ण धोयवि णिच्छउ ।  
अवर ण वंधंइ गलि हारावलि ।  
मरगयदित्ति मयच्छि दुगुंछइ । 5  
भुंज भुंज णियभासइ पुच्छिवि ।

5 १ P मंड°. २ A णवमु. ३ P दूरहि. ४ P तहु घरि धणय मणोरह. ५ A पुरवर. ६ P काइं णयरु. ७ A माणिक्किरणविहि. ८ AP °विहत्तिय.

6 १ A ससिअंत°; P ससिकंत°. २ P वद्धइ. ३ A णीलणेत्तु णं.

11 दिण्ण वि वक्खा स क यं दत्ता विवक्षाशङ्का यस्य कुवेरस्य. 12 सु ह लि य° सुफलितम्. 12 कु लि सि इन्द्र..

5 2 a मंडुधरिय° बलात्कारेण हठात् धृता. 4 a °सुग्गीवहु शोभनग्रीवस्य. 5 b ज सराम हि यशसा मनोहरायाम्, यशो वा राम रमणीयं यस्या. 6 a °मण सिय सरु °कामत्राणः. 7 a जूरहि विध्वंसय. 9 b भिज्जइ तिरस्क्रियते. 11 पयगयरंगविहत्तियं चरणगतरागविधातिनीम्. 12 ढंकइ आच्छादयति.

6 2 b समोहें स्वभ्रान्त्या. 6 a कक्केयणकुड्डुयलइ कर्केतनं नाम नीलरत्न तन्मय्यां भित्तो; 6 णिय भासइ शिशुभाषया.

दिण्णउ मुहविंवाहरतंबइ  
अण्णु वि रंगंतउ सुत्तुट्टिउ  
मणिमहियलगयतणु पंडिभुल्लउ  
जं घरसिहराहयणहभायउ  
णिच्चु जि अमुणियसंझारायउ

घत्ता--तहि रयणंसुकरालइ  
अम्मोएवि महासइ

सिसुणा कूरकवल्लु पंडिविंबइ ।  
थणइ थण्णरसगहणुक्कंठिउ ।  
दोमायउं चिंतइ डिंभुल्लउ ।  
कणयघडिउ पुरु पीयल्लायउ । 10  
सुरहिसुसीयल्लंदाहिणवायउ ।

सोवंती सयणालइ ॥  
पेच्छइ सिविणयसंतइ ॥ ६ ॥

## 7

णायं णाईल्लं णायारि  
णाणाफुल्लं मालाजंमलं  
जाययजुम्मं सिरिणिवजुम्मं  
पालंतुंगायवेलावारं  
पीठं चामीयरसेहीरं  
दीहमऊहं रयणसम्मूहं

घत्ता--इय वरसिविणयमालियं  
पइणो तीए सिद्धियं

णारायणियं णरमणहारिं ।  
णिसियरयं णेसरयं विमलं ।  
पोमसरं पोमासियपोमं ।  
पारं पंडुरपाणियफारं ।  
णाइहरं णाइंदार्गारं । 5  
णिद्धं णिद्धूमं हुयवाहं ।

जयरामाइ णिहालियं ॥  
तेण वि फलमुवदिद्धियं ॥ ७ ॥

## 8

दयाभावजुत्तो  
हले होहि दीसो  
परस्तोवयारी

तुमं चारुपुत्तो ।  
अणीसो मुणीसो ।  
जिणो णिज्जियारी ।

४ P परिविंबइ. ५ A मणिमहियलगयतणु णिरु पडिभुल्लउ, P मणिमहियलगयतणु परिविंबुल्लउ. ६ AP सुसी-  
यल्ल. ७ AP रम्माए वि.

7 १ P णायल्लं. २ A ०जुवलं. ३ AT जलयरजुम्मं. ४ AP पालंतुंगायवेलावार ( P धारं ).  
५ P णायहरं. ६ A adds after this ऊहयपंचवीयं एवहं. ७ A adds after this जालामाल-  
जडियदिसोहं. ८ A वरि. ९ A सिद्धियं. १० A ०दिद्धियं.

8 १ AP तुहं.

7 b प डि विंबइ प्रतिविम्बमुखे. 8 a सुत्तु ट्टिउ सुतोत्थित., b थणइ शब्दं करोति रोदिति. 9 b  
दो मा यउं द्वैमातृकम्.

7 1 a णाय गजम्, णाइल्ल वृषभम्, णायारिं सिंहम्, b णारायणिय लक्ष्मीम्. 3 b  
णेसरयं सूर्यम्. 3 a जाययजुम्मं यादो जलं तस्मिन् जाताना मत्स्याना युग्मम्; सिरिणिवजुम्म श्रीयुक्तं  
कुम्भद्वयम्, b पोमासियपोम लक्ष्म्या अधिष्ठितं कमल यत्र. 4 a पालंतुंगायवेलावारं पाल्या उद्गतो  
वेलावारो वेलासमूहो यस्य समुद्रस्य, b पारं समुद्रम्. 5 b णाइहरं नाकिण्हं सुरविमानम्.

तथो तम्मि काले  
तिलोयस्स पुज्जा  
मई कंति बुद्धी  
ससिंगारभारा  
गुणुत्तालभावा  
तुलाकोडिपाया  
दिही दीहरच्छी  
पवण्णा णिवासं  
कया गव्वसुद्धी  
धणेसो पहिद्धो  
रिज्जमासमेरं  
अमंदो णिवंदो

महातूररोले ।  
सई का वि लज्जा ।  
सिरी संति सिद्धी ।  
पघोलंतहारा ।  
सकंचीकलावा ।  
विइण्णंगराया ।  
परा का वि लच्छी ।  
जिणंवाह पासं ।  
इमीहिं माहिद्धी ।  
हिरण्णं पवुद्धो ।  
धेरुंउ समेरं ।  
चुओ प्राणइंदो ।

5

10

15

घत्ता—फग्गुणमासे पत्तए  
णवमीदियहि पवित्तए

पक्खे ससियरदित्तए ॥  
देवं मूलणक्खत्तए ॥ ८ ॥

## 9

जिणो णारिदेहे थिओ दिव्वणाणो  
णिहीकुंभहत्था पणच्चंति जक्खा  
पमोत्तूण संसारवित्थारदुग्गं  
समुद्दाण कोडीण सीरीसमाणं  
तथो मग्गसीसे णिसीसंसुसेए  
जिणिंदस्स जम्मे जियाराइवग्गो  
ण सामांइ खे खीणपावो महप्पो  
सणांइकुमारो स माहिंदणामो  
समं वंभणाहेण वंभुत्तरेसो  
चलो चल्लिओ लंतवो लच्छिधामो

सुरिंदाण वंदेहिं वंदिज्जमाणो ।  
वरिद्धा सुवण्णं दहट्टेव पक्खा ।  
पवण्णास्मि चंदप्पहे मोक्खमग्गं ।  
सुसुण्णं गयं एत्तियं कालमाणं ।  
पहिल्ले दिणे जायओ जायसेए ।  
ससक्को अत्तेसो वि सोहम्मसग्गो ।  
विमाणेहिं जाणेहिं ईसाणकप्पो ।  
विलंबंतसोहंतमंइरदामो ।  
णहुद्धीणगिन्वाणसोहाविसेनो ।  
असट्टेण काविद्धवो तुट्टिकामो ।

5

10

२ A तूराले. ३ A सुई कावि, P सयं कावि. ४ P जिणंवाय. ५ P सुवण्णेण बुद्धो. ६ A मग्गो  
समेरं. ७ P णिमदो. ८ AP पाणइंदो. ९ A देउ.

9 १ AP सुवण्णं. २ A चुमेओ. ३ A जायनेओ. ४ AP संमाइ. ५ P सणाइकुमारो.  
६ AP विलोलेनसोहंत°.

8 4 b महातूररोले महातूरुत्तने. 5 b लज्जा णि. 9 a तुलाकोडि पादादुग्गं. 11 a  
रिज्जमासमेरं पप्पासाववि; पप्पासावर्थन्तमित्थर्थ, b समेरं उग्गमभावम.

9 2 b वरिद्धा वृद्धा., दहट्टेव पक्खा अष्टादशवर्षान नव मासान. 3 a सीरीसमाणं इ  
भद्रतुल्याना नवानाम्. 5 a णिसीसंसुसेए चन्द्रनिगन्धने b जायनेए जायनेण. 7 a सणाइ  
अवकारं प्राप्नोति. 10 b असट्टेण अकट्टेण.

ससुको महासुकदेवगौगामी  
समुद्गाइओ आणओ प्राणइंदो  
ससी वासरीसो रहुव्वइकेऊ  
दियंतं गयाणंदभेरीणिणाया  
णिवो वंदिओ तेहि काकंदिवौलो  
असामेण्णलायण्णभारम्मयाए  
तिणीणी तिसुद्धो सुलेसासहावो

घत्ता—पंडुसिलोवरि ण्हाणियं  
णोविऊणं अरहंतयं

सयारो सहारो सहस्सारसामी ।  
जगुद्धारणो आरणो अच्चुइंदो ।  
बुहो अंगिरारो सणी राहु केऊ ।  
पुरि प्राईया सामराणं णिहाया ।  
करे ढोइओ कित्तिमो को वि बालो । 15  
जणेऊण भंति<sup>१३</sup> मणे अम्मयाए ।  
णिओ मंदरं देवदेवेहिं देवो ।

पूयाविहिसंमाणियं ॥  
पुप्फंदंतभयवंतयं ॥ ९ ॥

## 10

ते सुरवर लंघिवि गयणंतरु  
जणणिहि करयलि णिहियउ जइवइ  
काले जंते वड्डिउ सायरु  
वड्डिउ सुकइहि कव्वालाउ व  
वड्डिउ उवसमवेल्लिहि कंदु व  
वड्डिउ धम्मदिवाडहु तेउ व  
कुंदुज्जलतणु अईसयभूयउ  
सिसुलीलाइ पओसियदिव्वहं  
पच्छइ पत्तु पायसासणु सइं  
जं चिंतंतउ सुरगुरु गुप्पइ  
लक्खणलक्खियवरतणुलड्डिहि

घत्ता—माणंतहु सिरियंगंइं

पुव्वहुं पुणु सविलासइं पण्णासेव सहांसइं ॥ १० ॥

ते लेप्पिणु पडिआया तं पुरु ।  
गउ आणंदु पणच्चिवि सुरवइ ।  
वड्डिउ णं सियंपक्खइ सायरु ।  
वड्डिउ सुमुणिहि णाणसहाउ व ।  
वड्डिउ अमयकलिहि णव्वयंदु व । 5  
वड्डिउ भवमयरहरहु सेउ व ।  
बाणासणसउ तुंगु पहूयउ ।  
गय पण्णाससहस तहु पुव्वहं ।  
उच्छउ किं सीसइ मणुपं मइं ।  
तहिं महुं मइणउ कि पि विसप्पइ । 10  
पट्टवंधु जाइउ परमेट्ठिहि ।

अट्टवीसपुंव्वंगइं ॥

७ AP °देवक्क°. ८ AP पाणइंदो. ९ P वासरेसो. १० AP पाइया. ११ AP कार्किंदिवालो. १२ P असावाण°. १३ A भती. १४ A तिणाणी तिलेसो तिसुद्धो सुहावो. १५ AP णमिऊणं. १६ AP पुप्फयंत°.

10 १ P जयवइ. २ AP सियवक्खइ. ३ A अमयकलिहि. ४ P णवचंदु व. ५ A धम्म दयादहभेउ व, P धम्मदिवायरतेउ व. ६ P अइसभूयउ. ७ P °परतणु°. ८ AP जायउ. ९ A सिदि- अंगय. १० A °पुव्वगयं. ११ A सहसइं.

11 b सयारो शतारेन्द्र. 13 b अंगिरा वृहस्पतिः, अरो मङ्गलः. 14 b सामराण णिहाया दिक्पालानां समूहा.

10 3 a सायरु लक्ष्म्या. कारक आकरो वा. 6 a °दिवाडहु दिवा अयतीति दिवाटः सूर्यः तस्य. 8 a पओसियदिव्वह प्रतोषितदेवानाम्. 10 b विसप्पइ प्रवर्तते.



11

तेत्यु तासु बोलीणइं जइयहुं  
 तं जोइवि जिणणाहु वियकइ  
 जणणमरणपरिवट्टणलक्खणु  
 जं जं कैइं वि णयणहिं दीसइ  
 अथिरु सव्वु भणु कहि रइ कीरइ  
 वइसाणरु इंधणतणपवणं  
 भोएं इंदियतित्ति ण पूरइ  
 इय चिंतंतु णाहु संभाविउ  
 चारु चारु पइं जिणवर जाणिउं  
 घत्ता—ता धयवीईराइयं  
 पुंडरीयमालाधरं

उक्क पडंती दिट्ठी तइयहुं ।  
 कालहु कलिहि ण कोइ वि चुक्कइ ।  
 एउ तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु ।  
 उक्का इव तं तं खणि णासइ ।  
 तो वि चित्तु विसयासइ हीरइ । 5  
 ण समइ कंहु णक्खकंहुयणं ।  
 वट्ठइ दुट्ठ तिट्ठ मइ जूरइ ।  
 अमरमुणीसरेहिं वोर्लाविउ ।  
 सासयवित्तिहिं हियवउ आणिउं ।  
 विउलपत्तपच्छाइयं ॥  
 सोहइ गयणंगणसरं ॥ ११ ॥

12

सुरवरकरयलपहयइं तूरइं  
 णविउ णहविउ भावें तित्थंकरु  
 दिव्वंदुगुल्लयाइं परिहेप्पिणु  
 सुमइहि रज्जु समप्पिवि राणउ  
 गउ णडंतणाणाखयरामर  
 तहिं मायंसिरि मासि तिसिरहु भरि  
 कुडिलकेस णिहुंडिले लुंचिवि  
 जाइवि अमर पवरमयरालइ  
 छट्ठुववासु पयासु करेप्पिणु  
 घत्ता—विन्थारियतवसिहिसिहं  
 उज्झियरइसंकप्पयं

खीरमहण्णावि भरियइं खीरइं ।  
 वणवाहें घणेण णं महिहरु ।  
 परमसिद्धसंतइहि णवेप्पिणु ।  
 सूरप्पहसिवियहि आसीणउ ।  
 वियसियपुष्पइ पुष्पवणंतरि । 5  
 सियेपाडिवइ वरुणादिसि दिणयरि ।  
 बल्लिय ते तियसिदें अंचिवि ।  
 जयकारिउ विजाहरमालइ ।  
 थिउ नृवसंहसें सहं तउ लेप्पिणु ।  
 ससरीरे वि हु णिापेहं ॥ 11  
 पडिवणं जिणकप्पयं ॥ १२ ॥

11 १ A कालहु कलि ण वि को चुक्कइ. २ A मग्गु पारं. ३ A पारक्खणु. ४ A मरु  
 णयणइं. ५ A कंउमणं. ६ A बोलाविउ.

12 १ A महण्णव. २ APT दुगुल्लयाइं. ३ A मायसिरिमासि P मागमिरि मासि. ४ A  
 पहिवए P पडिवाए. ५ P णिकुट्टिहं. ६ AP गिवसहं.

11 2 b कालहु कलि हि यमेन कइ बुद्धात्. ३ b पडिक्खणु प्रकृतम्. 7 तिट्ठ वृत्तम्. 8  
 जीते हीते. 10 धयवीईराइयं वज्जवीवीगाजितम् पत्त वागनात्. 11 पुंडरीय माला.

12 2 b वणवाहें इन्द्रेण. 3 a दुगुल्लयाइ वण्णो 7 मग्गु पारं. ४ a सुमइहि  
 सुमदिनात्. पुण्य. 6 7 पडिवाए हि पथिमदिनात्. 7 a तिपट्टिहं निगमयेत्. 10 तिपट्टि  
 निगमयेत्. 11 तिपट्टिपय विनाचरणम्.

## 13

अवरहिं वासरि संतकसायउ  
सइलेणयरु मुणिभिकखहि दुक्कउ  
तहु तहि उप्पण्णउं अच्छेरउ  
चउवरिसइं गालियइं छम्मत्थहु  
कत्तियमासि विसुद्धहि वीयहि  
लोयालोयपलोयणदीवउ  
केवलणाणु सो जि लइ भण्णइ  
जं बुद्धे सुण्णउं जि पयासिउं  
जं कउल्ले अंवरु आहासिउं  
जं कविले णिकिरिउं णिउत्तउ  
जं सुरगुरुणा णत्थि पउत्तउं  
तं खं देवे सुसिरु विसिद्धउ

घत्ता—एयाणेयविवाइणा  
जेउं कुसुमपिसक्कयं

हासकासजंससिसुच्छायउ ।  
पुप्फमित्तरायहु घरि थक्कउ ।  
पंचपयारु मणोरहगारउ ।  
णायरुक्खतलि मुणियपयत्थहु ।  
दिवसक्खइ गिन्वाणपगीयहि । 5  
जायउ देवहु अप्पसहावउ ।  
अण्णे जीवहु कहि परमुण्णइ ।  
जं विप्पेण वंभु णिद्देसिउं ।  
जं सइवेण सिवत्तु समासिउं ।  
णिग्गुणु णिच्चविसुद्ध अकत्तउं । 10  
जं अणंतु अच्छइ अविहत्तउं ।  
अप्पाणाउ विहिण्णउं दिट्ठउ ।

पुर्फदंतजिणजोइणा ॥  
पहि णिहियं तेलोक्कयं ॥ १३ ॥

## 14

इंदेण जलणेण  
फणिणा कुबेरेण  
दसदिसिहिं आपण  
थोत्तं पढंतेण  
तुहुं धोयरइरेणु  
तुहुं वंधु हयदप्पु  
जे दुट्ठ पाविट्ठ  
उम्मग्गि वट्ठंति  
अलियं पयंपंति  
परवहु णिहालंति

वरुणेण पवणेण ।  
चंदेण सूरेण ।  
सुरवरणिहाएण ।  
थुउ जिणवरो तेण ।  
तुहुं कामदुहधेणु ।  
तुहुं माय तुहुं वप्पु ।  
णिकिद्ध जेड धिद्ध ।  
महु मज्जु घोट्ठंति ।  
कामेण कंपंति ।  
पारद्धि खेलंति । 10

13 १ P °ससिजस°. २ AP सयलणयरु. ३ P मणोहर°. ४ AP कवल्ले. ५ A संखे.  
६ P अक्कत्तउ. ७ A अप्पाणाउ विभिण्णउं, P अप्पसहावे जाए. ८ AP पुप्फयत°. ९ P पहि णीय.

14 P adds after this: जमदिसिक्कुमारेण, णेरइयभावेण. २ P जण घेट्ठ. ३ P खेळति.

13 1 a सं त क सा य उ उपशान्तकषाय . 2 a स इ ल ण य रू शैलपुरम्. 4 b मु णि य प य त्थ हु  
शातपदार्थस्य. 9 a क उ ले मीमांसकेन; अवरु स्वर्गः. 11 a सुरगुरुणा चार्वाकेण. 12 वु सिरु  
अन्तःशुषिरम्.

लोहेर्ण भजंति  
रोसेण वदंति  
जे मासु भक्वन्ति  
मूढा ण वदंति  
संचरद जणुं छम्मु  
बहुजणणजलसेउ

यत्ता—मिच्छापरिणामगहे  
णिवेडंतं ण उवेक्खियं

परहणु ण वज्जंति ।  
खग्गाइं कहंति ।  
ते पइं ण पेक्खंति ।  
णिच्चं पि णिंदंति ।  
पइं मुदवि कहि धम्मु ।  
पइं मुदवि को देउ ।

लग्गं घणतमदुच्चहे ॥  
जगडिंभं पइं राक्खियं ॥ १४ ॥

15

15

समवसरणि जिणु संठिउ जावंहिं  
पण्णारहसय वज्जियसंगहं  
एकलक्खु सहं पंचावण्णहि  
सिक्खुयाहिं णिम्महियरईसहं  
सत्तसहस केवलणाणालहं  
भयसहास वयसय मणपज्जय  
वईतंडियपञ्चुत्तरदाइहिं  
सहं असीइसहसइं णिरवज्जहं  
दोण्णि लक्ख पाणियघरधम्महं  
अमरच्छरउलाइं गयसंखइं  
इय एत्तियलोएं संजुत्तहु  
महि विहरंतहु धम्मु कहंतहु  
अद्वीसपुव्वंगाविहीणउ

यत्ता—मासमेत्तु मुणिगणजुओ  
लंवियपाणि मणोहरे

अट्ठांसी ह्यु गणहर तावंहिं ।  
णरमरिसिहिं जाणियपुव्वंगहं ।  
सठसहिं पंचसईसंपण्णहि ।  
अट्ठसहस चउसय ओहीसहं ।  
तेरहसहसइं विकिरियालहं ।  
णाणधारि दोसासय दुज्जय ।  
रिदुसहसइं रिदुसयइं विवाइहि ।  
लक्खइं तिण्णि पउत्तइं अज्जहं ।  
मणुयहं मणुइहि पंच सुसोम्महं ।  
तिरियइं पुणु कहियाइं ससंखइं ।  
भुवणत्तयराईवयमित्तहु ।  
पुष्पदंतदेवहु अरहंतहु ।  
पुव्वहं एकु लक्खु तंहि झीणउं ।

फणिदेवासुरणरथुओ ॥

थिउ संमेयमहीहरे ॥ १५ ॥

15

४ P reads *a* as *b* and *b* as *a*. ५ A जणछम्मु, P जहिं छम्मु. ६ P °दुण्यहे. ७ A गिवडंतउ.

15 १ P adds after this: एए मुणि संजाया तावहिं, इंदचंदविसहरमणहर. २ P अट्ठा-  
सीस जाया गणघर. ३ AP सिक्खुवाहं. ४ AP वयतंडिय. ५ A करतहु. ६ AP पुष्पयंत°. ७ A  
तहो झीणउं, P परिखीणउं. ८ A मासमेत्त°.

14 16 *a* बहुजणण° संसारः.

15 4 *a* णिम्महियरईसहं मथितकंदर्पाणाम्. 11 *b* °रा ईवयमित्तहु राजीवं कमलं तत्त्वं  
मित्रत्य सूर्यस्य.

## 16

आउसमाणइं णामइं गोत्तइं  
 दंडकवाडरुजगजगपूरइं  
 तेजइओरालियकम्मइयइं  
 उव्वेल्लिवि कट्टिवि आउंचिवि  
 चउसमयंतयालु थिउ देहइ  
 अवरणहइ सहं मुणिहिं सहासं  
 पुज्जिय तणु चउंविहहि सुरिंदहि  
 गइ देवाहिदेवि अववग्गह  
 घत्ता—जिह भर्हस्स समीरिओ  
 तिह मइं तुह कहिओ इमो

करिवि वेयणीयाइं णिहित्तइं ।  
 विरइवि मुक्कइं तिण्णि सरीरइं ।  
 जाइं विमुक्कइं पुणु वि ण लइयइं ।  
 जीवपएस सयलघण संचिवि ।  
 भइवण सुक्कट्टुमिदियहइ । 5  
 सिद्धउ जिणु जणजयजयघोसें ।  
 वंदिउ इंदपडिदणरिंदहि ।  
 गउ सुरयणु णीसेसु वि सग्गह ।  
 रिसहेणंगयवयरिओ ॥  
 पुप्फदंतजिणपुंगमो ॥ १६ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे पुप्फदंतणिव्वाणगमणो  
 णाम सत्तचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४७ ॥

॥ जिणंपुप्फयंतचरियं समत्तं ॥

16 १ P णामयं. २ A दंडकवालरुजगजग°, P दंडकवाडपयरजग°. ३ P तेजोरालियअद-  
 कम्म°. ४ A जोयविमुक्कइं, P जाएवि मुक्कइं. ५ AP सिहि दिण्ण सिहिंदहि. ६ P भग्गहो. ७ A  
 पुप्फयत°. ८ P सत्तचालीसमो. ९ AP omit the line.

16 2 a °रुजग° प्रतर°. 3 a तेजेत्यादि तैजसौदारिककर्मणगरौराणि. 4 a उव्वेल्लिवि  
 एकत्रीकृत्य, कट्टिवि कर्मभ्य शरीराच्च निष्कास्य. 5 a चउसमयंतयालु चतुसमयै दण्डकपाट्टन-  
 लोकपूरणाः कृताः, पश्चाच्चतुर्भिः सकोचिता, एवमद्यौ समयाः. 9 अंगयवयरिओ अङ्गजः कान-  
 स्तस्य शत्रु.

आउच्छणदच्छ संच्छिणियच्छियधम्मपह ॥  
सुणि सेणियराय सीयलणाहहु तणिय कह ॥ धुवकं ॥

1

जो परिपालियतिरयणो  
तिक्खं वारियदुव्वहं  
बुहतोसो परमागमो  
कणयकमलकोसाहओ  
जो पिहियासवदारओ  
णासियणिच्चायारओ  
अमुणियवणियायल्लओ  
जस्स पहाँसइ जइयणो  
जेव तेव उग्गयगयं  
तं वीहच्छं पूइयं  
तइ वि खलं खइ तावयं  
एत्थ सणेहं सीसया  
जं दहुं सक्काणणं  
वियँसइ ससहरराहयं  
जो वणवासि वसी यलं  
जस्स पसाया सीयलं

पयजुयपाडियसुरयणो ।  
जस्स वयं परदुव्वहं ।  
जेण कओ परमागमो ।  
अविणस्सरसिरिसाहओ ।  
णग्गो णिग्घरदारओ ।  
पोसियपंचायारओ ।  
जो दयाइ अल्लओ ।  
वसहपहिं णिज्जइ यणो ।  
धरियं जीवेणंगयं ।  
गंधमल्लविहिपूइयं ।  
होइ ण हो चत्तावयं ।  
जस्स कुणांति ण सीसया ।  
महुसमयम्मि व काणणं ।  
कमलं पिव रविभाहयं ।  
वयणं चंदणसीयलं ।  
हन्नइ णविवि तं सीयलं ।

5

10

15

यत्ता—गुणभद्दगुणीहि जो संथुउ गुणगरुयगइ ॥

दहमउ जिणणाहु हँउं वि थुणाविं सो दिव्वजइ ॥ १ ॥

20

1 १ AP सच्छिणियच्छिय° . A °पालिय° . २ A कणयकल्ल° . ३ P वणियापल्लओ . ४ A पयासइ . P य भासइ . ५ A णिज्जियणो . P णिज्जइयणो . ६ A जत्य . ७ A विहसइ . ८ AP गुण-  
गत्त्वमइ . ९ P हउं थुणामि सो .

1 1 आउच्छणदच्छ आप्रच्छनदक्षः सच्छिणियच्छिय° त्वनेत्रेण अवलोकितः . ३ a °तिरयणो ज्ञानदर्शनचरित्रलक्षणानि त्रीणि रत्नानि . 4 a तिक्खं अतीव तीव्रम्, वारियदुव्वहं निषिद्ध-  
दुष्यथम्; b वयं व्रतम् . 5 a परमागमो उत्कृष्टलक्ष्म्या . आगमनहेतुः . 6 a °कोसाहओ °कर्णिका-  
सदृशश्चरोरः; अविणस्सरसिरिसाहओ मोक्षलक्ष्मीसाधक . 8 a °णिच्चायारओ °नीचाचारः . 9 a °वणियायल्लओ °लीकटाञ्ज', b अल्लओ आर्द्राः . 10 b वसहेहिं णिज्जइयणो वृषमैर्यया अनः  
शकटं नीयते तथा जीवेन शरीरं नीयते इति प्रभाषते . 11 a उग्गयगयं उद्गतारोगमङ्गम् . 12 a वीहच्छं  
वीमत्सम् . 13 a खइ क्षयि विनश्वरम् . 14 b सीसया लक्ष्म्याः त्वामिनः; अथवा अत्रियं सीदन्ति गच्छन्ति  
प्राप्नुवन्तीति श्रीसदाः . 16 a ससहरराहयं शशधरस्य राहा गोभा यस्मिस्तादृशम् . 17 a वसी यलं  
वशी जितेन्द्रियः . अलं अतिशयेन .

## 2

उँत्तुंगकोलखंडियकसेरु  
 तहु पुव्वविदेहइ वहइ विमल  
 खरदंडसंडदलछइयणीर  
 दरिसियपयंडसोंडाललील  
 जुज्झंतचडुलकरिमयरणिलय  
 जलपक्खालियतंडसाहिसाह  
 दाहिनइ धणसंछेणसीम  
 जसससिधवलियदिच्चक्खवालु  
 पॅरिहातियतिवलिइ जणियसोह  
 घणथणहल कौतलभसलसाम  
 पियविडविवेढणुव्भासकाम  
 णं पवरअणंगहु तणिय वेळ्ळि  
 सूहव सारंगसिलिंबयच्छि  
 सा सुललयंगि पंचत्तु पत्त  
 अवलोयवि चिंतइ सामिसालु  
 मुय मेरी पिय पयडीकएहिं  
 तोडेपिणु णिब्भरु णेहवासु  
 अप्पणिय एह मइं भणिय काइं  
 संचियणिर्यकम्मवसंगयाइं  
 एक्के मइं जाएवउं णियाणि  
 जं अच्छिवि पुणु वि विणींसभाउ

पुक्खरवरदीवइ पुव्वमेरु ।  
 णइ कीलमाणकारंडजुयल ।  
 डिंडीरपिंडपंडुरियतीर ।  
 लोलंतधूलकल्लोलमाल ।  
 परिभमियगहीरावत्तवलय । 5  
 णामेण सीय सीयल सगाह ।  
 उवयंठि ताहि संठिय सुसीम ।  
 तहि णयरिहि णरवइ पुहइपालु ।  
 दावियरोमावलिअंकुरोहं ।  
 कयपत्तावलि अहिजणियराम । 10  
 कोमलिय सरस संदिण्णकाम ।  
 णं तासु जि केरी हत्थभल्लि ।  
 तहु वल्लह देवि वसंतलच्छि ।  
 णीसासविवज्जिय पिहियणेत्त ।  
 णिप्फलु मोहंधहुं मोहजालु । 15  
 हसइ व दसणेहि णिसिक्खिएहिं ।  
 अकहंति दुक्क परजम्मवासु ।  
 इह परियणसयणइं जाइं जाइं ।  
 जाहिंति एंव सव्वाइं ताइं ।  
 तो वरमइ जुंजमि अरुहणाणि । 20  
 तं मुच्चइ एंव भणेवि राउ ।

घत्ता—करु देंति विहेय कुंभिणि व्व तोसियजणहु ॥

कुंभिणि ढोएवि चंदणणींमहु णंदणहु ॥ २ ॥

2 १ A उत्तग°; P उत्तुगु. २ P °तडि साहिसाह. ३ A °सच्छण°. ४ A विग्इयणायर-  
 णरमणणिरोहु. ५ A °अंकुरोहु. ६ P °कुतल°. ७ P कयवत्तावलि. ८ A वेढणव्भास°; P °वेढुणु°.

९ A पयडीकिएहि. १० A °णिवकम्म°. ११ A विणासु भाउ, P विणासिभाउ. १२ A चंदणणामे.

2 1 a °कोल° सूकर.; °कसेरु °कन्द. 2 b °कार डजुयल °इंसयुगुल. 3 a खरदंडसंडं  
 कमलवनम्. 4 a °सोंडाल° हस्ती. 6 a °तड सा हि सा ह °तीरखितवृक्षशाखा. 7 b उवयंठि उपफण्टे  
 समीपे. 9 a परिहातियतिवलिइ परिखात्रयवत् वलिरेखात्रयेण. 10 a °भसलसाम भ्रमन्मनोत्तम.  
 11 a पियेत्यादि प्रियविटवेष्टनस्य उद्भास उल्लुष्टशोभा तस्या काम इच्छा यस्या. 13 a सारंगसिलि-  
 बयच्छि शिशुहरिणाक्षी. 16 a पयडीकएहिं प्रकटीकृतैर्दन्तैः, b निविक्खिएहिं निमीट्टिं णंद-  
 रहितैर्दन्तैः. 22 विहेय वगवर्तिनी, कुंभिणि हस्तिनी. 23 कुंभिणि पृष्ठी.

## 3

मुणिवरु जायड संसारकूलि  
 सडिद्धरोमु गयसीहरोलि  
 गुलुं सप्पि दुहु तेरंगु तेल्लु  
 पालेइ पारत्तिड मेरुधीरु  
 उंवयरणर्गहणि णिक्खेवणेसु  
 जोयइ तसथावर मग्गचरणि  
 तं जंपइ जेण ण पाववंधु  
 तवु करिवि तिव्वु णिम्मुककांमु  
 आराहण भयवइ संभरेवि  
 माणिककडयचेंचइयवाहु  
 वावीससमुदपमाणियाड

आणंदमहामुणिपायमूलि ।  
 णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि ।  
 वियडीउ ण भुंजइ जइ वंसिल्लु ।  
 णवकोडिविसुद्धउ वंभचेरु ।  
 परिहरइ दोसु रिसि भोयणेसु । 5  
 उच्चारखेलपस्सांवकरणि ।  
 संजमभारालंकरियखंधु ।  
 वंधेप्पिणु तं तित्थयरणांसु ।  
 सो अवसणु कयणिरसणु मरेवि ।  
 संजायड आराणि अमरणाहु । 10  
 तिरयणिसरीरु वण्णेण सेउ ।

घत्ता—तहु पक्ख दुवास अवहियं<sup>3</sup> सासहु परिगणिव ॥  
 तइवरिससहास आहारंतरु मुणिभणिय ॥ ३ ॥

## 4

णिरुवमसुहसंपावणखणेण  
 सो कहिं वि ण मेल्लइ सुकलेस  
 परियाणइ पेच्छइ तमपहंतु  
 उडुमांससेसि जीवियपमाणि  
 भो गुज्जय वुज्जहि भमियसरहि  
 मलययडुमसुरहिउ मलयदेसु

रमणीरमणु वि सारइ मणेण ।  
 जिणु पणवइ गेण्हइ चरणसेस ।  
 अट्टगुणसारु महिमा महंतु ।  
 आधोसइ सयमहु उडुविमाणि ।  
 किं वहुणं जंवूदीवभरहि । 5  
 जहिं णरहिं परिट्टिउ अमरवेसु ।

3 १ A सीहु व्व रोमगय°. २ P गुहु. ३ A नेरंगु and gloss दधि, T नेरंगु दधि. ४ A रसल्ल. ५ A पारइ पारत्तड. ६ A गहण°. ७ P पत्सवणकरणि. ८ A तित्थु णिम्मुक°. ९ AP °काउं. १० AP °णाउं. ११ P °पमाणुआउ. १२ A °सरीर. १३ AP अवहिय.

4 १ A रमण. २ AP उडुमास°. ३ AP उडुविमाणि. ४ P जंवूदीवि भरहि. ५ AI मलयहुम°.

3 1 a संसारकूलि संसारप्रतिकूले. 2 a सीउद्धरोसु जीतेनोर्ध्वरोमा. 3 a तेरंगु दधि b वियडीउ विकृतयः मधुमांसमद्यनवतीतानि. 4 a पारत्तिउ परत्र प्रयोजनं यद्वेति पारत्रिको मोक्षार्थी b णवकोडिविसुद्धउं नवभेदम्. 10 a °चेंचइयवाहु °अलकृतवाहु. 11 b तिरयणिसरीरं त्रिहस्तगरीरः. 12 अवहिय मर्यादा श्वासस्य.

4 1 a °संपावणखणेण °संपादनावसरे, b सारइ करोति. 3 a तमपहंतु पष्ठनरकपर्वन्तम्. 4 b उडुविमाणि ऋतुविमाने. 5 गुज्जय गुह्यकः कुवेरः; भमियसरहि भ्रान्ता. गरमा. अष्टापदा सरया वा यत्र.

रइकइयवकीलाकोच्छराउ  
जहि कामधेणुणिह गोहणाइं  
जहि णिञ्चमेव मंगलणिणहु  
रणरंगतुंगमायंगंसीहु  
मुहँयंदोहामियरुंदचंद  
विसहरवंदारयवंदवंदु  
जज्जाहि तांर्व तुहुं करहि तेंव

जहि कामिणीउ णं अच्छराउ ।  
जहि कप्परुक्खरिद्धइं वणाइं ।  
तहि पुरवरु णामें रायभहु ।  
दढरहु णरिदु जयजयसिरीहु । 10  
महएवि तासु णामें सुणंद ।  
एयहं णंदणु होसइ जिणिदु ।  
संभवइ णयंरु घर दिव्हु जेंव ।

घत्ता—ता वइसवणेण तं पट्टणु कंचणुं घडिउं ॥

मणिकिरणकरालु सग्गखंडु णावइ पडिउं ॥ ४ ॥

15

5

जहिं दीसइ तहि सोवण्णभवणु  
जहि दीसइ तहि हरिणीलणालु  
जहि दीसइ तहिं मंडवुं विचिचु  
जहि दीसइ तहि मुत्तावलिल्लु  
जहि दीसइ तहि कप्पररेणु  
जहि दीसइ तहिं थियकामधेणु  
जहि दीसइ तहि वीणारवालु  
जहि दीसइ तहि चलचिर्धं चवलु  
जहि दीसइ तहिं विविहुच्छवोहु  
जहि दीसइ तहि णच्चियमऊरु

जहि दीसइ तहि वणंसुरहिपवणु ।  
जहिं दीसइ तहिं वररमणिलीलुं ।  
जहि दीसइ तहि द्युसिणावलित्तु ।  
जहि दीसइ तहि णवतोरणिल्लु ।  
जहिं दीसइ तहि गालियकरेणु । 5  
जहि दीसइ तहि वज्जंतवेणु ।  
जहि दीसइ तहि अलिउलवमालु ।  
जहिं दीसइ तहि ससियंतधवलु ।  
जहि दीसइ तहि कयरच्छसोहु ।  
जहि दीसइ तहि सिरिविहंवफारु । 10

घत्ता—जहि दीसइ तेत्थु पुरवरु जणमणु रावइ ॥

पिययमहि सरीरु जिह तिह चंगउं भावइ ॥ ५ ॥

६ A कप्परुक्खणिद्धइं. ७ A मुहइदो°. ८ P ताह. ९ A णवर. १० AP कचणपडिउ.

5 १ AP णव°. २ P adds after this. जहि दीसइ तहि नयंरु कीट. तहि मंडव  
तहिं सुरवरहिं मेड. ३ A मडव. ४ P चलचिधु चवट. ५ AP सिरिविहंवफार

7 a °को च्छराउ दक्षाः. 10 b जयजयसिरीहु जगजयसीवाञ्छरु. 11 a जिंणामिर्वं निस्तुः.  
14 कचणु काञ्चनमयम्.

5 7 a °वमालु °कोलाहल. 8 b ससियंतधवलु च्छरानव पवणम्. 9 a सिरिविहंव  
धो हु विविधोत्त्वन्मूहः. 10 a सिरिविहंवफारु °सिंविमवसिस्तम् 11 णवरु कचणम्.



## 6

तहिं विजयणांदिरे  
णयंगि सियणेत्तिया  
णिणइ छउओएरी  
गयं गलियमयजलं  
विसं रसियपेसलं  
करालणहभइरवं  
कुसेसयणिवांसिणिं  
पसूयसयमालियं  
विहुं विहियजामिणिं  
झसाण जुयलं चलं  
सरोरुहसरोवरं  
मइंदपंवरूढयं  
पुरंदरणिहेलणं  
महारयणरासियं

णिवणिहेलणे सुंदरे ।  
रयणमंचए सुत्तिया ।  
सिविणए इमे सुंदरी ।  
भमियभिंङ्गकोलाहलं ।  
खरखुरग्गाखयभूयलं ।  
कयरवं च कंठीरवं ।  
सिरिमुविंदसीमंतिणिं ।  
भमरपंतियाकालियं ।  
खरयरं खचूडामणिं ।  
कुडजुयं ससंकामलं ।  
मयरमंदिरं गज्जिरं ।  
रयणचित्तियं पीढयं ।  
भवणमुज्जलं भावणं ।  
सिहिणमुरुसिहुब्भासियं ।

5

10

घत्ता—इय पेच्छिवि ताए रायहु गंपि समांसियउं ॥  
सिविणियंफलु तेण कंतहि कंतं भासियउं ॥ ६ ॥

15

## 7

जस्स छत्तत्तयं  
वहइ दासित्तणं  
माणिमयरकुंडलो  
यिविवि णवकुवलयं  
सो तुहं तणुरुहो

जस्स लोयत्तयं ।  
कुणइ गुणाकित्तणं ।  
जस्स आहंडलो ।  
णवइ कमकमलयं ।  
चंडि होही सुहो ।

5

6 १ AP विजयमंदिरे. २ A छउओएरी, P तुच्छओयरी. ३ AP इमं. ४ P ०णिवासिणी.  
५ A सिरि उविंद°. ६ P ०सीमंतिणी. ६ AP भवर°. ७ A मयंदसुर°, P मइदसिर°. ८ AP  
रयणणिम्मियं. ९ P समासिउं. १० AP सिविणय°.

6 2 a णयंगि नताङ्गी. 3 a णिणइ पश्यति, छउओयरी क्षामोदरी. 5 a रसियपेसल  
शब्देन मनोहरम्. 6 b कंठीरवं सिंहम्. 7 a कुसेसय° कमलम्; b उविंदसीमंतिणिं उपेन्द्रो विष्णु  
स्तस्य भार्या. 9 a विहियजामिणिं कृतरात्रिं निशाकरमित्यर्थ. 10 b कुडजुयं कुम्भयुगुलम्.  
11 b मयरमंदिरं समुद्रम्. 12 a मइंदपवर° मृगेन्द्रप्रधानः सिंहः. 14 b उरुसिहुब्भासियं प्रजु-  
ष्वालोद्भसितम्.

देवदेवो जिणो	खंतिपोमिणिइणो ।	
बुद्धि कंती सिरी	लच्छि किंती हैरी ।	
गम्भसुद्धीयरी	अमरवरसुंदरी ।	
मत्तगयगामिणी	राइणो सॉमिणी ।	
ताहिं संसेविया	तित्थणाहंविया ।	10
दुक्खपक्खक्खया	हेमवुद्धी कया ।	
वित्तएणं सयं	जाव छम्मासयं ।	
आइमासंतरे	किण्हंपक्खंतरे ।	
अट्टमीवासरे	रविकिरणभासुरे ।	
रिक्खए रूढए	उत्तरासाढए ।	15
माउयासंगओ	गम्भवासं गओ ।	
तत्थ जंभारिणा	वेरिसंधारिणा ।	
मणिणऊणं पई	पुँज्जियं दंपइं ।	
सोत्तकोडीसमे	वारिहीणं गमे ।	
णाणविद्धंसयं	पल्लचोत्थंसयं ।	20
संजंमे संमए	णट्टए धम्मए ।	
पुप्फइंतंतरे	माहमासे वरे ।	
छीणंमालंछणे	वारसिल्ले दिणे ।	
णंदेवीसुओ	विस्सजोए हुओ ।	
तांव संतोसिओ	आगओ कोसिओ ।	25
अग्गि वाऊ संहि	दंडधारोविंही ।	
रिंछवाहो परो	वारुणासामरो ।	
पोमसंखाहिवो	सूलपाणी भवो ।	
चमर वइरोयणो	भाणु मयलंछणो ।	
सयल देवा खणे	तूसमाणा मणे ।	30
आगैया तं पुरं	राइणो मंदिंरं ।	

घत्ता—उत्तुंगु सुवंसु कणयच्छवि गहमालियड ॥

जिणमेरु सुरेहि मेरुगिरिहि संचालियड ॥ ७ ॥

7 १ A किति. २ A कति. ३ AP हिरी. ४ P भामिणी. ५ A वरपक्कंते. ६ AP पई. ७ AP पुज्जिओ दंपइं. ८ A विद्धसिय. ९ A सयमे. १० A छीलमालयणे but records a p in second hand. हीणमयल्लण इति वा पाठः. ११ सिरी. १२ A विरी. १३ A वारुणा सामरो. १४ A आगय त पुर.

7 6 a इणो सूर्य. 12 a वित्तएण धनदेन. 13 a आइमासंतरे ईपमते. 19 b वारिहीणं गमे वारिहीणां सागरोपमाणा गमने. 20 b पल्लचोत्थं न पल्लवतुभूते मर्यादा धर्मेच्छेदे सति. 23 a छीणमालंछणे चन्द्रे क्षीणे सति. कणयदे इत्यर्थे. 24 b विस्सजोए उज्जयिणसुरी. 25 b कोसिओ इन्द्र. 26 a सही समी. इन्द्रात् मीत. 27 b अयणी मयल्लच्छि.

## 8

तम्मि सेलसिंगए  
 वंदिओ जसंसिओ  
 धम्मतिथरायओ  
 सीयलेण सीयलो  
 लिचिओ महुच्छवे  
 देहदिचिपिंगलं  
 णीयवालकंदलं  
 रायहंसमाणियं  
 दिव्ववाससुंदरे  
 कक्करे विलंविं  
 किंणरोहिं वंदियं  
 संचुयं लयाहरे  
 भग्गतोडमंडणं  
 झ त्ति धावमाणयं  
 सित्तखेयरीवरं

पंडुपत्थरंगए ।  
 वज्जिणा णिवेसिओ ।  
 दुक्खतोयपोयओ ।  
 वारिणा गुणामलो ।  
 देवदुंदुहीरवे ।  
 सव्वलोयमंगलं ।  
 चारु सच्छविच्छुलं ।  
 जाइ ण्हाणवाणियं ।  
 मंदरस्स कंदरे ।  
 चंचरीयचुंविं ।  
 दाणवाहिणंदियं ।  
 णायसुंदरीसिरे ।  
 पावपंकखंडणं ।  
 धोयंदत्तिदाणयं ।  
 अक्खकीलियाहरं ।

5

10

15

यत्ता—जं एंव वहंतु भरइ सिहरिविवरंतरइ ॥

तं जिणंण्हाणंबु हणउ भवियजम्मंतरइ ॥ ८ ॥

## 9

तं सई हेट्टासुहुं जइ वि जाइ  
 सक्केण करिवि अहिसेयभहु  
 णिहियउ महएविहि पाणिपोमि  
 वंदिवि कुमारु भावे तिणाणि  
 जायउ जुवाणु देवाहिदेउ  
 जसु एक्खु वि देहावयउ णत्थि  
 किं जिणहु अणु उवमाणु को वि

उद्धुदु तो वि भव्वाइं णेइ ।  
 आणुउ जिणपुंगुमुं रायभहु ।  
 णं इंदिदिरु पण्फुल्लपोमि ।  
 गउ सग्गावासहु कुलिसपाणि ।  
 किं वण्णमि रूवे मयरकेउ ।  
 मेसहु उवमिज्जइ केव हट्ठिय ।  
 कइयणु जंपइ धिद्धिमइ तो वि ।

5

8 १ A पत्थरंगए. २ P वदिउं. ३ A भ<sup>०</sup>विच्छलं. ४ A ण्हाणवाणियं, P ण्हाणवाणिय.  
 ५ A संचुये. ६ A जक्ख<sup>०</sup>, P जक्ख<sup>०</sup>, T अक्ख<sup>०</sup>. ७ A जिणवरण्हाणंबु.

9 १ AP भवियाइ २ P पुंगु. ३ A मसयहु.

8 1 b पंडुपत्थरंगए पाण्डुरशिलाग्रे. 2 a जसंसिओ यशसा सित.. 3 b पोयओ प्रव-  
 हण, नौ.. 7 a वालकंदलं अभिनवाङ्कुरम्. 8 b ण्हाणवाणिय स्नानोदकम्. 10 a कक्करे गिरिदन्ते,  
 गुहायाम्. 12 a संचुयं सुतम्. 1 b अक्खकीलियाहरं इन्द्रियक्रीडाग्रहम्.

9 2 b रायभहु राजभद्रनगरम्. 3 b इंदिदिरु भ्रमर. 7 b धिद्धिमइ धृष्टता.

हेमच्छवि संगरभीसणाइं  
पुव्वहं तरुणत्तं परिवडंति  
करिवसहविमौणावाहणेण  
अहिंसिचिवि देवहु पट्टु वट्टु  
महि माणंतहु पुव्वहं गैयाइं  
तेणेक्कहिं दिणि कीलावणांति

तणुमाणे णवइ सरासणाइं ।  
जा पंचवीससँहसाइं जंति ।  
तांवावेप्पिणु हरिवाहणेण ।  
णारीयणणेहँ सो वि वट्टु ।  
पण्णाससहासइं णिग्गयाइं ।  
कीलत्ते णवकमलोयरंति ।

10

घत्ता—खरदंडकरंडि पिडियतणु करलालियउ ।

णं सिरिताविच्छु मुउ छच्चरणु णिहालियउ ॥ ९ ॥

15

## 10

जं दिट्ठुं मभो महुयरु सणालि  
ता चितइ जिणु सिरिरसवसाहं  
हो धिगिधिगत्यु धणु घरु कलत्तु  
खणि णच्चइ खणि गायइ सरेहिं  
खणि णिद्धणु खणि विहवत्ति थाइ  
हउ सुकइ सुहहु हउं चाइ भोइ  
हउं चंगउ एंव भेणंतु मरइ  
जहिं जहिं उप्पज्जइ तहि जि वंधु  
सहुं जाइ ण परियणसयणसत्थु  
भासंतइ संजयसम्मयाइं  
अणुकूलिउ तेहि तिलोयणाहु  
तें णहवणु करिवि पहु महिउ जँव

मयरंदालुद्धउ आरणालि ।

अलिविहि होसइ अम्हारिसाहं ।

जणु सयल मोहमइराइ मत्तु ।

खणि रोवइ उरु ताडइ करेहिं ।

उत्ताणणणु गव्वेण जाइ ।

हउं सूहउ हउं णिप्फण्णंजोइ ।

जोणीमुहेसु संसरइ सरइ ।

अण्णाणल्लण्णु णउ णियइ अंधु ।

संसारि णं कासु वि को वि एत्थु ।

ता पत्तइं सुरवरगुरुसयाइं ।

तांवाइउ सामरु अमरणाहु ।

हउं जहु कइ किंकिर कहमि तँव ।

5

10

घत्ता—णियगोत्तहियत्तु पुणु पुणु हियवइ भावियउ ॥

संताणि सडिभु णरणाहेण णिरुवियउ ॥ १० ॥

४ A °सहसाइ होंति. ५ A °विवाणावाहणेण. ६ A माणंतहु. ७ A हयाइ. ८ P ताणेक्कहिं.  
९ A त सिरि°.

10 १ A दिट्ठउ महुयरु मउ सणालि, P मुउ सुणालि. २ A उत्ताणणु जणु गव्वेण जाइ, P  
खणि उत्ताणणणु गव्वेण. ३ AP णिप्पण्णु. ४ A भणति. ५ AP ण कोइ वि कासु एत्थु. ६ A  
संजयसयमाइ, P सजयसगमाइ. ७ A किर कह कहमि.

10 a करिवसह° गजश्रेष्ठ., b आवेप्पिणु आगत्य, हरिवाहणेण इन्द्रेण. 12 a माणंतहु  
मुञ्जानस्य. 14 खरदंडकरंडि पद्मकोशे. 15 °ताविच्छु पुष्पविशेष°.

10 1 b आरणालि कमले. 2 b अलिविहि भ्रमरसदृश विधान भरणमित्यर्थ°. 7 b सरइ  
रतियुक्तः. 10 b सुरवरगुरु° लौकान्तिका देवाः.

## 11

सुकंकहि सिवियहि चडिवि चलिउ  
ओइण्णु सहेउयवणि महंतु  
माहम्मि मासि तिमिरेण कालि  
छट्टोववासु सद्धइ करेवि  
अवरहि दिणि णहयललग्गसिहरु  
णउ एयहु हियवउ सुण्णघडिउ  
णउ परिहइ चीवरु रंगरिद्धु  
णउ सूलवालु कंकालधारि

सुरयणु जयजय पभणंतु मिलिउ ।  
चरियावरणइं कम्मइं खवंतु ।  
वारहमइ दिणि जायइ वियालि ।  
सहुं रायसहासं दिक्ख लेवि ।  
भिकखाइ पइट्टु अरिट्टणयर । 5  
णउ भक्खइ पल्लु णियपत्तपडिउ ।  
वहु का वि भणइ णउ एहु बुद्धु ।  
णउ करि कवालु णउ देहि णारि ।

घत्ता—णउ धरइ पिणाउ णउ फणिकंकणु फुरियकरु ॥

हुंकारु ण देइ णउ उच्चारइ गेयसरु ॥ ११ ॥

10

## 12

णउ णडइ ण दावइ ढक्कसहु  
सुरवहुरएण रइयाइं जाइं  
णउ कहइ वेउ पसुहणणडंभु  
वहु का वि भणइ णउ चक्कपाणि  
णारायणु एहु ण होइ माइ  
अरहंतु भडारउ दोसमुक्कु  
अन्भागयवित्तिवियाणएण  
तहु किउ भोयणु पांसुयविहीइ  
चूवसिरि कुसुमाइं णिवाइयाइं

वहु का वि भणइ णउ एहु रुहु ।  
वयणाइं णत्थि चत्तारि ताइं ।  
वहु का वि भणइ णउ एहु वंभु ।  
ण पउंजइ दाणवप्राणहाणि ।  
जाणमि विक्खायउ भुवणभाइ । 5  
घरंप्रंगाणि प्रंगाणि जाव दुक्कु ।  
ता णविवि पुणव्वसुराणएण ।  
नूव संपीणिउ अक्खयणिहीइ ।  
सुराणिर्यरहि तूरइं वाइयाइं ।

घत्ता—संवच्छर तिणिण छम्मत्थु जें महि हिडियउ ॥

विल्लहु तलि देउ घाइचउकें छडियउ ॥ १२ ॥

10

11 १ AP सुक्कइ. २ A ओयण्णु, P अवइण्णु. ३ P वारहवइ. ४ A जायउ. ५ P सद्धइ. ६ P फल. ७ A णियपत्ति पडिउ. ८ A ०रिद्धु.

12 १ P णहु. २ AP पाणहाणि. ३ AP जाणिवि. ४ AP रायहु घरंपंगाणि जाव दुक्कु. ५ AP फासुय. ६ AP णिव. ७ AP णिव. ८ A ०णियरे. ९ A वेल्लिहि तलि.

11 1 a सुकंकहि शुक्काङ्कनाम्यां शुक्कप्रभाया वा. 3 a ति मिरेण कालि अन्धकारेण कृपे, कृष्णपक्षे इत्यर्थ. 4 a सद्धइ श्रद्धया. 6 b णियपत्तपडिउ निजपात्रे पतितम्. 8 a सलवालु नद्ध. 9 पिणाउ पिनाकं शिवधनु.

12 2 a सुरवहुरएण तिलोत्तमासक्केन. 7 a अन्भागयवित्तिवियाणएण अन्भागते वृत्ति जानातीति तादृगेन राजा, b पुणव्वसुराणएण पुनर्वसुराजा. 11 विल्लहु तलि विल्ववृक्षस्य तले.

13

तांवायउ सुरयणु करइ थोत्तु  
जइ तुहुं गोवांलु णियारिचंहु  
जइ पइं कुडिलत्तणु मुक्कु ईस  
जइ तुहुं संसारहु णिरु विरत्तु  
जइ तुहुं मुक्कउ संगगहेण  
जइ तेंइ विद्धंसिउ सयलु कामु  
जइ तुहुं सामिय संजमपयासि  
तुह णाहासियइं ण जइ पडंति  
जे पइं जि रउहइं दूसियाइं  
जइ रयणइं तुह तिण्णि वि पियाइं

संभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु ।  
तो काइं णत्थि करि तुज्झ दंहु ।  
तो काइं तुहारा कुडिल केस ।  
तो किं तेरउ इहु अहरु रत्तु । 5  
तो कि तुह तिजगपरिग्गहेण ।  
तो कि तुहुं पुणु संपण्णकामु ।  
तो किं कमुं कमलहु उवरि देसि ।  
तो किं एयइं चमरइं पडंति ।  
तो आसणि किं सीहइं थियाइं । 10  
तो तुहुं किर णिरलंकारु काइं ।

घत्ता—थेणत्तु णिसिद्धु जइ तुहं तो कंकेलितरु ॥

अच्छरकरसोह हरइ काइं कयदलपसरु ॥ १३ ॥

14

तुहुं माणुंसु भुवाणि पसिद्धु जइ वि  
जइ कासु वि पइं णउ दंहु कहिउ  
जइ रूसहि तुहुं सरमग्गणाहं  
जइ वारिउ पइं परि घाउ पंतु  
जइ पइं छट्ठिय मंडलहु तत्ति  
कहिं एक्कदेसरुहु तुह महेस  
ण वियाणविं तेरउ दिव्वचारु  
इय वंदिवि वेण्णि वि संणिविद्धु

माणवियपयइ तुह णत्थि तइ वि ।  
तो किं छत्तत्तइ फुरइ अहिउ ।  
तो किं ण देव कुसुमच्चणाहं ।  
तो कि हम्मइ दुंदुहि रसंतु ।  
तो किं पुणु भामंडलपावित्ति । 5  
कहिं बहुजणभासइ मिलिय भास ।  
सोहम्माहिवइ सणकुमारु ।  
देवेण सिट्ठि णीसेस दिट्ठु ।

घत्ता—एयासी तासु जाया जाणियधम्मविहि ॥

गणहर गणणाह गुरुयण गुरुमाणिक्कणिहि ॥ १४ ॥

10

13 १ P has before it. उप्पायउ केवलु जयपयक्खि, पूसहु चउदसि पढमिल्लपक्खि. २ A गोवाल. ३ AP तेरउ अहरगु रत्तु. ४ AP पइ. ५ A तो पुणु किं तुह. ६ AP सपुण्णकामु. ७ A कम. ८ A जइ. P ज. ९ AP तो तुह.

14 १ A माणसु. २ AP देंतु. ३ A हम्मइ किं. ४ A एक्कदेस तुहु तुहु महेस, P एक्कदेस सुहुं तुहुं महेस. ५ A किं बहुजणभासइ, P किं बहुजणभासहि. ६ A1' सणकुमार.

13 6 a सगग्गहेण परिग्रहस्वीकारेण. 7 b सपण्णकामु वाञ्छितदातृत्वम्. 8 b कमु पटम्. 9 a णाहासियइं हे नाथ, आश्रितानि. 13 कयदलपसरु कृतपत्रप्रसर, पत्रे, चौरा अपि दले सग्रामं कुर्वन्ति.

14 1 b माणवियपयइ नशप्रकृतिः अन्नपानास्वादनादिका. 2 b अहिउ अधिकम्. 3 a सरमग्गणाहं स्वरवाणानाम्. 5 a मंडलहु देगत्य. 7 a दिव्वचारु दिव्यस्वरूपम्. 8 b सिट्ठि जगत्सिधति.

## 15

महरिसिहिं महाचरणायराहं  
 एकूणसट्टिसहसइं सयाइं  
 भयसहसइं दोसय सावहीहिं  
 वारहसहसइं वेउच्चियाहं  
 पंचेव ताइं णयसयजुयाइं  
 सयसत्तपमाणुज्जोइयाहं  
 इय एकु लक्खु जायउ जईहिं  
 सावयहं लक्ख दो सुहमईहिं  
 तंहि देवहं बुज्झिय केण संख  
 भाभासुरु भव्वंभोयभाणु  
 सो पुव्वसहासइं पंचवीस  
 संमेयसेलि हलंततालि  
 सतवप्पहावपरिवियलियासु

चउदहसय पुव्वंगाहराहं ।  
 दुइ सिक्खहुं सिक्खावहि रयाइं ।  
 पुणु सत्तसहासइं केवलीहिं ।  
 इच्छियइं सरूवइं होति जाहं ।  
 मणपज्ज णवंतं संथुयाइं । 5  
 तहु पंचसहासइं वाइयाहं ।  
 लक्खाइं तिण्णि वरसंजईहिं ।  
 चत्तारि लक्ख जहि सावईहिं ।  
 संखेज्ज तिरिय हयसंककंख ।  
 सहं एत्तिण्हिं महि विहरमाणु । 10  
 अतिवरिसइं उम्मोहेवि सीस ।  
 सहं भिक्खुसहासें हरिणवालि ।  
 थिउ देहविसग्गं एकु मासु ।

घत्ता—आसोइ पवण्णि पुव्वासाढसियइमिहि ॥

अवरण्हइ सिद्धु थिउ मेइणियहि अट्टमिहि ॥ १५ ॥

15

## 16

वज्जट्टितुलाघणघडियगेहु  
 अवरैक्कहिं फुल्लइं घल्लियाइं  
 अवरैक्कहिं किउ जयणंदयोसु  
 अवरैक्कहिं थुउ संसारहारि  
 अवरैक्कहिं पणामिउ मोक्खगामि  
 अण्णहिं अण्णण्णइं साहियाइं

सिहिदेवहिं दड्डउ देवदेहु ।  
 अण्णहिं कच्चइं उव्वेल्लियाइं ।  
 अण्णहिं णच्चिउं मणणयणतोसु ।  
 अण्णहिं हयं झल्लरि पडह भेरि ।  
 अण्णहिं वंदिय जिणंसिद्धभूमि । 5  
 वाहणइं मेहवहि वाहियाइं ।

15 १ AP पुव्वंगयराहं. २ A सिक्खावइ थियाइं, P सिक्खावहि रियाइं. ३ A वारहसयाइं.  
 ४ A पंचेव ताइं णवसंजुयाइं; P सत्तेव ताइं वयसंजुयाइं. ५ A read- a as b and b as a.  
 ६ A उम्मोहिय वि सीस. ७ A भिक्खसहासे. ८ A सियछट्टिमिहि. ९ A मेइणियइ.

16 १ AP जयणंदिघोसु. २ A झल्लरि हय पडह. ३ AP कय बहुविहविहूइ. ४ AP  
 जिणदेहभूइ.

15 2 b सिक्खावहि रयाइं शिक्षापये रतानि. 11 b अतिवरिसइ त्रिवर्षहीनानि, उम्मो-  
 हेवि सीस जिण्यानसंज्ञान् क्त्वा. 12 b हरिणवालि मृगपालके. 13 a १परिवियलियासु नष्टायः.  
 14 आसोइ आश्विनमासे.

16 1 b सिहिदेवहि अग्निदेवै. 2 b उव्वेल्लियाइं उच्चरितानि. 6 b मेहवहि गगने.

गय णियणिलयहु सुर विहवफार  
गयणयलि चरंति चवंति एंव

जिणगुणकहरंजियहिययसार ।  
जगि कम्मबंधु को महई पंवं ।

घत्ता—णिक्किरिउ करिवि मणवयणंगइं परिहरिवि ॥

थिउ सीयलसामि मोक्खमहापुरि पइसरिवि ॥ १६ ॥

10

## 17

पसियउ परमेसरु परमंसमणु  
पुणु अक्खइ गणहरु सेणियासु  
गयलेसि परिट्ठिइ णाणसेसि  
तित्थंति तासु विच्छिण्णधम्मु  
विणु वत्तारयसोयार इहिं  
पुरगामणयरसोहाणिवेसि  
पडिवक्खलक्खसंजणियतासु  
कालें जंतें कुलगयणचंदु  
णीहारसरिसजसविमलकंति  
अत्थाणमज्झि उवविट्ठ राय

अम्हहं वि तहिं जि संभवउ गमणु ।

सम्मत्तरयणरुइसेणियासु ।

णिव्वाणु पराइउ सीयलेसि ।

पसरिउ जणवइ रयमइलु कम्मु ।

भव्वेहिं भवण्णवतारएहि । 5

मलययसुरहिइ तहिं मलयदेसि ।

भइलपुरि सिरिभद्दावयासु ।

घणरहु णामें जायउ णरिडु ।

तहु सच्चकित्ति णामेण मंति ।

एक्कहि दिणि दाणालाव जाय । 10

घत्ता—आहासइ रुहु भूरिसम्मु जिणधम्मचुउ ॥

सालायणमुंहु णामें अण्णु वि जांसु सुउ ॥ १७ ॥

## 18

गोदाणभूमिदाणंतराइं  
सोवण्णइं रयणइं अंवराइं  
हयं गय रहवर पीणत्थणीउ  
वरदब्भपवित्तंक्रियकराहं  
सो कणयविमाणहि विण्हुलोउ  
तं णिसुणावि पभणइ सच्चकित्ति

कच्चोलइं थालइं मणहराइं ।

फलछेत्तइं धवलहरइं पुराइं ।

कण्णा कलवीणालांविणीउ ।

जो देइ णरेसं दिएसराहं ।

संप्रॉवइ माणइ दिव्वु भोउ । 5

कहि कामुउ कहि परलोयवित्ति ।

५ AP चडति. ६ A सुयइ.

17 १ A परमसरणु. २ A अम्हहं. ३ AP भवतर°. ४ AP तासु.

18 १ P गय हय. २ A °लवगीउ. ३ AP णरेसु. ४ AP सपावइ.

7 b °रजियहिययसार रञ्जित हृदयसार मनो येषा ते. 8 b महइ मञ्जाति.

17 1 a पसियउ प्रतीदतु. 2 b °रुइसेणियासु °दीत्तिपक्के. 5 a वत्तारयसोयारएहिं षकृश्रोतृभ्याम्. 6 b मलययसुरहिइ मलयजं चन्दन तेन सुरमिते. 7 a °सजणियतासु सजनित्वास. 10 b दाणालाव दानालाप, दानकथा. 11 रुहु रौद्रध्यानी.

18 1 b कच्चोलइं पानपात्राणि. 4 a °दब्भपवित्तं दर्भसुट्टिका. 5 a विण्हुलोउ विण्णुलोकम्.



कहिं णिवहु कहिं अंवयफलाइं  
कहिं खीरु महुरु कहिं राइयाउ  
मग्गइं मंचउ वरभूमि हेमु  
मुइ डिभइ उयरु हणंतु रडइ

कहिं खरयरसिल कहिं सयदलाइं ।  
वंभणमईउ कुविवेइयाउ ।  
मग्गइ कुमारि भुंजइ सकामु ।  
अण्णाणिउ भवसंसारि पडइ । 10

घत्ता—भक्खइ सृग्मासु सुज्झइ पिंपलफंसणिण ॥

णिउ णरयहु लोउ णिग्घणवंभणसासणिण ॥ १८ ॥

## 19

अण्णाणिणि पसु पुण्णेण रहिय  
जा गाइ चरंति अमेज्जु खाइ  
पाणिउ तणुसंगे होइ मुत्तु  
कयपाणिवग्गणिप्पाणियाइ  
जइ देइ देउ तो होउ चाइ  
दिज्जइ सुपत्तु जाणिवि सणाणु  
भाविज्जइ जीवदयालु भाउ  
णियमिज्जइ कुवहि चरंतु चित्तु

बंधणताडणदुक्खेण गहिय ।  
सा किं संफासें सुद्धि देइं ।  
सोत्तिय तं बुच्चइ किह पवित्तु ।  
किं एयंइ धुत्तकहाणियाए ।  
कुच्छियदाणे सग्गहु ण जाइ । 5  
सुय भेसहु अभयाहारदाणु ।  
पुज्जिज्जइ सामिउ वीयराउ ।  
वज्जिज्जइ परधणु परकलत्तु ।

घत्ता—जम्भु दिण्णइ दाणि होइ महंतु अणंतु फल्लु ॥

तं उत्तमु पत्तु पणवंतहं परियलइ मल्लु ॥ १९ ॥

10

## 20

जे वज्जियपुत्तकलत्तणेह  
अपरिग्गह जे गिरिगहणणिलय  
जे णिवडिय भव्वुद्धरणलील  
जे अरिवंधवहुं मि समसहाव  
दिज्जइ जोग्गउ आहारु ताहं  
सत्थेण णाणु अण्णेण भोउं

दुद्धरमलपडलविलित्तदेहं ।  
भयलोहमोहमयमाणविलय ।  
उवसग्गपरीसहसहणसील ।  
णिग्गंथ णिरंजण मुक्कगांव ।  
मज्झणिण पइट्टहं मुणिवराहं ।  
फल्लु दाणसूरु नृव लहइ लोउ ।

५ AP मग्गइ घरु मंचउ भूमि हेमु. ६ AP मिग्मासु. ७ AP पिप्पल<sup>०</sup>.

19 १ A अण्णाणि. २ A होइ. ३ AP कयपाणिवग्गणिप्पाणियाइ. ४ A एणइ. ५ A सुणाणु. ६ A परहणु. ७ A पणवंतहु.

20 १ AP गलियगाव. २ P पवणु, P adds after this: बल्लुलिउं णाइं तेलोकभवणु  
३ AP णिव.

7 b खरयरसिल कठिनशिला. 8 a राइया राजिका आसुरी मोहरी).

19 1 a अण्णाणिणि अज्ञा गौ. 2 a अमेज्जु विष्ठा. 3 a मुत्तु मूत्रम्. 6 a सणाणु  
सज्ञानि, पात्रं ज्ञात्वा, b सुय श्रुतं ज्ञान्नादानम्. 8 a कुवहि कुमार्गे.

20 2 a गिरिगहणणिलय गिरिगहनवासिनः 3 a णिवडिय<sup>०</sup> मंसारे पतिताः.

अभयोसहेहिं परियलइ रोउ  
ता सालायणमुंडेण उत्तु  
विणु आगमेण किं तुहुं पमाणु  
पडिउत्तरु दिण्णउं सावएण  
अम्हारउं सासणु णत्थि बप्प  
णरणाहु पयंपइ तुह सुईउ

घत्ता—ता कुणयरएण विष्णं जिणमउ णिरसियउं ॥

सइं विरइवि कब्बु आणिवि रायहु दरिसियउं ॥ २० ॥

ण कया वि णिहालइ दुक्खजोउं ।  
दावहि तेरउं सिद्धंतसुत्तु ।  
माणवु पायडमाणवसमाणु ।  
इह सीयलपरमेसें गएण । 10  
जं रुच्चइ तं तुहुं चवहि विष्ण ।  
दावहि दियवरदावियगईउ ।

## 21

रइयाइं ललियाइं कव्वाइं भणिऊण  
तव्वासराओ तहिं दुट्टुहिययाइं  
गुरुदेवपडिकूलणुप्पणगावाइं  
कयपियरमिसगसियपैसुपेसिगासाइं  
गोदाणभूदाणदढवच्चतिट्टाइं  
गुणवंतणिंदिरइं णियकुलमयंधाइं  
मयहडुच्चिंदिरइं पाणियसउच्चाइं  
धरियक्खसुत्ताइं मृगं चम्मभूसाइं  
धणधरणिधरपणइणीमोहमूढाइं  
दुग्घोदुट्टुप्पोसपोसणपयट्टाइं  
आसवमयावेसपसरियविडंवाइं

घत्ता—गयसीयलदेवि भरहि जाय परपत्तविहि ॥

संपीणइ विष्णु पुप्फदंत पणवंत सिहि ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए

महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे सीयलणाहणिव्वाणगमणं

णाम अट्टयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४८ ॥

॥ सीयलणाहचरियं समत्तं ॥

देहीणं संदेहवुद्धीउ जणिऊण ।  
णिद्धम्ममग्गाम्मि कम्मेण णिहियाइं ।  
वडंतसुविचित्तमिच्छत्तभावाइं ।  
पयलंतमहुसोमवाणाहिलासाइं ।  
उट्ठिर्यंकरग्गाइं किविणाइं दिट्ठाइं । 5  
दुग्गंधरसभरियणवदेहरंधाइं ।  
हिंसाइ घडियाइं पब्भट्टुसच्चाइं ।  
पालासदंडाइं कासायवासाइं ।  
छक्कम्मगंभीरजरकूवळूढाइं ।  
सुयसत्थवित्थारविलसियमरट्टाइं । 10  
जीवंति दीणाइं वंभणकुटुंवाइं ।

४ P adds पच्चेल्लिउ पावइ सरसु भोउ. ५ AP पजपइ

21 १ A देहेण. २ A देवगुरुकूलणुप्पणगव्वाइ, P देवगुरुपडिकूलणुप्पणगावाइ. ३ A  
अयमासगासाइं. ४ A पयडंत°. ५ P सोमपाणा°. ६ A उट्ठिय°. ७ AP चिट्टाइं. ८ A मयहुड-  
चंदिइ, P मयहडुच्चिंदिरइ. ९ A मयचम्म°, P मिगचम्म°. १० A दुग्घुदुट्टुघोस°. ११ AP आसव-  
मयावेस°. १२ A अट्टयालीसमो. १३ AP omit the line.

21 1 a °पे सि° मासवल्हरिका. 9 b छक्कम्म° पठनपाठनयजनयाजनदानप्रतिग्रहरूपाणि पट्ट-  
कर्माणि, °जरकूव° पुराणकूप. 10 a दुग्घोदुट्टु° मधु, दुप्पोस° मासम् 11 a आसवेत्यादि ब्रह्मचारो  
गृहस्थो वानप्रस्थो यतिश्चेत्येवरूप आवेगो ब्राह्मण इत्येवरूपो मदोपेनो वर्णानां गुरुश्रित्यभिनिवेशस्तेन प्रवृत्तो  
विटम्भो लोकवञ्चकत्वं येषाम्, 12 परपत्त° अन्यस्य पात्रम्.

दहमउ गुरु मइं तुह कहिउ देउ मोक्खमाणसरहंसु ॥  
अवरु वि सुणि सेणिय भणमि एयारहमउ जिणु सेयंसु ॥ ध्रुवकं ॥

I

जासु ण मुक्का मारें मग्गण  
जेण ण खंडणु किउ चारित्तहु  
जो ण वडिउ संसारसमुद्दइ  
अकयइ णिच्चइ पडिमरूवइ  
जो णाणें पेक्खइ णीसेसु वि  
जो सुक्कियमहियम्महु विसहरु  
जेण राउ मेल्लविय भुयंगय  
भालि ण दिज्जइ जसु तिलउल्लउ  
जो परिहइ ण कयाइ वि कंकणु  
णिञ्चेलक्कु जेण पडिवण्णउं  
तो वि<sup>१</sup> ण परिहइ जो<sup>२</sup> णिण्णेहलु  
तहु देवहु संचियसेयंसहु

जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण ।  
तवपब्भारें णिञ्चारित्तहु ।  
मुद्दिउ जेण तिलोउ समुद्दइ । 5  
जासु ण रमइ दिट्ठि तयैरूवइ ।  
पयजुयलइ णिवडइ जसु सेसु<sup>३</sup> वि ।  
जो पंचिंदियविसहरविसहरु ।  
जासु ण पत्तावलि वि भुयंगय ।  
जो अप्पणु तिहुयणि तिलउल्लउ । 10  
णउ फंसइ सच्चित्तउं कं कणु ।  
जइ वि चीरु चंगउं पडिवण्णउं ।  
जो ढोयइ णरि णिरु णिण्णे हलु ।  
पयजुयलउ वंदिवि सेयंसहु ।

घत्ता—पुणु अक्खमि तहु तणिय कह किच्चि वियंभउ महुं जगगेहि ॥ 15  
पुक्खरवरदीवंतरइ सुरदिसि मेरुहि पुब्बविदेहि ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza.—

सया सन्तो वेसो भूसणं सुद्धसील  
सुसतुट्ठं चित्तं सव्वजीवेसु मेत्ती ।  
मुहे दिव्वा वाणी चारुचारित्तभारो  
अहो खण्डस्सेसो केण पुण्णेण जाओ ॥ १ ॥

This stanza is found in P at the beginning of Samdhi L K does not give it anywhere.

1 १ AP सुणु. २ APT तियरूवइ. ३ P adds after this: दूरविमुक्कउ वंधविसेसु वि, सममणु बहुधणेसु णीसेसु वि. ४ A महिजम्महु. ५ AP सच्चित्तउं. ६ AP तो णवि. ७ A जइ णिण्णेहलु.

1 3 a मग्गण वाणा., b गुण गुणस्थानानि, मग्गण चतुर्दश मार्गणाः. 4 a णि च्चारि च्चहु नित्यमरिक्तस्य, अथवा अरीणा भावो अरित्वम्, न्यग्भूत नीचभूतमरित्व यस्य. 5 b समुद्दइ स्वमुद्रया. 6 a तियरूवइ चेतनाचेतनस्वरूपे स्त्रीरूपे. 8 a सुक्कियमहियम्महु विसहरु सुकृतमेव महिजन्मा वृक्षस्तस्य विसहरु मेघः, b पंचिंदियविसहरविसहरु पञ्चेन्द्रियाण्येव विप्रधरा सर्पास्तेषा विप्रदरो विप्रहारक. 9 a भुयंगय विट. 10 b अप्पणु स्वयमेव. 11 b कं कणु कं पानीयम्, कणु वीजम्. 12 b पडिवण्णउं पटीसमानवर्णम्. 13 a णिण्णेहलु स्तेहरहित. b णिण्णे निम्नोन्नते, हलु स्वर्गादि-फलम्. 14 a सचियसेयंसहु उपार्जितपुण्यविशेषस्य.

## 2

सालतमालतालतरुसंकडि  
कच्छउ देसु देसंसिरिसंकुलु  
कलववडियकल्लेवि कयकलयलु  
तहि खेमउरु काइं वण्णिज्जइ  
सरु वायरणि णवर संधिज्जइ  
णहवणु ण वणु जेत्यु भडभंडणि  
अत्थसमप्पणि जहि पयविग्गहु  
जहिं णिण्णासिय परमंडलवइ  
जहि चोरारिमारिदालिइइं  
तहि राणउ णलिणालयमाणु

सीयतरंगिणिपवरुत्तरतडि ।  
वियसियकमलकोसरयपरिमलु ।  
दुमफुल्लासियफुल्लंधुयचलु ।  
जहि पियथमु पणणं कलहिज्जइ ।  
तणु विरहेण ण वाहिइ झिज्जइ । 5  
केसगहणु विवाहरचुंवाणि ।  
जइयणि णउ सावज्जपरिग्गहु ।  
पासवद्ध णं घरमंडलवइ ।  
पासंडाइं वि णत्थि रउइइं ।  
णलिणप्पहु णामे णलिणाणणु । 10

घत्ता—भयभीयइं महिणिवडियइं जीर्यं देव सविणउ जंपंति ॥  
जासु पथावे तावियइं परणरणाहसयइं कंपंति ॥ २ ॥

## 3

कलयलंतचलकलकोइलगणि  
पेच्छिवि जिणु अणंतु वणवालें  
तहु तहिं तवसिहिहुयवम्मीसरु  
परमप्पउ पसण्णं परमेसरु  
तं णिसुणेवि तेण तित्थंकरु  
वुज्जिअवि धम्मु अहिसालवखणु

तावण्णहिं दिणि सहसंबयवणि ।  
विण्णत्तउ सिरंगयभुयडालें ।  
गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु ।  
आयउ देउं धम्मचक्केसरु ।  
जाइवि वंदिउ दुरियखयंकरु । 5  
चित्तिवि बंधमोक्खविहिलक्खणु ।

2 १ A देससरिसंकुलु. २ A °कलेवि°, P °कल्लेवि°. ३ P ण पर. ४ A जइयणि तउ सावज्जपरिग्गहु, P णउ परअत्थहरणि कयविग्गहु. ५ P णित्तासिय ६ A जीव.

3 १ A तावण्णयदिणि. २ A सिरि गय°. ३ AP पसण्ण. ४ AP देव.

2 3 a कलववडियकलविं कलमः शालिविज्ञेषः तत्र पतितेन कलविं ग्रामचटकेन, b °फुल्लधुय° भ्रमरः 5 a सरु स्वर वाणश्च, वायरणि व्याकरणे वाग्ने वाक्कलहे च. 6 a णहवणु नखत्रण, भडभडणि सग्रामे. 7 a अत्थेत्यादि अर्थाना पदवाक्याना समर्पणे प्रतिपादने पदाना विग्रह. समासो भवति न पुनः प्रजानामर्थसमर्पणे द्रव्यदाने विग्रहः झकटको भवति. 8 b घरमंडलवइ गृहवद्धा महाश्वानः. 10 a णलिणालयमाणु नलिनालया लक्ष्मीस्तस्या भोक्ता. 12 परणरणाहसयइं शत्रु-राजाना शतानि.

3 2 a अणंतु अनन्तनामा, b सिरिगयभुयडाले मस्तके कृतवाहुना. 3 b गुणदेवहं गणधरदेवानाम्, भवदेवहं भवेन जन्मना देवानामिन्द्रादीनाम्.

देवि सुपुत्तु महिहिं परिरक्खणु      सइं रिसि हूयउ राउ विप्रक्खणु ।  
 चरणमूलि जइवरहु अणंतहु      चरइ मग्गि दुग्गामि अरहंतहु ।  
 घत्ता—णीलकिण्हलेसउ मुंयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥  
 सुक्कलेस मुणिवरु धरइ भीमें तवतावेँ खिज्जंतु ॥ ३ ॥

10

## 4

मंदरधीरु वीरु दिहिपरियरु      इत्थिअत्थनृवथेणकहंतरु ।  
 ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहं णीरउ      एयारहवरंगसिरिधारउ ।  
 कोहु लोहु माणुं वि मुसुमूरइ      मायाभावु होंतु संचूरइ ।  
 चक्खुसोत्तरसफासणघाणइं      जिणइ हणइ दुक्कियसंताणइं ।  
 विहुणिवि धिवइ णिहं सहुं पणं      अप्पउं भूसइ रिसि रिसिविणपं । 5  
 ण सरइ पुव्वकालरइकीलणु      ण करइ दंतपंतिपक्खालणु ।  
 णहखंडणु सरुवपरिपुंछणु      करयलवट्टि सरीरणियच्छणु ।  
 हसणु भसणु भूभंगु ससंसणु      पाणिणिट्टु परगुणविद्धंसणु ।  
 साहिलासु सवियारउ दंसणु      णियडणिसर्णहरिणसंफंसणु ।  
 णक्खञ्छोडि तणुमोडि ण इच्छइ      परमसाहु लिहियंउ इव अच्छइ । 10  
 घत्ता—बंधिवि तित्थयरत्तु तहिं दंसणसुद्धिइ तोडिवि भंति ॥  
 अच्चइ पुष्फुत्तरणिलइ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥

## 5

आउ दुवीससमुद्धर्माणइं      कैलें गिलियइं दुक्कपमाणइं ।  
 तहु छम्मासु परिट्टिउ जइयहुं      अक्खइ जक्खहु सुरवइ तइयहुं ।  
 जंबुदीवि भरहि सीहउरइ      धणकणजणगोहणगुणपउरइ ।  
 आइदेवकुलसंतइंजायउ      विट्टु णाम राणउ विक्खायउ ।  
 णंदादेवि तासु घरसामिणि      कामसुंहकरि णं सुरकामिणि । 5

५ AP सुयउ.

4 १ A इत्थिअत्तिणिव<sup>०</sup> and gloss अत्ति भोज्य, P इत्थिअत्थणिव. २ AP णिप्पिहु.  
 ३ AP मोहु. ४ P णिहे. ५ A पुव्वकालि. ६ P परिपेच्छणु. A पाणिणिट्टु. ८ A<sup>०</sup> णिसण्णहं हरि-  
 णहं फंसणु; P<sup>०</sup> णिसण्णहं णवि संफंसणु. ९ P लिहियंउ इव.

5 १ AP<sup>०</sup> समाणइं. २ A कालि. ३ AP<sup>०</sup> सतए जायउ.

7 a देवि दत्त्वा. 9 काउलेस कापोती लेख्या.

4 1 b इत्थि स्त्रीकथा, अत्थ<sup>०</sup> जिहेन्द्रियविषयोऽर्थ, भोजनकथेत्यर्थ. 2 a णि प्रिह नि.स्यहः.  
 7 a ण हखंडणु करपादनखाना खण्डनम्. सरुवपरिपुंछणु शरीरमाज्जनम्; b करयलवट्टि वाह-  
 च्छोटिका. 10 a ण क्खञ्छोडि नक्खञ्छोटिका अङ्गुलिविकारः.

तणुरुहु तेओहामियदिणयरु  
ताहं तुरिउं तुहं करि भल्लारउं  
धणएं पुरुं पविणिम्मिउं तेहउं

एयहं दोहं वि होसइ जिणवरु ।  
रयणफुरंतु णयरु चउदारउं ।  
मणुयहिं वण्णहुं जाइ ण जेहउं ।

घत्ता—ता णज्जइ दिणु णिच्च जहिं जा सरंवरि कमलइं वियसंति ॥

वरमणिकिरणहि तोंतडिय उग्गय रवियर णउ दीसंति ॥ ५ ॥ 10

## 6

तहि सयणालइ सिरिअइसइयइ  
पुण्णचंदसोहियमुहयंदइ  
अविरंयगलियदाणधारालउ  
वालहिसण्हाककुखुरमणहरु  
कुडिलणहरु भइरवरुंजणरवु  
कण्णतालहयमहुलिहविंदहि  
मालाजुयलु भिगंणियकेसरु  
कलसजुंयलु णवकमलु सकोमलु  
सरु सररासि चारुसीहीसणु  
माणिकोहु मोहंमालालउ

पच्छिमरयणिहि णिहंधंइयइ ।  
सिविणपंति अवलोइय णंदइ ।  
भमियसिलिम्मुहोलिसोंडालउ ।  
सउरहेउ रुइरांजियससहरु ।  
गिरिगुहणीहरंतु कंठीरवु । 5  
सिरि सरि सिंचिजांति करिंदहि ।  
मा णिसिमंडणु भासुरु णेसरु ।  
मीणमिहुंणु जलकीलाचंचलु ।  
देवालउ फणिभवणु फणीसणु ।  
सिहि णहयलि जलंतु चलजालउ । 10

घत्ता—एवं णिहालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥

जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥ ६ ॥

## 7

महिवइ मेहघोसु णिच्चप्फलु  
जसु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ

कहइ महासइहि सिविणयफलु ।  
जो सयरायरु लोउ णियच्छइ ।

४ A पुरु विणिणम्मिउ. ५ A सरवरकमलइ.

6 १ A णिरु अइसइयइ. २ AP णिहधइ. ३ A सिविणयतइ, T तइ पक्ति. ४ AP अविरल°. ५ A भइरवभजणरउ. ६ A °वदहिं. ७ A भिगु पिय°. ८ A °मडलु ९ AP कलस-जमलु. १० A मीणजुयलु. ११ A सिंहासणु. १२ A मोहु मालालउ.

5 6 a तेओ हामियदिणयरु तेजसा तिरस्कृतसूर्यः. 8 a पविणिम्मिउ प्रविनिर्मितम्. 9 णज्जइ जायते. 10 तोंतडिय मिश्रा.

6 1 a सिरिअइसइयइ गोभातिशययुक्ते, b णिहधइयइ निद्रान्धया. 3 a अविरय° निरन्तरम्, b °सिलिम्मुहोलि° भ्रमरपक्ति. 4 a वालहि पुच्छम्, सण्हा सास्त्रा गलकम्बलः, ककु ककु-दम्. b सउरहेउ सौरभेयो वृषभ. 7 मा लक्ष्मीः, णिसिमडणु चन्द्रः. 9 a सररासि समुद्रः. 10 a मोहमालालउ मयूखमालायुक्त.

7 1 a णिच्चप्फलु निश्चपलः. 2 b सयरायरु सचराचरम्.

जो परु अप्पउं परहु पयासइ  
सासयसोक्खसरोरुहछप्पउ  
तेरइ गब्भइ अब्भउ होसइ  
बुट्टु कुबेरु देवु णवणिहिहरु  
कंतिकित्तिसिरिहिरिदिहिवुद्धिउ  
आयउ जायउ जणउच्छाहउ  
धित्तसुरासुरपंकयविट्ठिहि  
सवणि सुरिक्खइ पच्छिमरत्तिहि  
जक्खणिहित्तइ दुक्खणिवारइ

जासु दोसु तिलमेत्तु ण दीसइ ।  
सो अरहंतु संतु परमप्पउ ।  
ता रोमंचिय णाच्चिय सा सइ । 5  
जा छम्मास तावं चामीयरु ।  
देविउ देविहि कियैतणुसुद्धिउ ।  
सग्गउ संचुउ अच्चुयणाहउ ।  
जेट्टहु मासहु किण्हँहि छट्ठिहि ।  
थिउ उयरंतरि पत्थिवपत्तिहि । 10  
पुणु णवमांस सित्तु वसुद्धारइ ।

यत्ता—छावट्टिलक्खसछव्वीसहिं वि वरिससहासहिं रिद्धँउ ॥

सायरसउ छड्ठिवि कोडि गय थक्कउ पुणु पल्लँद्धउ ॥ ७ ॥

## 8

जइयहुं वट्टइ णिवुइ सीयालि  
तइयहुं तिहिं णाणहिं संजुत्तउ  
फग्गुणि पयारहमे वासरि  
विण्हजोइ उप्पणउ जोइउ  
आवेप्पिणु भत्तिइ तरुणीलहु  
सिहरकुहरथियखगरामालहु  
णिहियउ पावपडलणिण्णासणि  
उत्त मंत विहि सयल करेप्पिणु

णट्टउ अरुहधम्मु धरणीयलि ।  
पुव्वजम्मि भावियरयणत्तउ ।  
णिच्चमेव खिजंतइ ससहरि ।  
मायइ तारहिं णयणहि जोइउ । 5  
मेहलविरइयैतारामालहु ।  
अमरवरेसें णिउ सुरसेलहु ।  
पंहुंसिलायलि पंचासासणि ।  
खीरंभोणिहिखीरु लएप्पिणु ।

यत्ता—सायकुंभमयकुंभकर एंति गयणि णच्चंति णवंति ॥

खीरवारिधारासयहिं देवदेउ भावेण प्हवंति ॥ ८ ॥

10

7 १ A कुवेरदेउ. २ A जाम. ३ AP कय°. ४ AP जणि उच्छाहउ. ५ A कण्हयछट्ठिहि.  
६ A सवणसुरिक्खइ. ७ AP णवमासु. ८ A सिद्धउ, P सिद्धउ. ९ A पुण्णट्टउ.

8 १ A फग्गुणएयारहमइ. २ AP विण्हजोइ, T विण्हजोए ज्येष्ठानक्षत्रे. ३ AP °वलहय°. ४ A पावपडल. ५ A पंडसिलायलि. ६ A मंगलु सासणि.

4 a °छप्पउ भ्रमरः. 5 a अब्भउ अर्भकः. 11 b सि च्चु सिक्कं वर्णं कृतम्. 12 छावट्टि° पद्मष्टिः.  
13 पल्लद्धउ पल्यार्धम्.

8 3 b खिजंतइ ससहरि कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 4 a विण्हजोइ श्रवणनक्षत्रे, b तारहिं उज्जयैः.  
5 a तरुणीलहु वृक्षैः नीलस्य. 6 a खगरामालहु विद्याधरीयुक्तस्य. 7 पंचासासणि सिद्धामने. 8 a  
उत्तमंत मन्त्राः उक्ता. 9 सायकुंभ सुवर्णम्.

9

सुरपेल्लिउ णं डोल्लइ मंदरु  
अलिइंकारइं सरलइं सदलइं  
कमलि कमलि आसीणइं हंसइं  
जे कलसर ते किरं वम्महसर  
वम्महसरवरेहि जणु दारिउ  
जिणु सिंसु मयणहु अज्जु वि संकइ  
करइ कामु घणुगुणटंकारउ  
वहुपं सेयंसेण णिउत्तउ  
आणिवि णयरु समप्पिउ मायहि  
पणवेप्पिणु दुक्कियघणपवणहु  
काले जंतं वत्थुपमाणउ

कलसहं सहसइं लेइ पुरंदरु ।  
कलसि कलसि संणिहियइं कमलइं ।  
हंसइं कयकलसरणिग्घोसइं ।  
वम्महारि विद्दवियणरामर ।  
जणवएण हियवइ जिणु धारिउ । 5  
तेण जि रइ थणजुयल्लु ण ढंकइ ।  
पसरइ अच्छरउलहं वियारउ ।  
सयमहेण सेयंसु पउत्तउ ।  
तणयालोयणवियसियछायहि ।  
गयउ पुलोर्मपिसुणु णियभवणहु । 10  
वड्ढिउ पुरि तइलोक्कहु राणउ ।

घत्ता—हेमच्छविहि भडारहु जं दिट्टउ तं<sup>९</sup> णेय रहंति ॥

तासु असीइसरासणइं गणहर तणुपरिमाणु कंहंति ॥ ९ ॥

10

एकवीसलक्खइ वालत्ते  
पुणु पुज्जिउ पोलोमीकंते  
रज्जु करंतहु कामरसइहं  
एहउ अवसरु जायउ जइयहुं  
दिट्टउ तंबिरपल्लवु चूयउ  
सो णं जालहि जलइ णिरारिउ  
पुणु कोइल्लु कलसइं गज्जइ  
रुणुरुणंतु अण्णाणु ण चेयइ  
ता परमेसरु मणि मीमंसइ  
काले कंठइयउं अंकुरियउं

घल्लियाइं वरिसहं खेलंते ।  
किउ रज्जाहिसेउ गुणवंते ।  
दोचालीसलक्ख गलियइहं ।  
णाहें कीलावणि तहि तइयहुं ।  
मयणहुयासहु वीयउ हूयउ । 5  
विरहीयणु तें ताविउ मारिउ ।  
णं वसंतपहु पडहउ वज्जइ ।  
महुयरु महु पिपैवि णं गायइ ।  
अम्हारउं वणु अण्णु जि दीसइ ।  
पल्लवियउं कुसुमोल्लिहि भरियउं । 10

9 १ P डोलइ. २ A किल ते, P ते किल. ३ A °णिद्विय°. ४ P पुलोमपिसुणु. ५ AP वत्थुवमाणउ, T वत्थुअम्मोणउ. ६ P त ते अरहंते. ७ P असीसरासणइ. ८ P कहतं.

10 १ AP पणवते. २ AP णाहें कीलते वणि तइयहु. ३ AP पिपैइ. ४ P कटइयउ कुरियउ.

9 4 a कलसर मधुरस्वना, b वम्महारि मर्मवेधका. 6 a सिंसु बाल, बालत्वादित्यर्थ, b ढंकइ आच्छादयति. S a बहुएसेयसेण णिउत्तउ बहुभिः श्रेयोभिर्नियुक्त.. 10 पुलोमपिसुणु पुलोमगत्र इन्द्र.. 11 वत्थुपमाणउ उपमानरहित. ( व्यस्तोपमान ).

10 3 a कामरसइहं कामरसाद्राणाम्, b गलियइहं गलिनानि अट्टानाम्. 5 चूयउ आम्रवृक्षः. S b महु मकरन्दो मद्य च. 9 a मीमंसइ मीमासते परिभावयति.



फलितं फलावलीहिं णं पणवइ एही सयलहु लोयहु परिणइ ।  
 परिणमंतु जगु णिविसु ण थक्कइ परिणामहु जइ जीउ ण चुक्कइ ।  
 घत्ता—जगु परिणामें दूसियउ णिप्परिणाम सिद्ध परमेट्टी ॥  
 हो<sup>५</sup> हो अथिरेणेण महं णिच्चल तेत्थु णिरंभिवि दिट्ठी ॥ १० ॥

## 11

ता संपत्त तेत्थु सुरवरगुरु तेहिं तुरिउ पडिवोहिउ जगगुरु ।  
 सो आहंडलु तं सुरमंडलु तं अच्छरउलु मणिमयकुंडलु ।  
 आयउं पुणु वि प्हवणु किउं देवहु णिट्ठियचरियावरणविलेवहु ।  
 विमलें सिवियाजाणें णिग्गउ णाहु मणोहरु णंदणवणु गउ ।  
 फग्गुणि कसणि एयारसिदियहइ दिवहाहिवि अवरसासंगइ । 5  
 सवणरिक्खि उवसमियकसायउ भूवइ मुक्कभूइभूभायउ ।  
 उववासहुवेण रिसि जायउ सिद्धत्थउ पुरु भिक्खहि आयउ ।  
 णंदणरिंदें एंतु पडिच्छिउ सुद्धपिंहु तहु तेण पयच्छिउ ।  
 दुइ वरिसइं विहरेप्पिणु महियलि पुव्विल्लइ वणि तुंवरुतरुतलि ।  
 माहहु मासहु णिच्चंदइ दिणि छेइल्लइ सवणइ मयलंछणि । 10  
 अवरण्हइ तिरत्तसंजुत्तहु अचलियपत्तलपविउलणेत्तहु ।  
 घत्ता—संभूयउं केवलु तहु विमलु णाणु तेणें तेलोक्कु वि दिट्ठु ॥  
 पत्तउ सामरु अमरवइ जिणु थुणंतु महु भावइ धिट्ठु ॥ ११ ॥

## 12

तुहुं जि देउ तुह णवइ पुरंदरु तुहुं थिरु तुह पीडुल्लउ मंदेरु ।  
 तुहुं तवंगु तुह वीहइ दिणयरु कंतिवंतु तुहुं तुह ससि किकरु ।

५ A परिणवतु. ६ AP परमेट्टिहि. ७ A होही. ८ A णिच्चल तेत्थु णिरंभिवि दिट्ठिहि, P णिसल्लतेत्थु णिरंभिवि दिट्ठिहि.

11 १ A ०वरणु. २ AP विमलि. ३ A भूयइ. ४ A omits तेण. ५ A विट्ठु.

12 १ P मदिरु. २ A तवंगु, P तवंगु.

12 णि चिनु निनेपमपि. 13 णिप्परिणाम सासारिकपणिणामरत्तिता .

11 ; b णि ट्ठियचरियावरणविलेवहु दिनचारिवावरणावनेउदय. 1 a विमले विमल प्रभवा. 6 b सुक्क भूइ भूभायउ त्वक्कविभूति त्वक्कभूभागश्च. 7 a ०दुवेण प्राने. 9 b तुत्तुमत्तमत्तं तिन्दुहीमत्तं. 10 a णिसदर एणे, b छेइल्लउ अमायन्नायाम्. 11 a णिरत्तसंजुत्तहु णिरत्तसंजुत्तहु. 13 विट्ठु भूइ .

तुहुं गहीरु वरुणेणाणंदिउ  
तुहुं रयतरुसिहि सिहिणा सेविउ  
तुह पायग्गहिं वाउ विलग्गउ  
तुहुं जमपासवसेण ण वद्धउ  
तुहुं जि कालु कालहु कालुत्तरु  
सव्वु वि जाणासि पेच्छासि जेण जि

तुहुं अणिहणणिहि धणएं वंदिउ ।  
तुहुं जि मंति<sup>३</sup> मंतीसहिं भाविउ ।  
तो वि ण तुहुं पहु वाएं भग्गउ । 5  
जमु तुह सेवाविहिपडिबद्धउ ।  
तुहुं विवाइ वाइहिं दिण्णुत्तरु ।  
तुहुं जि सव्वु सव्वाहिउ तेण जि ।

घत्ता—अट्टपाडिहेरयसाहिउ अट्टमहाधयपंतिसमेउ ॥

समवसरणि थिउ परमजिणु कहइ समत्थं पयत्थहं भेउ ॥ १२ ॥ 10

### 13

कुंथुपमुह पयणाविथसुरवर  
रिसिहि विणासियघोराणंगहं  
अडदालइं जि सहासइं भिक्खुहुं  
छहसहास अवहीपरियाणहं  
ते च्चिय पंचसयाहिय संतहं  
पयारहसहास वैइकिरियहं  
पयडियदुम्महवम्महमारिहि  
एक्कु लक्खु वीसेव सहासइं  
चउलक्खइं देसव्वयधारिहि  
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय  
एक्कवीस तहिं वरिसहुं लक्खइं  
सुरवइरइयइ जणसुहसूइइ

तासु सट्टिसत्तारह गणहर ।  
तेरहसयइं धरियपुव्वंगहं ।  
दुसईए संजुत्तइं सिक्खुहुं ।  
तेत्तिय भणु मणपज्जवणाणहं । 5  
केवलक्खुणिहालणवंतहं ।  
पंच वि वाइहि बहुणयभरियहं ।  
संजमचारिणीहि वरणारिहि ।  
दो लक्खइं सावयहं पयासइ ।  
माणवमाणिणीहि मणहारिहि ।  
सहुं संखाइ जिणिं दें अक्खिय । 10  
विहि वरिसहि विराहियइं ससोक्खइं ।  
महि विहरिवि अरहंतविहइइ ।

घत्ता—गिरिसंमेयहु मेहलहि लंविथकरयलु एक्कु जि मासु ।

जिह सो तिह तणु परिहरिवि भवरु वि संठिउ मुणिहि सहासु ॥१३॥

### 14

जीवेप्पिणु कयतिहुयणहरिसहं  
पहु सावणपुण्णिवहि जणिट्ठहि

जिणु चउरासीलक्खइं वरिसहं ।  
चंदि परिट्ठिइ गंपि धणिट्ठहि ।

३ AP मंतु. ४ AP पहु तुहु ५ A समत्थ.

13 १ AP अडदालसहासइं भिक्खुयाहं. २ A दुइसइसंजुत्तइं. ३ AP परिमाणहं. ४ A केव-  
ल्लिक्खु. ५ A वेकिरियहं, P विकिरियह. ६ A धम्महं वम्मह°. ७ AP संजमधारिणीहिं. ८ A समज्जइं.

12 3 b अणिहणणिहि अविनक्षरानन्तज्ञानाद्याश्रय. 4 a रयतरुसिहि पापवृक्षेभ्य अग्नि ;  
b मति बृहस्पति. S b सव्वाहिउ सर्वाधिक..

13 6 a वइकिरियहं विक्रियर्द्धीनाम्. 7 a दुम्महं दुर्मथ..

14 2 a पुण्णिवहि पूर्णिमायाम्.

णिव्वुउ कम्मपडलपरिमुक्कउ  
 देहपुज्ज किये दससयणेत्ते  
 कलु विरसंतिहिं भंभाभेरिहिं  
 उव्वसिरंभतिलोत्तिमणारिहिं  
 तुंवुरुणारयञ्जुणिझंकारहिं  
 णाणाविहपुप्फाइं व धित्तइं  
 दिण्णइं दीवधूव अपमाणइं  
 दीवु धूमु जो गयणि व लग्गउ  
 जिणतणुसेवइ पंकु पणासइ  
 णविवि णिंसिद्धि भत्तिअणुराणं

अट्टमु धराणिवीदु खाणि दुक्कउ ।  
 करपंजलिघल्लियसयवत्ते ।  
 णच्चंतिहि गोरिहि गंधारिहि । 5  
 सुरकामिणिहि विइण्णवियारहिं ।  
 तेहिं पणवंतहिं जलणकुमारहिं ।  
 सीयलचंदणजलेण व सित्तइं ।  
 णीलीकयअमरंगणजाणहिं ।  
 णाइं हुयासकलंकु विणिग्गउ । 10  
 सच्चउं भासइ माय सरासइ ।  
 जंते जंपिउ सुरसंघाणं ।

घत्ता—भरहि पणट्टउ उद्धरिउ विणिवारेप्पिणु कुसमयकम्मु ॥  
 सेयंसं बहुसेययरु कुंदपुष्पदंतं जिणधम्मु ॥ १४ ॥

इयं महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे सेयंसणिव्वाणगमणं  
 णाम एकूणपण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४९ ॥

॥ सेयंसंजिणचरियं समत्तं ॥

14 १ A णिव्वुइ°. २ P किय. ३ A उव्वसरम°. ४ AP सिहि सधुषिय. ५ AP omit  
 this line and the following. ६ AP add after this: धित्तइ चदणवदणकट्टर, जदि-  
 यइं णारहु अगइं दिट्टइं. ७ AP णील धूमु गयणगणि लग्गउ. ८ AP जिणु तणु°. ९ A णिविहि.  
 १० AP omit this line

1 b णिव्वुइयसयवत्ते °धित्तकम्मत्तेन. 5 b गोरिहि शासनदेवता. 6 b विइण्णवियारहिं इत्तवियारि.  
 13 कुसमयकम्म कुमतानुक्रमम्. 14 बहुसेययरु बहुभयन्तर..

तहि सेयंसहु तित्थि दंढभुयबलदप्पिट्ठं ॥  
णिसुणहि सेणियराय रणु हयकंठतिविट्ठं ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

इह जंबूदीवि वरभरहखेत्ति  
मयमत्तमहिसजुज्झविमदि  
गोउलपयधाराधायपहिइ  
पिच्चंतधण्णसंछण्णसीमि  
जववालिणिरवमोहियकुरांगि  
सरिसरवरजलकल्लोलमालि  
वसुमइमहिलासोहाणिवेसि  
रायगिहणयरि पहु विस्सभूइ

चवलोलिचंदणामोयवंति ।  
गज्जंतगामगोवालसदि ।  
मंथोणयमंथियथद्धदहिइ । 5  
णिरु णियंइणियडसंकिण्णगामि ।  
णवगंधसालिणिवडियविहंगि ।  
सयदलणिलीणभर्सलउलणीलि ।  
कयुदुग्गहणिग्गहि मगहदेसि ।  
तहु लहुयउ भाइ विसाहभूइ । 10

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi —

भास्वानेककलावतोऽस्य च भवेद्यन्नाम तन्मङ्गलं  
सर्वस्यापि गुरुर्वुध कविरथं चक्रे अय च क्रम ।  
राहु, केतुरय द्विषामिति दधत्साम्य ग्रहाणा प्रभुः  
सप्रत्योदयमातनोति भरत सर्वस्य तेजौधिक. ॥ १ ॥

K does not give it anywhere In addition, P has also सया सन्तो वेसो भूसण सुद्धसील etc, which in A is found at the beginning of IL for which see page 130. In addition, P has जग रम्म हम्मं दीवओ चन्दविम्व for which see page 165 of Vol. I. In addition, P has the following stanza —

दीनानाथधन सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लवल्लीवन  
मान्याखेटपुर पुरदरपुरीलीलाहर सुन्दरम् ।  
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्ध विदग्धप्रिय  
केदानीं वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुण्ड्रन्तः कवि. ॥ १ ॥

A gives this stanza at the beginning of LII K does not give it anywhere.

1 १ AP दिढभुय°. २ AP चललवलि°. ३ AP °जुज्झणविमदि. ४ AP मंथाणामंधिइ-थद्धदहिइ. ५ A णियलणियल°. ६ A भसलोलिणीलि.

1 2 हयकंठ° अश्वग्रीव. 3 b चवलालि° चपला अलयो येपु ताहणाश्वन्दनवृद्धा. 4 a जुज्झ वि य म दि युद्धं कारितो म द्दो समूहो यस्मिन्. 7 a जववालिणि° हालिनी.

पढमहु जइणी मृगणंयण भर्ज  
पइरमियइ जइणिइ विस्सणंदि  
सुय जाया वेणिण वि णवजुवाण  
ता राएं ससियरंधवलेदेहु

वीयहु लक्खण णामे मणोज्जं ।  
जणियउ लक्खणइ विसाहणंदि ।  
अच्छंति जाम सुहुं भुंजमाण ।  
गयणयलि पलोइउ सरयमेहु ।

घत्ता—णं खलमित्तसणेहुं सो सहसत्ति विलीणउ ॥

15

उहु संसारु भणंतु चित्ति<sup>3</sup> चवक्किउ राणउ ॥ १ ॥

## 2

जंपइ पहु जिणगुण संभरंतु  
जिहं णट्टउ पवणें एहु मेहु  
होसंति सिद्धिल्ले संधिप्पएस  
होसंति णयण सुहिरूवभंत  
होसंति सुणिच्चवसाय पाय  
तुहुं करहि रज्जु मइं दिण्णु भाय  
ता थिउ संताणि विसाहभूइ  
महि विहवसारु जरतणु गणेवि  
सहुं भव्वणरिंदहं तिहिं सएहिं  
एत्तहि विसाहभूई सुराउ

सत्तंगरज्जसिरि परिहरंतु ।  
णासेसइ तिहु कालेण देहु ।  
होसंति हंसहिमवणण केस ।  
होसंति हत्थ णित्थामवंत ।  
मुहकुहरहु णिग्गेसइ ण वाय । 5  
रक्खेज्जसु णियकुलकित्तिछाय ।  
णिग्गिंवि गउ काणणु विस्सभूइ ।  
जोईसरु सिरिहरु गुरु थुणेवि ।  
थिउ अप्पउ महिवि महव्वएहिं ।  
सो विस्सणंदि जुवराउ जाउ । 10

घत्ता—णंदणवणि कीलंतु हर्णइ मुणालें घरिणिउ ॥

पसरियदीहकरग्गु मत्तउ णं करि करिणिउ ॥ २ ॥

## 3

काहिं वि मयरंदे करउ तिलउ  
क वि सिंचियं जलगांहुसएण

काहिं वि वेल्लीहरि देइ णिलउ ।  
क वि जोर्येइ णवजोव्वणमएण ।

७ AP सिगणयण. ८ P भज्जा. ९ P मणोज्जा. १० A मयियववदेहु. ११ A पलोउ. १२ P मिणेहु. १३ A चित्त चमक्किउ.

2 १ AP जिम. २ P पमणे. ३ A मिथिलि. ४ A णिगेउ. ५ A णिगवि. ६ A डिउ. ७ A छेदि विगाभूई सुगउ P एत्तहि विसाहभूई सुगउ. ८ P लक्खण. ९ AP तिरि णं.

3 १ A तिरि णि. २ AP निचउ. ३ AP जोरय.

11 ८ पढमहु जइणी प्रथमत्त विनाभूतेभंते उरंते. 16 न वक्किउ संसारुदल्लि.

2 १ ८ मयियववदेहु मयियववदेहु; ६ एहु मयियववदेहु मयियववदेहु. १० सुहिरूवभंत सुहिरूवभंत; ११ सिद्धिल्ले सिद्धिल्ले; १२ णियकुलकित्तिछाय णियकुलकित्तिछाय; १३ णिग्गिंवि णिग्गिंवि; १४ गुरु थुणेवि गुरु थुणेवि; १५ महिवि महिवि; १६ महव्वएहिं महव्वएहिं.

3 १ १ मयियववदेहु मयियववदेहु; २ वेल्लीहरि वेल्लीहरि.

काहि वि कामु व कुसुमोहु धिवइ  
 काहि वि करेलीलाकमलु हरइ  
 छाइयससिसूरमऊहमालि  
 दीसइ काइ वि कररुह फुरंतु  
 पारोहइ क वि दोलायमाण  
 क वि वंधिवि मोत्तियदामएण  
 साहाररसिल्लउं कणयवत्तु

क वि पणयकुविय अणुणंतु णवइ ।  
 क वि लेवि सरोवरणीरि तरइ ।  
 काहि वि ल्हिक्कइ णीलइ तमालि । 5  
 काइ वि करि धरियउ दर हसंतु ।  
 अवलोइय वडजक्खणिसमाण ।  
 हय कुवलएण कयकामएण ।  
 काहि वि तरुपल्लवु दिण्णु रत्तु ।

घत्ता — णं वणि णल्लिणि दुरेहु अच्छइ णिच्चं पइड्डउ ॥

10

इय सो तेत्थु रवंतु लक्खणजाएं दिड्डउ ॥ ३ ॥

## 4

तओ तं णियच्छेवि रायंगएणं  
 घरं गंपि सो गोमिणीमाणणेणं  
 सया चायसंतोसियाणेयवंदी  
 वैणं देहि तं मज्झ रायाहिराया  
 ण देमि त्ति मा जंप णिब्भिण्णकण्णं  
 णरिदेण उत्तं वैणं देमि पूणं  
 दुमंतो रमंतो मयच्छीण मारो  
 खणेणय पत्तो समित्तो णवंतो  
 महं भाउणा णेहवासेण दिण्णं  
 कुलीणा तुमं चेय मण्णंति सामिं  
 अहं जामि पच्चंतवासाइं घेत्तुं  
 तओ जंपियं तेण तं मज्झ पुज्जो  
 थिराणं कराणं पयासेमि सत्ति

वणुस्साहिलासं गहीरं गएणं ।  
 पिऊ पत्थिओ पुण्णचंदाणणेणं ।  
 जहिं कीलए णिच्चसो विस्सणंदी ।  
 महामंतिसेणावईवंदपाया ।  
 अहं देव गच्छामि देसंतमण्णं । 5  
 तुमं जाहि मा पुत्त उव्विग्गठाणं ।  
 पुणो तेण कोक्काविओ सो कुमारो ।  
 पिउव्वेण संबोहिओ णायवंतो ।  
 तुमं पत्थिवो तुज्झ रज्जं रवण्णं ।  
 तुमं थाहि सीहासंणे भुंज भूमि । 10  
 वल्लुहामथामे रिऊं पुत्त हंतुं ।  
 तुमं देव तायाउ आराहणिज्जो ।  
 अहं जामि गेण्हामि कूरारिवित्तिं ।

घत्ता—एवं भणेवि कुमारु अप्पउं विणएं भूसिवि ॥

गउ पच्चंतनृवाहं उवरि जांव आरूसिवि ॥ ४ ॥

15

४ A करि लील°. ५ AP लेइ. ६ A णल्लिणदुरेहु. ७ P णिच्च.

4 १ A माणिणीमाणणेण. २ A वणे देहि. ३ A वर देवि पूणं. ४ AP सिंहासणे. ५ A रिउ पुत्त. ६ AP णिवाह.

3 a कामुव मदन इव. 5 a छाइय° आच्छादित. 7 a पारोहइ वटवृक्षादौ. 8 b कयकामएण कृतस्नेहेन. 9 a साहाररसिल्लउकणयवत्तु आम्रमञ्जरीयुक्त कर्णाभरणम्. 11 लक्खणजाए लक्ष्मणापुत्रेण विशाखनन्दिना.

4 1 a रायंगएण राजपुत्रेण, b वणुस्साहिलास वनाभिलाषम्. 2 b पिऊ पिता. 3 a चाय° त्यागः. 5 a णिब्भिण्णकण्णं कर्णस्फोटनम्. 8 b पिउव्वेण पितृव्येन. 9 a णेहवासेण स्नेहवशेन.

## 5

ता पहुणा पणयविमद्दणासु  
 पइसरहुं ण देतुं कयंतलीलु  
 संगाममहोवहिभीममयरु  
 दद्धाहरद्दु रत्तंतणेत्तु  
 अइसंधिवि महुं वणु लइउं जेव  
 वीसासिवि किं हम्मइ पसुत्तु  
 लक्खणहि सूणु भयभावणडिउ  
 महिवलयविसद्वणतडयंडंतु  
 विवरंतसप्पचोभिलललंतु  
 उत्तुंगु अहंगु सुदुण्णिारिक्खु  
 अच्छोडइ किर महिवीढि जांव  
 भइ पवणगमणु मग्गाणुलग्गु

दिण्णउं णंदणवणु णंदणासु ।  
 तें मारिउ सुहिउज्जाणवालु ।  
 आयण्णिवि पडियाइयउ इयरु ।  
 भासइ आरूसिवि जइणिपुत्तु ।  
 थिरु एंवहिं भायर थाहि तेंव । 5  
 किं पित्तिणण ववसिउं अजुत्तु ।  
 तं पेच्छिवि दुट्ठु कविट्ठि चडिउ ।  
 भजंतहिं मूलहिं कडयडंतु ।  
 उडुंतहिं पक्खिहिं चलवलंतु ।  
 उम्मूलिउ रिउणा समउं रुक्खु । 10  
 णासंतु दिट्ठु पडिवक्खु तांव ।  
 धरणासइ चलपसरियकरग्गु ।

यत्ता—पुणरावि दुग्गु भणेवि आसंधिवि थिउ वइरिउ ॥  
 तेण मुट्ठिघाएण खंभु सिलामउ चूरिउ ॥ ५ ॥

## 6

पुणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु  
 णीसासंवेयवड्हियकिलेसु  
 अवलोइवि भाइ पलायमाणु  
 पभणइ मा णासहि आउ आउ  
 जुवरायहु कहइ विसाहभूइ  
 इहु जाउ जाउ किं आयणण  
 सिलफोडणभुयमाहप्पदप्प  
 जइणिददिकख महुं सरणु अज्जु

वणु मेळ्ठिवि हरिणु व धावमाणु ।  
 णीसत्थहत्थ णिम्मुककेसु ।  
 करुणारसि थक्कउ सुहडभाणु ।  
 तहि अवसरि पत्तउ तहिं जि राउ ।  
 लइ लइ सुंदर तेरी विहइ । 5  
 किं कुच्छियपुत्तं जायणण ।  
 अइसंधिओ सि महुं समहि वणु ।  
 परिपालहि तुहुं अप्पणउ रज्जु ।

5 १ AP देति. २ A ता मारिउ. ३ AP दद्धाहरोद्दु. ४ A अण्णिवि. ५ A तेंव. 6  
 ६ A चोभउ. ७ A उत्तंग.

6 १ A णु. २ AP णीसानु. ३ AP पत्तु. ४ A मग्गाणु.

5 1 a पणयविमद्दणासु स्तोत्रभाष्यम्. 2 a पइसरहुं प्रोवा कांम्. 3 a पडियाइयउ प्रोवा कांम्. 4 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 5 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 6 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 7 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 8 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 9 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्. 10 a पक्खिहिं चडिउ प्रोवा कांम्.

6 1 a परिगलियमाणु नक्षत्रम्. 2 a णीसानुसंवेय विभाष्यम्. 3 a पलायमाणु विभाष्यम्. 4 a पभणइ विभाष्यम्. 5 a जाउ जाउ विभाष्यम्. 6 a आयणण विभाष्यम्. 7 a सिलफोडण विभाष्यम्. 8 a भुयमाहप्पदप्प विभाष्यम्. 9 a जइणिददिकख विभाष्यम्. 10 a महुं सरणु विभाष्यम्.

घत्ता—वधववैरकरीहि णिविण्णउ नृवरिद्धिहि ॥

पुत्त पडिच्छहि पट्टु हँउं लग्गामि तवसिद्धिहि ॥ ६ ॥ 10

## 7

खग्गे मेहें किं णिज्जलेण  
मेहें कामें किं णिद्वेण  
कव्वे णडेण किं णीरसेण  
दव्वे भव्वे किं णिद्वएण  
तोणे कणिसें किं णिक्कणेण  
हउं णिग्गुणु अवरु वि मज्झु तणउ  
वियसियपंकयसंणिहँमुहेण  
हो जोव्वणेण हो उववणेण  
हो पट्टणेण सुहवट्टणेण  
सँहुं सयणहि जहि संभवइ वइरु  
महु जणणे दिण्णी तुज्जु पुहइ  
मइ पुणु जाएवउं कहि वि तेत्थु

तरुणा सरेण किं णिप्फलेण ।  
मुणिणा कुलेण किं णित्तवेण ।  
रज्जे भोज्जे किं परवसेण ।  
धम्मं राएं किं णिद्वएण ।  
चावें पुरिसें किं णिग्गुणेण । 5  
कवडेण जेहि तुह भग्गु पणउ ।  
पडिजंपिउं जइणीतणुरुहेण ।  
हो परियणेण हो हो धणेण ।  
हो सीमंतिणिर्यणवट्टणेण ।  
पित्तिय तहिं ण वसमि हउं वि सुइरु 10  
जो रुच्चइ सो तुहं करहि नृवँइ ।  
णिवसंति दियंवर विझि जेत्यु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरिउ ॥

तो वि परायइ कज्जि पुत्तु रज्जि वइसारिउ ॥ ७ ॥

## 8

वइसणइ वइट्टु विसाहणंदि  
संभूइ सूरि पणविवि पवित्तु  
चिरु कालु चरेप्पिणु चारु चरणु

सविसाहभूइ गउ विस्सणंदि ।  
दोहि वि पडिवण्णउं रिसिचरित्तु ।  
किउ पित्तिएण संणासमरणु ।

५ P °वइरकरीहे णिविण्णउ. ६ AP णिवरिद्धिहि. ७ K हहउ.

7 १ A पेभे, P पेमे. २ P omits किं. ३ A कवडेण जेण. ४ A °संमुहमुहेण. ५ P थण-  
थट्टणेण. ६ A महु सयणहिं जं सभवइ वइरु. ७ AP णिवइ.

8 १ A वइसणे, P वइसेणइ. २ A पणवेवि चित्तु.

9 वंधववइरकरीहि वान्धववैरजनिकया.

7 2 a मेहें मेधेन, णिद्वेण जल्लशुक्रयो. क्षरणरहितेन, b णित्तवेण तपोरहितेन. 4 a णिद्व-  
एण व्ययरहितेन व्रतरहितेन च. 5 a णिक्कणेण वाणरहितेन धान्वरहितेन च. 9 a नुरवट्टणेण तुग्गि-  
चूर्णेन. 10 b पित्तिय हे पित्तव्य. 12 b विझि विन्ध्यवने. 13 अवहेरिउ अनाहन.

8 1 a वइसणइ राज्ये.



उप्पण्णु महासुक्काहिहाणि  
सहभूयभूरिभूसाविहाणि  
परमंडलवइवाहिणिहि छइउ  
लक्खणणंदेणु हयसिरिविलासु  
अणवरयवुद्धिसंधियमणेण

मणिमयविमाणि धयधुव्वमाणि ।  
सोलहसमुद्दीवियपमाणि । ७  
एत्तहि वि रायगिहणयरु लइउ ।  
थिउ महुरहि जाइवि कयणिवासु ।  
जीवइ कासु वि मंतित्तणेण ।

घत्ता—एत्थु ण किज्जइ दप्पु लच्छि ण कासु वि सासैय ॥  
जे गय गयखंधेहिं ते पुणुं पायहिं गर्य ॥ ८ ॥

10

## 9

मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि  
कयपक्खमासदीहोववासु  
तं पुरवरु सो चरियहि पइहु  
णिट्ठाणिट्ठिउ जइवरवरिहु  
वेसासउहयलि परिट्ठिएण  
उवहसिउ साहु पत्थिवचरेण  
चिरु एंवहिं गाइविहट्ठियंगु  
णिग्गुण णिग्घिण दुज्जण सगाव

मज्झणहवेलि खरकिरणजालि ।  
कंकालसेसु गयखहिरमासु ।  
अहिणवपसूयगिट्ठिइ णिहट्ठु ।  
णिवडंतु तेण पिसुणेण दिहु ।  
वहुजम्मणमरणुकंठिएण । ७  
पइं रुक्खं खंभ भग्गा करेण ।  
पडिओ सि विहंडियमाणसिंघु ।  
खद्धो सि मज्झ पावेण पाव ।

घत्ता—तं णिसुणिवि सवणेण वद्धउं रोसणियाणउं ॥

आगामिणि भवि तुज्जु हसियहु करमि समाणउं ॥ ९ ॥

10

## 10

कयपच्चक्खाणपयासणेण  
जहिं तायभाउ जायउ अदीणु

तांवहिं वि मरिवि संणासणेण ।  
एहु वि दूसहतवचरणखीणु ।

३ A णंदण. ४ P सासया. ५ AP ते पुणुरवि. ६ P गवा.

9 १ AP णिहिहु. २ रक खंभ. ३ AP समणेण.

4 b धयधुव्व माणि ध्वजै. कम्ममाने. 5 a सहभूय<sup>२</sup> सहोत्पन्नानि. 6 a परमंडलवइवाहिणिहि शत्रुसेनया. 8 मंतित्तणेण मन्त्रित्वेन.

9 3 b णि ट्ठिइ वेत्वा, णिहट्ठु निधृष्टः पातित . 4 a णि ट्ठा णि ट्ठिउ तपश्चरणेन शीण ; 6 पिसुणेण दुष्टेन विद्याखनन्दिना. 5 a वेसासउहयलि वेत्त्यासौधतले. 6 a पत्थिवचरेण पार्थिव-चरेण भूतकाले राजा इदानीं तु मन्त्रिणा. 7 b विहंडियमाणसिंघु विस्रण्डितगर्वशिखर. 9 सवणेण मुनिना. 10 समाणउं सदयं फलम्.

10 2 a तायभाउ तातभ्राना पितृव्य, अदीणु उदार.

तहि दंहमइ कप्पि मणोहिरामि  
उप्पण्णउ सल्लहियंतरंगु  
ते विण्णि वि सुरवर वद्धणेह  
ते विण्णि वि णिच्चु जि सह वसंति  
ते विण्णि वि णं तिव्वंसुजोय  
ते विण्णि वि दिवि अच्चंति जांव  
णिव्वेएं लइउ विसाहणंदि  
माणिकमऊहोहामियक्कि

दहछहजलणिहिवद्धाउधामि ।  
कम्मेण ण किज्जइ कासु भंगु ।  
ते विण्णि वि लायण्णंवुमेह । 5  
ते विण्णि वि तारतुसारकंति ।  
ते विण्णि वि कयकीलाविणोय ।  
एत्तहि वि अवरु संभवइ तांव ।  
जिणतवतावें तावेवि वौदि ।  
संभूयउ सो वि महंतसुक्कि । 10

घत्ता—एयहं दोहं वि ताहं देवहं वियलियहरिसइं ॥

थक्कउ आउपमाणु जइयहुं कइवयवरिसइं ॥ १० ॥

## 11

तइयहुं वेयह्वारूढियाहि  
अलयाणयरिहि पहु मोरगीउ  
देव वि रणरंगि तसंति जासु  
जो चिरु विसाहणंदि त्ति भणिउ  
जाएण तेण णवजोव्वणेण  
पडिवक्खलक्खवलदुम्महेण ।  
अहिवलयणिलयकंपावणेण  
खयरिदविंदकंदावणेण  
सरणागयजणपविपंजरेण  
काणीणदीणकुलदिहिकरेण

विज्जाहरउत्तरसेढियाहि ।  
थिरथोरवाहु सद्दूलगीउ ।  
णीलंजणपह महपवि तासु ।  
सो ताइ पुत्तु हरिगीउ जणिउ ।  
करलालियसिरिरामाथणेण । 5

घत्ता—आसग्गीवें तेण रिउ हय हरिणा इव करि ॥

असिधारइ तासिवि गहिय तिखंड वसुंधरि ॥ ११ ॥

## 12

उग्गयपयावरवियरकरालु  
विद्धंसियवरसुहडावलेवु

वसुमइ भुंजंतु पईहु कालु ।  
परिवद्धिउ सो पडिवासुएवु ।

10 १ AP दहमि कप्पि सुमणो°. २ A सल्लहयतरगु. ३ AP एत्तह वि.

11 १ P वेज्जाहर°. २ AP add after this पलयाणलजालादुस्सहेण. ३ A करिणा विये.

12 १ AP जा वद्धिउ.

3 b दहछहजलणिहि° षोडशसागरोपमाणि. 4 a सल्लहियतरगु सशल्यहृदय, b कम्मेण कर्मो-  
दयेण. 7 a तिव्वंसुजोय सूर्याचन्द्रमसाविव. 10 b महंतसुक्कि महाशुक्के

11 2 a मोरगीउ मयूरग्रीवनामा. 4 b हरिगीउ अश्वग्रीव. 8 a °कंदावणेण °क्रन्दन-  
कारिणा. 9 b दाणो ल्लियकरेण मदार्द्रशुण्डादण्डेन, दानार्द्रकरेण च. 11 हरिणा सिंहेन.

12 1 b पईहु कालु दीर्घ कालम् 2 a सुहडावलेवु सुभयानां गर्व, b पडिवासुएवु  
प्रतिवासुदेवः.

तित्थयरपवित्थियतित्थणिरहि  
 वहुरमणिरमणसंपण्णाविसइ  
 पोयणपुरु सुरपुरसोहहारि  
 भुवणेक्कसीहु सव्वोवयारि  
 तहु पढमदेवि जयवइ पसण्ण  
 अण्णेक्क चारु वित्थिण्णरमण  
 दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर  
 णिवडवि अणुहुंजियसुहसयाउ  
 पित्थियभत्तिज्जय वद्धपणय  
 जइवइहि जाउ हिमंसियसरीरु  
 णारित्तणगुणघडियहि सईहि  
 जयवंतु एक्कु तहिं विजउ गणिउं

ता पविउलजंबूदीवभरहि ।  
 परिपालियधम्मि सुरम्मि विसइ ।  
 तहि वसइ णराहिउ दंडधारि । 5  
 णामेण पयावइ णिज्जियारि ।  
 णं विवरविणिग्गय णायकण्ण ।  
 मृगैणयण मृगावइ मंदगमण ।  
 णिसि सिविणइ दिट्ठा चंदसूर ।  
 ते दो वि देव देवासयाउ । 10  
 संजाया सुंदर ताहं तणय ।  
 वल्लेहहु वालु णं छुद्धहीरु ।  
 हुउ कण्हु जि कण्हु मृगावइहि ।  
 वीयउ पुणु विट्ठु तिविट्ठु भण्णिउ ।

घत्ता—वेण्णि वि सह खेलंति भुयवल्लूसियंदिग्गय ॥

15

भरहदियंतपयासि पुष्पयंत णं उग्गय ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए  
 महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे वलएववासुदेवउप्पत्ती  
 णाम पण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५० ॥

३ AP मिगणयण मिगा°. ४ A हिमसय°. ५ AP वलएउ. ६ A छुद्धहीरु, P छुट्टु हीरु, ७ AP मिगावइहि. ८ P विजउ. ९ A भण्णिउ. १० A गणिउ. ११ P °भूसिय°. १२ AP पुष्पयंत.

3 a °णिरहि निप्पापे. 7 b णायकण्ण नागकन्या. 9 a तिमिरजूर तिमिरनाशकौ. 10 b देवासयाउ देवविमानात्. 11 a पित्थियभत्तिज्जय पितृव्यभ्रातृव्यौ. 12 a जइवइहि जयावत्याम्, b छुद्धहीरु वालचन्द्र.. 13 b कण्हु कृष्णवर्णः; कण्हु वासुदेव.. 14 a विजउ विजयनामा बलभद्रः; b विट्ठु तिविट्ठु विष्णु त्रिष्टुष्टवासुदेवः.

माणुसइं गिलंतु भुयवलविक्रमसारें ॥  
पंचाणणु भीसु मारिउ रायकुमारें ॥ ध्रुवकं ॥

1

पायणिवायपर्णावियमहियल  
पंकयकुलिसकलसलक्खणधर  
पोरिसपवररयणरयणायर  
जायासीधणुतणु गुणमणिणिहि  
धवल कसण सविणयपीणियजण  
कायकंतिधवलियकालियणह  
तेहि विहिहि<sup>१</sup> सो सहइ महीसरु  
जांवच्छइ हरिवीढि णिसणणउ  
सो पभणइ चंगउ पालियपय  
सेहीरउ रुंजंतुं पदुक्कइ  
कंदमाणु खयभयवेविरमणु  
तं णिसुणिवि पडिलवइ पयावइ

पविमलकमलालंकियउरयल ।  
रायहंससेवियं णं सुरसर ।  
सम वड्ढिय ते विणिण वि भायर । 5  
असिजालाकरालखलकुलसिहि ।  
णावइ सरयसमय सावणघण ।  
णं गंगाणइ जउंणा जलवह ।  
विहिं पक्खहि णं पुण्णिमवासरु ।  
देसमहंतउ ता अवइणणउ । 10  
भो णिवमउडकोडिलालियपय ।  
माणुसु चित्तालिहिउ ण चुक्कइ ।  
देवदेव खद्धउ सयलु वि जणु ।  
भो भो मंति चारु तेरी मइ ।

घत्ता—जो ण करइ राउ पयहि रक्ख सो केहउ ॥

15

खणि णासिवि जाए संझाराणं जेहउ ॥ १ ॥

2

जो गोवालु गाई णउ पालइ  
इट्टु महेली जो णउ रक्खइ  
जो मालारु वेळि णउ पोसइ

सो जीवंतु दुद्धु ण णिहालइ ।  
सुरयसोक्खु सो केहि किर चक्खइ ।  
सो सुफुल्लु फलु केव लहेसइ ।

A has, at the beginning of this Samdhi the stanza जग रम्मं हम्म etc. for which see foot-note on page 139. P and K do not give this stanza here

1 १ AP °पणामिय°. २ AP ण सेविय सरवर. ३ A असिधाराकराल°. ४ A जवणा.  
५ AP विहिं मि. ६ A महीहरु. ७ भुजतु. ८ P पदुक्कउ. ९ P चुक्कउ.

2 १ P गोवि. २ AP किर कहिं. ३ P मालायारु. ४ P सफुल्लु.

1 2 राय कु मारें राजकुमारेण लघुना. 3 a पायणिवाय° पादाघान., b °कमलालकिय° लक्ष्म्या अलंकृतम्. 4 a °कुलिस° वज्रम्, b सुरसर मानससरोवरम्. 5 a पोरिसपवररयण° पौरुष-मेव प्रधानरत्नम्. 8 a °धवलिय° धवलितं बलदेवेण, °कालिय° कालित वासुदेवेन. 10 b देसमहं-तउ मन्त्री. 12 a सेहीरउ सिंह.. 13 a °वेविरमणु कम्पमानचित्त.. 14 a पयावइ प्रजापति राजा.

2 2 a महेली स्त्री, b सुरयसोक्खु सुरतसुखम्. 3 a मालारु मालाकारः.

जो कइ ण करइ मणहारिणि कह  
जो जइ संजर्मजत्त ण याणइ  
जो पहु पयहि पीड णउ फेडइ  
जांवि रसंतु सीहु सइं मारवि  
एवं भणेवि लेवि असि दारुणु  
ता पंजलियरु विजउ पजंपइ  
दे आपसु देव हउं गच्छमि  
पेसिउ जणणं चलिउ हलहरु  
णरकवालकंकालणिरंतरु

सो चितंतु करइ अण्पह वह ।  
सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ । 5  
सो अण्पणु अण्पाणउं पांडइ ।  
देसहु पडिय मारि णीसारवि ।  
जावुद्धिउ णरिंदु कोवारुणु ।  
पइं कुट्टेण ताय जउं कंपइ ।  
अज्जु मइंदहु पलउ णियच्छमि । 10  
तं सहुं चलिउ भाइ दामोयरु ।  
पत्ता केसरिगिरिकुहरंतरु ।

घत्ता—भडरोलहु सीहु कुंदच्छवि उद्धाडउ ॥

भाइहिं आवंतु ण कयंतजसु जोइउ ॥ २ ॥

## 3

तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलो  
रत्तसित्तकेसरसडालओ  
महिसमणुयपलकवलभोयणो  
कुडिल्लुलियलंगूलचिंधओ  
कंठरावणिहलियदिक्करी  
वहुवलक्खमियवीरविक्रमं  
तां व तेण लहुएण भाइणा  
विसतमालकालिंदिकंतिणां  
मयवइस्स धरियं वला वलं  
उच्छलंतदंतावलीसियं

पयविलग्गमुत्ताहलुजलो ।  
सिसुमियंकदाढाकरालओ ।  
सिहिफुलिंगपिगलविलोयणो ।  
णासगहियपडिसुहडगंधओ । 5  
एरिसो सरोसेण केसरी ।  
जांव देइ किर सीरिणो कमं ।  
लोयजीवदाणेकदाइणा ।  
करंजुवं पि वामेण पाणिणा ।  
वाँलिविरोहिणो कस्स मंगलं ।  
दाहिणेण हत्थेण णिहयं । 10

५ A अण्पव्ह, P अण्पाव्ह. ६ A संजमु जुत्ति, P संजमजत्ति. ७ A फेडइ. ८ A सो वि रसंतु.  
९ A पयंपइ १० AP जमु. ११ A कयतजमु, P कयंतु जमु. १२ P जोविउ.

3 १ AP बहुवलक्कमिय°. २ AP add after this. वाहुदंडवल्लुलिय (A तुडिय) दंतिणा,  
कररुहसुपविरड्यसुवलयं, वामएण चल (A वल) चरणजुयलयं, सुहडसंगरुवूढमाणिणा. ३ AP कर-  
जुयं. ४ A मइवइस्स. ५ AP वलविरोहिणो.

4 a कइ कविः. 5 a संजमजत्त संयमवात्ता. 6 a पयहि प्रजायाः. 7 a जां वि यामि गच्छामि.  
8 b को वारुणु कोपारुण. 9 b जउं यम.. 10 b पलउ प्रलयम्. 13 भडरोलहु योधाना कोलाहलेन.  
14 कयंतजसु कृतान्तस्य यमस्य यत्नः.

3 1 a °णिक्ख वियमयगलो °क्षपितगज, b पयविलग्ग° पादल्लानि. 2 a °सडालओ  
सटायुक्त. b सि सु मियंक° वालचन्द्र. 5 a °दिक्करी °दिशागजः. 6 b सीरिणो कमं वलभद्रस्य उपरि  
पदम्. 7 a लहुएण भाइणा त्रिपुष्टेन. 8 a °कालिंदि° यमुना. 9 a मयवइस्स मृगपते. सिंहस्य;  
वला वलात्.

ताडिओ मुहे पाडिओ हरी  
माहवेण कयणिवविदोहओ

संसिओ महीसेहिं सो हरी ।  
दहूदेहिदेहंधिवो हँओ ।

घत्ता—जो पयसंताउ पलयसिहिं व्व पलित्तउ ॥

सो णिहँउ मयारि लोहियसलिलें सित्तउ ॥ ३ ॥

4

करतलप्पचूरियहुंघोदुइ  
सुरसीमंतिणिकामुक्कोयणु  
आया ते तं पुणरवि पोयणु  
पयहिं पडंतैवऊहिय ताएं  
पुणु आउच्छिउ दाणववइरिउं  
तं णिसुणेवि तेण अवगणिणउं  
गस्यउ सगुणपसंसँइ लज्जइ  
एवं ताहं बहुसंपयसारा  
तांवेकहिं दिणि परमणहारउ  
कहइ णरिंदहु विणु आयासँ  
कंठयकडयमउडकुंडलघरु  
वारवार महं वयणु णिरिक्खइ

णियवल्लु कसिवि सीहकसवदुइ ।  
लहिवि विजयलच्छिहि अवलोयणु ।  
णं ससहर दिणयर गयणंगणु ।  
दोणिण मेह णं संझाराणं ।  
किह केसरिकिसोरु पइं मारिउ । 5  
णाविउं सीसु ण अप्पउ वणिणउ ।  
ऊणउ गुणथुइमइरइ मज्जइ ।  
जंति दिवह सुमणोरहगारा ।  
कंचणवेत्तपाणि पडिहारउ ।  
आयउ पक्कु पुरिसु आयासँ । 10  
ण वियाणमि किं सुरु किं णहयरु ।  
तुह कर्मकमलालोयणु कंणइ ।

घत्ता—जइ अवसरु अत्थि ताँ सो पइसारिज्जइ ॥

जं भासइ किं पि तं णरेस णिसुणिज्जइ ॥ ४ ॥

5

महिणाहेण उच्चु पइसारहि  
ता कणइहँ आणिवि दाविउ  
तहु पणवंतहु णियडउ आसणु

पुरिसु संसामिकज्जरहसाराणि ।  
खयरु णवंतु अउच्चु विताविउ ।  
दरिसिउं मणिगणकिरणुभासणु ।

6 AP विदोहओ. 7 A हुओ. 8 AP णिहय.

4 १ A °दुओदुइ. २ A सजयलच्छिहि. ३ A पडंत विजोहिय; P पडंत निगूहिय; J° अव-  
गूहिय आलिङ्गितौ. ४ AP °वेरिउ. ५ A °पसंमण लज्जइ. 6 A कयकमला'. 7 P ती.

5 १ AP सुसामि°.

11 b हरी त्रिपुत्रो वासुदेव. 12 a माहवेण त्रिपुत्रेण, b दहूदेहिदेहंधिवो दग्धेहिना देह एव  
वृक्षः. 13 पयसंताउ प्रजानां संतापः; पलित्तउ प्रदीप्तः.

4 1 a °तलप्प प्रहारः, °दुओदुइ °चूरिणवयणुणे. b सीहकसवदुइ मिह एव सस-  
स्तस्मिन्. 4 a अवऊहिय अवगूढी आलिङ्गितौ. 5 a आउच्छिउ पुष्टः. 10 a विणुआयासँ नेतेन  
विना b आयासे आक्रान्तेन.

5 1 b °कजरहसारहि °कायंमनिर्याहकः. 2 a कणइहँ प्रतीकं. 6 उउच्चु उच्चं.

भूगोयरहुं गयणु कहिं गोयरु  
संताणागयपणयपयासउ

इय चितिवि णरणाहिं सायरु ।  
तासु जि हत्थि दिण्णु संदेसउ ।

घत्ता—खग सुर सिज्झंति कामधेणु घरि दुब्भइ ॥  
जं दूरु दुसज्जु तं जगि पुण्णं लब्भइ ॥ ८ ॥

10

## 9

इंददूयवयणइं आयणिवि  
सहुं तणपं तणयाइ पसण्णइ  
उद्धचलंतचमरवित्थारं  
ओसारियरवियरसंताणहिं  
महुरसवसरुंणुंरुंठियमहुयरि  
मंदमंदमायंदावलिघणि  
जायवेयजडि एक्कहि वासरि  
जिणपयपंकयपणवियसीसहु  
आयउ इट्टु सुट्टु उक्कंठिउ  
पहु मंडलियणिसेविउ चल्लिउ  
अवरोप्परहुं वे वि गय संमुह  
मिलिय वे वि दीहरपसरियकर

बंधुसणेहु सहियवइ मणिवि ।  
अहिणवमुग्गमणोहरवण्णइ ।  
विहवगहीरं सहुं परिवारं ।  
आवेप्पिणु विमाणजंपाणहि ।  
कीरकुररसिहिपियमाहविसरि । 5  
पोयणपुरवाहिरणंदणवणि ।  
थिउ विज्जापहावविरइयघरि ।  
इंदं जाइवि कहिउं महीसहु ।  
तं णिसुंणिवि सहुं सुयहिं ण संठिउ ।  
इयरेण वि खगदप्पु पमेह्लिउ । 10  
णाइ तरंगिणिणाह सुहारुह ।  
वेण्णि वि सज्जण णं दिसकुंजर ।

घत्ता—णियजणणविइण्णु पारियाणिवि भूभंगउं ॥

रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगउं ॥ ९ ॥

## 10

हरिवलेहिं ससुरउ जयकारिउ  
भुयभूसणकरमंजरिपिंगिउं  
हरिसंसुयजलेहिं सांसित्तउ

तेण सिणेहसाहि वट्टारिउ ।  
सालउ गाढंगाडु आलिगिउ ।  
सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तउ ।

४ P खग सुर.

9 १ A °मगमणोहर°. २ A रणुंरुंठियमहुवरि; P रणुंरुंठिय°. ३ A णिसुणि सहुं.

10 १ AP सणेह°. २ A °पिंगउ. ३ AP गाडु गाडु.

7 b सा यरु सादरम्. 10 दुसज्जु दु साध्यम्.

9 1 a इंददूय° इन्द्रनाम्नो दूतस्य, b स हि य व इ स्वचित्ते. 4 a °र वियरसताणहि सर्वं  
किरणसमूहै. 5 a महुरसवस° मकरन्दास्वादनवगेन, b °पियमाहवि° कोकिला. 7 a जायवेय-  
जडि ज्वलनजटी. 8 b इंदे इन्द्रनाम्ना दूतेन. 10 b इयरेण ज्वलनजटिना. 11 b सुहारुह चन्द्र.  
13 णियजणणविइण्णु पितृकृतम्, भूभंगउं भ्रमङ्ग.

10 1 b सिणेहसाहि स्नेहवृद्धः. 2 b सालउ इयाल. अर्ककीर्ति. 3 a हरिससुयं हं  
श्रुजलैः.

दिणयरु तवइ खवइ जिणु कम्मइं  
सायरु गिलइ सयलसरिसोत्तइं  
भंजणसत्ति महंत समीरहु  
एत्थु ण कि पि वप्प कोऊहलु  
एवं सीहु को करहि णिपीलइ  
तां जाणहुं होसइ पुण्णाहिउ  
आसग्गीवजीवउड्डावणु

वम्महु सलइ वाणहि वम्मइं ।  
ससहरु पीणइ जणवयणेत्तइं । 5  
वलु अइअतुलु तिविड्डकुमारहु ।  
णहंचवेडचप्पियकुंजरकुलु ।  
कोडिसिलायलु जइ संचालइ ।  
हरि हरिवंदियणाणिहि साहिउ ।  
धुवुं माणेसइ तरुणिहि जोव्वणु । 10

वत्ता—महियर खयरिद एहु मंतु विरएप्पिणु ॥

जहि तं सिंलरण्णु तहि गय कणहु लएप्पिणु ॥ १० ॥

## 11

णिद्ध अद्धजोयणचित्थिण्णी  
जिणपयसेवा इव फलभाइणि  
पुण्ण पवित्त पावखयगारी  
कहि वि दंतिदंतग्गहि खंडिय  
कहिं वि पलिप्पइ जालावलणं  
कहिं वि जक्खिपयघुसिणे लिप्पइ  
कहिं वि णीलगलणियरहि णीलिय  
कहि वि फुरइ घणतिमिरविमुक्कहि  
कहिं वि भमियमृगणाहिमओहं  
कहि वि वियंभिय सुइसुहगांरव  
सा परियंचेप्पिणु अंचेप्पिणु

णाणावणतरुवरसंछण्णी ।  
वहुमुणिलक्खमोक्खसुहदाइणि ।  
दीसइ सिल णं सिद्धिभडारी ।  
सीहणहरचुयमोत्तियमंडिय ।  
किडेदाढाणिहसणरुहजलणं । 5  
चंदकंतजलधारइ धुप्पइ ।  
वर्णयवधूमंधारं मइलिय ।  
सप्पफडाकडप्पमाणिक्कहि ।  
सुरहिय सेविय भमरसमूहं ।  
किणरगेयवेणुवीणांरव । 10  
सिद्धसेस राएहि लएप्पिणु ।

वत्ता—पुणु भणिउ अणंतु पेक्खहुं सिल उण्णावहि ॥

हयकंठकयंतु होसि ण होसि व दावहि ॥ ११ ॥

४ A तहो चवेड°. ५ AP तो. ६ AP °णाणहि. ७ AP धुवु. ८ P सिलरम्म.

11- १ AP अद्धजोयण° २ A फलभाविणि, P फलभाविणि. ३ AP °जलणं. ४ A लिपइ.  
५ A णीलमणिणियरहिं. ६ P वणदव°. ७ AP मृगणाहि°. ८ AP सुरहिपसेविय. ९ A °गारउ.  
१० A °वीणारउ. ११ A उच्चावहि, P ओच्चावहि. १२ A दावइ.

5 a °सरि सोत्तइं नदीप्रवाहा. 7 b णहचवेड° नखचपेटाप्रहारः. 9 b हरि वं दि यणा णि हिं इन्द्र-  
वन्दितज्ञानिभि, सा हिउ साधिकः लोकोत्तर. 10 a आसग्गीवजीवउड्डावणु अश्वग्रीवजीवविध्वंसकः.  
12 सिलरण्णु शिलावनम्.

11 1 a णिद्ध कान्तिमती 2 a फलभाइणि फलभागिनी 5 a पलिप्पइ ज्वलति;  
जालावलणं ज्वालज्वलनेन. 6 a °पयघुसिणे पादकुङ्कुमेन, b धुप्पइ धाव्यते. 7 a °णीलगल°  
मयूर. 12 अणंतु त्रिपृष्ठः, उण्णावहि उच्चालय.



## 12

ता सिल उच्चायंतहु कण्णहु  
पवरकरिकरायारहिं बाहहिं  
उरयलि णिवडियाइं सारंगइं  
पंतिणिवद्धइं कैसिणइं अरुणइं  
दिट्टइं णायउलाइं चलंतइं  
गेरुयवाणिउं वियलिउं रत्तउं  
हंसपंति णहमंडलि धावइ  
भमरामेलउ णीलउ लोलइ  
दलियइं मलियइं वेल्लीभवणइं  
णट्टइं कीलासुरणिउरुंवइं

दुज्जणदेहवियारणतण्हहु ।  
पाहाणुट्टियभूसणरेहहिं ।  
दसदिसि वहिवि गयाइं विहंगइं ।  
णं रिउकामिणिकंठाहरणइं ।  
णं अरिअंतइं लंबललंतइं । 5  
सैहिर णाइ वइरिहि णिगंतउं ।  
पडिभडट्टिमाला इव भौवइ ।  
रोसहुयासधूमु णं घोळइ ।  
णावइ खलयणपट्टणभवणइं ।  
णिगयाइं णं सत्तुकुडुंवइं । 10

यत्ता—उंइंडकरेहिं सिल कैण्हें उच्चाइय ॥

पडिसत्तुधरित्ति हरिवि णाइं दक्खांलिय ॥ १२ ॥

## 13

उच्चाइय सिल सोहइ तहु करि  
जं चालिय सिल सिरिरमणीसैं  
संथुउ अवरु पयावइ राणं  
संथुउ लंगलहररविकित्तिहिं  
एंवहिं तुहुं जि देव महिराणउ  
तुहुं पुरुसोत्तमु तुहुं धरणीहरु  
तुहुं इक्खाउवंसवरधयवहु  
साहु साहु तुह सोहइ विक्रमु  
एम भणंतहं घोसगहीरइं  
परिमलवहलइं वण्णविचित्तइं

अट्टमभूमि व भुवणत्तयसिरि ।  
तं सो संथुउ जलणजडीसैं ।  
संथुउ बहुमहिवइसंधाणं ।  
संथुउ सुरणरविसहरपत्तिहि ।  
तुज्जु पुरिसु जगि णत्थि समाणउ । 5  
णिवडंतहं वंधुहुं लगणतरु ।  
तुह पडिमल्लु णत्थि तिहुवणि भइ ।  
अण्णहु एहउ कासु परकैमु ।  
कउ कलयलु दिण्णइं जयत्तइं ।  
अमरहि पंजलिकुसुमइं धित्तइं । 10

12 १ AP किसिणइं. २ AP वाणिरु. ३ AP रुहिरु. ४ णावइ. ५ AP उट्टइं.  
६ AP कण्हेणुच्चालिय.

13 १ AP विसहरपत्तिहिं. २ A इक्खाकवंतं, P इक्खावत्तसं. ३ A परिषमु.

12 2 b पाहाणुट्टियं पापाणे लिखिता. 5 b अरिअतइं शत्रुणामन्त्राणि. 6 a नेरुय  
वा गिउं गेरिकनिभ जलम्. 7 b पडिभट्टिमाला प्रतिभयानामत्तमा माला. 10 a कीलासुरणिउरुं  
कीलास्ताना देवाना समूहाः.

13 1 a लंगलहरं वट्टमट्ट ; b विसहरपत्तिहिं नामवर्नीभि. 6 a धरणीहरु इत्थं  
धरो गता. 7 a धयवहु भयवट्ट..

चंडहिं भुयदंडहिं पडिपेल्लिय  
मालालंकिइ मउडि पसत्थइ

पुणु सिल माहवेण तहिं घल्लिय ।  
कालभवित्ति णाइ रिउमत्थइ ।

घत्ता—खगमहिवइणाह वणु मेल्लिवि पडिआइय ॥  
हरिवलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥ १३ ॥

14

अहिवांदिय दाहिअक्खयसेसहं  
मंदिरि मंदिरि मंगलकलयलु  
मंदिरि मंदिरि छडरंगावलि  
मंदिरि मंदिरि कलस सउप्पल  
ता तहिं जंपइ पुरणारीयणु  
का वि भणइ इहु राउ पयावइ  
का वि भणइ इहुँ सो संकरिसणु  
का वि भणइ इहुँ सो णारायणु  
जेण सिलायलु णहि संचालिउ  
दीसइ रूवें वम्महु जेहउ

पुरि पइसंतहं ताहं णरेसहं ।  
णच्चइ कामिणि घुम्मइ महुँलु ।  
बज्झइ तोरणु चित्तधयावलि ।  
णिहिय वयणविलुलियपल्लवदल ।  
सुहयालोयणपयडियघणथणु । 5  
एहु खगाहिउ रहणेउरवइ ।  
हलहरु हलि अकरंतु वि करिसणु ।  
जेण संयंपहाहि हित्तउं मणु ।  
जेण जसेण गोत्तु उज्जालिउ ।  
पइ पुण्णहिं जइ लब्भइ एहउ । 10

घत्ता—तं पुरु पइसिवि विरइयपणयपसायहिं ॥  
वव्वारिउ णेहु खगवइमहिवइरायहिं ॥ १४ ॥

15

विहिं वि विवाहु तेहिं पारद्धउ  
खंभि खंभि पज्जालियपईवहिं  
पवणुद्धयचिंधपब्भारहिं

कउ मंडउ रयणंसुसिणिद्धउ ।  
लंबियमोत्तियदामकलावहिं ।  
मरगयमालातोरणदारहिं ।

४ A °कियमउडपसत्थइ.

14 १ A पुरपयसंतहं, P पुरि पयसंतहं. २ A मदल. ३ AP एहु. ४ AP अकरतउ करि-  
सणु. ५ P संयंपयाहि.

15 १ A रयणंसुसिमिद्धउ, P रयणसुसिमिद्धउ.

11 b माहवेण त्रिपुष्टेन. 12 भवि त्ति भवित्तव्यम्.

14 1 a अ हि वं दि य अभिवन्दिता . 4 a सउप्पल कमल्लयुक्ताः. 5 b °पय डिय° प्रकटितौ.  
7 a संकरिसणु सीरपाणिः ब्रह्मभद्र , b हलि हे सखि, अ करंतु वि करिसणु क्षेत्रकर्षणमकुर्वाणो-  
ऽपि. 8 b हित्तउं हतम्. 10 b पइ पतिर्भर्ता. 11 पणयपसायहिं प्रणयप्रसादैर्दानमानादिभिः.

15 1 a रयणंसुसिणिद्धउ रत्नकिरणैः स्निग्ध . 2 b °कलावहि कलापै समूहैः.

वज्जंतहि पडुपडहहि संखहि  
 कामिणिकरयलयल्लियसेसहि  
 वियसियंसयंदलसरलदलच्छे  
 पैरिणिय सुंदरेण सा सुंदरि  
 राउ मऊरगीवणिवतणुरुहु  
 अद्धचक्कि चक्किकियकरयलु  
 भणिउ तेण महिकामिणिमाणुणु  
 देव तुरंगगीव बुहणिरसिउं  
 पइं णहयरणरणहु पमाइवि  
 सामणुणु वियलियगुणणियरहु

णाणावाइत्तेहिं असंखहि ।  
 दिववरदेवदिण्णआसीसहि । 5  
 णियसुहिवच्छलेण सिरिवच्छे ।  
 गउ चरु जहि णिवसइ जगकेसरि ।  
 खयरमउडचुंवियपयसररुहु ।  
 दढभुयजुयअंदोलियपरवलु ।  
 भुयणवणंतवासिपंचाणुणु । 10  
 णिसुणि णिसुणि सिहिजडिणा विलसिउं  
 पोयणपुरवइपुत्तहु जाइवि ।  
 कण्णारयणु दिण्णु भूमियरहु ।

यत्ता—अह सो सामणुणु भणहुं णं जाइ खगाहिव ॥

जे मारिउ सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥ १५ ॥

## 16

तं णिसुणिवि णरणहु विरुद्धउ  
 धगधगधगधगंतु चंचलसिहु  
 रत्तणेत्तरुइरावियदसदिसु  
 णं जेउं तिहुयणगिलणकयायरु  
 चवइ सरोसु भिउडिभंडभीसणु  
 अज्जु जलणजडि मारिवि संगरि  
 सहुं जांवाएं देवि दिसावलि  
 तहि अवसरि पालियनंवसासणु

णं केसरि गयगंधविलुद्धउ ।  
 धयधाराहिं सिचु णं हुयवहु ।  
 पुष्पयंतु णं फाणि आसीविसु ।  
 परसिरिहर असिवरपसरियकरु । 5  
 करतलप्पताडियरयणासणु ।  
 धिवमि कयंतदंतविवरंतरि ।  
 भुक्खइ भग्गउ धवुं पावउ कलि ।  
 रायसहासहि मग्गिउ पेसणु ।

२ AP परणिय. ३ A °माणण. ४ A °पंचाणण. ५ P तुहुं णिरसिउ. ६ AP पोयणपुरिवइ. ७ P omits ण.

16 १ AP रत्तणेत्त. २ AP जमु ३ A °सिहर°. ४ AP भिउडिभव°. ५ P मत्ता सणु. ६ AP कयंतदंतविवरंतरि. ७ AP जामाए. ८ A क्व P धउ. ९ AP णिवसासणु.

5 b दिववरदेव जैनब्राह्मणा. 6 b °तुहिवच्छलेण सुहद्वत्तत्तेन. सिरिवच्छे धीविणुना दिग्गेन.  
 7 b चरु दूत., जगकेसरि अश्वप्रीव.. 10 a °माणणु भोक्ता; b भुयणवणतवासिपंचाणुणु भुयण  
 नेव वन तन्मध्ये मिह.. 11 a बुहणिरसिउं बुधेनिन्दितम्. 11 b भूमियरहु भूमिचरु मत्ता.  
 11 भणहु ण जाइ कथितु न मत्तने, खगाहिव ते अश्वप्रीव.

16 1 a विरुद्धउ रुपितः. 2 a °चंचलसिहु चण्डिका. 1 a उउ पम.. 5 b ३३३  
 मणु मित्तमत्तम्. 7 जामाए जामाजा, b धवु भूमि मत्ता.

ते णउ पेसैइ सइं संचल्लिउ  
जो मयवइजीविउं उद्दालइ  
सो सामणु ण होइ निरुत्तउं

पहु हरिमस्समंतिं बोल्लिउ ।  
कोडिसिलायलु जो संचालइ । 10  
तुम्हहुं अप्पणु जाहुं ण जुत्तउं ।

यत्ता—हयकंठें उत्तु विउस ण किं पि विवाणं ॥  
किं सूरहु को वि वड्ढिमु दीसइ तेणं ॥ १६ ॥

17

मज्जु वि पांसिउं को जगि सूरउ  
रयणमाल वड्ढी मंडलगलि  
जेण कण्ण दिण्णो भूगमणहं  
सो पइसरउ सरणु देविंदहु  
सो हउं कड्ढिवि अज्जु जि फाडमि  
सवणायणियपावरसइं  
सीहु सीहु सोंडें सोसिज्जइ  
तरुणीमग्गणच्चाहुयवंतें  
मणिकुंडलमंडियगंडयलइं  
एवं चवेवि धीरु हुंकारिवि  
संदाणियविमाणं परिवाडिहि  
ओरुंजतिहिं आहवभेरिहिं  
णं सायरु मजायविमुक्कउ

को महिवइ वरवीरवियारउ ।  
हउं अवगण्णिउ जाइवि महियलि ।  
सो पइसरउ सरणु सिहिपवणहं ।  
सो पइसरउ सरणु धरणिदहु ।  
वइवसपुरवरपथें धाडमि । 5  
सिल चालिज्जइ किं ण बलहें ।  
एयहि साहसेहिं लज्जिज्जइ ।  
किं वेहाविउ सो वरइत्तें ।  
दोहं वि तोडमि रणि सिरकमलइं ।  
णिग्गउ मंतिमंतु अवहेरिवि । 10  
परिवारिउ विज्जाहरकोडिहि ।  
जुयखंइ णाइ रसंतिहि मारिहिं ।  
महिहरमेहल रंभिवि थक्कउ ।

यत्ता—इह दाहिणभरहि वणि जलंततणुसारइ ॥

आवासिउं सेणु पुप्फदंतकरवारइ ॥ १७ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाकइपुप्फयंतविरइप महाकव्वे तिविड्ढिसिंघमारणकोडिसिलुच्चायणं  
णाम एकवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५१ ॥

१० AP पेसिय. ११ P हरिमंसुसुमतिहिं बोलिउ, P हरिमस्ससुमतिहिं बोलिउ

17 १ AP पासि. २ P को वि जगि. ३ A कड्ढिमि. ४ AP °विवाण°. ५ A जुगखइ.

६ A जलतणकणसारइ, P जलवणकणसारइ. ७ AP कोडिसिलासचालणं तिविड्ढिविवाहकछाण णाम.

9 b हरिमस्समंतिं हरिदमश्रुमन्त्रिणा. 10 a मयवइजीविउं सिंहस्य जीवितम्. 11 b अप्पणु स्वय-  
मेव. 12 विउस हे विद्वन्.

17 2 a मंडलगलि शुन कण्ठे. 5 b वइवसपुरवरपथे यमपुरमाणेण. 6 a सवणा य-  
णियपावरसइं कर्णयोरकण्णितपावरगव्वेन ( वलीवदेन ) 7 a सीहु सीहु सोंडें सोसिज्जइ सिहो मयं  
च अष्टापदेन मयपेन च शोष्यते. 8 a °मग्गणच्चाहुयवते °याञ्जन्वाटुकारेण b वेहाविउ गर्जितः,  
वरइत्तें वरेण. 12 a ओरुंजतिहि अवरुज्जि. समन्ताच्छन्द कुर्वन्नि. 14 °तणुसारइ तृणसमूहे.  
15 पुप्फदंतकरवारइ सूर्यचन्द्रकिरणरोधके, वने इत्यर्थ .

दलियारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणपर्शवहु ॥  
चिरभववइरवसु आलद्धमिसु भिडिउ गंपि हयगीवहु ॥ ध्रुवकं ॥

## I

दुवई—सुहियखगिंदविंदकिंकरखगजियगंधसिंधुरो ॥  
जाव तिखंडखोणिपरमेसरु चल्लिउ तुरयकंधरो ॥ छ ॥

तावेत्तहि पोयणणामणयारि	भूगोयरवइधरैवसियखयारि ।	5
पणवियसिरेण मउलियकरेण	सिहिजडिहि सिट्टु जाइवि चरेण ।	
भो <sup>१</sup> खगवइ णिरु अण्णायवट्टि	तुज्जुप्परि आर्यउ चक्कवट्टि ।	
आरुट्टु कण्णकारणेण	जं एव समासिउ चारणेण ।	
तं <sup>२</sup> सुणिवि पयावइ तेण भणिउ	अम्हहिं सुहुं सुत्तउ सीहु व्रणिउ ।	
सो उट्टिउ एवहिं बलमहंतु	धणु लंगूलउ सरणहरवंतु ।	10
असिजीहापल्लवललललंतु	मंतिज्जइ एवहिं सो जि मंतु ।	
उवसमइ जेण सो कूरचित्तु	ता सस्सुएण सहसत्ति उत्तु ।	
तइ जलइ जलणु जइ णत्थि वारि	जइ णत्थि संति तो पडइ मारि ।	
भो आणइ मरणु पहाणवइरु	भो <sup>३</sup> पत्थु ण णिज्जइ कालु सुइरु ।	
पहु लहु दीसइ जुंजेवि सामु	ता विहसिवि भासइ पढमरामु ।	15

घत्ता—सज्जणु उवसमइ खलु किं खमइ वोळंतहुं सुइमिट्टुं ॥

घिउ हुंयवहमिलिउं जललवजलिउं वप्प किं ण पइं दिट्टुं ॥ १ ॥

A gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza दीनानाथधनं etc. for which see page 139 P gives it at L. K does not give it anywhere.

1 १ AP<sup>०</sup> बंद<sup>०</sup>. २ AP<sup>०</sup> सिंधुरो. ३ AP<sup>०</sup> धरि वसिय<sup>०</sup>. ४ A सो खगवइ. ५ A अण्णाय-  
वत्ति. ६ A आवइ. ७ A तं णिसुणि. ८ A सुहि. ९ A धुणिउ, P वणिउ. १० A सुम्मएण.  
११ AP धुउ. १२ A पढमु रामु. १३ A वोळंतहो. १४ A हुववहमिलिउ, P हुयवहि मिलिउ.

1 1 अरिंदकरि अरोन्द्रा एव करिण, <sup>०</sup>पईवहु <sup>०</sup>प्रदीपस्य अश्वग्रीवस्य. 4 तुरयकंधरो  
अश्वग्रीवः. 6 b सिट्टु कथितम्. 8 b चारणेण दूतेन. 9 a तेण ज्वलनजटिना. 10 b सरणहरवंतु  
शरा एव नखाः तैः गर्जन. 12 b सस्सुएण सुश्रुतमन्त्रिणा. 13 a तइ तदा. 14 a आणइ ददानि,  
पहाणवइरु प्रधानैः सह वैरम्. 17 जललवजलिउं घृतमग्निना उत्कालितपश्चात्तन्मध्ये शीतलजललवा  
अपि प्रज्वलन्ति.

## 2

दुवई—मित्त तिविट्टि रुट्टि गिरिधीर वि एंति ण वइरिणो रणं ॥  
किं विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुहवियारणं ॥ छ ॥

जइयहुं अहिवलयविलंवामाण	वणि उच्चाइय सिल इलसमाण ।	
मइं जाणितं तइयहुं कैहि वि कालि	देवहुं पेक्खंतहं भडवमालि ।	
तोडेसइ हयकंधरहु सीसु	रत्तच्छिवत्तुं भूमंगभीसु ।	5
को हालाहलु जीहाइ कलइ	को करयलेण हरिकुलिसु दलइ ।	
को गयणि जंतु अहिमयरु खलइ	को णियवलेण धरणियलु तुलइ ।	
को कालु कयंतहु माणु मलइ	को जलणि णिहित्तु वि णाहि जलइ ।	
को फणिवइफणमणिणियरु हरइ	को पडिय विज्जु सीसेण धरइ ।	
को भंडइ सहं महं भायरेण	तां जंपिउ मंति सायरेण ।	10
भो सीराउह तुहिणयरकंति	जं पइं जाणितं तिह तं ण भंति ।	
लइ तो वि देव किज्जइ परिकख	उवइसहु कुमारहु मंतसिक्ख ।	
वीयक्खराइं मणि संभरंतु	आसीणु सत्तरत्ते तुरंतु ।	
जइ साहइ विज्जादेवयाउ	तो करइ परहं मरणावयाउ ।	
विज्जासाहणविहिभेयभिण्णु	ता ससुरएण उवएसु दिण्णु ।	15
थिउ ज्ञाणारूढउ हलि उविंदु	सत्तमादिणि कंपाविउ फणिट्टु ।	

घत्ता—विज्जाजोइणित्त वरदाइणित्त हरिरांमहु पणवंतिउ ॥

रिउजमदुइयउ खणि आइयउ देहु णियमु पभणंतिउ ॥ २ ॥

## 3

दुवई—गारुडविज्ज पुज्जं संसाहिय हरिणा भुवणखोहिणी ॥

अवर महंतसत्तुसंचूरणि पवर वि णाम रोहिणी ॥ छ ॥

2 १ A °विलंवामाणे. २ A °समाणे. ३ AP तहिं. ४ AP रत्तच्छिवंतु. ५ A °कुडिसु.  
६ A °फणिवइफणिमणु. ७ AP तो. ८ A मंते सायरेण. ९ AP सत्तरत्तित्तु. १० A हरिरायहो.  
११ P दूइओ.

3 १ A पुज्ज. २ A सयल महंत सत्त°, P सयलमहतु सत्तु°. ३ AP अवर वि.

2 1 एंति ण नागच्छन्ति. 2 °कररुह° नखा. 3 b इलसमाण पृष्ठीसहिता. 4 b °व मालि  
कोलाहले. 5 b रत्तच्छिवत्तु रक्ताश्रवक्त्रम्, शत्रुमस्तकम्. 6 a कलइ स्मृति b हरिकुलिसु इन्द्र-  
वज्रम्. 7 a अहि मयरु सूर्य. 9 b विज्जु विद्युत्. 11 a सीराउह हलायुध बलभद्र 12 b उवइसहु  
उपदिशत. 13 a वीयक्खराइ मन्त्राराधना b सत्तरत्ते सप्त दिनानि. 14 b मरणावयाउ मरणरुपा  
आपदः. 16 a हलि उविंदु बलभद्रनारायणौ. 1S णियमु आवेशम्.

3 2 अवर अपरा पवर प्रवरा.

खर्गंथंभणी	वलणिसुंभणी	
गयणचारिणी	तिमिरकारिणी ।	
सीहवाहिणी	वइरिमोहणी ।	5
वेयगामिणी	दिव्वकामिणी ।	
विवरवासिणी	णायवासिणी ।	
जलणवरिसिणि	सलिलसोर्सणी ।	
धरणिदरणी	कुडिलमारणी ।	
बंधमोयणी	विविहरूविणी ।	10
मुक्ककौतला	लोहसंखला ।	
छइयदसदिसी	कालरक्खसी ।	
वयणपेसला	विजयमंगला ।	
रिक्खमालिणी	तिक्खसूलिणी ।	15
चंदमउलिणी	सिद्धवालिणी ।	
पिंगलोयणा	धुणियफणिफणा ।	
थेरि थुरुहुरी	घोरंघोसिरी ।	
भीरुभेसिरी	पलयदंसिरी ।	
इय सणामहं	दिण्णकामहं ।	20

घत्ता—पंच समागयइं विज्जहं सयइं दक्खवंति सवसित्तणु ॥

तोसियवासवहं वलकेसवहं धरि करंति दासित्तणु ॥ ३ ॥

## 4

दुवई—विज्जागमणमुणिइ हरिपोरिसि पसरियसिरिविलासए ॥

णिहय पयाणभेरि जगभइरव वियलिइ सयणसंसए ॥ छ ॥

विज्जाहरमहिहरणाह वे वि

चलियइं सेण्णइं रिउरणमणाइं

णहु कंपइ कंपंतहिं धएहिं

जलणजडि पयावइ धुरि करेवि ।

वलएववासुएवहं तणाइं ।

महि हल्लइ गच्छंतहिं गएहिं ।

४ AP °धंभिगी. ५ AP °णिमुभिगी. ६ AP °सोसिणी. ७ P °दारिणी. ८ AP विवित्तुत्ता.  
९ AP °घोसिणी. १० A विज्जहं सयइ.

4 १ P °गमणु मुणिइ. २ A सइणनंसए. ३ A जडणजडि.

6 a वेयगामिणी वेयगामिनी. 7 b णायवासिणी नागयाशिनी. 13 a °पेसला मनोइया. 14 a  
रिक्खमालिणी नक्षत्रमाला. 15 a चंदमउलिणी चन्द्राच्छादिनी. 19 b दिण्णकामं वरिण्ण  
प्रदानाम्. 20 सवसित्तणु न्ववगित्त्वम्.

4 1 °धुणिइ शाने, २ रिपोरिसि हरिपोरिये. ३ वियलिइ विगणित्ते संघंत्ते

रह चिक्रवंत चैल चिक्ररंति  
जापं हरिखुरधूलीरण  
भडरोलें सुत्तुडिउ कयंतु  
जोइय जणेण परवीरजूर  
णं अट्टहास बहलंधयार  
गच्छंतवारणारूढदेह  
झल्लरिमुइंगकाहलरवेण  
कुसुमियपियालककोलएलि

पडिवक्खमरणु णं वज्जरंति ।  
धूसरिउ सूरु दूरंगएण ।  
छत्तहिं संछण्णउं दहदियंतु ।  
सोमुग्गदेह णं चंद सूर ।  
णं उवसमरस सिगारंभार । 10  
हलहर हरि णं सियअसियमेह ।  
दियहेहि गंपि सर्वरुच्छवेण ।  
तहिं थक्क संदणावत्तसेलि ।

घत्ता—पवणचलंतियहि धयपंतियहि णहु णं उप्परि घुलियउं ॥

णच्चियनृवणडिहि पिहुपडकुडिहि खोणीयलु चित्तलियउं ॥ ४ ॥ 15

## 5

दुवई—चिचिणिचारचूर्यचवचंपयचंदणवद्धकुंजरे ॥

थिइ पडिवलि तुरंगहिलिहिलिखे सयडावत्तगिरिवरे ॥ छ ॥

जोएवि सिविरु णवघणसरेहि  
अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु  
आढत्तउ जिणु वम्महसरेहिं  
आढत्तउ खज्जोएहि भाणु  
आढत्तउ केसरि जंवुएहि  
आढत्तउ गयवरु गइहेहि  
आढत्तउ रइवइ कइयवेहि  
भो देवदेव संधियसरेहिं

विण्णविउ णवेप्पिणु चरणेरहिं ॥  
विज्जाहरभूयरभूमिणाहु ।  
आढत्तउ आहंडलु णरेहि । 5  
आढत्तउ तरुणियरें किसानु ।  
आढत्तउ जैउं जीवियचुएहि ।  
आढत्तउ मंतुंगमु गहेहि ।  
आढत्तउ मोक्खु वि जैडतवेहि ।  
आढत्तउ तुहुं णियकिंकरेहिं । 10

४ P धर. ५ A सिगारहार. ६ P समरु°. ७ AP णिवणडि°.

5 १ A °चारचूर्यधव°, P °चारचूर्यधय. २ A पडिवल्लतुरंग°. ३ AP जमु. 4 A पत्तगमु.  
५ AP कइवएहि. ६ P जडभवेहिं.

6 a चिक्रवंत चीत्कार कुर्वाणा . 7 a हरिखुर° अश्वकुरा . 9 b सोमुग्गदेह सौम्यदेह उग्रदेहश्च.  
11 b सियअसियमेह शुक्लशरन्मेषः कृष्णमेषश्च. 12 b सवरुच्छवेण सग्रामोत्साहेन. 13 b सदणा-  
वत्तसेलि स्यन्दनावर्तपर्वते. 15 नृवणडिहि नृपनटीभिः, पिहुपडकुडिहि विस्तृतपट्टकुटीभिः .

5 २ थिइ पडिवलि स्थिते शत्रुसैन्ये, सयडावत्त° शकटावर्ते पर्वते. 3 a णवघणसरेहिं  
नवमेषगभीरध्वनिभिः. 4 a °डाहु अग्नि. 6 b किसानु अग्नि. 7 b जीवियचुएहिं मृतैः .  
8 b मंतुंगमु मन्त्रोच्चार . 9 a कइयवेहिं कपटैः.



रहणेउरवइ णरवइ सवंधु  
अण्णेकु पयावइ पोयणेसु  
अण्णेकु मुसलि तहिं कसणवासु  
किं अक्खमि पडुसामत्थु तासु

सहुं णंदणेण चंदाहिचिंधु ।  
आरुहु सुहु खयकालवेसु ।  
अण्णु वि जो दिट्टउ पीयवासु ।  
देव वि संकाइ णवंति जासु ।

घत्ता—णिसुणिवि तुह चलणु खलयणमलणु देवयाउ साहेप्पिणु ॥ 15  
वलइयधणुवलय णं खयजलय थिय महिहरि आवेप्पिणु ॥ ५ ॥

## 6

दुवई—चवइ खगिदचंडु करवालविहंडियतुरयकरिसिरे ॥

रत्ततरंतमत्तरयणीयरि णिहणवि रिउं रणाइरे ॥ छ ॥

ता कहइ मंति णामें विहाउ  
जइ आणालंघणु कयउ तेहिं  
एहउ आयारु णराहिवाहं  
सो दूयउ जो भासापवीणु  
सो दूयउ जो अहिमाणि दाणि  
सो दूयउ जो गंभीरु धीरु  
सो दूयउ जो परचित्तलक्खु  
सो दूयउ जो वुज्झियविसेसु  
सो दूयउ जो कयसंधिणामु  
सो दूयउ जो णिहिट्टमंतु  
सो दूयउ जो उवइइइइ  
सो दूयउ जो रिउहिययसूलु  
णिवसंतगरुयखंधाररोलु  
पणवेवि तेणं पालियविसिट्टु

जगाडिंभहु एवहि तुहुं जि ताउ ।  
सुय दिण्ण पडिच्छिय पत्थिवेहि ।  
पेसिज्जउ दूयउ को वि ताहं । 5  
सो दूयउ जो पंडिउ अदीणु ।  
सो दूयउ जो मियमहुरवाणि ।  
सो दूयउ जो णयवंतु सुहं ।  
सो दूयउ जो पोसियसपक्खु ।  
सो दूयउ जो सुविसिट्टवेसु । 10  
सो दूयउ जो वज्जरियसामु ।  
सो दूयउ जो कुलजाइवंतु ।  
सो दूयउ जो संगामि चहु ।  
सो दूयउ पेसिउ रयणचूलु ।  
तं गच्छिवि गिरिगहणंतरालु । 15  
अत्थाणि णिविट्टु तिविट्टु दिट्टु ।

घत्ता—दुयं वज्जरिउं पडु विप्फुरिउ दिव्वपुरिसंगुणजाणउ ॥

गुणिगहणुज्जि तुहुं अणुहुंजि सुहुं पेक्खु णवेप्पिणु राणउ ॥ ६ ॥

७ A चंदाहचिंधु, T चंदाहविंधु चन्द्रनागविन्नाः. ८ A आरुहु.

6 १ A खगिदचंडु. २ A णिहणिवि. ३ A मियमहुरवाणि. ४ A अभिमाणि दाणि. ५ A सारु. ६ A सुविसिट्टवेसु. ७ P उवइइइइ. ८ P संगामि चहु. ९ A ते वि. १० A ०पुरिसु. ११ AP गुणिगहणुज्जि.

11 b णंदणेण अर्ककीतिना, चंदाहिचिंधु चन्द्रवदुज्ज्वलसर्पध्वजः. 12 a आरुहु रूट्., सुहु अति-  
शयेन. 14 a मुसलि विजयो वलभट्टः, कसणवासु नीलाम्बरः. 15 चलणु गमनम्.

6 1 खगिदचंडु खगेन्द्राणां मध्ये चन्द्र.. 2 ०रयणीयरि राक्षसे, रणाइरे रणाजिरे रणरत्ने.  
3 a विहाउ विधाता, b ताउ पिता. 5 b पेसिज्जइ प्रेष्यताम्. 9 a परचित्तलक्खु परमनोज्ञायकः.  
10 b सुविसिट्टवेसु समीचीनवेप. 11 a कयसंधिणामु कृतसंधानः. 14 b रयणचूलु रत्नचूडनामा.  
17 दिव्वपुरिसगुणं देवपौरुषप्रबलावलम्. 18 गुणिगहणुज्जि गुणिग्रहणे ऊर्जस्वी.

7

दुवई—जा मंगिय णिवेण खगसुंदरि सा तुह होइ सामिणी ॥ ;  
देवि णमंसणिज्ज सा कामहि किं कामंध कामिणी ॥ छ ॥

मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु	भक्खंतु म गिद्ध भडंतजालु ।	
मा सरसयणीयलि सुयउ ताउ	मा पोयणपुरवरु खयहु जाउ ।	
मा उट्टउ रहचूरणाणिहाउ	भजंतु म चामरछत्तकेउ ।	5
दीसउ मा सयणहं मरणहेउ	रसवैससमुद्दकंफालसेउ ।	
मा रहिरु कालवेयालु पियउ	मा सूरकित्ति जमकरण णियउ ।	
मा करउ मृगोवइ पुत्तदुक्खु	मा छिज्जंतु हलहरकप्परुक्खु ।	
पहुदोहवहलधूमोहमलिणिं	जलणजडि पडउ मा पलयजलणि ।	
रायहु ढोयहि साँ तुहं कुमारि	मा हक्कारहि णियगोत्तमारि ।	10

घत्ता—जाणियणयणिवहु कयवइरिवहु मंतवलु वि जो वुज्झइ ॥  
जेण तिखंडर्धर जिय ससुरणर तेण समउं को जुज्झइ ॥ ७ ॥

8

दुवई—म करि कुमार किं पि रोसुंभडवयणे वलिसमप्पणं ॥  
करगयकणयवलयपविलोयणि हो किं णियहि दप्पणं ॥ छ ॥

तं सुणिवि भणितं विट्ठरसवेण	भो चारुं चारु भासितं णिवेण ।	
अण्णाणु हीणु मजायचत्तु	मग्गंतु ण लज्जइ परकलत्तु ।	
भरहहु लग्गिवि रिद्धीसमिद्धु	रायत्तणु कुलि अम्हहं पसिद्धु ।	5
सो घइं पुणुं जायउ विहिवसेण	विणडित परणारीरइरसेण ।	
संताणागय महुं तणिय धरणि	कि णक्खत्तं जइ तवइ तरणि ।	
दप्पिद्धु दुट्टु नृवणांयभट्टु	मरु मारिवि धिवमि तुरंगकंठु ।	

7 १ A मंगिय खगेण णिवसुदरि. २ AP मरणभेउ. ३ A सगरसमुद्द. ४ AP मिगावइ.  
५ A छिज्जइ. ६ AP हलहर. ७ AP तुह सा. ८ A धरा.

8 १ A रोसुंभडवयणावलिसमप्पण, P रोसु भडवयणि. २ P कणगवलय°. ३ A विट्ठरसवेण.  
४ A रयणत्तयकुलि. ५ AP पइ, but K घइ and gloss पादपूरणार्थे. ६ AP जायउ पुणु.  
७ AP णिवणाय°.

7 1 म गि य याचिता, णिवेण अश्वग्रीवेण. 2 का म हि वाञ्छसि. 3 a रसउ काउ काकः  
शब्द करोतु, b भड त जालु योधानामन्त्रजालानि. 5 a °णि हाउ शब्द. 6 b क कालमेउ अस्त्रा मेतु.  
7 b ज म करण यमर्किकरा., णयउ नयन्तु. 9 a पहुदोह° राजद्रोह..

8 2 णिय हि पश्यसि. 3 a विट्ठरसवेण विट्ठरश्रवसा विष्णुना. 4 a मजायचत्तु त्यक्त-  
मर्यादः. 5 a भरहहुलग्गिवि चक्रिणं भरतमारभ्य. 6 a घइं पादपूरणे.

तं णिसुणिवि दूयं बुत्तु एव  
किं वरिसइ भुवणु भरति तैव

पाउसि कालंविणि रसइ जैव ।  
वोळंतु ण संकहि वप्प कैव । 10

घत्ता—अग्गइ घणर्थणिहिं सीमंतिणिंहि रणु वोळंतहुं चंगउं ॥

अच्छउ असि अवरु पहुकरपहरु तुह ण सहइ ललियंगउं ॥ ८ ॥

## 9

दुवई—भासइ विस्ससेणु भो जाहि म जंपहि चप्फलं जणे ॥  
तुह पइणो महं पि दीसेसइ वाहुवलं रणंगणे ॥ ७ ॥

तं णिसुणिवि दूयउ गउ तुरंतु  
हयगीवहु कहइ अहीणमाणु  
अहिणवविसइकंदोदुणेत्तु  
संधाणु ण इच्छइ गरुडकेउ  
जिह सकइ तिह विजावलेहि  
ता पभणइ पहु पीडियकिवाणु  
किंकर णिहणंतहं णत्थि छाय  
अविहेयविहंडणि कवणु दोसु  
दुइमदणुदणुविमहणेण  
अवलोयहुं अवलोयणिय विज्ज  
भडथडगयघडरहंसंपउणु

कोवग्गिजालमालाफुरंतु ।  
परमेसर रिउ पोरिसणिहाणु ।  
ण समप्पइ तं परिणिउं कलत्तु । 5  
दीसइ भसिणु णं धूमकेउ ।  
भिइ सुसलहिं सुलहिं सव्वलेहि ।  
एवहिं हउं सोहमि जुज्जमाणु ।  
मा को वि भणेसइ हय वराय ।  
उग्घोसहु लहुं रणरहसघोसु । 10  
एत्तहि वि मृगावइणंदणेण ।  
पेसिय खंगपुंगव वंदणिज्ज ।  
आइय जोइवि पडिवक्खसेणु ।

घत्ता—कण्हहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपणुणंउं ॥

सत्ति अमोहमुहि तूसवियसुहि धणु सारंगु विइणुणउं ॥ ९ ॥ 15

८ A °थणिहे. ९ A सीमतिणिहे. १० AP सहेइ.

9 १ AP वीससेणु हो. २ P °दणुदणु°. ३ AP मिगावइ°. ४ P खगपुंगम. ५ AP °रह-  
हयपउणु. ६ AP °सपुणुणउ. ७ AP सत्तियमोहमुहि.

9 b पाउसि वर्षाकाले, कालंविणि मेघमाला. 11 अग्गइ घणथणिहिं स्त्रीणामग्गे.

9 1 विस्ससेणु विष्वक्सेनो विणुः; चप्फल चापत्यम्. 2 पइणो स्वामिन. 4 a अहीण-  
माणु मानाधिक 5 a अहिणवविसइकंदोदुणेत्तु अभिनवविकसितपन्ननेत्र. 7 b सव्वलेहि लोह-  
मयी घाणी. 9 a छा य शोभा. 10 a अविहेयविहंडणि अविनीताना हनने. 11 a °दणु° दानवः.  
12 a अवलोयहुं विलोकिनुम् 14 देवयहिं देवीभिः, गुणपणामसंपणुणउ प्रत्यञ्चानमनयुक्तं धनुः.  
15 सारगु बलवत्.

## 10

दुवई—आणिवि सुरवरेहि चिरु रक्खिउ मंगलञ्जुणिणिणाइओ ॥

जलयरु पंचयणु कोत्थुहमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ छ ॥

अणु वि गय हय गय दिण्ण तासु	कोमुइ णामें दामोयरासु ।	
बलएवहु लंगलु मुसलु चारु	गय चंदिमं णामें हत्थियारु ।	
दसैदिसवहधाइयकिरणजाल	दिण्णी उरि घोळइ रयणमाल ।	5
कंचणकवयंकिउ धवलदेहु	णं संझाराणं सरयमेहु ।	
गुण्णविउ सरासणु धरिउ केंव	मुट्ठिहि माइउं सुकलत्तु जेंव ।	
सेयइं चिंधइं उप्परि चलंति	णं कित्तिवेल्लिपल्लव ललंति ।	
छत्तइं णं जयजसससिपयाइं	णं गोमिणिपोमिणिपंकयाइं ।	
धरियइं पाइक्कहिं पंहुराइं	विणिवारियदिवसाहिवकराइं ।	10
दीहरदाढावियडाणणेहिं	रहवरु कट्ठिउ पंचाणणेहि ।	
पक्खरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत	केंयसारिसेज्ज गय गुलुगुलंत ।	
हणु हणु भणंत मच्छरविमीस	संणद्ध सुहड पणवियहलीस ।	
रणतूरसहासइं तौडियाइं	कुलगिरिवरसिहरइं पाडियाइं ।	

घत्ता—गेज्जावलिमुहलि रंजियंभसलि अरि करिदपसरियकरि ॥ 15

अविरयगलियमइ हरि मत्तगइ चडिउ सीहु णं महिहरि ॥ १० ॥

## 11

दुवई—थक्को धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुइवियपडिणिवो ॥

चलचंचेलंचुंचुंबियचंदक्कधरो खगाहिवो ॥ छ ॥

संणद्धु पयावइ दीहवाहु	असितडिहरु णं खयसलिलवाहु ।	
उच्चारिवि जिणवरणाममंतु	संणाहु लइउ मणि जिगिजिगंतु ।	
हुयवहजडि हुयवहफुरणातिव्वु	तहु तणुरुहु भुयवलगाहियगव्वु ।	5

10 १ A हयरह दिण्ण. २ AP चंदियणामें. ३ A दहदिहहवधाहिय°, P दहदिसिवहधाइय. ४ P गुण्णमिउ. ५ AP कय सज्ज सारि. ६ P वाडियाइं. ७ A रजियभसलि. ८ AP अविरल°.

11 १ AP °चंचेलंचुंचुंबिय°. २ A °चंदक्कधरो. ३ A उच्चाइवि.

10 2 जलयरुपचयणु शंखः पाञ्चजन्य, णिवेइउ दत्तः. 3 a गय गदा. 4 b हत्थियारु आयुधानि. 5 a °वह° मार्ग. 9 a जयजसससिपयाइ जय एव यश' तदेव शशी तस्य स्थानानि. 11 b पंचाणणे हिं सिंहैः. 12 a सत्ति सतयोऽश्वा. 15 a गेज्जावलिमुहलि ग्रैवेयकावलीभि मुखरे. 16 हरि कृष्ण.

11 2 °चंचेल° यक्त्रम्, चुंचुंबियचंदक्कधरो° स्पृष्टचन्द्रसूर्यविमान., खगाहिवो गन्ड.. 5 b तहु तणुरुहु अर्ककीर्तिः.

पहरणइं लेंतु रणदारुणाइं दिव्वइं वायव्वे वारुणाइं ।  
 संचोइउ कुंजरु गज्जमाणु णउ गेण्हइ दिणणउं देहताणु ।  
 णिच्चिच्चुं चें रोमंचरण कंपाविय रिउ कंपियधरण ।  
 भहु को वि ण खग्गहु देइ हत्थु परपहरणहरणी सया समत्थु ।  
 भहु को वि ण लावइ घुसिणु अंगि रावेसइ तणु रिउरुहिरु अंगि । 10  
 घत्ता—हरिसे को वि णरु थिरथोरकरु धणुंहरु जं जं णावइ ॥  
 पीडिउं कडयडंइ मोडिवि पडइ तं तं थावहुं णावइ ॥ ११ ॥

## 12

दुवई—विहसिवि सुहइ भणइ लइ गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥  
 काइं सरासणेण किं खग्गे महुं रणवाणि मइंदहो ॥ छ ॥

भहु को वि भणइ जइ जाइ जीउ तो जाउ थाउ छुहु पहुपयाउ ।  
 भहु को वि भणइ रिउं पंतु चंडु मइं अज्जु करेवउ खंडखंडु ।  
 भहु को वि भणइ पविलंविंयंति मइं हिंदोलेवेउं दंतिदंति । 5  
 भहु को वि भणइ हलि देइ ण्हाणु सुइदेहे दिज्जइ प्राणदाणु ।  
 भहु को वि भणइ कि करहि हासु णिग्गविं सिरेण रिणु पत्थिवासु ।  
 भहु को वि भणइ जइ मुंडु पडइ तो महुं रुंहुं जि रिउं हणवि णडइ ।  
 भहु पियहि सरसु वज्जरइ कामि हउं रणादिक्खिउ सरु मोक्खगामि ।  
 भहु को वि भणइ असिधेणुयाहि जसदुहु लेमि णरसंथुयाहिं । 10  
 भहु को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि महुं पाउ पडइ रिउंसउंहुं तइ वि ।  
 भहु को वि सरासणदोसु हरइ सरपत्तइं उज्जुय करिवि धरइ ।  
 भहु को वि वद्धतोणीरजुयलु णं गरुडसमुद्धुयपक्खपडलु ।  
 भहु को वि भणइ कलहंसवाणि महुं तुहुं जि सक्खि सोहग्गखाणि ।

घत्ता—परवल अब्भिडिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि ॥ 15  
 तो दुक्कियहरणु जिणतवचरणु चरविं घोरु पइसिवि गिरि ॥ १२ ॥

४ AP वायव्वइ. ५ A णिच्चिच्चुं चें रोमं, P णिच्चिच्चें सररोमं, T णिच्चिच्च निरन्तरम्. ६ AP हरणु सया. ७ AP लावेसइ. ८ P धणहरु. ९ A कडयलइ. १० P थामहु.

12 १ A करेवउ. २ P हिंदोलिक्खउ. ३ AP सुइदेहेइं. ४ AP पाणदाणु. ५ AP तुहुं. ६ A सरिसु. ७ AP रिउसमुहुं. ८ AP गरुहु.

8 a णिच्चिच्चुं चें निरन्तरेण उच्चेन च. 10 b रावेसइ रज्जिष्यति. 11 णावइ नामयति. 12 थावहु णावइ बलं न धरति.

12 2 मइदहो सिंहस्य. 3 b पहुपयाउ प्रभुप्रताप. 5 a पविलंविंयंति प्रविलम्बितानि अन्त्राणि यस्य तस्मिन्; b दंतिदंति गजदन्ते. 6 सुइदेहेइं शुचिदेहेन. 7 b णिग्गविं स्फेटयामि, रिणु ऋणम्. 8 b रुंहुं कवन्धः, णडइ नृत्यति. 11 b रिउसउंहुं रिपुसमुखम्. 13 b ससुद्धुयं कर्मितम्. 14 b सक्खि साक्षिणी.

## 13

दुवई—लुहि लोयणाइं मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥

बंधविं तुह हयारिकरिमोत्तियकंठिय कंठकंदले ॥ छ ॥

पंडिविद्वुविद्वुणिव्वाहणाहं

संणज्झंतहं विहिं साहणाहं ।

वहु कासु वि देइ ण दहियतिलउ

अहिलसइ वइरिहुरिरेण तिलउ ।

वहु कासु वि धिवइ ण अक्खयाउ

खलवइ करिमोत्तियअक्खयाउ । 5

वहु कासु वि करइ ण धूवधूसु

मग्गइ पडिसुहडमसाणधूसु ।

वहु कासु वि णप्पइ कुसुममाल

इच्छइ ललंति पिसुणंतमाल ।

वहु कासु वि ण थवइ हत्थि हत्थु

तुह लग्गउ गयंघडणारिहत्थु ।

वहु कां वि ण झुणइ सुमंगलाइं

आवेक्खइ अरिसिरमंगलाइं ।

वहु कासु वि णउ दावइ पईवु

भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु । 10

वहु कासु वि पारंभइ ण णट्टु

संचितइ सत्तुकबंधणट्टु ।

वहु का वि ण जोयइ कि सिरीइ

पिययमु जोएवउ जयसिरीइ ।

घत्ता—वहु पभणइ भणामि हउं पइं गणामि तो तुहुं महुं थण पेहहि ॥

भग्गइ णिययवलि जइ भडतुमुलि खग्गु लेवि रिउ पेहहि ॥ १३ ॥

## 14

दुवई—वालालुंचि करिवि जुज्जेज्जसु विसरिसवीरगोंदले ॥

अरिकरिदंतमुसलि पउ देप्पिणु देज्जसु कुंभमंडले ॥ छ ॥

कुंजरघडघल्लियमुहवडाइं

वंसग्गाविलंविधयवडाइं ।

कुंकुमचंदणचच्चियभुयाइं

परिहियमणिकंचणकंचुयाइं ॥

करल्लुहियगहियवहुपहरणाइं

णियसामिकेज्जि णिच्छथमणाइं । 5

काणीणदीणढोइयघणाइं

भडकलयलवहिरियतिहुवणाइं ।

विलुलंतचित्तणेत्तंचलाइं

अहिणादियकलसजलुप्पलाइं ।

चलचरणचारचालियधराइं

डोह्लावियगिरिविवरंतराइं ।

13 १ P पडिविद्वु. २ AP कखइ but K खलवइ and gloss अभिलपति. ३ A ललत.

४ A गयघडि. ५ AP कासु वि ण कुणइ मगलाइ.

14 १ A °कज्जणिच्छय°.

13 1 लु हि लो य णा इ प्रमार्जय लोचने, मा रो व हि रोदनं मा डुरु. 5 b खलवइ अभिलपति. 7 a णप्पइ न अर्पयति. 9 a झुणइ गानं करोति, b अरिसिरमगलाइं अरिशिर.कपालानि. 13 पेहहि पीडय. 14 पेहहि पीडयसि.

14 1 वालालुचि केशाकेशियुद्धम्, विसरिस° असदृशा, °गोदले सग्रामे.

ढलहलियघुलियवरविसहरां	भयंतसिररसियघणवणयराइं ।	
झलझलियवॉलियसायरजलाइं	जलजलियकालकोवाणलाइं ।	10
पयहयरयछइयणहंतरां	अणलक्खियहिमयरदिणयराइं ।	
करिवाहणां सपसाहणां	हरिहरिगीवाहिवसाहणां ।	
आयइं अणणणहु संमुहाइं	असिदाढालइं णं जंवेमुहाइं ।	

घत्ता—संचोदयगयइं वाहियहयइं रणरसहारिसविसट्टइं ॥

दूरुज्झियभयइं उब्भियधयइं वे वि वलइं अब्भिट्टइं ॥ १४ ॥ 15

## 15

दुवई—वेणिण वि दुद्धराइं दुणिरिक्खइं कयणियपहुपणामइं ॥

कण्णाहरणकरणरणलग्गइं जयसिरिगहणकामइं ॥ छ ॥

णरचरणचारचारियगयाइं	हरिखरखुरवडणुग्गयरयाइं ।	
अब्भिडिय सुहड गय कायराइं	रवपूरियदिसगयणंतराइं ।	
वावल्लभल्लससल्लियाइं	सोणियजलधारारेल्लियाइं ।	5
लुलियंतकोत्तंभिण्णोयराइं	करवालखलणखणखणसराइं ।	
चलमुक्कचक्कदारियउराइं	लउडीहयचूरियरहधुराइं ।	
णिवडंतछत्तधयचामराइं	नृवकडयमउडमणिपिंजराइं ।	
कयखगाविमाणसंघट्टणाइं	किकिणिमालादलवट्टणाइं ।	
विज्जाहरविज्जावाराणाइं	सरपूरियमारियवारणाइं ।	10
जंपाणकवाडविहट्टणाइं	मंडलियमाणणिल्लोट्टणाइं ।	

घत्ता—दिण्णालिगणइं कयतणुवणइं दंतपंतिदट्टोदुइं ॥

लुंचियकोत्तलंइं विणिण वि वलइं जिह मिहुणइं तिह दिट्टइं ॥ १५ ॥

२ AP हलहलिय°, ३ AP भयरसियतसिय°, ४ AP °चलिय°, ५ P सुपसाहणाइ, ६ P आयहिं,  
७ AP °दाढा इव, ८ AP जममुहाइं.

15 AP °रणि लग्गइं, २ P °खुरखणणु°, ३ A °भल्लसरसल्लियाइ; P °भल्लरससल्लियाइं,  
४ A °क्तभिण्णो°, ५ A वरमुक्क°, ६ P लउडियहयचूरीरह°, ७ AP णिव°, ८ A विज्जाकारणइ,  
९ AP °कुत°.

9 a °विसहराइं °सर्पाणि. 11 a °छइय° आच्छादितम्. 12 b हरि° कृष्ण, हरिगीव° अश्वग्रीवः.  
13 b जवमुहाइं यममुखानि. 14 अब्भिट्टइ विकसितानि. 15 उब्भियधयइं ऊर्ध्वीकृतध्वजानि,  
अब्भिट्टइं सघट्टं प्राप्तानि.

15 3 b °खुरवडण° खुराघातः. 4 a गयकायराइं गता कातरा भीरवः. 6 a लुलियंत°  
भिन्नानि अन्त्राणि. 7 b लउडीहय यष्टिहता. 8 b नृवकडय नृपकटक हस्तभूषणम्. 9 b °दलवट्ट-  
णाइं चूर्णकरणानि.

## 16

दुवई—तो<sup>१</sup> हरिगीवरायसेणावइ धूमसिहो पधाइओ ॥  
सिरिहरिमस्सुवीरसहिउ हरिसेणं जगे ण माइओ ॥ छु ॥

तेण घाइयं	महिणिवाइयं ।	
विलुलियंतयं	पडियदंतयं ।	
पहरजजरं	लग्गभयजरं ।	5
दारिओयरं	छिण्णगलछिरं ।	
रत्तंतविरं	चम्मलंविरं ।	
विहिविणिदिरं	कलुणकंदिर ।	
घित्तवामरं	तुट्टपक्खरं ।	
फुट्टमदुलं	मुक्ककोतलं ।	10
विहुरवेमलं	णिग्गयं बलं ।	
वद्धमच्छरं	तोसियच्छरं ।	
कडुयजंपिरं	धीरकंपिरं ।	
रुंडणच्चिरं	कुंतखंचिरं ।	
भडवियारणं	कुंभिदारणं ।	15
भिडियवारणं	सिरणिलूरणं ।	
सुहडकलयलं	गहियहुलहुलं ।	
चम्मभिंदिरं	गत्तछिंदिरं ।	
कवयसंजुयं	णियवि संजुयं ।	
सुरपसंसिरं	धुणिर्यंगयसिरं ।	20
भग्गरहवरं	पडियहयवरं ।	
खग्गखणखणं	दारुणं रणं ।	
पक्खिसंकुलं	रक्खसाउलं ।	
दंतिदंतयं	छिण्णछत्तयं ।	

भ्रत्ता—माहवबलवइणा कयरणरइणा णिययसेण्णु साहारिउं । 25

कुलु विहिविण्डियउं दिसिविहडियउं पुत्तेण व उद्धारिउं ॥ १६ ॥

16 १ A ता ह्यगीव°, P तो ह्यगीव°. २ A धूमसिहोवधाइओ. ३ AP °मस्सुवीरस-सहिउ. ४ A हरिसे जगे ण माइओ. ५ P वम्मलविर. ६ P मिग्गयं. AK write in margin the portion beginning with वद्धमच्छर down to छिण्णछत्तय. ७ P धीरु कपिर. ८ P कुंतयंचिरं. ९ A धुणिवि गयसिर. १० AP °रहभरं. ११ A भग्गखणखणं, P खग्गसणसण. १२ P वण. १३ P देतिदंतयं. १४ A छिण्णछिण्णय, P adds विहुरविमलं, भग्गयं च( व ? )लं.

16 2 सिरि हरि मस्सु° श्रीहरिम्मश्रुनामा वीर. 3 a तेण धूमशिखसेनापतिना. S a विहिविणिदिरं विधेनिन्दाकरणशीलम्. 11 a विहुरवेमलदु खविह्वलम्, b णिग्गयं त्रासितम्. 17 b गहियहुलहुलं गृहीतहस्तशूलम्. 19 b णियवि दृष्टा. 26 साहारिउं धीरितम् 27 दिसिविहडियउं दिशासु विघटितम्.



## 17

दुवई—भीमपरक्रमेण भीमेण वि णासियभीमवईरिणा ॥

पच्चारिय भिडंत भड वेणिण वि सुरवहुहिययहारिणां ॥ छ ॥

हरिमस्सं काइं पइं मंतु दिट्ठु  
हक्कारिउ किं णियप्रौणणासु  
कुद्धइ तिविट्ठि भुवणेक्कसीहि  
ता धूमसिहें भासिउ सरोसु  
पंहिलउं पहुणा भुत्ती मणेण  
सिहिजडिणा सामिविरोहणेण  
दरिसावमि तुह जमरायथत्ति  
ता वे वि लग्ग ते सेण्णणाह  
वेणिण वि चालियदिच्चक्कवाल  
वेणिण वि उग्गामियचावदंड  
वाणेहि वाण णहयलि खलंति  
पुणु भीमें मुक्कउ अद्धयंदु  
रिउदेहमेहि सो पइसरंतु

किं मगिउ परत्तूर्यरणु इट्ठु ।  
एवहि पइसेसहु सरणु कासु ।  
तडितरलदीहकरवालजीहि । 5  
घरदासि हूरंतहुं कवणु दोसु ।  
पच्छइ तुम्हहुं दिण्णी अणेण ।  
किं एएं जडसंबोहणेण ।  
लइ पहरु पहरु जइ अत्थि सत्ति ।  
वेणिण वि सुरकारिकरसरिसवाह । 10  
वेणिण वि जयकारियसामिसाल ।  
वेणिण वि आमेल्लियकुलिसकंड ।  
तंणिणहसणरुह हुयवह जलंति ।  
धूमसिहहु णं अट्टमउ चंदु ।  
दिट्ठउ सुहिणयणहु तमु करंतु । 15

घत्ता—मारिवि धूमसिहु खयकालणिहु खाणि हरिमस्सु णिहत्तंउ ॥

णवर करंतु कलि भड देंतु बलि असणिघोसु संपत्तउ ॥ १७ ॥

## 18

दुवई—सो जियसत्तु णाम धरणीसें जममुहकुहरि ढोइओ ॥

सरविसहरणिरुद्धु वरपरिमैलु चंदणतरु व जोइओ ॥ छ ॥

तओ कंपणेसो समुप्पणरोसो ।

महेणं महंतो णहंतं पिहंतो ।

17 १ A °वइरिणो. २ A °हारिणो. ३ AP हरिमस्सु. ४ AP परतिय°. ५ AP पाण-  
णासु. ६ A °तरड°. ७ A हणंतहं. ८ AP पहिली पहुणा. ९ A तं णिहसिवि णर हुववह. १० AP  
णिहित्तउ.

18 १ AP °णिरुद्ध. २ A °परिमल.

17 4 a हक्का रिउ आकारितः. 8 b जडसंबोहणेण जडविवादेन. 9 a जमरायथत्ति  
यमग्रहम्. 13 b तंणिणहसणरुह तेषां वाणाना परस्परधर्षणेनोत्पन्नाः. 14 a अद्धयदु अर्धचन्द्राकारो  
वाणः. 16 णिहत्तउ मारितः. 17 भड देतु बलि भटान् बलिं ददत्.

- 18 1 सो अग्रनिघोषः. 2 सरविसहरणिरुद्धु शरा वाणा एव विपधरास्तेवैष्टितः. 3 a कंपणेसो  
कम्पनो राजा. 4 b पिहंतो आच्छादयन्.

कराईह्वावो	महाभीमभावो ।	5
सदप्पं चवंतो	सरोहं सवंतो ।	
धण णिल्लुणंतो	गइंदे हणंतो ।	
हण कप्परंतो	णरे चप्परंतो ।	
जवेणं चरंतो	रणे वावरंतो ।	
परं णिक्खिवेणं	जएणं णिवेणं ।	10
खुरुप्पेण भिण्णो	कयंतस्स दिण्णो ।	
जयस्सावलुद्धो	जमो णं विरुद्धो ।	
रउद्दारिमद्दो	पहू खेयरिंदो ।	
पियारत्तचित्तो	सयं झ त्ति पत्तो ।	
मरुद्धयच्चिंधो	सतोणीरिखंधो ।	15
दिसालगगकित्ती	तहिं अक्ककित्ती ।	
थिओ अंतराले	भडाणं वमाले ।	

घत्ता—तेण ससामियहु गयगामियहु रूसिवि दिण्णउ उत्तर ॥  
देव पराइयहि कारणि तयहि किं आढत्तउ संगरु ॥ १८ ॥

## 19

दुवई—लज्जिज्जइ रणेण णित्तेएं दुज्जसमल्लिणकारिणा ॥  
ओसरु जाहि राय किं एएं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ छ ॥

ता भणित्ता समरभरधुरभुएण	णीलंजणपहदेवीसुएण ।	
रे अक्ककित्ति गुरुसिक्खवंतु	लज्जहि ण केव विप्पित्त चवंतु ।	
तुह ताएं अवरु वि पइं सदप्प	जं आणालंघणु कयउं वप्प ।	5
तहु लग्गउ हउं णियपरिहवासु	सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु ।	
ता रविकित्ति दीवियादियंतै	सुपिसक्क मुक्क धगधगधंगंत ।	
खगणाहहु खंडित्त चावदंडु	गुणवंतु तो वि किउ खंडंखंडु ।	

३ AP कराइद्द<sup>०</sup>. ४ AP सरोसं वहतो. ५ A omits this foot. ६ P जमो णाविरुद्धो.  
७ P सतोणीरकंधो. ८ AP तियहे.

19. १ AP <sup>०</sup>धुरभुएण. २ A <sup>०</sup>दियति. ३ A <sup>०</sup>धगंति. ४ AP खंडु खंडु.

6 b सरोहं सवंतो बाणसमूहं वर्षन्. 8 b चप्परंतो अभिभवन्. 12 a जयस्सावलुद्धो जयस्य लोभिष्ठ 17 b वमाले कोलाहले.

19. 1 णित्तेएं निस्तेजसा अन्यायेन. 5 a सदप्प हे सगर्व. 6 a णियपरिहवासु निज-पराभवस्य, b सस स्वसा. 7 a रविकीत्ति अर्ककीर्तिना.

अण्णेकु सरासणु अ त्ति लेवि  
 चूडामणि पाडिउ विष्फुरंतु  
 मारुयचलंतचलमयरकेउ  
 वंधंतु ठाण संधंतु वाणु  
 राक्खियउ पयावइराणएण  
 केसरिणा णं तीसिउ कुरंगु  
 ससिसेहरेण पडु पोयणेसु  
 अंतरि पइसिवि तिणयणु तिसूलि

राएण तासु चाणें हणेवि ।  
 णं णहयलि णिवडिउ रवि तवंतु । 10  
 तावंतरि थक्कउ कार्मदेउ ।  
 तेणक्ककित्ति मारिज्जमाणु ।  
 धणुवेयविवेयवियाणएण ।  
 किंउं पाराउड्डउ तें अणंगु ।  
 मेहें पच्छाइउ णं दिणेसु । 15  
 सिहिजडिणा णिज्जिउ चंदमउलि ।

घत्ता—किंकरुं हयगलहु पालियड्डलहु कोवें कहिं वि ण माइउ ॥  
 णामें णीलरहु णं कुरगहु अवरु खयर उद्धाइउ ॥ १९ ॥

## 20

दुवई—पभणइ चावपाणि रे सिहिजडि जं पइं दुक्कयं कयं ॥  
 तं हयगीवदेवपयपंकयदोहफलं समागयं ॥ छ ॥

हो कि वोळ्ळमि  
 एंव चवेप्पिणु  
 आउहु दावइ  
 किंकरि किंकरि  
 खरखुरखयधरि  
 णयणाणंदणि  
 चप्पिवि लग्गइ  
 थामें वग्गइ  
 पइसइ दूसइ  
 हिसइ तासइ  
 दुक्कइ हक्कइ  
 रिउं पच्चारइ  
 खलइ णिवारइ

मारमि घळ्ळमि ।  
 भुय विहुणेप्पिणु ।  
 धावइ पावइ ।  
 कुंजरि कुंजरि ।  
 हरिवरि हरिवरि ।  
 संदाणि संदाणि ।  
 रंगइ णिग्गइ ।  
 भंडणु मग्गइ ।  
 रुंजइ रूसइ ।  
 दीसइ णासइ ।  
 कोक्कइ थक्कइ ।  
 चूरइ जूरइ ।  
 दारइ मारइ ।

5

10

15

५ AP बाणेहिं हणेवि. ६ A णहयलणिवडिउ. ७ A reads a as b and b as a. ८ AP कामएउ. ९ A वंधंतु तोणु. १० P पारिज्जमाणु. ११ AP णासिउ. १२ A थिउ पारडिउ गरुउ अणंगु. १३ A किंकर.

20. १ AP दुक्किय. २ AP मारिवि. ३ A भंजइ.

11 b काम देउ प्रजापतिमहाराजः. 14 b पाराउड्डउ पराइमुखः. 15 a ससिसेहरेण चन्द्रशेखरेण.  
 16 a तिणयणु चन्द्रशेखर. 17 किंकर भृत्यो नीलरथः, हयगलहु अश्वग्रीवस्य.

20. 2 °दोहफलं द्रोहफलम्. 10 a थामें वलेण.

करिकरचंडिहिं	लाला <sup>१</sup> पिंडिहिं ।	
दंतादंतिहिं	कौंताकौंतिहि ।	
पैरकिलिविडिहिं <sup>६</sup> ।		
केसाकेसिहिं	पासापासिहिं ।	
उवलाउवलिहि	मुसलामुसलिहिं ।	20
इय सो जुज्जिउ	भीमुंहुउज्जिउ ।	
दुंदुहिसदें	ता वलहदें ।	
अरि हकारिउ	दइवें पेरिउ ।	
सो वि पराइउ	चावविराइउ ।	
णं णवजलहरु	विद्धउ हलहरु ।	25
तेण उरत्थलि	उट्टियकलयलि ।	
कंपियणियवलि	हरिसियपरवलि ।	
वाहुसहाणं	जयवइजाणं ।	
सीरें ताडिउ	उद्धु जि फाडिउ ।	
णीलरहाहिवि	हइ कइ जयरवि ।	30

घत्ता—णाणाणहयरहि संधियसरहि सहय्यहि सगयहि सरहहिं ॥  
वेदिउ जिव्वहरु दूसहपसरु वल्लु चित्तंगयपमुहहिं ॥ २० ॥

## 21

दुवई—मायासाहणाहं मयवंतहं माणियपहुपसायहं ॥  
पक्कें हलहरेण राणि जित्तइं सत्तसयाइं रायहं ॥ छ ॥

सुंयरिवि पहुदिण्णी तुप्पधार	केण वि विसहिय रिउखग्गधार ।	
सिरु छिण्णउं णिग्गय रत्तधार	गय एंव वप्प धाराइ धार ॥	
केण वि सुंयरिवि पहुअग्गोविंडु	इच्छिउ पडंतु णियमासपिडु ।	5
केण वि सुंयरिवि पहुचीरु रम्मु	मण्णिउ लंवंतु सदेहवम्मु ।	

४ A णायभुवदडहिं. ५ A किलिवदिहि. ६ AP add after this दडादडिहिं. ७ A भीउहउ-  
ज्जिउ. ८ A सयलहिं. ९ A चलचित्तगय.

21 १ P °साहणेहिं. २ A सुमरिवि, P सुअरिवि. ३ A रूपधार. ४ A सुअरिउ, P सुअ-  
रिवि. ५ AP °अग्गपिंडु. ६ A सुमरिवि, P सुअरिवि.

16 b लाला पिं डि हिं गजमुखाग्रकाष्ठै . 18 a °कि लि विं डि हिं वाहुच्छोटिकाभि 19 b पासापासि हिं  
नागपाशादिभि.. 21 b भीमुहउज्जिउ भयमुखरहितो नीलरथ . 23 a अरि नीलरथ.. 29 a सीरि  
हलेन. 30 b हइ हते सति. 32 जिव्वहरु वलभद्र .

21 1 °साहणाह सैन्यानाम्, 3 a पहुदिण्णी प्रभुणा भोजनवेलाया दत्ता. 5 a पहुअग्ग-  
विंडु प्रभुणा दत्तः प्रथमाहारपिण्ड .

केण वि सुयरिवि पहुदिणु गांडं  
 केण वि सुयरिवि पहुचामराइं  
 पहुसुकियभरहु वंकेवि वयणु  
 केण वि सुयरिवि पहुछत्तछाहि  
 केण वि सुंमरिवि पत्थिवपसाउ  
 केण वि सुयरिवि पहुपालियाइं  
 दुव्वारवइरिमग्गणविहत्तु  
 कासु वि रणमंदिरसांमिणीइं

छड्डिउं णियजीवियभूयगांडं ।  
 सलहियइं पक्खिपक्खंतराइं ।  
 केण वि पडिवणुणउं वाणसयणु ।  
 आसांधिय घणसरपुंखछाहि । 10  
 चक्खिउ अरिविरपहारसाउ ।  
 मयगलकुंभयलइं फालियाइं ।  
 भल्लारउं धीरउं रायरत्तु ।  
 हियवउं लड्यउं सिव्वं कामिणीइ ।

घत्ता—कासु वि सिरकमलु ओट्टउंउदलु गिद्धु सचंचुइ चालइ ॥ 15  
 परितोसियजणहु महिवइरिणहु णं मोल्लवणु णिहालइ ॥ २१ ॥

## 22

हुवंई—ता सहस त्ति पत्तु हरिकंधरु पभणइ तसियवासवो ॥  
 भो भो कहसु कहसु कहिं अच्छइ सो महु वइरि केसवो ॥ छ ॥

ता उत्तु कण्हेण भो मेइणीराय  
 जाणिज्जप अज्ज दोण्हं पि रूसेवि  
 कुद्धेण सिरिकुमुइणीपुण्णयंदेण  
 संगामरामारइच्छाणिउत्तेण  
 कण्णामुहालयसुहादिण्णराएण  
 रत्तो सि कि मूढ गयणैयरवालाहि  
 णवकंदकालिदिभसलउलकालेण  
 जम्मंतरावद्धवइराणुयंधेण  
 परद्विणपरधराणिपरघरिणिकंखाइ

सोहं रिऊ केसवो एहि णिण्णाय ।  
 को हणइ सिरु लुणइ रणरांगि पइसेवि ।  
 अलयाउरीसेण खेयरणरिदेण । 5  
 तं सुणिवि पडिलविउं सिहिगीवपुत्तेण  
 भग्गो सि कि मित्त वरइत्तवाएण ।  
 ओसरसु मा पडसु खग्गगिजालाहि ।  
 कोवारुणच्छेण भंगुरियभालेण ।  
 पडिउंत्तु पडिकण्हु चलगरुलावंधेण ।  
 णडिओ सि पाविट्टु कि चोरसिक्खाइ ।

७ A गाउ; P गासु. ८ A उड्डिउ. ९ A °गाउ, P °गासु. १० A तुअरिउ; P सुअरिवि ११ A पालियाइं. १२ A °सामिणीहिं. १३ A कामिणीहिं. १४ A उदुलदु.

22. १ AP पुण्णइंदेण. २ A कण्हो महा°. ३ P गयणयलवालाहि. ४ AP °णुयंधेण.  
 ५ A पडिलविउ.

7 a °गाउं ग्राम., b °गाउ ग्राम समूहः. 8 b सलहियइ श्लाघितानि. 11 b °पहारसाउ प्रार-  
 स्वादः. 13 a °विट्त्तु विभक्तं खण्डितं, b रायरत्तु राज्ञि ग्क्तमनुगत्तम्. 15 ओट्टउउदलु ओड  
 पुट्टदलम्.

22. 1 हरिकंधरु अश्वग्रीवः. 3 b णिण्णाय पत्नीवाञ्छया अन्वायकारः. 4 a स्मेति  
 नेप कृत्वा. 5 a °पुण्णयदेण पूर्णचन्द्रेण. 6 a °णिउत्तेण °नियुक्तेन. 8 a गयणयलवालाइ गेण  
 कन्यायाम्. 9 a णवकद° यावणमेघः. 10 b पडिकण्हु अश्वग्रीवः.

एवं पजंपंत कंपविर्यमहिवद्दु  
 दण्पिट्टु णिरु रुद्दु दद्वोद्दु भडजेद्दु  
 ते बे वि मणिमउडकुंडलसुसोहिल्ल  
 ते बे वि णं सीह लंबवियलंगूल  
 ते बे वि विसविसम ते बे वि तडितरल ते बे वि मरुचवल ते बे वि कुलधवल ।  
 घत्ता—वेण्णि वि दाणणिहि सिरितोसविहि मयपरवस उज्झियमय ॥  
 वेण्णि वि दीहंकर गंभीरसर राणि लग्गं णं दिग्गय ॥ २२ ॥

## 23

दुवई—वेण्णि वि अच्छरच्छिविच्छोहणियच्छियवद्धमच्छरा ॥  
 वेण्णि वि णं जलंतपलयाणल वेण्णि वि णं सणिच्छरा ॥ छ ॥

रिउणा ण णिट्टविउ	कण्हेण पट्टविउ ।	
जहि सप्पु तहि गरुलु	जहिं अग्गि तहिं सलिलु ।	
जहि सिहरि तहि कुलिसु	जहि तुरउ तहि माहिसु ।	5
जहिं विडवि तहिं जलणु	जहि मेहु तहिं पवणु ।	
जहिं रत्ति तहि दियहु	जहिं सीहु तहि सरहु ।	
जहि कालु सौंडालु	तहिं कुडिलु दाढालु ।	
केसरि पवित्थरइ	णहरेहि उत्थरइ ।	
जहिं भीमु वेयालु	तहि मंतु असरालु ।	10
जुंजेवि कोवेण	गोविदेवेण ।	
रिउणो णिहित्ताउ	विज्जाउ जित्ताउ ।	
जुज्जेवि भूवेहि	पडिवक्खरूवेहि ।	

घत्ता—वहुंरूविणिप सुरकामिणिप खगवइ भणिउ ण सक्कमि ॥  
 हलहरसिरिहरहं पहरणकरहं माणु मलंतु चवक्कमि ॥ २३ ॥ 15

६ A कंपइय महिपट्ट. ७ A °पविहड°. ८ P वइकुत°. ९ A रुजतसदूल. १० A दीहरकर.  
 ११ A लग्ग णं.

23 १ P °विच्छोहा णियच्छिय. २ A कुडिसु. ३ A कोल. ४ AP कुडिल. ५ A मति.  
 ६ A जुंजेवि, P जं ज वि. ७ P has पुणु before बहु°. ८ AP मलंति चम°.

12 b °परिहट्ट° परिघृष्टौ. 13 b वइकुंठहयकंठ कृष्णाश्वग्रीवौ. 16 a वि स वि म म विपवद्विपमो.

23 1 अच्छरच्छिविच्छोहणियच्छिय° देवाङ्गनालोचनचापल्यविलोकननिमित्तम्. 2 स णि-  
 च्छरा ग्गनैश्वरा.. 7 b सरहु अथापदः. 8 a कालुसौंडालु कृष्णगज. 13 b पडिवक्खरूवेहि  
 अश्वग्रीवरूपै.. 15 चवक्कमि विभेमि.

## 24

दुवई—जंपिउं ह्यगलेण किं केण वि तिहुयणि धीरु हीरण् ॥  
महुं णियवाहुदंडथिरसहय्यर पइं किर काइं कीरण् ॥ छ ॥

तेणेव भणेप्पिणु मुक्क सत्ति  
गयणयलि एंति उरयलि धुलंति  
विप्फुरिय धरिय दामोयरेण  
चंदणचच्चियकुसुमंचियंगु  
उग्गामिउ णाइं जगखइ खयक्कु  
बोल्लियउ पयावइपुत्तु एम्ब  
गोवालवाल अविवेयभाव  
इय भणिवि तेण घल्लिउ रहंगु  
तं देवि पयाहिण पइयतासु  
गहगहियदिवायरलील बहइ  
आयासहु णिवडिउ पुष्पवासु  
संभरु तुहुं जिणवरणाहचरणु  
ता भणइ सुहइ रणरंगदुक्कु

मेहें चलविज्जु व धगधगंति ।  
चल पलयकालजाल व जलंति ।  
संकेयागय णारि व णरेण । 5  
परिमलामिलंतगुमुगुमियभिंणु ।  
पुणु पडिवक्खें करि लेवि चक्कु ।  
एवहिं पइं णउ रक्खंति देव ।  
दे देहि कण्ण मा मरहि पाव ।  
तं पेक्खिखवि केण ण दिण्णु भंगु । 10  
चडियउ दाहिणकरि केसवासु ।  
णं हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ ।  
रिउ कण्हि पबोल्लिउ सो सहासु ।  
अहवा लँइ महुं पइसरहि सरणु ।  
हउं मण्णामि एउं कुलालचक्कु । 15

घत्ता—पइं पुणु मणि गणिउं चंगउ भणिउं भिक्खागयहु ससंकहु ॥  
तिव्वल्लुहामहणु गरुयउं गहणु तिलखलखंड वि रंकहु ॥ २४ ॥

## 25

दुवई—अज्ज वि सिसुमयच्छि महु अण्णिवि करि घणपणइसंधणं ॥  
मा पावहि कुमार तरुणत्तणि ताडणमरणबंधणं ॥ छ ॥  
असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुव्वयणं ।  
काउं वयणं डसियाहरयं भूमंगुरतंविरणयणं ।

24 १ P °सहयए अवरिं काइं. २ AP पडंति. ३ AP °जालेव पडति. ४ A जुगखय-  
खयंकु, P जुगखइ खयक्कु ५ A जाव. ३ A पहयरासु, P पहपयासु. ७ A लहु.

25 १ AP °पणयसधण.

24 1 हीरण् हार्यते. 4 b जालव ज्जालेव. 7 a खयक्कु प्रलयसूर्य. 8 a पयावइपुत्तु  
त्रिपृष्ठः. 10 a रहगु चक्रम्. 11 a पइयतासु प्रहतत्रासम्. 12 b °सुहमहिरुह° शुभवृक्ष. 13 b  
सहासु सहास्यम्. 17 गहणुं दुर्लभम्.

25 1 सिसुमयच्छि बालमृगाक्षी स्वयंप्रभा, घणपणइसंधणं निविउस्नेहसधिम. 3 ससवण-  
सूल स्वकर्णशूलम्. 4 भूमंगुरतंविरणयणं भूमङ्गयुक्तमाताम्रं नयनं यस्मिन् वदने.

हरिणा दित्तं घित्तं चक्रं सहसाराधाराजलियं  
 हयगलगलकंदलयं दलियं वहलं कीलालं गलियं ।  
 कुंडलकिरणं फुरियकवोलं कं कुंभिणिवलयइ पडियं  
 णं सरसं तामरसं सदलं कालमरालाहिवखुडियं ।  
 कामिणिकारणि कलहसमत्तो परणरकरसरहयगत्तो  
 आसग्गीचो वियलियजीवो सत्तमणरयं तं पत्तो ।  
 णहयरविसहरमहिमणुणहिं सामि भणेप्पिणु संगहिओ  
 जयजयरवपूरिउ भुवणेहि हरि हलहरसहिओ महिओ ।  
 हिडिचि दाहिणभरहतिखंडे णरवइ सवसं को ण णिओ  
 मागहदेवो वरतणुणामो अवि य पहासो तेण जिओ ।  
 दिणयरकित्ति हुयवहजडिणा हलिणा तस्स पयावइणा  
 वद्धो पट्टो विउले भाले मंगलविलसियजणरइणा ।  
 पडरपयावाकांपियभुवणो असिवरदूसियकूरमई  
 णियकुलकुवलयकुवलयबंधू जाओ कण्हो चक्कवई ।  
 उहसेदीणं रायं काउं जलणजडिं ससुरं खयरं  
 आओ गुरुयणपणवियसीसो पुणरवि तं पोयणणयरं ।

5

15

20

घत्ता—लइ दीसइ पवरु एउ वि अवरु णिच्छयणियमणित्तं ॥

इह सुपुरिसचरिउं बहुगुणभरिउं जगि आढत्तु समत्तं ॥ २५ ॥

## 26

दुवई—मणहरभइलक्खणायारहं णहर्यललग्गकुंभहं ॥

दोचालीसलक्ख मायंगहं अरिक्खिवरणिसुंभहं ॥ छ ॥

तेत्तिय रह रणभरजोत्तियाउ

पायालहु कोडिउ तेत्तियाउ ।

जलथलगयणंतरजंगमाहं

णवकोडिउ जाइतुरंगमाहं ।

जंभारिपीलुलीलागईउ

महएविउ अट्ट महासईउ ।

5

२ A घित्तं दित्तं चित्त. ३ P कलहु. ४ A णरए त पत्तो. ५ AP पूरिय. ६ A पवर°. ७ A कूरगई, P कूरमई. ८ AP णियकुलणहयल°. ९ A राउं काउ. १० A °णमिय°.

26 १ A णहयरलग°. २ A णव भणियउ जाइ°.

6 हयगल° अश्वप्रीव, कीलाल रुधिरम्. 7 क मस्तकम्, कुंभिणिवलय भूमण्डले. 8 कालमराला-  
 हिव° यम एव हंसाधिपः. 9 °सरहयगत्तो सह अरैर्वर्तते इति सर चक्र तेन हतगात्र. 15 दिणयर-  
 कित्ति अर्ककीर्तिना. 16 मंगलविलसियजणरइणा मङ्गले विलसिता जनानां रतिर्यत्र तेनार्ककीर्तिना.  
 18 °कुवलयबंधू चन्द्रः. 19 उहसेदीण उभयश्रेण्योः.

26 3 b पायालहु पदाते, 4 b जाइतुरंगमाह जात्याश्वानाम्, 5 a जंभारिपीलु° ऐरावणः.



णिरु पीणपीवरुणयथणीहिं  
 सोलह सहास देसंतराहं  
 सोलह सहास घरि पत्थिवाहं  
 तह णव सहास मेच्छाहिवाहं  
 चउवीस सहस वरपट्टणाहं  
 छत्तीस सहस साहिय पुराहं  
 पच्चंतणिव्वासहं णिवइ णयइं  
 गिरितरुजलवाहिणिसंगमाइं  
 गामहं कोडिउ अडदाल जासु  
 जा णाम सयंपह इट्टणारि

सोलह सहास सीमंतिणीहिं ।  
 सोलह सहास णांडयवराहं ।  
 सोलह सहास खेडाहिवाहं ।  
 पण्णास सहस दोणामुहाहं ।  
 सत्तेव सहस संवाहणाहं । 10  
 वसुसमसहास जक्खामराहं ।  
 पण्णास णिउत्तइं तिण्णि सयइं ।  
 चउदह वणदुग्गइं दुग्गमाइं ।  
 किं अक्खामि संपय वप्प तासु ।  
 जा णहयरणाहहु हुइय मारि । 15

घत्ता--तहि परमेसरिहि रइरससरिहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥

पहिलउ सिरिविजउ वीयउ विजउ तणय दोणिण उप्पण्णा ॥ २६ ॥

## 27

दुवई—ता सिहिजाडे सपुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥

गउ रहणेउरम्मि दहं जिणगुणसुमरणसामियदुम्मई ॥ छ ॥

सो तहिं ए एत्थु वसंति जांव  
 सो पुच्छिउ हरिताएण कुसल्लु  
 असहायसहेजउ सच्चसंधु  
 तं सुणिवि तेण खयरेण उत्तु  
 थिरु धरिवि पंचपरमेट्टिसेव  
 पयइं वयणइं आयणियाइं  
 ता एण सहहि संसं णियाइं  
 सणएण पयावइपत्थिवेण  
 अणुहुत्तउं इच्छिउं पुत्तसोक्खु  
 लइ जामि रण्णुं पावज्ज लेमि  
 हरिहलहरमउडणिरुद्धपाउ

बहुकालहि णंहणरु दुक्कु तांव ।  
 सुहं अच्छइ जिणपयपोमभसल्लु ।  
 खयराहिउ गुणि महु परमबंधु । 5  
 मेल्लिवि खगणिवचक्केसरत्तु ।  
 महिवइ ससुरउ पावइउ देव ।  
 सज्जणचरियइं मणि मणियाइं ।  
 इंदियसुहाइं अवगणियाइं ।  
 आउच्छिय तणुरुह वे वि तेण । 10  
 एंवहि संसाहमि परममोक्खु ।  
 वयसंजमभारहु खंधु देमि ।  
 पत्थिउ थिउ केव वि णाहिं ताउ ।

३ P णडणयवराहं. ४ AP तहो. ५ A णिवइ णियइं. ६ A °संगमाह. ७ A °दुग्गमाह.

27 १ AP णहयरु. २ A सुह अच्छइ. ३ A रण्णि. ४ AP सजसु.

12 a णयइं नतानि. 16 त हि तस्या स्वयंप्रभायाम्, हरिसरवण्णा हर्षमनोहरौ.

27 2 रहणेउरम्मि रथनूपुरचक्रवालम्. 3 a ए कृष्णहलिप्रजापतयः, b णहणरु खेचरः.  
 4 a हरिताएण प्रजापतिना. 5 a °सहेजउ °सहायः. 7 b पावइउ प्रव्रजितः. 9 a संसंणियाइ  
 शंसां प्रशंसा नीतानि. 10 a सणएण सन्यायेन.

णिम्मुक्कमाणमायामएहिं  
परिसेसिवि मंदिरमोहवासु

णरणाहहं सहुं सत्तहिं सएहि ।  
वउ लइउं पासि पिहियासवासु । 15

घत्ता—थिउ परिहरिवि जणु पँयसेवि वणु णिच्चमेव णिच्चलमइ ॥  
अट्ट वि णिँहुणिवि कम्मइं जिणिवि गउ सिवपयहु पयावइ ॥२७॥

## 28

दुवई—एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवरिदहो ॥  
चउरासीदि लक्ख गय वरिसहं तहिं पुरवरि उविदहो ॥ छ ॥

दीहासीचावपमाणगत्तु  
णिद्धम्मचित्तु णिलुत्तणाणु  
जिह सुत्तउ तँव जि कणहलेसु  
उप्पणउ तमतमपहि तमोहि  
तेत्तीससमुदपमाणु आउ  
जायउ णारउ णारयहं गम्मु  
सँइं रुयइ सयंपह कंत कंत  
उट्टुट्टि णिहालहि सुहिमुहाइं  
वलएवहु धाहारुणएण  
णिसुणेवि साहुवयणामयाइं  
पियँविरहँ हुयवह पइसरंति

अण्णहि दिणि भोयसुहँ अतित्तु ।  
वहुंतमहंतैरउदइणाणु ।  
मुउ कणहु जमहु किर को ण वेसु । 5  
पँचविहदीहदूसहदुहोहि ।  
पंचसयसरासणतुंगकाउ ।  
भणु कँवणु ण मारइ भीमकम्मु ।  
अतुलवल देव हयगलकयंत ।  
दीहइ णिहइ सुत्तो सि काइं । 10  
लोय वि रुयंति कारुणएण ।  
णिज्जाइवि जिणपयपंकयाइं ।  
वारेवि सयंपह अणुमरंति ।

५ AP पइसरिवि वणु. ६ A णिद्धविवि.

28 १ AP चउरासी वि. २ AP वहुतरउदमहंतइणाणि. ३ P कोण दोसु. ४ A विहपंच-  
दीह°. ५ AP केम ण मारइ. ६ A सरुयइ. ७ P पियविरहए.

15 a परिसेसिवि त्यक्त्वा. 16 पयसेवि प्रविश्य.

28 1 णिसिय° तीक्ष्णा. 2 उ विं दहो कृष्णस्य. 3 b अतित्तु न वृत्तः. 4 b वेसु द्वेष्यः.  
6 b पचविहदुहोहँ परिणामदेहवेदनाविक्रियाः परस्परोदीरितदुःखा . 9 b हयगलकयंत अश्वग्रीवस्व  
कृतान्त. 11 a धाहारुणएण धाहारुदितेन.

सिरिविजयहु वंधिवि रायपट्टु वणु रायसहासहि सहं पयट्टु ।  
 गुरु करिवि महारिसि कणयकुंभु तउ चिण्णउ सीरिं रइणिसुंभु । 15

घत्ता—गउ मोक्खहु विजउ जिणधम्मधउ तेएं भरहु भडारउ ॥  
 सोसियमोहरसु भुवणंतजसु पुष्पयंतसरवारउ ॥ २८ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए  
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे विजयतिविद्वह्यगीवकहंतरं  
 णाम दुवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५२ ॥

८ A सीरिं. ९ AP रयणिसुंभु. १० A जिणधम्मरओ.

15 ७ रइ णि सुंभु रतिविनाशकं रागरहितमित्यर्थ . 16 तेएं भरहु तेजसा नक्षत्राच्छादकः. 17 पुष्प-  
 यंत सरवारउ पुष्पाण्येव कान्ता. शरा यस्य तस्य कामस्य वारको निषेधकः.

पणविवि देवहु णेयंतणित्तंजियदिट्ठिहि ॥  
वासवपुजहु सिरिवासुपुजपरमेट्ठिहि ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

जो कल्लाणसयालओ	मायाभावसयालओ ।	
हरिणवंदपहुआसणो	कुणयकुडंगहुयासणो ।	
कणयरकविलणिवारणो	अज्जुणवारिणिवारणो ।	5
दुविहकम्मकयणिज्जरो	सुहयावयवो णिज्जरो ।	
जो णिण्णासियभयजरो	दाणालो जिणकुंजरो ।	
जैस्स अणंतं वीरियं	अवि णै हणइ णियवइरियं ।	
जो ण महइ दियवइरियं	मज्जे जेण ण ईरियं ।	
सुत्तं जस्स ण मंसए	पाए जस्स णमंसए ।	10
अरइयरइणिव्वाणओ	ईसकेऊ णिव्वाणओ ।	
वारहमो तित्थंकरो	पणयाणं तित्थंकरो ।	
जो जम्मंवुहिपोयओ	वसिकयहरिकरिपोयओ ।	
वुज्झियवत्थुवियप्पयं	तं णमित्तं परमप्पयं ।	
भणिमो तस्स महाकहं	च्चिण्णं तेण तवं कहं ।	15
कुलवलजाईसामयं	मोत्तुं जम्मं सामयं ।	
काउं देहं खामयं	जिह लद्धं मोक्खामयं ।	

घत्ता—तिह हउं भासमि सुणि सेणिय कि सिरिगावें ॥  
जिणगुणचित्तइ चंडालु वि मुच्चइ पावें ॥ १ ॥

1 १ भवजरो. २ AP जस्ताणत. ३ A णिहणइ. ४ AP असकेओ.

1 1 णेयत णिउजियदिट्ठिहि ज्ञेयान्ते प्रमेयपर्यन्ते नैकान्ते वा नियुक्ता दृष्टियेन तस्य. 3 a कल्लाणसयालओ पञ्चमहाकल्याणानामभ्युदयपरंपराणा च सन् शोभन आलय आश्रयः, कल्याणशताना वा आलय, b मायाभावसयालओ मायापरिणामानां सदा लयो विनाशो यत्र. 4 a हरिणवदपहुआसणो हरिणवृन्दाना प्रभव. सिंहा आसने यस्य, b कुणयकुडंगहुयासणो कुनया एव कुडंगं लघु-ज्ञाद्यक ( वृक्ष ) समूहस्तस्य हुताशनोऽग्निः. 5 b अज्जुणवारिणिवारणो अर्जुनं श्वेत वारिनिवारणं छत्र यस्य. 6 a दुविहकम्म<sup>२</sup> द्रव्यभावरूप शुभाशुभरूप वा द्विविधं कर्म, b सुहयावयवो सुभगशरीरावयवः, णिज्जरो जरारहितः. 7 b <sup>०</sup>कुजरो प्रधान. 9 a दियवइरियं द्विजपतिर्ब्राह्मणस्तस्य ऋचं वेदम्, b मज्जे मद्ये येन न ईरितं सूत्रम्. 10 a णमंसए मासेऽपि यस्य न सूत्रम्. 11 a अरइयरइणिव्वाणओ अर-चित्तरतिसुख, b णिव्वाणओ वाणरहित. 13 a <sup>०</sup>पोयओ पोत प्रवहण, तारक इत्यर्थ. 14 a वुज्झिय-वत्थुवियप्पयं ज्ञातपदार्थभेदम्. 16 a कुलवलजाईसामयं कुलवलजातिलक्ष्मीणा मदम्, b सामयं व्याधिसहितम्. 17 b मोक्खामयं मोक्षामृतम्. 18 सिरिगावे लक्ष्मीमदेन.

## 2

पुक्खरवरदीवद्धए	मणुउत्तरगिरिरुद्धए ।	
तडउगयसुरदारुणो	इंदिसासियमेरुणो ।	
पुव्वविदेहे जणरुई	पीणियखगउलसंतई ।	
तत्थं वारिमंथरगई	सीया णाम महाणई ।	
पायवसुरहिसमीरण	तीए दाहिणतीरण ।	5
संतोसियणरवरमई	वरदेसो वच्छावई ।	
घरसिरकयणहसाइयं	उच्छवपडहणिणाइयं ।	
धुयधयमालाराइयं	रयणउरं रयणाइयं ।	
तेहिं राओ पउमुत्तरो	जो सीलेण जगुत्तरो ।	
देवी तस्स मयच्छिया	णामेणं धणलच्छिया ।	10
दोण्हं जणियाणंगओ	दीहो कालो णिग्गओ ।	
तलतमालतालीघणे	आसीणो पुरउववणे ।	
सत्तुमित्तसमचित्तओ	अरुहो तित्थपवत्तओ ।	
धम्मसलिलसिंचियधरो	महिओ तेण जुयंधरो ।	
मुणिओ वत्थुविभेयओ	उप्पण्णउ णिव्वेयओ ।	15
दाउं परिपालियखमं	धणमित्तस्स कुलक्कमं ।	
सह णिवेहि साहियमणो	सममण्णियतणकंचणो ।	
जाओ राओ मुणिवरो	गिरिगहणे लंविक्करो ।	
चरइ तवं सो जेरिसं	को किर वण्णइ तेरिसं ।	
घत्ता—णिरु णिप्पिहमइ परमेसरु पंथहु लग्गउ ॥		20
जिह देहें रिसि चित्तेण वि तिह सो णग्गउ ॥ २ ॥		

## 3

माणसे असक्कयाइं	पंच पंच एकयाइं ।
बुज्झिउं सुयंगयाइं	ताविउं णियंगयाइं ।
इंदियाइं पीडिउण	दुक्कियाइं साडिऊण ।

2 १ A जणरई. २ A खगउडमतई. ३ AP तेत्थु. ४ P तहिं मि गउ पउमुत्तरो.  
५ A देहेण.

3 १ A ताविओ.

2 2 a तडउ गयसुरदारुणो तद्योत्पन्नदेवदारुवृक्षस्य, b इंदिसासियमेरुणो पूर्वदिगा-  
श्रितमेरोः. 3 a जणरई लोकानां रुचिकारिका सीता नाम नदी. 7 a घरसिरकयणहसाइयण-  
शिरोभिः कृत नभस आस्वादन यत्र. S b रयणाइय रत्ने आचिन जट्टिनम्. 15 a वत्थुविभेयओ  
पदार्थभेदः. 16 a णिसं धमा पृथ्वीम्. 20 णिप्पिहमइ निःसृष्टमति .

3 1 a अनक्कयाइं अचिन्तितानि.

अज्जिऊण चारु चित्तु	तित्थणाहणासु गोत्तु ।	
भाविऊण संतणाणु	झाइऊण धम्मझाणु ।	5
उज्जिऊण खाणु पाणु	तेण मुक्कु झ त्ति पाणु ।	
णिग्गओ सरीरयाउ	णं रईसरीरयाउ ।	
जम्मसायरे पडंतु	दुक्खविब्भमे वडंतु ।	
चंदकंतकंतिसुक्कि	जायओ महंतसुक्कि ।	
सोलसण्णवप्पमाउ	पोमलेसु सुब्भतेउ ।	10
हारदोरसोहमाणु	अट्टअद्धहत्थमाणु ।	
अट्टअट्टपक्खसासु	पुण्णचंदसंणिहासु ।	
चोत्थभूयलंतलक्खु	सद्दजायकामसोक्खु ।	
यत्ता—सोलहसहसहं गय वरिसहं एकसु भुंजइ ॥		
जो सो सुरवरु वुहहियवउं कि णउ रंजइ ॥ ३ ॥		

4

लेसमासजीवियम्मि	दिव्वपुंगमे थियम्मि ।	
जक्खणाहु भासुरेण	बोल्लिओ सुरेसरेण ।	
जंबुदीवि भाणुभासि	भारहम्मि अंगदेसि ।	
दोक्खलक्खलोट्टणम्मि	चंपणामपट्टणम्मि ।	
अत्थि दव्वपुज्जराउ	सत्तुसीसदिण्णपाउ ।	5
तस्स पत्ति कामवित्ति	वल्लहा जयावइ त्ति ।	
ताहं होइदिंदियारि	अंगओ अहम्महारि ।	
जाहि देवै सोक्खजुत्ति	ता धणाहिवेण झ त्ति ।	
णिम्मियं पुरं वरोहिं	मोत्तिएहिं कच्चुरेहिं ।	
कंजळण्णवावियाहिं	दीहियाहिं खाइयाहिं ।	10
फुल्लगुंछवच्छएहिं	कूवएहिं कच्छएहिं ।	
तीरिणीतलायएहिं	चित्तदारभायएहिं ।	

२ P °पक्खमासु.

4 १ जंबुदीवभाणुभासि. २ A होहि इंदियारि; P होहिदिंदियारि. ३ A देहि सोक्ख°. ४ AP फुल्लगोच्छ°.

4 a चित्तु आश्चर्यभूतम्. 5 a संतणाणु स्वान्ते ज्ञानम्. 7 b रईसरीरयाउ रतिनदीवेगात्. 11 b अट्टअद्ध° चत्वारः. 12 a अट्टअट्ट पोडश. 13 a चोत्थ भूयलतलक्खु पद्मप्रभापर्यन्तावधिज्ञानं., b सद्दजाय° शब्दोत्पन्नम्. 14 एकसु एकवारम्.

4 1 a लेसमास° पण्मासाः. 4 a दोक्ख° दुःखम्. 5 a दव्वपुज्जराउ वल्लभूगो गजा. 7 a होइदिंदियारि होइदि भविष्यति इंदियारि इन्द्रियाणा जेता, b अंगओ अङ्गज. पुत्र. 9 b कच्चुरेहिं सुवर्णं. 11 a °वच्छएहिं °वृक्षैः.

हृष्टिट्टचच्चरेहिं  
दीहरत्थमग्गएहिं  
धूवगंधसुंदरेहिं

गामगोहदुच्चरेहिं ।  
वोममग्गलग्गएहिं ।  
सत्तभूमिमंदिरेहिं ।

15

घत्ता—एहउ सोहइ जं पुरु तहिं घरि सुहुं सुत्तइ ॥  
सिविणयसंतइ पविलोइय पंकयणेत्तइ ॥ ४ ॥

## 5

हत्थि दाणवारिवाहरत्तमत्तच्छप्पओ  
केसरी मयंधगंधकुंभिकुंभदारणो  
हंसकामिणीहिं सेवियारविंदवासिरी  
पारियायपोमपोंभलं परायसंभुयं  
णासियंधयारओ वरो<sup>१</sup> विहावरीवई  
पेममैभला चला णिरंतरं वियारिणो  
वारिवारपूरियं सरोरुहेहिं अंचियं  
पंकयायरो चलंतलच्छिणेउरारवो  
सीहमंडियासणं रणंतकिकिणीसरं  
पुंजओ मणीण दित्तिरंजियावणीयलो

गोवई विसाणघायभग्गसालिवप्पओ ।  
णक्खजोण्हियामिलंतमोत्तियंसुवारणो ।  
पुंडरीयवामणेहि सिचिया महासिरी ।  
मत्तभिंसंगयं ललंतमालियाजुयं ।  
कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई । 5  
कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।  
कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं ।  
णीरघुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो ।  
इंदमंदिं वरं महाफणीसिणो घरं ।  
धूमचत्तओ पलित्तओ सिहाचलोणलो 10

घत्ता—सिविणय जोइवि देविइ णियणाहहु भासिउं ॥  
तेण वि तप्फलु णिच्चप्फलु तहि उवएसिउं ॥ ५ ॥

## 6

णाणचक्खुणा जो णिरिक्खए  
पोसए पिए दुव्वसामिए

जो जयं असेसं पि रक्खए ।  
सुंदरी हले मज्झखामिए ।

५ AP वोमधामलग्गएहिं. ६ A सुहि सुत्तइ.

5 १ A रंतमत्त°. २ A हिमाहिवो णिसावई. ३ A पिमविंभला. ४ AP तारवारिपूरियं.  
५ A सीहवीडिय रणत°. ६ A त फलु णिच्चफलु.

12 b °दारभायएहि °द्वारभागै.. 13 b गामगोहदुच्चरेहिं ग्राम्यपुरुयदुश्चरैः.

5 1 a °रत्तमत्तच्छप्पओ रत्ता मत्ताश्च पट्पदा भ्रमग यत्तिमन्, b °सालिवप्पओ °वेदाण्णउ.  
2 b णक्खेति नखकान्तिस्तया सह मिलता मौक्तिककिण्णानां निवारक. 3 b पुंडरीयवामणेहि पदो  
पलक्षिनकल्लो., पुण्डरीकवामनदिग्गजाभ्या वा. 4 a °पोंभलं मिन्म, परायसंभुयं परागम्य मग्ग  
मिम्. 6 a पेममैभला प्रेमविहलो, b विसारिणो मत्त्या.. 7 a वारिवार° जलसू.. 10 b सि  
चलोणलो शिखाभिश्चज्जलोऽमि..

6 1 b जयं जगत्. 2 a पिए हे प्रियं, दुव्वसामिए दूर्वावन् श्यामाद् .

सो तुममि होही जिणेसरो  
सकपेसिया देविया सिरी  
आगया घरं देहसोहणं  
तिण्णि तिण्णि मासे धणी वसो  
मेहजाललीलापयासए  
छट्टए दिणे किण्हपक्खए  
चरणकमलजुयणावियपण्णओ  
पुणु पयत्थसममासमेरओ

भव्वजीवराईवणेसरो ।  
कंति कित्ति बुद्धी सई हिरी ।  
ताहिं तम्मि तिस्सा कयं घणं । 5  
बुट्ठओ सुवण्णंभपाउसो ।  
पावणम्मि आसाढमासए ।  
तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए ।  
गम्भकंजकोसे णिसण्णओ ।  
णिच्च सवइ कणयं कुवेरओ । 10

घत्ता—चउसंखाहिइ जलणिहिपण्णासइ ढलियइ ॥  
पल्लहु तिजइ भायम्मि धम्मि परिगालियइ ॥ ६ ॥

7

गइ सेयंसइ  
मासइ फग्गुणि  
कंपियतिहुवाणि  
दुरियविओयइ  
उप्पण्णो इणु  
हरिसोल्लियमणु  
चंपापुरवरं  
णिज्जियसयदलि  
बुद्धिणिसुंभयं  
गाहिऊणं पहुं  
सक्केणं तउ  
लग्गणमेरुणो  
गंतुं गयंमलि

सिवसरहंसइ ।  
पक्खइ तमघाणि ।  
चउदहमि दिणि ।  
वारुणजोयइ ।  
वारहमो जिणु ।  
पत्तो सुरयणु ।  
णविऊणं धैरं ।  
जणणीकरयलि ।  
मायाडिभयं ।  
रइभिसिणीविहुं ।  
कुं भणिउं गउ ।  
सिहरं मेरुणो ।  
पंडुसिलायलि ।

5

10

घत्ता—णाहु थवेप्पिणु जियतारहारणीहारहिं ॥  
पहविउ सुरिदहि घडवियलियचंदिरधारहि ॥ ७ ॥

15

6 १ A सुवण्णंभुपाउसो. २ A कण्हपक्खए.

7 १ P सिवभर°. २ A पुरवरे. ३ A घरे. ४ A तं भणिओ, P कु भणिओ. ५ A गय-  
गले. ६ A has ता before णाहु.

3 b १ रा ईवणेसरो ०कमलाना सूर्यः. 5 b घणं निविडम्. 6 a वसो भक्तिवशः इन्द्राधीनो वा, b सुव-  
ण्णं भपाउसो सुवर्णजलप्रावृट्कालः. 8 b तित्थणाहसंखम्मिरिक्खए चतुर्विंशतितमे शतभिषानक्षत्रे.  
10 a पयत्थसममासं नव मासान्.

7 4 b वारुणजोयइ शतभिषानक्षत्रे. 9 a बुद्धिणिसुंभयं मतिम्यभिचारकम्. 11 b कुं  
भणिउं कुं इति गजप्रेरणसज्ञा, तथा सज्ञया भणितो गज., प्रेरित इत्यर्थ.



## 8

पुज्जिवि वंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि  
तणयालोयणतुट्टियहि तुच्छोयरिहि  
इंइं रुंदाणंदवसु तिह णच्चियउं  
पणविवि परमं परमपरं णेहि चलियधओ  
अणणहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ  
वरिसि विसुद्धवुद्धिसहिइ हयदुट्टुमइ  
काले वंहुंतहु गुणेहिं जाणियमणुहि  
कुंअरत्ते परमेसरहो कीलाणिरय

खेयर विसहर सुररमणिसंमाणियहि ।  
आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि ।  
जिह महिचलणे फणुउलु विंभियकुंचियउं ।  
सहुं परिवारे सगवई सुरलोउ गओ ।  
सव्वउ कलउ सलक्खणउ अप्पणु मुणइ । १  
सावयसीलि परिट्टियउ गव्वट्टुमइ ।  
जायइ माणु सरासणइं सत्तरि तणुहि ।  
अट्टारह संवच्छरहं तहु लक्ख गर्य ।

घत्ता—णवद्युसिणछवि करणुज्झियणाणपहायरु ॥

णिव कुलमाहिहरे उग्गउ णं वालदिवायरु ॥ ८ ॥

10

## 9

एकहिं दिणि णिव्वेयउ भासइ तउ करमि  
लोयांतियसुरवंदहिं लहु संवोहियउ  
फुल्लियफलियमहीरुहरंजियसडयणहु  
कयचउत्थु मज्झत्थु महत्थु महंतमइ  
फंगुणि कसणि चउद्वसिदिणि विरयं लइउ  
तेण समउं संसारहु णिव्विण्णइं वरंइं  
तिक्खु चरित्तु चरंते पाउ गलत्थियउं  
कामहु पंच वि चंडइं कंडइं खंडियइं

जेण पुणु वि संसारि असारि णं संसरमि ।  
माणवदाणवदेवहिं ण्हविवि पसाहियउ ।  
सिवियाजाणारूढउ गउ मणहरवणहु ।  
मणपज्जवपरियाणियमाणुसमणविगइ ।  
सयभिसहइ सायणहइ सो सइं पावइउ । १  
सयइं णिवहं पावइयइं छहछाहंतइं ।  
मोहसमुहु रउहु सुटुंम्महु मंथियउ ।  
इंदियदुट्टुकुंडुवइं मुणिणा दंडियइं ।

8 १ A सुररमणी°; °सुरवररमणी°. २ A छउओयरिहि, P तुच्छओयरिहि. ३ AP विमय°. ४ A णहचलिय. ५ A वट्टंते. ६ A कुमरत्ते, P कुवरत्ते. ७ AP °णिरया. ८ AP गया. ९ A णं उग्गउ.

9 १ A ण पइसरमि. २ A सिवियाजाणइ रूढउ. ३ P माणविगइ. ४ A फंगुणकसगउद्वसिदिण° ४ AP सविसाहइ. ५ A चरइं. ६ A °छाहंत°. ७ A सुसंमुहु. ८ P °कुंडुवइ.

8 3 b विं भियकु चियउ भयेन ( वित्तयेन ? ) सकुचितम्. 5 b अप्पणुमुणइ स्वयमेव जानाति. 6 a वरिसि गर्भाष्टमे वर्षे. 8 a कुंअरत्ते कुमारत्वेन; कीलाणिरय क्रीडानिग्ताः. 9 करइ ज्झियणाणपहायरु इन्द्रिवरहितावविज्ञानप्रभावान्. 10 णिव हे श्रेणिक.

9 2 b पसाहियउ प्रसाधितः पूजितः. 4 a °चउत्थु° एकोपवाकः; b °माणुसमणविगइ° नग्मनसो विविधाक्षेत्राः. 5 a विरयं विरत्या चारित्रेण शरीतः b सयभिसरइ मन्थियन्ते. 8 a कंडइं वाणाः.

चंगुं सुत्तु धरेप्पिणु मणपुरवरु थविउं दिहिपायांरु रपप्पिणु रिउंवल्लु विह्विउं ।  
विसयकसायहं चोरहं कुहिणिउ दूसियउ रयणत्तयभाभारं लोउ पयासियउ । 10

घत्ता—वीयइ वासरि पइसरिवि महाणयरंतरि ॥

भिक्खहि कारणि परिभमइ जईसरु घरि घरि ॥ ९ ॥

## 10

आवंतु भडारउ भावियउ	सुंदररापं पांरावियउ ।
तहु मंदिरि सहसा वित्थरिउं	पंचविहु वियंभिउं अच्छरिउं ।
थिउ पक्कु वरिसु रिसि तिक्कतवि	णिल्लूरियभवसंभवविभवि ।
णिद्धाडियसाडियमोहरइ	ससहरि विसाहणक्खत्तगइ ।
माहम्मि सुद्धवीयहि वलिउ	घणघाइचउक्कु विणिहलिउ । 5
उववासिणण वासरि गमिइ	दिणयरि वारुणदिसि संकमिइ ।
पुव्विल्लइ वणि चवच्चूयचलि	उप्पायउ णाणु कैयंबतलि ।
णियगोमिणिगारव संखरव	घंटाख हरिख पडहरव ।
महिविवर गयण वण सग्ग घर	णहि धाईय आइय बहु अमर ।
विजाहर आँइय कुसुमकर	भूगोयर कंपाविय सधर । 10

घत्ता—तं परमप्पउं ललियक्खरलद्धविसेसहिं ॥

वंदइ सुरवइ णाणाविहयोत्तसहासहिं ॥ १० ॥

## 11

जीह समीहइ भोयणउं	दिट्ठि वि महिलालोयणउं ।
कण्णहिं इच्छिउ गेयरसु	णासु गुणाहियगंधवसु ।
फासु वि मउसयणइं महइ	करणइं पंच जीउ वहइ ।
ताइं मणेण जि पट्टवइ	विसयहं उवरि परिट्टवइ ।
पसरियविविहसुहालसउ	मोहमइरमयपरवसउ । 5

९ P °पावारु. १० रिउदल्ल.

10 १ A परावियउ. २ P °विडवि. ३ A वासवदिसि. ४ P चवभूयचलि. ५ P कलवयलि.  
६ AP आइय धाइय. ७ AP विजाहर वियसियकुसुमकर. ८ A लद्धहिं सेसहिं.

11 १ A अट्टवइ. २ A मेहमयरमय°, P मोहमइरामय°.

10 a कु हि णि उ मार्गा..

10 2 b वियंभिउ विजृम्भितम्. 3 b णिल्लूरियेत्या दि निर्द्धरित स्फेटितः भवसंभवविभवः  
संसारजन्मसंपत्तिर्नै. 4 a °मो हर इ° मोहरजसि. 8 a णियगोमिणिगारव निजलक्ष्मीगुक्त्वम्.

11 5 a सुहालसउ सुखासक्तः, b मोहेत्यादि-मोहमदिरामदाभ्यां परवशः.

कुप्पइ तप्पइ णीससइ  
णाणाजम्महिं आइयउ  
कुलवलविहवगव्वगहिउ  
उम्मग्गेण जि संचरइ  
तुहुं तिहुयणअब्भुद्धरणु  
तुहुं जिण गुणमाणिक्कणिहि  
तुहुं जणमणवेर्यालहरु  
जो पइं पणवइ सुद्धमई

णडइ रडइ गायइ हसइ ।  
पेम्मपिसाएं छाइयउ ।  
गुर्यणकहियसीलरहिउ ।  
पइं ण भडारा संभरइ ।  
तुहुं जि देव विउसहं सरणु । 10  
तुहुं घोरपावकंतरसिहि ।  
अच्चुयसुहहलतियसतरु ।  
सो पावइं णिव्वाणगई ।

घत्ता—वाईसरिवइ रिदुसट्टिसमं जसु गणहर ॥

वारहसयमिय पुव्वंगधारि तहु मुणिवर ॥ ११ ॥

15

## 12

पंचतीस चउसहसइं दुइसय सिक्खुयहं  
छहसहास सव्वणहुहुं दह वेउव्वियहं  
सायरसहसइं दोसय वाइहिं णयधरहं  
एक्कु लक्खु छहसहसइं संजमधारिणिहि  
दोण्णि लक्ख गुणवंतहं संतहं सावयहं  
जिणवरवयणाणिहालणाणिहयभवावयहं  
चउपण्णास जि लक्खइं वरिसविहीणाइं  
हरिकयकणयकुसेसयउयरिविइण्णपउ

पंचसहस जलणिहिसय सावहिभिक्खुयहं ।  
लेसासमइं सहासइं मणपज्जयवियहं ।  
एवं होंति वाहत्तरिसहसइं जइवरहं ।  
लक्ख चयारि समासिय घरवयचारिणिहि ।  
संखेज्जउ गणुं घोसिउ काणणसावयहं । 5  
संख णत्थि तहिं आयहं देवहं देवियहं ।  
वरिसहं विहरिवि महियलि भवसमरीणाइ ।  
संवोहेप्पिणु भव्वइं चंपाणयरु गउ ।

घत्ता—णिज्जियणियरिउ वरधम्मचक्कि मुणिराणउ ॥

पलियंकासणु अंतिमंझाणम्मि णिलीणउ ॥ १२ ॥

10

## 13

भद्वयहु ससंयभिसहहि सेयचउइसिहि तिण्णि वि अंगइं गलियइं तासु महारिसिहि  
अवरण्हइ चउणवइहि रिसिहि समेउ जिणु जायउ सिद्धु भडारउ ववगयजम्मरिणु ।

३ A पेमविसाएं. ४ A वेयण्णहरु. ५ P adds लहु after पावइ.

12 १ A गुण. २ A भवावहं. ३ P देवयह. ४ AP ०ज्ञाणे.

13 १ A तविसाहरे क्कण्ण<sup>०</sup>; P तुविसाहरे क्कण्ण<sup>०</sup>; K records a *ph* as in AP.

7 *b* छाइयउ आविद्यो व्वाण. 10 *b* विउसहं विदुपान् 12 *a* वेयाल<sup>०</sup> विकाल तम. 14 रिउ  
सट्टि पट्टपट्टिः.

12 1 *a* पंचतीस चउसहसइ एकोनचत्वारिंशत्सहस्राणि, *b* सावहि<sup>०</sup> अवधिगतात्  
३ *a* णयधरहं नयधरजाणा वादिनाम्, 5 *b* काणणसावयह निरुत्था मत्तणित्थानाम्. 6 *a* वेइइ  
भवावयहं ०तमंसाणपदान्. 7 *b* भवसमरीणाइं संसत्तमरिणानि.

13 १ *a* ववगयजम्मरिणु ववगयजम्मरिणु.

साक्कि अग्गिकुमारहिं जयजयकारियउं  
 आहंडलधणुमंडलमंडियघणघणइ  
 पहु वाहत्तरि वच्छरलक्खइं अच्छियउ  
 एम मरइ को पंडियपंडियवरमैरणु  
 हउं वि एउं संचितमि जइ णरभवु लहमि  
 अप्पउ णामें चोप्पहु तं छिण्णउं करमि

अंगु अणंगीह्वयहु तहु सक्कारियउ ।  
 कहइ पुरंदरु देवहं जंतु णहंगणइ ।  
 एवाहि ह्वयउ णिकल्लु इह ण णियच्छियउ ७  
 जेण ण पुणु वि पयट्टइ बहुभवसंभरणु ।  
 तो खरतवमंथाणें कम्मदहिउं महमि ।  
 वासुपुज्जपरमेट्ठिहि मग्गे संचरमि ।

घत्ता—भरहहु होंतउ जिणचरियइं तियसहं संधिवि ॥

गउ हरि सग्गहु णाहि पुप्फदंत उल्लंघिवि ॥ १३ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे वासुपुज्जणिव्वाणगमणं  
 णाम तिवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५३ ॥

२ P महासिहि. ३ P ०मरणे. ४ P ०ससरणे. ५ A णाण. ६ A omit णहि.

३ b सक्कारियउ भस्मीकृतम्. ४ a ०वणघणइ ०प्रचुरमेघं. ७ b महमि मग्गामि. ९ भरहहु होंतउ  
 भरतक्षेत्रात्, सधि वि कथयित्वा. १० हरि इन्द्र, पुप्फदंत नूर्याचन्द्रमर्ता.

सिरिवासुपुज्जजिणतित्थि तहिं चिरपरिहवआरुडुहु ॥  
करि लुद्धउ णं हरि हरिवरहु तारउ भिडिउ दुविट्टहु ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

दुवई—इह दीवम्मि भरहि वरविंझपुरम्मि महारिमरणो ॥  
णरवइ विंझसात्ति विंझो इव पालियमत्तवारणो ॥ छ ॥

मयणाहीमंडणु तणु मयलइ	जहिं कप्पूररेणु णहु धवलइ ।	5
जहिं कामिणि चामरु संचालइ	जहिं देवंगु वत्थु परिघोलइ ।	
जहिं भूसणमणिकिरणावलियउं	दसदिसासु बहुवण्णउ घुलियउं ।	
तहिं अत्थाणि णिसण्णउ राणउ	इंदफणिदखगिंदसमाणउ ।	
ता संपत्तउ चरु सुमहुरगिरु	सो पभणइ पयजुयपणमियसिरु ।	
भत्तवित्तगोमहिसीपउरइ	एत्थु जि भरहखेत्ति कणयउरइ ।	10
तुहं सुहि गुणविसेसतोसियमइ	जाणहि किं ण सुसेणु महीवइ ।	
तासु वेस णामें गुणमंजरि	णं सरचूयकुसुममयमंजरि ।	
रुवु ताहि मइं दिट्टउं जेहउं	उव्वसिरंभहं दुक्करु तेहउं ।	

वत्ता—णउ मयकलंकपडलें मलिणु ण धरइ खयवंकत्तणु ॥  
सुहुं मुद्धहि चंदें समु भणामि जइ तो कवणु कइत्तणु ॥ १ ॥ 15

## 2

दुवई—मत्तकरिंदमंदलीलागइ णरमणणलिणगोमिणी ॥  
किं वण्णामि णरिंद सा कामिणि कामिणियणासिरोमणी ॥ छ ॥

दिस विवाहरंगें रावइ	कररुहपंति पईवहि दीवइ ।	
कुंचियकेसहं कंतिइ कालइ	माणिणि माणवमहुयरमालइ ।	
सुललियवाणि व सुकइहि केरी	जहिं दीसइ तहि सा भल्लारी ।	5
पढइ चारु पोसियपत्थावउ	गायइ सुंदरि कण्णसुहावउ ।	

1 १ AP मइलइ. AP °खगिंदफणिंद°. ३ P तुहु. ४ AP महुं. ५ AP कमणु.

2 १ AP कामिणिजण°.

1 2 दुविट्टहु द्विपृष्ठस्य. 5 a मयणाहीमंडणु कस्तुरिका; मयलइ मलिनयनि. 10 a पउरइ °प्रचुरे. 12 a वेस वेस्या, b सरचूय° स्मर काम एव आम्रवृक्ष. 14 खयवंकत्तणु क्षय वक्रत्वं च.

2 3 a रावइ रञ्जयति. 4 a कालइ कृष्णोक्तेति. 5 b भल्लारी उत्तमा. 6 a पोसिय-पत्थावउ पोषितप्रस्ताव. सुभाषितयुक्तिः.

णच्चइ बहुरसभावाणित्तउं  
तो संसारहु पैइं फलु लद्धउं  
ससिजोण्हाहीणें किं गयणें  
लवणजुत्तिवियलेण व भोज्जे

सा जइ लहहि कह व मइं वुत्तउं ।  
सयलु वि तिहुवणु तुज्जु जि सिद्धउं ।  
णासाविरहिण कि वयणें ।  
ताइ विवज्जिएण किं रज्जे । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि राएं मंतिवरु देवि उवायणु पेसियउ ॥

घरु जाइवि तेण सुसेणपहु पियवायइ संभोसियउ ॥ २ ॥

## 3

दुवई—जो तुहुं विझसत्ति सो दोहं मि भेउ ण लक्खिओ मए ॥

इहु कल्लोलणिवहु इहु जलणहि केण विहत्तओ जए ॥ छ ॥

एक्कु जीउ विहिणा गंभीरइं  
जं तहु केरउ तं तुम्हारउं  
एत्थु ण किज्जेइ चित्तु अधीरउं  
णिरुवयारु तं णासइ सुंदरि  
ता पहुणा दूयउ णिब्भच्छिउ  
धेरि सीमंतिणीउ जो मग्गइ  
दरिसियरइरसकरणाणिगण  
तें वयणें पुरु गंपि तुरंतउ  
हंसवंसवीणारवभासिणि

पर रईयइं भिण्णाइं सररीरइं ।  
जं तेरउ तं तासु जि केरउं ।  
णेहणिवंधणु वंधुहि सारउं । 5  
देहि समित्तहु तुहुं गुणमंजरि ।  
एहउ वंधु वप्प कहि अच्छिउ ।  
अवसें सो धणपाणहु लग्गइ ।  
जाहि ण दूर्यं देमि पणयंगण ।  
णियकुलसामिहि कहइ महंतउ । 10  
देव ण देइ सुसेणु विलासिणि ।

घत्ता—आयण्णवि दूयहं जंपियइं णेहु चिराणउ भंजिवि ॥

अब्भिट्टु सुसेणहु विंझपुरणरवइ सीहु व रुंजिवि ॥ ३ ॥

## 4

दुवई—वेण्णि वि चरणरेहि संचालिय वेण्णि वि ते महावला ॥

वरणारीकएण गणियारिरया इव भिडिय मयगला ॥ छ ॥

दोहुं वि साहणाइं आलग्गइं  
खलियरहंगइं मलियतुरंगइं

चालियचक्कइं तोलियखग्गइं ।  
दलियधुरग्गइं दूसियमग्गइं ।

२ AP फलु पइं. ३ AP पेसिउ. ४ AP सभासिउ.

3 १ A पररइयं. २ AP कीरइ. ३ P वधहे. ४ A घरसीमतिणि. ५ AP देमि दूय.

4 १ A संचारिया.

11 दे वि उवायणु प्राभृत दत्त्वा.

3 2 कल्लोलणिवहु तरङ्गसमूहः. 3 b पर केवलम्. 6 a णिरुवयारु त णासइ निन्दन-  
कारस्तं स्नेहं नाशयति, 6 समित्तहु स्वमित्रस्य. 9 b पणयंगण पण्णाङ्गना वेय्या 13 विसुण्णरवइ  
विन्ध्यशक्तिः.

4 2 गणियारिरया हस्तिनीरतौ. 4 a खलियरहंगइं सलीकृतचक्राणि.

मोडियदंडं लुयधयसंडं	खंडियमुंडं णच्चियरुंडं ।	5
जूरियपत्तं चूरियछत्तं	दारियगत्तं णिग्गयरत्तं ।	
लूरियताणं ह्यजंपाणं	उड्डियप्राणं कयसिरदाणं ।	
हुंकारंतं हंकारंतं	उरगयकॉतं चललुलियंतं ।	
मग्गणभिण्णं तिलु तिलु छिण्णं	सेयवसिण्णं रत्तकिलिण्णं ।	
विरसु चवंतं वम्मु छिवंतं	संक मुयंतं संकु धिवंतं ।	10
हत्थिणिसुंभं फाडियकुंभं	जोहणिसुंभं जयजसुलंभं ।	

घत्ता—ता सरिवि सुसेणं सरिउवल सरहिं णिरंतरु भिण्णं ॥

जमदूयहं भूयहं भुक्खियहं णाइ दिसावलि दिण्णं ॥ ४ ॥

## 5

दुवई—ताव सुसेणमुक्खाणावलिचिहडियणिचिडगयघंडं ॥

हरिसंचलणदलणणिदुरखुरफाडियधवलधयवडं ॥ छ ॥

छंडियकिवाणु	गलियाहिमाणु ।	
लवंतकेसु	जणजणियहासु ।	
पत्तावमाणु	दिसि धावमाणु ।	5
धयछत्तछण्णु	पेच्छवि ससेणु ।	
पडिभडकयंतु	धाइउ तुरंतु ।	
वलपवलसत्ति	भहु विंझसत्ति ।	
रिउ भणिउ तेण	रेरे णिहीण ।	
दे देहि णारि	मा गिलउ मारि ।	10
सहुं परियणेण	पइं राणि खणेण ।	
तं सुणवि सत्तु	इयरेण वुत्तु ।	
गुणणिहियवाणि	मइं जीवमाणि ।	
को रमइ तरुणि	कमि पंडिय हरंणि ।	
जो हरिहि हरइ	सो झ त्ति मरइ ।	15
इय जंपमाण	वेण्णि वि समाण ।	
विंधंति वीर	पुलइयसरि ।	

२ AP जोहणिसुंभं. ३ AP जयजसलंभं; P adds after this: कित्तिविंधंभं. ४ AP °वल.

5 १ AP °वलण° २ AP °फालिय°. ३ A ससेणु. ४ AP वडिय. ५ P हरिणि.

6 a जूरियपत्तं खेदितवाहनानि. 7 a लूरिय ता णं लनगात्राणानि. 9 b सेयवसिण्णं स्वदेन प्रस्विन्नानि, °किलिण्णं इ लितानि. 11 a हत्थिणिसुंभं हस्तिविदारणानि. 12 सरिउवल स्विणु-सैन्यानि.

5 1 °णिविड° सकीर्णम्. 3 a छडियकिवाणु त्यक्तखड्डः. 6 b ससेणु स्वसैन्यम्. 7 a पडिभडकयंतु प्रतिभटानां कृतान्तो यमः विन्ध्यशक्ति. 12 b इयरेण इतरेण सुपेणेन. 14 b कमि पडिय सिंहस्य क्रमे पादे पतिता मृगीं को हरति.

फणिवइपरमाण	वाणेहि वाण ।	
णहि पडिखलंति	छत्तहिं पडंति ।	
धय णिल्लुणंति ।	सारहि हणंति ।	20
हय कप्परंति	पुणु चप्परंति ।	
हणु हणु भणंति	अंगइ वणंति ।	
सहसा मिलंति	विहडेवि जंति ।	
पडिवलिवि एंति	थिर गिरि व थंति ।	
ता गयविलासु	विझाहिवासु ।	25

घत्ता—संधाणु ण लक्खहुं सक्कियउं चवलसरावलि देंतहु ॥  
गउ णासवि तासु सुसेणु रणि णं वम्महु अरहंतहु ॥ ५ ॥

## 6

दुवई—बंधुविओयसोयमलिणाणण पइपरिहवविवेइया ॥

तेण णिवेण धरिय गुणमंजरि गुणमहुयरणिसेविया ॥ छ ॥

इहं वरभरहखेत्ति विक्खायउ	खत्तियधम्मधुरंधरु जायउ ।	
मित्तु सुसेणहु संतोसियमणु	राउ महापुरि मारुयसंदणु ।	
णिसुणेप्पिणु णियइहु पलाणउ	हिमहयकमलसरु व विहाणउ ।	5
घणरहणामहु वसुमइ देप्पिणु	कोहु लोहु मउ मोहु मुष्पिणु ।	
सुव्वयजिणहं पासि वउ लेप्पिणु	मुउ काले संणासु करेप्पिणु ।	
प्राणयकप्पि सक्कु सो हूयउ	वीससमुद्दजीवि वररुवउ ।	
तासु जि गुरुहि पासि उवसंतं	दुद्धरु संजमभारु वहंतं ।	
वारहविहत्तवतावणझीणं	वद्धु णियाणु अणेण सुसेणं ।	10
मेरुतुंगमाणुण्णइ ढालिय	जेण मज्झु माणिणि उहालिय ।	
जइ तवतरुवरहल्लु पाँसमि	तो तं पुरिमज्जमि मारेसमि ।	
पंव सरंतु सरंतु जि णिट्ठिउ	सकल्लुसमइ संलेहणि संठिउ ।	
वरवंदारयवंदविणूयउ	तेत्थुं जि सग्गि सो वि संभूयउ ।	

घत्ता—रमणीयहि मंदरमेहलहि णीलिरुम्मिगिरिकंदरि ॥

गयणयलि सयंभूरमणजलि ते रमंति सरिसरवरि ॥ ६ ॥

६ AP °पमाणु. ७ AP वाणु. ८ P adds after this: रोसे जलंति. ९ A छति.

6 १ AP इय. २ AP पाणय°. ३ AP सग्गि. ४ AP पावेसमि. ५ A पुरिसु. ६ AP तेत्थु वि सो वि सग्गि-सभूयउ.

21 b चप्परति अभिभवन्ति. 22 b वणति वणयन्ति.

6 1 °परिहवविवेइया °पराभवेन कम्पिता वेश्या. 4 b मारुयसंदणु वायुरथ.. 11 a °माणुण्णइ मानोन्नतिः, ढालिय पात्तिता. 12 b पुरिमज्जमि आगामिनि जन्मनि. 13 a सरंतु सरन्, णिट्ठिउ मृतः. 14 a °विणूयउ स्तुत. 15 °रुम्मि° रुक्मि°.



दुवई—विणिण वि सह वसंति विहरंति वि विलुलियकुसुमसेहरा ॥  
विणिण वि परममित्त ते सुरवर सुररमणीमणोहरा ॥ छ ॥

एत्तहि चिरु संसारु भमेप्पिणु	विञ्जसत्ति जिणालिगु लएप्पिणु ।	
तेरहविहु चारित्तु चरेप्पिणु	णिरसणविहिमग्गेण मरेप्पिणु ।	
अच्छरकरयललालियचामरु	जायउ दिव्वदेहु कप्पामरु ।	5
देवहं ताहं विहिं मि दिवि जइयहुं	संखसमाउसु संठिउ तइयहुं ।	
जंबुदीवि छुहंपंकियगोउरु	भरहि भोयवहुणु णामें पुरु ।	
तहि सिरिमाणउ राणउ त्तिरिहरु	सिरिमइदेविसिहिणसंगयकरु ।	
विञ्जपुराहिउ सग्गहु आयउ	एयहं विहिं मि पुत्तु संजायउ ।	10
जयसिरिसीमंतिणिभत्तारउ	जसससंककिरणवळितारउ ।	
कोक्किउ सो णियताएं तारउ	वसिकयसव्वदेसकंतारउ ।	
तारयताराणाहें धित्तइं	असिकरेण रिउतिमिरइं जित्तइं ।	

घत्ता—मंडलियहं मयमाहप्पियहं सिरि पाडिवि समंसुत्ती ॥  
तिहि खंडहि मंडिय मेइणिय चप्पिवि दासि व भुत्ती ॥ ७ ॥

## 8

दुवई—अप्पडिहयपयावकंपावियसयलदिसाविहायए ॥  
सपवणतरणिवरुणवइसवणभयंकरि तम्मि जायए ॥ छ ॥

तावेत्तहि बहुसोक्खपवट्टणि	इह भारहि दारावइपट्टणि ।	
पढमजिणेसरवंसविहूसणु	खलखत्तियवलदप्पविणासणु ।	
रिउल्लवग्गसिप्पीरहुयासणु	वंभणराहिउ वंभपयासणु ।	6
मंदगमण वीणारववाणी	तासु सुहइ सुहइणिसेणी ।	
सिविणइ ताइ दिट्ठु संपययरु	दससययरु अवरु वि सियदिणयरु ।	
आसि वाउरहु जो सो आयइ	पाणइंदुसुउ जणियउ मायइ ।	

7 १ AP ससारे. २ AP छुहपकय. ३ AP विहं मि. ४ A सवसुत्ती.

8 १ P वंसु. २ AP दिट्ठु ताइ. ३ AP संपययरु.

7 4 b णिरसण वि हि मग्गे ण संन्यासमार्गेण. 7 a छुहपकिय<sup>०</sup> सुधाधवलितम्. 8 b °सि हि ण<sup>०</sup> स्तनौ. 10 b °तारउ निर्मल.. 12 a तारयताराणाहें तारक एव तारानाथश्चन्द्रः तेन; b असिकरेण खड्गकिरणेन. 14 च प्पिवि बलाद्वशीकृत्य.

8 1 a अप्पडिहयपयाव<sup>०</sup> अप्रतिहतप्रतापेन, °विहायए °विभागे. 6 b सुहइ सुभद्रा; सुहइ णिसेणी सुभद्राणा मङ्गलानां नि.श्रेणी. 7 b दससययरु सहस्रकरः सूर्यः, सियदिणयरु चन्द्रः 8 a आयइ अनया.

अण्णु सुँसेणु सूणु सग्गवुउ  
 अचल दुविट्ट णाम ते सुंदर  
 धवलउ एक्कु एक्कु अलिकालउ  
 गरुउ एक्कु एक्कु सिरिमाणु  
 एक्कु चंदु णं एक्कु दिवायरु  
 वीयँउ उववादेविइ दढभुउ ।  
 णं केलास णीलमणिमहिहर । 10  
 एक्कु सुसीलु एक्कु दुँलीलउ ।  
 एक्कु सुभीमु एक्कु सोमाणु ।  
 हलहरु एक्कु एक्कु दामोयरु ।  
 घत्ता - ते वेण्णि वि भायर भुवणरवि जोइवि रोसविमीसिउ ॥  
 महिणाहहु जाइवि तारयहु तहु चरोहि आहासिउं ॥ ८ ॥ 15

9

दुवई— णं सिथकसणपक्ख हलिसिरिधव वेण्णि वि धवलसामला ॥  
 दारावइणरिदवरतणुरुह गिरिवरँधरणभुयवला ॥ छ ॥  
 वइवसभउंहाभंगुरभावइं  
 वोहि मि गयउ रयणविण्णुरियउ  
 लंगलमुसलसंखकर दुद्धर  
 तहि थरहरइ मरइ रिउ ण सरइ  
 अण्णु वि अत्थि वइरिजुरावणु  
 ताहं लील दीसइ विवरेरी  
 भग्गा सइं सुहडत्तणवाएं  
 संगरु करिवि हूरमि करिरयणइं  
 लुहउ वंभु हयपुत्तविओएं  
 मइं विरुद्धि जगि को वि ण जीवइ  
 दोहि मि सिद्धइं दिव्वइं चावइं ।  
 विज्जादेविउ पेसणयरियउ ।  
 ते भिडंति जहिं केसरिकंधर । 5  
 करु असिवरहु कया वि ण पसरइ ।  
 गंधहत्थि णावइ अइरावणु ।  
 णउ गणांति ते आण तुहारी ।  
 तं आयण्णिवि जंपिउ राएं ।  
 गलियंसुयइं सुहदहि णयणइं । 10  
 डज्जउ सोसिउ दूसहसोएं ।  
 जउं वि मरणु समरंगणि पावइ ।  
 घत्ता—महुं कमकमलाइं ण संभरइ जो रायत्तणु मग्गइ ॥  
 सो ससयँण परियणपरियरिउ जमपुरपंथं लग्गइ ॥ ९ ॥

10

दुवई— इय गज्जंतु राउ णिजंमंतिहि वोळ्ळिउ हो ण जुज्जए ॥  
 कि कलहेण तांवि पडिवक्खहं महिवइ दूउ दिज्जए ॥ छ ॥

४ A सुसेणसुणु. ५ AP वीयउ वायादेविइ. ६ K दुस्सीलउ but connects it to दुल्लीलउ.

9 १ P सिरिहर. २ P °वरघण°. ३ A हरेवि, P हरेमि. ४ P जमु. ५ A सो सयणसपरि-  
 यण°, P सो सयणपरियण°.

10 १ AP णियमत्तिहि.

9 1 °सि रि धव विण्णु. 3 a वइवसभउहा° यमभ्रू. 4 a गयउ गदा, ७ पेसणयरि-  
 यउ आजाकरा. 6 a ण सरइ न पूरयति. 9 a सुहडत्तणवाएं सुभट्त्ववातेन. 11 a लुहउ अश्रुणि  
 मार्जयतु.

सो गंधपीलु	सुरदंतिसीलु ।	
सिद्धाईं जाईं	रयणाईं ताईं ।	
सो दिव्यु संखु	तं धणु असंखु ।	5
जइ तुज्जु दैति	पेसणु करंति ।	
तो ते जियंति	णं तो मरंति ।	
ती दिण्णु दूउ	कल्लाणभूउ ।	
दारावईसु	भीमारिभीसु ।	
जाएवि तेण	मउलियकरेण ।	10
कुलकुमुयचंदु	दिट्ठउ उविंदु ।	
दूएण उत्तु	सुणुं मंतसुत्तु ।	
भुयवलविसालु	कुलसामिसालु ।	
संभरहि देउ	रायाहिराउ ।	
गिरितुंगमाणु	ताराहिहाणु ।	15
भडवरवरिड्ड	तुहुं भो दुविड्ड ।	
मेल्लिर्वि दुआलि	मा करहि रालि ।	
पुहईपिएण	सह सामिएण ।	
खयरिंद जासु	वच्चंति पासु ।	
इच्छंति सेव	असितसिय देव ।	20
तहु कवणु मल्लु	मुइ रोससल्लु ।	
ढोइवि करिंदु	पवणाहि णरिंदु ।	

यत्ता—ता भणिउं दुविट्ठे रुद्धएण सामि महारउ हलहरु ॥

अण्णहु सामण्णहु माणुसहु हउं होसमि किं किंकरु ॥ १० ॥

## 11

दुवई—जो मइं भणइ भिच्चं परु दुम्मइ दूयय तासु सीसयं ॥

तोडमि रणि तड त्ति मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥ छ ॥

कायकंतिओहामियससहरु

तहि अवसरि भासइ जिन्वाहरु ।

पहरणरुक्खराइसंछण्णउं

णिवकामिणिवडजक्खिरवण्णउं ।

लंबललंतच्चिंधकोमलदल्लु

चलवामरहंसावलिअविरल्लु ।

5

२ AP गंधिपीलु. ३ AP °लीलु ४ A ता. ५ A सुणि. ६ AP मेल्लहि. ७ P राडि.

11 १ AP भिच्चु.

10 5 b असखु बहुलम् 15 b ताराहिहाणु तारकार्थः. 17 a दुआलि दुराग्रहमपन्नान मन्याय वा, b रालि कलह. 20 b असितसिय खड्गत्रस्ता. 21 b मुइ मुञ्च.

11 2 °गंडएसयं °गण्डवेगम्. 3 b जिन्वा हरु बलभद्र. 4 a °रक्खगइ° वृक्षश्रेणी.

करिगिरिवरु लोहियजलाणिज्जरु  
सुहडंतावलिविसहरचुंभलु  
दूय राउ जइ मगइ कुंजरु  
रुडुदुविदुसीहसरणक्खहं  
इहु वारणु तहु जीवियवारणु

उग्गयचित्तल्लंत्तइदीवरु ।  
गयणविलग्गकौंतवंसत्थलु ।  
तो पइसउ सो समरवणंतरु ।  
तहिं णउ चुक्कइ लुक्कविवक्खहं ।  
भयगारउ वच्छयलवियारणु । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि दूयं जंपियंउं महं एहउ मणि भावइ ॥

हरि तारयसरहहु कमि पडिउ अचल चलंतु ण जीवइ ॥ ११ ॥

## 12

दुवई—जासु तसंति एंति पणवंति थुणंति वि देवदाणवा ॥

तासु ण गहणु किं पि तुम्हारिस विवल वरायमाणवा ॥ छु ॥

तां कण्हें जंपिउं पेसुण्णउं  
तं णिसुणिवि दूयउ णिग्गउ गउ  
दुडु दुविदु धिदु रणु कंखइ  
सेव ण करइ ण सो पइं मण्णइ  
भणइ ण भयवसेण वसि होसमि  
दंतमुसलजुयलें पेलावमि  
रायत्तणु महं पुणु संकरिसणु  
अण्णु राउ जइ होइ कुसुंभइ  
अण्णु राउ अहरहु तंवलें  
हउं किं घेप्पमि अण्णे राएं

जाहि दूय मा जंपहि सुण्णउं ।  
कहइ ससामिहिं णउ अप्पइ गउ ।  
तंबच्छिहि करवालु णिरिक्खइ । 5  
णियसंमुहं सिरिच्छिइ सण्णइ ।  
चाउ दंति करि वरु ढोएसमि ।  
एम हत्थि हउं तहु राणि दावमि ।  
अह व करइ पियवंभुं सुदरिसणु ।  
अण्णु राउ संझापारंभइ । 10  
अण्णु राउ छिंदमि करवालें ।  
ता पडिजंपिउं तारयराएं ।

घत्ता—हरिकरिभडलोहियकयछडइ दूय ण वड्डिमं वोल्लमि ॥

रणरंणि दुविदुहु अड्डियइं पिदु करेप्पिणु घल्लमि ॥ १२ ॥

## 13

दुवई—एम भणंतु चलिउ हयगयरहणरभरणमियधरयलो ॥

हयसंगामतूरवाहिरियदिसवहलुच्छलियकलयलो ॥ छु ॥

२ A चित्तछत्तु. ३ AP लुक्कु. ४ P जंपिउ.

12 १ A तो. २ AP दूउ गउ णिग्गउ. ३ A छेछइ. ४ AP पिउवसु. ५ AP छिण्णमि.  
६ A तारायराए. ७ AP वड्डिसु

13 १ AP णवियं.

6 b °इ दी वरु नीलोत्पल्लम्. 7 a °चुंभलु वीभत्सम्. 9 a °सरणक्खहं वाणा एव नग्वास्तेपाम्;  
b लुक्क वि वक्खह लुक्कविपक्षाणा वाणानाम्. 12 तारयसरह उ कमि ताग्क एव अद्रापदत्तस्य चग्गे,  
अचल हे अचल.

12 3 a पेसुण्णउ पैशुन्यम्. 5 b तवच्छिहि ताम्रनेत्रै. 6 b छिंछइ पुश्चर्त्त. 7 b चाउ  
द नि करि वरु ढो एसमि हस्ते गृहीत्वा वर चाप गजे दौकयिणामि. 9 a म करि मणु वल्लभइ एव.

सा वि पणइ जणइणपुण्णं  
लेवि चकु करि भामिवि बुत्तउं  
ता पडिलविय उवायापुत्ते  
जइ ण धरमि रहंगु सइं हत्थे  
मरु को मरइ संढ तुह घापं

सिरिमइतणए अंजणवण्णं ।  
देहि हत्थि मा मरहि णिरुत्तउं ।  
किं ससहरु जिप्पइ णक्खत्ते ।  
तो पइसमि हुयवहु परमत्थे ।  
मुक्कु चकु तो तारयराएं ।

10

घत्ता—रक्खंतहं णियवइणिन्भयहं पहरणेहि पहरंतहं ॥

तं आयउ सयलहं पत्थिवहं झ त्ति धरंत धरंतहं ॥ १६ ॥

## 17

दुवई—देवासुरणरिंदफणिखेयरकिंणरदण्णहारयं ॥

भुयणुज्जोयकारि माणिकमऊहविराइयारयं ॥ छ ॥

भाणुविंबु णं किरणहिं जडियउं  
धरिवि तेण करि जंपिउं एहउं  
करहि केर बलएवहु केरी  
ता पडिसत्तु चवइ विहसेप्पिणु  
जिह णच्चइ संतोसें देसिउ  
रासहु होइवि हत्थिहि लग्गइ  
पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि  
रे गोवालवाल णउ लज्जहि

वासुएवकरणियडइ पडियउं ।  
एवहिं तुज्जु सरणु कहिं केहउं ।  
अणुहुंजहि संपय गरुयारी । 5  
मंडाखंडु भिक्खं पावेप्पिणु ।  
तिह तुहुं एण रहंगें हैरिसिउ ।  
वायसु होइवि गरुडहु विग्गहि ।  
अप्पउ वारु वारु किं वण्णहि ।  
महुं अग्गइ भडवाएं भज्जहि । 10

घत्ता—लइ रक्खउ तेरउ सीरहरु एवहिं मारमि लग्गउ ॥

किं चुक्कइ काणणि केसरिहि दिट्ठिपांथि णिव्वडिउ मउं ॥ १७ ॥

## 18

दुवई—एव भणेवि धीरु विसविसमविसण्णवणिसियअसिवरं ॥

अरिकरिकुंभकालियधवलुज्जलमोत्तियपंतिदंतुरं ॥ छ ॥

३ A हुववहि.

17 १ A जलियउ. २ A भिक्खु. ३ P रहसिउ. ४ AP वग्गहि. ५ AP णिवडिउ.  
६ AP गउ.

18 १ AP ०गलिय०.

16 6 b सिरिमइतणए तारकेण. 8 a उवायापुत्ते द्विपृष्ठेन. 11 णियवइणिन्भयहं  
निजस्वामिनिर्भयकारकाणा रक्षकाणाम्.

17 2 ०विरइयारयं विराजिताः अरा यस्य तादृशं चक्रम्, 5 a केर आज्ञा. 6 b मंडाखंडु  
अपूपखण्ड. 7 a देसिउ कार्पटिकः परदेशिक. 8 b विग्गहि विग्रहं करोषि. 9 b वारुवारु वारवारम्.  
10 b भडवाए सुभट्वातेन. 12 मउ मृगाः.

18 1 विसविसमविसण्णव० विषवद्विषम विपं पानीयं यत्र तस्मिन्नर्णवे समुद्रे.

थक्कउ करयलेण उग्गामिवि  
मुक्कु चक्कु दुक्कउ रिउकंठहु  
जाइवि दिणयरबिंबु णिमण्णउं  
ससयणसडयणदिण्णसुहेल्लिहि  
हसियपुसियपरणरवइरायहु  
खगें वसिकिउ लोउ असेसु वि  
जिह महि सिद्धी अद्ध तिविट्ठहु  
उत्तंगत्तें धणु सो सत्तरि  
पावें पाविउ सत्तमु महियलु  
जहिं पडिकेसउ तहिं गउ केसवु  
एम भणेप्पिणु पासि तिगुत्तहु  
वहुरिसिवंद<sup>११</sup> समउ समाहिउ

ता सिरिरमणें णहयलि भामिवि ।  
णावइ अत्थसिहरिउवकंठहु ।  
लोहियलित्तउं लोहियवण्णउं । 5  
फुल्लु णाइं हरिसाहसवेल्लिहि ।  
पडिउ सीसु तारयणरणाहहु ।  
मागहु वरतणु जित्तु पहासु वि ।  
तिह हूई णिवरिद्धि दुविट्ठहु ।  
जीविउं वरिसलक्ख वाहत्तरि । 10  
तहिं अवसरि णिर्यमाणि चितइ वलु ।  
कालें णडियउ णिवडइ वासवु ।  
व्रंउ लइयउं समत्थुं समचित्तहु ।  
केवलणाणसिरीइ पंसाहिउ ।

घत्ता—गउ मोक्खहु अचलु अकंपमइ भरहणरेसरवंदिउ ॥

15

जोइसविमाणवासियपवर पुप्फदंतसयवंदिउ ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसाट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाफइपुप्फयंतविरइए महाफव्वे अचलदुविट्ठतारयकहंतरं  
णाम चउवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५४ ॥

२ A णं रवि अत्थ<sup>०</sup>. ३ A णिवण्णउ. ४ P हसिउ पुसिय<sup>०</sup>. ५ A पुसिउ. ६ A णिव इत्ति दुविट्ठहु.  
७ AP उत्तुंगत्तें. ८ AP चितइ णियमणि वलु. ९ AP वउ. १० A समत्तु णियचित्तहु. ११ AP  
रिसिविदहिं. १२ P पहासिउ. १३ A अकंपमणु. १४ A पुप्फयंत<sup>०</sup>.

4 b अत्थ सि हरि उ व क ठ हु अस्तगिरिसमीपम्. 5 a णि म ण्ण उ निमममिव. 6 a स स य ण स ड य ण-  
दि ण्ण सु हे ल्लि हि स्वकीयस्वजना एव भ्रमरास्तेभ्यो दत्त सुरा यमा. S प हा सु वि प्रभानक्षेत्रमपि. 10 b  
जी वि उं आयु. 12 b ण डि य उ प्रेरित. 14 a स मा हि उ सावधान<sup>०</sup>.

तवसिरिराईयहु मुणिझाइयहु सयमहमहियपयावहु ॥  
वंदिवि कमजमेलु णिज्जियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

णरउलमहिलं	वज्जियमहिलं ।	
जेण विरइयं	भोयविरइयं ।	
सत्थं सारं	वयणंसारं ।	5
जस्स गहेउं	हिंसाहेउं ।	
णट्टसमोहं	वड्डियमोहं ।	
काउं समयं	मयमाणमयं ।	
पत्ता णरयं	जे ताणरयं ।	
भुवणमहीसं	कह लहिही सं ।	10
पइं परिहीणं	जिण पडिही णं ।	
णारयविवरे	णविण विवरं ।	
णासइ गरयं	जाणियंगरयं ।	
ण हु उलुहंते	सरणमहं ते ।	
देव पइट्ठो	तं महं इट्ठो ।	15
इय थुइवायं	करइ सुवायं ।	
तसियगहिंदो	जस्स महिंदो ।	
तं गुणविमलं	णविउं विमलं ।	
हयमोहंगं	तस्स कहंगं ।	
भणिमो सरसं	वारियसरसं ।	20

प्रत्ता—तेरहमउ अवरु जणसंतियरु सुत्तगोफसोमालइ ॥

अंचमि णरहियइ खयविरहियइ जिणु कव्वुप्पलमालइ ॥ १ ॥

1 १ A सिरिरायहु. २ AP पहावहु K पहावहु but corrects it to पयावहु. ३ AP उवहु. ४ A जे ताणरयं, P जेत्ताणरयं. ५ A महु. ६ AP गुंफसोमालइ. T गोफं.

1 1 १ राइयहु राजितस्य. 2 कमजमलु पादयुग्मम्. 3 a णरउलमहिलं नरकुलानां पृथी-  
दायकम्. 4 a भोयविरइयं मोगविरक्तिदायकम्. 5 a सत्थं सारं शालं परमार्थभूतम्. b वयणंसारं  
यस्य शास्त्रस्य वचनांशान् अर अत्यर्थे. 6 a गहेउं गृहीत्वा पश्चान्निध्याशालं कृत्वा. 7 a पत्ता णरयं  
नरकं प्राप्ता. b ताणरयं तेषां पुत्राणामनुत्तम्. 8 a भुवणं भुवनम्. अही सं बुद्धिरहितम्. b लहि-  
ही लप्स्ये; सं श्रे सुखम्. 9 b विवरं पक्षिवरेण गरुडेन. 10 a उलुहंते उल्लङ्घिता काकालेपानते  
समीपे. 11 b सुवायं शोभनवाचम्. 12 a हयमोहंगं हतं मोहत्याङ्गं कारणं स्वल्पं वा येन b कहंगं  
कथास्वरूपम्. 13 b वारियसरसं निषिद्धस्मरसुखम्. 14 सुत्तगोफं वक्तव्यम्. 15 णरहियइ  
प्राणिना हितकारिण्या; कव्वुप्पलमालइ काव्यनेत्रोत्तलानि तेषां मालया.

2

धादइसंडइ परिभमियहरि  
तहि पुञ्चविदेहि तरंतकरि  
तहि दाहिणकूलि कलंवहरि  
फलरंसवहरुक्खसोक्खसयरि  
पहु पउमसेणु पउमारमणु  
कयलीदलवीयणसीयरइ  
मंदाणिलचालियकुसुमरइ  
वयणुग्गयधीरधम्मंज्जुणिहि  
संपयपइ पउमणाहु करिवि  
थक्कउ रिसिदिक्खइ दिक्खियउ

पुव्वामरगिरिगंभीरदरि ।  
सीयां णामे अत्थि सरि ।  
णवसत्तच्छयछाइयमिहिरि ।  
रम्मयवइदेसि महाणयरि ।  
णवजोव्वणु रमणीमणदमणु ।  
दिसिउग्गयसरसरसीयरइ ।  
अण्णहि दिणि वणि पीइंकरइ ।  
पायंति य सव्वगुत्तमुणिहि ।  
आरंभडंभविहि परिहरिवि ।  
एयारह अंगइं सिक्खियउ ।

5

10

यत्ता—मल्लु उट्टावियउ समु भावियउ पंकयसेणे घणघणु ॥

पक्खि व पंजरइ दुक्खियविरइ धम्मज्जाणि धरिउं मणु ॥ २ ॥

3

सुक्खिउ भववासकिलेसहरु  
मुउ मुक्काहारु विसुद्धमइ  
अट्टारहजलहिपरमाउधरु  
णवमासहि एकसु सो ससइ  
णवणवसहंसहि संवच्छरहं  
जावंजणमहि ता णाणगइ  
ते दीहु कालु दिवि संचरिउं  
तइयहुं पढमिदे लक्खियउं

आवज्जिवि तित्थयरत्तयरु ।  
हुउ सहसारइ सहसारवइ ।  
चउरयणिंसीरु अरोयजरु ।  
परमाणुय वर मणेण गंसइ ।  
सुहुं जणइ णिपवि मुहुं अच्छरहं ।  
तहु गुण कि वण्णइ खंडकइ ।  
जइयहुं अयणंतरु उव्वरिउं ।  
सहस ति कुबेरहु अक्खियउं ।

5

2 १ AP अवरविदेहि. २ AP सीओया. ३ P °मिहरि. ४ A °रसवहुमक्खसोक्खसयरि, P °रसवहुक्खसोक्खसयरि. ५ P °धम्मु ज्जुणिसि. ६ A सव्वगुत्ति°. ७ AP धरियउ.

3 १ P °जलहिपरमाउ°. २ A चउरयण°. ३ A परमाणुवरसुमणेण. ४ A सहसइ. ५ A त.

2 1 a परि भमिय हरि भ्रान्तसूर्ये. 3 b °सत्तच्छयछाइयमिहिरि सत्तच्छदवृक्षाच्छादितसूर्ये. 4 a फलरसवह° फलरसमार्गः फलरसप्रवाहो वा, °सोक्खसयरि सौख्यशतदायके. 6 b °सरसरसीयरइ तडागजलशीकरे. 8 b पायति पादान्ते, य च. 9 a सपयपइ सपत्स्थाने. 11 पंकयसेणे पद्मसेनेन.

3 1 a सुक्खिउ सुकृतम्. 3 a °जलहिपरमाउधरु °सागरोपमायुधरु, b चउरयणि° चतुर्हस्तप्रमाणम्. 4 a एकसु एकदा, b परमाणुयवरपरमाणुकान् वरान्. 5 b णिपवि दृष्ट्वा. 6 a जावंजणमहि पङ्कप्रभा यावत्, b खडकइ पुष्पदन्तकविः. 7 b अयणंतरु पन्मासाः.



इह भरहखेत्ति कंपिलपुरि  
कयवम्मु राउ तहु धराणि जय

पुरुदेववांसि विम्हविर्धसुरि ।  
णं विहिणा वम्महविप्पि कय । 10

घत्ता—ताहं महागुणहं वेण्णिं वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥  
कम्ममणोरहहं अट्टारहहं णियदोसहं खयगारउ ॥ ३ ॥

## 4

जक्खाहिव तुरियउं जाहि तुहुं  
ता पुरवरु णिहिणाहं विहिउं  
दहिक्कुट्टिमयलजियसरयघणु  
वणरुक्खराइसुरहियपवणु  
सयणागमहरिसियपउरयणु  
धणु दिज्जइ जेहिं बहुदेसियहं  
सियसिहरवद्धधयपाडलिउं  
ललियंगपसाहियकामियणु

करि पुरु धरि चित्तिउं भोयसुहुं ।  
णं सग्गखंडु धराणिहि णिहिउं ।  
गयणग्गलगमणिमयभवणु ।  
वणरुहसररयकलहंसयणु ।  
रयणंसुजालजियतियसघणु । 5  
सियरहियहं णिच्चपवासियहं ।  
पाडलपूर्यफलदुमललिउं ।  
कामियणपरोप्परदिणमणु ।

घत्ता—णरणियराउलइ तहिं राउलइ जयदेविइ सुहुसुत्तइ ॥

सिविणावलि णिसिहि उगयदिसिहि दीसइ कोमलगत्तइ ॥ ४ ॥ 10

## 5

करि दाणजलोल्लकवोलयलु  
पंचाणणु रुद्धहयहारमणि  
दुइ सुमणालउ मालउ खयलि  
तिमि दोण्णिं रमतं तरंत जलि  
दो कलस ससलिल्ल सकमल सदल

ढेक्कंतु वसहु जियवसहवलु ।  
अरविंदणिलय माहवरमणि ।  
हिमयर अहिमयरुगय विउलि ।  
संणिहिय मणोरम धराणियलि ।  
णालिणालय मयरालय विमल । 5

६ AP विमहयसुरि. ७ AP दोह नि.

४ १ AP वर. २ A चित्तिभोयसुहु. ३ A निरिरयकलहसगणु. ४ AP तदि. ५ A तद  
पुंफल°. ६ AP तुहं वुत्तए.

5 १ A दिक्कंतु. २ A दोण. ३ AP तत रमत. ४ P कलस मालि

4 1 b वणरुहसररय कं पञ्चकणि न्त. 5 b तियसघणु उच्छवहु. 6 b तियसघणु  
धीगहिनानाम्. 7 a पाडलिउं कट्टेसु. b उरपणं पुगत्तम. 10 उमावदिनि वि उरपणं  
दिमासा, प्रभाते उत्तरं.

5 1 a दाणजलोल्लकवोलयलु मदुवत्तंत्तं ; 1 देखतु वरंति, तियसघणु वि  
न्यहावत्तः. 2 a उरपणं वरमणि न्यत्तक विग्गुवत्तंत्तं मि, 1 माहवरमणि  
3 b विउलि विउं उरपणं. 4 a तियसघणु.

आसंदी हरिणरायधरिय  
णाइणिगिज्जंतगेयमुहलु  
मणिरासि सिहाहिं फुरंतु सिहि

अमरिंदवसहि पहपरियरिय ।  
णाइंदहु केरउं सउहयलु ।  
सिविणोलि णिहालिय दिण्णदिहि ।

घत्ता—सा सीमंतिणिय पीणत्थणिय दंसणु दइयहु भासइ ॥

देउं णराहिवइ पडिवुद्धमइ तं फलु ताहि समासइ ॥ ५ ॥ 10

## 6

पयपुंडरीयजुयणंविद्यसुरु  
मयरद्धयधयणिल्लूरणउ  
इंदाएसं णिम्मच्छरउ  
जयदेविहि देहु पसंसियउ  
छम्मासु हेमधाराधरहिं  
जेट्टहु मासहु तमदसमिदिणि  
रयणेहिं सुरेहि संथुयचारिउ  
णिहिकलससचिक्कउं पयडियउं  
जइयहुं सायरसम तीस गय  
पल्लंतपणट्टइ धम्मि वरि  
कंचणचूलालिहियंबुहरि

अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु ।  
परमेसरि होसइ तुह तणउ ।  
एत्थंतरि आयउ अच्छरउ ।  
गम्भासयदोसु विहंसियउ ।  
वरिसिउ जक्खहि णं जलहरहि । 5  
उत्तरभट्टवयइ हिमकिरणि ।  
करिरुवें गम्भि समोयरिउ ।  
णवमास पुणु वि वसु णिवडियउं ।  
मिच्छत्तें दूसिय सयल पय ।  
णिव्वुइ वारहमइ तित्थयरि । 10  
तइयहुं कयवम्महु तणइ धरि ।

घत्ता—माहचउत्थिहि वड्डियससिहि सिवजोयइ जिणु जायउ ॥  
संदणहयगयहि लंविद्यधयहि चउदिसु सुरयणु आइउ ॥ ६ ॥

## 7

मायासिसु मायहि ढोइयउ  
कर मउलिवि पणविवि परमपरु  
करि पेल्लिउ चल्लिउ गयणयलि  
लंघेविणु रविससिमंडलइं

सकें जिणवयणु पलोइयउ ।  
पुणु भत्तिइ लेविणु तित्थयरु ।  
पहुपडहभेरिदक्कामुहलि ।  
णं णहयललच्छिहि कुंडलइं ।

५ P ताउ.

6 १ AP °णमिय°. २ A °कलसविमुक्कउ. ३ A धम्मवरि. ४ A °चउदमिदि. P चउत्थि-  
सिइ. ५ AP वड्डिय°.

7 १ P भत्ति.

6 a आसदी आसनम्, b अ म रिं द व स हि देवविमानम्.

6 1 a पयपुंडरीय° पादकमलम्. 2 a °णिल्लूरणउ स्टेटर. 6 a तमदसमिदिणि इति  
दशमी. 7 a रयणे हिं रत्तै.. 8 a णि हिकलससचिक्कउ तिधिज्जमेणु स्वविम्म परट्टंहुत्त. 11 a  
कंचणचूल° मौवर्णाशित्तरम्. 12 सिव जोयइ अतिर्बुभवेणे उत्तराग्गप्रदानम्

गड तेत्तहिं जेत्तहि पंडुसिल  
मंदरगिरिसिरि विरडुं ण्हवणु  
पंडुरि ससहरकररासिहरि  
सिसु सांसिवि जय चिरु सुकयतव  
कालेण पवड्डिउ जिणु तरुणु  
सहंसडुत्तरमियलक्खणइं  
वण्णेण वि सहड सुवण्णणिहु  
परमेसहु माणियवालवय  
पुणु सयमहेण पणविवि ण्हविउ  
वरिसहं वसिहूई दिण्णकरा

णिरु णिम्ल णावइ सिद्धइल । 5  
तहु देवहिं पुज्जिय दिव्वतणु ।  
आणेप्पिणु णिहियउ जणणिघरि ।  
गय णच्चिवि णायहु णायभव ।  
गरुयारउ हूयउ सट्ठिधणु ।  
तहु दिक्कइं वहुयइं वैजणइं । 10  
हो किं मइं वण्णिज्जइ अरिहु ।  
वरिसहं पण्णारह लक्ख गय ।  
रायत्तणि तिजगराउ थविउ ।  
तिउणियदहलक्खइं भुत्त धरा ।

यत्ता—तुहिणविणिग्गमणि महुआगमणि तीरोसरियजलालउ । 15  
रविकिरणहिं हणिवि हिमकण धुणिवि गिंभे जित्तु सियालउ ॥ ७ ॥

## 8

अवलोइवि सो दलवट्टियउ  
पहु चितइ अणुदिणु परिणवइ  
चिरु चित्तु दुच्चित्तहु णीणियउं  
पुणु जीविउ जम्मणु आणियउं  
इंदियवसेण ण विवेइयउं  
धणपुत्तकलत्तहिं मोहियउ  
अच्छइ ण गियच्छमि किं पि किहं  
ता संवोहिउ लोयंतियहि  
किउ देवयत्तसिवियारुहणु

कालेण कालु पल्लट्टियउ ।  
जणु तो वि ण जुंजइ धम्ममइं ।  
दिवि दिव्वभोयसुहुं माणियउं ।  
तिहिं णाणहिं तिहुवणु जाणियउं ।  
हा मइं वि ण अप्पउं चेइयउं । 5  
मयरद्धयवाणहिं जोहियउ ।  
अण्णमणु अण्णु अण्णाणु जिहं ।  
अहिसित्तउ सुरवरपंतियहिं ।  
गड झ त्ति सहेउयणाम वणु ।

यत्ता—माहचउत्थियहि ससहरसियहि छावीसमि णक्खत्तइ ॥ 10  
सहुं सहसें णिवहं इच्छियसिवहं थिउ जिणु जइणचरित्तइ ॥ ८ ॥

२ देवहुं. ३ AP जणणिहरि, K जणणिकरे but corrects it to जणणिघरि. ४ A जिण तवणु.  
५ A अट्टोत्तरसयमिय<sup>०</sup>; P सडुत्तरसयमिय<sup>०</sup>. ६ A तहु णवसयसखइं, P तहु तवसयसंखइं. ७ A  
तीरोसरिउ.

8 १ AP परिणमइ. २ AP धम्मे मइ. ३ AP धणमित्त<sup>०</sup>. ४ A किहा. ५ A जिहा.  
६ A वावीसमि and gloss श्रवणनक्षत्रे. ७ A जइचारित्तइ.

7 5 b सिद्धइल सिद्धभूमि. 8 b णायहु स्वर्गम्, णायभव देवा.. 13 b तिजगगउ  
त्रिभुवनराजः. 14 a दिण्णकरा दत्तदाना, b तिउणिय<sup>०</sup> त्रिगुणितानि. 15 तुहिणविणिग्गमणि  
शीतकाले विगते, महुं वसन्तः. 16 सियालउ शीतकालः.

8 1 a दलवट्टियउ चूर्णित.. 3 दुच्चित्तहु दुराचारात् दुष्परिणामात्, णीणियउ तिष्का-  
शितम्. 5 इंदियवसेण इन्द्रियपरवशेन. 6 b जोहियउ विद्ध. 7 b अण्णमणु उद्भ्रान्तचित्तः. 9 a  
देवयत्त<sup>०</sup> देवदत्ता. 10 छावीसमि उत्तराभद्रपदे. 11 जइणचरित्तइ जिनचारित्रे जिनदीक्षायाम्.

9

तहिं दिणि जयवइ उववासियउ  
बीयइ दिणि आयउ गंदउरु  
झाणाणलहुयवम्मासरहु  
मणिपुंजें ढंकिउ तासु गिहु  
छउंमत्थें मेइणियलु भमिवि  
दिवखावणि जंबूरुवखयलि  
छइइ दिणि दिवसभाइ अवरि  
देवें केवलु उप्पाइयउं  
गयणग्गलग्गमाणिक्कसिहु  
छाइयणहमंडलु पंचविहु

मणपज्जवणाणें भूसियउ ।  
णंदेण णमंसिउ पुरिसैपुरु ।  
आहारु दिण्णु परमेसरहु ।  
तहिं चोच्चु वियंभिउं पंचविहु ।  
संवच्छर तेण तिण्णिण गमिवि । 5  
माहम्मि मासि ससियरधवलि ।  
छंवीसामि जायइ उहुपवरि ।  
तियसउलु ण कत्थइ माइयउं ।  
संपत्तउ दहविहु अट्टुविहु ।  
सोलहविहु तेत्थु वि तं तिविहु । 10

यत्ता—थुणइ सुराहिवइ कुसुमइं धिवइ अरुहहु उप्परि पायहं ॥

जिण तुहुं गयमालिणि हियवयणलिणि वसहि रिसिहि हयरायहं ॥९॥

10

वत्तीसहं इंदहं तुहुं हियइ  
तुहुं चंदु ण चंदु विमलवहणु  
तुहुं सरहि ण सरहि वि खारजहु  
पइं पइउ तेहउ जं कहमि  
जहिं अच्छइ तिजगु परिट्टियउं  
संचलइ जेणं जें परिणवइ  
जं वण्णगंधरसफासधरु  
पइं दिट्टइ दीसइ तं सयलु  
पइं दिट्टें मुच्चइ चउगइहि  
तुह सुहि संपावइ परसु सुहुं

तुहुं संसेविउ सासयसियइ ।  
तुहुं सूरु ण सूरु वि णिहुहणु ।  
तुहुं हरु णउ हरु वि पमत्तु णहु ।  
तं हउं वुहलोइ हासु लहमि ।  
जें रुद्धउं णिच्चलु संठियउं । 5  
जें णिच्चमेव च्चेयण वहइ ।  
जं अवरु वि काइं वि चरु अचरु ।  
तुइइ दढमोहलोहणियलु ।  
पहु होइ जीउ पंचमगइहि ।  
वइरियेउ णिरंतरु तिव्वु दुहुं । 10

9 AP जइवइ २ AP णदिउरु ३ AP पुरिसवरु, ४ A छम्मत्ये, ५ A वार्वाणमि, P छावीसमि, ६ AP छाइउ णहमडलु, ७ A गयरायह.

10 १ A पमत्तणहु, २ A जेण जं परि°, ३ A वइरिउ ण णि°.

9 1 a जयवइ जगत्यति, 2 b पुरिसपुरु पुरुप्रधान, 7 a अत्रणि पश्चिमे b उन्वीसमि उत्तराभद्रपदे, 10 a पंचविहु ज्योतिष्का देवा, 12 हियवयणलिणि चिन्तमले इतरागाणां मुनीनाम्.

10 1 b सासयसियइ शाश्वतलक्ष्म्या मोक्षलक्ष्म्या, 2 विमलवहणु विमलवहणु, 3 a सरहि जलधि., b हरु शिव, 4 b वुहलोइ पण्डितजने, 5 b णिच्चं नृणां, 10 a तुहि सुहव.

तुहुं पुणु दोहं मि मज्झत्थमणु इयं चोज्जु सहियवइ धरइ जणु ।  
 घत्ता—चेईहरवणाहि बहुतोरणहिं धयपंतिहिं पिहियैकं ॥  
 परिहागोउरहिं सालहिं सरहिं समवसरणु किउ सैकं ॥ १० ॥

## 11

तहिं जाया णीसरंतञ्जुणिहिं	पण्णास पंच गणहरमुणिहिं ।	
गज्जंतमेहगंभीरसर	एयारहसयमिय पुव्वधर ।	
छत्तीससहस पुणु पंचसय	तीसुत्तर सिक्खुय मुणियणय ।	
चत्तारि सहस अडसयवरहं	अणगारहं सव्वावहिहरहं ।	
पणसहसइं अवरु वि पंचसय	घोसंति साहु संजय विमय ।	5
केवलिहिं रिसिहिं मणपज्जयहं	णवसहसइं वेउव्वणवयहं ।	
सहसाइं तिण्णि लेसासयइं	वाइहिं विद्धंसियपरमइं ।	
संजइयहुं लक्खु तिसहससहिउं	सावयहं लक्खजुयलउं कहिउं ।	
परियाणियजिणगुणपरिणइहिं	चत्तारि लक्ख तहु सावयहि ।	
तियसेहिं असंखहि वांदियउ	संखेज्जतिरियअहिणांदियउ ।	10
तिवरिसरहियइं णडियच्छरहं	पण्णारह लक्खइं संवच्छरहं ।	
माहि हिंडिवि लोयतिमिरु लुहिवि	संमेयहु सिहरु समारुहिवि ।	
घत्ता—आसाढडुमिहि कसणहि तमिहि परमप्पउ णिक्कलु हुउं ॥		
भरहमहीवइहिं फणिसुरवइहिं विमैलु पुष्पदंतहिं थुउं ॥ ११ ॥		

इय महापुराणे तिसड्ढिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिणए  
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे विमलणाहणिव्वाणगमणं  
 णाम पंचवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५५ ॥

४ P इह. ५ A पिहियैकं. ६ A सक्किहि.

11 १ A सिक्खिय. २ AP हुवउ. ३ विमल. ४ AP थुयउ. ५ A पचा<sup>०</sup>

12 पि हि य के आच्छादितस्येण.

11 7 a ले सा स य इ पद्मतानि. 12 लु हि वि स्फेटयित्वा. 13 त मि हि रात्री.

सुरवंदहु विमलजिणिंदहु तित्थि भीमु पालियछलु ॥  
रणि अब्भिडियउ अमारिसि चडिउ महुहि सयंभु महाबलु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—अवरविदेहि जंबुदीवासिइ सिरिउरि पिसुणदूसणो ॥

माहिवइ णांदिमित्तु मित्तो इव णियकुलकमलभूसणो ॥ छ ॥

सो चित्तइ णियमणि णरवरिदु  
धणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण ठाइ  
भायर णियभायहु अवयरंति  
किकर चहुयम्मु रयंति तेव  
पोसंति णियंति सिंसुं ण्हवंति  
भइणिउ वंधव वंधव भणंति  
सिरिलंपहु घरदव्वावहरणु  
जगि कासु वि को वि ण पत्थु अत्थि  
गाइ वि सेविज्जइ वच्छएण  
जणु इच्छइ सयलु सकज्जकरणु

खइ सव्वु लोउ णं पुंणिमिदु । 5  
पणइणि पुणु अण्णहु पासि जाइ ।  
कुलंभवणि कुलहु कलयलु करंति ।  
सव्वस्सु पयच्छइ पुरिसु जेव ।  
मायाउ थण्णु आसाइ देति ।  
ता जाम उयरपूरणु लहंति । 10  
तणुरुहु वि पडिच्छइ तायमरणु ।  
मयगंधवसिं भमरेण हत्थि ।  
रंभासहें दुद्धहु कएण ।  
जीवहु पुणु जिणवरधम्मु सरणु ।

घत्ता—ईय वोल्लिवि रंज्जु पमेल्लिवि सोसियंभीमभवणुउ ॥ 15

जियकामहु सुव्वयणामहु पासि तेण लइयउं वउ ॥ १ ॥

2

दुवई—जायउ सो मरेवि संणासें वम्महजलणपावसो ॥

पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहोवहिदीहराउसो ॥ छ ॥

भासइ गोत्तमु णियगोत्तसूरु  
सुणि सेणियं कहमि मणोहिरामु

पंचिदियेरिउसंगामसूरु ।  
पइ पइ वसंति पुरणंगरगामु ।

- 1 १ A omits रणि. २ A पुण्णमिदु. ३ A कुल भवणु कलहकलयलु, P कुलभवणि कुलह-  
कलयलु. ४ A सुसण्हवति. ५ P आसाउ. ६ P इउ. ७ AP मेइणि मेल्लिवि. ८ A सोसीयं.  
2 १ AP पाउसो. २ AP जो इंदियं. ३ A सेणि कहमि. ४ A णयरं.

1 1 पालियछलु पालितसग्राम. 2 महुहि मधुना सह. 3 जंबुदीवासिइ जम्बूद्वीपाग्निने,  
सिरिउरि श्रीपुरे. 5 b खइ क्षये विनागकाले. 8 a चहुयम्मु चाटुकरवचनम्, b सव्वस्सु सर्वस्वम्.  
9 b आसाइ वाञ्छया. 12 b मयगंधवसि मदगन्धवशेन. 13 b रंभासहे गोशब्देन.

2 1 पावसो मेघ..

गोजूहचिण्णसुहूरियतणालु  
 तहिं सावत्थी पुरि वसणहेउ  
 अवरु वि वलि तेत्थु जि अक्खकील  
 चरं गमणछेज्जकड्डणपवंचु  
 जाणिवि रवंति किर वे वि जाम  
 हारंतउ सपुरु सकोसु देसु

इह भरहि देसु णामें कुणालु ।  
 णिवसइ णारिंदु णामें सुकेउ ।  
 पारडु विहिं मि जूयारलील ।  
 वरघायदायघरहरणसंचु ।  
 एकें उड्डिउं णियरज्जु ताम ।  
 थिउ एकल्लउ काणीणवेसु ।

घत्ता—णउ हय गय णउ संदण धय एक्कु जि वसणें णडियउ ॥  
 वारंतहं गुरुहं महंतहं रायविलासहु पडियउ ॥ २ ॥

## 3

दुवई—जे ण करंति देवगुरुभांसिउं दुइमगव्वपरवसा ॥  
 ते णिवडंति एंव णिवरा भुवि दुज्जसमसिमलीमसा ॥ छ ॥

मायाविणीइ विव्वमहरीइ  
 आजानुविलंविउंसाडियाइ  
 णीसेससोक्खणिद्धाडियाइ  
 जूएण ण कासु वि कुसलु एत्थु  
 वंदेवि सुदंसणु मुक्कंवत्थु  
 तउ लेप्पिणु थिउ लवंतहत्थु  
 जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि  
 पाडेसमि मत्थइ तासु वज्जु  
 इय संभरंतु संणासणेण  
 लंतवि सुरु सुक्कियसोहमाणु

सेज्जातंवलसुहंकरीइ ।  
 वैर खज्जउ माणउ चेडियाइ ।  
 खणि खणि आयइ ण वराडियाइ । ७  
 गउ सो सुकेउ होइवि अवत्थु ।  
 णाणेणालोइयसयलवत्थु ।  
 चिंतवइ अट्टज्ञाणेण गत्थु ।  
 तो मारेसमि आगमियजम्मि ।  
 वलि जेण महारउ जित्तु रज्जु । 10  
 मुउ जायउ भूसिउ भूसणेण ।  
 चउंदहसमुइजीवियपमाणु ।

घत्ता—णीसंगें<sup>१</sup> जिणवरलिंगें वलि देवत्तु लहेप्पिणु ॥  
 असरालें जंतें कालें सुरणिलयाउ चवेप्पिणु ॥ ३ ॥

५ A °सुरहिय°. ६ A भरहदेसि. ७ P वरगमण°. ८ A वरदायघाय°; P परदायघाय°. ९ P रमति.  
 १० A केउं उड्डिउ.

3 १ AP °गुरुजंपिउं. २ P °विडविय°. ३ P वरि. ४ AP मुक्कु वत्थु. ५ AP चोइव°. ६ AP °पवाणु. ७ P णीसंगें.

७ a गोजूह चिण्ण° गोयूथेनास्वादितम्. 6 a वसण हेउ द्यूतादिकारो. 7 अक्ख की ल पादाककीडा.  
 8 a चरं° बुद्धिकौशल्येन कोष्ठकान्तर्धानै परसारिघातेन द्यूतरमणम्, गमण° आत्मीयगारिरक्षण कुर्वन्निः  
 स्वशारीणा परपक्षात्त्वपक्षानयनम्, छेज° शारिघातः, कड्डण° आत्मीयशारीणा परधानरक्षणेन स्वशान-  
 नयनम्; b घरहरण° व्यादिसारिमिः परगृहस्त्रीकार; संचु परगारिप्रविशानप्रतिपेवेन स्वगृहावननम् (१)  
 9 b उड्डिउ हारितम्. 12 राय विलासहु पडियउ राजभोगात्प्रतितः.

3 2 णिवरा नृवरा. ७ b वराडियाइ कपर्दिकया. 8 b गत्थु ग्रन्थः. 12 a सुक्कियसोह  
 माणु सुकृतेन शोभमानः. 14 असरालें बहुलेन.

4

दुबई—इह भरहम्मि रयणपुरि णरवइ णामे समरकेसरी ॥

वीणाकलपलावसंणिहञ्चुणि घरिणी तस्स सुंदरी ॥ छ ॥

सो ताहं विहिं मि दिग्गयणिणाउ

सुउ जायउ मयरद्धयसमाणु  
तिसयल महि णिज्जिय तेण केव  
तहिं कालि गहीरत्ते समुहु

महएवि तासु णामे सुहईह  
तहिं पढमइ जणियउ पढमपुत्तु

वीयइ लंतवच्चुउ रिद्धिहेउ  
ते वेणि वि धम्मसयंभुणाम

ते वेणि वि रामसुसामदेह

ते वे वि सिद्धविज्जासमत्थ

ते वे वि विणिग्गयमलविलेव

लक्खणलक्खंकिर्यदिव्वकाउ ।

महु णामे णं उग्गमिउ भाणु ।

णिहिघडधारिणि घरदासि जेव । 5

दारावइपुरवरि राउ रुहु ।

अण्णेक पुहइ पुहइ व्व भइ ।

अहमिंदु देउ सो णंदिमिउ ।

संजणियउ णंदणु सो सुकेउ ।

ते वेणि वि ससिरविसरिसधाम ॥ 10

ते वेणि वि गरुयणिवद्धणेह ।

ते वे वि दिव्वपहरणविहत्थ ।

ते वे वि सीरहर वासुएव ।

घत्ता—गुणवंतहिं तेहिं सुपुत्तहि दोहिं मि उज्जालियउ कुलु ॥

पहवंतहि गयणि व्हंतहि णं ससिसूरहि महियलु ॥ ४ ॥

15

5

दुवई—वेणि वि ते महंत वलवंत महाजस धोयदसदिसा ॥

वे वि मइंदगरुडवाहिणिवइ वे वि अचित्तसाहसा ॥ छ ॥

जयसिरिरामाउक्कंठिएण

जणविंभयभावुप्पायणेण

अवलोइउ चिंधचलंतमयरु

पुच्छिउ समंति भणु कासु सिमिरु

दुव्वसणविसेसकयंतएण

रमणीयपैएसपुराहिवेण

घरसत्तमभूमिपरिट्टिएण ।

एक्कहि वासरि णारायणेण ।

पुरवाहिरि दूसावासणियरु । 5

दीसइ भूसणरुइरट्टियतिमिरु ।

तं णिसुणिवि वुत्तु महंतएण ।

मंडलियणं सग्गिसोमं णिवेण ।

4 १ AP लक्खलकिउ. २ AP सुभइ. ३ P त्तवि वुउ. ४ AP पवत्तहि.

5 १ AP एकम्मि दियहि. २ A सुमति. ३ AP रमणीयवैरु.

4 2 वी णेत्या दि वीणायाः कलमनोहरप्रलापमदनध्वनि . 5 a कित्तवत्त विमारत्ता विमारत्ता.  
11 a रामसुसामदेह शुरुदेह कृष्णदेहश्च. 15 पहवन्तहि प्रभावद्वयान्

5 2 मइंदगरुडवाहिणिवइ मृगेन्द्रवारिनीपतिदेवभद्रः मृगेन्द्रवारिनीपतिदेवभद्रः . 5 b  
दूसावासणियरु पटकुटीसमूहः. 6 a समति आत्मनो मग्गी सिमिरु सिमिरु . 7 सिमिरु सिमिरु  
रितम्. 8 b ससिसोमं चन्द्रमौग्गनाशा.



भीएण देव परिहरिवि दप्पु महुणरणाहहु पेसियउ कप्पु ।  
 मायंग तुरय माणि दिव्व चीरु कंकणकडिसुत्तयहारिहारु । 10  
 असिकरकिंकररक्खिज्जमाणु ओहच्छइ पत्थु णिवद्धाणु ।  
 यत्ता—विहसंतं भणित्तं अणंतं पालियं चाउव्वण्णहु ॥  
 जीवंतहु महु पेक्खंतहु जाइ कप्पु कि अण्णहु ॥ ५ ॥

## 6

दुवई—जिम लंगलि णरिंदु जिम पुणु हउं पुहविहि अव्वरु को पह ॥  
 णिच्छउ धिवमि कुद्धकालाणाणि पिक्कउ महु व सो महु ॥ छ ॥  
 ता मंतं वुत्तउ भो कुमार कि गज्जसि किर परतत्तियार ।  
 महुराउ भणहि महुघोइ काइ हा ण वियाणहि तुहुं तहु कयाइं ।  
 मयवंत णरेसर णिहिल व्हिय महि जेण तिखंड वलेण गहिय । 5  
 णिज्जिय विज्जाहर जक्ख जेण आहवि को जुज्झइ समउं तेण ।  
 तं णिसुणिवि णीलणियांसणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण ।  
 महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहुं वण्णहि अरिवरु वप्प कंय ।  
 पुरिसंतरु ण मुणहि णिविवेय ता पेसिय किकर उग्गतेय ।  
 रणि हणिवि जिणिवि ससिसोममंति रुंधिवि वंधिवि णं विज्जदंति । 10  
 आणिय मायंग तुरंग करह सोवण्णहार वरवसह सरह ।

यत्ता—आहरणइं पसरियकिरणइं कण्हहु अग्गइ धित्तइं ॥  
 पडिणेत्तइं वण्णविचित्तइं णं रिउअंतइं पित्तइं ॥ ६ ॥

## 7

दुवई—ससिसोमेण देव जं पेसिउ तं खलदुक्खदाइणा ॥  
 हित्तउं तुज्झ दव्वु औव्वंतउ रुहसुण्ण राइणा ॥ छ ॥  
 इय णिसुणवि चरवयणाउ वयणु किउ राणं मुहुं रत्तंतणयणु ।  
 पट्टुविउ वओहरु गउ तुरंतु धरणीतणयहु वज्जइ मंतु ।  
 किं भग्गउ वसुमइणाहमाणु किं हित्तु हेसु आगच्छमाणु ।

४ A चारु. ५ A परिपालिय<sup>०</sup> with परि in the margin

6 १ A णीलणिवामणेण, P णीलणिसणेण. २ A गोमणभान.

7 १ AP नउ दुक्ख. २ AP जणवड. ३ P वनत्तणु.

कि खलिउ गयणि दिणयरु भमंतु  
 हा हे विवुद्धि धगधगधगंतु  
 कि तोडिउ केसरिकेसरग्गु  
 आहव्वभावु परिहरहि दोसु  
 ता चवइ उविदुप्पणरोसु  
 जइ लोहिउ णउ पायमि पिसाय  
 ता दूयहु मुहि णीसरिय वाय

आमंतिउ कि भुक्खिउ कयंतु ।  
 उच्चोल्लिहि अंगालउ णिहित्तु ।  
 किं महिवइआणापसरु भग्गु ।  
 पट्टवहि ससामिहि सव्वु कोसु ।  
 दक्खालमि तहु असिवरु विकोसु । 10  
 तो छित्ता लइ मइं धम्मपाय ।  
 जिह जंपइ तिह को धिवइ घाय ।

घत्ता—कहजोग्गइ महिलहुं अग्गइ सयलु वि गज्जइ णिययघरि ॥  
 जससंगहि जीवियणिग्गहि विरलउ पहरइ संगरि ॥ ७ ॥

## 8

दुवई—एवं चवंतु दूउ गउ रायहु कहियउ तेण वइयरो ॥  
 देव ण देइ कप्पु वसुहासुउ गलगज्जइ भयंकरो ॥ छ ॥

ता वासुपवस्स  
 दुंदुहिणिणायान्  
 संणाहवद्धान्  
 सेण्णान् जुज्झंति  
 खग्गेहि छिज्जंति  
 वम्मान् लुम्मंति  
 चम्मान् फुट्ठंति  
 वृहान् विहडंति  
 अंतेहि गुप्पंति  
 वड्ढंतसमरट्ठि  
 गरुल्लेस महुराय  
 चिरवइरियालग्ग  
 पंचाससरहेहि  
 फणिपक्खिरापहि

पडिवासुपवस्स ।  
 रणभूमिआयान् ।  
 णिइयान् कुद्धान् ।  
 वीरेहिं रुज्झंति ।  
 कौंतेहिं भिज्जंति ।  
 रत्तेण तिम्मंति ।  
 अट्ठियान् तुट्ठंति ।  
 मंडलिय णिवडंति ।  
 खेयर समप्पंति ।  
 गयदंतसंगट्ठि ।  
 उक्खित्त णाराय ।  
 धणुवेयकयमग्ग ।  
 मायंगसीहेहि ।  
 मेहेहि वापहि ।

5

10

15

४ A इगालउ.

8 १ AP तुट्ठति. २ AP फुट्ठति

8 b उच्चोल्लिहि कटीवले. 9 a आहव्व भावु प्रसूताभिलाप. 11 a पिसाय पिशाचान्.

8 1 वइयरो व्यतिकर. 8 a वम्माइ मर्माणि. 10 a वृहाइ वृहा.. 11 अंतेहिं अन्ये.  
 12 a वड्ढंतसमरट्ठि वर्धमानाहकारे. 14 b धणुवेयकयमग्ग धनुर्वेदे कृतो मार्ग. प्रवृत्तिर्गम्यान्.  
 15 a पचास° सिंहः.

पहरंति ते वे वि  
महुणा पजंपियउं

ता चक्कु करि लेवि ।  
किं दविणु महुं हियउं ।

घत्ता—किं धम्मं गयभडकम्मं जो पहरणु णावेक्खइ ॥

मइं कुद्धइ जयसिरिलुद्धइ एमहिं को पइं रक्खइ ॥ ८ ॥ 20

## 9

दुवई—ता दामोदरेण रिउ दुंछिउ धम्मपहाणुआरिणा ॥

एण रहंगएण दारेव्वउं तुहुं मइं कित्तिकारिणा ॥ छ ॥

तं सुणिवि

भुय धुणिवि ।

मणहरिहि

सुंदरिहि ।

विउसयण-

कयवयण-

विणुएण

तणुएण ।

खयकरण

रहचरण ।

रणि मुक्कु

खणि दुक्कु ।

णहि चलिउं

जैलजलिउं ।

समियक्कु

करि थक्कु ।

अहिणवहु

केसवहु ।

तं धरिवि

छलु भरिवि ।

दीहरेण

मच्छरेण ।

विप्फुरिवि

हुंकरिवि ।

माहवेण

घणरवेण ।

तणु गाणिउं

अरिभाणिउं ।

रे पाव

करि सेव ।

दुहहरहु

हलहरहु ।

पइं कालु

दाढालु ।

सेवंतु

घोरंतु ।

रूसेविउ

उट्टुविउ ।

कंडुईवि

छलु मुइवि ।

ओसरहि

मा मरहि ।

घणघणइ

काणणइ ।

पइसरिवि

जिणु सरिवि ।

9 १ AP दामोदरेण. २ P<sup>०</sup>पहाणुगवणा. ३ A जवे जण्डि. ४ AP तुनविउ. ५ A यइवई

9 1 दु छिउ निर्भलितः, धम्मपहाणुआरिणा वनेमाणांनुआरिणा. 6 a विणुएण महुण  
b तणुएण मन्दया. पुणेण. 7 b रक्खणरणु नम्म. 10 मसिपम् मसिपम्. 11 a मसिपम् मसिपम्  
सोमपसवत्तम्म.

त्रँउ धरहि	तउ करहि ।	
ता चवइ	चक्कवइ ।	
सुरउइ	दालिइ ।	
डिभस्स	छुहियस्स ।	
को कंहुँ	आणंदु ।	30
मणि जणइ	दिहि कुणइ ।	
सयडंगु	तुहुँ तुंगु ।	
महुँ चहुँ	भुयदंहुँ ।	
सकयत्थ	दिव्वत्थ ।	
मरु हणमि	सिरु लुणमि ।	35

घत्ता— ता चक्के महुमहमुक्के महुवच्छत्थलु छिण्णउं ॥  
करतंबे णं रविर्विंवे कालउ अब्भु विहिण्णउं ॥ ९ ॥

## 10

दुवई—पत्तउ महु मरिवि समरंगणि तमतमणांमवसुमई ॥  
जायउ अद्धचक्कि लच्छीहहं भुवणि सयंभु महिवई ॥ छ ॥

जलकीलइ वणकीलइ रमतु	अंगाइ कुसुमसयणइ धिवंतु ।	
भंडारवत्थुसारइ णियंतु	मायंगतुरंगसमारुहंतु ।	
घवघवघवंतु चलणेवैराइ	माणंतु चारुअंतेउराइ ।	5
आसत्तु कामि णं भमरु गंधि	मुउ हुउ अंतिमणरयंतरंधि ।	
णिवसेप्पिणु पुहईजणणिगब्धि	हा हा सइंभु पडिओ सि सुब्धि ।	
सम्मत्तवंति मिच्छत्तविरइ	मइं भायरम्मि जिणधम्मणिरइ ।	
बुद्धो सि ण कम्महु अत्थि मल्लु	किं वद्धउ आसि णियाणसल्लु ।	
इय एव धम्मु विरणवि सोउ	णंदणहु समप्पिवि सिरिविहोउ ।	10
आउच्छिवि परियणु सयंणु लोउ	दुज्जोउ व मेल्लिवि दिव्वभोउ ।	

६ AP वउ. ७ P कुंदु. ८ A चंड. ९ A दंड.

10 १ P ०णामि. २ P लच्छीहउ. ३ A ०घवंतचल०. ४ AP ०णंडगं. ५ AP माणतु सुहयअंते०. ६ AP सयलु.

30 a कंदु इन्दु. 32 a सयडंगु शकटाङ्गं चक्रम्. 37 करतंबे किण्णताप्पेण, वि हि ण्ण उ विदारित्तम्

10 1 तमतमणांमवसुमई सप्तमनरकभूमि. 5 a चलणेवराइ चलनूपुराणि. 6 अतिमणरयरधि सप्तमनरकच्छिद्रे. 7 b सुब्धि श्वप्पे नरके. 10 a विरणवि सोउ शोऽ कृत्वा, b दिविहोउ श्रीविभोगः. 11 b दुज्जोउ दुष्टग्रहादीनां योग इव.

पणवेवि विमलवाहणु जिणिंदु  
पावेप्पिणु करणविंहीणणाणु

वहुुरायहिं सहं हूयउ मुणिंदु ।  
भव्वयणि णिजंजिवि धम्मदाणु ।

घत्ता—भरहेसरु पढमणरेसरु जिह तिह धम्मु वि दढभुउ ॥

गउ मोक्खहु सासयसोक्खहु पुष्पदंतगणसंथुउ ॥ १० ॥

15

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मसयभुमहुकहंतरं  
णाम छप्पणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५६ ॥

७ A भव्वयण. ८ AP णिजंजिवि. ९ A पुष्पयंत°. १० A महुमहकहतर.

13 a करण वि ही ण णा णु इन्द्रियरहितं केवलज्ञानम्.

पुणु भासइ गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥  
सिरिविमलणाहजिणगणहरहं मंदरमेरुहुं तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

जंवूदीवइ अवरविदेहइ  
मंदचूयचवचिचिणिचारइ  
देसु गंधमालिणि जाणिज्जइ  
भमरहिं वियलंतउं महु पिज्जइ  
जहिं माहिसु सरसलिलभंतरि  
अहिणवपल्लववेल्लीभवणइ  
गंधसालिपरिमलु दिस चासइ  
णिइवि छेत्तवालिणिइ मुहुल्लउं  
दहिउल्लउ जहिं कूरकरंबउ

माणवमिहुणयवद्धियणेहइ ।  
सीओयाणइउत्तरतीरइ ।  
गाइहि कंगुकाणिसु जहिं चिज्जइ । 5  
पक्खिहिं कलरवु जहिं विरइज्जइ ।  
ण्हाइ पउरपंकवरयपिजरि ।  
गोव सुवंति पुप्फपत्थरणइ ।  
पूसउं कं धुणंतु जहिं वासइ ।  
जहि पंथिय चवंति सरसुल्लउं । 10  
पवहि पवहि जिम्मइ अंबंवउ ।

घत्ता—तहिं देसि रवणु सुवण्णमउ णहविलग्गमंदिरसिहरु ॥  
परिहापायारहिं परियरिउ वीयसोउ णामें णयरु ॥ १ ॥

2

रायमहारिसि मुक्कवियारउ  
जाइ जणिउ सा धण्णी णिव सइ  
गेहिणि भव्व सव्वसिरि णामें  
संजयंतु अण्णेक्कु जयंतउ  
सारसमिहुणसरालवणंतरि  
एक्कहिं दिणि दक्खवियरहंतहु  
धम्मु अहिंसावंतु सुणेप्पिणु

सो सुयणायाणायवियारउ ।  
णरवइ वइजयंतु तहिं णिवसइ ।  
सुय उप्पण्णा सुहपरिणामें ।  
आणिहणजसधवलियतिजयत्तउ ।  
णासियसोय असोयवणंतरि । 5  
पयजुयलउं वंदिवि अरहंतहु ।  
हियउल्लउं मुणिंमग्गि धैवेप्पिणु ।

1 १ AP चूयचवि°. २ A-गंधमालिणि. ३ A पूसउ कण चुणंतु, P पूसउ कणु चुणतु.

2 १ AP °तिजयंतहु. २ A जिणमग्गि. ३ T सुणेप्पिणु सुष्ठु नीत्वा.

1 1 °क्किलेसमह °क्लेशमथिका. 5 b चिज्जइ भक्ष्यते. 7 b पउरपकयरयपिजरि प्रचुरपन्न-  
रजःपीते. 8 b पुप्फपत्थरणइ पुष्पास्तरणके. 9 b पूसउकंधुणंतुजहिंवासइ यत्र शुक्र. मत्तकं  
कम्पयन् शब्द करोति. 11 a दहिउल्लउ दधियुक्तम्, b पवहि मार्गें, पवहि प्रपायाम्, अंबंवउ अति-  
शयेन अम्लः.

2 1 a रायमहारिसि राज्ञां प्रधान, राजपूज्यः, b सुय श्रुतम्. 2 a सइ सर्ता पतिव्रता.  
3 b सुय सुतौ. 5 a °सरालवणंतरि शब्दयुक्तजलविशेषे. 6 a दक्खवियरहतहु दर्शितान्तगयान्तस्य.

वइजयंतणामहु सहेप्पिणु  
ते तिविहें णिव्वेएं लइय  
आमेल्लियणियसुललियजाया  
इय तवविहिहि णिति किर के वलु

संजयंततणयहु महि देप्पिणु ।  
छिंदिवि मोहलोहदुल्लइय ।  
पिउ पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया । 10  
वप्पहु उप्पणउ जहिं केवलु ।

घत्ता—तहि आयहु देवहु फणिवइहि रूवु णिहालिवि हिययहरु ॥  
णिज्जायइ लुद्धु जयंतु मुणि जइ फलु देसइ सुतवतरु ॥ २ ॥

## 3

तो मज्झु वि एहउं लायणउं  
एव णियाणणिवंधणबंधउ  
मुउ जयंतु संपत्तइ कालइ  
जेण वएण मोक्खु पाविज्जइ  
मोहें मोहिउ लोउ ण याणइ  
सवरुल्लउ किं मोत्तिउं वुज्जइ  
आहिंडंतसरहपंचाणाणि  
णिज्जियराएं वज्जियकाएं

होज्जउ भवि सोहग्गाइणउं ।  
जणु तिहिं सल्लहि सयलु वि खद्धउ ।  
जायउ विसहारिंदु पायालइ ।  
तें संसारु केंव मग्गिज्जइ ।  
काणाणि कार्याणंतिय वीणइ । 5  
मिच्छाइद्विहि दिट्ठि ण सुज्जइ ।  
तावेक्कहिं दिणि भीसणकाणाणि ।  
संजयंतु थिउ पडिमाजोएं ।

घत्ता—मुणिमारउ धीरउ दुहरिसु दूसहु गुणसंणिहियसरु ॥  
णियभामइ सामइ रामियउ णं रइरामइ कुसुमसरु ॥ ३ ॥ 10

## 4

णहयल्लि विज्जुदाहु विज्जाहिरु  
सुरहरु रिसिहि उवरि ण पयइइ  
ताव तेण अवलोइउं महियलु  
सुमरिवि पुव्ववइरु भुइ ढोइउ

विहरइ असिवरु वसुणंद्यकरु ।  
दुज्जणमणु व णं जाव विसइइ ।  
दिट्ठउ मुणिवरु मेरु व णिच्चलु ।  
विज्जासामत्थेणुच्चाइउ ।

४ AP दुल्ललिय. ५ A वप्पहं.

3 १ AP °वद्धउ. २ A कायाणणिय. ३ A मिच्छाहिद्विहि. ४ P आहिडति सरह°.

4 १ A विज्जदाहु. २ AP जाव ण.

9 b °दुल्लइय दुल्लतिकाम्. 10 a °जा या भार्या. 11 a णि ति किर केवलु नयन्ति के नरा वलं शक्तिम्,  
के पुरुषा. प्राप्नुवन्ति यथा पितुः केवलमुत्पन्नम्.

3 1 b सोहग्गाइणउ सौभाग्याकीर्ण व्याप्तम्. 5 b कायाणंतिय काकणी गुज्जा, वीणइ  
प्रार्थयति. 6 a सवरुल्लय भिल्लः. 8 a णि जियराएं निर्जितराणेण. 10 णियभामइ सामइ श्यामा-  
नाम्या निजभार्यया, रामियउ अनुरजित .

4 2 a सुरहरु विमानम्. 4 a भुइ ढोइउ बाहुभ्यां विषये वृतः.

आणित तुंगसाहिसंघायइ  
हरिवइ करिवइ चामीयरवइ  
एयँउ मिलियउ जहिं तहिं पेळ्ळिउ  
देसु असेसु तेण संचालिउ  
णग्गउ णिग्घिणु वसणोवायउ  
दुम्मुहु दुट्टबुद्धि विवरेरउ  
ता मणुयहिं मुणिंदु कयरोसहिं

भारहवरिसैपुव्वदिसिभायइ । 5  
कुसुमवइ वि चंडवेर्याणइ ।  
पंचमहासरिसंगमि धळ्ळिउ ।  
अच्छइ एत्थुं एक्क मलमइलिउ ।  
तुम्हइं रक्खसु भक्खहुं आयउ ।  
हणह कुणँह जइ मंतु महारउ । 10  
ताडिउ उवलहिं दंडसँहासहि ।

घत्ता—थिरं सत्तु मित्तु समभावि थिउ सुक्कज्ञाणसरुद्धमणु ॥

सो खवउ खँवयसेढिहि चडिउ तिणु वि ण मण्णइ णिययतणु ॥४

## 5

साहु भीसु उवसग्गु सहेप्पिणु  
गउ तहिं जहिं गउ पुणरवि णावइ  
मारिजंतु वि वइरिसमूहें  
ताहं मि जणु पहरणु कि धारइ  
सहुं देवहिं भवभावणिसुंभइ  
आयउ सो जयंतु उरँजंगउ  
फुक्कारुड्ढावियणहयंदें  
माणवणिवहु णिवद्धउ णायहिं  
अवरहि बुत्तु फणिंद वियारहि  
उक्खयखग्गें मच्छरगाढें  
परियणसयणहिं सहुं थरहरियउ

तिकलेवरणिबंधु मेहेप्पिणु ।  
मुणिवरलील तिजगि को पावइ ।  
जे कया वि धिप्पंति ण कोहँ<sup>३</sup> ।  
जहु अप्पणु अप्पाणउं मारइ ।  
तहिं णिव्वाणपुज्ज पारंभइ । 5  
पेच्छिवि चिरवंधुहि पडियंगउ ।  
आरुसेप्पिणु खाणि धरणिंदें ।  
विणिहँउ णीससंतु कसघायहिं ।  
अम्हइं काइं भडारा मारहि ।  
एउं सव्वु विलसिउं तडिदाढें । 10  
ता णासंतु सत्तु सो धरियउ ।

घत्ता—किर वंधिवि धिवइ समुद्दजलि ता फणिवइ दुम्मियहियउ ॥

आइच्चपहावें सुरवरिण करुण करेप्पिणु पत्थियउ ॥ ५ ॥

३ A °वरिसि पुव्व. ४ A कुसुमचंडई व पाणइ, P कुसुमवइ वि चंडवियाणइ. ५ A जहिं एयउ मिलि-  
यउ तहिं पेळ्ळिउ. ६ AP एक्क एत्थु. ७ P कुणाह. ८ A दुट्टसहासहिं. ९ AP थिउ. १० AP  
खवगसेढिहि.

5 १ A मलेप्पिणु. २ AP जहिं सो गउ पुणु णावइ. ३ A मोहें ४ AP अप्पाणउ अप्पणु.  
५ AP उरजगसु. ६ A वणि हउ. ७ AP °आइच्चपहाहे. ८ A करणु, P करणु.

5 a °सा हि संघायइ वृक्षसघाते. 6 a हरिवइ हरिमत्यादिपञ्च सरित, b चंडवेया चंडवेगा. 9 a  
वसणोवायउ दु खोत्पादक. 13 खवउ क्षपक..

5 5 a भवभावणिसुंभइ संसारत्फेट्ठके. 6 a उरजंगउ नरुः वरुणेन्द्र. 8 a पावइ  
नागपाशेन, b कसघायहिं कगाघातै. 9 a वियारहि विचारय. 10 b विलसिउं वेष्टिम्भ.  
13 करुण करेप्पिणु करुणा कृत्वा.



## 6

णायराय पहएं किं आएं  
मुइ मुइ किं किर कलुससहावें  
एत्थु ण को वि बंधु णउ वइरिउ  
जेण सुसीलवंतु संताविउ  
किर मुणि तवदुक्खि तणु तावइ  
इहु हिंसइ इहु धम्मि पयइइ  
तं गिसुणेवि रोसु मेलेप्पिणु  
दारणमारणविहिविच्छिणणउं

लज्जिज्जइ णिहएण वराएं ।  
पावयम्मु सइं खज्जउ पावें ।  
पिसुणु ण होइ एहु उवयारिउ ।  
मोक्खु तुहारउ भायरु पाविउ ।  
अण्णे किउ तं तहु णिरु भावइ । 5  
चउंजभंंतरु दोहं वि वट्टइ ।  
चवइ अहीसरु सिरु विहुणेप्पिणु ।  
भणु किह विहिं मि वइरु संपण्णउं ।

घत्ता—तं गिसुणिवि दरदरिसियदसणदिच्छिइ जगु धवलउं करइ ॥

कह देवदिवायराहु फणिहि वहरसभावहि वज्जरइ ॥ ६ ॥

10

## 7

भारहगोत्तखेत्तरक्खणवइ  
सयलकलाविण्णाणवियक्खण  
पढमु मंति सिरिभूइ विणीयउ  
विहसियंसरलसरोरुहणेत्तउ  
तहु गेहिणिहि सुमित्तिहि ह्यउ  
हिडंतं जाएण जुवाणें  
तेण किरणसंताणसिणिद्धं  
देसिएण सीहउरि वसंतें  
तक्करभीएं रुइविच्छिण्णइं

सीहसेणु सीहउरि महीवइ ।  
रामयत्त तहु देवि सलक्खण ।  
सच्चघोसु अवरु वि तहिं वीयउ ।  
पउमसंडपुरि सेट्टि सुदत्तउ ।  
भइमित्तु सिंसु णिरुवमरुवउ । 5  
देसंतरु लंघिवि पहरिणें ।  
रयणदीवि वररयणइं लद्धइं ।  
सुद्धसहावें बहुगुणवंतें ।  
सच्चघोसमंतिहि करि दिण्णइं ।

घत्ता—गउ अप्पणु पुणरवि णियघरहु लेवि सहायसमागयउ ॥

जा मग्गइ रयणइं णिहियाइं ताव लुद्ध लोहें ह्यउ ॥ ७ ॥

10

6 १ P चउजभमे तरु देहविघट्टइ. २ A उप्पण्णउं. ३ AP दरदरिसिय°. ४ A देवदिवा-  
यरु तहो, P देउ दिवायराहु.

7 १ AP भारहखेत्ति खेत्त°. २ A रामदत्त. ३ A सो च्चिय सच्चघोस पुणु भणियउ,  
P सोच्चिय सच्चघोसु तहिं भणियउ. ४ AP वियसिय° K वियसिय° but corrects it to विहसिय.  
५ AP सणिद्धइं.

6 1 a पहएं किं आएं एतेन प्रहतेन किम्. 3 b उवयारिउ उपकारकर्ता. 7 b विहुणे-  
प्पिणु कम्पयित्वा. 9 दरदरिसियदसणदिच्छिइ ईपद्दर्शितदन्तकान्त्या. 10 कह कथा.

7 6 b पहरिणें अध्वरान्तेन. 8 a देसिएण परदेशप्राप्तेन.

## 8

देइ ण मंति तासु पियरयणइं  
वणिवरु घरि घरि फुडु पुक्कारइ  
पुच्छिउ राणं कालउ तंवउ  
दीणु रयंतउ णिच्चु जि दीसइ  
घोसहि सच्चघोस किं जुत्तउं  
हउं वि तुहुं वि जइ चोरु णिरुत्तउ  
तो कि जियइ को विं भुवणंतरि  
हिडइ दच्चपिसाणं भुत्तउ  
णउ चौरु चित्तं<sup>१</sup> गहियउं

णाइं विरत्तउ विडयणु णयणइं ।  
खलु लच्छीमण अवहेरइ ।  
हित्तउ काइं वत्थुणित्ठउं ।  
पइं दूसइ अण्णाउ पघोसइ ।  
तो विहसेप्पिणु विप्पे वुत्तउं । 5  
जणणि गिलइ जइ डिभउ सुत्तउ ।  
एहु लयउ चोरोहिं वणंतरि ।  
जंपइ जं जि तं जि अवचित्तउ ।  
ता राएण वि तं सहियउं ।

घत्ता—वणि डिभसहांसहि परियरिउ भमइ णयरि परिमुक्कसरु ॥ 10

आरडइ करुणु सूरुग्गमणि णिवर्धरणियडइ चडिवि तरु ॥ ८ ॥

## 9

मइं दिहिवंतइ सीलविसुद्धइ  
परवंचणगुणतग्गयचित्तहि  
णिरणुद्दाणु दीणु दालिद्धिउ  
तहु जंपिउ ण को वि आयण्णइ  
णिवं तुह मंदिरि चोरहं उण्णइ ।  
एम चवेप्पिणु सुंदरु विहियउं  
पयहि पडंतु संतु हक्कारिउ  
दोहिं मि अक्खजूउ पारद्धउं  
मज्झु जाइ णीसेसहु देसहु  
चामीयरसोहासोहिल्लहि

ता महपविइ वुत्तु विरुद्धइ ।  
महिवइमइ भामिज्जइ धुत्तहिं ।  
अप्पणु जइ वि होइ सोहद्धिउ ।  
राउ वि णिद्धणवयणु ण मण्णइ । 5  
पासाहलउ पासि संपिहियउ ।  
आउ महंतु तहिं जि वइसारिउ ।  
देविइ भल्लउं उत्तरु लद्धउं ।  
तुज्झु वि<sup>३</sup> सुत्तहु दियवरवेसहु ।  
अवरु वि मुहंइ मणितेइल्लहि । 10

8 १ A वणि वरु पुडरीउ पुक्कारइ. २ AP राए वणिउ चवतउ. ३ P तो. ४ A omits वि.  
५ A चोरु ६ AP चित्तते. ७ A °सहासिं ८ AP णिवधरि णियडउ.

9 १ P तहिं. २ A adds this line in second hand, P omits it. ३ AP जि.  
४ AP सुद्धि.

8 1 b विडयणु विटजन. 2 b अवहेरइ भर्त्सयति. 3 b वत्थुणित्ठउं वस्तु रत्नम्,  
णित्ठउं समूह; रत्नसमूह इति यावत्. 8 b अवचित्तउ उद्धान्तचिन्त 9 a चित्तं चिन्तन  
कुर्वता. 11 णिवधरि णियडइ राजगृहसमीपे.

9 1 b विरुद्धइ विरुद्धया कुपितया. 2 b महिवइमइ राज्ञां मतिः. 3 a णिरणुद्दाणु निरु-  
धम, b सोहद्धिउ सौहार्दयुक्तः. स्नेहयुक्त. 6 b पासाहलउ पाशाफलकः. 8 a अक्खजूउ सारिधूतम्.

विणिण वि एयइं भूसियगत्तइं  
महियंगुलियइ वज्जुलियइ

रायाणियइ छइल्लइ जित्तइं ।  
उववीयउ सहुं अंगुथलियइ ।

घत्ता—तं णिउणमईहि समणियउं धाँइहि हियवउं हरिसियउं ॥

अहिणाणु महामंतिहिं तणउ मंडाँयारिहि दरिसियउं ॥ ९ ॥

## 10

पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ  
अच्छइ गुरु राउलि अवलोयहि  
तां कोसाहिवेण सामुंगउ  
गय सा तं लेप्पिणुं खणि तेत्तहि  
जूयपवंचु पहुहि वज्जरियउ  
ता राएं पायावलिजडियइं  
पडिहारें आहूयउ वणिवरु  
भणिउं णरिदें वणिउ णिरिक्खइ  
लइयउ तेत्थु तेणं णियमणिगणु  
दिण्णउं पुरमहल्लसेट्टित्तणु  
मंतिणिरिक्कु दुक्कु अवमाणहु  
सीसि तीस खरँटकरघायहिं

विंधु पदंसिवि वुत्तं धुत्तइ ।  
भद्दमित्तमाणिक्कइं ढोयहि ।  
अप्पिउ धाइहि वत्थुसमुगउ ।  
अच्छइ सणिवणिवाणी जेत्तहि ।  
वसुविसेसु कुडिलें अवहरियउ । 5  
अण्णइं रयणइं तहि तौतडियइं ।  
लइ णियमाणिक्कइं पसरहि करु ।  
णियधणु किं ण को वि ओलक्खइ ।  
जिह मणिगणु तिह णरणाहहु मणु ।  
पावइ को ण सुइत्तें कित्तणु । 10  
कंसथालि खावाविउ छाणहु ।  
ताडिउ मल्लहि कुंचियकायहि ।

घत्ता—कसपहरपरंपरसुद्धियतणु वरवेयणवद्धियजरउ ॥

मुउ रायहु उप्परि कुवियमणु हुउ वसुवासइ विसंहरउ ॥ १० ॥

५ AT विज्जुलियइ, but gloss in 'T' हीरदीप्या. ६ A महिवइहिययउ. ७ P भडायारिहे.

10 १ P तो. २ A साचगाउ, P सामगाउ. ३ P लेप्पिणु तंखणि. ४ P सणिवइराणी.

५ P adds वि after तेण. ६ A पावइ को ण सइत्तें, P पावइ किं ण सुइत्तें. ७ A सीस तीस खर-  
टकर°, P सीसि तीस खरढकर°. ८ A धणवेयण°; P वणवेयण°. ९ A विसहरु.

11 b छइल्लइ चतुरया. 12 a महियंगुलियइ पूजिताङ्गुलिकया, वज्जुलियइ हीरकैर्दीप्या,

b उववीयउ यजोपवीतम् 14 मंडा यारि हिं भाण्डागारिकत्त.

10 1 a पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ प्रोत्फुल्लितसुवक्त्रकमलया. 3 a सामुगउ समुद्रक.  
करण्डक, b वत्थुसमुगउ वस्तुपूर्णः रत्नपरिपूर्णः. 4 b सणिवणिवाणी स्वनृपभार्या. 5 b वसुविसेसु  
द्रव्यविशेषः. 6 a पायावलि° किग्णपक्तिः; b तौतडियइ मिश्रितानि. 10 b सुइत्तें शुचित्वेन. 11 a  
मंतिणिरिक्कु मन्त्रिचोर, b छाणहु गोमयस्य. 13 °सुडिय° शूना, वरवेयण° तीव्रवेदना. 14 वसु-  
वासइ भाण्डागारे.

## 11

भीमु अगंधणकुलि संभूयउ  
सिसुससिसरिसंसविसमदाढाणणु  
कज्जलकण्हलतंविरलोयणु  
फुक्करंतु दुम्मुहु अहि अच्छइ  
ता राएण रिद्धिपरिउण्णउं  
असणवणंतरि कंतारायलि  
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिउ  
णियजणणिइ छुहियइ उवलद्धउ  
मरिवि महावल्लु पडिवलमद्दणु  
सीहेंचंदु पहिलारउ भासिउ  
रामयत्त विहि पुत्तहि राहिय  
अण्णहिं दिणि कुलकमलदिणेसरु

णं जमपासउ णं जमदूयउ ।  
धणणिहिकलसयवलइयणियतणु ।  
कोइलभसलकसणु मरुभोयणु ।  
दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ ।  
मंतित्तणु धम्मिल्लहु दिण्णउं । 5  
धम्मणाममुणिवरपयजुयतलि ।  
भद्दमित्तु जिणवरदिव्खंकिउ ।  
गहणि सुमित्तौवग्घिइ खद्धउ ।  
मयवइसेणहु जायउ णंदणु ।  
पुण्णयंदु तहु अणुउ पयासिउ । 10  
णं पुण्णिम रविससिहिं पसाहिय ।  
दविणागारु णियंतुं णरेसरु ।

घत्ता—जो सच्चघोसु चिरु मंतिवरु वद्धवइरु हुउ सण्णु घरि ॥  
तं रूसिवि डक्किउं भीसणिण णउलीयरणु करेवि करि ॥ ११ ॥

## 12

मुउ सल्लइवणि जायउ करिवरु  
णवर ससामिमराणि कुज्झंतं  
गारुडदंडण गारुडिणं  
भणिउ काइं महुं वयणु णियच्छहु  
ता पइसरिवि जलणि अहि णिग्गय  
पच्चारियउ इयरु मंतीसं  
एवहि एम काइं अच्छिज्जइ

असणिघोसु णामें दीहरकरु ।  
मंतसारु सयलु वि बुज्झंतं ।  
फाणि आवाहिय मच्छरचंडिणं ।  
दीवुं धरेप्पिणु णिलयहु गच्छहु ।  
अकयदोस जे ते सयल वि गय । 5  
राउ महारउ भन्निखवि रोसें ।  
जिम सिहि खज्जइ जिम विसु छिज्जइ ।

11 १ P °सरिससविसदाढा°, २ A कज्जलकण्हिरतविर°, P कज्जलकजलतविर°. ३ A °वग्घिणि-  
खद्धउ. ४ P सीहचडु. ५ AP पुण्णचदु. ६ AP ससिरविहिं. ७ AP णियत्तु. ८ P तं रूसिवि.  
९ AP डक्किउ.

12 १ A गारुडियइ. २ १ चडियइ. ३ A दिवु धरेप्पिणु, P दीउ धरेप्पिणु. ४ P जलिणि.  
५ A चिज्जइ.

11 2 b °कलसयवलइय° कलशकवेष्टिता. 3 b मरुभोयणु वातमोजन सर्प. 6 a  
कंता रायलि कान्ताराचले. 8 a छुहियइ बुभुक्षितया. 9 b मयवइसेणहु सिंहसेनस्य. 10 b अणुउ  
अनुजः. 14 डक्किउ दघ्..

12 2 a कुज्झंतं कुध्यतः. 6 a इयरु इतरो दोषवान्.

ता चिंतइ कुंभीणसु णियमणि  
उंगिल्लिउ विसु केम गिलिज्जइ

अम्हइं जाया गोत्ति अगंधणि ।  
कुलसामत्थु केम मइलिज्जइ ।

घत्ता—मैरणि वि संपण्णइ गरुयगरु कुलछलु माणु ण मेल्लियउ ॥ 10  
जालावलिजलियइ विसहरिण अप्पउं हुयवहि घल्लियउ ॥ १२॥

## 13

अट्टज्झाणमैरुं सो मुउ  
खांति हिरण्णवई वणि वंदिवि  
रामयत्त पियदुक्खे भग्गी  
सिंहैचंदु चिरु रज्जु करेप्पिणु  
पुण्णचंदु भयवंतु णवेप्पिणु  
जायउ इंदियदप्पवियारणु  
रामयत्तदेवीइ मणोहरि  
वंदिउ वंदणिज्जु णियमायइ  
कुच्छि सलक्खण एक महारी  
अज्ज वि अच्छइ काइं रमारउ  
तं णिसुणेप्पिणु भणइ भडारउ

कालवणंतरि हुयउ चमरीमउ ।  
दुक्खिउ पुणु पुणु णिंदिवि<sup>३</sup> गरहिवि ।  
पंचमहव्वयचरियहि लग्गी ।  
पुरु धरित्ति णियभायहु देप्पिणु ।  
पवरदियंबरवित्ति लप्पिणु । 5  
मणपज्जयणाणिउ णहचारणु ।  
दिट्टउ काणणि ललियलयाहरि ।  
पुणु आउच्छिउ सुंमहुरवायइ ।  
तुहुं जणिओ सि जाइ भववइरी ।  
धम्मु ण गेण्हइ भाइ तुहारउ । 10  
णिसुणहि ससयणभववित्थारउ ।

घत्ता—कोसलविसयंतरि धणभरिउ तुहुगाउं वइपरियरिउ ॥

तहिं आसि मृगायणु विप्पवरु महुरइ बंमणीइ धरिउ ॥ १३ ॥

## 14

सज्जणमोहणि णावइ वारुणि  
मरिवि मर्यायणु पुरि साकेयइ

धीय विहिं मि उप्पण्णी वारुणि ।  
अइवलणामणरिंदणिकेयइ ।

६ AP उगिलियउ. ७ AP ते मरणे वि होतए गरुयगरु कुलच्छलु.

13 १ A °ज्झाणमरणेण य सो मुउ. २ AP गरहिवि<sup>३</sup> णिंदिवि. ३ AP सीहचंदु. ४ A णप्पिणु. ५ A समहुर° ६ AP मियायणु. ७ AP वरिउ.

14 १ P मियायणु.

8 a कुं भीणसु सर्पः. 10 कुलछलु कुलवल्लम्.

13 1 a मरुं दपेण, b चमरीमउ चमरीमृगो गवयः. 2 a हिरणवई मृगायणविप्रचरा सा; अस्मिन्भवे माता पूर्वजन्मनि भर्ताभूत्. 3 a पियदुक्खे मरुदुःखेन. 7 b °लया हरि लताग्रहे. 11 b ससयणभववित्थारउ निजस्वजनभवविस्तार 12 वइ° वृत्तिः.

14 1 a वारुणि मयम्, b वारुणि वारुणीनाम्नी.

सुमईदेविहि गग्भि समायउ  
 धीय हिरण्णवइ त्ति य जायउ  
 पोयणपुरवरि रूवरवण्णी  
 जा चिरु महुर सा जि तुहुं हई  
 भइमित्तु सुउ तुह उप्पण्णउ  
 वारुणि पुण्णयंदु जाणिज्जसु  
 पुण्णचंदु जो पोयणसामिउ  
 जो तुह जणु तुज्जु गुरु जायउ  
 ताउ महारउ कंतु तुहारउ  
 कूरतिरियजम्मं संमोहिउ

पुरिसु वि थीलिगंतुह आयउ ।  
 भुवणि वियंभइ कम्मविवायउ ।  
 पुण्णयंदणरणाहहु दिण्णी । 5  
 रामयत्त दोहं मि सिरिदूई ।  
 सीहईंदु हउं णेहि भिण्णउ ।  
 अम्मिइ मोहु हवंतु खमिज्जसु ।  
 भइवाहुगुरुणा उवसामिउ ।  
 महं वि सो जि सुरपुज्जियपायउ ।  
 जायउ वणि वारुणु दुव्वारउ ।  
 हणणकामु सो मइ संवोहिउ ।

घत्ता—ओसरु गयवर मयरयभमर मा दूसहु दुक्किउ करहि ॥

कि णिहणहि णंदणु अप्पणउं सीहयंदु णउ संभरहि ॥ १४ ॥

## 15

ता जाइंभरु जायउ कुंजरु  
 झायइ इहु रिसि तणुरुहु मेरउ  
 जो चिरु भुंजंतउ रस णव णव  
 जो चिरु सेवंतउ वरणारिउ  
 जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ  
 जो चिरु सुहुं सोवंतउ तूलिहि  
 जो चिरु देंतउ दाणु सुदीणहं  
 जो चिरु जाणंतउ छग्गुण्णउं  
 डज्जउ देव एय तिरियत्तणु

दुद्धरु गिरिवरगेख्यपिजरु ।  
 हउं जायउ वणि करि विवरेरउ ।  
 सो एवहि भक्खमि तरुपह्व ।  
 तहु एवहि दुक्कउं गणियारउ । 5  
 सो एवहिं कइमि पंगुत्तउ ।  
 सो एवहि हउं लोलमि धूलिहि ।  
 सो एवहि महुयरसंताणहं ।  
 तं किह पुत्तं णिहणु पेडिवण्णउं ।  
 ता मइ भणिउं मुणेप्पिणु तहु मणु ।

घत्ता—मा णिहणहि पडिकरि गिरितरु वि जीव णिहालिवि पउ धिवहि । 10

गय भक्खहि णिवडियदुमदलइं परकल्लसिउ पाणिउ पियहि ॥ १५ ॥

२ AP सुम्मइदेविहि. ३ A थीलिगिं तहु. ४ P पुण्णइद°. ५ AP सीहचदु. ६ AP खवंजु.  
 ७ AP पुज्जियसुरपायउ. ८ A मयरसभमर.

15 १ A जाईसरु, P जाएभरु, K जाईसरु but corrects it to जाइंभरु. २P omits  
 this line. ३ AP भुजतउ. ४ A दुक्कहि. ५ A कइमहि. ६ A सो एमहि तोलिवि तणु, P सो  
 एमहि लोलमि तणु. ७ A त किह णिहणु पुत्त पडि°, P तं किह णिहणु पुत्तु पडि°. ८ A उप्पणउ देव  
 एहु, P डज्जउ एउ देव.

13 मयरयभमर मदे रता. भ्रमरा यत्य.

15 1 a जाइंभरु जातिसर. 2 b विवरेरउ विवरीत. 3 b गणि जातिउ कंणुणाः.  
 5 b पंगुत्तउ पङ्कणवल्ति. S a छग्गुण्णउ पाद्गुण्णम्.

## 16

मारंतउ वि अणु मा मारहि  
तां कुंभत्थलणवियमुणिदं  
वंभचेरु दिहुं णिच्चलु धरियं  
खविउ कलेवरु कायकिलेसं  
केसरितीरिणितडंगउ जइयहुं  
णवरि चमरिजम्मंतरमुक्के  
कुंमारोहणु करिवि सदणं  
मुउ हुउ उर्वसमेण सोक्खावहि  
सिरिहरु देउ काइं वाणिज्जइ  
हुउ धम्मिल्लु वाणरु रोसुकहु  
णियपावें पंक्कपहि पत्तउ

अप्पउ संसारहु उत्तारहि ।  
थिरु वरुं पालिउं तेण गइदं ।  
जिणपायारविंदु संभरियउं ।  
परियट्टं कालविसेसं ।  
खुत्तउ दुदमि कइमि तइयहुं । 5  
पिसुणं अवरभवंतरहुक्के ।  
भक्खिउ गयवइ कुक्कुडसणं ।  
सहसारइ सुरभवणि रविप्पहि ।  
एहउं जाणिवि धम्मु जिं किज्जइ ।  
मारिउं तेण रणे सो कुक्कुहु । 10  
अणु वि एव जि जाइ पमत्तउ ।

घत्ता—जणु जिणवरवयणु ण पत्तियइ खाइ मासु मारिवि पसु ॥  
संतावइ साहु समंजस वि णिवडइ णरइ सकम्मवसु ॥ १६ ॥

## 17

गयमोत्तियइं दंतजुयसहियइं  
वणिय सत्थवाहहु हिमवणणइं  
सीहसेणतणयहु जसधामहु  
कारिय तेण तमीयरकंतिहिं  
णियसीमंतिणियहिं रुइरिद्धइं  
हो केत्तिउ संसारु कहिज्जइ  
मोहमहंतइ णिइइ भुत्तउ  
जाहि अस्मि तुह वयणं जग्गइ  
णियणंदणमुणिवरवयणुल्लउ  
गय मायरि तहिं जहि तं पट्टणु

वणि सिगालभिल्लें संगहियइं ।  
पुरसेट्ठिहि धणमित्तहु दिण्णइं ।  
धणमित्तेण वि छणससिणामहु ।  
णियमंचयहु पाय गयदंतहिं ।  
मोत्तियाइं कोडग्गि णिवद्धइं । 5  
जं चिंतंतहं मइ दुम्मिज्जइ ।  
अच्छइ सुहि णं मुच्छिउ सुत्तउ ।  
पुण्णयंदु जिणधम्महु लग्गइ ।  
तं आयणिवि सवणसुहिल्लउ ।  
जहि सो राणउ वइरिविहट्टणु । 10

घत्ता—पणवंतहु पुत्तहु परियणहु अज्जइ सुमहुरु साहियउं ॥

जिह राणं जाणं मयगलिण णिज्जणु गहणु पसाहियउं ॥ १७ ॥

16 १ AP तो. २ AP वउ. ३ AP चिरु. ४ P<sup>०</sup>तहु गउ. ५ AP णवर. ६ A दम-  
समेण. ७ A वि. ८ मारिउ रणिण तेण सो, P<sup>०</sup>मारिउ तेण रणिण सो.

17 १ AP सिगालभिल्लें गहियइ. २ A<sup>०</sup>सीमतिणिपहरुइरिद्धइ. ३ AP कठग्गि. ४ A  
मुच्छियसुत्तउ. ५ A पुण्णइदु. ६ A अजिए. ७ A णिज्जणगहणु.

16 6 a च मरिजम्मंतरहुक्के सत्यवोपचर. चमरोमृग अन्यभव प्राप्त सर्पो जातः. 10 a  
रोसुकहु रोपोत्कट .

17 1 b सिगालभिल्लें शृगालनाम्ना भिल्लेन. 3 b छणससिणामहु पूर्णचन्द्रस्य. 4 a  
तमीयर<sup>०</sup> चन्द्र.. 5 b कोडग्गि ग्रीवाग्रे.

## 18

जं धणमित्तं आणित आयु  
तं दियमुसलजुवलु तहु केरु  
पणइणिकंठइ णिहिउ णिहालहि  
पुत्तय णिरु विचित्तु संसारु  
ता हियवउ पिउणेहें भिण्णउं  
पुत्तं परिवारेण वि सोइउ  
उवसमेण हूई पविमलमइ  
रामयत्त सणियाण मरेप्पिणु

पल्लं कहं पयजोग्गउ जायउ ।  
मुत्ताहलणितुखंड सारउ ।  
पुत्तय सावयवय परिपालहि ।  
पुत्तय पहु वि होइ कम्मरउ ।  
दंतिदंतु अवरुंडिवि रुण्णउं । 5  
कुसुमहिं अंचिवि हुयवहि ढोइउ ।  
थिउ वैरि धम्मणिरउ सो णरवइ ।  
कप्पु महंतु सुक्कु पावेप्पिणु ।

घत्ता—मंदारदामसोहियमउहु रयणाहरणावियारधरं ॥

सा हूई रविसंणिहणिलइ रविभाभासुरु सुरपवरु ॥ १८ ॥ 10

## 19

पुणु फणिरायहु गुज्जु ण रक्खइ  
कालें जंतें सुक्कियलीलइ  
पुण्णयंदु पुण्णं उप्पण्णउ  
विसमविसमसरवाण णिवारिवि  
संभूयउ संतहि णिरवज्जहि  
इह रययायलि दाहिणसेढिहि  
पइ अइवेउ पुरंधि सुलक्खण  
सा सग्गाउ ढलिय पंकयकर  
दिण्णी पिउणा दरिसियणामहु

आइच्चाहु कहंतरु अक्खइ ।  
वरवेरुलियविमाणि विसालइ ।  
वेरुलियप्पहु तंहि संपण्णउ ।  
दंसणणाणचरित्तइ धारिवि ।  
सीहचंदु उवरिमगेवज्जहि । 5  
धरणित्तिलयपुरु रूढउ रूढिहि ।  
रामयत्त जां चिरु सेवियवण ।  
सुय उप्पणी णामें सिरिहर ।  
अलयाणाहहु वड्डियकामहु ।

घत्ता—सो पुण्णयंदु दिवि देवसुहुं माणिवि हर्यविहलत्तणउं ॥ 10

णियकम्मविवापं णिवडियउ पुणु पत्तउ महिलत्तणउं ॥ १९ ॥

18 १ A °कठहो. २ A पियणेहें. ३ A धरधम्मि णिरउ. ४ AP °वियाग्हरु. ५ A रवि-  
भाभासुरु, P रविभासासुरु.

19 १ A °विमाणविसालइ. २ A पुण्णइंदु. ३ P तंहिं नि मण्णउ. ४ AP °तिलयपुरि.  
५ A जा सेविय चिरु वण. ६ A विहवविहत्तणउ.

18 1 a आयउ आयपदवस्तु 2 a दियमुसलजुवलु दन्तमुसलजुगलम्. 5 a पिउणेहें  
पितृस्नेहेन, अवरुंडिवि आलिङ्गय. 10 रविसंणिहणिलइ सूर्याभविमाने.

19 4 a विसमविसमसरवाण विपमाश्च ते विपमयारत्तय नामत्तय वाणाः. 5 a सन्ति हि  
त्रैवेयके शान्तस्थाने. 6 a इह भरतवर्षे रययायलि रजतान्ते. 7 a अइवेउ अनिरुग. 10 इह-  
विहलत्तणउ हतदारिद्र्यत्वम्. 11 महिलत्तणउ स्त्रीत्वम्.



## 20

दरिसियरापं हई दुहहर  
दिण्णी तापं कामासत्तहु  
सीहसेणु करि सिरिहंरु भणियउ  
रस्सिवेउ णंदणु संमाणिवि  
आंदरिसेण पासि ह्यदंदहु  
तइयहं सिरिजसहरउ विणीयउ  
मुणिचरणारविंदरइमइयहि  
पवणुद्धयधवलधयमालउं  
थावरजंगमविरइयमेत्तिइ  
तहिं हरिचंदु भडारउ पेक्खिवि

सिरिहराहि सुय णामे जसहर ।  
दिणयराहपुरि सूरावत्तहु ।  
जो सो एयहिं दोहि मि जणियउ ।  
सिरि दोइवि सिरिकलसहिं ण्हाणिवि ।  
लइयउ वउ जइयहु मुणियंदहु । 5  
पावइयउ तहिं मायाधीयउ ।  
पासु वसंतियाहिं गुणमइयहि ।  
सिद्धसिहरु णामेण जिणालउं ।  
किरणवेउ गउ वंदणहत्तिइ ।  
थिउ अण्णउ रिसिदिकखइ दिक्खिवि ।

व्रत्ता—सो आयहिं सिरिहरजसहरहि दोहिं वि गिरिगरुयंगु गुणि ॥

गुहकुंहरि णिसण्णु गिरिक्खियउ पलियंकेण णिसण्णु मुणि ॥ २० ॥

## 21

वंदिवि खरतवतावे खीणउ  
छुहु कम्मकखयवयणु पयच्छिउ  
ता सो तंवचूलफणि णारउ  
दीहु कालु संसारु सरोप्पिणु  
जायउ अजयरु विसमखयालइ  
मुहविससिहिंमसिकयसारंगउ  
फणताडणफोडियधरणीयलु  
वइवसदंहु चंहु अवलोइवि  
मरणि वि धीरत्तेण ण मुक्कंइं  
अहिणा दढदाढहिं णिइलियइं

ताउ तासु णियडइ आसीणउ ।  
रयणत्तयहु कुसलु फुहु पुच्छिउ ।  
णरयहु णीसरेवि हिसारउ ।  
अण्णण्णइं अंगाइं धरेप्पिणु ।  
फुल्लियवउलकलंबतमालइ । 5  
मोडियविडवुडुवियविहंगउ ।  
वयणरंधघल्लियवणमयगलु ।  
खणि आहारु सररु पमाइवि ।  
तिण्णिण वि पावइयइं थिरु थक्कंइं ।  
कसमसंति चावतं गिलियइं । 10

20 १ P सिरहर. २ A आदरसेण. ३ P ह्यदडहु. ४ AP मुणिचदहु. ५ A °कुहरणिसण्णु.

21 १ AP तवचूल. २ P संसारि. ३ AP °सिहिसिहयसारगउ. ४ A फलताडण°. ५ P °वणयरपल. ६ A मुक्कउ. ७ P पव्वइयइं थक्कं. ८ A थक्कउ.

20 2 b दिणयराहपुरि सूर्याभपुरे. 4 a रस्सिवेउ रस्सिवेग. 6 a सिरिजसहरउ श्रीधरायगोधरे. 9 b किरणवेउ रस्सिवेग. 11 आयहिं आगताभ्याम्, गिरिगरुयंगु गिरिवद्रुशरीर.

21 1 b ताउ ते द्वे श्रीधरायगोधरे. 3 a तंवचूलफणि कुक्कुटसर्पः. 6 a मुहविससिहिं-मसिकयसारगउ मुखविपाग्निना अङ्गारोक्तहरिणः. 8 a वइवसदंहु यमदण्ड इव.

हेमणिवासविसेसवरिट्टइ

उष्पण्णइं मरेवि काविट्टइ ।

घत्ता—तहिं स्ययविमाणि मणोरमाणि जायउ अमरु वरंक्कपहु ॥

सो अजयरु चोत्थइ णरयविलि णिवडिउ मुणिवररइयवहु ॥ २१ ॥

## 22

चक्कउरइ जयलच्छिसहायहु  
 आयउ जिणगुणगुण सुयरंतउ  
 सीहचंदु णं हुउ कुसुमाउहु  
 वित्तमाल तहु पियरायाणी  
 ताहं विहि मि णं पुण्णविहायउ  
 जो चिरु रस्सिवेउ अजयरहउ  
 णामें वजाउहु जयलंपहु  
 पुहईतिलइ णयरि रवितेयहु  
 सिरिहर काविट्टइ पम्भट्टी  
 दिण्णी कुलिसाउहहु सैणहें

णयवंतहु अवराइयरायहु ।  
 पवरुवरिमगेवज्जहि होंतउ ।  
 सुंदरिदेविहि सुउ चक्काउहु ।  
 णं मयरद्वयवाणणिसेणी ।  
 अक्कप्पहु सुरु तणुरुहु जायउ । 5  
 एहुं जि सो णरंजम्मसमागउ ।  
 समरंगणि पल्हत्थियगयघहु ।  
 पियकारिणिदइयहु मइवेयहु ।  
 रयणमाल सुय हूई दिट्टी ।  
 पुणु पवहंतें कालपवाहें । 10

घत्ता—कीलंतहं पेम्मपरव्वसहं ताहं तेत्थु पयँडियपणउ ॥

सा जसहर सग्गहु ओयरिवि रयणाउहु हूई तणउ ॥ २२ ॥

## 23

पिहियासउ णवेवि अवराइउ  
 रज्जु करेवि सुइरु चक्काउहु  
 तेण कयउं भीसणु वम्महरणु  
 दूरुज्झियपरमहिलापरधणु  
 दंसणणाणचरिन्ति अभंतउ

तउ चरंतु संतत्तु पराइउ ।  
 गउ तायहु जि सरणु वियसियमुहु ।  
 चरमदेहु जाणइ विहिविहरणु ।  
 सिरि भुंजिवि तेत्तिउं पविपहरणु ।  
 वप्पहु पासि पुत्तु णिक्खंतउ । 5

१ A उष्पणाइ. १० अमरवरकपहु.

22 १ A गुणगुण. २ A पुण्णणिहायउ. ३ A एहु जो सो. ४ AP णरजम्मि समागउ.  
 ५ AP पियकारणे. ६ P सणाहें. ७ A पयलियपणउ.

23 १ A तित्तिउ, P तित्तउ. २ P चरित्तह भत्तउ.

12 वरक्कपहु श्रेष्ठः सूर्यप्रभः 13 ० रइयवहु कृतवध .

22 4 b वाणणिसेणी वाणपक्ति. 5 पुण्णविहायउ पुण्यविभाग. 7 b पल्हत्थिय पातिता. 8 a रवितेयहु सूर्यवत्तेजस. 10 a कुलिसाउहहु वज्रायुधस्य.

23 1 b संतत्तु शान्तत्वम्. 3 b विहिविहरणु चारित्रम्. 4 b तेत्तिउ तृप्त., पविपहरणु वज्रायुधः. 5 a अभंतउ भ्रान्तिरहित .

खवइ पुराइड कम्मु गयालसु  
माणइ सोक्खु ण तिप्पइ भोएं  
जायवेड णं तरुपब्भारें

तहु सुड रयणाडहु रइलालसु ।  
णं मयैरहर तरंगिणितोएं ।  
अइरारिड वित्थरइ विथारें ।

घत्ता—अण्णहि दिणि पवरुज्जाणहरि गिरिसरिखेत्तविह्वसियड ॥

सिरिवज्जदंतमुणिणा जणहु तिहुयणमाणु पयासियड ॥ २३ ॥ 10

## 24

विजयमेहु णामें कुंभीसरु  
तं णिसुणिवि मुणिभासिड कंखइ  
मंतिविज्ज आउच्छइ राणउ  
ताव तेहिं अवलोइड जाइवि  
जंगलकवल्लु णिबद्धु ण ढोइड  
सो कवल्लिड करिणा करु देंतें  
मत्थएण वंदिवि मुणिपुंगमु  
कहइ महारिसि जियवस्मीसरु  
पीयैभद्दु णामें णं वस्महुं

णिवकल्लाणकारि जलहरसरु ।  
दिण्णु वि मात्तगासु ण वि भक्खइ ।  
महु तंवेरमु किं विद्धानु ।  
लक्खिड तणु गुणदोस पैलोइवि ।  
पयधियकूरपिहु संजोइड । 5  
वज्जदंतु पुच्छिड महिवंतें ।  
मासु ण खाइ काइं तंवेरमु ।  
एत्थु भरहि छत्तउरि णरेसरु ।  
सइदेवीवइ णावइ सयमुहु ।

घत्ता—पीइंकरु पुत्तु पसिद्धु जइ मंतिवि जाणिउं चित्तमइ ॥

कमला इव कमला तासु पिय तणुरुहु ताहं विचित्तमइ ॥ २४ ॥ 10

## 25

धीरु धम्मरुइ सिरिगुरु मण्णिणवि  
मणि पडिबज्जिवि गुत्तिड तिण्णिण वि  
गैय रिसिवड लेप्पिणु साकेयहु

धम्मु अहिसिल्लुड आयण्णिणवि ।  
पीइंकरु विचित्तमइ विण्णिण वि ।  
सत्तभूमिसउहावल्लिसेयहु ।

३ A मयहर. ४ AP अवरहि दिणि.

24 १ A णवकल्लाण<sup>०</sup>. २ A पलोयवि, P पलाइवि. ३ A पीइंभद्दु, P पाइंभद्दु.

25 १ AP समिदिड पंच धरेप्पिणु विण्णिण वि, A adds a new line after this पीइंकरु विचित्तमइ वेण्णिण वि in second hand. २ A रिसि गयवड.

7 b मयहरु मसुद्धः. 8 a तरुपब्भारे वृक्षसमूहेन, b अइगरिड अनीव लालिनः.

24 1 a कुंभीसरु गजेश्वर. 3 a मंतिविज्ज मन्विण धंवाध, b तंवेरमु रस्ती, विद्धानु उ दुर्गलो जानः. 4 b तणु वृगम्. 6 a करुदंते मुण्डा ददना. 9 b <sup>०</sup>देवीवड <sup>०</sup>देवीपतिः. 10 नड जगतिः चित्तमइ चित्तमतिर्नाम मन्ती.

25 3 b <sup>०</sup>नड नवविनेकरु <sup>०</sup>मौणावतीभिः. १० नड.

गीर्गिरिदि उषण्णी जेद्रु  
 नंरुं पाण्ड गयणंगणि  
 यद्रुवधासरीणमुणिपंथिय  
 धाम भणंतिवाः पणवेपिणु  
 कामिणीः अप्पाणउ गगतिउं  
 पुच्छर लुयउ साहु नसंयउ

णिजियणियजीहिदियचेद्रु ।  
 वेण्णि वि चडिय हुरु जि धरंप्रंगणि । 5  
 ते धीसेणइ वेसइ पत्थिय ।  
 ण थिय भडारा विगय वलेपिणु ।  
 कि जीविउ मुणिदाणं विरहिउं ।  
 किं आया से ण गहियउ गासउ ।

धत्ता—गुरु अरुणइ महुमाग्नानियतं णिण्णिह कयपरलोयकिसि ॥ 10  
 अधिणीयतं रायतं कामिणिहि दिण्णु वि पिह ण लेंति रिसि ॥२५॥

26

तदि विचित्तमः सुमरेइ रामति  
 मयणन्नेरं हियवउं भिण्णंउं  
 गउ मडाउ तेहु मेह्लिवि मंदिह  
 गिसुमृगणयणइ पीवरथणियइ  
 डिण्णउ तारुं भोजु जं चंगउं  
 सरसवयणु तदि तेण णिउंजिउं  
 रचु मुणेवि ताइ अवहेरिउ  
 तो गुणवंतु ताम गह्यत्तणु  
 णिग्गउ गउ परिहेपिणु राउलु

गीओलंविद्यमोत्तियदामहि ।  
 जंपंतहं हुंकारइ सुण्णउं ।  
 णं इंदीवरासु इंदीवरासु इंदिंदिरु ।  
 वंदिउ सो पडिगाहिउ गणियइ ।  
 विडसाहुहि संपीणिउ अंगउं । 5  
 दह्हुउं चरियधण्णु जं पुंजिउं ।  
 णारिहि भुवणि को ण किर मारिउ ।  
 जाम ण लग्गइ मणसियमग्गणु ।  
 विसयालुद्धउ जायउ आउलु ।

धत्ता—पलपापं जापं मिट्ठुर्ण सूर्यारउ णिवमणि चडिउ ॥ 10  
 कय कामिणि दविणं तेण वस रिसि चारित्तहु परिवडिउ ॥ २६ ॥

३ A खीणरिद्धि. ४ AP °पगणि. ५ A ते विसणीयइ; P ते धेसिणीयइ. ६ A कि आयहो घरे गहिउ ण गासउ, P कि आयहे घरे गहिउ ण गासउ. T supports the reading of K

26 १ मुउरइ. २ AP छिण्णउं. ३ AP मेह्लिवि तहि. ४ AP °मिगणयणइ. ५ AP °थणिइ. ६ A ताइ. ७ AP गुरुयत्तणु. ८ A सिट्ठएण.

6 b धीसेणइ बुद्धिपेणानाम्भ्या. 9 a ससंसउ स्वसशयम्, b किं आया किमर्थमागतौ, से अस्या ( गृहम् ), ण ग हियउ गासउ ग्रासस्तु न गृहीतः. 10 कयपरलोयकिसि कृतपरलोककृषयो ऋषयः..

26 1 b गीओलविद्यं ग्रीवावलम्बिता. 2 a °सरोहं शरसमूहेन 3 a सहाउ सखा. 4 b पडिगाहिउ प्रतिग्राहितः, गणियइ वेदयया. 6 b चरियधण्णु चारित्रधान्यम्. 7 a अवहेरिउ निरादतः तिरस्कृतः. 8 b मणसियमग्गणु कामन्त्राणः. 9 a परिहेपिणु वस्त्र गृहीत्वा. 10 पलपापं मासपाकेन, सूर्यारउ सूपकारः. 11 वस वशीकृता.

## 27

मरिवि तुहारउ जायउ कुंजरु  
 एहु एवहिं जाँउ जाइंभरु  
 ता रयणाँउहेण णियतणयहु  
 तासु जि गुरुहि पाँसि तउ चिण्णउं  
 विण्णि वि संतइं मायापुत्तइं  
 अज्जरु पंकप्पहरणयंतहु  
 दारुणाभिल्लहु सुउ अइदारुणु  
 तेण पिथंगुदुग्गि अवलोइउ  
 मुउ सव्वत्थसिद्धि संपत्तउ  
 सत्तमि तमतमपहि भीसावणि

महु भासंतहु तिहुवणपंजरु ।  
 तुहं वि वप्प अप्पाणउ संभरु ।  
 रज्जु समाप्पिउ पयडियपणयहु ।  
 तहु मायाइ तं जि पडिवण्णउं ।  
 अच्चुइ अणिमिसत्तु संपत्तइं । 5  
 णीसरियउ कह कह व कयंतहु ।  
 मंगिहि सवरिहि हुउ करिमारणु ।  
 तउ तवंतु वज्जाउहु घाइउ ।  
 सवरु वि पावें णरइ णिहित्तउ ।  
 पंचपयारदुक्खदरिसावणि । 10

घत्ता—धादइसंडइ सुरवरदिसहि मेरुहि परविदेहि सरइ ॥

गंधिल्लदेसि उज्जाउरिहि णरवइ अरुहदासु वसइ ॥ २७ ॥

## 28

कामहुयासहु णं कालंविणि  
 अवैर वि तहु जिणयत्त घरेसरि  
 अच्चुयच्चुय तेपं णं दिणयरु  
 विहिं वि वेण्णि संजणिय तणूरुह  
 ते वेण्णि मि णं<sup>३</sup> छणससिसायर  
 वीयहु णरयहु गयउ विहीसणु  
 लंतवि जायउ देउ महामहु  
 सम्महंसणसासणि लग्गउ  
 जंबुदीवपरावयउज्झहि  
 सो केसवु दुहुं भुंजिवि आयउ

सुव्वयं णामें तासु णियंविणि ।  
 अमरमहामयरहरहु णं सरि ।  
 रयणमाल रयणाउह सुरवरु ।  
 विजय विहीसण णवपंकयमुह ।  
 ते वेण्णि वि बलकेसव भायर । 5  
 दुद्धरु तउ करेवि संकरिसणु ।  
 आइच्चाहु हउं जि सो सुहवहु ।  
 मइं संबोहिउ णरयहु णिग्गउ ।  
 सिरिवम्महु सीमहि तणुमज्झहि ।  
 लच्छिधामु णामें सुउ जायउ । 10

27 १ APT जाईसरु. २ A रयणाहिवेण. ३ AP पासु. ४ AP अजगरु.

28 १ AP सुव्वइय. २ AP अवरु वि. ३ A णंदण ससिसायर.

27 2 a जा इंभरु जातिस्मरः. 4 b मा या इ रत्नमालया. 5 b अणि मिसत्तु देवत्वम्.  
 6 b कयंतहु कृत्नरकभवपर्यन्तात्. 10 b पंचपयारदुक्ख<sup>०</sup> परिणामदेहवेदनाविक्रियापरस्परोदीरित-  
 दु.खाः. 11 सरइ सरति भोगयुक्तः.

28 1 a कालविणि मेघमाला. 2 b अमरमहामयरहरहु क्षीरसमुद्रस्य. 7 a महामहु  
 महातेजाः, b सुहवहु सुखावह.. 9 b सीमहि श्रीमत्या..

रिसिहि विणासियवम्महलीलहु  
पत्तउ वंभकप्पि मेळिवि तणु

धिरु पावइयउ पासि सुसीलहु ।  
अट्टगुणट्टिवंतु देवत्तणु ।

घत्ता — वज्जाउहु सव्वत्थहु चविवि संजयंतु जिणतवि णिरउ ॥

तुहं हुउ जयंतु वंभाउ सुउ रिसि णियाणसल्लेण मुउ ॥ २८ ॥

## 29

णायराउ जाओ सि भयंकरु  
अहंमाणिवद्धाउसु अहगारउ  
पुणु वाल्लेयपहि वालु णिमण्णउ  
तसथावरतिरिक्खभवज्जालइ  
पविउलअइरावइ णइतीरइ  
गोसिगें धरिणिहि संखिणियहि  
तावसेण संजणियउ तावसु  
दिव्वतिल्लेयपुरि खेयररणउ  
णाम सुमालि णिवंध णिवद्धउ  
खगधरणीहरि उत्तरसेणिहि  
विज्जदाहु खगु पिय विज्जुप्पह  
ताहं विहि मि हियइच्छियरूवउ  
विज्जदाहु णामें दढयरभुउ

इयरु वि पाउ मुणिंदखयंकरु ।  
अहि हूयउ अंतिममहिणारउ ।  
दुक्खपरंपराइ अदण्णउ ।  
णिवडिउ हिडमाणु गयकालइ ।  
भूयरमणि काणाणि गंभीरइ । 5  
संखुब्भंउ समुद्दसंखिणियहि ।  
पंचहुयासणु सहइ सतामसु ।  
जोइवि जंतउ सक्कसमाणउ ।  
अण्णाणें णियतवहल्लु लद्धउ ।  
णहयलवल्लहपुरि सुहजोणिहि । 10  
मुहससियरधवलियदसदिसिवह ।  
हरिणसिगु मुउ सुउ संभूयउ ।  
जमदूयाणुरूउ भडसंथुउ ।

घत्ता—इहु भाइ तुहारउ गरुययरु मेरुधीरु परिचत्तभउ ॥

एएं जम्मंतरवइरिइण हुउ परमेसरु मोक्खगउ ॥ २९ ॥

15

## 30

एहउ भवसंबंधु वियारिउ  
म करहि तुहं जिणधम्मविरुद्धउं  
तं णिसुणिवि पडिजंपइ उरयरु  
पइं जिणमग्गु मज्जु वज्जरियउ  
तइ वि साहु उवसग्गाणिसुंभणु

एत्थु केण किर को णउ मारिउ ।  
णियमहि हियवउं रोसाइद्धउं ।  
तुहं वयणेण ण मारमि खेयरु ।  
भवकइमि पडंतु उद्धरियउ ।  
लइ कीरइ खलदप्पणिसुंभणु । 5

29 १ A अहमु. २ P वाल्लेयः ३ A भयजालइ. ४ A हरिणसिगु हूयउ तवसिणियहि,  
P संखु व भवसमुद्दसंखिणियहि. ५ A °पुरखेयर. ६ A वज्जदाहु. ७ A विज्जप्पह. ८ P विज्जदाहु.

30 १ AP उवसग्गु. २ AP °दप्पणिसुंभणि.

29 2 a अहम° जघन्यसप्तमनरके, अहगारउ पापकारी. 3 b अदण्णउ विदारित. 6 b  
संखुब्भउ हरिणशृङ्गापरनामा, समुद्दसखिणियहि स्वमुद्दया निजाकारेण शखिन्या निर्भाग्यायाम्. 9 a  
णिवंधणिवद्धउ निदानं वद्धम्.

30 2 b णियमहि नियमय. 3 a उरयरु उरग सर्प.

एयहु कुलिं सिज्जंतु म विज्जउ  
णारिहि सिज्जिहिंति णियमालइ  
मागहमंडलकुवलयचंदहु  
हिरिवधंणि पयणियखयरिंदहु  
मुइवि णिवद्धवइरवंदिग्गहु  
गउ फणि संजयंतु मुणि वंदिवि  
सुरु जाइवि सुहि संठिउ लंतवि

पुरिसहं दुद्धरंविहुरसहेज्जउं ।  
संजयंतपडिमापयमूलइ ।  
इंदभूइ पुणु कहइ णारिंदहु ।  
णामु करिवि हिरिमंतु गिरिंदहु ।  
लहु णीसल्लु चविवि सपरिग्गहु । 10  
रविआहउ सुरवर अहिणंदिवि ।  
आउमाणि बोलीणि सउच्छवि ।

घत्ता—इह भरहखेत्ति उत्तरमहुरि पुरि अणंतवीरिउ णिवइ ॥

लायण्णरूवसोहग्गणिहि णारि मेरुमालिणिय सइ ॥ ३० ॥

## 31

आइच्चाहु मोहमयमइणु  
णियकुलसंतइवेल्लिवराहें  
हुउ सपुण्णविहवेणुइमैं  
आयण्णह विरपप्पिणु अंजलि  
सीहसेणु करि सिरिहरु सुरवर  
वज्जाउहु अहमिंदु पियारउ  
महुर रामदत्त वि जाणिज्जइ  
सिरिहरु पुणु वसुसमदिवि अणिमिसु  
पुणु विजयंकु वि आइच्चाहउ  
वारुणि छणविहु वेरुलियप्पहु  
रयणाउहु अच्चुयउ विहीसणु  
सिरिधामउ सुंउ वंभणिवासउ  
पुणु मंदरगुणिगणसंजुत्तउ

हूयउ मेरुणामु तहु णंदणु ।  
अमयवईहि तेण णरणाहें ।  
धरणु चविवि सुउ मंदरु णामें ।  
एयहं सयलहं भणमि भवावलि । 5  
रस्सिवेउ रवितेउ वरामरु ।  
संजयंतु दय करउ भडारउ ।  
भक्खराहु पुणु देउ भणिज्जइ ।  
रयणमाल अच्चुयसुरु सहरिसु ।  
जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहउ ।  
जसहर काविट्ठइ रूर्यप्पहु । 10  
सक्करवसुमइणारउ भीसणु ।  
णिउ जयंतु फणिवइविवरासउ ।  
सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तउ ।

घत्ता—कुक्कुडफणि चोत्थयणरयरुहु अजयरु पंक्कप्पहुहुहिउ ॥

समरुल्लउ सत्तमपुहविभउ अहि पुणु सर्यलदुक्खगहिउ ॥ ३१ ॥ 15

३ A सिजंतु. ४ A दुद्धरु विहुर°, P दुद्धरे विहुरि. ५ A हरिवद्धणि पयलिय°, P हिरिवद्धणि पयलिय°.

31 AP अणमिसु. २ A विजयंतु वि. ३ A वेरुडिय°. ४ A भूयप्पहु. ५ AP उरु. ६ A मंदरमुणिगण°; P मदारि मुणिगण°. ७ १ चउत्थइ णरइ तुहु. ८ A सव्वदुक्ख°.

9 a हि रो त्या दि हीर्लजा वन्वने सति प्रजनिता खचरेन्द्रस्य त्रियुदंप्रत्य यत. कारणात्तत. कारणात् हीमा-  
निति नाम गिरीन्द्रस्य विजयार्धतः कृत्वा धरणेन्द्रो गतः. 12 b स उच्छ वि उत्सवसहिते.

31 10 a छणवि हु पूर्णचन्द्रः.

## 32

हिडिवि भवसंसारि परव्वसु  
 विज्जदाहु मुणिमारणदुज्जणु  
 भहमित्तु पुणु केसरिससहरु  
 चक्काउहु सासयगईगामिउ  
 णविवि विमलवाहणु तित्थंकरु  
 गणहर र्गणु परिपालिवि णीरय  
 महु पसियंतु देंतु गुणदित्तइं  
 णिच्चल होउ फुरियणहविमलइ

पच्छइ हरिणासिंगुं हुउ तावसु ।  
 हो डज्जउ दुक्कम्मवियंभणु ।  
 पुणरवि उवरिमगेवज्जामरु ।  
 देउ समाहि मज्जु रिसिसांमिउ ।  
 तेरहमउ परमेट्टि सुहंकरु ।  
 मोक्खहु वे वि मेरु मंदर गय  
 सुद्धइं दंसणणाणवरित्तइं ।  
 भत्ति भवंतयारिकमकमलइ ।

5

घत्ता—कह णिसुणिवि मेरुहि मंदरहु विंभियं भरहणराहिवइ ॥

थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुप्फयंतकरसरिसरुइ ॥ ३२ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे संजयंतमेरुमंदरकंहंतरं  
 णाम सत्तवर्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७ ॥

32 १ A °ससार°. २ A °सिंगसुउ. ३ AP विज्जदाहु मुणिमारणु. ४ A सासयगय°. ५ P °सासिउ. ६ A गुण. ७ A विंभिउ. ८ AP पुप्फदत°. ९ A °कंहंतरवण्णण. १० AP सत्तावण्णा°.

32 ३ a केसरिससहरु सिंहचन्द्रः. ४ a फुरियणहविमलइ स्फुरितनखविमले जिन-  
 चरणकमले.



जेणेकें कम्मविमुकें जगु तं तेहउं लक्खिउं ॥

कयडंभहिं हरिहरवंभहिं जं जम्मि वि णं सिक्खिउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो ण महइ जीवहं सासणासु  
सुज्झइ सम्मत्तं खाइएण  
णांयंदणमंसियसासणासु  
जम्मंतरि भावियभावणासु  
समदिट्ठिदिट्ठकंचणतणासु  
णाणंतणिवेसियतिहुवणासु  
उब्भियसियायवत्तत्तयासु  
पवयणवारिरियपेसियसुरासु

जें होंतें मेल्लइ सासणासु ।  
थुव्वइ देवोहें<sup>५</sup> खाइएण ।  
तहु णित्तदिव्वभासासणासु । 5  
संखोहियविंतरभावणासु ।  
तवजलणइहुदुक्कियतणासु ।  
दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु ।  
एक्काहियवरवत्तत्तयासु ।  
कमकमलणंवियदेवासुरासु । 10

घत्ता—हर्यंधंतहु गुणवंतहु अणिमिसकेउकयंतहु ॥

भयवंतहु अरहंतहु पणविवि पयइं अणंतहु ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this samdhi, the following stanza—

संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिवन्धणावयवो ।

अणुहवइ वेरिय तुज्झ जं पावइ लेहओ दुक्ख ॥ १ ॥

P and K do not give it anywhere.

1 १ P लक्खियउं. २ AP ण वि सिक्खि<sup>०</sup>. ३ P सिक्खियउं. ४ A देवेहिं. P देवोहिं.  
५ AP णाइंद<sup>०</sup>. ६ A जम्मंतरभमिय<sup>०</sup>. ७ PT णाणंति णिवे<sup>०</sup>. ८ PT <sup>०</sup>पेसीसुरासु. ९ AP <sup>०</sup>णमिय<sup>०</sup>.  
१० A भयवतहु गुण<sup>०</sup>. ११ A हयवतहु अर<sup>०</sup>.

1 1 जेणेकें येन एकेन अद्वितीयेन. 2 जम्मि वि जन्मन्यपि. 3 a ण महइ नेच्छति; सासणासु प्राणनाय, b सासणासु सा ल्थमी. स्वनागं चपलत्वं मुञ्चति, अथवा, सास ल्थम्या. आशा तां णा पुत्तप. आसु आयु त्वरित मुञ्चति. 4 a साइएण धायिकेन, b देवोहें देवममूहेन, साइएण आकाशा-दागतेन. 5 a णित्तदिव्वभासासणासु निर्गत. दिव्वभापया सर्वभाषात्मिकया त्वनः शब्दो यस्य. 7 b 'दुक्खियतणासु दुष्टतमेव तृण तस्य. 8 a णाणतं ज्ञानमध्ये, b दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु धृतिरिव श्रुति तत्रा पण्णिन्नत प्रतान्येव वन येन. 10 a <sup>०</sup>पेसियसुरासु पेसी माम सुरासुत्तम. 11 इवधनरु तं विनाशितं स्वस्य पणेषा च ध्वान्तगगानं येन तस्य, अणिमिसकेउं अणंतहु ताम.

## 2

पुणु कहमि कहाणउं कामंहारि  
धादइसंडहुपच्छिमदिसाइ  
परिहापाणियपरिभामियमयारि  
पउमावल्लहु पउमरहु राउ  
आणियसंमाणियदुज्जणाइ  
अविणीयइ धणमयवैभलाइ  
बहुकवडडविडणिवरंजियाइ  
महिवइलच्छिइ एयइ खलाइ  
वद्धउ हउं णिवसमि एत्थु काइं  
सिरि दोयमि तणयहु घणरहासु  
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु

तहु केरउं सासयसोक्खकारि ।  
वित्थिण्णिं मेरुपुव्विल्लभाइ ।  
मणितोरणवंति अरिट्ठणयारि ।  
तहु एकु दिवसु जायउ विराउ ।  
णीणियअवमाणियसज्जणाइ । 5  
पवणाहयतणजललवचलाइ ।  
भंगुरभावे णं लंजियाइ ।  
मणवारणबंधणसंखलाइ ।  
अणुसरमि सत्ततच्चाइं ताइं ।  
संसारइ सरणु ण को वि कासु । 10  
वउ लइयउ छिदिवि मोहपासु ।

घत्ता—अविहंगइं धरिवि सुयंगइं एयारह जिणदिट्ठइं ॥

कयवसणइं इंदियपिसुणइं जिणिवि पंच दप्पिट्ठइं ॥ २ ॥

## 3

बंधिवि तित्थंकरणांमगोत्तु  
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु  
वावीसमहोवहिपरिमियाउ  
पुंफंतरपवरविमाणवासि  
वावीसहिं पक्खहिं कहिं वि ससइ  
जाणवि तेत्तियहिं जि वच्छेरेहि  
अवहीइ रूविवित्थारु ताम

संगासें मुउं जइवइ पवित्तु ।  
सोलहमइ दिवि हूयउ सुरिंदु ।  
तिकरद्धपाणिपरिमाणु काउ ।  
तणुतेओहामियदुद्धरासि ।  
हियएण देउ आहारु गसइ । 5  
सेविज्जइ अमरहिं अच्छेरेहि ।  
पेच्छइ छट्ठउं णरयंतु जाम ।

2 १ AP पावहारि. १ A वित्थिण्णमेरु°. २ A °भावि. ३ A °वाणिय°. ४ P °परिसमिय°. ५ AP दिवसि. ६ A °कवडणिविडमइरजियाइ, P °कवडणिविडरजियाइ. ७ P दोइवि.

3 १ A °णासु, P °णाउ. २ AP सुवउ. ३ A तिकरद्धपाणिपरिमाणकाउ, P तिकरद्धयणिय-परिमाणकाउ. ४ AP पुप्फुत्तर°. ५ AP °विवाण°. ६ A रूउ वियारु. ७ A जाम. ८ ताम.

2 2 a अपच्छिमदिसाइ पूर्वभागे. 5 b णीणिय° निष्काशिता. 7 °डविड° दृढविटा., b लंजियाइ दास्या. 10 a घणरहासु घनरथस्य. 12 अविहंगइं अखण्डितानि, सुयंगइं श्रुतस्य अङ्गानि.

3 2 a पंकयसंदणु पद्मरथः 3 b तिकरद्धपाणि° त्रयः करा अर्धपाणिश्च. 5 b हियएण मनसा. 6 a जाणवि जानामि. 7 a रूविवित्थारु रूपिपदार्थविस्तार.

किं वण्णमि सुरवइ सुकलेसु  
जइयहुं तइयहुं धम्मोवयारि  
इह भरहखेत्ति साकेयणाहु  
इक्खाउवंसुं कूरारिकाहु

तहुं जीविउ थिउ छम्माससेसु ।  
वज्जरइ कुवेरहु कुलिसधारि ।  
पहु सीहसेणु थिरथोरवाहु । 10  
जयसामासुंदरिसामिसालु ।

घत्ता—लहु एयहुं दिणयरतेयहुं करहि धणय पुरवरु घरु ॥

तं इच्छिवि सिरिण पडिच्छिवि चलिउ जक्खु पंजलियरु ॥ ३ ॥

## 4

उज्जाउरि कणपं कहि वि पीय  
कत्थइ हरिणीलमणीहि काल  
कत्थइ थिय मरगय पोमराय  
कत्थइ हल्लइ चिधंहिं चलेहिं  
णं गायइ भमरहि रुणुरुणंति  
पुरि अक्खइ खुत्तउ कामवाणु  
जा णिमिय पालियणिहिघडेण  
तण्णयरीसहु पियगेहिणीइ  
हिमहासकाससंकासवासि

कत्थइ ससियंतजलेहिं सीय ।  
णं महियालि णिवडिय मेहमाल ।  
णं ओहंडलधणुदंडछाय ।  
णं णच्चइ कामिणि करयलेहि । 5  
पारावयसहं णं कणंति ।  
दरिसइ व कुसुमधूलीवियाणु ।  
सा मइं वण्णिज्जइ किं जडेण ।  
सोहग्गमहाजलवाहिणीइ ।  
णिद्दायंतिइ तलिमप्पएसि ।

घत्ता— सुहुं सुत्तइ पुण्णपवित्तइ रयणिहि पच्छिमजामइ ॥

अवलोइय मणि पोमाइय सिविणावलि जयसामइ ॥ ४ ॥

10

## 5

करडगलियमयधारओ  
वसहो सण्हासोहिओ  
पविणिहणहरुक्केरओ  
णवपंकयसरसामिणी  
गुमुगुमंतमहुयरचलं

करि गिरिमित्तिवियारओ ।  
खुरलंगूलपसाहिओ ।  
विसंमो सीहकिसोरओ ।  
गयवरण्हविया गोमिणी ।  
दामजुयं सुहपरिमलं । 5

९ A जीविउ तहु. १० A वंसकूरारि.

4 १ AP कणय. २ A चो. ३ P कुणंति. ४ P णउ. ५ A सुहुत्तइ.

5 १ AP विममउ.

4 1 a णण ए ण्णनेन, b स मि वंत जले हि चत्तकान्तजटे. 2 a काल कृष्णवर्गा. 6 a उक्खइ उक्खत्तीव, b वि ताणु विजानम्. 7 a पालि पणि ति घडेण रुक्केण. 9 b तलि मप्पएसि पत्तप्रदेणे. 11 को नाउ य प्रमेसिता.

5 2 a सण्हा सण्हा. 3 a पविणिहणहरुक्केरओ वक्खत्तमनग्गकु.

पुण्णो लच्छिसहोयरो	गयणे उइउ दिवायरो ।	
कीलाए उड्डीणया	सरभमिरा पाठीणया ।	
वयणसमप्पियसयदला	कलसा दोणिण समंगला ।	
वियसियतामरसायरो	मयरकरिल्लो सायरो ।	
गरुयं गयरिउआसणं	सुरसउहं तमणासणं ।	10
णिद्धं <sup>२</sup> णायणिहेलणं	काओयरकयकीलणं ।	
दिसिवहपत्तमऊहओ	चंचिररयणसमूहओ ।	
पसरियजालाणियकरो	विमलो मारुयसहयरो ।	
घत्ता—फलु बालहि सिविणयमालहि पुच्छंतिहि धवलच्छिहि ॥		
पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुच्छिहि ॥ ५ ॥ 15		

## 6

रायहु घरु सयमहपेसणेण	कंचीणिवद्धकिंकिणिसणेण ।	
आगय सिरि हिरि दिहि कंति बुद्धि	विरइय जयसामहि गव्मसुद्धि ।	
माणिकककिरणपसरियवियार	छम्मास पडिय घरि कणयधार ।	
कत्तियपडिवयादिणि चंदैसुक्कि	रेवइणवखात्ति मलोहमुक्कि ।	
गयरुवें गंगापंहुरेण	कयसुकयमहीरुहफलभरेण ।	5
अवइण्णु सुराहिउ गव्मवासि	चउभेयदेवपुंजाणिवासि ।	
अहिसित्तइं मायापियरयाइं	मंगलकलसहि जिणगुणरयाइं ।	
तिहुवणवइगुरुहि गुरुत्तणेण	समलंकियाइं सुपहुत्तणेण ।	
घत्ता—णच्चंतहि मउ गायंतहिं करहयतूरणिणायहिं ॥		
घरपंगणु दिसि गयणंगणु छायउ अमरणिकायहिं ॥ ६ ॥ 10		

## 7

पुणु वसुवरिसणविहवें गयाइं	सत्तरइं दोणिण वासरसयाइं ।
गइ विमलरिसीसरि दीहराइं	जइयहुं गयाइं णवसायराइं ।

२ P दिह णाय° . ३ P सहोयरो.

6 १ A जयसामहो. २ A चदमुक्कि ३ AP °पुजापवेसे.

7 १ P विमलि रिसी°.

6 a लच्छिसहोयरो चन्द्र . 7 b पाठीणया मत्स्यौ . 10 a गयरिउआसणं सिहामनम 11 b काओयर° सर्पा. 12 b चंचिर° कर्तुर . 13 b मारुयसहयरो अग्नि .

6 4 a चंदसुक्कि चन्द्रेण अशुक्के, कृष्णपक्षे इत्यर्थे , b मलोहमुक्कि निमंटे . 8 a तिहुवणवइगुरुहि जिनगुरो°.

7 1 b सत्तरइ दोणिण वासरसयाइ नव माता इत्यर्थे .

जइयहुं अंतिमपल्लहु तिपाय  
 तइयहुं भवैभूरुहसत्तहेइ  
 जेइहु मासहु तमकसैणपक्खि  
 उप्पण्णउ तिहुवणसामिसालु  
 दावियसुरकामिणिणट्टलीलु  
 परियंचिवि तं पुरवरु विसालु  
 घत्ता—उत्तुंगहु रुम्ममयंगहु सूयरखद्धकसेरुहि ।

गय णिइयणासियधम्मञ्जाय ।  
 णाणत्तयधारि महाविवेइ ।  
 वारहमइ दिणि णासियविवक्खि । 5  
 सुरवरसंछण्णु णहंतरालु ।  
 अर्वैरिवि अमरवइ चडिवि पीलु ।  
 जणणिहि करि देप्पिणु कवडवाँलु ।

गउ सुंदरु देउ पुरंदरु णाहु लण्पिणु मेरुहि ॥ ७ ॥

10

## 8

भावालउ णच्चंतहिं णडेहि  
 अहिसित्तु भडारउ भावणेहि  
 वइमाणिएहिं वीणाहरेहिं  
 भूसिउ परिहाविउ अरुहु संतु  
 आपेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु  
 पणविवि सुरवइ गउ णियविमाणु  
 जोणहालउ णिहिलकलाउ लेंतु  
 कामग्गिताववित्थरु हरंतु

खीरोयखीरधाराघडेहि ।  
 वणसुरवरेहिं जोइसगणेहिं ।  
 गायउ वंदिउ मउलियकरेहिं ।  
 णाणं अणंतु कोक्किउ अणंतु ।  
 देविदेँ देविहि देउ दिण्णु । 5  
 वइइ सिसु णं सिसुसेयमाणु ।  
 सुहदंसणु कुवलयदिहि करंतु ।  
 अकलंकु अखंडु पसण्णकंतु ।

घत्ता—जिणु वरिसहं कयजणहरिसहं माणियइच्छियसोक्खइं ॥

जैहिं कुर्वरत्तणि थिउ सिसुकीलणि तहिं सत्तद्ध जि लक्खइं ॥८॥ 10

## 9

पुणु तहु कइ पत्ती मयणताउ  
 सिचिय अहिसेयघंडंवुएहि

सिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु वाउ ।  
 सच्चैयण कय मइवरणंएहि ।

२ A °भूरुहेत्तहेउ. ३ A °कसिण°. ४ AP अवयरिउ. ५ A कवडवाहु. ६ A भम्ममयंगहु.

8 १ P omits वण°. २ P पसण्णु कंतु. ३ A omits जहिं. ४ AP कुमरत्तणि.

9 १ AP °घटभएहिं. २ AP °वरणरेहिं.

1 a °सत्तहेइ समहेनिरग्गि. 5 b णासियविवक्खि विघ्नरहिते. 9 रुम्ममयंगहु रुम्ममय सुवर्णमय अद स्स त्थं गेने.

8 1 b न्नीरोय° कीरसमुट्ट.. 1 a परिहाविउ वल्लं परिधापित. 5 b देविहि मातुः 6 b सि सुसेयमाणु वात्तन्त्त..

9 1 a तहु तद्द रत्तादि अनन्तनाथेन सह भोगार्थं भोगनिमित्त मदननाथ प्राप्ता का गज्ज पत्तमा. 2 a अतिरेतवउत्तुएहि अभिरेतवउत्तुएहि, b मइवरणंएहिं मतिवगणा मन्त्रिणा नयैः.

उद्विय लहु सत्तंगइं धुणांति  
णियपरियणणिवसणु संवरंति  
अवलोइय णाहहु खेउं देंति  
पुज्जिउ सूहउ इंदाइएहि  
भुंजंतहु संपयसुहसयाइं  
पण्णाससरासंण देह तुंगु  
णाणामहिवालकलसमग्गि

अरि सुहि मज्झैत्थु वि मणि मुणांति ।  
मिलियहं मंडलियहं मणु हरंति ।  
वच्छयलि विउलि लीलइ वसंति । 5  
सीसेण णमंसिउ दाइएहिं ।  
पणदहसमाहं लक्खइं गयाइं ।  
तवणीयवणु णं णवपयंगु ।  
सो रयणिहि थिउ अत्थाणमग्गि ।

घत्ता—तहि रापं भवियसहापं उक्क पडंति णिरिक्खिय ॥ 10  
गय चंचल जिह सा सयदल तिह णररिद्धि वि लक्खिय ॥ ९ ॥

## 10

ता तणुरुइरंजियछणससीहिं  
णहवणाइउं पोमासंगमेहिं  
अप्पिवि अणंतविजयहु सधामु  
महुरज्जुणिकिकिणिलंवमाणु  
छट्टेण जेट्टुमासंतरालि  
वरुणासाइंलिइ खरंसुजालि  
पहु पंचमुट्ठि सिरि लोउ देवि  
वीयइ दिणि दिणयरकरफुरंति  
रापं विसाहंभूएं अणंतु  
दिण्णउं तें<sup>E</sup> तहु आहारदाणु

संवोहिउ दिव्वमहारिसीहिं ।  
कल्लाणु कयउं सुरपुंगमेहि ।  
णीसेसु रंज्जु धणु साहिरामु ।  
आरूढउ सायरदत्तजाणु ।  
वारसिवासरि णित्तारवालि । 5  
उज्जाणि सहेउइ घणतमालि ।  
सहसेण णिवहं सहं दिक्ख लेवि ।  
हिंडंतु देउ उज्जाउरंति ।  
जयकारिवि धरिउ महीमहंतु ।  
पंचविहु वियंभिउ चोळ्ळठाणु । 10

घत्ता—णियमत्थहु दसदिसिवत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥  
दुइ अहइं दुरियविमहइं गयइं तासु छम्मत्थहु ॥ १० ॥

## 11

मासम्मि पहिल्लइ महुपमत्ति  
पुण्विल्लइ वणि आसत्थमूलि

णिच्चंदइ दिणि मासंतपत्ति ।  
पंचमउ णाणु ह्यघाइमूलि ।

३ A मज्झत्थइः ४ P °सरासणु.

10 १ AP देसु. २ A धणसाहिरामु ३ AP सायरदत्तु ४ AP °फुसिइ. ५ A विसाह-  
भूइं, P वसाहसुइ. ६ A त तहु. ७ AP चोळु.

3. a सत्तंगइ स्वाम्यमात्यादि. 4 a °परियणणिवसणु परिजन एव निवसन वस्त्रम्. 7 b °समाहं  
वर्षाणाम्. 8 b णवपयगु वालसूर्य. 11 सयदल शतखण्डम्.

10. 1 a °रजियं द्योतित.. 3 a सधामु स्वग्रहम्. 4 b सायरदत्तजाणु सागरदत्तशिविकाम्.  
5 b णित्तारवालि तारापत्तिरहिते. 6 a °धुलिइ पतिते, खरंसुजालि सूर्ये.

11 1 a महुपमत्ति भ्रमरैर्मत्ते, b मासतपत्ति अमावास्यायाम्.

संभूयउं लोयालोयगामि  
आइय वत्तीस वि सुरवरिंद  
तडि मेह सुवण्ण दिसग्गिणाय  
किंणर किंपुरिस महोरगाय  
संपत्त भूय भत्तिह्मभाव  
जय जय सामासुय जय अणंत  
जय जणणणिह्णमयरहरसेउ

थिउ अरुहावत्थहि भुवणसामि ।  
गह तारा रिक्ख खरंसु चंद ।  
मरु जलणिहि थणियासुराणिहाय । 5  
गंधव्व जक्ख रक्खस पिसाय ।  
सयल वि थुणंति जय देव देव ।  
जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत ।  
जय सिव सासयसिवलच्छिहेउ ।

घत्ता—जिणणामें भत्तिपणामें पावमहँतरु भज्जइ ॥

10

गयगव्वहं सव्वहं भव्वहं भावसुद्धि संपज्जइ ॥ ११ ॥

## 12

अंतरियउं जं महिसुरहरेहिं  
जं केण वि णउ दिट्ठउं सुद्धेरु  
धणपुत्तकलत्तइं अहिलसंति  
तुहं पुणु संसारु जि संपुसंतु  
दिणि अच्छइ घरि चावारलीणु  
तुहं पुणु रिसि अहँणिसु जग्गमाणु  
वाहिरतवेण पइं अंतरंगु  
तवतावें पइं ताविउं णियंगु

जं सुहंसु ण याणिउं जगि परेहिं ।  
तं पइं पयडिउं तुहं भावसूरु ।  
भोयासइ तावस तउ करंति ।  
संचरहि महामुँणि चरिउं संतु ।  
णिसि सोवइ जणु समदुक्खरीणु । 5  
दीसहि परिमुक्कपमायठाणु ।  
रक्खिउं णीसेसु वि मुइवि संगु ।  
विइवियउ पइं दुइसु अणंगु ।

घत्ता—अणुसंकुलु हत्थर्यलामलु जिह तिह णिहिल्लुं णिरिक्खिउं ॥  
मयमत्तउं मयणासत्तउं तिहुवणु पइं पइं रक्खिउं ॥ १२ ॥

## 13

णिम्मुककसाय जिणेसरासु  
पुव्वंगधराहं सहासु वुत्तु

जाया गणहर पण्णास तासु ।  
तं तिउणउं वाइहिं दुसयजुत्तु ।

11 १ A °भत्तिह्मभाव. २ P °णिहल°. ३ AP °जयलच्छि. ४ P महाभरु. ५ A भज्जइ.  
६ AP भव्वहं सव्वह.

12 १ P सुद्धेरु. २ A सूरु. ३ A संफुसंतु. ४ AP महामुणि संचरित्तु. ५ A अहणिसि.  
६ A हत्थतल°. ७ AP सयल. ८ AP पइं पइ.

S a गानानुय पयसामापुन. 9 a °मयग्हर° समुद्र..

12 1 a अंतरियउ अन्तरित्तमन्तर्हित्तु; b परेहिं छादिभि. 2 b भावसूरु परमार्थेना-  
रित्तु. 3 a सपुसंतु संसारजन. 5 b सम° धम. 6 a अहणिसु अहर्णिगम्. S a णियसु स-  
व्वंगम्. 9 अणुसंकुलु पन्नासुसुत्तम्, हत्थयलामलु हत्ततवे अमल. सट्ठिक इव.

चालीससहस्र एकूण भणमि  
 चत्तारि सहस्र तिण्णि जि सयाइं  
 वयसहस्रइं केवलदंसणाहं  
 तेत्तियइं जि मयविदावणाहं  
 अट्टेव सहास्रइं एकू लक्खु  
 सावयहं लक्ख दो चउ भणंति  
 गयसंख तिर्यसगण वंदणिज्ज  
 संमेयहु सिहरु समारुहेवि  
 विच्छिण्णउं किरियाजालु सयलु  
 गउ मोक्खहु अमवासौणिसियहि  
 रिदुसमसहसाइं सउत्तराइं

पंच जि सयाइं भिक्खुयहं गणमि ।  
 अवहीहराहं पालियवयाइं ।  
 मणपज्जवणाणमहागुणाहं । 5  
 वसुसमयइं सिद्धविउव्वणाहं ।  
 संजमधारिहिं सण्णौणचक्खु ।  
 सावइहिं महाकइ किर गणंति ।  
 संखेज्ज तिरिक्ख णमंसणिज्ज ।  
 छेइल्लु ज्ञाणु दढयरु धरेवि । 10  
 ओसारिवि देउ तिदेहणियलु ।  
 गुरुजोयब्भासें तहिं जि दियहि ।  
 सिद्धाइं रिसिहिं पणमामि ताइं ।

घत्ता—तमहारहिं जलणकुमारहिं जिणसरीरु संकारिउं ॥

णीसल्लहिं घाल्लियफुल्लहिं अमरिंदहिं जयकारिउ ॥ १३ ॥ 15

## 14

संपण्णदुवालसतवविहइ  
 अवरु वि समदमसंजमपसत्थि  
 सुप्पहपुरिसुत्तमगुणणिहाणु  
 पंचसयधणुणयमणुयदेहि  
 उत्तंगुं काउ दिण्णायणाउ  
 पयपालहु अरिहहु पय णवेवि  
 मइं णउ रुद्धी सल्ले अणेण  
 उप्पण्णउ कयदह्विविययिप्पि  
 अट्टारहसायरपरिमियाउ

पुणु भासइ गणहरु इंदभूइ ।  
 वित्तउं अणंतजिणणाहतित्थि ।  
 सुणि मागहेसहरिवलपुराणु ।  
 इह जंबुदीवि सुरदिसिविदेहि ।  
 णंदउरि महावल्लु णाम राउ । 5  
 रिसि जायउ तणयहु रज्जु देवि ।  
 तणुचाउ करिवि सल्लेहणेण ।  
 सुर सहसारइ सहसारकप्पि ।  
 किं वण्णामि सुरवरु सुद्धभाउ ।

घत्ता—इह भारहिं पयडियसुहवहिं पोयणपुरि चिरु होंतउ ॥ 10

वसुसेणउ तृथमण्णयेणउ णरवइ वइरिकयंतउ ॥ १४ ॥

13 १ A सहासेकूण. २ AP सिक्खुयहं. ३ A वसुसहस्र सिद्ध°, P वसुसहस्रइ सिद्ध°. ४ AP वेउव्वणाहं. ५ A सणाणचक्खु. ६ P omits गण. ७ A अमवासहो णिसाहे, P अमवासो णिसीहि. ८ A सदुत्तराइ. ९ A सकारिउ.

14 १ P has before this जिणतणु णवेप्पिणु गउ सुरिंदु, धरणेंदु णरिंदु खगिंदु चहु; K gives it in margin in second hand. २ A संपुण्णु. ३ AP उत्तुग काउ. ४ AT मइ णावरुद्ध. ५ AP दहवियविययिप्पि. ६ AP तियमण.

13 10 b छे इ ल्लु ज्ञा णु अन्तिमध्यानम्. 11 b ति दे ह णि य लु औटारिकनेजसकामेणदेरत्रय-निगडम्.

14 2 a संपण्ण° उत्पन्ना. 5 b सुरदि सि वि दे हि पूर्वविदेरे. 6 a दिण्णायणाउ दिग्गज-नादः. 7 a पय पा ल हु प्रजापालतीर्थकरस्य. 11 °सुह व हि° शुभपथे. 12 तृथ म ण ण ये ण उ स्तीमनरः स्तेन .



## 15

मुहंइंदोहांमियसरयचंद  
रइरहसपसाहियजोव्वणाइं  
तामायउ जियपडिवक्खंदइ  
अइरावयकरथिरथोरवाहु  
वसुसेणें माणिणउ परममित्तु  
अवलोइवि णंदहि चारु वयणु  
अवलोइवि णंदहि खीणु मज्झु  
चिहु सहँहुं ण सक्किउ मयणवाणु  
वसुसेणें दइयविओइएण  
वउ लइउ पासि णासियसरासु  
अप्पउं दंडिउ छंडिउ ण माणु

महएवि तासु णामेण णंद ।  
अच्छंति जाम विण्णि वि जणाइं ।  
णामेण चंडसासणुं पयंडु ।  
राणउ सुहडगंणि मलयणाहु ।  
तहु कंतहि लगउ तासु चित्तु । 5  
चिहु जूरंइ ओहुल्लंतवयणु ।  
चिहु कुप्पइ तप्पइ हिययमज्झु ।  
अवहरिवि णंद गउ णिययठाणु ।  
असमत्थें विहिणित्तेइएण ।  
सेयंसणामजोईसरासु । 10  
संमोहजणणु वद्धउं णियाणु ।

घत्ता—तवचरणहु खंचियकरणहु हउं फलु एत्तिउं मग्गामि ॥

परयारिउ सो खलु वइरिउ मारिवि परभवि वग्गामि ॥ १५ ॥

## 16

तहु रुहिरवारिधाराइ जेव  
इय बंधिवि दुहु णियाणसल्लु  
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि  
तहिं दिट्ठउ तेण महावलेण  
वद्धउ सणेहु कीलाविसालु  
तहिं कालि सहिवि णाणाकिलेसु  
इह भारहि कासीणामदेसिं  
पुहईसरु तहिं णामें विलासु  
एयहं दोहं मि लक्खणणिउत्तु

परिहवपडु धोवमि होउ तेव ।  
मुउ सो कालें मोहंबुंगिल्लु ।  
जिणतवहलेण माणियसमग्गि ।  
देवेण भव्वजणवच्छलेण ।  
सहवासं दोहिं मि गलिउ कालु । 5  
परिभामिवि चंडसासणु भवेसु ।  
वाणारसिपुरि वरि घरणिवेसि ।  
गुणवइणामें महएवि तासु ।  
महुँसूयणु णामें जाउ पुत्तु ।

घत्ता—राणि मिलियहं परमंडलियहं भुयबलु पवलु विजित्तउं ॥ 10

ते सुहयरु रूपयगिरिवरु धरिवि महीयलु भुत्तउं ॥ १६ ॥

15 १ AP मुहयंदो. २ A °पडिवक्खवुदु, P °पडिवक्खददु. ३ A चंडसासणपयडु. ४ A सुहडगामि. ५ AP इरइ. ६ A ओहुल्लभवयणु, P उहुल्लल्लवयणु. ७ A सहिवि. ८ AP वउ.

16 १ A मोहंधगिल्लु but T मोहजलार्दः. २ AP °देसु. ३ A °पुरधरवरविसेसु, P °पुरि धरवरविसेसु. ४ AP महस्यणु ५ A त सुहयरु.

15 4 b सुहडगणि सुभयाग्रणीः; मलयणाहु मलयदेशस्वामी. 6 b ओहुल्लतवयणु शुष्यद्वदन.. 9 b विहिणित्तेइएण विधिना कृत्वा निस्तेजस्केन, पुण्यहीनत्वान्निर्वलेन. 13 परयारिउ पारदारिकः, वग्गामि नृत्यं करोमि.

16 1 b परिहवपडु परिभव एव पटो वस्त्रम्. 2 b मोहवुगिल्लु मोहजलार्दः. 9 a लक्खणणिउत्तु लक्षणयुक्तः. 11 ते तेन मधुसूदनेन.

## 17

जहि वरिसहं लखइ णिडियाइं  
तंहु भुंजंतहु लच्छीविलासु  
दारावइपुरि णं दससयक्खु  
तहु जयवइ अवर वि अत्थि वीय  
कालेण भुवाणि किर को ण गसिउ  
पढमाइ महावल्लु पुत्तु जणिउ  
सुप्पहु पुरिसुत्तमु णामधारि  
ते वेण्णि वि षंडुरकसणवण्ण  
ते वेण्णि वि साहियसिद्धविज्ज

जहिं वरिससयाइं जि संठियाइं ।  
तहिं अवसरि सुणि अवरं वि पयासु ।  
सोमप्पहु पहु णवपउमचक्खु ।  
लहुइ पणइणि णामेण सीय ।  
सुरवरु सहसारविमोणल्लसिउ । 5  
वीयइ जो चिरु वसुसेणु भणिउ ।  
ते वेण्णि वि हलहरदाणवारि ।  
ते वेण्णि वि उण्णयपुण्णधण्ण ।  
ते वेण्णि वि खयरामरहं पुज्ज ।

घत्ता—हरिकंधर धवलधुरंधर जोइवि कलहपियारउ ॥

महिरायहु दावियघायहु जाइवि अक्खइ णारउ ॥ १७ ॥

10

## 18

भो भो महसूयण सुहडसीह  
सुंदर सोमप्पहदेहजाय  
दारावइपुरवरि दोण्णि भाय  
णं तुहिणंजणमहिहर महंत  
पण्णाससरासणदेहमाण  
तहिं कालेसलोणउ भणइ एस्व  
को अण्णु राउ मइं जीवमाणि  
आरुसेप्पिणु दुम्मियमणेण  
पडिवक्खपसंसियविक्रमासु  
पभणिउं भो भो लहु देहि कप्पु

समरंगणि को तुह लुहइ लीह ।  
मइं दिट्ठा सुणि रायाहिराय ।  
सक्कु वि णउ पावइ ताहं छाय ।  
थिर तीसेवरिसलक्खाउवंत ।  
संगामरंगणिव्वूढमाण । 5  
भो सुप्पह महिवइ तुहं जि देव ।  
को जीवइ गुणसंणिहियवाणि ।  
ता दूउ दिण्णु महसूयणेण ।  
गउ तासु पासि पुरिसुत्तमासु ।  
आवियक्खणु कि किर कराहि दप्पु । 10

घत्ता—पहु मण्णाहि कलि अवगण्णाहि करि उत्तउं महु केरउं ॥

महसूयणि मिडिय महारणि ण रमइ खग्गु तुहारउं ॥ १८ ॥

17 १ AP तहि. २ AP अवर. ३ P णउ पउम°. ४ AP °विवाण°. ५ P वीयउ.  
६ AP पुण्णवण्ण.

18 १ A लहइ. २ AP तीसलक्खवरिसाउवंत. ३ AP काले. ४ AP दूमिय°. ५ A  
धरइ, K धरइ but corrects it to रमइ.

17 1 a णि डियाइ गतानि. 2 b पयासु प्रकाशः महिमा. 3 a दससयक्खु इन्द्र इव  
सहस्राक्ष. 5 b °ल्लसिउ च्युत. 6 a पढमाइ प्रथमया जयावत्या. 7 b °दाणवारि विण्णुः. 9 a  
साहियसिद्धविज्ज सर्वेभ्य साधिकसिद्धविद्यौ. 11 णारउ नारदः.

18 1 b लुहइ स्फेद्यति, लीह रेखा. 6 a कालसलोणउ वासुदेवः. 8 a दुम्मिय-  
मणेण सखेदचित्तेन. 11 अवगण्णहि मुञ्च.

## 19

तं णिसुणिवि भासइ सीरधारि  
 अम्हारउ करु मग्गइ अयाणु  
 अम्हारउ करु सहं धणुंहरेण  
 अम्हारउ करु चक्केण फुरइ  
 अम्हारउ करु तहु कालवासु  
 तं सुणिवि महंतउ गउ तुरंतु  
 ण समिच्छइ संधि ण देइ दव्वु  
 तं णिसुणिवि मणि उप्पण्ण खेरि  
 संणद्ध सुहड हणु हणु भणंति  
 आरोहचरणचोइयमयंग  
 धाइय रहँवर धयधुव्वमाण  
 णिग्गउ आरुसिवि राउ जाम  
 आयउ रिउ हय दुंदुहिणिणाउ

भो दूय म कोक्कउ गोत्तमारि ।  
 किं ण मरइ रंणि सो हम्ममाणु ।  
 अम्हारउ करु सहं असिवरेण ।  
 अम्हारउ करु तहु जीउ हरइ ।  
 जिणु मेल्लिवि अम्हइं भिच्च कासु । 5  
 विण्णवइ ससामिहि पय णमंतु ।  
 पर चवइ रामु केसउ सगव्वु ।  
 हय रसमसंति संणाहभेरि ।  
 दट्ठोड्ड रुट्ट दढँभुय धुणंति ।  
 धीरासवारवाहियतुरंग । 10  
 गयणयलि ण माइय खगविमाण ।  
 चरपुरिसहिं कँहियउं हरिहि ताम ।  
 थिउ रणभूमिहि वड्ढियकसाउ ।

ब्रह्मा—तं णिसुणिवि णियभुय धुँणिवि केसउ जंपइ कुद्धउ ।

मरु मारमि पलउ समारमि रिउ बहुकालहुं लद्धउ ॥ १९ ॥ 15

## 20

हरिवाहिणिखगवाहिणिसमेय  
 रह तुरय दुरय णरंवरउद्ध  
 चलचमरच्छत्तधयच्छण्णसेणुं  
 दसदिसिर्वहभरिय ण कहि मि माइ  
 फणि तेण भरेण ण केमं मरइ  
 णरभोयणकइ रोमंचियाइं

णिग्गय वेण्णि वि हिमगरलतेय ।  
 मज्जायविवज्जिय णं समुह ।  
 उग्गयधूलीरँयकविलवणुं ।  
 माहि वज्जघडिय विहडिवि ण जाइ ।  
 धुयफडकडप्पु थरहरइ सरइ । 5  
 सुपह्वयइं भूयइं णच्चियाइं ।

19 १ AP सो रणि. २ AP घणहरेण. ३ AP भुयवलि. ४ P धारासवार. ५ A रह रणे धय°. ६ AP साहिउं. ७ AP विहुणिवि.

20 १ AP णरवरउद्ध. २ AP मज्जायमुक्क ण चल समुह. ३ A °सेण्ण. ४ A धूलीरव°. ५ A °वण्ण. ६ A °दिसवह°. ७ AP कह व. ८ A वण° but corrects it to णर in second hand.

19 2 a करु राजदेयम्. 8 a खेरि वैरम्. 15 पलउ समारमि प्रलयकालमानयामि.

20 1 b हिमगरलतेय धवलवर्णः कृष्णवर्णश्च. 2 a दुरय गजा. 4 b वज्जघडिय वज्जघटितेव. 5 b °फडकडप्पु °फणासमूह. 6 a णरभोयणकइ नरा एव भोजनं तस्य कृते; b सुपह्वयइं सुप्रभूतानि प्रचुराणि.

विण्णि मि सेण्णइं समुहागयाइं  
जयगोमिणिमेइणिलंपडाइं

आलग्गइं तासियदिग्गयाइं ।  
मुसुमूरियचूरियभडथडाइं ।

घत्ता—दप्पिट्टुइं वेण्णि मि दिट्टुइं सेण्णइं समरि भिडंतइं ॥

हलसूल्लइं झसंकरवालहिं पहरंताइं पडंतइं ॥ २० ॥

10

## 21

पवरासवारवेडियरहोहि  
जोहंघिदलियमंडालियमउडि  
वियडियकवाडसंदोहणीडि  
मीडामहग्घजुज्झंतवीरि  
णीरेरुहसममुहपंकएण  
कयहलणित्तेइयकयखलेण  
वलएवहु पइसरु सरणु अज्जु  
कज्जु वि मइं अक्खिउ तुज्जु सारु  
आरुहसु म जमसासणु अजाण  
माणहि मा महुं रणि वाणविट्ठि

रहसंकाडि णिवडियविविहजोहि ।  
मउडुच्छलंतमणिकिरणविउडि ।  
णीडाहिरूढसुरवरसमीडि ।  
वीरंगगलियकीलालणीरि ।  
पंकयणाहें दप्पंकएण ।

5

खलु दुच्छिउं दुइमभुयवलेण ।  
अज्ज वि णउ णासइ मित्तकज्जु ।  
सारुइ मुइ अवरु वि हत्थियारु ।  
जाणेण जाहि मुक्काहिमाण ।  
विट्ठि वै भीसण तुह हणइ तुट्ठि ।

10

घत्ता—पडिकण्हें भणिउं सतण्हें फलवज्जिउ कि गज्जहि ॥

धणुदंडें डिंभय कंडें रे कुमार मइं तज्जहि ॥ २१ ॥

## 22

दे देहि कप्पु कि जंपिण  
तुहुं किंकरु हउं तुहुं परमणाहु  
इय भणिवि विसमभडघाइणीइ  
सीयासुएण भग्गइ अणीइ  
ता रिउणा घल्लिउ फुरियधार

दुण्णयवंतें सुइविप्पिण ।  
किं वद्धउ विहलु पहुत्तगाहु ।  
जुज्झिउ विज्जइ बहुरुविणीइ ।  
वहुंरुविणि जिय पडिरुविणीइ ।  
रहचरणु चवेलु सहसारफारु ।

5

९ P समुह गयाइ. १० A हलसूल्लिहि. ११ AP वरकरवालहिं.

21 १ A जोहोहदलिय°. २ AP दोच्छिउ. ३ A वि. ४ AP सयण्हें. ५ AP डिभियकंडें.

22 १ A बहुरुपिणि. २ A तरणु. ३ AP सहसार फारु.

8 b °भडथडाइं °भट्समूहानि.

21 1 a °वेडियरहोहि °वेष्टितरथौवे. 2 a जोहंघि° योषपादै. 3 a वियडिय° विस्फु-  
टित्तम्. 4 a मीडामहग्घ° मा च ईडा च ताभ्यां महार्घ. 5 णीरेरुह° पङ्कजम्. 8 b सारुइ लक्ष्मी-  
रुचिम्. 12 डिंभय हे शिगो.

22 2 b विहलु विफलम्. 4 a अणीइ सैन्ये.

गिरिधरणिवल्यचालणवलेण  
 सो रेहइ तेण सुणिम्मलेण  
 णियेरुवपरज्जियणित्तणेण  
 पुणु भणिउ वइरि रे सुप्पहासु  
 पालियतिखंडमंडियधरेण  
 तुहुं सुप्पहु विण्णि वि मज्झु दास  
 सरसलिलि रहंगसयाइं अत्थि  
 मरु मरु मारंतहु णत्थि खेउ

तं हरिणा धरियउ करयलेण ।  
 णवमेहु व रविणा णित्तलेण ।  
 अलियंजणसामे पत्तलेण ।  
 करि केर म जाहि कयंतवासु ।  
 पंडिजंपिउं पडिदामोयरेण । 10  
 को गव्हु रहंगे रे हयास ।  
 किं तेहिं धरिज्जइ मत्तहत्थि ।  
 संभरहि को वि णियइद्दुदेउ ।

घत्ता—असमिच्छिवि पुणु णिंभच्छिवि चक्के रिउसिरु तोडिउ ॥  
 हरिहंसं लद्धपसंसं णं रणंतरुहलु साडिउ ॥ २२ ॥

15

## 23

मंहिरक्खसि खद्धणिमासखंड  
 पत्थिव पसु गिलइ ण कहिं मि धाइ  
 कालेण कणहु गउ अवहिठाणु  
 णिल्लुंचियकुंतलु करिवि सीसु  
 परिसेसिवि भवसंसरणवित्ति  
 जहि भुक्खु णत्थि आहारवग्गु  
 जहिं कामिणि कामु ण रोसु तोसु  
 जहिं वाहि ण विज्जु ण मलु ण प्हाणु  
 इच्छइ पेच्छइ णीसेसु ताम  
 संतेण सामियफुल्लंउहेण

पुरिसुत्तमेण भुत्ती तिखंड ।  
 ओहच्छइ केण वि सहं ण जाइ ।  
 हलिणा चिंतिउ रिसिणाहणाणु ।  
 जायउ सोमप्पहगुरुहि सीसु ।  
 थिउ भूसिवि मोक्खमहाधरित्ति । 5  
 जहिं णिइ ण मंदिरु सयणवग्गु ।  
 जहिं दीसइ एक्क वि णाहिं दोसु ।  
 जहिं अप्पे अप्पउं जाणमाणु ।  
 तिहुयणु अणंतु आयासु जाम ।  
 चउथेण तेण सीराउहेण । 10

घत्ता—ववगयरइ भरहेरावइ जं णरेहिं आराहिउं ॥

तं सिद्धउं सिवसुहुं लद्धउं पुष्कदंतजिणसाहिउं ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महा-  
 कइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे अणंतणाहसुप्पहपुरिसुत्तममहसूयणकहंतरं

णाम अट्टुवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५८ ॥

३ AP गित्तवेण. ४ A omits Sa. ५ AP °मडलवणेण. ६ A तो जपिउ पडि°, P ता जपिउ पडि°. ७ A महु मारतहु. ८ AP णिव्वंछिवि. ९ P ण णवसररुह पाडिउ.

23 १ AP have before this: बहुपाउ करिवि बहुभोयसत्तु, तमतमि पत्तउ पडिलच्छि  
 नेतु. २ AP सवणमग्गु. ३ AP अप्पइ अप्पउं जायमाणु. ४ AP अन्च्छइ. ५ A पुल्लाउहेण. ६ AP  
 चोलेण. ७ AP व लद्धउं सिवसुहुं मिउउ. ८ AP °पुरिसोत्तम°. ९ AP अट्टावण्णा°.

7 b गित्तवेण निदर्शितं, भासुणेत्यर्थः. 9 b केर आरा. 13 a सो उ कालेण.

23 1 a °णिमास नृमाणम्. 1 a अवहिठाणु मत्तमनरके अवधिष्ठान नरकसिद्धम्. 6 a  
 परिं छिवि वरिणत्त 7 a भुक्खु भोदतामि भासु 9 a विज्जु वैयः. 11 °कुत्ताउहेण °कामेन.

जिणुं धम्मु भडारउ तिहुवणसारउ मइं जडेण कि गिज्जइ ॥  
चवलुककलियायरु भरियउ सायरु कि कुडुवेण मविज्जइ ॥ धुवकं ॥

## 1

लच्छीरामालिंगियवच्छं  
दिव्वञ्जुणि छत्तत्तयवंतं  
भामंडलरुइणिज्जियचंदं  
अमरमुक्ककुसुमंजलिवासं  
बुद्धं बहुसंबोहियसुरवं  
वरकंठीरवपीढारूढं  
पंचिंदियभडसंगरसूरं  
मंदरदिधीरं सवरहियं  
दूरुज्झियमायाविरहंसं  
एयाणेयवियप्पविवायं  
पायपोमपाडियगिब्बाणं  
दिसिणासियदुण्णयसारंगं

उण्णयसिरिवच्छं ।  
कंतं भयवंतं ।  
भव्वकुमुयचंदं ।  
देवं दिव्वासं ।  
जयदुंदुहिसुरवं ।  
मीमंसारूढं ।  
भुवणणलिनसूरं ।  
रायरोसरहियं ।  
मुणिमणसरहंसं ।  
मोहमेहवायं ।  
उग्गयगिब्बाणं ।  
हयवसुसारंगं ।

5

10

All mss., A, K and P, have, at the beginning of this samdhi, the following stanza—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति स्थितिश्छन्दसा-  
मर्थालकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ।  
किं चान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते  
द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ॥ १ ॥

K reads ते चार्थनिर्णीतयः for तत्त्वार्थं, देवतौ for द्वावेतौ, and भरतारुख्यं for भरतेशं, P reads देवेतौ भरते तु पुष्पं. K has a gloss on देवेतौ as देवत्व इतौ प्राप्ती देवेतौ.

1 १ A जिणधम्मु. २ P किं तं.

1 2 उ क्क लि या य रु उत्कलिकाकारः कल्लोलसमूहयुक्तः, कुडुवेण मानप्रमाणविशेषेण. 3 b °सि रि व च्छं श्रीवृक्षमशोकवृक्षम्. 4 b भयवत जानिनम्. 6 b दि व्वा स दिग्गसनम्. 7 a °सुरवं °सुरपतिम्, b °सुरव शोभनशब्दम्. 8 b मी मं सा रूढ मीमासाविचाररूढं परीक्षाप्रसिद्धमित्यर्थः. 10 a स वर हिय स्वपरहित भिद्दहितं वा. 11 a °मा या विर ह स मायाविरहयोग्यं भागम्. 13 b उग्ग य गि व्बा णं उद्गता निष्पन्ना गीर्वाणाः पण्डितगणधरदेवादयो यस्मात्, अथवा उन्नतग्रीवाणां मिश्रादृष्टीना ध्वस्तसन्नन्धिनम्. 14 a दुण्ण य सार गं °दुर्मनहरिणम् b ह य व सु सार गं हनद्रव्यसम्पन्नगम्.

तवहुयवहहुयवम्महधम्मं  
भणिमो तस्स चरित्तं चित्तं

णमिऊणं धम्मं ।  
रंजियपरचित्तं ।

15

घत्ता—जिह अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥

तिह हउं दुक्कियहरु कहंमि कहंतरु भरहहु भव्वसहंयहु ॥ १ ॥

2

धादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ

अंकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहइ ।

सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदेसइ

पुरिहि सुसीमहि दसरहु राणउ जयसिरिसेसइ ।

सुपसाहियसिरुं वुहयणवच्छलु णिवसइ केहउ चाएं भोएं विहवें रूवें वम्महु जेहउ ।

रयणिसमागमि गिलियउ छणससि अब्भपिसाएं खीरामेलउ णावइ णाएं दिट्टउ राएं ।

चित्तिउ णियमणि सच्छसहावें वियलियदप्पें

अमयकलायरु जेम णिसायरु गसिउ विडप्पें । 5

तेम गसेव्वउ जीउ पुसेव्वउ कूरकयंतें

णिव्वयवंतें कारिमजंतें काइं जियंतें ।

एव चवेप्पिणु रज्जि थवेप्पिणु अइरहु णंदणु

संगु मुप्पिणु गउ तउ लेप्पिणु णिम्माणुसु वणु ।

पढिउ सुयंगइ सो एयारह णिट्टइ झिज्जिवि

तिहुवणखोहणु तित्थयरत्तणु पुण्णु समज्जिवि ।

पावविणासैं मुउ संणासैं गउ सव्वत्थहु

जग्गि णउ काइं मि दीसइ दुग्गामु धम्मसमत्थहु ।

जंतसणाडिहि लहुयउ गरुयउ काइं वि अच्छइ तं णियणाणें एक्कुं करंगउ जाणइ पेच्छइ । 10

सो तिहि तीसहि पक्खहि गलियहिं सासु पउंजइ तेत्तियवरिससहासहिं संखइ झीणइ भुंजइ ।

सुक्कलेसु ससिसुक्कवण्णु सुइं णिप्पडियारउ

किं वणिणज्जइ इंदु चंदु अहमिदु भडारउ ।

तेणं तितीससमुदमाणु परमाउसु भुत्तउं

परियाणिवि उव्वरिउं सेसु छम्मासु णिरुत्तउं ।

पेसणु पढमें सयमहिण जक्खिदहु सिट्टउं

कुरु कुरु जिणपुज्जाविहाणु परमागमि दिट्टउं ।

घत्ता—सुंणि जंवूदीवइ ससिरविदीवइ भरहखेत्ति जणपउरइ ॥ 15

महेराउ णरेसरु सुरकारिकरकरु अत्थि जक्ख रयणउरइ ॥ २ ॥

३ AP णविऊणं. ४ P omits चित्तं. ५ A कहवि. ६ P °सयायहु.

2 १ A °सिरि. २ P णिवइ स. ३ A गसेवउ. ४ A पुसेवउ. ५ AP read this line as पढिउ सुयंगइ सो अविहंगइ एयारह पुणु, P adds after this: सरिवि सुहंगइ दहधम्मंगइ सोसिवि णियतणु, AP add after this: छत्तीस वि गुणसहिए तवणिट्टइ (A तवणिट्टविएं झिज्जिवि. ६ P एक्क. ७ A सो तेतीसहि. ८ A सुह°. ९ A तिणि तेत्तीस°. १० A पुण जंवू°; P मुणि जंवू°. ११ P जणे पउरइ; K जणपवरइ but connects it to जणपउरइ. १२ A मेहराउ, P महाराउ.

15 a °वम्महधम्मं कामदेवधनु. 17 सत्तमु अत्तिगयेन प्रशस्त.

2 1 a पुव्वदिसायलि पूर्वमेरौ b माहवगेहइ माधवा लक्ष्मीपतयः तेषा गृहके. 2 b-3 a जयसिरिसेसइ सुपसाहियसिरुं जयलक्ष्मीश्रेण्या पुष्पमालया प्रसाधितं शृङ्गारितं शिरो यस्य स राजा. 4 a अब्भपिसाए राहुणा. 5 b विडप्पें राहुणा. 6 a पुसेव्वउकूरकयंतें स्फेटयितव्य. कूरकृतान्तेन यमेन, b णिव्वयवंते व्रतरहितेन, कारिमजंतें शरीरेण, जियते जीवता. 9 a सव्वत्थहु नवार्थसिद्धिचिमान गत.. 10 b एक्कुं करगउ एकहल्लकाय, अथवा एकाङ्गुलिवत्. 11 a तिहि तीसहिं त्रिभिन्निगता च. 12 a सुइं शुचि., णिप्पडियारउ प्रवोचाररहितः. 15 a पढमें सयमहिण प्रथमेन देवेन्द्रेण, सौधमेंद्रेण. 17 महाराउ महसा तेजसा राजित भानुराजा.

## 3

पुरंधि तस्त सुप्पहा	सई अणंगमापहा ।	
जणेदिही जिणेसरं	रईणिसादिणेसरं ।	
पुरं णिवद्धतोरणं	घरं समत्तवारणं ।	
करेहि तं तथा तुमं	कुलक्कमागयं इमं ।	
णमंसिउं सुराहिवं	तओ गओ धणी भुवं ।	5
णवप्पसंडिपीयलं	अणेयखाइयाजलं ।	
अणेयवण्णसालयं	अणेयणट्टसालयं ।	
अणेयकेउछाइयं	अणेयतूरणाइयं ।	
अणेयदारदावणं	अणेयवल्लरीवणं ।	
अणेयसुंदरावणं	अणेयतित्थपावणं ।	10
कयं पुरं महासरं	तैहि चि रायमंदिरं ।	

घत्ता—तहि पच्छिमरयणिहि सुत्तइ सयणिहि दीसइ देविइ कुंजरु ॥  
पसुवइ पंचाणणु विप्फुरियाणणु मयमारणणहपंजरु ॥ ३ ॥

## 4

अवरं वि सिरिदामइं दिट्ठिहि सोम्मइं ढोइयइं	
णहि पंडुरतंवइं ससिरचिविवइं जोइयइं ।	
दुइ मीण रईणड दुइ मंगलघड सरयसरु	
जलणिहि जलभीसणु सेहीरासणु सक्कघरु ।	
उरगिदणिहेलणु णाणामणिगणु सत्तसिहु	5
मुद्धइ अवलोइउ मणि संमाइउ भणिउ पहु ।	
मइं दिट्ठा सिविणयं सोलह सिविणय देतु सुहुं	
फलु ताहं भडारा णरवरसारा कहहि तुहुं ।	
पइ कंतहि अक्खइ गुज्जु ण रक्खइ भुयणगुरु	
तुह होसइ तणुरुहु णवसररुहमुहु गुणपउरु ।	10

3 १ AP जणेइही. २ P सम्मत्त°. ३ A तहि च राय°.

4 १ AP अवरु. २ AP सुविणय. ३ A णवससरमुहु.

3 1 b अणंगमापहा कामश्रीसदृशी. 2 a जणेदिही जनिष्यति. b रईणिसादिणेसरं रतिरेव निशा तस्या विनाशसूर्य 5 b धणी धनदः. 6 a णवप्पसंडिपीयल नवतुवर्णपीतम्. 10 a सुंदरावणं शोभनहट्टं आपणम्. 11 a महासर सरोयुक्तम् b तहि चि तत्रैव नगरे.

4 3 सरयसरु पद्मसर. 5 सत्तसिहु सन्नार्चिरमि. 7 सिविणय देतु सुहुं श्रीचिन्ताना राज्ञां सुख ददत् त्वम्. 10 णवसररुहमुहु नवपद्मजसुखः.



तं गिसुणिवि राणी णं सहसाणी घणरविण  
 णच्चइ सिंगारं रसवित्थारं णवणविण ।  
 हेमुज्जलभित्तिहिं उग्गयदित्तिहिं जियतवणि  
 वोलाविये अयणइं पडियइं रयणइं णिवभवणि ।  
 वइसाहइ मासइ तेरसिदिवसइ ससिधवलि 15  
 थिउ गब्भि जिणेसरु अहममेसरु गलियमलि ।  
 रेवइणक्खत्तइ णाविउ पवित्तइ सुरवरहिं  
 आयहिं दिहिकंतिहि सिरिहिरिकित्तिहिं अच्छरहिं ।  
 चउसायरमेत्तइ सिद्धि अणंतइ मयमहणु  
 अंतिमपल्लद्धइ धम्माविसुद्धइ गइ णिहणु । 20  
 माहम्मि रवणणइ धर्णणपउण्णइ जणियसुहि  
 ओसाकणसंकुलि णवतणकोमलि तुहिणवहि ।  
 सियपक्खहु अवसरि तेरसिवासरि दिण्णदिहि  
 उप्पण्णउ जगगुरु सिरिसेवियउरु णाणणिहि ।  
 गुरुजोइ सुरिंदहिं णहविउ फणिंदहिं सुरगिरिहि 25  
 आणिवि पियवाइहि अप्पिउ मायहि सुंदरिहि ।  
 गउ सक्कु सुहम्महु पणविवि धम्महु पणइसिरु  
 वद्धइ परमेसरु रूवे जियसरु महुरगिरु ।  
 घत्ता—पणयालसुंत्तावइं उज्जुयभावइं गरुपं तणु तुंगत्ते ॥  
 तेलोकहु सारं अरुहकुमारं जणु रंजिउ धणु देते ॥ ४ ॥ 30

## 5

ताव कुंअरत्तणे	देवकयकित्तणे ।	
लक्खजुयसंजुयं	अद्धलक्खं गयं ।	
वच्छरविसेसंहं	अच्छरसुरेसंहं ।	
विरइय अणिंदओ	जसविडविकंदओ ।	
इंदकयण्हाणओ	जायओ राणओ ।	5

४ A सहसाणी, P सुहसाणी. ५ P वोलाविय. ६ A अट्टमिदिवसइ. ७ AP णववि. ८ A धम्मपउ-  
ण्णइ. ९ P उसा° १० A गुरुजोय. १३ AP पणयसिरु. १२ A सत्तावइ.

5 १ AP कुमरत्तणे. २ P °विसेसेहि. ३ P °सुरेसेहिं. ४ AP विरइयाणंदओ.

11 सहसाणी मयूरी 12 णवणविण नवनवेन. 14 वोलाविय यापितानि, अयणइं प्रमासपर्यन्तम्.  
15 अससिधवलि कृष्णे. 17 णविउ नमस्कृतः. 22 ओसाकण° अवध्यायकणाः. 25 गुरुजोइ  
पुष्यनक्षत्रे. 27 पणइसिरु प्रणतशिरा .

वयसमालकखहं	वयसं वयसोऽस्माहं ।	
चंद्रिमाकंतिया	उक्तं णिवउंतिया ।	
नेण अत्रलोड्या	चिह्नियणिव्वेड्या ।	
महं जि उम्मोडिओ	पणु वि संवोडिओ ।	
अरं कुन्नुमाहन्वदि	अश्वरिगिसत्थदि ।	10
हदिहं अदिगिन्दिओ	चंदिओ अंदिओ ।	
गिहदलिहियंवरं	णाययत्तं वरं ।	
निचियमारोडिउ	वम्महं जोडिउं ।	
मंदिग णिगो	सालवणमुवगओ ।	
मादि नेरुमण	दियादि संमियंकर ।	15
पूसि सायकण	रदिउ रइत्तण ।	
उट्टुववाग्गओ	कगिदि णिहियासओ ।	
णियमाहम्मंजुओ	मुणिवरिंदो हुओ ।	
गतिकंतापिओ	तुरियणाणंकिओ ।	
पुदि वरविचिन्तण	पांडलीउत्तण ।	20
भमिउ पिउत्थिओ	विणयणाविओ थिओ ।	
धणसंणालण	होड्यं कालण ।	
भोयणं फोसुयं	सव्वदोसच्चुयं ।	
जायपंचच्चुयं	दाणममरत्थुयं ।	
सहइ तवतावणं	करइ गुणभावणं ।	25

घत्ता—उवसंतइ मच्छरि गइ संवच्छरि खाइयभावहु आइउ ॥  
 फुहंत्तपियालउं तुंगतमालउं तं सालवणु पराइउ ॥ ५ ॥

## 6

तदि सत्तच्छयतरुदि तालि	खगउलमहुलि ।
उट्टुववासाळंकियहु	अविसंकियहु ।
पूसरिक्खि चणससिदिवसि	हइ कम्मरसि ।

५ A वयसमलकखहं; P वयसममुलकखह. ६ A णवकुसुम°, ७ A समयकए. ८ A पिहियासवो. ९ A पुरघर°. १० AP पाटलीपुत्तए. ११ AP पासुय.

6 १ AP °मुहलि.

5 0 a वयसमालकखहं पञ्चसवत्सरलक्षणाम्. 7 a चदिमाकतिया दीप्त्याक्रान्ता. 12 b णायदत्तनागदत्ताम्; वर वरामुत्तुग्राम्. 13 b जोहिउ जित्वा. 15 b समियंकर चन्द्रसहिते. 19 b तुरियणाणंकिओ मन पर्यायजानयुक्तः. 26 खाइयभावहु आइउ घातिचतुष्टयं विनागमागतम्.

6 1 b खगउलमहुलि पधिसमूहमुखरे. 3 b कम्मरसि कर्मरसे कर्मसामर्थ्ये हते सति.

अवरण्हइ हूयउ सयलु	केवलु विमल्लै ।	
आयउ तुरियउं सतियसयणु	दससयणयणु ।	5
थुणइ थुणंतु गहीरञ्जुणि	जय परममुणि ।	
धम्मु ण णहयलि गिरिगुहिलि	णउ धरणियलि ।	
धम्मु ण ण्हाणि ण पसुगंसणि	ण सुरावसणि ।	
तुहुं जि धम्मु जिणधम्ममउ	कयजीवदउ ।	
णरयपडंतहं दिण्णु करु	तुहुं डुरियहरु ।	10
हंरु तुहुं संकरु परमपरु	तुहुं तित्थयरु ।	
बुद्धु सिद्धु तुहुं महु सरणु	हयजरमरणु ।	
जिहं मणु धावइ णारियणि	उत्तुंगथणि ।	
जिह मणु धावइ भवणि धणि	णियवंधुयणि ।	15
तिह जइ धावइ तुह पयहं	गयभवभयहं ।	
तो संसारि ण संसरइ	ण हवइ मरइ ।	
जाइ जीउ तिहुवणसिरहु	तहु सिवपुरहु ।	
एवं थुणेवि पुरंदरिण	वीणासरिण ।	
समवसरणु णिम्मिउ विउलु	तहिं जीवउलु ।	20
धम्मचक्रपहुणा जिणिण	संवोहियउं ।	
इंदियविसयकसायवसु	सुणिरोहियउं ।	

घत्ता—तहु वज्जियछम्महु देवहु धम्महु तवभरधरदढयरभुय ॥

चालीस मणोहर जाया गणहर विहिं गणणाहहिं संजुय ॥ ६ ॥

## 7

णवसयइं पुव्वपारयरिसिहिं  
चालीससहास सत्तसयइं  
रिदुसयइं तिणिण सहसइं परहं

संदरिसियमोक्खमग्गादिसिहि ।  
सिक्खुयहं णमंसियगुरुपयइं ।  
अवहिल्लहं संजमभरधरहं ।

२ AP add after this. देवे स्यरायर मुणिउं, जगु जाणियउं ( A omits जगु जाणियउं ), खणि जाइय ( A जाइयउ ) देवागमणु, छण्णइ ( A सुण्णय<sup>०</sup> ) गयणु; णाणाविहहिं पडाइयहिं, अवराइयहिं, संथुउ देउ सुराखरहिं, मउलियकरहिं, K gives these lines but scores them off.  
३ A तुरिउ. ४ A पसुवहणे. ५ P has तुहुं before हरु. ६ A मह सुयणु. ७ P omits this line. ८ A धावइ भवणि वणि, P धावइ णियभवणि धणि. ९ P तिहिं.

7 १ P भिक्खुयहं.

5 b दससयणयणु इन्द्रः. 7 a गिरिगुहिलि गिरिगहरे. 8 b सुरावसणि मच्चव्यसने.

7 1 a पुव्वपारय<sup>०</sup> पूर्वपारगणा ऋषीणाम्. 3 b अवहिल्लहं अवधिजानयुक्तानाम्.

चउमहन्म पंचमय केवलिहिं  
भयन्महन्मं विमिःरियाइयहं  
महन्नाहं मदि चउमयजुयहं  
शैलमहं भणियहं साचयाहं  
गिष्याण मिलिय सगारदिय  
पणयंति जासुं सो तेण सहं  
गिभागमि प्रदृणतुत्तराहं  
नेतिभ्यः पण्डितमपहन्म णिमिहि  
संपण्णी धम्मह् पम्मगइ

मणपजयाहं तइं मणवलिहि ।  
दंसाहसहं वसुसयवाइयहं । 5  
अजियहं मोहवासह् चुयइं ।  
दुगुणाहं तयं पालियवयाहं ।  
सरोज्ज तिरिस्स दिस्ससहिय ।  
उवमिज्ज हं चिंत महं ।  
सह जइसणहि कयसंवरहिं । 10  
संमयसिहरि अरिहह् रिसिहि ।  
महं देउ भडारउ सुद्धमह् ।

घत्ता—चंशरयचंशह् देहं जिणदह् पुजिवि हयभवपासह् ॥

पांजियरविमंडलु गउ आहंडलु गय अवर वि णियवासह् ॥ ७ ॥

8

धम्मवागिचिहणयोहित्ये  
मेणिय हल्लहन्मकहराण  
णवग्मासंचियउसुमडेहो  
णिवसइ णरवइ परदुव्विसहो  
सो संसारजायणिव्वेयउ  
फाउं तचचरणं जिणद्विट्ठं  
पत्तो णिरसणविहिणा सग्गं  
अट्टारहज्जणिहिपरिमाणं  
जइया तइया इह रांयगिहे  
णाम सुमित्तो अप्पडिमहो  
जुज्जे सो भुयवलमयमत्तो  
ताम तेण परिमउलियणेत्तं

अस्सि परमधम्मजिणतित्थे ।  
णिसुणाहि चरियं णरपवराणं ।  
जंवरुदीवे अवरविंदहे ।  
वीयसोयणयरे णरवंसहो । 5  
दमवरपासे सुद्धिसंमेयउ ।  
विसहियकेसालुंचणणिट्ठं ।  
तं सहसारं भोयसमग्गं ।  
तस्सेयारहमे वेलीणे ।  
णयरे घरसिरणच्चियवरिहे ।  
दुज्जणहियउप्पाइयसल्लो । 10  
रायसीहरापण णिहित्तो ।  
परिभवदुक्खपरंपरछित्तं ।

घत्ता— णियरज्जु मुणप्पिणु तणयह् देप्पिणु जुण्णउं तणु व गणेप्पिणु ॥

चिण्णउं वउं दूसह् कयचम्महवह् कण्हसूरि पणवेप्पिणु ॥ ८ ॥

२ A जिह केवलहिं. ३ AP तियह्. ४ AP जासु सो केण सह्. ५ A अट्टणववुत्तरेहिं. ६ A देवजिणिदह्.

8 १ A अस्स. २ P णरवासहो. ३ P ससारहु जाय°. ४ °सम्मेयउ. ५ A रायहरे. ६ A वउ, P तउ.

4 b तइ तावन्त. केवलिप्रमाणा, मणवलिहिं मन पर्यायज्ञानसहितानाम्. 10 a गिं भागमि आपादे शुक्के.

8 1 a ° वो हि ल्यं प्रवहणे नौकायाम्, b अस्सि अस्मिन्. 4 b णरवसहो नरवृषभनामा. 9 b °वरिहे °मयूरे. 11 b णि हि त्तो निराकृतो मानभङ्ग प्रापित.. 12 a परिमउलियणेत्तं परिमुकुलितनेत्रेण; b °छित्तं °सृष्टेन.

## 9

गवर पमाणं	माणकसाणं ।	
भीमें रुद्धउ	हियवइ कुद्धउ ।	
खरतवझीणउ	साहु अयाणउ ।	
पत्थइ तवहलु	होज्जउ भुयवलु ।	
आगामिणि भवि	भडेरवि रउरवि ।	5
जेण वियारमि	सो रिउ मारमि ।	
इय णिज्झाइवि	देहु पमाइवि ।	
सल्लकिलेसं	मुउ संणासं ।	
थियेँ सुरविंदइ	हुउ माहिंदइ ।	
जाउ मणोरमि	अणुवमतणुरमि ।	10
आउअणिंदइ	सत्तसमुदइ ।	
जहिं जिणगीयइं	अच्छरगीयइं ।	
जहिं सवणिज्जइं	सुइरमणिज्जइं ।	
जेँ चिरु जित्तउ	राउ सुमित्तउ ।	
सो पत्थिवहरि	णं मत्तउ करि ।	15
हिडिवि भववाणि	विहुरावलिघणि ।	
फलियधरायलि	इह कुरुजंगलि ।	
पंडुरगोउरि	हूयउ गयउरि ।	
राउ कुसीलउ	सो महुकीलउ ।	
घत्ता—करयलकरवालें भिउडिकरालें पुहइ तिखंडं पसाहिय ॥		20
मंडलिय मउद्धर जेम धुरंधर तेम तेण घरि वाहिय ॥ ९ ॥		

## 10

रज्जु कंसिणसुहसारउं अणहुत्तिहिं णियउं  
कइवइ वरिसइं जइयहुं तहु जीविउं थियउं ।

9 १ AP अजाणउ. २ AP भडयणि. ३ A थिय. ४ P जिणगेहइं. ५ A अच्छरिगीयइ. ६ A तिखंडइ साहिय. ८ AP मउडधर.

10 १ A कसण°. २ AP अणुहुंजिवि.

9 1 a पमाए प्रमादेन. 2 a भीमे रौट्रेण. 5 b भडरवि रउरवि भट्कोलाहले रौट्रे. 10 b अणुवमतणुरमि अनुपमा शरीरस्य रमा शोभा यत्र. 11 a आउअणिंदइ आयुषा अनिन्ये. 12 a जिणगीयइं जिनसंवन्धीनि गीतानि. 16 b विहुरावलिघणि दुःखपरपराप्रचुरे. 19 b महुकीलउ मधुकीड. 21 मउद्धर मदोद्धर ; धुरवर वृषभाः.

10 1 कसिण? क्लृप्तं संपूर्णम्, अणहुत्तिहिं णियउं अनुभुक्ति नीतम्.

तइयहुं खगउरणाहहु सीहसेणाणिवहु  
 इक्खाउहि सुपसिद्धहु इह भरहुम्भवहु ।  
 विजयादेविहि गन्मइ उप्पण्णउ धवल 5  
 सो णरवँसहवरामरु भुयजुयवलपवलु ।  
 सुहिहि सुदंसणु कोक्किउ कुलसरहंसवरु  
 तहिं अवसरि माहिदहु णिवडिउ सइं इयरु ।  
 अहरविंवरुइणिज्जियणवरविंविंविहि  
 सो सुमित्तु सुउ जायउ उयँरइ अंविहि । 10  
 पुरिससीहु हक्कारिउ लहुयउ वंधवहि  
 पहु पमाणु संपत्तउ थणयथण्णधुयहिं ।  
 ते° वेण्णि वि ससियरहिमकज्जलगरलण्हि  
 वेण्णि वि ते सुरगिरिवरसंणिहमाणसिह ।  
 वेण्णि वि ते वल केसव वासवविहियभय 15  
 ते विण्णि वि नृवंसिरमणिकिरणारुणियपय ।  
 ते विण्णि मि संसेविय विज्जाजोइणिहिं  
 समलंकिय हरिवाहिणिगारुलवाहिणिहिं ।  
 ते तेहीं आयण्णिवि परसिरिअसहणउ  
 महुकीलउ आरुडुउ रणि जुज्झणमणउ । 20  
 पेसियदूयं जाइवि वोल्लिय रायसुय  
 किं तुम्हइं ण कयाइ वि एही वत्त सुय ।  
 घत्ता—खोणीयलपालहु जो महुकीलहु कप्पु देइ सो जीवइ ॥  
 हलहर सुहभायण सुँणि णारायण अवरु जमाणु पावइ ॥ १० ॥

## 11

भग्गणरिंदो                      तां गोविदो ।  
 माणमहंतो                      भणइ हसंतो ।

३ A गोउरणाहहु; K गोउर° but corrects it to खगउर°. ४ A णरवसहु. ५ A °पवलवलु.  
 ६ A णिवडिउ सो इयरु. ७ P अवरइ. ८ A थणयथणचुवहिं, P थणयथणधुवहिं. ९ AP वेण्णि  
 मि ते. १० AP णिव°. ११ AP तहा. १२ AP वोल्लिय जाइवि. १३ AP णिसुणि णारायण.

11 १ A तो.

4 इक्खाउहि इक्खाकुवंगे. 7 सुहिहिं सुहद्धिः. 8 सइं स्वयम्, इयरु सुमित्रवर. 9 अहरेत्यादि अहर-  
 विम्बकान्त्या निर्जिते तिरस्कृते रविभिन्वे द्वे यया. 12 पमाणु संपत्तउ प्रामाण्यं प्राप्त, सर्वोक्त्यो वभूवे-  
 त्यर्थः, थणयथणधुयहिं स्तनपेषु बालेषु स्तन्यधुतेषु स्पर्शकेषु तरुणेषु च प्रामाण्यं प्राप्तः. 16 °किरण-  
 रुणियपय °किरणैः अरुणितौ पादौ ययो. 17 विज्जाजोइणिहिं विद्यादेवताभिः. 19 तेहा ताहगौ.  
 22 एही वत्त एषा वार्ता.

भुवि जो मंदो	मैइं सच्छंदो ।	
मगैइ कप्पं	तमहं भप्पं ।	
करमि अदप्पं	किं माहप्पं ।	5
अत्थि पराणं	खग्गकराणं ।	
दोण्णयमुक्कं	मोत्तूणेक्कं ।	
लंगलपाणिं	को पहु दाणिं ।	
मइं जीवंतं	वइरिकयंतं ।	
वयणं चंडं	सुइवहकंडं ।	10
तं सोऊणं	चारु अदीणं ।	
विगओ दूओ	हरिसियभूओ ।	
कुंजरगइणो	तेण सवइणो ।	
कहिया वत्ता	कुरु रणजत्ता ।	
ण करइ संघी	लच्छिपुरंधी- ।	15
लोलो रामो	कण्हो भीमो ।	

घत्ता—तक्खणि संणद्धउ उब्भियधुयधउ रोसें कहिं वि ण माइउ ॥  
हयतूरगहीरे सहुं परिवारे महुंकीडउ उद्धाइउ ॥ ११ ॥

## 12

रमणीदमणइं	रिउआगमणइं ।	
जूरियसयणइं	णिसुणिवि वयणइं ।	
जोइयभुयवल	णिग्गय हरि वल ।	
झल्लरि वज्जइ	डुंडुहि गज्जइ ।	
संचल्लिय चमु	हुउ महिविब्भमु ।	5
उक्खयखग्गइं	सेण्णइं लग्गइं ।	
भडकडवइणि	मोडियसंदणि ।	
फाइयधयवडि	तोडियगैयगुडि ।	

२ A भमइ सछंदो. ३ A संगइ. ४ A करुणाजुत्ता. ५ AP महुकीलउ.

12 १ A जोइवि. २ AP °मइणि. ३ P पाडिय°. ४ P °हयगुडि.

11 3 a संदो जडः. 4 b भप्पं भस्म. 7 a दो ण्ण यमुक्कं दुर्णयमुक्कं वलभद्रम्. 8 b दा णिं इदानीम्. 10 b सुइवहकंडं कर्णपथाकृष्टयाणम्. 12 b हरि सिय भूओ हर्षसंपन्नः, अथवा हर्षितानि भूतानि येन संग्रामजनकत्वात्. 14 b कुरु रण जत्ता रणयात्रा संग्रामप्रयाण कुरु. 15 b — 16 a लच्छिपुरंधी लोलो लक्ष्मीलम्पटः. 17 °धुयधउ °आन्दोलितध्वजः.

12 7 a भडकडवइणि भयानां प्रकटचूर्णीकरणे. 8 b °गयगुडि गुडा गजपाखरः (पृष्ठा-स्तरणम्).

पहरणसंकडि	विहडावियघडि ।	
सुरवरदारुणि	णवकोवारुणि ।	10
देहवियारणि	खेयरमारणि ।	
चुयजंपाणइ	खलियविवाणइ ।	
कुरयंधारइ	धणुंकारइ ।	
धाइयवाणइ	लुयतणुताणइ ।	
रुहिरज्जलल्ललि	णरवरगोंदलि ।	15
मारियवारणि	तहिं पइसिवि राणि ।	

घत्ता—पडिसंत्तुं वुत्तउं एउं अजुत्तउं जं मइं सहुं राणि जुज्झहि ॥

तुहुं भिच्चु कुलीणउ हउं तुह राणउ एत्तिउं कज्जु ण बुज्झहि ॥ १२ ॥

## 13

दे देहि कप्पु	मा कालसप्पु ।	
पइं गिल्लउ अज्जु	अणुहुंजि रज्जु ।	
ता भणिउं तेण	दामोयरेण ।	
को एत्थु सामि	कहु तणिय भूमि ।	
कुलभूसणम्मि	सिरिसासणम्मि ।	5
भणु लिहिय कासु	वल्लु जासु तासु ।	
इय वज्जरंत	अमरिसंफुरंत ।	
आउहइं लेवि	अब्भिट्ट वे वि ।	
ते वरणरिंद	पडिहरिउविंद ।	
कयरोलियाउ	दाढालियाउ ।	10
पिंगच्छियाउ	वीहच्छियाउ ।	
फणिकंकाणउ	लंवियथणाउ ।	
उक्केसियाउ	रिउपेसियाउ ।	
बहुरूविणीउ	सुरकामिणीउ ।	
कण्हें हयाउ	णासिवि गयाउ ।	15

५ AP अलिशंकारइ. ६ A °तणताणइ. ७ A पडिसत्तें.

13 १ P गिलइ. २ A अमरिसु. ३ AP वीहच्छियाउ. ४ A उक्कोसियाउ.

13 a कुरयंधारइ भूरजसा अन्धकारिते. 14 b तणुताणइ °तनुत्राणे कवचे. 15 b °गोंदलि युद्धे. 17 पडिसत्तुं प्रतिशत्रुणा.

13 6 a लिहिय लिखिता कस्य वर्तते भू, यः सुभटस्तस्य भूर्भवतीति प्रसिद्धमेतत्. 10 a कयरोलियाउ कृतकोलाहला. 13 a उक्केसियाउ ऊर्ध्वकेशिका.



परणिक्विणेण	करिउरणिवेण ।
चालिवि गुरुक्कु	उम्मुकुं चक्कु ।
आरालिफुरिउं	कण्हेण धरिउं ।
दाहिणकरेण	णं गहवरेण ।
कसणेण तंबु	णवमाणुविंबु ।
पुणु भणिउ पिसुणु	महुकील णिसुणु ।

20

घत्ता—रे रे रिउकुंजर दढदीहरकर सीरिहि सरणु पदुक्कहि ॥

एवाहिं असिजीहहु महं णरसीहहु कमि पडियउ कहिं चुक्कहि ॥१३॥

## 14

इय भणिवि सयडंगु अणेण पमेळियउं  
दो वि पंचवालीसधणुणयदेहधरं  
ते हलहरहैरिराणा मंगलभासिणिइ  
खयकाले मुसुमूरिउ पुरिससीहु गहिरि  
भाइपेउं सक्कारिवि सीहसेणतणउ  
छट्टुमउववासहिं दसमदुवालसहिं  
रुक्खमूलवहि सयणहिं रवियरतावणहिं  
भुवणत्तयसिहरग्गहु मोक्खहु णिक्कलहु  
मुणिगणिंदु आहासइ गोत्तमु विप्पसुउ

उरयलु वइरिहि विउल्लु वियरिवि घळियउं ।  
सुहुं दहलक्खइं वरिसहं थिय भुजंत धर ।  
वीर वे वि आरिगिय विजयविलासिणिइ ।  
रउरवि रंणरवि णिवडिउ सत्तममहिविवरि ।  
धम्महु सरणु पइडुउ रामु सुदंसणउ । 5  
परवसलद्धाहारहिं विलवणणीरसहिं ।  
कम्मकंदु णिल्लूरिवि मुणिगुणभावणहिं ।  
णिक्किसायणीरायहु गउ सो णिक्कलहु ।  
फणिकिणरविज्जाहरगणगंधव्वथुउ ।

5

घत्ता—मागहणिव मण्णहि पुणु आयण्णहि चरिउं चक्कणेयारहं ॥

संगामसमत्थहं तइयचउत्थहं मघवंसणाइकुमारहं ॥ १४ ॥

10

## 15

पडिवइरिइ हइ णिवडिइ तमतमधरणियलि

गिद्धखद्धमणुअंतइ वित्तइ भडतुमुलि ।

५ AP परिमुक्कु. ६ P वरसीहहु. ७ A कमपडियउ.

14 १ A °देहवर. २ A सुहदह°. ३ A °हरिणामिं. ४ A रणयविणिवडिउ. ५ A भाइ-  
देहु. ६ A णिक्कसाउ णीराउ सुदंसणु णिच्चलहु. ७ A गणिमुणिंदु. ८ AP °विज्जाहरवर°. ९ P °गंधयुउ.  
१० P मघवासणईकुमारहं.

16 b करिउरणिवेण हास्तिननृपेण. 19 b गहवरेण राहुणा. 23 कमि पडियउ आक्रान्त..

14 5 a भाइपेउ भ्रातृमृतकशरीरम्, सीहसेणतणउ सिंहसेनपुत्रो बलभद्रः. 6 b °विल-  
वण° निर्लेवणः लवणरहितं . 7 b कम्मकदु कर्मसमूहः, णिल्लूरिवि छेदयित्वा. 8 a णिक्कलहु कला-  
रहित शरीररहितं मोक्षम्, b णिक्कलहु कलहरहित . 10 चक्कणेयारह चक्रस्वामिनोः.

15 1 पडिवइरिइ प्रतिकृष्णे.

दामोयारि गइ णरयहु भीमरहंगकरि  
 मारवियारणिवारइ णिव्वुइ सीरंधरि ।  
 दीहकाल वोलीणइ णरणियैराउहरि 5  
 धम्मणाहतित्थंतरि बुहयणसंतियरि ।  
 सुणि जे जाया भारहि भासुरचक्रवइ  
 वेणिण सयलइलपौलय जिणकमणिहियमइ ।  
 एत्थु खेत्ति महिमंडलि णयरि विचित्तघरि  
 मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि । 10  
 तित्थि वासुपुज्जेसहु दुद्धर वय धरिवि  
 णरवइ णामे राणउ दुक्करु तउ करिवि ।  
 हुउ मज्झिमगेवज्जहि अहममराहिवइ  
 जिणधम्मै पाविज्जइ सासयसोक्खगइ ।  
 कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तणसहिउं 15  
 एउं बण्ण मइं जाणिउं लोएहिं वि कहिउं ।  
 सत्तवीससायरखइ जायउं मरणु सुरि  
 सउहावलिसिहरुब्भडि सिरिसाकेयपुरि ।  
 इइ सुमित्तणरणाहहु सुहिसंमाणियहि  
 हंसवंसकलसइहि भद्वाराणियहि । 20  
 मघउ णाम हूयउ सुउ सुयणाणंदयरु  
 असियरपसमियरिउतमु भेमिउ णिवंदिवसयरु ।  
 घत्ता—जिउ मागहुं वरतणु सुरखेयरगणु णट्टंमालितुहिणामरु ॥  
 वसिकिय मंदाइणि साहिवि मेइणि पुणरवि आयउ णिययघरु ॥१५॥

16

दोचालीससद्धधणुतुंगं	कणयच्छवि णं मंदिरसिंगं ।
अंगं तस्स सुलक्खणवंतं	कामिणिमणसंखोहणवंतं ।
पंचलक्खवरिसह वद्धाउ	णिच्चं सिद्धसमीहियघाउ ।
दिव्वकामभोएं भोत्तूणं	चक्रवट्टिरिद्धिं <sup>३</sup> मोत्तूणं ।

15 १ AP सीरहरि. २ A दीहकालु, P दीहकालि. ३ P °णिरयाउ°. ४ A धम्मदेवतित्थ-  
 करि, P धम्मदेवतित्थंतरि. ५ AP °इलवालय°. ६ A विचित्तयरि. ७ P णामे. ८ P भेमिउ जि  
 दिवसयरु. ९ A मागहवर°. १० P °मालिरु तुहिणामरु. ११ AP वसिकय.

16 १ A मंदरसिंगं, P मंदरे सिंग. २ A रिद्धी मोत्तूणं.

3 °रहंगकरि °चक्रकरे. 5 णरणियराउहरि नरनिकरत्त्यायु.क्षयकरे. 8 °इलपालय भूयालकी.  
 20 °वंस° वेणु. 22 असियर° खड्गकिरणैः. 23 तुहिणामरु हिमवंतकुमार.

16 3 6 °समीहियघाउ नवनिधानरूप्यबुवर्णादिघातु.

प्रियमित्तहु पुत्तहु दाऊणं  
मणहरउज्जाणं गंतूणं  
गहिउं दिक्खं सहिउं दुक्खं  
मघवंतो पयणयमघवंतो

सव्वं जिणतच्चं णाऊणं । 5  
अभयघोसदेवं थोचूणं ।  
जिणिउं तण्हं णिहं भुक्खं ।  
रयपरिचत्तो मोक्खं पत्तो ।

घत्ता—जहिं कामु ण कामिणि दिणु णउ जामिणि ताराणाहु ण णेसरु ॥  
जहिं वसइ ण सज्जणु भसइ ण दुज्जणु तहि थिउ मघवमहेसरु ॥१६॥

## 17

काले जंते अवरु जिह  
चिंधचीरचुं वियखयलि  
सूरवंसणहदिणयरउ  
पहु अणंतवीरिउ वसइ  
हरि करि विसवइ कुमुयपिउ  
अच्चुयकप्पहु ओर्येरिउ  
किंणरवीणारवज्जुणिउ  
विरइयणामकरणविहिहिं  
तेण समुहणियंसणिय  
घणणंदणवणकोतलियं  
वहुणरिंदकोड्ढावणिय  
छक्खंड वि महि जित्त किह  
पुव्वभणियधणुतंगयरु

नृवु उप्पणउ कहमि तिह ।  
इह विणीयपुरि छहधवलि ।  
धीरउ पयपालणणिरउ ।  
तहु महपेवी धरिणि सइ ।  
जोइवि सिविणय णलिणहिउ । 5  
सुरंसिसु उयरि ताइ धरिउ ।  
पुणु णवमासहिं संजणिउ ।  
सणकुमारु कोक्किउ सुहिहिं ।  
चउदहरयणविहूसणिय ।  
गंगाजलवेलंचलियं । 10  
गरुयगिरिंदसिहरथणियं ।  
णिहिघडधारिणि दासि जिह ।  
तिणिण लक्ख वरिसाउधरु ।

घत्ता—वत्तीससहासहि मउडविहूसहिं णरणाहहिं पणविज्जइ ॥  
जो सयलमहीसरु णरपरमेसरु तासु काइं वणिणज्जइ ॥ १७ ॥ 15

## 18

रंभापारंभियतंडवइ  
अत्थाणि परिट्ठिउ सक्कु जहिं

तावेक्कहिं दिणि मणिमंडवइ ।  
आलाव जाय सुरवरहिं तहिं ।

३ AP पियमित्तहु.

17 १ A णिव, P णिउ. २ A महदेवी. ३ P णलिणहिउ. ४ A अवयरिउ. ५ P सुर  
सिसु. ६ AP °कोतलिया. ७ AP °चलिया. ८ A °कोडावणिया, P कोड्ढावणिया. ९ AP °थणिया.

8 a पयणयमघवंतो पादयोर्नंत. इन्द्रो यस्य, b रयपरिचत्तो कर्मरजोविमुक्तः.

17 2 a चिंधचीर° ध्वज. 9 a °णियसणिय° वसना. 13 a पुव्वभणियधणु° सार्ध-  
द्विचत्वारिंशद्वनूपि.

18 1 a रभापारभियतटवइ स्वर्गवेक्षयया प्रारब्धे नृत्ये.

भो अत्थि णत्थि किं सुहयरहु  
तं णिसुणिवि भणइ सुराहिवइ  
सुरणरकामिणियणणालिणरवि  
माणुसु णवत्थि रुउज्जलउं  
ता इ त्ति समागय तियस तहिं  
अवल्लोइवि णरवइ सुरवरहिं  
रुवँ तेल्लोक्करुवविजइ  
जिणणाहु वि जहि संसइ चडइ

णरलोइ रूउ कासु वि णरहु ।  
जो संपइ वट्टइ चक्कवइ ।  
सो सणकुमारु किं दिट्ठु णवि । 5  
जेणेहउं भासिउं मोक्कलउं ।  
अच्छइ वसुहेसरु भवणि जहिं ।  
अहिणांदिउ विहुणियसिरकरहिं ।  
एहउ सुरिंदु दुक्करु हवइ ।  
तहि अवरु रूउ किर कहिं घडइ । 10

घत्ता—पयडेवि स्वरूवइं सोम्मसहावइं विहसिवि देवहिं भासिउं ॥

जइ मरणु णं होंतउ तो पज्जत्तउ एउ जि रूउ सुहासिउं ॥ १८ ॥

## 19

ता जरमरणसइ आयणिवि मणिवि तणु व महियलं ।

देवकुमारणामे सुइ अप्पिवि सतुरंगं समयगलं ॥ १ ॥

णिच्चतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकयं ।

तेणासांघिऊण पक्खालिय बहुभवपावपंकयं ॥ २ ॥

गहियं वीरपुरिसचरियं चित्तं तडिदंडचंचलं ।

रुद्धं चंडकुसुमसरकंडांडंवरडमरविंभलं ॥ ३ ॥

ससिडिडीरपिंडपंडुरर्यरहिमपडछइयदेहयं ।

वासियं वाहिरम्मि परिसेसियघरपंगुरणणेहयं ॥ ४ ॥

चलतडयडियपडियसोयामणिताडंणविहडियायलं ।

सहियं पावसम्मि वणतरुतलि विसरिसजलझलज्जलं ॥ ५ ॥

महिहरविंर्यडकडयविउलविउलयलसिलायलणिहियकाइणं ।

सूरस्सहिम्मुहेण सूरेण वरेण विमुक्कराइणं ॥ ६ ॥

18 १ P णेवि. २ A णयत्थि. ३ A वडइ. ४ AP सोम°. ५ A ण हुतउ ता, P ण हु तउ तो.

19 १ AP °मरणघोसु. २ AP अप्पवि ३ A °कंडंडवर°. ४ A °पंडुरपरहिम°. ५ P °ताडण-विणणविहडिया°. ६ AP °वियल°. ७ A सूरशिहिमुहेण, P सूरराहिसुहेण.

3 a सुहयरहु शुभकरस्य. 6 a णवत्थि अस्ति न वा, b मोक्कलउ यदच्छया. 10 जिणेत्यादि जिननाथोऽपि रूपेण ईदृशो भवति न वेति संशये पतति. 12 मरणु ण होंतउ मरण चेन्नाभविष्यत्, सुहासिउ सुखाश्रित श्लाघितम्.

19 2 सुइ सुते पुत्रे. 4 °पावपकय पापकर्दम.. 6 °कडाडंडवरडमरविंभल °काण्डानां समूहानामाडम्बरमाटोपस्तेन डमर भय तेन विह्वल चपलम्. 7 ससिडिंडीर° चन्द्रवत् फेन.; °पंडुरघर° अतिश्वेतवर्णम्. 10 पावसम्मि प्रावृट्काले. 11 °काइण °देहेन.

सोद्धुं गिंभयालरविकिरणकलावखरवियंभियं ।  
 दुद्धमकोहमोहदढलोहमयं णियलं णिसुंभियं ॥ ७ ॥  
 सहसा दिट्ठसयलसयरायरकेवलविमललोयणो ।  
 देउ सणक्कुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥ ८ ॥  
 घत्ता—मइलिउ मोक्खत्ते कइधिट्ठत्ते काइं कइत्तणु पोसइ ॥  
 भरहाइणरिंदहं चरिउं अणिदहं पुष्पयंतु जइ घोसइ ॥ १९ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए  
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मपरमेट्ठिसुदंसणपुरिससीह-  
 महुकीलयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसट्ठिमो  
 परिच्छेओ समत्तो ॥ ५९ ॥

८ A °खर वियभियं. ९ AP जाओ. १० AP मुक्खत्ते.

17 मोक्खत्ते मूर्खत्वेन; कइत्तणु कवित्वम्. 18 पुष्पयंतु जइ पुष्पसमानदन्तो यतिः सर्वज्ञः.

दुक्खिपसरणिवारओ  
मोहमहारिउमारओ

जो दीणेषु किवारओ ॥  
जो सासयसिवमारओ ॥ धुवकं ॥

## 1

पंचमचक्कहरो णरईसो  
सोलहमो परमेट्टि पसण्णो  
तत्तसमुज्जलकंचणवण्णो  
केवलणाणमहामयमेहो  
भूसणभारविवज्जियकण्णो  
जो छणयंदकरावलिकंतो  
भत्तजणात्तिहरो भयवंतो  
फुल्लियकोमलपंकयवत्तो  
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो

जेण णिओ समणं ण रईसो ।  
सुत्तणिसेहियपेसिपसण्णो ।  
णायणिउत्तचउव्विहवण्णो । 5  
भव्वसमूहणिरुवियमेहो ।  
पंगणणच्चियखेयरकण्णो ।  
संतसहावो उज्झियकंतो ।  
जो गिरिधीरो णो भयवंतो ।  
धत्थकुत्तित्थ सुत्तित्थपवत्तो । 10  
बुद्धदयो परिरक्खियसत्तो ।

घत्ता—सो भवसायरतारओ  
णियसुकइत्तु पयासमि

पणविवि संतिभडारओ ॥  
तासु जि चरिउं समासमि ॥ १ ॥

## 2

जंवूदीवि भरहि विजयाचलु  
जहिं सुरणारिहि गेयपवीणहिं  
जहिं रिसिवसइ अछिचु अहंसं  
जहिं जं भूसिजइ सरककं

अहिणवचंदणचंपयपरिमलु ।  
सरुं सुम्मइ वज्जंतहि वीणहि ।  
जसु मेहल सेविजइ हंसं ।  
णिम्मलु तं वण्णिजइ कं कं ।

1 १ A छणइंद°.

2 १ A सुर. २ A सरु ककं.

1 1 b किवारओ कृपास्तः. 2 a °मारओ °हिंसक, b मारओ °लम्बीन. 3 a प-  
ईसो राजा, न तु कुम्भकारः चक्रपाणित्वात्, b समणं स्वचित्तं प्रति, रईसो काम. 4 b सुत्तित्थे णि  
पेसिपसण्णो सूत्रे निषिद्धा पेसी मांसं प्रसन्ना मय च येन. 5 b णायणिउत्तचउव्विहवण्णो  
स्थापिताश्वत्वारो वर्णा येन. 6 a महामयमेहो महाजलमेघः; b गिरिवियमेहो निरुपितो मेहो वरि-  
वेन. 7 b °खेयरकण्णो °खेयरकन्धः. 9 b णो भयवंतो न भयवुक्ता. 10 / धत्थकुत्तित्थ परमं  
कुत्तीर्णानि पत्न.

2 a गेयपवीणहिं गीतनतुराभि b मरु शब्दः. 3, 4 विविचरकण्णो विविचरकण्णो  
कृपिरिवारसिद्धमता सती अछिचु अरुत्त पापागेन. 1 a सरु ककं इत्येव

जहिं केवलि णिब्वाणपयं गउ  
फालिहसिलायलि जहिं मायंगहिं  
दाहिणसेढिहि तहि रहणेउरु  
तेत्थु जलणजडि णिवसइ खगवइ  
णियजसेण कंतहु चंदाहहु  
तासु सुहइदेवि पियराणी

घत्ता — ताहं विहिं मि सुय हूई  
वाउवेय सा एयहु

जहिं मणियैरहिं ण दिट्ठु पयंगउ । 5  
मुंहुं दिज्जइ जोइयणिययंगहिं ।  
पुरु णारियणरणियपयणेउरु ।  
विर्णओणयसिरु णारइ खगवइ ।  
तिलयणयरणाहहु चंदाहहु ।  
णं आसीस पुच्चपियराणी । 10

णं रइणाहहु दूई ॥  
दिण्णी दिणयरतेयहु ॥ २ ॥

## 3

सिहिजडिणामहु जयसिरिधामहु  
अक्ककित्ति सुउ जायउ केहउ  
अवर वि चंदसरीरइ णं पह  
देसि<sup>३</sup> सुरम्मइ पंकयणेत्तहु  
विजयाणुयहु महाहवपवलहु  
मुसुमूरियकंठीरवकंठहु  
जणित ताइ सिस्सु सिरिविजयंकउ  
उत्तरसेढिहि वसियंतेउरि

घत्ता—परिहावलयसुदुग्गमि  
पंचवण्णधयसोहणि

रूउंदांमहु णिज्जियकामहु ।  
खत्तधम्मु णरवेसें जेहउ ।  
उप्पण्णी सुय णाम लयंपह ।  
पोयणणयरि पयावइपुत्तहु ।  
कोड्डिसिलासंचालणधवलहु । 5  
दिण्णी पढमहु हरिहि तिविट्ठु ।  
विजयभहु कंतीइ ससंकउ ।  
पुरि सुरिदकंतारि सुगोउरि ।

रयणदीवणासियतमि ॥  
देवदेविमणमोहणि ॥ ३ ॥ 10

## 4

खयरु मेहवाहणु पीणत्थाणि  
जुइमाला णामे सुय वल्लह

णाम मेहमालिणि तहु पणइणि ।  
ढोइय रविकित्तिहि परदुल्लह ।

३ A मणियरहिं. ४ AP मह. ५ A णारीयण°. ६ A विणउण्यय°.

3 १ A सिहजडि°. २ A रूवोदामहु. ३ A देससुरम्मइ.

5 a णिब्वा णपय गउ निर्वाणपद प्राप्त, b पयंगउ सूर्यः. 6 b °णि ययंग हिं °निजाङ्गप्रतिविम्बैः, प्रतिगजशङ्कया इत्यर्थः. 9 a च दाहहु चन्द्रामनाम्नः. 10 b आ सी स पुच्च पिय राणी पूर्वपितृणामाशी-रिव. 12 ए यहु ज्वलनजटिनः.

3 3 a पह प्रभा. 5 a विजयाणुयहु विजयवलभद्रानुजस्य त्रिपुष्टस्य; b °धवलहु वृषभस्य धुरधरस्य. 6 b हरिहि कृष्णस्य. 7 a सिरिविजयंकउ श्रीविजयनामा. 8 a वसियंतेउरि वसितान्तः-पुरे, b सुरिदकंतारि सुरेन्द्रकान्तारनगरे.

4 2 a जुइमाला ज्योतिर्माला.

पग्निण्य पुंनु तेण तत्ति जायउ  
 धीय मुनाग् तारवरलोयण  
 तापं पौढत्तणि कयपणयहु  
 अमियतेउ भह्णारउ भाविउ  
 भुत्तउं तेण णिवरुं णियाणउं  
 सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्ते  
 विजपं तउं लडयउं आयणिवि  
 अमियतेउ णियगज्जि थवेप्पिणु  
 धक्कित्ति जडवइ गउ मोस्सवहु  
 विजयभहु सिरिविजयहु वच्छलु  
 पाहुडगमणागमणपवाहे

घत्ता—जा तावेकु सुसोत्तिउ  
 सत्तमि दिणि जं होसइ

अमियतेउ णामं विकखायउ ।  
 सुंदरि मुणिहि वि कामुक्कोयण ।  
 दिण्णी सिरिविजयहु ससतणयहु । 5  
 जुइवह सुय कण्हे परिणाविउ ।  
 पत्तउ काले अवहियठाणउ ।  
 कामभोयपरिभारविरत्ते ।  
 विनु फलत्तु वि तिणंसमु मण्णिवि ।  
 भत्तिइ तउ तिक्खयरु तवेप्पिणु । 10  
 मुक्कउ भवसंसरणहु दुक्खहु ।  
 जिह तिह अमियतेउ णिरु णेहलु ।  
 जाइ कालु वंधुहुं उच्छाहे ।

तहि आयउ णिमिस्सिउ ॥  
 तं सिरिविजयहु घोसइ ॥ ४ ॥ 15

5

अरिपुरवरणिवसावयवाहहु  
 तडयडंति सिरि द्रत्ति भयंकरि  
 विजयभहु पभणइ रे वंभण  
 जइ रायहु सिरि विज्जु पडेसइ  
 तं आयणिवि तणुविच्छायहु  
 पत्थिव महु मत्थइ मलमुक्कइ  
 मरणवयणवापं विद्वाणउ  
 को तुहुं कासु पासि केहि सिक्खिउ  
 अक्खइ सुत्तकंठु पुहईसहु

तडि णिवडेसइ पोयणणाहहु ।  
 सहसा दहविहप्राणैखयंकरि ।  
 णिइय सज्जणहिययणिसुंभण ।  
 तो तुहुं सिरि भणु किं णिवडेसइ ।  
 दियवरु आहासइ जुवरायहु । 5  
 णिवडिहिति णाणामाणिक्कइ ।  
 तहि अवसरि सइं पुच्छइ राणउ ।  
 केमं भविस्सु वप्प पइं लक्खिउ ।  
 हउं पव्वइयउ समउं हलीसहु ।

4 १ AP तेण पुनु. २ AP णिवहु. ३ A अवहियठाणउ, P अवहिठाणउ. ४ P वउ.  
 ५ AP तिणसउ. ६ AP णेमिस्सिउ.

5 १ A सिरि दुत्ति, P सिरि दत्ति. २ AP °पाण°. ३ AP °वायइ. ४ AP किर. ५ P  
 केम इहु भविस्सु.

4 b का मुक्कोयण कामोत्पादिका. 5 a ता ए पित्रा, b सिरि विजयहु त्रिपुत्रस्य, ससतणयहु भगिनी-  
 स्वयंप्रभापुत्रस्य. 6 b जुइवह ज्योतिःप्रभा. 7 b अवहियठाणउ सप्तमनरकः.

- 5 1 a अरीत्यादि शत्रुनगरनृपश्चापदव्याधस्य, b णिवडेसइ पतिष्यति. 2 a द्रत्ति शीघ्रम्.  
 6 a मलमुक्कइ निर्मलानि. 7 a °वा ए विद्वाणउ °वातेन शुष्कः. 9 a सुत्तकंठु ब्राह्मणः, b पव्वइ-  
 यउ पूर्वे दीक्षित पश्चान्नमः.



गउ विहरंतु देसि पुरु कुंडलु  
दूसहविसयपरीसहभग्गउ  
घत्ता—अंतरिक्खसुणिमित्तइं  
भउमु वि खेत्तपमाणउं

णं महिणारिहि परिहिउ कुंडलु । 10  
काइं मि जीवियवित्तिहि लग्गउ ।  
सिक्खिउ गहणक्खत्तइं ॥  
अंगउं अंगणिवाणउं ॥ ५ ॥

## 6

सरु गंभीरु इयरु उवलक्खिउ  
लक्खणाइं कमलाइं पसत्थइं  
वक्खाणमि जं जिह सिविणंतरु  
तं हउं सिक्खिवि अट्टपयारउं  
केसरिरहहु पुरोहिउ सुरगुरु  
वंदिवि आयउ पोमिणिखेडहु  
सोमसम्मु णियजणणीभायरु  
मेलविउ हउं तेण सँदुहियहि  
सँसुरयदिणु दब्बु भुंजंतहं  
हउं पर केवलु पढमि णिमित्तइं  
मामसमप्पिउ कंचणु णिट्ठिउ  
महुं कडियलि लग्गउं कोवीणउं  
घत्ता—घरिणिइ पसरियदुक्खइ  
भुंजहि भणिवि विसालइ

विंजणु पुणु तिलयाइउं सिक्खिउ ।  
जाणमि मूसयच्छिण्णं वत्थइं ।  
पावइ जेण सुहासुहु णरवरु ।  
इय एहउ णिमित्तु सवियारउं ।  
तासु वि सीसु विसारउ महुं गुरु । 5  
फलिहालंकियकुलिसकवाडहु ।  
मइं दिट्टु तहिं कयपरमायरु ।  
लोमंजणियहि सँसँहरमुहियहि ।  
दोहं मि गलिउ कालु कीलंतहं ।  
किं पि वि णिव ण समज्जमि वित्तइं । 10  
घरि दालिहु रउहु परिट्ठिउ ।  
तो वि ण भासमि कासु विदीणउं ।  
महुं उज्झंतहु भुक्खइ ॥  
घित्त वराडय थालइ ॥ ६ ॥

## 7

तुहुं महुं दइवे दिण्णउं वंभणु  
उज्जउ करहि ण भरहि कुहुवउं

एत्तिउं तेरउं अच्छइ कुलहणु ।  
लोयणजुयलु करिवि आयंवउं ।

६ AP °विसहपरोसह°.

6 १ A छिन्नइं; P छित्तइं. २ P सुदुहियहि. ३ A लोमंजणियहि. ४ AP ससयर° ५ A सुसुरय°.

7 १ AP उज्जमु.

13 a भउमु भूमौ भयम्, b अगउं अङ्गलक्षणं सामुद्रिकम्; अगणिवाणउं अङ्गे शरीरे निर्माण-  
स्यस्यचिरंतम्.

6 1 a इयरु तुच्छ. २ b मूसयच्छिण्णइ मूपक्खिन्नानि. 4 a अट्टपयारउं अष्टाङ्गम्,  
b मति तारउ विचारयुक्तम्. 5 a केसरिरहहु सिहरथत्य, b विमारउ विचारद. 9 a सुसुरय-  
णिणउ भग्गेण दत्तम्. 12 a कोवीणउ कोपीनं कट्ठिक्खम्. 14 वराडय कर्दिका.

7 1 b एत्तिउं अपर्दिनामात्. 2 a उज्जउ उज्जमम्; b आयवउ आनामम्.

एम जाम घरणीइ पवोल्लिउ  
अइणियडउं जि जलणु पज्जालिउ  
तक्खणि सिहिफुलिंगु उच्छलियउ  
हउं थिउ तं जोयंतु सइत्तउ  
उत्तरु महुं ण देसि जंपंतिहि  
जं इंगालउ पडिउ वराँलइ  
जं पइ पाणिण अहिंसिचिउ  
साँ जंपइ पइ बुद्धिहि भुल्लउ

घत्ता—डज्जउ णिद्धणजंपिउं  
परु जणवउ कि बुच्चइ

ता महुं हियवउ णं झसंसल्लिउ ।  
इंधइ इंधणु केण वि चालिउ ।  
आविवि जल्लयरि गरुयइ धिवियउं । 5  
ता कंतइ सिरि सल्लिलिं सित्तउ ।  
मँइ दर विहासिवि भासिउं पत्तिहि ।  
तं तडि पडिही पोयणपालइ ।  
तं जाणहि हउं रयणहिं अंचिउ ।  
चप्फल्लु झंखइ चंदगहिल्लउ । 10

महुरु वि कण्णहं विप्पिउं ॥  
कुलघरणिहिं वि ण रुच्चइ ॥ ७ ॥

## 8

इय चिंतंतु घरहु णीसरियउ  
णाम अमोहजीहु ओहँच्छमि  
जइ चुक्कइ नृव केवलिदिट्टउं  
सउणु भडारा सच्चउं सुच्चइ  
तं तहु भणिउ चित्ति संमाइउ  
भणइ सुबुद्धि कुलिसमंजूसहि  
वसहि णराहिव मज्झि समुइहु  
चवइ सुमइ पइसहि परदुच्चरि  
मइसायरु भासइ ण तसिज्जइ  
जं लिहियउं तं अग्गइ थक्कइ

घत्ता—सुरमहिहरथिरचित्तं  
धरियणराहिवमुहँ

हउं तुम्हारइ पुरि अवयरियउ ।  
पट्टणणाहहु पलउ णियच्छमि ।  
तो जाणहि चुक्कइ मँइ सिट्टउं ।  
कैरु पडियारु जेम तुहुं रुच्चइ ।  
रापं मंतिहि वयणु पलोइउ । 5  
आयससंखलवलयविहूसहि ।  
जेणुँवरसि सदेहविमइहु ।  
रुपयगिरिवरगुहविवरंतरि ।  
णरवइ जिणवरिंदु सुमरिज्जइ ।  
जमकरणहु मरणहु को चुक्कइ । 10

कयपहुरक्खपयत्तं ॥  
भासिउं बुद्धिसमुहँ ॥ ८ ॥

२ P झससिल्लिउ. २ AP पज्जालिउ. ४ AP गरुयइ जल्लयरि. ५ AP जं जोयंतु ६ A omits this foot. ७ P वराडइ. ८ P तडि पडिहीसी. ९ AP जाणमि. १० A सइ जंपइ; P स वि जंपइ. ११ P चप्पल्लु. १२ AP रुच्चइ.

8 १ AP जा अच्छमि. २ AP णिव. ३ AP करि. ४ AP जेणुवरहि.

4 b इंधइ चुल्लके. 5 b जल्लयरि कपर्दके वराटके. 6 a सइत्तउ सावधान. 8 a वरालइ कपर्दके. 10 पइ पतिः.

8 2 a अमोहजीहु अमोघजिह्वः, ओहँच्छमि एप तिष्ठामि b पलउ प्रलयं क्षयम्. 4 a सउणु निमित्तम्. 7 b सदेहविमइहु स्वदेहनाशात्. 9 a तसिज्जइ त्रस्यते. 11 a सुरमहि वरथिरचित्ते मेख्वत् स्थिरचित्तेन मन्त्रिणा, b कयपहुरक्खपयत्तं कृतप्रभुरक्षप्रयत्नेन. 12 a बुद्धिसमुहँ मत्तिसागरेण.

## 9

विवरि णिहिँत्तउ विच्चु पहाणउ  
गेहि जयंतीपंतिहिँ वेविइ  
अच्छइ तीहिँ वि संझहिँ ण्हायउ  
समयंतरपवियारणि जाए  
दुप्परिणामेँ मुउ कयमायउ  
णासावंसउ विंधिविँ साहिउ  
कालेँ जंतेँ जायउ दुब्बलु  
गलियसत्ति सो णिवडिवि थक्कउ  
को वि ण तिणुँ णउ पाणिउं दावइ  
जइयहुं हउं बलवंतउ हौंतउ  
तइयहुं सयल देँति महुं भोयणु  
कसमसत्ति दंतेहिँ दलेवउं

घत्ता—इय भरंतु माहिँदउ  
मरिवि भरेण सतामसु

सुणि महिवइ दिट्टुंतकहाणउ ।  
सीहउरइ सिरिरामासेविइ ।  
खलु दप्पिट्ठु सोमुँ परिवाइउ ।  
सो जिणदासेँ जिच्चु विवाए ।  
तहिँ जि माहिसु सँविसाणउ जायउ । 5  
लोएँ लोणु भरेपिणु वाहिउ ।  
एम जीउ भुंजइ दुक्कियफलु ।  
णायरणरणिउरुँवेँ मुक्कउ ।  
रूसिवि सेरिहु णियमणि भावइ ।  
जइयहुं बलइउ भारु वहंतउ । 10  
अज्ज ण केण वि किउ अवलोयणु ।  
पुरयणु मइं कइयहुं वि गिलिब्बउं ।

दुग्गइवेल्लीकंदउ ॥

हुउ तहिँ पिउवणि रक्खसु ॥ ९ ॥

## 10

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहूसिउ  
तेण सयलु काणणमृगुं खद्धउ  
चित्तइ सूयारउ णिरु णिक्किउ  
वणयरु णत्थि केत्थु पावामि पलु  
आणिउं घल्लियडिंभयजंगलु  
पइवि महाणससत्थणिओएँ

कुंभु णाम राणउ मंसासिउ ।  
हरिणु ससउ सारंगु ण लद्धउ ।  
विणु मासेण ण भुंजइ धुवुँ नृवु ।  
आहिँडवि मसाणधरणीयलु ।  
जीहालोलहं पेउ जि मंगलु । 5  
ढोइउ पइहि रसायणपाएँ ।

9 १ A णिहिँत्तहु. २ AP सोमु परिवायउ. ३ A हयमाणउ, K also records: हय-  
माणउ इति पाठान्तरे. ४ AP जायउ सुविसाणउ. ५ AP णासावंसेँ. ६ P विंधिवि. ७ A तणु. ८ P  
रुसइ. ९ A कसमसंतदंतेहिँ.

10 १ P ०मिगु. २ P धुउ णिउ.

9 2 a जयंतीपतिहिँ वेविइ ध्वजापंक्तिभिः कम्पिते. 3 b सोसु परिवाइउ सोमनामा परि-  
त्राजकः. 5 a कयमायउ कृतमाय. 6 a साहिउ वशीकृतः. 9 b सेरिहु महिपः. 10 b बलइउ  
गोण्या वेष्टितः, उभयपार्श्वलम्बितगोणिः. 13 a भरतु स्मरन्, माहिँदउ महिप. 14 b पिउवणि  
श्मशाने.

10 1 a अण्णायविहूसिउ अन्यायविभूषित, b मंसासिउ मासभक्षकः. 3 a सूयारउ  
सूयकारः. 5 a घल्लियडिंभयजंगलु निक्षिप्तपतितडिम्भमासम्. 6 a पइवि पक्त्वा, महाणससत्थ<sup>०</sup>  
मदानसशास्त्रम्, b रसायणपाएँ रसायनपाचकेन, सूदेन.

तूसिवि तहु मुहकमलु णिरिक्खिउ  
माणुसमासहु राउ पइद्धउ  
साहियरक्खसाविज्जाणियरउ  
तहिं अवसरि पुव्विल्लउ णिसियरु  
कुलिसकढिणणक्खेहिं वियारइ  
वाहिवि वाहिवि पुणु अवहेरिउ  
अप्पसयत्थियाइं तमवतंइं

घत्ता—पंडुरमंदिरपयडइ  
सयलु लोउ थिउ पइसिवि

चारु चारु पभणतें भक्खिउ ।  
अवरहि दिणि सूर्यारु जि खड्डउ ।  
णरवरिंदु हूयउ रयणियरउ ।  
तहु सरीरि संठिउ भीसणयरु । 10  
णासंतइं जंतइं पच्चारइ ।  
चंगउं हउं चिरु भुक्खइ मारिउ ।  
एमहि कहि महुं जाहु जियंतइं ।

ता पट्टणि कारयडइ ॥  
तहु रयणियरहु णासिवि ॥ १० ॥ 15

## 11

ता सीहउरु पमेल्लिवि णिग्गउ  
घडहड त्ति णरलोहिउ घोट्टइ  
चरयंरंत तणुचम्मइं फाडइ  
रायणिसाडचरणजुयलग्गइ  
चरुयसयडु मणुए संजुत्तउ  
जइयहुं तं आयंउ ण णिरिक्खहि  
कुंभकारकडु पुरवरु घुट्टउं  
तहिं जि चंडकोसिउ दियसारउ  
पउरणिवद्धउ णिरु दुव्वारउ  
विप्पेण वि अणंउवरि णिवेसिउ  
भूयहिं चालिउ पासि णिसीहहु

घत्ता—दंडपाणि अवराइउ  
ढंढरेहिं महिरंधइ

णिवरक्खसु जणपच्छइ लग्गउ ।  
कडयंउ त्ति हड्डइं दलवट्टइ ।  
णाइं णिवद्धेणाइं अच्छोडइ ।  
ता बुत्तउ पयाइ भयभग्गइ ।  
दियहि दियहि लइ तुज्जु णिउत्तउ । 5  
तइयहुं तुहुं पुणु सब्बइं भक्खहि ।  
णिच्चमेव दिज्जइ उवइट्टउं ।  
सोमसिरीमणयणपियारउ ।  
अण्णाहि दिणि तहु आयहु वारउ ।  
पुत्तु मंडकोसिउ लहु पेसिउ । 10  
ललललंतमुहणिग्गयजीहहु ।

रक्खसु संमुहुं धाइउ ॥  
बहुंउव वित्तु तमंधइ ॥ ११ ॥

३ AP रूसिवि. ४ AP सूर्यार वि.

11 इ AP घडयडत्ति. २ AP कडयडत्ति. ३ AP चरयरत्ति. ४ AP णिवधणाइं. ५ AP आयउ तं. ६ P चंडकासिउ. ७ AT अणु उवरि. ८ P ढंढरेहिं. ९ AP बडुयउ.

9 b रय णि यरउ रजनीचरो राक्षस.. 13 a अप्पसयत्थियाइ स्वार्थिन. 14 b कारयडइ कार-  
कटे नगरे.

11 2 b हड्डइ अस्थीनि. 3 b णिवद्धणाइ शिराबन्धनानि, अच्छोडइ त्रोटयति. 4 a  
रायणिसाड राजा चासौ निशाटो राक्षसश्च 5 a चरुयसयडु नैवेद्यगकटम्, मणुए संजुत्तं मनु-  
ष्येण युक्तम्. 7 a कुंभकारकडु नामेदम्. 8 a दियसारउ द्विजप्रधान. 10 a अणउवरि अनः  
शकट, तस्योपरि. 12 a अवराइउ अपराजितनामा. 13 a ढंढरेहिं अन्यराक्षसै.

## 12

तहिं अच्छिउ अजयरु तें गिलियउ  
तेण देव तुहुं विवरि ण धिंप्पहि  
पभणइ मइसायरु महि दिज्जइ  
ता अहिसिंचिवि मेइणिसासणि  
सो किकरजणेण पणविज्जइ  
जीय देव आणसु भणिज्जइ  
गयणविलंबमाणधयमालउ

झायइ अंधुवु असरणु तिहुवणु  
ता सत्तमउ दियहु संपत्तउ  
असणि पडिय तहु जक्खहु उप्परि  
पउमिणिखेहु गामसयसहियउं

घत्ता—अणु वि रयणिहिं संचिउ  
किउ वंभणु परिपुण्णउ

पुणु सो वलिवि ण जणणिहि मिलियउ ।  
एत्थु जि जीवोवाउ वियप्पहि ।  
पोयणणाहु अवरु इह किज्जइ ।  
कंचणजक्खु णिहिउ सिंहासणि ।  
सो चलचामरेहि विज्जिज्जइ । 5  
तासु पुरउ णच्चिज्जइ गिज्जइ ।  
णरवइ गंपि पइहु जिणालउ ।

जिणपडिंविणहियणिचलमणु ।  
जो जणेण पोयणवइ उत्तउ ।  
णेमित्तियहु दिण्ण रहं हरि करि । 10  
णंदणवणमारुमहिमहियउं ।

मोत्तियदामहिं अंचिउ ॥  
पुणु पहु रज्जि णिसण्णउ ॥ १२ ॥

## 13

चंदकुंदणिहइहियहि खीरहिं  
अट्टावयकलसहिं जिणुं ण्हाणइ  
अप्पाणहु कुलकुवलयचंदं  
कालें जंतें तहिं णिवसंतें  
जणणिसाणं मंतु लहेप्पिणु  
सुज्जतेय विज्जाहरसामिणि  
जोव्वणभावजणियसिंजारइ  
गउ णहेण वणि दुमदलणीलइ  
तावेत्तहि विहरणअणुराइउ

घत्ता—हित्तमहारिउछाणं  
आसुरियहि उप्पण्णउ

गंगासिंधुमहासरिणीरहि ।  
करिवि विइण्णइं दीणहं दाणइं ।  
विहिय संति सिरिविजयणरिंदें ।  
पोयणपुरवरु परिपालंतें ।  
पंचपरमपरमेट्टि णवेप्पिणु । 5  
साहिय विज्ज णहंगणगामिणि ।  
एक्कहिं वासरि समउं सुतारइ ।  
थिउ कामिणिकिलिक्किंचियकीलइ ।  
भांमरिविज्ज लहेवि पराइउ ।

इंदासणि खगराणं ॥ 10  
लच्छिहि गुणसंपुण्णउ ॥ १३ ॥

12 १ धेप्पहि; P वेप्पिहि. २ AP अवर वर. ३ AP सीहासणि. ४ P वज्जिज्जइ. ५ AP अट्टउ. ६ AP रह करि हरि. ७ AP महमहियउं. ८ AP रयणहिं.

13 १ AP °महाणइणीरहिं. २ A जिणण्हवणइं. ३ AP भावरि°.

12 1 a अच्छिउ स्थित., b वलिवि पश्चाद्गत्वा. 2 b जीवोवाउ जीवितव्योपायः 11 a पउमिणिखेहु पञ्चिनिखेटकं नाम. 12 a रयणिहिं रत्नैः. 13 a परिपुण्णउ परिपूर्णमनोरथः.

13 6 b णहंगणगामिणि आकाशगामिनी. 8 b °किलिक्किंचियकीलइ हास्यरदनयुक्त-  
क्रीट्या. 9 b भांमरिविज्ज भ्रमररूपा विद्या. 10 a हित्तमहारिउछाणं क्षित्तरिपुमाहात्म्येन. 11 a आसुरियहि असुरलक्ष्या.

14

चमरचंचपुरवइ रइराइउ  
तेणासुररिउसुयसीमंतिणि  
मोहिउ णावइ मोहणवेल्लिइ  
मायाहरिणु तेण दंक्खालिउ  
रूवु धरिवि वरइत्तहु केरउ  
अप्पणु झ त्ति जारु तहिं पत्तउ  
देव मृगाइं धरंतु ण लज्जहि  
कीलणु तुज्जु तासु भयभंगउं  
तं णिसुणिवि पररमणें भासिउं  
हउं परियत्तउ एण जि करुणें  
एम भणेवि चडाविय सुरहरि  
णहि जंतें दाविउं ससररिउं  
मुक्क धाह हा णाह भणंतिइ

असणिघोसु णामेण पराइउ ।  
दिइ सुतार हारभूसियथणि ।  
उरि विद्धउ मयरद्वयभल्लिइ ।  
पइ सइसामीवहु संचालिउ ।  
अज्झाहियआणंदजणेरउ । 5  
अमुणंतिइ धरिणीइ पवुत्तउ ।  
अज्ज वि चालत्तणु पडिवज्जहि ।  
कंपइ मरणविसंढुल्लु अंगउं ।  
सुंदरि चारु चारु उवएसिउं ।  
आउ जाहुं पुरवर किं हरिणें । 10  
रेहइ चंदरेहें णं जलहरि ।  
मुद्धइ तं जोइवि विवरेरउ ।  
करजुयलेण सीसु पहणंतिइ ।

घत्ता—पुणु परंपुरिसु ण जोइउ एण णाहु विच्छोइउ ॥  
सुघडिउं विहि विहडावइ एवहि को मेलावइ ॥ १४ ॥ 15

15

एम रुयंति तेण सा णिज्जइ  
एत्तहि पवणु व वेयपयट्टउ  
मत्तमयूरवंदकयतंडवु  
पररमणीहरणेण णिवेसिय  
लोलइ विज्ज सुतारारूवें  
उत्तउं भत्तारें किं जायउं  
अक्खइ मायाविणि हउं णट्ठी

पिययमविरहें तिलु तिलु द्विज्जइ ।  
गउ मृगुं पुहइणाहु पल्लइउ ।  
पडिआयउ सुंदरिलयमंडउ ।  
रयणसिलायलि तेत्थु जि दरिसिय ।  
जाणिवि गहिय कंत जमदूपं । 5  
दीसइ वयणैकमलु विच्छायउं ।  
कुक्कुडफणिणा करयलि द्रट्ठी ।

14 १ A दिक्खालिउ. ३ AP धरिणीइ पइ बुत्तउ. ३ AP मिगाइ. ४ AP चदलेह.  
५ AP पुसु.

15 १ AP मिगु. २ A कमलवयणु, P वयणु कमलु.

14 1 a रइराइउ सुरतराजितः. 4 b पइ श्रीविजयः, सइसामीवहु सतीसामीप्यात्. 5 a  
वरइत्तहु श्रीविजयस्य, b अज्झा हियं सुताराहृदयम्, अज्झा इति सुताराया द्वितीयं नाम. 9 a पर-  
रमणें जारेण. 10 a करुणें करुणया. 15 a विहडावइ विघट्टयति.

15 2 a वेयपयट्टउ वेगेन प्रवृत्तः. 5 a विज्ज विद्या; b कंत कान्ता, जमदूपं मृत्युना.

विसरिसविसरसवियणगुरुक्की  
चंदणवंदणइंधंणु पुंजिवि  
घत्ता—पियविओयआयंपिउ  
संकप्पहु जि वसंगउ

इय भणंति पाणेहिं विमुक्की ।  
सूरकंतमणिजलणु पउंजिवि ।  
परिसेसियइहपरहिउ ॥ 10  
णरवइ सलहि वलग्गउ ॥ १५ ॥

## 16

ता संपत्त विण्णि विज्जाहर  
तेहिं तिविट्ठपुत्तु ओलक्खिउ  
एक्कं बुज्झियमायामग्गे  
पायड करिवि नृवंहु दक्खालिय  
महिवइ विंभइवसु अवलोइवि  
जंबुद्दीवि भरहखेत्तंतरि  
दाहिणसेदिहि जोइप्पहपुरि  
हउं तहिं पहु णामे संभिण्णउ  
संजय पणइणि सुउ दीवयसिहु  
जणण तणयं ए अम्हइं सुंदर  
चिरु परिभमिवि रमिवि पिउ बोल्लिवि  
पइवय परमेसरि अहिमाणिणि

सयणाविहुरहर असिवरफरकर ।  
णिज्जाणि वणि मरंतु णोवेक्खिउ ।  
ताडिय झ त्ति वामपायग्गे ।  
विज्ज पणट्टु भीयवेयालिय ।  
खयरं भणिउ णिसुणि मणु ढोइवि । 5  
चारुधोयकलहोयमहीहरि ।  
उज्जाणंतथंतकीलासुरि ।  
अमियतेयंकिंकरु माणुण्णउ ।  
महुं ओहच्छइ णं कंतिइ विहु ।  
अवलोयंति सिंहिरिदरिंदर । 10  
गयणुल्ललिय जाम वणु मेल्लिवि ।  
ता रुयंति णहि णिसुणिय माणिणि ।

घत्ता—णिरु उक्कंठिय अच्छमि  
हा सिरिविजय पधावहि

वल्लह पइं कहि पेच्छमि ॥  
कुढि लग्गहि म चिरावहि ॥ १६ ॥

## 17

हा हा अमियतेय दुंदुहिरव  
हा हा माम तिविट्ठ महाबल

इहु अवसरु तुहु वट्टइ वंधव ।  
पइं जीवंति णंति मइं कि खल ।

३ A °इंधण. ४ A °आयामिउ.

36 १ AP ण उवेक्खिउ. २ P णिवहु. ३ AP विंभयवसु. ४ P °तेउ. ५ A तणय वे  
यम्हइं. ६ AP कह पइं.

17 १ AP किं मइ.

8 a °वियण° वेदना. 9 °वंदण° रक्तचन्दनम्, सूरकंतमणिजलणु सूर्यकान्तमणेरग्नि'. 10 a °वि-  
ओयआयंपिउ वियोगेन आकम्पितः, b परिसेसिय° त्यक्तम्. 11 b सलहि काष्ठभक्षणार्थं चितायाम्,  
वलग्गउ आरूढः.

16 1 b सयणविहुरहर स्वजनकष्टहरी. 2 b णोवेक्खिउ न निरादत्त.. 4 a पायड  
करिवि विद्यां प्रकटीकृत्य. 5 a विभइवसु विस्मयवद्वाः; b मणु ढोइवि चित्तं सावधानं कृत्वा. 6 b  
°कलहोय° कलधौत रूप्यम्. 10 ए तौ आवाम्. 14 b कुढि पृष्ठे.

हा सासुइ देवर साहारहि  
 हा हलहर पइं अप्पउं तारिउ  
 हा हे घोर जार जैगि सारहु  
 जइ वि मइंणु तुहुं तो वि ण इच्छमि  
 णिसुणिवि णियसांमिहि णामक्खरु  
 भणिउ वइरि भडवापं भज्जहि  
 अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि  
 घत्ता—ता देवीइ पवुत्तउं  
 काणणि कामसमाणउ

मइं रोवंति काइं ण णिवारहि ।  
 महं लगंतु कुपुरिसु णं णिवारिउ ।  
 मइं लहु णेहि पासि भत्तारहु । 5  
 पइं हउं जणणसरिच्छु णियच्छमि ।  
 अम्हइं धाइय गुणि संधिवि सरु ।  
 अवरकलत्तु हरंतु ण लज्जहि ।  
 दूसह सिरिविजयहु बाणावलि ।  
 एव्वहिं भिडहुं ण जुत्तउं ॥ 10  
 जाइवि जोइवि राणउ ॥ १७ ॥

## 18

लहु महं तणिय वत्त तहु अक्खहु  
 तं परिहच्छियं पणवियमत्था  
 ए अम्हइं आइय वेणिण वि जण  
 एम भणिवि दीवयसिहु पेसिउ  
 जिह हरिसुउ गउ मयणिदेसैं  
 जिह वेयालियविज्जइ विलसिउ  
 जइ ण वि सिट्ठउं अण्णं केण वि  
 तो वि सव्वु सन्भावहु आणिउं  
 अम्हहं घरि जायइं दुणिमित्तइं  
 पणइणिहरणु जाउं पियणीसहु  
 परं कि कुसलु पडीवउं दीसइ  
 घत्ता—इय जिह विप्पहिं सिट्ठउं  
 सुयरिवि सुयहु सर्याणउं

जीउ जंतु णरणाहहु रक्खहु ।  
 चंडकंडकोदंडविहत्था ।  
 तुहुं मा मरु रामारंजियमण ।  
 तें पोयणपुरि वइयरु भासिउ ।  
 जिह णिय धरिणि चमरचंचेसैं । 5  
 ता पहुजणणिहि वयणु विणीसिउ ।  
 जयगुत्तं अमोहजीहेण वि ।  
 सपरोक्खु वि पच्चक्खु वि जाणिउं ।  
 पडियइं णहयलाउ णक्खत्तइं ।  
 जायउं विग्घु किं पि धरणीसहु । 10  
 को वि कुसलवत्तिउ आवेसइ ।  
 तिह तुहुं आयंउ दिट्ठउं ॥  
 देविइ दिण्णु पयाणउं ॥ १८ ॥

## 19

छत्तछण्णरविकिरणविलासैं  
 दिट्ठु पुत्तु आलिगिउ मायइ

गय तं वणु ससेण्ण आयासैं ।  
 भूमिभाउ णं पाउसछायइ ।

२ A ण वारिउ. ३ AP जगसारहु. ४ AP मयणु. ५ AP णियसामियणाक्खरु.

18 १ AP परिहच्छिवि. २ A जाम. ३ AP आइउ. ४ A कहाणउं.

17 3 a साहारहि आश्वासनं देहि. 6 a मइणु मदन. 10 b भिडहुं युद्धं कर्तुम्.

18 2 a तं परिहच्छियं ता परिपृच्छिय. 4 b तें दीपशिखेन. 5 a मयणिदेसैं मृगशृङ्गेन,  
 णिय नीता, चमरचंचेसैं चमरचंचापुराधीशेन. 10 a पियणीसहु प्रियाः त्रीणा राजानो यस्य. 13 a  
 सुयरिवि स्मृत्वा, सयाणउ यानवाहनयुक्तम्; देविइ स्वयंप्रभया.

19 1 b ससेण्ण सैन्येन सह गय गता.



पयहिं णवंतु विवाणि चडाविउ  
 पहु रहणेउरु णियउ सहरिसहिं  
 कहिउ सो वि सवडंमुहुं णिग्गउ  
 पायवडणु घरपाहुणयत्तणु  
 मंतिउ मंतु कहिउ मंतीसहिं  
 णामं मरीइ वइरिजलसोसहु  
 तेण वि णारीरयणु ण दिण्णउं  
 घत्ता—आइय दूय सुहित्तै  
 हरिकुलहरपायारहु

वीयउ सिसु पोयणु पट्टाविउ ।  
 अमियतेयरायहु चरपुरिसहिं ।  
 मिलियउ णं दिसदंतिहि दिग्गउ । 5  
 किउ महल्लपरिवाडिपवत्तणु ।  
 अमियतेयसिरिविजयमहीसहिं ।  
 पेसिउ दूयउ असणिणिघोसहु ।  
 भंडणु भंडखंडणु पडिवण्णउं ।  
 जलणजडीसुयपुत्तै ॥ 10  
 तहु सिरिविजयकुमारहु ॥ १९ ॥

## 20

दिण्ण विज्ज वीरियपोरिसखाणि  
 ओसारियखलखेयरसत्थहं  
 भीममहाहवभरधुरजुत्तहं  
 बहिणीवइदिण्णाइं लपप्पिणु  
 चमरचंचपुरवइहि ससंदणु  
 णियसोहाणिज्जियाहिमवंतहु  
 सहसरस्सिपुत्तेण समेयउ  
 तहि आराहियमृगंसवग्गइ  
 णं णिवइहि महिमंडलरिद्धी  
 एत्तहि असणिघोससिरिविजयहं  
 णियसुय असणिसुघोसें पेसिय  
 सहसघोस सयघोस सुघोस वि  
 जं गय ते पविहंडियमाणा  
 घत्ता—णिर्यवि सुताराहारउ  
 छाइउ सरवरपंतिहिं

पहरंणवाराणि वंधविमोयणि ।  
 रस्सिसुवेयाइयहं समत्थहं ।  
 पंचसयाइं सहायइं पुत्तहं ।  
 विज्जादेवयाउ सुमरेप्पिणु ।  
 उक्खंधे गउ केसवणंदणु । 5  
 अमियतेउ सिहरिहि हिरिवंतहु ।  
 गउ मरुवेणं मारुयवेयउ ।  
 संजयंतपडिमापायग्गइ ।  
 विज्ज महाजालिणि तहु सिद्धी ।  
 जायउ संगरु सधयहं सगयहं । 10  
 जे ते जुज्झिवि दिसिहिं पणासिय ।  
 मेहघोस अरिघोस असेस वि ।  
 तं मेळंतु वाण फाणिमाणा ।  
 सिरिविजयं दुब्बारउ ॥ 15  
 णाइ उवइउ संतिहिं ॥ २० ॥

19 १ P पट्टविउ. २ AP आइए दूए.

20 १ AP परहणं २ A रस्सिसुवेवाइयह. ३ A ओखंधि, P उद्धद्वे. ४ AP हिरिमंतहु.  
 ५ A मरुमगें, T मरुवेगे आकाशेन. ६ P °सिग°. ७ A मेळति. ८ AP णिएवि.

३ a वि वा णि विमाने, b वी यउ सि सु विजयभद्र.. 5 a सो वि अमिततेजा अपि. 6 a महल्लपरि-  
 वा डि प वत्तणु महत्तराणा वृद्धाना परिपाटिकाप्रवर्तनम् . 8 a मरीइ मरीचिर्नास. 10 सु हि त्तै सुहदत्वेन;  
 b जलणजडी सुयपुत्तै अर्ककीर्तिपुत्रेण. 11 a °कुलहरपायारहु °कुलग्रहप्राकारस्य.

20 5 a उक्खंधे अश्वमारुह. 7 b मरुवेणं आकाशमार्गेण. 13 a जं यावत्, b त तावत्.  
 14 a णियवि दट्ठा, सुताराहारउ अशनिघोप..

## 21

आसुरियहि लच्छिहि सुउ धायउ  
 धाराजियखयहुयवहजालें  
 रिउ भामरिविज्जामाहपे  
 हय बेणिण वि चत्तारि समुग्गय  
 अट्ट णिहय सोलह संजाया  
 बत्तीस वि दोखंडिय जामहिं  
 चउसट्टि वि विहलिय सरूवउ  
 एम दुवाडिइ वडिउ दुद्धरु  
 जलि थलि दसदिसिवहि णहपंगाणि  
 वेडिउ पोयणणाहु खगिंदहिं

घत्ता—जरफेरवरवभीमइ  
 पत्तउ सेणसणाहउ

णाइ कयंतें दंडु णिवेइउ ।  
 हउ विजपं पइसिवि करवालें ।  
 विहिं रूवहिं उत्थरइ सदपे ।  
 ते वि दुहाइय अट्ट समुग्गयें ।  
 सोलह तयं बत्तीस समाया । 5  
 रिउ चउसट्टि पराइय तामहिं ।  
 अट्टावीसउ सउ संभूयउ ।  
 हणु भणंतु असिवसुणंदयकरु ।  
 दीसइ असणिघोसु समरंगाणि ।  
 णं विञ्जइरि महाघणविदहिं । 10

ताहि तेहइ संगामइ ॥  
 रहणेउरपुरणाहउ ॥ २१ ॥

## 22

राउ सयंपहपुत्तु खलत्तें  
 तांव आमियतेएण पवुत्तउं  
 परकलत्तु किं आणिउ गेहहु  
 एम भणेवि तेण लहु मुक्की  
 पवणुद्धयच्चिंधु सविमाणउ  
 जहि णाहेयहु सीमागिरिवरु  
 परणारीहरु भयवसु तट्टउ  
 सिरिविजयाइय चोइयगयघउ  
 माणखंभअवल्लोयैणभावे  
 केवलणाणसमुज्जलदिट्टिहि

घत्ता—जसधवल्लियछणयंदहु  
 विद्धंसियवस्मीसरु

जाम ण हम्मइ तेहि अखत्तें ।  
 असणिघोस कि कियउं अजुत्तउं ।  
 हक्कारिय भवित्ति णियदेहहु ।  
 विज्ज महाजालणि राणि दुक्की ।  
 तं पेक्खिवि सहस त्ति पलाणउ । 5  
 विजउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरु ।  
 समवसरणि ताहिं सरणु पइट्टउ ।  
 अणुमग्गें तहु लग्ग महाभउ ।  
 मुक्का पत्थिव मच्छरभावे ।  
 मउलियकर णवंति परमेट्टिहि । 10

पुच्छंतहु खयरिंदहु ॥  
 अक्खइ धम्मु रिसीसरु ॥ २२ ॥

21 १ A समागय°, २ AP हय. ३ A जरफेक्कावभीमइ. ४ P °णाहु.

22 AP महाजालिणि णहि दुक्की. २ AP सरणि. ३ AP °लोयणगावे.

21 2 b धाराजिय धारया जित., b विजपं श्रीविजयेन, पइसिवि सग्राममध्ये प्रविशत.  
 8 a दुवडिइ द्विवृद्ध्या. 11 जरफेरव° वृद्धशृगाल..

22 1 b असत्तें अन्यायेन. 3 b भवित्ति मरणम्. 5 b पलाणउ नष्ट. 6 a णारेइइ  
 श्रीवृषभनाथस्य. 7 a तट्टउ घस्त.

## 23

भणइ भडारउ रोसु ण किज्जइ  
 रोसवंतु णरु कह व ण रुच्चइ  
 रोसु करइ वहुआवइसंकहु  
 रोसु कयंतु व कं णउ तासइ  
 जो रोसेण परव्वसु अच्छइ  
 माणपमत्तु ण काइं वि मण्णइ  
 माणथेद्दु बंधुहिं वि ण भावइ  
 मायाभावे जो चिम्मकइ  
 णउ वीससइ को वि णिधम्महु  
 मायारउ तिरिक्खु उप्पज्जइ  
 लोहें जणु चामीयरु संचइ  
 खाइ ण देइ धिवइ धणु खोणिहि  
 घत्ता—एयहं चउहुं कसायहं  
 जो अप्पाणउं रक्खइ

रोसें णरयविवरि णिवडिज्जइ ।  
 जइ वि सुवल्लहु तो वि पमुच्चइ ।  
 रोसें पुरिसु थाइ णं मकंहु ।  
 अत्थु धम्मु कामु वि णिण्णासइ ।  
 तहु मुहकमलु ण लच्छि णियच्छइ । 5  
 माणे गुरु देव वि अवगण्णइ ।  
 णिरे दुणिरिक्खइं दुक्खइं पावइ ।  
 तहु संमुहुउ ण सज्जणु दुक्खइ ।  
 णिच्चपउंजियमायाकम्महु ।  
 लोहें णियजणणी वि विरज्जइ । 10  
 लोहें अप्पणु अप्पउं वंचइ ।  
 लुद्धउ णिवडइ दुग्गयजोणिहि ।  
 दावियणरयणिवायहं ॥  
 मोक्खसोक्खु सो चक्खइ ॥ २३ ॥

## 24

मिच्छत्ते जणवउ छाइज्जइ  
 मिच्छत्ते विडगुरुपय पुज्जइ  
 मयणमत्तमहिलामहुसेवहं  
 मिच्छत्तेण जीउ मोहिज्जइ  
 मिच्छत्तेण असंजमु वड्ढइ  
 पोसइ पंचिंदियइं दुरासइं  
 परहणपरकलत्तअणुवंधे  
 तहिं अवसरि आसुरियइ लच्छिइ  
 अमियतेयसिरिविजयहं ढोइय  
 किउ खंतव्वचित्तु णीसल्लउं

हिंसइ सग्गमणु पडिवज्जइ ।  
 मिच्छत्ते जिणणाहु विवज्जइ ।  
 पायहिं पडइ रउइहं देवहं ।  
 भवविन्भामि भामिज्जइ छिज्जइ । 5  
 जीवहं जीविउ मंडइ कहुइ ।  
 पावइ माणउ विहरसहासइं ।  
 वज्जइ एम जीउ रयवंधे ।  
 आणिवि सा सुतार धवलच्छिइ ।  
 भायरपइहि सणेहें जोइय ।  
 भव्वेहं खम मंडणउ पहिल्लउं । 10

23 १ AP कह वि. २ A मंकहु. ३ A माणवंतु. ४ AP णर. ५ AP णिद्धम्महु. ६ P विरइज्जइ.

24 १ AP गवणु. २ A मडुइ; P मंडुइ. ३ P खंतव्वु चित्तु. ४ A सव्वहं.

23 5 b ण णियच्छइ नेक्षते. 7 a माणथ दु मानेन स्तव्वः. 12 a खोणिहि भूमौ. 13 b णि वा य हं निपातानाम्. 14 b चक्खइ आस्वादयति.

24 5 b मडइ बलात्कारेण. 6 a दुरासइं दुष्टाश्वान्.

तं रिउजणणिहि वयणु समिच्छिउ

घत्ता—दुहमपावखयंकरु  
उग्गयसंसयसंकहु

पुणु रहणेउरवइणा पुच्छिउ ।

कहइ णरोहंसुहंकरु ॥  
विजय अमियतेयंकहु ॥ २४ ॥

25

जंवूदीवि भरहवरिसंतरि  
अचलगामि धरणीजहु वंभणु  
तहु इंदग्गिभूइसुय सुहयर  
कविल्लु णामु दासेरु अलक्खिउ  
कुलविद्धंसणु जाणिउ विष्णं  
गउ रयणउरहु भल्लउं भाविउं  
जंचूघरिणिहि हूई सुंदरि  
कुलणिंदिउं करंतु गुणवंतइ

घत्ता—णवर धणोहं चत्तउ  
दालिहं संतत्तउ

मागहविसइ सुसासणिरंतरि ।

अग्गिलवंभणिउररुहसुंभणु ।

सुयसत्थत्थमहत्थ मणोहर ।

वेयचउक्कु सडंगइं सिंक्खिउ ।

दुज्जसभीपं धाडिउ वंष्णं ।

सच्चयदियवरेण परिणाविउ ।

सच्चभौम णामेण किसोयरि ।

वरु कुलहीणु वियाणिउ कंतइ ।

आर्येणिवि सुयवत्तउ ॥

तहिं जि ताउ संपत्तउ ॥ २५ ॥

5

10

26

सपराहवभीएण णमंसिउ  
तहु पयजुवल्लु तेण ओलाग्गिउं  
कुलदूसणरुहणीसासुण्हइ  
कहइ जणणु पियवयणहिं तुट्टउ  
कंतु तुहारउ होइ ण दियवरु  
तहिं सिंरिसेणु राउ णरासिरमणि  
वीय अणिदियं काइं भणिज्जइ

कविल्लं पुरयणमाज्झि पसंसिउ ।

दिण्णउं कंचणु जेत्तिउं मग्गिउं ।

धणु ढोइवि आउच्छिउ सुण्हइ ।

महुं घरि दासीसुउ णिक्किट्टउ ।

पंउं भणेप्पिणु गउ सो णियघरु ।

पढम सीहणंदिय तहु पणइणि ।

जाहि रइ वि दासि व्व गणिज्जइ ।

५ A णराह सुहकरु.

25 १ A दणं. २ AP सच्चह°. ३ P सच्चसामि. ३ AP आयणिय.

26 १ AP एम. २ P अणदिय.

11 a वयणु वचनम्. 13 a उ ग य स स य स क हु उ द्र त स दे ह की ल क स्य, b वि ज य वि न रो जि न .

25 1 b सु सा स° सु धा न्य म्. 2 b °उ र र ह सु भ णु °स न म र्द क . 1 a दा ने र ड र्मा पु त्र . अ ल क्ख उ प्र च्छ न्न त या, न ज्ञा त क दा गि धि त. 6 b स च य° स त्थ र्ना दा. 8 a कु ल णि दि उं कु ल नि न्दि तं वि क र्म र ज त्त्व ला ग म न म्. 9 b सु य व त्त उ पु त्त स्य वार्ता म्. 10 b ता उ ना न .

26 1 a स प रा ह व भि ए ण त्त्व मा न भ ज्ज भो ते न. 3 a कु ल हे त्ता दि वि ट्ठ र्म ष भ गे दि क्ष म्, उ णो य स्य, b सु ण् ह पु त्त भ र्थ या.

ताहं विहिं मि कंतिइ सुच्छाया  
कुललंछणउं धरियमजायहु

घत्ता—तेण कविलु अवगणिणउ  
कक्कसदंडं ताडिउ

इंदउविंदसेण सुय जाया ।  
जंवूधूयइ साहिउं रायहु ।

जणि चंडालु व मणिणउ ॥  
पुरवराउ णिद्धाडिउ ॥ २६ ॥

10

## 27

सच्चंभाम सइ सुद्ध हवेप्पिणु  
सदंम अमियंगइ णामारिंजय  
सिरिसेणं आहारु पयच्छिउ  
चउदहमलपरिमुक्कु अकुच्छिउ  
भायणघरणाइयउ सुधम्मउ  
चउहुं वि सुकयवीउ लइ लद्धउं  
संमररंगदलवट्टियपरवल्लु  
सिरिमइदेविहि उयरुण्णणी  
दुज्जणमणपइसारियसल्लहु  
समउं बहुल्लियाइ गयगामिणि  
साणंतमइ उविंदहु रत्ती

घत्ता—णंदणवणि णिवसंतहिं  
कारणि ताहि अजुत्तउं

थियं उवसमु हियउल्लइ लेप्पिणु ।  
आइय भिक्खहि चारण संजय ।  
दिज्जंतउ धरिणीहिं समिच्छिउ ।  
रिसिहिं पाणिवत्तेण पडिच्छिउ ।  
सच्चयतणयइ किउ सुहकम्मउ । 5  
भोयभूमिपरमाउ णिवद्धउं ।  
कोसंवीणयरीसु महावल्लु ।  
तं सिरिकंत णाम सुय दिण्णी ।  
सिरिसेणंगरुहहु पुरिमिल्लहु ।  
अवर पवर संपेसिय कामिणि । 10  
मोहं मयरोहेण व मत्ती ।

दोसु रोसु चिंतंतहिं ॥  
विहिं मि जुज्जु आढत्तउं ॥ २७ ॥

## 28

धाइय पहरणपाणि ससंदण  
कह व णिवारहुं वे वि ण सक्किउ  
रज्जु सणेहु सदेहु पमाइवि  
रायाणीयउ तेण जि मग्गं

सिरिसेणं अवलोइय णंदण ।  
णरवइ दुमिउ चित्ति चमक्किउ ।  
विसंसेलिधगंधु अग्घाइवि ।  
दियधीय वि तं तिह णासग्गं ।

३ P साहियउं. ४ A तेण वि खल्लु.

27 १ AP सच्चभाव. २ AP लएप्पिणु. ३ A सदणे but records a *p*: सवणि वा.  
४ AP अमियगय. ५ AP समरणं. ६ AP पुव्विल्लहु.

28 १ १ P सिल्लेधं. २ A रायाणियउ जि तेण जि.

9 a धरियमजायहु पालित्तमर्यादत्य.

27 1 a सइ सती. 5 b सच्चयतणयइ सत्यभामया. 8 a उयरुण्णणी उदरेउत्तन्ना. 9 a  
पुरिमिल्लहु ज्येष्ठत्य. 10 a बहुल्लियाइ वच्चा: गयगामिणि गजगामिणी अनन्तमति. 11 a मोहं  
त्तेहेन प्रेम्णा; मयरोहेण व मदिरासमूहेनेव. 13 कारणे ताहि तत्या अनन्तमत्या: कारणे.

28 2 b दूमिउ दुःखित्तः. 3 b विसंसेलिधगंधु त्रिपक्कमलगन्धम्. 4 b दियधीय द्विज  
दुहिता सत्यभामा; णासग्गं नासात्रेण.



विज्जुमईदेविहि हयदुम्मइ  
अमियसेण कंतियहि णवेप्पिणु  
सा गय सग्गहु आराईयहु  
सुर जोएवि सुरूवें रंजिय  
कालें जंतें सुरलोयहु चुउ  
कणयलया जलरुहलय धीयउ  
इंदउविंदसेण पंकयमुह  
सोक्खु असंखु सुइरु भुंजेप्पिणु  
हई कहिं मि महावलकामिणि  
घत्ता—जं जिणणाहें सिट्ठुं  
हउं आयउ ओसारहुं

तासु जि रायहु सुय पोमावइ ।  
कणयमाल सावयवउ लेप्पिणु ।  
भोयभारसंपीणिंयजीवहु । 5  
पोमावइ हई सुरलंजिय ।  
कणयमालकुंडलि हउं हुउ ।  
वेणिण वि मरिवि सुकम्मविणीयउ ।  
जाया रयणउराहिवतणुरुह ।  
सुरलंजिय सग्गाउ चर्पप्पिणु । 10  
दिण्ण विवाहि तुज्जु गयगामिणि ।  
तं पच्चक्खु वि दिट्ठुं ॥  
दोहिं मि जुज्जु णिवारहुं ॥ ३० ॥

## 31

कासु वि को वि ण किं किर जुज्जुहु  
हउं मायारि चिरु तुम्हइं तणयउ  
देवत्तणु माणिवि णरजाया  
तं णिसुणिवि कुमौर हयलम्महु  
गय मोक्खहु णिक्खवियरओहहुं  
जो सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु  
सिरिपहु सुरहरि णं ससहरपह  
कुरुमणुयत्तणु माणिवि वहुंमहु  
सुरु हई पुणुं वंभणि वयसह  
घत्ता—जो सिरिसेणु महाइउ  
सो एवहिं तुहुं जायउ

भवसंसरणु ण किं पि वि बुज्जुहु ।  
होंतियाउ परिपालियपणयउ ।  
किं पहरह उग्गामियघाया ।  
तउ चरेवि पयमूलि सुधम्महु । 5  
अट्टमहागुणविरइयसोहहु ।  
पढमकप्पि सो जाउ वरामरु ।  
हुय हरिणंदियज्ज विज्जुंयह ।  
देवि अणिंदिय दिवि विमलप्पहु ।  
सच्चभांम तहु कंत सासिप्पह ।  
कुरुणरु सुरु सग्गाइउ ॥ 10  
अमियतेउ खगरायउ ॥ ३१ ॥

३ AP विज्जुमई. ४ AP °जीयहु. ५ AP सरूवे. ६ A चुएप्पिणु

31 १ A °पालियविणयउ. २ AP माणिवि. ३ A कुमारयलम्महु. ४ P विजापह.  
५ A बहुसुहु. ६ AP वंभणि पुणु. ७ सच्चभाव.

5 a आ राईयहु सौधर्मस्वर्गम्. 8 a जलरुहलय कमललता. 11 a महावलकामिणि वेद्या  
अनन्तमतिः. 13 a ओ सारहुं निपेडुम्.

31 3 a मा गि वि भुक्त्वा. 4 a हयलम्महु हतकपटस्य. 6 a कुरुणरु आर्य. 8 a बहुं  
महु बहुतेज. मान्यता वा 9 a वयसह वनं सत्माना; b तहु विमलप्रभत्य. 10 a महाइउ महद्विकः

## 32

जा सा सइ पंचाणणणंदिय  
 पुणु हई सिरिविजउ वियाणहि  
 जा सा धुवु सुतार सस तेरी  
 कविलु सुइरु हिंडिवि संसारइ  
 पविउलअइरावयणइतीरइ  
 चवलवेयतवसिणियइ जणियउ  
 तेण तवंतें कामविलुद्धउं  
 जायउ सुउ आसुरियहि तरुणिहि  
 पिउं णियविज्जाविहवें मोहिवि  
 पभणइ तिजगणाहु ण रुसिज्जइ  
 णिसुणि णिसुणि किं बहुयइ वत्तइ  
 घत्ता—धुव पंचमु चक्केसरु  
 भरहि रीय तुहुं होसहि

सा जोइप्पह घरिणि अणिंदिय ।  
 सोत्तिणि सच्चंभाम अहिणाणहि ।  
 सुरणरविसहरहिययवियारी ।  
 भूर्यरमणकाणणि भयगारइ ।  
 कोसियतावसभुत्तसरीरइ । 5  
 सो मयसिंणु णाम सुउ भणियउ ।  
 खयरु णिणवि णियाणु णिवद्धउं ।  
 असणिघोसु रत्तउ चिरघरणिहि ।  
 णिय कंचणविमाणि आरोहिवि ।  
 अमियतेय जीवहं खम किज्जइ । 10  
 णवमइ जम्मंतरि संपत्तइ ।  
 इह सोलहमु जिणेसरु ॥  
 पुप्फदंतसिरि लेसहि ॥ ३२ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभद्वभरहाणुमणिए  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकब्बे संतिणाहभवावलिवण्णणं  
 णाम सद्धिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६० ॥

32 १ AP सच्चभाव. २ P रमणि काणणि. ३ P आसुरिहि.. ४ AP चिरु घरिणिहि.  
 ५ A थिउ णिय°, P पिउ मय°. ६ P बुत्तइ. ७ A धुव ८ A राउ.

32 1 a पंचाणणणंदिय सिंहनन्दिता, a जोइप्पह विद्युत्प्रभा. 2 a सोत्तिणि ब्राह्मणी;  
 अहिणाणहि अभिजानीहि. 3 a सस तेरी तव अमिततेजस स्वसा. 4 a चिरघरिणिहि सत्यमामा-  
 चरी तस्याम् 5 a पिउ श्रीविजय.. 13 b पुप्फदंतसिरि पुष्पवत्कान्ता श्री. मोक्षलक्ष्मी लेसहि  
 त्वं गृह्णासि ग्रीह्यसि.



सो असणिघोसु आसुरियसिरि देवि सुतार सयंपह वि ॥  
पंव्वइयइं णिसुंणिवि जिणवयणु जिणु पणवेप्पिणु तिजगरवि ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

सिरिविजयकें	णिग्गयसकें ।	
मारुयवेएं	अपमियतेएं ।	
वउ उज्जालिउ	पोसहु पालिउ ।	5
घरु वेण्णि वि जण	गय ते सज्जण ।	
सुरकरिकरभुउ	रविकिच्चीसुउ ।	
णिरु णिरवज्जउ	साहइ विज्जउ ।	
उत्तमसत्ती	चलपणत्ती ।	
णहयलगामिणि	इच्छियरूविणि ।	10
जलसिहिथंभंणि	वंधंणि रुंभणि ।	
अंधीकरणी	पहराँवरणी ।	
विस्सपवेसिणि	अवि आवेसिणि ।	
अप्पडिगामिणि	विविहपलाविणि ।	
पासविमोयणि	गहणीरोयणि ।	15
वल्लणिम्भेवणि	चंडपह्वाँवणि ।	
पहराणि मोहाणि	जंभणि पाडणि ।	
अवर पहावइ	सइ पविरलगइ ।	
भीमावत्तणि	पवरपवत्तणि ।	
पुणु लहुकारिणि	भूमिवियारणि ।	20
रोहिणि मणजव	देवि महाजव ।	
चंडाणिलेजव	णिरु चंचलजव ।	
वहुलुप्पायणि	सत्तुणिवारिणि ।	

1 १ AP पाववद. २ P णिसुणवि. ३ AP ०भमिणि. ४ AP ०णिरुभणि. ५ A पदग-  
वणी. ६ K records a p: चउ इति पाटं चपला. ७ AP ०पहाविणि. ८ A भंडणि पाडणि; P रुक्मि  
५ इति. ९ AP ०वियारणि. १० A चंडालिनिच्च.

1 1 / अपविपवेअ अप्रभितवेत्ता. 1) b चलपणत्ती नामानपय प्रकृति. 11 a ०निं  
०रि. 12 b ५ अगवर्ण प्रकृतिवेदिता. 13 a विस्सपवविणि क्रियेत्तप्रवेदिता. 14 a अपडि-  
०रि विस्सपवद. 15 b अगवर्णवेदि वि भूताविस्सपववेदिता. 16 b चंडपहाववि प्रकृतिप्रभ-  
०रि. 17 a १३ अगवर्ण प्रकृति वेदिता. 18 a ०भमिणि. 19 a चंडालिनिच्च. 20 a बहुलुप्पा-  
०रि. 21 a ०वियारणि.

अक्षरसंकुल	खलगलसंखल ।	
मार्यावहुई	पर्णलहूई ।	25
हिमवेयाली	सिहिवेयाली ।	
मोक्कलवाली	चलचंडाली ।	
अलिसामंगी	सिरिमायंगी ।	
इय वरविज्जहिं	णहयरपुज्जहि ।	
उहसेदीसरु	हुउ परमेसरु ।	30
अण्णाहि वासरि	तेणं सणेसरि ।	
दमवरणामहु	णिज्जियकामहु ।	
पुण्णुप्पायणु	दिण्णउ भोयणु ।	
घत्ता—ते चारणादिणं भोयणेण इहं रत्ति जि संभविउ फलु ॥		
सुररखु दुंदुहिसरु वसुवरिसु मेहहिं बुद्धउ सुंरहिजलु ॥ १ ॥		

2

अमरगुरुदेवगुरु-	णामांण सावसरु ।	
हयमोहवासम्मि	साहूण पासम्मि ।	
तहि अमियतेएण	सिरिविजयराएण ।	
णियतायजम्माइं	वणहरणकम्माइं ।	
सिलखंभदलणाइं	दाइज्जमलणाइं ।	5
तवचरणकरणाइं	सणियाणमरणाइं ।	
सुरलोयवासाइं	णरभवविलासाइं ।	
पडिवक्खमहणाइं	हरिगीवणिहणाइं ।	
सिरिरमणिरमणाइं	कयणरयगमणाइं ।	
जसकंतिफुरणाइं	असुरारिचरियाइं ।	10
रिसिणाहकहियाइं	सोऊण गहियाइं ।	

११ A मायापहुई, K मायवहूई but corrects it to माया°. १२ P पण्णइ लहुई. १३ A तेण णरेसरि. १४ A इह रत्ति जि १५ A सुहु जलु.

2 १ A दिव्वगुरु. २ A णामेण. ३ P adds after this: जसकित्तिपुरियाइ, असुरारिचरियाइ, which in our text is line 10 below. ४ A जसकित्तिफुरियाइं.

25 a मायावहुई मायावह्वी, b पण्णलहूई पर्णलह्वी. ३० a उहसेदीसरु उभयश्रेणिराजा. 31 b सणेसरि आदित्यसहिते. 34 इह रत्ति जि इहेव जन्मनि.

2 1 b सावसरु स्वावसर यथा भवति तथा. 4 b वणहरणकम्माइ विशाखनन्दिभवे वनहरणादिकथानकानि. 5 b दाइज्जमलणाइं पितृव्यपुत्रमानभङ्गादिकम्. 8 b हरिगीव° अश्वप्रीव., 11 b सोऊण श्रुत्वा.

दोहिं पि सुवयाइं	अमयाइं सुदयाइं ।	
सिरिविजउ तण्हंतु	मणि महइ कण्हंतु ।	
पुणु कालमाणेण	परिवट्टमाणेण ।	
विउलमइ विमलमइ	णामिऊण परमजइ ।	15
णारुण मासाउ	मोत्तूण मासाउ ।	
रवितेय सिरियत्त	राइवदलणेत्त ।	
णियणियतणुब्भूय	कंदप्पसमरूय ।	
दोर्णं पि ण्हविऊण	कुलमग्गि थविऊण ।	
चंदणवणंतम्मि	णंदणमुणी जम्मि ।	20
णिम्मुक्कम्मम्मि	पईसरिवि लहु तम्मि ।	

घत्ता—अहिसिंचिवि पुज्जिवि परमजिणु वंदिवि भत्तिसमंघविउं ॥

आहारु सरीरु वि परिहरिवि विहिं मि परत्तु जि चिंतविउं ॥ २ ॥

## 3

जं णियपरपेसणसुणिरवेक्खु	जं णिण्णासियभवबंधुक्खु ।	
जं घोरसरायकसायसमणु	तं कयउं तेहिं पाओवमरणु ।	
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि	सुरणंदिय णंदावत्तधामि ।	
हुउ अमियतेउ रविचूलु देउ	सत्थिउ णामे अवरु वि णिकेउ ।	
मणिचूलु णामु सिरिविजउ तेत्थु	सुरवरु जायउ लक्खणपसत्थु ।	5
को वण्णइ ताहं महापहाउ	ते वे वि वीससायरसमाउ ।	
कालेण जंतुदीवंतरालि	इह पुव्वविदेहि रमाविसालि ।	
वच्छावइदेसि पहायरीहि	णयरिहि वणकीलियकिणरीहि ।	
णीसेसकलालउ मणुययंदु	णामेण थिमियसायरु णरिंदु ।	

५ A सदयाइं, A adds after this: भवभावखमियाइं, K also writes it but scores it off. ६ A परिवट्टमाणेण, P परिवट्टमाणेण. ७ AP णविऊण. ८ AP दोहिं पि. ९ A णविऊण. १० पइसरिवि. ११ P समुघविउं.

3 १ A पावोगमरणु, P पाओवगमरणु. २ A पहावरीहि. ३ A अमियसायरु, P निमियसायरु.

1.) a तण्हंतु आकाशार्त., b कण्हंतु कृणत्वम् 16 a मासा उ मासमात्रजीवितम्; b मासा उ लभसा आत्वादम् 17 a रवितेय सिरिदत्त अमिततेजस पुत्रो रवितेजा श्रीविजयस्य पुत्र श्रीदत्त. 22 भत्तिसमंघविउं भक्त्या समर्पित मुद्रापत्रम्.

3 1 a सुणिरवेक्खु सुणिग्गेषम ( पादपोषगमनम् ). 3 b णंदावत्तधामि नन्त्यायर्नविमाने. 4 b सत्थिउ थिमियं नाम विमानम्. 6 a महापहाउ महाप्रभाय. 8 a पहायरीहि प्रभायरी नगरम्

तहु देविहि देउ वसुंधरीहि  
आवेपिणु णंदावत्तणाहु

घत्ता—मणिचूळु वि सत्थियसुरहरहु णिवडिवि हुउ अणुमइत्तणउ ॥  
सो सूहउ सोम्मु सुल्लक्खणउ वण्णे जियणीलंजणउ ॥ ३ ॥

राविचूळु गम्भि थिउ सुंदरीहि । 10  
अवराइउ हुउ थिरथोरवाहु ।

4

परदुज्जउ केसउ मणि गणेवि  
पढमहु विरपपिणु पट्टवंधु  
सिहासणु छत्तइं परिहरेवि  
अरहंतहु अविचितियपहासु  
अवलोइवि कत्थइ णायराउ  
पुरि सुहुं वसंति ते वे वि भाइ  
णच्चंति ताउ ते तहिं णियंति  
आयउ णारउ दिग्गयजसेहि

घत्ता—मणि रोसु हुयासणु पज्जलिउ सहहुं ण सक्किउ चैलियगहि ॥

सो जंतु ण केण वि दिट्ठु तहि पवणु चडुलु उल्ललिउ णहि ॥ ४ ॥ 10

कोक्किउ अणंतवीरिउ भणेवि ।  
लहुयहु ढोइवि जुवरायच्चिंधु ।  
णिम्मोहभावभावणउ लेवि ।  
पिउ सरणु पइट्ठु सयंपहासु ।  
सिरितण्हइ मरिवि फणिंदु जाउ । 5  
णडि वव्वरि अण्णेक्क वि चिलाइ ।  
जा ताम हारहिमहासकंति ।  
संमाणिउ णउ रसपरवसेहि ।

5

गउ रूसिवि सिवमंदिरपुरासु  
वज्जरिउ तेण रयणाइं कासु  
वव्वरिचिलाइणामालियाउ  
पहयरिपुरि अवराइयहु गोहि  
वेणिण वि थणभारें भग्गियाउ  
पट्टवहि मंति आणवहि तुरिउं  
अवलोइय मंतिमहंत संत

दमियारिहि विज्जाहराणेवासु ।  
पइं मेल्लिवि को महियलि महीसु ।  
णच्चणिउ दोणिण वरवालियाउ ।  
णं विज्जुलियउ अच्छंति मेहि ।  
लइ णरवइ तुज्जु जि जोग्गियाउ । 5  
रापण वि तं णियचित्ति धरिउं ।  
सहसा संपेसिय बुद्धिवंत ।

४ A मणिचूळि. ५ A °सुरवरहु णिवडिवि ताहि जि हुउ तणउ. ६ A सलक्खणउ.

4 १ AP सीहासणु. २ A चलियग्गहि

5 १ AP जोगियाउ. २ AP आलोइय. ३ A मंतमहत.

12 अणुमइत्तणउ अनुमतीराज्ञीपुत्रः 13 जि यणीलज णउ जितकज्जलकृष्णवर्णं .

4 2 a पढमहु अपराजितस्य. 4 a अ वि चिं ति य प हा सु अत्यद्भुतमाहात्म्यस्य. 5 b सिरि-  
तण्हइ श्रीतृष्णया. 6 b ण डि नर्तकी. 9 सहहु सोडुम्, च लिय ग हि गच्छद्ग्रहे नभसि. 10 चडुल  
चपल .

5 1 b °णि वा सु नृपस्य. 3 b °वा लिय आउ त्रालिके नवयौवनवत्यौ. 6 a आ ण व हि आनय.  
7 a संत विद्वासः.

गय ते वि पुरिहि पहायरीहि  
लइ तेहिं ताहं उवइडु कज्जु  
तो णियणाडिजुयलउं देहु ताम  
ता पोसहणियमालंकिण

जे<sup>१</sup> वल्लह तणय वसुंधरीहि ।  
जइ इच्छह संपयविउलु रज्जु ।  
दमियारिदेउ रुसइ ण जाम । 10  
जिणपायपोमसेवापिण ।

यत्ता—जिणभवणधिण णराहिविण अवराइण समंतियणु ॥

आउच्छिउ दिज्जउ तियर्जुयलु किं किज्जउ सह तेण रणु ॥ ५ ॥

## 6

तं णिसुणिवि मंति भणंति एम्व  
णारीदाणेण वे होइ मलिणु  
थिउ चिंताउरु णरणाहु जाम  
सव्वउ पण्णत्तिपहइयाउ  
वयणेण तेण संतुट्टु वे वि  
गय सिवमंदिरु वित्थारण  
दरिसिउ रायहु पडिहारण  
दूयण कहिउ तं एउ राय  
अवराइण लइ दिण्णु तुज्जु

खयराहिउ दुज्जउ समरि देव ।  
तं णिसुणिवि मउलियणयणवयणु ।  
चिरंभवविज्जउ पत्ताउ ताम ।  
रिउवहु चवंति वसिहइयाउ । 5  
भायर णियमंतिहि रज्जु देवि ।  
कवडे णडिवेसायारण ।  
जं संजुत्तउं सिंगारण ।  
को सहइ तुहारा विसमघाय ।  
कामिणिजुयलुलउं खीणमज्जु ।

यत्ता—ता कडयमउडमणिकुंडलहिं कंचीदामहिं भूसियउ ॥

दमियारें मायामाणिणिउ सुइसुमहुरु संभासियउ ॥ ६ ॥

## 7

करणंगहारवहुरसविसट्टु  
वीणाञ्जुणि यणथण मज्जस्साम

वीयइ दिणि अवलोएवि णट्टु ।  
अट्टुइय धीय कणयसिरिणाम ।

४ A जे पियनुव वसुध्वसुंधरीहि. P जे पियनुवसहि वसुधरीहि. ५ AP <sup>१</sup>भवगि धिण. ६ P तियजमउ.

6 १ AP वि. २ AP मउलियवयणणलिणु. ३ AP चिरभव<sup>२</sup> ४ AP add after this<sup>३</sup>  
वंति णवंति सट्टुयाउ, चिर सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु धरेवि. ५ AP add  
after this. परिमिय ( P परमिय ) जणेहि णीसरिय वे वि. ६ AP दूयण.

7 १ A तहिं आय धीय.

४ b जे वसुध्वसुंधरी, वसुध्वसुंधरी हि अस्सज्जिमाना वसुध्वसुंधरी नत्था. ५ b संपयविउउ संपदा विरुद्धम्.

6 1 b गयगणिउ दमियारि देव हे अस्सज्जित्तगज्ज. २ a मलिणु भयमान. अस्स-  
ज्जित्तो इत्थो वा. 3 b रिउवहु मट्टुवम. 11 सुइसुमहुरु कर्ममकुम्

7 1 a वरुणं अशोकं इव एतत्तर्तनं नगगमुच्यते; <sup>१</sup>अगहा<sup>२</sup> अट्टुविसेय. २ b अट्टुइय  
अट्टुविसेय.

अप्पिय ताएं मायाविणीहि  
णच्चंतिहि तहि पुणु कामवेसु  
कण्णइ भणिउं को सो अणिदु  
कित्तिमरूवाजीवाइ वुत्तु  
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु  
उवमिज्जइ सो भुवणयलि कासु  
सा भणइ मोरकेक्कारवाइ  
दूसहविरहग्गिञ्जुलक्कभीउ

णाडउं सिक्खाविय भाविणीहि ।  
गाइउ अणंतवीरिउ णरेसु ।  
किं किंणरु किं सुंरु किं फणिदु । 5  
सो कुमरु थिमियसायरहु पुत्तु ।  
अवराइउ भायरु होइ जासु ।  
ता कण्णहि लग्गउ कामपासु ।  
तहु दंसणु लब्भइ केर्म माइ ।  
दक्खालहि जाम ण जाइ जीउ । 10

घत्ता — ता कवडणडित्तणु अवहरिवि थिउ हरि पायहु तणु करिवि ॥  
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयणं हुंकरिवि ॥ ७ ॥

8

मणि खुत्तु कुमारिहि कामवाणु  
णिय सुंदरि तायहु कहिय वत्त  
पेसिय मंडलिय अणेयभेय  
ते जित्त घित्त रणराइएण  
सयमेव पत्तु ता चावपाणि  
किर बेणिण वि सर संघंति जाव  
जुज्झिय बेणिण वि बहुपहरणेहि  
पच्छइ पुणु कित्तिहरहु सुएण  
तं लेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु  
रिउ मारिवि किर चलंति जाम

आरोहिवि धयचंचलु विमाणु ।  
तेण वि पारंभिय समरजत्त ।  
सुर विज्जाहर चंदक्कतेय ।  
हंलिणा वलिणा अवराइएण ।  
हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि । 5  
अंतरि पइदु दणुयारि ताव ।  
ते केसव पडिकेसव घणेहि ।  
मुक्कउ रहंगु णिटुरभुएण ।  
वियलंतरुहिरु वच्छयलु भिण्णु ।  
पयमेत्तु णं चलइ विमाणु ताम । 10

घत्ता — ता पेक्खंतहि सयलउ दिसउ समवसरणु अवलोइउं ॥  
हरिवलहिं विहि मि विंभियवसहिं णियविज्जामुहुं जोइउं ॥ ८ ॥

२ AP पुणु तहि. ३ A णरु. ४ तिमिय°. ५ AP कण्हइ. ६ P किं ण माइ

8 १ AP विवाणु. २ AP हरिणा. ३ A अहिमाणदाणि, P अहिमाणखाणि. ४ A णिग्गत-  
रुहिरु. ५ AP पयमेत्तु विवाणु ण चलइ ताम. ६ AP विंभय°.

4 a काम वे सु कन्दर्पसदृश 6 a कि त्ति मरूवा जी वा इ कृत्रिमवेदयत. 10 a 'मुल' अत्ता.

11 कवडणडित्तणु अवहरिवि कपटनटीत्वमपहृत्य.

8 4 a घित्त क्षिप्ता. रणराइएण गणशोभिना. 6 b दणुयारि दणु. 9 b विदन्त-  
रुहिरु विगलद्वधिरम्.

9

सा भणइ महापहु विजयकंखु  
तहु तणउ तणउ कित्तिहरु राउ  
सांतियरहु सीसु मुएवि राउ  
अच्छइ भौ केवलि जाहुं एहु  
ता सव्वइं भव्वइं तहि गयाइं  
लायणवण्णणिज्जियसिरीइ  
भणु देवदेव णियजणणमरणु  
तं सुणिवि कैहइ समसत्तुमित्तु

यत्ता - इह दीवि भैरहि संखउरवरि वणि देविलु चक्कलयणिय ॥

वंधुसिरि घरिणि गुणगणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥१॥ 10

होंतउ सिवमंदिरि कणयपुंखु ।  
एयहु दमियारिहि होइ ताउ ।  
थिउ वरिसमेत्तु परिमुक्ककाउ ।  
भत्तिइ वंदहुं वोसट्टेदेहु ।  
वंदेप्पिणु परमप्पयपयाइं ।  
आउच्छिउ चामीयरसिरीइ ।  
मइं दिट्टुउ किं सुहिसोयकरणु ।  
भुवणत्तयणवराइं वमित्तु ।

5

10

पुणु कुंठि' पंगु अण्णेक्क दीण  
अण्णेक्क वहिर णउ सुणइ वाय  
अण्णेक्क एकलोयणिय जय  
लहुवाहिणुउ करुणं तोसियाउ  
वणि संखमहीहरि सीलवाहु  
पालिय आहिस वयणेण तासु  
दिण्णउं सुव्वयखंतियहि दाणु  
सम्मत्ताभावं कयउ वालि  
सोहम्मसग्गि सामण्णदेवि  
हई दमियारिहि तणिय पुत्ति

यत्ता—तं वयणीवमणविणिदणहु फलु पइं सुइ अणुहुंजियउं ॥

हियउल्लउं जणणहु रणि वडिउ दिट्टुउं रुहिरें मंडियउं ॥ १० ॥

णिल्लक्खण हई हत्थहीण ।  
खुज्जी अण्णेक्क विमुक्कलाय ।  
पिउ मुउ कालें गय मरिवि माय ।  
छै वि एयउ पइं घरि पोसियाउ ।  
अवलोइउ सव्वजैसंकु साहु ।  
अण्णेक्कु धम्मचक्कोववासु ।  
आहारवमणि विदिग्गिंछैठाणु ।  
मोहेण पडइ जणु जम्मजालि ।  
होइवि मुय माणुसदेहु लेवि ।  
जं दिट्टी पिउखयदुहपवित्ति ।

6

10

9 १ AP दमियारिहि. २ AP केवलि भौ. ३ AP भणइ. ४ A भरह.

10 १ A कुट, I कुट्टि. २ AP सच्छवि ३ A सच्चजसक°. ४ K धम्म. ५ AP विजि-  
गिउ°. ६ A ते वइणीव°. P त वइणीव°. ७ AP अणुहुज्जिउ. ८ AP रजियउ.

9 1 a सा भणइ चित्रा कथयति, विजयकंखु दिग्विजयवाञ्छक. 2 a तणउ सव्वी;  
तणउ पु. 1 b वोसट्टेदेहु कायोत्सर्गयुक्त.. 8 b °णवराइं वमित्तु °नवीनपद्मस्य सूर्य इव. 9 वणि  
रिगिउ, चक्कल° विन्नीर्णो. 10 निरिदत्त श्रीदत्ता.

10 3 a एषतो यणिय काणा 1 b पइं स्वया श्रीदत्ताचार्या. 6 b धम्मचक्कोववासु अरा-  
णामशोचन्मणेन 'मननं भवति । नत्र एतोऽवामेन आगतय लभते इति पट्टिगदुपवासा. । तुम्यस्य चैरु  
उत्तमस्य । तादात्म्येण न पट्ट । एउमगीनिद्विभे समायते । किंविक्त्या किंभेदा अग्न्युभयोपवासा  
'कर्म' इति चेत्तस्य । दर्शनताश्री । ज्ञानताश्री । चारित्र्यस्य प्रवचनमातृत्वापेक्षयाश्री । तपसो द्वादशोत्त-  
मस्य । इति पट्टिपत्ता । अग्निसोत्तमस्य चैरु उत्तमस्य . 7 a सुव्वयस्य नि ति नुत्ततागीया . 9 वयणी-  
वमणविणिदणहु रणि वडिउ तादात्म्येण वमननिन्दनस्य पत्तन्.

## 11

तं णिसुणिवि हरि वल णियघरासु  
 गोविदतणउ कइकामधेणु  
 रिउसुय तं तहु पइसहुं ण देंति  
 कंचणसिरियहि संरंभगाढ  
 आवेप्पिणु चवलाउहकरेहिं  
 सोयग्गि दहु सरीररुक्खु  
 वलकेसव पत्थिवि गय कुमारि  
 सुप्पहहि पासि थिय संजमेण  
 सोहम्मि अमरु हई मरेवि  
 खग माणव दाणव जिणिवि समरि

गय कण्ण लेवि पहयरिपुरासु ।  
 सिवमंदिरु गयउ अणंतसेणु ।  
 करवालहिं सूलाहिं उत्थरंति ।  
 भायर सुघोस वर विज्जदाढ ।  
 ते वे वि णिहय हरिहलहरेहिं । 5  
 असहंति सवंधवपलयदुक्खु ।  
 जिणु णविवि सयंपहु णाणधारि ।  
 गणणिहि संतिहि कहिपं कमेण ।  
 एत्तहि महि चकें वसि करोवि ।  
 णारार्यण सीरि पइट्ट णयरि । 10

घत्ता—वलपेणं विजयासुंदरिहि हई सुय णामे सुमइ ॥

कंकेल्लिपल्लवारत्तकर पाडलपिल्लयमंदगइ ॥ ११ ॥

## 12

णियमियदुहमणवारणासु  
 संपुण्णु अण्णु दिण्णउं सामिद्धं  
 दिट्ठी पिउणा सुय दिण्णदाण  
 सांणिहियसयंवरमंडवंति  
 जोवइ वरु जा किर रहवरत्थ  
 हलि दिल्लिदिलिए ण भरहि काइं  
 जा पुव्वमेव ण लहइ णिजम्मु  
 सुणि विहिं मि भवंतरु कहमि माइ  
 भरहे णंदउरइ णं सुरिदु  
 तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ज  
 धणासिरि अणंतसिरि तहि सुयाउ

घरु आयउ दमवरचारणासु ।  
 पंचच्छेरउ पत्ती पसिद्धं ।  
 णवजोव्वण रुव्वं सोहमाण ।  
 देसंतरायणररायकंति ।  
 तावच्छर चवइ वरंवरत्थ । 5  
 पइं मइं मि सग्गि भणियाइं जाइं ।  
 सा इयरहि अक्खइ परमधम्मु ।  
 पुक्खरवरद्धपुव्विल्लभाइ ।  
 णामेण अमियविक्कमु णरिंदु ।  
 वरकइविज्जा इव जणमणोज्ज । 10  
 हउं तुहुं वेण्णि वि सुललियभुयाउ ।

घत्ता—वाणि सिद्धमहागिरि गंपि हलि णंदणमुणिवरपयजुयल्लु ॥

वंदेप्पिणु व्वंउ उववासतउ च्चिण्णउं दुच्चरु गलियमल्लु ॥ १२ ॥

11 १ AP पहयपुरासु. २ AP दाणव माणव ३ AP सवरि ४ AP णाराइण.

12 १ AP सपक्कु. २ A समिद्धु ३ A सिद्धु. ४ A सरहि. ५ A नृजम्मु ६ P णंदउरिहि.  
 ७ AP वउ.

11 3 a रिउसुय दमितारिपुत्रौ, b उत्थरति समुखमागच्छन्ति 4 a सरभगाढ सरम्भेण  
 क्रीषेण गाढौ हदौ. 6 a दहु दग्घ्वा. 7 a पत्थिवि प्रार्थना कृत्वा 12 पाडलपिल्लयं वालहस.

12 5 b वरवरत्थ विमलाकाशस्था. 6 a दिल्लिदिलिए हे वाले, भरहि सरसि. 7 a  
 णिजम्मु मनुष्यजन्म.



## 13

वज्जंगउ णामे ससहराहु  
कंताइ कुलिसमालिणिइ सहिउ  
गउ णियपुरि णियपणइणि थवेवि  
वेणिण वि जणीउ संचालियाउ  
आयासि जाम धावइ तुरंतु  
भत्तारचित्तगइ संभरंतु  
णिक्करुणे दइवुप्पेल्लियाउ  
परिहरियभीमवणयरभयाउ

तहिं आयउ कत्थइ तितरणाहु ।  
अम्हइं णियंतु मारेण महिउ ।  
कामाउरु पडियागउ वलेवि ।  
णं हंसं कुवल्लयमालियाउ ।  
ता दिट्ठउ तेण कलत्तु एंतु । 5  
ईसाकसायवसु विप्फुरंतु ।  
भीएण वेणुवणि घल्लियाउ ।  
तहिं वेणिण वि संणासें मुयाउ ।

घत्ता—णउ कंदु ण मूलु ण फलु ण दलु अहिलसियउ णउ कि पि वणि ॥  
जोईसरु सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धरिवि मणि ॥ १३ ॥ 10

## 14

हउं णवमी आहंडलहु देवि  
णामे रइ पवर कुवेरणारि  
मंदरयलि दिट्ठउ चरियतिकखु  
पुच्छिउ सिद्धत्तणु कम्मि कालि  
चोत्थइ णित्थरह भवद्धिणीरु  
आउच्छिवि हरि वल वे वि ताय  
णिवकुंमरिहिं सहुं सत्तहि सपहिं  
पयारहमइ दिवि सुहणिहाणि  
केसवु महि भुंजिवि कम्मणडिउ  
सुउ रज्जि थवेवि अणंतसेणु  
तउ चरिवि सीरि विहडियकसाउ

हई तुहु माणुसतणु मुएवि ।  
णंदीसरजत्तहि दुक्खहारि ।  
दिहिसेणु णाम पणवेवि भिक्खु ।  
होसइ रिसि भणइ भवंतरालि ।  
तं सुणिवि कण्ण विहुणिवि सरीरु । 5  
वंदिवि सुच्चयसंजइहि पाय ।  
पावज्ज लइय भूसियवएहिं ।  
सुरवरु हई प्राणावसाणि ।  
रयणप्पहवसुहाविवरि पडिउ ।  
जसहरुगुरुचरणंवुरुहि लीणु । 10  
सोलहमइ सग्गि सुरिंदु जाउ ।

घत्ता—पिउ जायउ जो उरयाहिवइ तासु पासि दंसणेरयणु ॥

पावेपिणु णरयहु णीसरिउ सो अणंतवीरियउ पुणु ॥ १४ ॥

13 १ A सखवाह. २ P<sup>१</sup>मालिणए. ३ AP दइउ पेह्लियाउ.

14 १ A नृवकुंमरिहिं, P<sup>१</sup> णिवकुअरिहिं. २ AP पाणावसाणि. ३ P जसहरचरणउल्ले  
णिणियु ४ AP दसणु ग्यणु ५ P<sup>१</sup> वीरिउ.

13 1 a समानह मयवगभ चन्द्रप्रभ.. 2 b णियवतु अवलोकयन्. 7 a दइवुप्पेल्लि  
णउ कंदप्रेस्ति वे, b वेणुवणि वयवने.

14 1 a णवमी नरनीनामी. 2 a कुवेरणारि गतिनाशी कुवेरभार्गी. 3 a चरियतिकखु  
अरिणि. 4 a णित्थरह भवद्धिणीरु ममागदिउ नगियथ 12 पिउ म्निभिनसाणदः, उरयाहिवइ  
पणियु.

15

भरहम्मि एत्थु विजयाचलिदि  
णहवल्लहपुरि घणवाहु राउ  
घणवण्णउ जायउ ताहं पुत्तु  
सो सयलखयरखोणीवईसु  
पण्णत्तिविज्ज संसाहमाणु  
सम्मत्तु लण्णपिणु तिमिरणासु  
अण्णहिं दिणि गउ णंदणगिरिदु  
हयकंठभाइ णामे सुकंठु  
जायउ भीमासुरु सरिवि वेरु  
उवसग्गहु ण चलइ कि पि जाम  
रिसि साहिवि आराहण अमंदु  
इह दीवंतरि सुरदिसिविदेहि

उत्तरसेदिहि धवलहरसंदि ।  
घणमालिणिवरकंतासहाउ ।  
घणणाहु णाम णवणालिणणेतु ।  
मंदरणंदणवणि णामियसीसु ।  
अच्चुयणाहे वोहिउ सणाणु । 5  
णिकखंतु सुरामरगुरुहि पासु ।  
थिउ पडिमाजोपं मुणिवरिंदु ।  
संसारु भमिवि दुक्खाहिदहु ।  
आठत्तु तेण मुणि मेरुधीरु ।  
सइं लज्जिउ गउ रिउ गयणु ताम । 10  
अच्चुइ इंदहु ह्ययउ पडिंदु ।  
मंगलवइदेसि विचित्तगेहि ।

घत्ता—पुरि रयणसंत्ति मणिचेंचइइ थिरु आउंचियारिपसरु ॥  
राणउ खेमंकरु दीहकरु धीमहंतु उद्धरियधरु ॥ १५ ॥

16

तहु कणयचित्त णामेण देवि  
जाया हियमाणिणिहिययसार  
सिरिसेणहि सुउ सहसाउहेण  
णियसंति णामु सुरणाहमाहिउ  
जांवच्छइ ता दिवि देवसत्थु  
अण्णहि वण्णिउ कुलिसाउहासु  
तं णिसुणिवि सुरवरु चित्तचूलु  
जिणजेट्टतणुभवु भणिउ तेण

तहि णंदण इंद पडिद वे वि ।  
वज्जाउह सहसाउह कुमार ।  
जणियउ णेहु व कुसुमाउहेण ।  
खेमंकरु पुत्तपउत्तसहिउ ।  
पभणइ भुवि को सइंसणत्थु । 5  
णिम्मल्लुं सम्मत्तु गुणावयासु ।  
आयउ णिवंधरु णहल्लगचूलु ।  
अण्णण्णु होइ तिहुवणु खणेण ।

घत्ता—णउ अत्थि तो वि दीसइ पयहु जिह सिविणउ तेलोक्कु तिह ॥

लइ सुण्णुं जि णिच्छउ आवडिउं कहिं अच्छइ गय दीवसिह ॥१६॥ 10

15 १ A वण्णिउ. २ A पण्णत्त. ३ P अणाणु, K अणाणु but corrects it to सणाणु.  
४ AP जयवरिंदु. ५ AP ससारि. ६ P दुक्खेहि दहु

16 १ A तहि णदणु अच्चुवइंदु ए वि. २ A reads this line and 3 a as वज्जाउहु  
णामे तिजयसारु, तें परिणिय सिरिमइ ण कुमारु, तीए जणियउ सहसाउहु कुमारु. ३ AP को भुवि.  
P भण्णिउ ५ A णिम्मल. ६ A नृवधरु. ७ AP सुण्णउ णिच्छउ.

15 3 a घणवण्णउ मेघवर्ण कृष्णवर्ण. 8 a हयकंठभाइ अश्वप्रीवत्य भ्राता, b दुक्खा-  
हिदहु दु खसपेण दष्ट. 9 a सरिवि वेरु वैर स्मृत्वा. 13 वेंचइइ देदीप्यमाने.

16 3 a सिरिसेणइ श्रीपेणाया सहस्रायुधभार्यायाम् 4 a णियसति कनकशान्ति, निज-  
शब्देन कनकम्. 5 a देवसत्थु देवसमूह, b सहसणत्थु सहस्रानस्य. 10 आवडिउ ज्ञातम्.

## 17

तं सुणिवि भणइ पविपहरणक्खु  
जइ अवंरु जि खणि खाणि होइ सव्वु  
पज्जायारूढी सव्वसिद्धि  
अण्णयविरहिउं जि जगु भणंति  
जइ सिविणु व तच्चु परोवहासि  
जइ सुण्णत्तहु दीवच्चि जाइ  
तं सुणिवि पवुद्धउ सुहं वउद्धु  
को करइ वप्प पइं सहं विवाउ

अण्णाणहं दुक्करु णाणचक्खु ।  
तो किं जाणइ जणु णिहिउ दंवु ।  
आउंचिउ हत्थु जि होइ मुट्ठि ।  
खकुसुमुं ते सससिं गे हणंति ।  
तो सिविणयभोयणि किं ण धासि । 5  
तो खप्परि कज्जलु केम थाइ ।  
संसइ तुहं णरवइ णाणसुद्धु ।  
अरहंतु भडारउ जासु ताउ ।

घत्ता—गउ चित्तचूलु सणिहेलणहु इंदचंदफणिपरियरिउ ॥

खेमंकरु पढमहु तणुरुहहु अप्पिवि वसुमइ णीसरिउ ॥ १७ ॥ 10

## 18

घरु मेल्लिवि वणि थिउ मुक्कगत्तु  
रायाहिराउ णिव्वूढमाणु  
वज्जाउहु अवइण्णइ वसंति  
तडिदाढे चिरभववइरिण्ण  
खयरेण णायपासेण वद्धु  
सा तेण णिहय दढकरयलेण  
रिउ णासिवि गउ भयभीयजीउ  
वसिकयसुरणरविज्जाहरासु  
घरु आयइं ता परिहरिवि मरणु

काले अरहंतावत्थ पत्तु ।  
गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु ।  
जलि रमइ सुदंसणसरवरंति ।  
दुक्कम्मभावसंचारिण्ण ।  
विउलइ सिलाइ सहं सांणिरुद्धु । 5  
गय सयदंलु णारि व रयमलेण ।  
णियंघरि पइहु कुलहरपईउ ।  
णवणिहि चउदहरयणाइं तासु ।  
घरि णहयरु पक्खु पवण्णु सरणु ।

घत्ता—तहु अणु आगय असियरखयरि चवइ हणामि केँ मइं धरइ ॥ 10

पहरणकरु थविरु अवरु अइउ णिवहु सवइयरु वज्जरइ ॥ १८ ॥

17 १ AP जइ खणे खणे अवरु जि होइ. २ P खकुसुम. ३ AP किं ण थाइ. ४ A सुरु पवुद्धु: P सुरु ववुद्धु.

18 १ AP सहसा णिरुद्धु २ A सयदण. ३ AP णियपुरि. ४ AP मइं को.

17 1 a पवि पहरण क्खु वज्जायुधारख्य.. 3 a पज्जा यारूढी पर्यायमारूढा, सव्व सि द्धि सर्व-सृष्टिः. 1 a अण्ण यविरहिउ अन्वयरहितम्, द्रव्यरूपतया अपरापरपर्यायेष्वनुवर्तनमन्वय, b सस सिं गे अण्णश्लेषेण. 5 a परोवहासि हे परोपहासिन्, b ण धासि न तृप्यसि. 6 a दीवच्चि दीपशिरा. 7 a वउद्धु क्षणिकवादी, b ससइ प्रगसति.

18 1 a मुक्कगत्तु मुक्तशरीरः, b अरहंतावत्थ केवलज्ञानम्. 3 a अवइण्णइ अवतीर्णे प्राप्ते, b सुदंसणसरवरंति सुदर्शननाम्नि सरोवरे. 4 a तडिदाढे वियुद्धेण. 6 a णिहय निहता चूर्णाहिता, b मयदलु शतच्छण्टम्, णारि व रयमलेण यथा रजस्वला स्त्री लज्जा शनरुण्ट व्रजति रक्त-मलेन. 9 a परिहरिवि मरणु मरणभवात्. 10 अणु पश्चात्. 11 यविरु वृद्धः, अइउ आगतः.

19

इह वरिसि खगायालि अरिहंभत्तु  
तहु देवि जसोहर वाउवेउ  
तेत्थु जि पुरु किंणरगीउ अत्थि  
तहु सुय सुकंत महुं तणिय कंत  
ओहच्छइ तुह पयणय विणीय  
विजासाहाणि थियवणयरासु  
किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव  
तं अवगणिणवि मृगैल्लोयणाइ  
आरूसिवि कड्डिउ मंडलग्गु  
आवेप्पिणु तुज्जु पइहु गेहि  
आगच्छमि जा महिहरधरित्ति  
इह आयउ अक्खिउ तुज्जु राय  
गंभीरघोरवइराउहेण

सक्कंप्पहपुरि पहु इंदयत्तु ।  
हउं पुत्तु पुण्णसंपुण्णतेउ ।  
तहिं चित्तचूलु खगु जसगभत्थि ।  
वहुतंतमंतविहिवुद्धिवंत ।  
संतिमइ णाम महुं तणिय धीय । 5  
उवगय मुणिसायरागिरिवरासु ।  
गुरुविग्गु पउंजिउ एण ताव ।  
सिद्धी देवय जाणिवि अणाइ ।  
एहु वि लंघिय णहमंडलग्गु ।  
हउं पुज्ज लेवि खे भमियमेहि । 10  
ता पेच्छिवि णहि धावंति पुत्ति ।  
पेक्खहि परिरक्खहि णायिंछाय ।  
तं सुणिवि वुत्तु वज्जाउहेण ।

घत्ता—इह दीवइरावयविहउरि विंजसेणु णामें नृवइँ ॥

णामेण सुलक्खण मृगणयण तहु रायाणी हंसगइ ॥ १९ ॥ 15

20

तहु णंदणु णामें णल्लिणकेउ  
तेत्थु जि वणिवरु णामें सुमिच्चु  
पीयंकरि णामें तासु भज्ज  
महिलाविरहेण मुणिंदवासि  
भंजिवि दुम्महु कंदप्पदणु  
जंवूदीवंतरि कच्छेदेसि  
पुरि कणयतिलइ णं पुण्णयंदु  
तहु पणइणि णामें णीलवेय

णं थिउ णररुवें मयरकेउ ।  
सिरिदत्त कंत तणुरुहु सुदत्तु ।  
सा हित्ती णिवतणएं मणोज्ज ।  
रिसि हुउ सुदत्तु सुव्वयहु पासि ।  
संणासें गउँ ईसाणकणु । 5  
वेयइइ उत्तरसेढिवासि ।  
णामें महिदविकमु खगिंदु ।  
सुरु मेळिवि सुरतणु अमियतेय ।

19 १ A अरुह°. २ A सुक्क°. ३ P मिग°. ४ AP णहि मडलग्गु ५ P णायणाव.  
६ AP णिसुणिवि. ७ P णिवइ. ८ A सलक्खण. ९ P मिग°.

20 १ AP पीइकरि. २ A नृवतणए. ३ AP हुउ. ४ A पुण्णिविदु, P पुण्णियदु.

19 ३ b जसगभत्थि यत्र किरण.. 6 a थियवणयरासु स्थिता वनत्ररा यत्र तस्य. 6 मुनि-  
सायरगिरिवरासु पर्वतस्य नामेदम्. 9 b अणाइ अनया शान्तिमत्या. 12 b णायइया  
नीतिप्रभावः.

20 ३ a पीयंकरि प्रीतिकरो, b हित्ती हता, णिवतणएं नल्लिनरेउना.

चिरु वणि सुदत्तु जो दुक्खरीणु  
इंदीवरदलसंकासणेत्तु  
सीमंकरसूरिहि णविवि पाय  
णियदुक्किउ णिंदिवि णायणेउ

सो तहि सुउ जायउ अजियसेणु ।  
जे हित्तउ वणितणयहु कलत्तु । 10  
तउ चरिवि घोरु चूरिवि कसाय ।  
गउ मोक्खहु सो नृवु णल्लिणकेउ ।

घत्ता—पीइंकरि सुव्वयसंजइहि पासि मुएप्पिणु घरणियलु ॥

चंदायणु चरिवि पसण्णमइ मय पक्खालिवि पावमलु ॥ २० ॥

## 21

ईसाणि देवि तित्थाउ आय  
इहु अजियसेणु चिरवरु दुलंघु  
इय णिसुणिवि कण्णइ पुव्वजम्मु  
संतिमइ सुगंधवियक्खणाहि  
देवत्तु लहेप्पिणु वीयसग्गि  
ता पेक्खइ जो णरजम्मि ताउ  
जिह सो तिह अवरु वि अजियसेणु  
थुइसयहि पसंसिवि वरगिरेण  
देविं चिंतिउ संसारु चित्तु  
काणीणदीणदिज्जंतदाणि

संतिमइ तुहारिय धीय जाय ।  
विज्जउ साहंतिहि करइ विग्घु ।  
खेमंकरणाहु पासि धम्मु ।  
हूई सीसिणिय सुलक्खणाहि । 5  
संचरइ जाम गयणयलमग्गि ।  
सो जिणवरु जायउ वाउवेउ ।  
रयणत्तयजलधुयकम्मरेणु ।  
वेण्णिं वि वंदिय पणमियसिरेण ।  
जिणधम्मि ण किज्जइ केम चित्तु । 10  
चक्केसररज्जि पवड्डमाणि ।

घत्ता—खगमहिहरदाहिर्णपंतियहि सिवमंदिरि घणवाहणहु ॥

विमलादेविहि संभूय सुय कणयमाल संपसाहणहु ॥ २१ ॥

## 22

संगरभरमारियखत्तियासु  
गुणमण्डज्जोइयकुलहरासु

दिण्णी वसुहाहिवणत्तियासु ।  
सोवण्णसंतिणामहु वरासु ।

५ A अमियसेणु. ६ A नृउ, P णिउ. ७ A पीइंकर. ८ AP सुय. ९ A पायमलु.

21 AP तुहारी. २ AP इय णिसुणेप्पिणु अप्पणउ जम्मु. ३ AP गयणमग्गमग्गि. ४ AP वेण्णि वि पणविवि वंदिवि सिरेण. ५ A देविं, P देविए. ६ AP दाहिणसेट्ठियहि. ७ AP सुपसाहणहु.

13 a णायणेउ ज्ञातपदार्थः. 14 घरणियलु गृहनिगडम्. 15 चंदायणु अमावास्यायासुपवासं कृत्वा एकादिग्रासानामेकोत्तरेण चतुर्दशपारणानि । पुनरुपवासं कृत्वा चतुर्दशग्रासानामेकोत्तरहान्या चतुर्दशपारणानि । तत एक उपवास ; मय मृता.

21 4 a सुगंधवियक्खणाहि सुशाल्वविचक्षणाया. 6 a ताउ पिता वायुवेगः. 7 धुयकम्मरेणु प्रक्षालितकर्मरजाः 9 a चित्तु वैचिन्त्यम्. 12 सपसाहणहु ससैन्यस्य समण्डनस्य वा.

22 2 b सोवण्णसंतिं कनकशान्तेः श्रीपेणुपुत्रस्य.

वसुनारयणयरि समुद्रसेण  
दोहिं मि सहं गउ गहणंतरालु  
विमलपुणु णामें तेत्थु साहु  
णिमुणेवि तञ्चु पावज्ज लइय  
णारिहि णं चल मउ जणियसंति  
सिद्धायलि फाओसग्गु देवि  
अवियाणियसमच्चित्तं जडेण  
लहुपणइणिमेहुणएण ताहं  
तज्जिउ खयरिदं असिगहेण

रायहु जयसेण वसंतसेण ।  
घोलंतणीलदलवेह्लिजालु ।  
अवलोइउ णाणजलोहवाहु । 5  
सहुं घरणिहि तेण विमुक्कदइय ।  
आसंधिय विमलमइ त्ति खांति ।  
तिण्णि वि थियाइं माणि जोउ लेवि ।  
विज्जाहरेण वइरुब्भडेण ।  
उवसग्गु रइउ तीहिं मि जणाहं । 10  
गउ चित्तचूलु णासिवि णहेण ।

घत्ता—णिवसुयसुउ कणयसंति णिवइ कणयमाल परिसेसिवि ॥  
आहिउइ महियालि सुद्धमणु अप्पउ तविण विहासिवि ॥ २२ ॥

23

रयणउरइ राणउ रयणसेणु  
अण्णेक्कं वणि अचलंतु संतु  
एयहं दोहं मि मुणिवर समाणु  
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु  
सो खलु वसंतसेणाहि सयणु  
णियणत्तिउ णियवि अणंतणाणि  
खेमंकरतायहु पासि दिक्ख  
सिद्धइरिहि लेप्पिणु वरिसजोउ

तं तहु भयवंतहु दिण्णु दाणु ।  
आढत्तु हणहुं कम्मइं खवंतु ।  
संजायउ केवलि तिजगभाणु ।  
पुणु मुणिवरकमकमलयलि लीणु ।  
पणविउ हिरिभावोणल्लवयणु । 5  
णिव्विण्णउ रइसुहि चक्कपाणि ।  
माणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख ।  
थिउ देहविसग्गो मुक्कभोउ ।

घत्ता—संज्ञायइ पंचमहव्वयइं पंचहिं पंचं जि भावणउ ॥  
पंचमगह्णिञ्चलणिहियमइ परिगयपंचेंदियपणउ ॥ २३ ॥ 10

22 १ A adds after this: तह सुय उप्पणी वरभुएण, सा पुणु परिणिय पहुसुयसुएण.  
२ AP णिच्चलमइ.

23 १ AP मुणिवर. २ A हरिवाहोणवल्लवयणु. AP पंच वि.

6 b विमुक्कदइय प्रव्रज्याया विशेषणमिदम्, विमुक्ता दयिता भार्या यस्यां सा प्रव्रज्या. 10 a लहु-  
पणइणिमेहुणएण वसन्तसेनामातुलपुत्रेण चित्रचूलेण.

23 3 a एयहं दातृमारकयोरुपरि. 5 a सयणु मेहुणकः मातुलपुत्रः, b हिरिभावोणल्ल-  
वयणु हीभावेन लज्जाभावेन अवनतवदनो नीचमुखः. 6 b चक्कपाणि वज्रायुधः. 7 b समयसिक्ख  
आगमजिनशासनशिक्षाम्. 19 पणउ 'स्तेह'.

चिरु हरिगीवहु सुय धम्मभट्ट  
 संसारु भमेप्पिणु जाय देव  
 आयइ रंभाइ तिलोत्तिमाइ  
 अइवल्लु समहावल्लु खणि पलाणु  
 सहसाउहेण सयवलिहि रज्जु  
 व्रैउ लइयउं पिहियासवहु पासि  
 वइभारमहीहरि सिद्धिठाणि  
 तउ चरिवि तहिं जि रिसिजुवल्लु मयउं

णामें रयणाउह रयणकंठ ।  
 पहरंति पाव तं सावलेव ।  
 णिब्भच्छिय वंदियजइकमाइ ।  
 पाविट्टहु कासु ण भग्गु माणु ।  
 ढोइवि ववसिउ परलोयकज्जु ।  
 मइ रमइ ण संतहु गेहवासि ।  
 दिट्टउ णियसुहि जोयावसाणि ।  
 उवरिमगेवज्जहि णवरि गयउं ।

घत्ता—एक्खणतीससायरसमइं वेण्णि वि सुहुं भुजंत थिय ॥

भरहुवरिगामि हिमअहिमर्यर पुष्पयंतसुराणियर पिय ॥ २४ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए  
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे वज्जाउहचक्रवद्विवर्णणं णाम  
 एकसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६१ ॥

24 १ AP संसारि. २ AP वड. ३ AP वइभारि महीहरि सिद्धिठाणि. ४ P सुयउं.  
 ५ AP णवर. ६ A अहिमरय. ७ AP पुष्पदत्त°.

24 सावलेव पापसहितौ. 3 b वदियजइकमाइ वन्दितयतिचरणया. 6 b गेहवासि  
 गृह्णाने गृह्णाने वा. 7 b जोयावसाणि ध्यानावसाने.

पढमदीचि थियमेहइ  
पुक्खलवइदेसंतरि

सुरगिरिपुन्वविदेहइ ॥  
पवरपुंडरिगिणिपुरि ॥ ध्रुवकं ॥

1

तहिं घणरहु पहु सयमहणमिउ  
तहु देवि मणोहर तुंगथणि  
वजाउहु जो अहामिहु हुउ  
तणुतेओहामियभाणुरहु  
सहसाउहु अमरु मणोरमइ  
णिवकंतइ णंदणु संजणिउ  
भायरहं विहिं मि कमभाणियउ  
हुउ एकहि णंदिवुहु तणउ  
अवरेकाहिं दिणि सुसेण गणिय  
सा घणमुहु कुकुहु लेवि गय  
पडिपक्खि पक्खणक्खहिं हणइ  
घत्ता—दिज्जइ सालंकारहं  
एह वत्त णिसुणेपिणु

तिहुयणसिरिरमणीप्रांणपिउ ।  
गलकंदललंविद्यहारमणि ।  
संभूउ गग्भि सो ताहि सुउ । 5  
हक्कारिउ ताएं मेहरहु ।  
गेवज्जाहि आयउ सुहसमइ ।  
सो सज्जणेहिं दहरहु भणिउ ।  
पियमित्त सुमइ वरराणियउ ।  
अण्णाहि वरसेणु वराणणउ । 10  
पियमित्तहि घरु कोडावणिय ।  
भासइ देविहि पणमंति पय ।  
कियचाउ एहु जो रणि जिणइ ।  
ताहं सहस्सु दीणारहं ॥  
अवर वि पक्खि लपपिणु ॥ १ ॥ 15

2

कुलिसाणणु कुकुहु कंचणिय  
गरुडेण वि जिण्णइ एहु ण वि  
ता हरिसें वाइय जयवडह  
तहिं आया घणरहु मेहरहु  
पियमित्तसुमइकरयलपुसिय

अकरपइ सुमइदि धरंकाभिमणिय ।  
उइंतहु संकउ गयणि रवि ।  
खुज्जुय णचंति लउहमडह ।  
दहरहु वरसेण णंदि सुमइ ।  
चिरजम्मणियवरवंदणिवणिय । 5

1 १ AP धिए मेहए, २ AP पाणपिउ, ३ AP विवन्नापहु ४ A पाण, ५ AP अवत्त.

2 १ P परि कामिणिय, २ AP तुइय, ३ A पंतिकर, ४ AP वरराणिय

1 1 a पढमदीति जग्घदीये, थियमेहर निरुत्ते, २ सहसाः समस्यो ३ घणरु भाणियउ घनेण भणित्ते, 12 a पणमुहु पणसुण एहि तुइयणम १३ विवन्नापहु १४ ५ १५ b अवर अकरा धियमित्ता नाम.

2 1 a कुलिसाणणु कुरुकुहु; २ वणि प पाणु लपपिणु; ३ विवन्नापहु ४ वरराणिय गणोरणु, ५ b पदि नदिक्कंन; ६ अवर सुणेण.



जुञ्जंति पक्खि ते पवलवल  
उल्लणवलणपरियत्तणहिं  
रोसुद्धयकंधरकेसरय  
तं ताएं पुच्छिउ मेहरहु  
किं तंवचूल जुञ्जंति सुय

घत्ता—कहइ कुमार सुहावइ  
सयडजीवि तिद्धावर

चंचेलचंचुचरणारचल ।  
पेहुणसिरसिहरवियत्तणहि ।  
जं केव वि ण थोसरंति सरय ।  
संवोहहुं भव्वजीवणिवहु ।  
भणु अवहिवंत सग्गगचुय । 10

एत्थु दीवि अइरावइ ॥  
रयणउरइ णर भायर ॥ २ ॥

## 3

पहरेवि परुप्परु कढिणभुय  
णामेण पसिद्धा भइ धणि  
वहुपुंडरीयपंचाणणइ  
सियकण्ण तंवकण्ण त्ति गय  
कोसलणयरिहि गोउलियघरि  
एप्पिणु जुञ्जेप्पिणु खयहु गय  
वरसेणसत्तिसेणहं णिवहं  
ए चूलि पहूया संभरमि  
दीवाइदीवि खगसिह्ररि वरि  
खगु गरुलवेउ दिहिसेण प्रियं

घत्ता—कुसुमालुद्धइदिंदिरि  
जइवर तेहिं णियच्छिउ

वलिवद्दहु कारणि कोवजुय ।  
ते वे वि मरोप्पिणु तेत्थु धणि ।  
कंचणसरितीरइ काणणइ ।  
संजाया पुणु जुञ्जेवि मुंय । 5  
जाया सेरिह णववयहु भरि ।  
तेत्थु जि पुरि कुरर पलद्धजय ।  
अग्गइ जुञ्जिवि उज्जियक्खिवहं ।  
भउ पेक्खालुअहं मि वज्जरमि ।  
उत्तरसेढिहि कणयाइपुरि । 10  
सुय चंदविचंदतिलय सुहिय ।

सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥  
णियजम्मंतरु पुच्छिउ ॥ ३ ॥

## 4

थिउ लंछणु धादइविडवि जहिं  
सुरदिसि अइरावइ तिलयपुरि

रिसि अक्खइ धादइसंडि तहिं ।  
पइ अभयघोसु सिरि तासु उरि ।

५ A चरणा चवल. ६ AP केम वि णोसरति.

3 १ AP वणि. २ A °तवकण्णंत गय. ३ A मय. ४ A उरय लद्धजय, P उर पलद्ध-  
जय, T कुरय मेपौ, K कुर मेपौ, पलद्धजय प्रलद्धजयौ. ५ AP चूलिय हूया. ६ AP °सिहरिसि.  
७ AP पिय. ८ A कुसुमलुद्ध°.

6 b चंचेलचंचु वक्कचुः. 7 a °परियत्तणहिं परिवर्तनैः; b पेहुण° पिच्छानि. 8 b सरय  
कोपयुत्तौ. 11 a सुहावइ सुखास्पदे. 12 a सयडजीवि शकटजीविनौ, तिद्धावर तृष्णापरौ.

3 3 a °पुंडरीय व्याघ्र. 4 a सियकण्ण श्वेतकर्णः, तंवकण्ण ताम्रकर्णः इति गर्जो जातौ.  
5 b सेरिह महिपौ. 6 b कुरर मेपौ. 8 b पेक्खालुअहं प्रेक्षकयोर्द्वयोर्विधाधरयोः. 9 a दीवाइदीवि  
जम्बूद्वीपे, खगसिहरिवरि विजयार्थे. 10 चंदविचंदतिलय चन्द्रतिलकविचन्द्रतिलकौ.

जिह तिह गेहिणि कंचणतिलय  
मयरद्धयवाणवरोल्लियहि  
णामें जगि जाणिय जय विजय  
विज्जाहरगिरिदाहिणइ तडि  
तहि संखु खयरु तहु जय घरिणि  
दिण्णी जयविजयजणेरयहु  
संवच्छरंति कइयवणिलय  
पभणइ सुवण्णतिलयहि तणउं  
आवेहि जाहुं जोयहि णिवइ  
मेरउं वणु जोव्वणु किं ण सुहुं

घत्ता—ताहि वणु अवगण्णिवि  
गउ महिवइ वणजत्तहि

णावइ रडणाहहु रइविलय ।  
जाया सुय वेणिण पियल्लियहि ।  
णं कामदेव णिमैयरधय । 5  
मंदरपुरि सरसु णंडंतणडि ।  
सुय पुहइतिलय ससिमुहि तरुणि ।  
तहु अवर ण रुच्चइ तहि रयहु ।  
णामेण विसारि चंदतिलय ।  
वणु फुल्लिउं फलियउं घणघणउं । 10  
ता चवइ सवत्ति विरुद्धमइ ।  
जें जोर्यहि दूयहि तणउं सुहुं ।

पडिवक्खु जि वहु मण्णिवि ।  
मलिवि माणु मृगणेत्तहि ॥ ५ ॥

5

साहीण काहि भत्तारदय  
करपंकयलुहियभालतिलय  
रिसिणाहहु संजमवयधरहु  
अवलोइवि पंचमहवभुयइं  
अण्णउं मोहें ण विडंविउं  
इंदियपडिवलु रणि णिज्जियउं  
मुउ सव्भावें सम्मयणिरउ  
सिसु तासुं वे वि तेत्थु जि अमर  
दिवि मरिवि वे वि ते भाइवर  
भुवि जाया गरुलवेयधणहि

सुमईगणिणिहि सा सरणु गय ।  
तवचरणि लग्ग पुहईतिलय ।  
पहुणा किउ भोयणु दमवरहु ।  
सुरकिणरणायरायथुयइं ।  
ससुण्ण वउ जि अवलंविउं । 5  
अरहंतणामु तेणज्जियउं ।  
हुउ अंतिमकपि पुरंदरउ ।  
जाया अच्छरकरधुयचमर ।  
तिलयंतिम चंद विचंद णर ।  
जाउंउयजडिलमंडियणहि । 10

4 १ AP वाणविरोल्लियहि. २ AP ण मयरधय. ३ AP मडिगुणि. ४ AP मरिणि. ५ AP कइयवणिलय. ६ A फलियउ घणउ घणउ, P फलिय घणउ. ७ A मर. ८ A जोयहि, P जें जायहि. ९ P म्रिगणेत्तहि.

5 AP अरहु. २ AP वे वि तलु. ३ P जाउहु.

4 3 b रइ विलय रत्तिवन्तिता. 4 a वाणवनेतिरति काणकने. 5 a कामदेवौ परतु मकरध्वजरत्तितौ मस्तके. 6 a म्रिगणु सिमुनतंणर. 7 a मरिणि. 8 a कइ यवणिलय कण्डवृभूता, b विसारि इत्तिता. 9 a मरिणि. 10 a मरिणि. 11 a मरिणि. 12 a मरिणि.

5 1 a साहीणेत्तदि स्पर्शिता न रण्येति म्रिगणेत्तदि. 2 a मरिणि. 3 a मरिणि. 4 a मरिणि. 5 a मरिणि. 6 a मरिणि. 7 a मरिणि. 8 a मरिणि. 9 a मरिणि. 10 a मरिणि.

तं सुणिवि कुमारहि वोल्लियउं  
भणु अभयघोसु उप्पणु कहि  
जइ चवइ पुंडरिंकिणिपुरिहि

घत्ता— तणु मेल्लिवि तियसाहिउ  
जो सक्के पणविज्जइ

मुणि जम्मंतरु उव्वेल्लियउं ।  
पिउ वसइ जहि जि गच्छामि तहि ।  
णंदणु घणमालिणिसुंदरिहि ।

जायउ तेलुक्काहिउ ॥  
सो जिणु किं वण्णिज्जइ ॥ ५ ॥ 15

## 6

तहिं अच्छइ देउ सबंधुयणु  
परिभमणणमणउट्टाणणिहि  
दिग्वासं एहउ वज्जरिउं  
गय वेणिण वि चिरजणणासयहु  
तायत्तणु तहु ससुयत्तणउं  
गुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु  
गय णिव्वाणहु खरतवतवण  
भउ णिसुणिवि पक्खिहिं कंदियउं  
किमिपिंहु ण भक्खिउ मरिवि गय  
वेंतरसुर जाया भूयकुलि  
अण्णेक्कु भूयरमणंतवाणि  
तहिं जहि अच्छइ सुउ घणरहहु

घत्ता— भणिउं तेहिं जडपक्खिहिं  
तुज्जु पसाएं आयउं

जोयंतु कूडकुक्कुडयरणु ।  
चितंतु घोरसंसारविहि ।  
तं सुणिवि खयरभायर तुरिउं ।  
पयडेप्पिणु अगइ जणसयहु ।  
कम्माणुबंधविणियत्तणउं । 5  
वैउ लइउ णविवि गोवद्धणहु ।  
ते चंदविचंदतिलय सवण ।  
अप्पाणउं गरहिउं णिंदियउं ।  
जिणवयणे दुक्खियवेल्लिहय ।  
तहिं एक्कु देववणि गिरिगुहिलि । 10  
भूयाहिव वेणिण वि पत्त खणि ।  
संदरिसियविमलणाणपहहु ।

अम्हंहिं किमिउलभक्खिहिं ॥  
दिव्वंभवंतरु जायउं ॥ ६ ॥

## 7

मेहरहदेव पइं दिण्णु सुहुं  
मणुउत्तरमहिहरपरियरिउं  
पणयाललक्खजोयणाविउल्लु

आवहि विमाणि आरुहहि तुहुं ।  
संसरिक्कुलसिहरिअलंकरिउं ।  
अवलोयहि मणुयखेत्तु सयल्लु ।

४ A गच्छामु, P गच्छमि. ५ AP तइलोक्का°.

6 १ A °रयणु. १ AP वउ. ३ A दुक्खिय वेणिण हय, P दुक्खियवेल्लिहय. ४ AP सुउ अच्छइ. ५ A अम्हं. ६ AP दिव्वु.

7 १ AP विवाणि. २ P मणुसुत्तर°. ३ P °परियरउं. ४ AP सरिसर°.

11 b उव्वे ल्लियउ प्रकटीकृतम्.

6 3 a दिग्वासे दिग्वाससा. 4 a °जणणासयहु पितृग्रहम्. 7 b सवण श्रमणौ. 8 a भउ पूर्वभवम्. 10 b देववणि देवारण्ये.

7 2 a मणुउत्तरमहिहरपरियरिउं मानुषोत्तरगिरिवेष्टितं मनुष्यक्षेत्रम्.

उवयारहु पडिउवयारु किह  
 दुल्लंघु सदेवहं दाणवहं  
 तां इच्छिवि कीलाभवणु माणि  
 णियसहयरकिकरगुरुसहिउ  
 णहि सुरहरि जंति विविहँपुरइं  
 घत्ता—एहु भरहु अवलोयहि  
 एह दिव्व गंगाणइ

तुह किज्जइ जसु जगि रिद्धिसिह ।  
 अहिवंदणिज्जु वरमाणवहं । 5  
 आरूढउ सुंदरु सुरभवणि ।  
 कुक्कुडदेविहिं भत्तिइ महिउ ।  
 दावंति देव देसंतरइं ।  
 इहु हिमवंतु विवेयहि ॥  
 एह सिधु मंथरगइ ॥ ७ ॥ 10

## 8

इहु दीसइ णिम्मलु पोमसरु  
 हइमवउ एहु पूरियदरिउ  
 तुहिणइरि एहु गरुयउ अवरु  
 हिरिदेवि एत्थु णिच्चु जि वसइ  
 इहु एत्थु वहइ णामेण हरि  
 इहुं मंदरु ए गयदंतगिरि  
 इहु णिसहु णाम महिहरु पवरु  
 दिहिदेवि एत्थु विरइयभवण  
 एयाइं विदेहइं दोणिण पिय  
 इहु णील्लिहि केसरि णाम दहु  
 इहुं रम्मि एउ णइणारिवर  
 इहु रम्मिधराहरु पुंडरिउ  
 घत्ता—बुद्धिदेवि इहुं अच्छइ  
 जिणवरसेवासिद्धउं

सिरिदेविसहिउ रंजियभमरु ।  
 वररोहियरोहियाससरिउ ।  
 अण्णेक्कु महासयवत्तसरु ।  
 हरिवरिसु एउ सग्गु वि हसइ ।  
 अण्णेक्कु पेक्खु हरिकंतसरि । 5  
 इहु सुरकुह उत्तरकुह सँसरि ।  
 इहु जोवहि णिव तिगिच्छिसरु ।  
 अच्छइ सुररायणिहँत्तमण ।  
 सरि सीया सीओया वि थिय ।  
 इहुं दीसइ कित्तीदेविसँहु । 10  
 णरकंत एह पवहइ अवर ।  
 सरु एत्थु देव पाणियभरिउं ।  
 जगि माणउ जो पेच्छइ ॥  
 तेण णयणफलु लद्धउं ॥ ८ ॥

५ P तो. ६ AP णिउ सहयर°. ७ A विविफुरइं. ८ K देसतइं.

8 Mss. read एहु and इहु promiscuously here. १ A रजिय°. २ A हइमवइ.  
 ३ P रोहिणि रोहियासउ सरिउ. ४ A तुहिणयरि. ५ P reads this line after 8 b. ६ A सुर  
 कुरु. ७ A ससरि. ८ AP °भवणु. ९ A सुयराय°. १० AP णिहित्तमणु. ११ A केसर. १२ A  
 ओ दीसइ, P एहु दीसइ. १३ A सुहु. १४ AP एहु, probably ए is confounded with ए.  
 १५ A रम्मि. १६ AP एह.

4 b रिद्धि सि ह ऋद्धिशिखा लक्ष्मीपरमप्रकर्षः. 6 a की ला भ व णु क्रीडाभ्रमणम्. 7 b कुक्कुड दे वि हिं  
 कुक्कुटचराभ्याम्. 9 b वि वे य हि जानीहि.

8 2 a हइमवउ हैमवतगिरिः, b रो हि य रो हि या स रोहितरोहितास्ये नद्यौ. 3 a तु हि ण-  
 इ रि महाहिमवान्, b महासयवत्तसरु महापद्महृद. 5 a a हरि हरिन्नदी. 6 b ससरि नदीसहितौ.  
 8 b सुररायणिहत्तमण सौषमेन्द्रे आरोपितचित्ता. 10 a दहु हृद, b °दे विसहु °देव्या सह.

9

णिव खेत्तु हिरण्वंतु णियहि  
रुप्पयकूल वि इह एम गय  
सो एहु सिहरिगिरि सिहरपिउ  
लच्छीदेविहि रुच्चइ रमइ  
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिउं  
फुल्लियतरुमालापरिमलइं  
पिच्चंति कलमकयलीहलइं  
कच्छाइयाइं विसयंतरइं  
दरिसंति<sup>१</sup> अमर जोयंति णर

घत्ता—कंदरिर्दरिक्कीलियसुर  
अकयइं मणियरतंवइं

सोवण्णकूलसरिजल्लु पियहि ।  
जहि कुच्चहि सीहहिं हात्थि हय ।  
सरु एत्थु महापुंडरिउ हिउ ।  
ओहच्छइ इह वासरु गमइ ।  
अइरावउ एउं खेत्तु कहिउं ।  
वरिसंति मेहु धाराजलइं ।  
णच्चंतमोरपिच्चुज्जलइं ।  
खेमाइयाइं णयरइं वरइं ।  
विम्हइयहियय कंपवियकर ।

जोइवि णाणागिरिवर ॥  
वंदिवि जिणपडिंविं वइं ॥ ९ ॥

10

णरखेत्तु गिरीसरिमालियउं  
तहु उप्परि मणुयहं णत्थि गइ  
पडिआया घणरहनृवणयरु  
पुज्जिवि कुमारु गय तियस तहिं  
संसारु असारु विवेइयउ  
घणरहिण पुत्तु हक्कारियउ  
लोयंतिएहिं उद्दीवियउं  
जाणें माणिक्कविराइएण  
गउ वणि किउ देवें तवचरणु

घत्ता—भूगोयरखगरायहिं  
णमिउ जिणिदु हयत्तिइ

मणुसुत्तरु जाम णिहालियउं ।  
पल्लु सविम्हयभिण्णमइ ।  
जयजयसहें पइसेरिवि घरु ।  
णंदणवणि णियणयराइं जहि ।  
इंदियकंखइ पडिचोइयउ ।  
मेहरहु राज्जि वइसारियउ ।  
वेरग्गु तेणं णिरु भावियउं ।  
णरखयरसुरिंदुच्चाइएण ।  
उप्पायउ केवल्लु मलहरणु ।

चउविहदेवणिकायहिं ॥  
तणयं जाइवि भत्तिइ ॥ १० ॥

9 १ A वरिसंत. २ A जलघाराइ. ३ A °केली°. ४ AP णच्चंति. ५ P °पिंल्लुज्जलइ. ६ P दरिसंति य अमर°. ७ P विंभइय°. ८ A दरकेलिय°.

10 १ A मणुउत्तरु. २ AP सविंभय°. ३ AP णिवणयरु. ४ A पइसेवि, P पइसवि. ५ A °वणणिव°. ६ AP तेहिं. ७ A वणु. ८ AP णविउ.

9 3 a सि हरि गिरि शिखरी नाम पर्वत, सि हर पि उ शिखरै. प्रियः. 4 b ओ हच्छइ एया लक्ष्मीः तिष्ठति. 5 a रत्तारत्तोव° रक्ता रत्तोदा च. 7 a पि चंति पक्कानि भवन्ति. 8 a विसयतरइ कच्छादिदेवा. 11 a अकयइं अकृत्रिमाणि, म णियरतंवइं रत्नकिरणताम्राणि.

10 1 a मालियउं °मालायुक्तम्, सहितमित्यर्थः. 3 a घणरहनृवणयरु पुण्डरीकिणी. 5 b पडिचोइयउ पश्चाद्वलितः, पुत्र. प्रेरितो वा. 11 a हयत्तिइ हतपीडया भक्त्या.

## 11

अण्णहिं दिणि वणि तरुकोमलइ  
 आसीणउ राणउ मेहरहु  
 विजाँहरविजाचोइयउं  
 तं ताहं ण वच्चइ पँउ वि किह  
 आरुँडुउ वड्हियअमरिसउ  
 महियालि कीलंतु रत्तु सुयणु  
 उत्थल्लिवि घल्लंमि एउ खलु  
 इय चित्तिवि कुल्लु अकारणइ  
 तलि पइसिवि चाँलिय तेण सिल

पियमित्तइ समउं सिलायलइ ।  
 जांवच्छइ ता ढक्कंतु णहु ।  
 उप्परि विमाणु संप्राइयउं ।  
 वायरणवियारणु जडहुं जिहं ।  
 खेयर अवलोयइ दसदिसउ । 5  
 दिट्ठउं उवविट्ठउं णरमिहुणु ।  
 अणुहवउ विर्माणणिरोहफलु ।  
 विज्जइ पायालवियारणइ ।  
 डोल्लिउ वहुवरु थरहरिय इल ।

घत्ता—अरिवरं तणु व वियप्पिवि  
 मेहरहं पँडिपेल्लिय

सिल चरणयलं चप्पिवि ॥ 10  
 तासु जि मत्थइ घल्लिय ॥ ११ ॥

## 12

संचलहुं ण सक्कइ सो खयर  
 तहु घरिणि भणइ उद्धरहि लहुं  
 मा मारहि रमणु मेहुं तणउ  
 तं<sup>३</sup> णिसुणिवि करपल्लवि धरिवि  
 पहु भणइ म मेल्लहि करुणसरु  
 विहल्लुद्धारणि पसरियहरिस  
 थिउ वीलावसु ओणल्लमुहु  
 पियमित्तइ णाहु पपुच्छियउ  
 तं णिसुणिवि ओहिणाणणयणु

आकंदइ रवपूरियविवरु ।  
 दे देहि वप्प पइभिक्ष्व महुं ।  
 तुहुं देवं वइरिविद्दावणउ ।  
 कड्डिउ कारुणं दय करिवि ।  
 लइ अम्मि तुहारउ एहु वरु । 5  
 पिसुणहं मि खमंति महापुरिस ।  
 णहंयल्लु अवलोइवि जायँदुहु ।  
 कहु तणउ एहु कहिं अच्छियउ ।  
 अक्खइ णरवइ पँहुल्लवयणु ।

घत्ता—धादइसंडपरावइ  
 रामगुत्तु त्रंनु होंतउ

तहि संखउरि सुहावइ ॥ 10  
 संखिणिरमणीरत्तउ ॥ १२ ॥

11 १ P ढक्कंतु. २ A विजाहर. ३ AP विवाणु सपाइयउ. ४ P वच्चइ उवरि किह. ५ A आरुडउ. ६ A चत्तसुयणु. ७ A घल्लिवि एहु, P घल्लिमि एउ. ८ AP विवाणु°. ९ P विजाइ. १० A तेणुच्चइय सिल. ११ A अरिवर. १२ A पडिमेल्लिय.

12 १ A मह तणउ. २ AP देउ. ३ P तें. ४ AP ओणुल्लमुहु. ५ AP णहयर. ६ A जायसुहु. ७ AP महिवइ. ८ A पफुल्लवयणु, P पफुल्लवयणु. ९ AP णिउ.

11 2 b ढक्कंतु आच्छादयन्. 4 a पउ वि पदमपि, b वायरणवियारणु व्याकरणविचारः. 8 b पायालवियारणइ पातालविदारिण्या. 9 b इल पृथ्वी. 10 a तणु व तृणमिव. 11 घल्लियक्षिता.

12 2 b पइभिक्ष्व पतिभिक्षा, पतिजीवितमित्यर्थः 3 a महुंतणउ मदीय 6 a विहल्लुद्धारणि दु खितजनोद्धरणे. 7 a वीलावसु लजापरः, ओणल्लमुहु अधोमुखः. 9 b पहुल्लवयणु प्रफुल्लवदनः.



## 15

भवभावपवेवियसव्वतणु  
तावेह्णु कवोउ पराइयउ  
किर झ त्ति झडप्पिवि लेइ खलु  
ता पक्खिणारिदं वारियउ  
किं मारहि वारहि अप्पणउं  
ता पुच्छइ दढरहु देव किह  
पहु अक्खइ मंदरउत्तरइ  
पुरि पउमिणिखेडइ मंदगइ  
धणमिचु तासु वल्लहु तणुउ  
मुइ वणिवरि भायर जायरइ  
ते लुद्ध मुद्ध मुय वे वि जण

घत्ता—इहु मारइ इहु णासइ  
णहि पंतं हउं दिट्ठउ

वलमरणुत्तासिउ सरणमणु ।  
तहु पच्छइ गिद्धं पराइयउ ।  
णियवइरिहि लुंवि वि खाइ पलु ।  
पइं एहु भवंतरि मारियउ ।  
मा पावहि भवि दुहुं घणघणउं । 5  
महुं कहहि कहाणउं विचु जिह ।  
खेत्तंतिरि सोक्खणिरंतरइ ।  
धेण सागरसेणहु अमियमइ ।  
पुणु जायउ णंदिसेणु अणुउ ।  
अवरोप्परु पंहणिवि धणहु कइ । 10  
जाया खग मारणदिण्णखण ।

भीयउ रक्ख गवेसइ ॥

मज्झु जि सरणु पइट्ठउ ॥ १५ ॥

## 16

अण्णोण्णु जि भक्खिवि जणु जियइ  
इहु दीणु इहु णिरु भुक्खियउ  
किं किज्जइ खगु दिज्जइ जइ वि  
तहिं अवसरि कुंडलमउडधरु  
जइ देसि ण तो गिद्धहु पलउ  
चाइत्तणु तेरउ किं करइ  
मइं चाउ करेवउ तेम तिह  
वर अच्छउ णिग्गुणु लुहियतणु

ण णिहालइ णिवडंती णियइ ।  
इय चिंतिवि राउ द्रवक्खियउ ।  
णउ लब्भइ धम्मलाहु तइ वि ।  
अंवरयलि थिउ भासइ अमरु ।  
पलि दिण्णइ पारावयहु खउ । 5  
तो विहसिवि महिवइ वज्जरइ ।  
जिउ ण मरइ ण हवइ हिस जिह ।  
णउ ओर्याविज्जइ प्राणिग्गुणु ।

15 १ AP चल. २ AP सेणु ३ A झडेप्पिणु. ४ P भवि भवि दुहु घणउ. ५ P वणि-  
सागर°. ६ A पहरिवि. ७ P °दिण्णमण.

16 १ A एउ. २ A दुवक्खियउ, P दुवक्खियउ; T दुवक्खियउ पक्षद्वय. ३ A हिज्जइ.  
४ AP सेणहु. ५ A तो. ६ A उज्जाविज्जइ. ७ A पाणिगणु, P पाणिगुणु.

15 1 a °पवे विय° प्रकम्पिता. 2 a कवोउ कपोत.. 4 a पक्खि गृध्र.. 5 b धण भार्या.  
9 b अणुउ अनुजः. 10 a जा यरइ जातरजसी जातकाळ्यौ, b धणहु कइ धनस्य कृते. धनार्थम्.  
11 b °दिण्णखण °दत्तप्रस्तावौ. 12 b रक्ख रक्षणम्.

16 2 b द्रवक्खियउ भीत. 5 a पलउ क्षय, b पलि दिण्णइ माने दत्ते सति. 6 a  
चाइत्तणु त्यागित्वम्. 7 b जिउ जीव. 8 b ओ या विज्जइ उपद्रव प्राप्यते, मार्गं



किं वग्धु भणिज्जइ पत्तु गुणि  
घत्ता—जेहिं णियागमि बुत्तउं  
ते लहंति दुणिरिक्खइं

आहारु असुद्धु ण लेंति मुणि ।  
आमिसु दिण्णउं भुत्तउं ॥ 10  
भवि भवि विविहइं दुक्खइं ॥ १६ ॥

## 17

तं णिसुणिवि देवें संसियउ  
गउ अमरु णिवाणुएण भणिउ  
को एहु किमत्थु समागमणु  
पइं दमियारिहि रणि पाइयउ  
भवि भमिवि सुइरु कइलासयडि  
वरसिरिदत्ताकंतावसहु  
चंदाहु णाम प्रिउं पाणपिउ  
जोइसकुलि उप्पणणउ अमरु  
ईसाणणामकप्पाहिवइ  
महुं केरी चायसुभोयथुइ  
आपं महु सीलु णिरिक्खियउ

मेहरहु सिरेण णमंसियउ ।  
कोऊहल्लु महं हियवइ जणिउ ।  
तां कहइ णराहिउ रिउदमणु ।  
हेमरहु णाम णिउ घाइयउ ।  
वणि पण्णकंततीरिणिणियडि । 5  
सुउ जायउ सोम्महु तावसहु ।  
पंचग्गिताउ तउ तेण किउ ।  
गउ जहिं हरि अच्छइ कुलिसकरु ।  
तहिं तियसहं णिसुणिवि वयणगइ ।  
इहु आयउ कुद्धुं अजायरुइ । 10  
चित्तेण असेसु परिक्खियउ ।

घत्ता—एउ वयणु णिसुणेर्पिणु  
वंदिवि जिणवरसासणु

पक्खें रोसु मुपप्पिणु ॥  
कयउं विहिं मि संणासणु ॥ १७ ॥

## 18

बेणिण वि सुरुवअइरुववर  
णरणाहु तेहिं संमाणियउ  
पइं रउरवि णिविडमाण धरिय  
गय सुरवररापं दमवरहु  
दुंदुहिरउ मणिकंचणवरिसु

सुररमणवणंतरि जाय सुर ।  
पइं देवें धम्मु जणि जाणियउ ।  
अम्हइं मि कुजोणिहि णीसरिय ।  
कय भोज्जजुत्ति संजमधरहु ।  
सुरजयसरु पाउसु कयहरिसु । 5

17 १ A तो. २ AP पण्णकति°. ३ A सोमहु. ४ AP पिउ. ५ A कुलिसधरु. ६ A वायसुभोय°. ७ A कुद्धु व जायरुइ. ८ P णिसुणेविणु.

18 १ AP धम्मु देव.

17 2 a णि वा णु ए ण नृपानुजेन हृदयेन. 4 a पइ त्वया अनन्तवीर्येण सता दमितारिनृपस्य भृत्यो हेमरथो मारितः, पाइयउ पदातिः. 5 b पण्णकत° पर्णकान्ता नाम नदी. 6 a वरेत्यादि वरा श्रीदत्ता कान्ता तस्या वशस्य. 10 a चायसुभोयथुइ त्यागभोगस्तुतिः, b अजायरुइ अजातरुचिः.

18 1 a सुरुवअइरुव° सुरुपातिरूपनामानौ, b सुररमणवणंतरि देवारण्ये. 5 b पाउसु गन्धोदकवृष्टिः.

मरु सुराहियंगु मंथरु वहइ  
पुणु णंदीसरि पोसहु करिवि  
ईसाणसुरिंदें वण्णियउ  
वण्णियउ कहु केरउं चरिउ पइं

घत्ता—तें<sup>३</sup> णियगुज्जु ण रक्खिउ  
मइं संथुउ परमेसरु

जणु जणहु दाणु विलसिउ कहइ ।  
थिउ पडिमाजोएं जिणु सरिवि ।  
अण्णहिं देवहिं आयण्णियउं ।  
को तुज्जु वि गरुयउ देवें सहं ।

सुरवरराएं अक्खिउ ॥ 10  
सिरिमेहरहु महीसरु ॥ १८ ॥

## 19

तं णिसुणिवि देवि सुरुविणिय  
जहिं अच्छइ राउ समाहिरउ  
दोहिं मि गाढउ आलिंणियउ  
दोहिं मि सुमहुरु संभासियउ  
णीवीणिवंधु आमेल्लियउ  
दोहिं मि सवियारु पलोइयउ  
अचलत्तें अहिणवमंदरहु  
तं वेण्णि मि वंदेप्पिणु गयउ  
अण्णहिं दिणि सुर चवंति जुवइ  
ता भासइ ईसाणाहिवइ

घत्ता—ता देवय मणि कंपइ  
रुवें मण्णइ माणवि

अणेक्क दुक्क अइरुविणिय ।  
तहिं ताहिं तासु दाविउ समउ ।  
दोहिं मि सुहचुंबणु मग्गियउ ।  
दोहिं मि आहरणहिं भूसियउ ।  
दोहिं मि थणकलसहिं पेल्लियउ । 5  
दोहिं मि उरुउप्परि ढोइयउ ।  
जं हियउ ण हित्तउ सुंदरहु ।  
वंदारयघरिणिय अविश्यउ ।  
णरलोइ अत्थि किं रूववइ ।  
पियमित्तहि केरी रूवगइ । 10

पुरहूयउ कि जंपइ ॥  
आगय रइ रइसेण वि ॥ १९ ॥

## 20

अइंसणीहिं सुरकामिणिहिं  
अब्भंगिउ अंगु मणोहरउं  
वेण्णि वि पुणु दारि परिट्ठियउ  
अक्खिउ कण्णइ काट्ठियहरइ

जोइवि अइरावयगामिणिहि ।  
उग्घाडउं तुंगपयोहरउं ।  
देविउं दंसणउकंठियउ ।  
अच्छंति त्थुउं दारंतरइ ।

२ AP देउ. २ AP तं.

19 १ A समहुरु. २ AP पुरुहअउ.

20 १ A सहसणीहिं. २ P देविहिं. ३ AP तियउ.

6 b सुरहियंगु सुरमिताङ्ग., सुगन्धस्वरूप इति भाष्ये.

19 2 a समाहिरउ समाधिरतः, b दाविउ समउ अपत्यो दग्धि. 5 a को नी ति ५ पु  
कटीवस्त्रवन्धनम्. 6 b उरुउप्परि दृढयोपरि, वक्षसि. 8 b अविश्यउ अग्निं ज्योते. 11 b पु-  
हूयउ देवेन्द्रः. 12 a माणवि मनुष्यन्वी.

20 1 a अइंसणी हिं प्रच्छन्नाम्. 3 a दारि मने.

कि खेयरीउ किं अच्छरउ  
तं ण्हाइवि जणमणसाहणउं  
सुरणारिउ पुणु पइसारियउ  
अवलोइवि झीणु रूवविहवु  
तेरउं सरूउ रूवहु ढलिउ

घत्ता—ता रइसुहि णिविण्णी  
उम्मण दुम्मण थक्की

तुह दंसणमणउ अमच्छरउ । 5  
लहुं लइयउं ताइ पसाहणउं ।  
माणवजणदूरोसारियउ ।  
देवयहिं पवुत्तु ण किं पि धुवु ।  
पुव्विल्लहि रेहहि परिगलिउ ।

सा पियमित्त विसण्णी ॥ 10  
माणमरट्टे मुक्की ॥ २० ॥

## 21

तं पेक्खिवि गउ मणहरवणहु  
चउपव्वपयारि अणासयहं  
सावयअज्झयणु ण तं रहइ  
विविहउ घरधम्मपवित्तियउ  
दढरहिण ण रज्जु समिच्छियउ  
सुउ मेहसेणु पच्छइ थविवि  
सहुं भाइइ सहसा लइउ तउ  
धीरहिं णिंदियइंदियसिवहिं

घत्ता—सिरिपुरि घरि सिरिसेणहु  
अंतयपुरि णिवणंदहु

राणउ पणविवि घणरहजिणहु ।  
आउच्छइ वित्ति उवासयहं ।  
सत्तमउ अंगु रिसिवइ कहइ ।  
किरियाउ असेसउ उत्तियउ । 5  
णीसारु दुरंगु दुगुंछियउ ।  
मेहरहिं जिणवरु विण्णविवि ।  
वारहविहु सोसिउ विसमभउं ।  
भयसमसहसहिं सह पत्थिवहिं ।

भुंजिवि दिण्णसुदाणहु ॥ 10  
थाइवि अमराणंदहु ॥ २१ ॥

## 22

तहिं भत्तपाणगिद्धिइ रहिउ  
पइसिवि वणंगिरिवरकंदरइ

इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ ।  
फाणिविच्छियैघरि तरुकोइरइ ।

४ A समच्छरउ. ५ A सुहणिविण्णी.

21 १ A हरइ. २ A विण्णिविवि, P वेण्णविवि. ३ A विसमतउ. ४ A णिवदाणहु.

22 १ AP भत्तु पाणु. २ A वणं गिरि°. ३ A विच्छियतरुगिरि°. ४ AP कोटरइ.

५ b अमच्छरउ मत्तरहिते. १ b रेह हि गोभायाः. 10 रइसुहि रनिसुगे.

21 2 a चउपव्ववारि चतु पर्वप्रकारे, अणासयहं अनायानानुसोपिनानाम्, अथवा कर्मा-  
धवर्गानाम्, b उवासयहं श्रावणानाम्. 3 a-b सावयअज्झयणु मत्तमउ अनु उपायराण्ययन  
मत्तमदम्. 4 a घरधम्मपवित्तियउ अणुमत्तगुणवत्तमिधायत्तानि; b णिं वियउ पइसिवि विसमभउ  
पइसावयानाः. 5 b विसमभउ मत्तम. 8 a इंदियमिवइ इन्द्रिर्म्मगानि 10 a अंतयपुरि  
रुण्णुं इत्यादि; णिवणंदहु नन्दनगण्णुं.

22 1 a णिं डिइ र्मिउ आताभरहित; / णिं डिउ मत्ता मत्तिउ मिच्छियमत्तासहिउ.  
2 A विच्छियैघरि वृक्षिण.

णिण्णासइ सँत्त वि सो भयइं  
दिहु बंभचेरु णवविहु धरिउ  
दहभेउ विकालु वि लक्खियउ  
वारह अणुपेक्खउ चिंतवइ  
चउदहगुणठाणइं अब्भसइ  
परिभाविवि सोलहकारणइं

घत्ता—सहुं बंधवेण अणिंदहु  
दूसहणिट्ठाणिट्ठिउ

मयच्चिंधइं तहु अहु वि गयइं ।  
दहविहु जिणधम्मु परिप्फुरिउ ।  
पयारह अंगइं सिक्खियउ । 5  
तेरहँ चारित्तइं थिरुं थवइ ।  
पण्णारहविह पमाय पुसइ ।  
तित्थयरत्तणहकारणइं ।

गउ णहतिलयगिरिंदहु ॥  
तहि अणसणिण परिट्ठिउ ॥ २२ ॥ 10

## 23

हियउल्लउं मुणिमग्गेण णिउ  
जइपुंगम घणरहरायसुय  
सव्वत्थासिद्धिसुरहरि धवल  
तेत्तीससमुंइजीवियपवर  
तइ वरिससहासइं लेँति खणु  
जगणाडिपलोयणणाणधर  
ते णिप्पडियार पसण्णमइ  
रिज्झंति धम्मसंभासणइं  
केवलि उप्पण्णइ जिणवरहं  
सहुं भायरेण अहमिंदु सुरु

घत्ता—गोत्तमेण जं अक्खिउ  
जं सुहु सोत्तहि माणइ

पाउंगमरणु मासंतु किउ ।  
मँय वेणिण वि ते अहमिंद हुय ।  
करमेत्तदेह वरमुहकमल ।  
तेत्तिय जि पक्ख णीसासधर ।  
आहारु वि चित्तिउ सुहँमु अणु । 5  
तेत्तियवीरियविकिरियकर ।  
कत्थइ णउ ताहं विर्याररइ ।  
कत्थइँ मुयंति सीहासणइं ।  
भुवि जाइजराजम्मणहरहं ।  
जाणंतु तच्चु पर्णमंतु गुरु । 10

जं भरहेसँ लक्खिउ ॥  
पुप्फयंतु तं जाणइ ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमणिण  
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मेहरहतित्थयरगोत्तणिवंधणं  
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६२ ॥

५ AP सो सत्त वि भयइ. ६ AP अणुवेक्खउ. ७ P तेरह वि चरित्तइं थिरु धरइ.

23 १ A पाउवगमणु. २ AP सुय. ३ A ०हरधवल ४ AP ०जलहिं. ५ A सुगु.  
६ AP विहाररइ. ७ A कत्थइ ण सुयति. ८ A पणवतगुरु.

3 b मयच्चिंधइ मदस्य लक्षणानि. 5 a दहभेउ विकालु दशर्यकालिक यतीनानानागनेरतिस्सरम्.

23 2 a घणरहरायसुय तीर्थकरपुत्रौ. 3 a धवल उज्ज्वलयगोरी b करभेउद्रेए एर  
हस्तमानशरीरौ. 5 a तइ तावन्मात्रम्. 6 b तेत्तियं जगलाडीपदन्तम्. 8 a रिज्झंति ऋद्धि गच्छन्ति.  
12 a सोत्तहिं कर्णाभ्याम्.

छम्मासइं आउससेसइं थियइं जाम अहमिदहु ॥  
ता रम्मइ तहिं सोहम्मइ जाय चित तियसिंदहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

जिणवरण्हवणण्हवियगिरिमंदरु  
कुंजरकरताडियसीयलजलि  
णवखरदंडसंडमंडियसरि  
सीमारौमगामरमणीयइ  
गंधसालिकेणसुरहियपरिमलि  
दिव्वुज्जाणविडविणिवडियफलि  
हत्थिणयरु तहिं मंडलि छज्जइ  
सग्गे सरिसउ अप्पउ मण्णइ  
अजियसेणु तहिं पहु पियवाइणि  
वंभकप्पच्चुउ वइरिविमहणु  
सुणि गंधारदेसि गंधारइ  
तहिं णरणाहु णाम अजियंजउ

धणयहु अक्खइ देउ पुरंदरु ।  
सिसिरकिरणविलसियणीलुप्पलि ।  
दसदिसु गुमुगुमंतमयमहुयरि । 5  
दीणाणाहदिण्णतवणीयइ ।  
कीरकुररकलहंसीकलयलि ।  
जंबूदीवि भरहि कुंरुजंगलि ।  
तूरहं सहें णं गलगज्जइ ।  
घरसिहरहिं हरइ व तिजगुण्णइ । 10  
तहु पियदंसण णामे पणइणि ।  
वीससेणु उप्पण्णउ णंदणु ।  
पुरि पंडुरघरि पुहईसारइ ।  
अजियदेविवल्लहु परदुज्जउ ।

घत्ता—तें राएं सुहिअणुराएं णिरु भल्लारउं भाविउं ॥

15

अइरा सुय णवकिसलयभुय वीससेणु परिणाविउ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

बन्धः सौजन्यवार्धे कविखलघिषणाध्वान्तविध्वंसमानुः  
प्रौढालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम् ।  
वत्काम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति  
प्रोद्यद्गम्भीरभावा स जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्त. ॥ १ ॥

AP read बन्धु in the first line for बन्धः, but K has a gloss सेतुः on it. P reads °भाव. for °भावा in the third line.

1 १ AP °वियसिय°. २ A सीमागामराम°. ३ AP °कणपसरियपरिमलि.

1 4 b सि सिरकिरण विलसिय° चन्द्रविकसितानि. 5 a णवखरदंड° नवपद्मानि,  
b मयमहुयरि °मदोन्मत्तमधुकरे. 9 a मंडलि देजे, छज्जइ गोभते. 11 a पियवाइणि प्रियवादिनी,  
b पियदंसण प्रियदर्शनानाम्नी. 12 b वीससेणु विश्वमेन.. 15 तें राएं तेन राजा अजितसेनेन.  
16 अइरा इति नाम; णवकिसलयभुय कोमलभुजा.

## 2

एयहं होसइ ध्रुवु तित्थंकरु  
 धणय धणय लइ तेरउ अवसरु  
 तं णिसुणिवि तें कमलदलक्खें  
 हरियउं मरगयतोरणमालहिं  
 कोमलगत्तइ मउलियणेत्तइ  
 णिहाएंतिइ पुण्णपवित्तिइ  
 परादेविइ दिट्ठउं कुंजरु  
 सिरि दामाइं दोण्णि विलुलंतइं  
 कुंभजुयलु झसजुयलउं कीलिरु  
 सीहासणु विमाणु अमराणउं  
 रयणरासि सत्तच्चि वि जोइउ  
 गय सुंदरि सुविहाणइ तेत्तइ

सोलहमउ कंदप्पखयंकरु ।  
 करि पुरु मणियरहयदिवसेसरु ।  
 कंचणपट्टणु णिमिमउ जक्खें ।  
 जलइ व पउमरायकरजालहिं ।  
 सउहयलइ पल्लं कपसुत्तइ ।  
 पच्छिमरत्तिइ गुणगणजुत्तिइ ।  
 पसुवइ केसरि खरणहपंजरु ।  
 ससिरविविं वइं णहि उर्ययंतइं ।  
 सरवरु जलहि जलावलिचालिरु ।  
 भवणु फणिदहु तणउं पहाणउं ।  
 मुहु धोइवि दप्पणु अवलोइउ ।  
 थिउ अत्थाणि णराहिउ जेत्तहि ।

5

10

घत्ता—सिविणंतरु णिहिलु णिरंतरु कंतइ कंतहु ईरिउं ॥

अवहीसें तेण महीसें तं फलु ताहि वियारिउं ॥ २ ॥

## 3

तुज्जु उयरि तेलोक्कपियारउ  
 रायंगणि लोएहिं वि दिट्ठउं  
 हिरि सिरि बुद्धि कंति किन्ती सइ  
 भइवयहु भयसंखावासरि  
 जणणिहि मुहि पइट्टु गयवेसें  
 मेहरहेण तेण अहमिंदे  
 आय देव सयल वि पंजलियर  
 णवमासइं णिहित्तु चामीयरु  
 पल्लुचंडत्थि भाइ तइयंसं

होसइ सिरिअरहंतु भडारउ ।  
 जा छम्मा सताम वसु बुट्ठउं ।  
 आगय घरु जिणगुणरंजियमइ ।  
 भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि ।  
 किउ गव्भावयारु परमेसें ।  
 पुण्णपवणकंपावियइं दें ।  
 पुज्जिय सयण असेस वि सपियर ।  
 धणएं किउ पहुपंगणु पिंजरु ।  
 ऊणि तिसायरि गलियजमंसं ।

5

2 १ A तोरणदारहिं. २ P पल्लकि पसुत्तइ. ३ AP अइरादेविइ. ४ A उवयंतइ. ५ P अमरालउ. ६ A सत्तच्चिय.

3 १ A चउत्थभाय°. २ A ऊणतिसायर°.

2 1 a एयहं विश्वसेनैरयो.. २ b मणि यरहयदिवसेसरु मणिनिर्गणस्तिग्मृतादित्तम्. 4 b जलइ ज्वलति. 7 b पसुवइ वृषभ.. 8 b उवयंतइ उदर प्राप्ते. 11 a मत्तकि उन्मानिर्गण. 14 वियारिउं विवेचित्तम्.

3 4 a भयसंखावासरि सप्तम्याम्, b पहरंतरि पश्चिमप्राप्ते. 9 / मत्तकि उन्मानिर्गण गलितः सयमलेशो यसिस्तत्र

धम्ममहासुणिदेवजिणंतरि चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि । 10  
 कालइ दिणि चउदहमइ जायइ जामइ जोइ सुहंकरि आयइ ।  
 पच्छिमसंझहि जणियउ मायइ जिणु रेहइ णाणत्तयछायइ ।

घत्ता—परावइ चडिवि सुरावइ सहसा पत्तु पुरंदरु ॥  
 सहं देवहिं णाणारूवहिं अरुहु लेवि गउ मंदरु ॥ ३ ॥

## 4

इंदचंदखयरिंदफणिंदहिं णहाणित तहिं वंदारयवंदहिं ।  
 पुज्जिउ कुंदकुडयकणियारहिं वउलतिलयचंपयमंदारहिं ।  
 जणसंतीयरु संति भणेप्पिणु तं गुरु सुरागिरिसिहरु मुयप्पिणु ।  
 आणिवि भवणहु अप्पिउ जणणिहि जिणवरसुरतरुसंभवधरणिहि ।  
 हरि घरि पायंडणहु व पणच्चिउ तेण ण को को किर रोमंचिउ । 5  
 गउ सग्गहु पणविवि सक्कंदणु कालें जाउ णाहु णवजोव्वणु ।  
 कणयवणु णं वालपयंगउ दह दह तह दह दह धणुतुंगउ ।  
 लक्खवरिसपरमाउ महामहु दहरहु णाम अवरुहसयमहु ।  
 वीससेणराएण रवणणउ जसवइदेविहि सो उप्पणणउ ।  
 णामें चक्काउहु पियतणुरुहु छणसत्तावीसंजोयणमुहु । 10

घत्ता—ते भायर चंददिवायरणिह परिणाविय ताएं ॥  
 णिर्वकणणउ बहुलायणणउ जयजयपडहणिणाएं ॥ ४ ॥

## 5

पंचवीसवरवरिससहासइं वोलीणइं कुमरत्ति पयासइं ।  
 जेट्टहु अप्पिय धराणि णारिदें अप्पणु वद्धउ पट्टु सुरिदें ।

३ A जिह्वा° but gloss चैत्र., T चित्तजुत्तमास° चैत्रः.

4 इ° ययरिंदवरिंदहिं. २ AP पायडु णडु व. ३ AP दह तह दह. ४ AP लक्खु वरिसु परमाउ. ५ A अवरु अहसयमहु. ६ A नृव°.

10) b चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि ज्येष्ठवदि चतुर्दश्याम्, सर्वो वंशाखः अर्धक्षेत्र. तदन्तरे ज्येष्ठहाणे श्वयं.. 11) b जामइ जोइ भग्गीनज्जे. 12) a पच्छिमसंझहि निशात्यये श्वयार्पे. 13) सुरावइ भोगनग्गे.

4) 3) a णाणमतीसकं णानां गान्तिजां. 5) a हरि इन्द्र, पायउणडु व सामान्यनटवत्. 7) b इदंतामि चणारिणउत्तंमि नुत्तमेण. 8) b जसवइहसयमहु अस आभिन्द्रः, इन्द्रसदृश इत्यर्थः. 10) a भक्काउहु चक्काउहु, b णाणमत्तावीसंजोयणमुहु मत्तावीसंजोयणक्षत्रः कश्यपे, पूर्वजन्तुणा इत्यर्थः.

रञ्जु करंतहु देंतहु णियधणु  
जइयहुं तइयहुं पुण्णविसेसं  
चक्कु छत्तु असि पहरणसालहि  
कागणि माणि उप्पण्णइं सिरिहरि  
कण्णा गय तुरंग खगभूहरि  
छक्खंडं वि महिवीदु पसाहिवि  
पणवीसइसहस महि पालिवि

घत्ता—णिव्वेइउ णाहु पँसाइउ लोयंतिएहिं पवोहिउ ॥

अवमत्तउ इंदं सित्तउ रयणाहरणहिं सोहिउ ॥ ५ ॥

गलिय समासहास तेत्तिय पुणु ।  
आयइं दिट्ठइं तेण णरेसं ।  
संभूयउं दंहु वि सुविसालहि । 5  
यवइ पुरोहु चमूवइ गयउरि ।  
णवणिहि जलणिहिणइसंगमघरि ।  
वितर सुर विज्जाहर साहिवि ।  
दप्पणयलि णियवयणु णिहालिवि ।

10

### 6

थिउ सव्वत्थसिद्धि सिवियासाणि  
सिलहि णिसण्णे उत्तरवयणे  
जेट्ठहु मासहु सतिमिरपक्खइ  
अवरण्हइ णिक्खवणु करंतं  
उप्पाइउ मणपज्जउ देवें  
जो धम्मिल्लभारु आलुंविउ  
घल्लिउ णवर खीरमयरालइ  
संजमु णिवसहसें पडिवण्णउ  
गउ मंदरपुरु जिणु तवताविउ  
महि विहरंतु मुणियसत्थत्थउ  
संतु दंतु भयवंतु सरिसिगणु

घत्ता—णैववत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणउ ॥

खंचियदुहु सुरंदिसिसंमुहु रिउमित्ते वि समाणउ ॥ ६ ॥

जाइवि तहि लहु सहसंबयवणि ।  
कयपलियंके दीहरणयणे ।  
दिवसि चउइसि भरणीरिक्खइ ।  
छट्ठुववासिपण गुणवंते ।  
किं ण होइ भणु संजमभावे । 5  
सो सुरणाहे कुसुमे अंचिउ ।  
चक्काउहुपमुहहिं तक्कालइ ।  
वीयइ वासरि समसंपण्णउ ।  
पियमित्तं रायं पाराविउ ।  
सोलह वरिसइं थिउ छम्मत्थउ । 10  
पुणु आयउ तं सहसंबयवणु ।

5

10

### 7

पूसहु मासहु  
दहमंदिणंतरि

सोक्खाणिवासहु ।  
सियपक्खंतरि ।

5 १ A असि पहरणु सालहि, P असि चम्मु वि सालहि. २ P गेहवइ दंडु वि. ३ AP  
°संगमहरि. ४ A छक्खंड. ५ AP पयासिउ.

6 १ A जिणतवताविउ. २ A विरहंतु. ३ AP णवपत्तहु. ४ A सुरदिसिसुहु.

7 १ A °दियतरि.

5 3 b तेत्तिय पञ्चविंशतिवर्षसहस्राणि. 6 b गयउरि हस्तिनागपुरे. 7 b जलणि हि ण इ-  
संगमघरि गङ्गासागरसंगमस्थाने. 10 पसाइउ प्रसत्ति नीत प्रसन्नीकृत. 11 अवमत्तउ अप्रमत्तः  
त्यक्तपरिग्रहो वा.

6 2 a उत्तरवयणे उत्तरामिमुखेन. 3 a सतिमिरपक्खइ कृष्णपक्षे. 7 a खीरमयरा-  
लइ क्षीरसमुद्रे. 10 a मुणियसत्थत्थउ ज्ञातशास्त्रार्थः. 12 णववत्तहु नवीनपत्रस्य. 13 सुरदि सि-  
संमुहु पूर्वाभिमुखः.



छहुववासँ	वियलियपासँ ।	
दरसंझालइ	जाँइ वियालइ ।	
कम्मं णिवाइउ	खाणि उप्पाइउ ।	5
केवलदंसणु	दोसविहंसणु ।	
धुवँ सिवमाणणु	केवलजाणणु ।	
कर्यंमयविलपं	कुरुकुलतिलपं ।	
कासवगोत्तँ	सुयसुइसोत्तँ ।	10
पत्तउं कित्तणु	सिरिअरुहत्तणु ।	
दहविह वसुविह	अवर वि वयविह ।	
सुर सोलहविह	भूसणयरसिह ।	
गुणगणवत्तं	पंकयणत्तं ।	
अइरीपुत्तं	खमदमजुत्तं ।	15
खाइयंभावं	संतिं देवं <sup>११</sup> ।	
ते <sup>१२</sup> वदंते	सुँहुं ज्ञायंते ।	
पंजलिहत्था	पणवियमत्था ।	
भत्तिरसाला	विलुलियमाला ।	
यत्ता—मउ वज्जइ गँइ पडिवज्जइ पंचिंदियइं वि दंडइ ॥		20
पइं होंते मगु दिसंतँ जणु संसारि ण हिंडइ ॥ ७ ॥		

## 8

तओ कोसिणणं	जसेणं सिणणं ।	
कयं मुक्कंडंभं	महामाणखंभं ।	
महाधम्मलंभं	महापंकयंभं ।	
महाखाइयालं	महापुष्फमालं ।	
महाध्रलिसालं	महाणट्टसालं ।	5

२ AP जायवियालइ. ३ A कम्मणिवाइउ. ४ A धुउ P धुव. ५ AP कयमलविलपं. ६ AP गनवत्तं, AP add after this समहरवत्तं. ७ AP °णत्तं. ८ AP °पुत्तं. ९ A omits नमदमजुत्तं, P adds: दोसविचत्तं. १० AP °भावं. ११ AP देवं. १२ A तं वदति, P तं वदंते.  
१३ A सुं ज्ञायंते; P सुँहुं ज्ञायंते. १४ A मइ.

8 १ AP गुणदमे.

7 a विजाउउ मंजुवत्तं. 7 a विजाउउ निमानित्तं. 7 b केवलजाणणु केवल  
गणणं. 9 c सुयसुइसोत्तं सुयसुइ प्रमाणे रत्तात्. 10 a कित्तणु रत्तंते स्थायते इन्द्रादिभि-  
रिति रत्तंते. 12 सुयसुइसोत्तं सुयसुइसोत्तं. 13 a गुणगणवत्तं गुणगणवत्तं.  
14 : उ मइ; मइ सुँहुं.

8 1 a विजाउउ मंजुवत्तं.

महासाहिवंतं	महाकेउकंतं ।	
महावेइयम्मं	महाथूहहम्मं ।	
महादेवल्लणं	महासाहुपुणं ।	
महारिद्धिरूढं	महासीह्वीपीढं ।	
महासोयैरत्तं	महासेयल्लत्तं ।	10
महाचामरिल्लं	महाडुंदुहिल्लं ।	
महापुप्फवासं	महादिव्वभासं ।	
महादित्तिवतं	महंतं पवित्तं ।	

घत्ता — पडिहारहिं णायकुमारहिं सेविज्जंतुं दयावरु ॥

गंभीरहिं ह्यजयतूरहिं समवसरणु गउ जिणवरु ॥ ८ ॥ 15

## 9

अक्खइ धम्मु कम्म ओसारइ	सत्त वि तच्चइं जणहु वियारइ ।	
अट्टुहं धराणिहिं माणु पयासइ	सग्गाविमैणहं पंतित भासइ ।	
पायालंतरि भवणसहासइं	चलणिच्चलइं मि जोइसवासइं ।	
जीवकम्मपोग्गलपरिणामइं	कहइ भडारउ णाणाणामइं ।	
चक्काउहपहइ तहु गणहर	जाय छत्तीस विं जणमणहर ।	5
अट्टसयइं पुव्वंगवियाणहं	रिसिहिं कट्टतणकणयसमाणहं ।	
एक्कतालसहसइं वसुसमसय	सिक्खंसुदिक्खसिक्खपारंगय ।	
सहसइं तिण्णि अवहिणाणालहं	चउ केवलिहिं पि हियतमजालहं ।	
विकिरियावतंहं छह भणियइं	मणपज्जवधराहं चउ गणियइं ।	
वाइहिं दोसहसाइं णिरुत्तइं	सयचउक्कु अगगलउ पउत्तइं ।	10

घत्ता—हिरिसेणहिं वर्यविहिस्त्रीणहिं पायपोमथुइरायइं ॥

णरमहियइं तिसंयहिं सहियइं सट्टिसहासइं जायइं ॥ ९ ॥

२ A °थूलहम्मं. ३ AP सीह्वीढं. ४ AP महासोयवत. ५ A महादित्तिदित्त, P महादित्तिदित्तं.  
६ A समवसरणगउ.

9 १ A अट्टमिधरणिहि, २ AP °विवाणह. ३ A °परिमाणइ. ४ P जि. ५ A सिक्खवदिक्ख-  
सिक्ख°. ६ A केवलिहिं पहयतम°, P केवलिहिं मि हयतम°. ७ A °वत्तहं. ८ AP °विहिलीणहि.  
९ P तिसईं सहियइ.

6 a °सा हि वंतं °वृक्षयुक्तम्. 7 a महा वे इ य म् महावेदिकर्मरचनायुक्तम्. 13 a महा दि त्ति व त्तं  
भामण्डलयुक्तम्.

9 1 ७ वियारइ विचारयति.

## 10

झाणमोणणियमियणियमइयउ  
लक्खइं दुइ सावयहं सल्लघहं  
अरुहदासिपमुहाहं सुइत्तइं  
देव असंख संख मृगकुलरुह  
पंचवीससहसइं बोलीणइं  
हिंडिवि महियलि धम्मु कहेप्पिणु  
गिरिसंमेयारुहणु करेप्पिणु  
जेट्टुचउद्दसिवासरि काँलइ  
गउ जगसिहरहु संति भडारउ  
सहुं चक्काउहेण तर्वरिद्धइं

एत्तियाउ भणियउ संजइयउ ।  
सुरकित्तीपमुहहं णिव्विग्घहं ।  
सावईहिं चउलक्खइं वुत्तइं ।  
एक्कदुखुर गयवय जाया वुह ।  
वरिसहं सोलहवरिसविहीणइं । 5  
मासमेत्तु जीविउ जाणेप्पिणु ।  
चरमसुक्क दिवहेहिं धरेप्पिणु ।  
भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलइ ।  
देउ समाहि घोहि भवहारउ ।  
णवसँहसइं रिसिणाहहं सिद्धइं । 10

घत्ता—सुविलेवणु घल्लिवि कुसुमइं मेल्लिवि पणविउ तहिं अग्गिदहिं ॥  
मणि ईहिय सिद्धणिसीहिय णविय भरेण सुरिदहिं ॥ १० ॥

## 11

नँवु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु  
वज्जाउहु सुरवइ घणसंदणु  
दारिसउ मज्झु सयलु सयलायरु  
देवि अण्णिदिय कुरुणरु माणउ  
अमयासउ अणंतवीरिउ हरि  
मेहणाउ पडिहरि सहसाउहु  
पुणु सव्वत्थसिद्धि परमेसरु  
संति भंति विहुणेवि महारी

देउ खयरु सुरु हलि पवरामरु ।  
सव्वत्थाहिवु अइरहि णंदणु ।  
होउ पडंतहु लहु लग्गणतरु ।  
सुरु सिरिविजउ महीयलराणउ । 5  
णारउ जोइयवइतरणीसरि ।  
कप्पणाहु दढरहु पहसियमुहु ।  
चक्काउहु सुहुं देउ रिसीसरु ।  
करउ कसायसंति गरुयारी ।

घत्ता—भरहेसरु जियसरु मुणिपवरु जहि गउ जिण तुहुं तेत्तहि ॥

मइं पावहि सिद्धालयमहि पुष्पयंतरुइ जेत्तहि ॥ ११ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे संतिणाहणिव्वाणगमणं  
णाम तिसट्ठिमो परिच्छेवो समत्तो ॥ ६३ ॥

10 १ P एण्णरु. २ P णिव्विग्घ. ३ A वुत्तइ. ४ AP णिग्ग. ५ A वल्लइ. ६ AP अग्गिदहि. ७ A अण्णियारु. ८ AP तण्णिक वरिवि सुत्तरु दिण ( ण ? ) अग्गि अग्गिदहि.

11 १ AP णि. २ A विजाउहु. ३ P कुत्तणुमाणउ. ४ AP सिरिविजउ महियलि. ५ AP सुत्तइ.

10 १. णिव्विग्घि यमइ पउ 'णिव्विग्घि यदा णिव्विग्घि' . ३ a सुइ चइ सुवित्तहि.  
५. ६ ययप यययय यययय यय ५. ६ देउ ययय.

11 १. २ ययय यय ययय ५. ६ यययय यययय यययय ; ६ यययय इत्त.. ७ ययय  
५. ६ यययय. ७ ययय ययय ययय यययय यययय.

जिणागिरिपवरहु णीसरिय वारहंगपाणियसरि ॥  
पुव्वमहण्णवगामिणिय पणवेप्पिणु वाईसरि ॥ धुवकं ॥

1

जो भुवणि भणिउ छट्टुउ गिराउ  
जो इंदियकूराहिहिं विराउ  
जो ण मरइ ण हवइ कालएण  
घणमणतिमिरें अलिकालएण  
जो णग्गु णिरंजणु लुक्कवालु  
जे बुत्तु अहिंसावित्तिसुत्तु  
जो दांसियसासयपरमोक्खु  
जो तिउरडहणु जियकामदेउ  
जे राक्खिउ सणहु वि जीउ कुंथु  
पुणु कहमि कहंतरु दिव्वु तासु

जो हियवएण णिञ्जु जि गिराउ ।  
जो सत्तारहमउ जिणु विराउ ।  
जो<sup>१</sup>को जाणिज्जइ कालएण । 5  
ण समंकिउ जो कंकालएण ।  
जो ण करइ करि कत्तियकवालु ।  
जो गाणिवि णं याणइ अक्खसुत्तु ।  
णउ करइ पिणायं कंडमोक्खु ।  
पहु परमप्पउ देवाहिदेउ । 10  
सो वंदिवि रिसिपरमेट्ठि कुंथु ।  
दालिहदुक्खदोहग्गणासु ।

घत्ता—एत्थु जि जंबूदीववरि पुव्वविदेहि महाणइ ॥

णामे सीय सलक्खणिय तं को वणणहुं जाणइ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

आखण्डोडुमरारवोडुमरुकं (?) चण्डीशमाश्रित्य य.

कुर्वन्काममकाण्डताण्डवविधिं डिण्डीरपिण्डञ्चविम् ।

हसाडम्बरमुण्डमण्डललसद्गागीरथीनायक

वाञ्छन्निथमहं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्तिः कृते ॥ १ ॥

P reads °डमरारुचण्डमरुक, P reads चण्डीसमासत्य, K reads चण्डीसमासत्य. P reads कुर्वत्काम°, A reads कुर्वत्कीड°, P reads °छवे. A reads डिण्डमण्डल°. P reads कृते. K has a marginal gloss on the stanza. अखण्ड एव आखण्डः, उडुमरो भयानक, आरव-शब्दः तेन युक्त उडुमरुकं वाद्य यस्य हरस्य तम् । अकाण्ड° अप्रस्तावेन । रुद्रमाश्रित्य या कीर्तिर्वर्तते इत्य-ध्याहार्यम् । रुद्रादप्यहं अतिशयेन निर्मला इति भावार्थः । कृतेः कान्यस्य. The stanza, all the same, is not clear.

1 १ A जो जाणिज्जइ इह कालएण. २ A अहकालएण. ३ A चमकिउ. ४ A लुक्कवालु. ५ AP कत्तियकरालु. ६ A omits this foot. ७ P ण जाणइ. ८ P जंबूदीवि वरि.

1 1 a °सरि नदी. 3 a णिराउ चक्रवर्ती, b णिराउ निर्गतरागः. 4 a विराउ पक्षिराजो गरुड, b विराउ विशिष्टः शब्द. 5 b को ब्रह्मा परमज्ञानम्. 6 a °मणतिमिरें ज्ञानदर्शनावरणेन; अलिकालएण भ्रमरवत्कृष्णेन, b समंकिउ चिह्नितः, कंकालएण मृगकलेवरेण. 8 b अक्खसुत्तु जपमालाम्. 9 b कंडमोक्खु बाणमोक्षम्. 11 a सणु सूक्ष्म.

## 2

तहि दाहिणतीरइ वच्छदेसि  
 सोहिल्लसुसीमाणयरि रम्मि  
 सीहरहु सीहविक्रमु महंतु  
 अणुहुंजिवि भोउ सुदीहकालु  
 णिवंडंत णिहालिय तेण उक्क  
 जइवसहहु पासि ह्यत्तिण्हिं  
 एयारहंगधरु सीलवंतु  
 तिणिं कणि सचित्ति णउ चरणु देइ  
 वांधिवि तित्थंकरणाकम्मु  
 पत्तउ पंचाणुत्तरविमाणु  
 छम्मास परिट्टिउ थाउ जाम

डिंडीरपिंडपंडुराणिवासि ।  
 अणवरयमहारिसिकहियधम्मि ।  
 णरवइ णियारिकुलवलकयंतु ।  
 जोयंतें कट्ठि मि णहंतरालु ।  
 संसारिणि रइ णीसेस मुक्क । 5  
 पावइयउ सहं बहुखत्तिण्हिं ।  
 वणि णिवसइ रुक्खु व अणलवंतु ।  
 वयविहिअजोग्गु दिण्णु वि ण लेइ ।  
 मउ उवरिमिल्लु ससिंविंसोम्मु ।  
 भुंजिवि तेत्तीसजलणिहिपमाणु । 10  
 वइसवणहु कहइ सुरिंदु ताम ।

वत्ता—दीवि पहिल्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु ॥

गयउरि माहिवइ तहि वसइ सूरसेणु जंगमंगलु ॥ २ ॥

## 3

कुरुकुलरुहुं सिरिजयसिरिणिकेउ  
 सिरिकंत कंत कमणीयरुय  
 णरणाहहु सा वल्लहिय केव  
 एयहुं दोहं मि होही ण भंति  
 करि पुरवरु वरुं णंदणवणालु  
 तं णिमृणिवि धणणं तं विचिनु  
 पत्रणुहुंयपहकप्परपंसु  
 पासायचूलियालित्थियमेहु

कासवगोत्तें भूसिउ सुतेउ ।  
 सुरखयरणियंविणितिलयभूय ।  
 सुवियदुहु वरकइवाणि जेव ।  
 जिणु कुंधु णाम केवलि कहंति । 5  
 पुज्जिजइ भत्तिइ सामिसालु ।  
 किउ णयरु कणयमाणिक्कदिनु ।  
 सरसरिनीरंतररामियहंसु ।  
 गयणुंगयसुरहियधूमरेहु ।

वत्ता—सुहुं नुत्ती रयणिहि सयणि वालहंसगंयगामिणि ॥

पच्छिमजामइ सोलह वि पेच्छइ सिविणय सामिणि ॥ ३ ॥

2 १ A नोत ३ AP विवजंति. ३ A तणे. ४ A दिण्णउ ण लेइ. ५ AP जयमंगलु.

3 ३ A सुकणयमिणिरि. २ A नुत्तेउ. ३ AP णरणाहहु तहु वल्लहिय. ४ AP क.

५ A णामजामरणीसालु P पत्रणुहुंयपहकप्परपंसु. ६ AP मरिण. ७ A गयणगय. ८ P पमंते. ९ A नुत्तं. १० P किल्लंति.

2 १ कुरुकुलरुहुं २ सिरिजयसिरिणिकेउ ३ सिरिकंत ४ कंत ५ कमणीयरुय ६ णरणाहहु ७ सा ८ वल्लहिय ९ केव १० एयहुं ११ दोहं १२ मि १३ होही १४ ण १५ भंति १६ करि १७ पुरवरु १८ वरुं १९ णंदणवणालु २० तं २१ णिमृणिवि २२ धणणं २३ तं २४ विचिनु २५ पत्रणुहुंयपहकप्परपंसु २६ पासायचूलियालित्थियमेहु

3 १ सुहुं २ नुत्ती ३ रयणिहि ४ सयणि ५ वालहंसगंयगामिणि ६ पच्छिमजामइ ७ सोलह ८ वि ९ पेच्छइ १० सिविणय ११ सामिणि ॥ ३ ॥

## 4

वारणं मयालीणलुप्पयं  
 केसरि गलालं विकेसरं  
 उग्गयं हिमंसु<sup>३</sup> दिणेसरं  
 सायकुंभकुंभाण संघेडं  
 खीरवारिरासिं महारवं  
 मंदिरं सुराणं विहावियं  
 मेल्लयं मणीणं विचित्तयं  
 राइछेयए संविउद्धिया  
 रत्तियाविरामे णियच्छियं  
 कहइ तीइ तिस्सा फलं पई  
 इंदचंदणाइंदवदिओ  
 चक्कवट्टि भोत्तूण भूयलं

गोवइं खु रुभिण्णवप्पयं ।  
 गोमिणी सुमालाजुयं वरं ।  
 रत्तमीणजुम्मं रईसरं ।  
 पंकयायरं लच्छिपायडं ।  
 विट्टरं सकंठीरवं णवं । 5  
 णायगेहमहिरायसेवियं ।  
 झत्ति धूमकेउं पलित्तयं ।  
 सा णिवस्स वज्जरइ मुद्धिया ।  
 दंसणावल्लिं कयसुहच्छियं ।  
 होहिही<sup>१</sup> तुहं सुउ महामई । 10  
 दिव्वणाणि णिज्जियमणिदिओ ।  
 पाविही पयं परमणिक्कलं ।

यत्ता—तं णिसुणिवि संतुंइ सइ आइय मंदिरु मीणइ ॥

बुद्धि लच्छि सिरि कंति हिरि दिहि कित्ति वि लीलागइ ॥ ४ ॥

## 5

कय धणएं दरिसियसुयणतुट्टि  
 सावणमासंतरि कसणपक्खि  
 कत्तियणक्खत्ति णिसाविरामि  
 सीहरहु राउ अहमिदु देउ  
 वणवासहिं घल्लियकच्चुरेहिं  
 गइ संतिणाहि मलदोसहीणि  
 वइसाहमासि पडिवयहि दियहि

उम्मासु जाम ता रयणंबुट्टि ।  
 दहमइ दिणि माणवजणियसोक्खि ।  
 थियउ गग्भि भडारउ पउरधामि ।  
 वणिज्जइ किं णिव्वाणहेउ ।  
 थुउ इंदपडिंदाइहिं सुरेहिं । 5  
 पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि ।  
 अग्गेयजोइ णरणाहपियहि ।

4 1 A खुरविभिण्ण°. २ AP गोमिणिं. ३ A हिमेसुं ४ P सघण. ५ A मेल्लयं विचित्तं मणीणयं. ६ AP तुह सुओ पहीही महामई. ७ A सतुडमइ.

5 १ A रयणविद्धि. २ AP कित्तिय°. ३ A वइसाहमासि पडिवयह दियहि, P वइसाहमासि सेयपडिवयहि दियहि.

4 1 b खु रुभि ण्ण वप्प य खुरैभिन्नवप्पम्. 3 b रईसर क्रीडापरम्. 4 a संघउ युग्मम्, b लच्छिपायड लक्ष्म्या प्रकटम्. 6 a विहाविय दृष्टम्. 7 a मेल्लयं राशिम्. 8 a राइछेयए रज-न्यवसाने. 11 b णिज्जियमणिदिओ निर्जितचित्तेन्द्रिय.. 13 मीणइ मेनका देवाङ्गना.

5 3 a कत्तियणक्खत्ति कृत्तिकानक्षत्रे 5 a वणवासहिं व्यन्तरैः, घल्लियकच्चुरेहिं पातित्त-सुवणैः. 6 b सायरि साकारके लक्ष्मीकारके इत्यर्थ. 7 b अग्गेयजोइ कृत्तिकानक्षत्रे; णरणाह-पियहि श्रीकान्तायाः.

जायँउ जिणु कयतइलोकखोहु  
णिउ सुरगिरिसिरु सुरणाहणाहु

सुरवइ संपत्तु ससुरवरोहु ।  
णाणत्तयसलिलवरंभवाहु ।

घत्ता—सिंचिवि खीरघडेहिं जिणु अंचिउ णवसयवत्तहिं ॥

10

इंदं रुंदाणंदयरु जोइउ दससयणेत्तहिं ॥ ५ ॥

## 6

वंदिवि पुणु णामु कंहिवि कुंथु  
पुरु आविवि जणणिहि दिणु बालु  
पोढत्तभावि थिउ कणयवणु  
पहु पंचतीसघणुतुंगकाउ  
तेवीससहसवरिसहं सयाइं  
चरणंभोरुहणैमियामरासु  
पुणु तेत्तिउ मंडलियत्तणेण  
जइयहुं परिच्छिणुउ कालु दीहु  
गउ कहिं मि वणंतरु रमणकामु  
मत्तंडचंडकिरणइं सहंतु

लंघेप्पिणु दीहरु पवणपंथु ।  
गउ सग्गहु हरि सुरचक्कवालु ।  
कंतीइ पुण्णचंदु व पसणु ।  
सिरिलंछणु जयदुंदुहिणिणाउ ।  
सत्तेव सपण्णासइं गयाइं ।  
णियबालकलिलीलाइ तासु ।  
तेत्तिउ जि चक्कपरियत्तणेण ।  
तइयहुं परमेसरु पुरिससीहु ।  
दिइउ रिसि तेण तवेण खामु ।  
दुंम्मुक्कजम्मविलसिउ महंतु ।

5

10

घत्ता—सो तज्जणियइ दंसियउ मंतिहि तेण णरिंदे ॥

जोयहि दुच्चरु तवचरणु चिण्णउं एण रिसिंदे ॥ ६ ॥

## 7

छड्ढिवि कुंडंबु कुविडंबु सव्वु  
वणि पइसिवि णिहसिवि इंदियाइं  
चंगउ ववसिउ जइपुंगमेण  
तं णिसुणिवि मंतं बुत्तु पम  
जाएसइ कहि णिम्मुक्कगंथु  
जाएसइ तहि जहिं भूयगामु

छड्ढिवि कुलबलु छलमाणगव्वु ।  
अवगणिवि दुज्जणणिंदियाइं ।  
लइ हउं मि जामि एण जि कमेणे ।  
एयइ णिइइ तउ करिवि देव ।  
तं णिसुणिवि भासइ देउ कुंथु ।  
णउ पहवइ लोहु ण कोहु कामु ।

5

४ AP जायउ जिणिंदु तेलोकखोहु.

6 १ AP करिवि. २ A सुर चक्कवालु. ३ AP<sup>०</sup>णविय<sup>०</sup>. ४ AP दुक्कजम्म<sup>०</sup>. ५ A दुच्चरुं

7 १ A कुडुबु.

9 b<sup>०</sup>वरभवाहु वरमेघ..

6 2 b सुरचक्कवालु देवसमूहपालकः. 4 b सिरिलंछणु श्रीवत्सलाञ्छनः. 7 b चक्कपरि-  
यत्तणेण चक्रित्वेन. 10 a मत्तंड<sup>०</sup> मार्तण्डः सूर्यः, b महंतु मधन्. 11 तज्जणियइ अप्राङ्गुल्या.

7 1 a कुविडंबु कुत्सितविडम्बनम्. b छलमाणगव्वु शत्रुवञ्चनम्. 2 a णिहसिवि निघृभ्य,  
जित्तेत्यर्थः.

जाएसइ तहिं जहि हेमकंति  
हो हउं मि पवञ्चमि तेत्थु तेम  
घरु आवेष्पिणु संसरासईहि  
अहिसेउ विरइउ पुरंदरेण

घत्ता—सिवियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥  
णाणामणिसिहरुज्जलहि लग्गखगाहिवतियसहि ॥ ७ ॥

गउ परमप्पउ परमेट्टि संति ।  
ण णियत्तमि कालें कहिं मि जेम ।  
ता पडिबोहिउ सुरवरजईहिं ।  
कुलि णिहिउ सतणुरुहु जिणवरेण । 10

## 8

वणि विउलि सहेउयरुक्खणीलि  
दिणि तम्मि चेय विच्छुलियपंकि  
त्रैउ लइउ लइवि छट्टोववासु  
संसारि सणेहु ण किं पि बडु  
वीयइ दिणि दिणयरकयपयासि  
गयउरि दाविउ आहारु चारु  
अमरहि घल्लिय मंदारयाइं  
सोलहवरिसइं तउ तिव्वु चरिवि  
दिक्खावणि पत्ति चइत्ति मासि  
कयछंठुं तिलयतलासिएण  
अप्पेणप्पाणउं मुणिउं तेण  
पैरिजाणिउं तिजगु अणंतु गयणु

घत्ता—दिव्वंवरदिव्वाहरणइं सुर णमंति चउपासहिं ॥

पुणु वि पुरंदरु अवयरिउ णाणाजाणसहासहि ॥ ८ ॥

णियजम्ममासपक्खंतरालि ।  
कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि ।  
तें सहुं पवइयउं णिवंसहासु ।  
मणपज्जउ णाणु जिणेण लद्धु ।  
परिभमइ णाहु णरवासवासि । 5  
थिउ धम्ममित्तघरि हयवियारु ।  
विहियइं पंच वि अच्छेरयाइं ।  
भवभामिरु दुक्कियभाउ हरिवि ।  
चंदिणि तइयइ दिणि सुहणिवासि ।  
खणि खीणकसापं जससिएण । 10  
उग्गमिपं णाणें केवलेण ।  
जायउ सजोइजिणु अचलणयणु ।

## 9

थिथो समवसरणि  
जिणो विहियकरुणो

सया विउससरणि ।  
हयावरणमरणो ।

२ A सुसरासईहि, KT record: 'सुसहासईहिं इति पाठे अतीव शोभनभाषिभिः.

8 १ AP °रुक्खमूलि. २ A विच्छुलिय° . ३ AP वउ. ४ A गृवसहासु ५ P पव जाणिउ.

8 b ण णियत्तमि पश्चान्नागच्छामि. 9 a संसरासईहि स्ववाण्या. 11 विजयहि विजयानाम्भ्या शिदि-  
कायाम्, विजयपयासहि विजयप्रकाशिन्याम्.

8 2 a विच्छुलियपंकि निर्मले, b कित्तिय° कृत्तिका. 5 b णरवासवासि गृणे गृते.  
6 a आहारु चारु चर्यामार्गः. 9 b चंदिणिशुके. 10 a तिलयतलासिएण तिलमूट्ट-मूलान्निन.

9 1 b विउससरणि विदुषा शरणे.



समुद्धरइ समयं	णया हरइ कुमयं ।	
मुसावयणमुइयं	पसूहणणरुइयं ।	
जणं करइ विमयं	पहे थवइ दुमयं ।	5
मलं महइ कसणं	घणं दमइ वसणं ।	
फणीसुरनृभवणं	फुडं कहइ भुवणं ।	
चलं खलइ कविलं	हरं हसणमुहलं ।	
तणूणिहियमहिलं	महीधरणसवलं ।	
बला विणिहयपुरं	हरिं भणइ ण वरं ।	10
मुणि कणयचरणं	ण तं तिमिरहरणं ।	
खणाभावविगयं	ण पत्तियह सुगयं ।	
अयं अमरतरुणी-	रयं णमइ ण गुणी ।	
परं रिसहचरियं	मैहोपसमभरियं ।	
जिणा किमवि गहियं	मणे अहव महियं ।	15
णं सो पडइ गहिरि	णरो णरयविचरि ।	

घत्ता—पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरेयसंगहं ॥

भयसयाइं दिव्वहं रिसिहिं मणमाणियपुव्वंगहं ॥ ९ ॥

### 10

चालीस तिणिण सहसाइं होंति  
एत्तिय सिक्खुय सिक्खाविणीय  
दोसहसइं पंचसयाइं ओहि-  
पंचेव सहस सउ एक्कु ताहं  
दोसहसइं पण्णासाहियाइं  
सहसाइं तिणिण तिणिण जि सयाइं  
सहसाइं सट्ठि आहुट्टसयइं

सहुं अद्धसपं सउ तहिं ण भंति ।  
गुरुभत्तिवंत संसारभीय ।  
णाणिहिं केवल्लिहिं ति दोणिण लेहि ।  
महरिसिहिं विउव्वणरिद्धि जाहं ।  
गुणवंतहं वाइहिं साहियाइं ।  
मणपज्जववंतहं गयमयाइं ।  
अज्जियहं तेत्थु थुयकुंथुपयइं ।

9 AP °सुरणिभवणं. २ A विणिहयपर. ३ A महापसम°. ४ P omits ण. ५ AP हय-  
रइसंगहं. ६ AP मणि माणिय°.

10 १ A केवल्लिहिं वि दोणिण.

3 a समयं जिनशासनम्, b ण या नयात्. 4 a मुसावयणमुइयं असत्यभाषणेन मुदितं (जनम्).  
5 a विमयं मदरहितम्, b दुमयं दुर्मदं दुर्मत वा. 6 a कसणं कृत्नम्. 8 a खलइ कविलं  
कपिलमतं खलयति, b हसणमुहलं हास्यमुखरम् 10 a विणिहियपुर स्थापितद्वारवतीम्. 11 a  
कणयचरणं अक्षपादम्. 12 a खणाभावविगयं क्षणेन आत्मनोऽभावस्तत्र विशेषेण गतं प्राप्तम्,  
क्षणभङ्गवादिनमित्यर्थः. 13 ab अमरतरुणीरयं देवस्त्रीरतम्. 15 a जिणा येन, किमवि स्वल्प-  
मपि, b महिय प्रशंसितम्.

10 7 a आहुट्ट अर्धचतुर्थ°.

सावयहं लक्ख दो तिण्णि लक्ख      सावइहि ण याणमि देव संख ।  
 संखेज्ज तिरियगणु णहकरालु      जेत्तिउ होइवि थिउ चक्कवालु ।  
 तेत्तिउ सोलहवरिसूणु कालु      महि विहरिवि ह्यणरमोहजालु । 10  
 गउ संमेयहु सम्मयगुणालु      तं<sup>३</sup> सुक्कझाणु पूरिउ विसालु ।  
 पडिमाइ परिट्टिउ मासमेत्तु      रिसिसहसें सहं णिम्मुक्कगत्तु ।

घत्ता—वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥

गउ जिणु सहसक्खे कित्तिउ कित्तिरिक्खे मोक्खहु ॥ १० ॥

## 11

कय तियसहिं तासु सरीरपुज्ज      सुरकिंकरकरहयविविहवज्ज ।  
 भंभाभेरीदुंदुहिणिणाय      घणथणियामरमुहमुक्कणाय ।  
 पयपणइपयासियदुरियदलणं      जैय जयहि जिणेसर कम्ममलण ।  
 उच्चसिरंभाणच्चणरसिल्लुं<sup>३</sup>      सयमहकरपंजलिघित्तफुल्लुं ।  
 तुंबरुणारयसंगीयगेय      विरइय जिणपडिविवाहिसेय । 5  
 मालाविज्जाहरपिहियगयण      मुणिघोसियणाणाथोत्तवयण ।  
 णवकमलकलसदण्णसमेय      धवलायवत्तधयसंखसेय ।  
 दूवंकुरदहिवंदणपसत्थ      वंसग्गविलंविद्यदिव्ववत्थ ।  
 सण्णाणि सुदंसणि विउलबुद्धि      णिव्वाणपुज्ज महं देउ सुद्धि ।

घत्ता—सुहुं कुंथु भडारउ देउ महं वंदिउ भरहणरिंदहि ॥

सियपुप्फयंतउज्जलमुहहिं णामिउ फणिदसुरिदहिं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण

महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्वे कुंथुच्चक्कहरतित्थयरणिव्वाणगमणं

णाम चउसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६४ ॥

२ A सावयहं सख दो. ३ A omits this foot.

11 १ AP °दलणु. २ AP वरजलणकुमारणिहित्तजलणु. ३ A °सिद्ध. ४ A °दुत्त.

५ AP खेयरविसहरचदहिं. ६ AP कुयुच्चक्कवट्टित्थयरपुराण.

१ a णहकरालु नखकरालो रौद्र. 13 णिहयक्खहु अनीन्द्रित्त

11 3 a पयपणइ° पादप्रणति. १ b बुद्धि कर्मज्ञान.

सुयदेवयहि पसत्थहि पसामियदुम्मइहि ॥  
वंदिवि सिरेण सउच्चइं अंगइं भयवइहि ॥ धुवकं ॥

1

जो भयवंतो मुक्कसवासो	जं णीसासो सुरहियवासो ।	
जेण कयं उत्तमसंणासं	जो ण समिच्छइ चउसण्णासं ।	
जिणदिट्ठं पंचिदियणासं	जं पणवंतो पावइ णा सं ।	5
भीममुहा वग्घाइणवासा	जस्स गया दुरेण सवासा ।	
रक्खइ भुवणं जस्स खमा णं	णाणं जस्साणंतखमाणं ।	
जेणुवइट्ठं धम्मणिहाणं	समियं चित्तं भिल्लणिहाणं ।	
जो जीवाणं जाओ ताणं	गुरुयणभत्ती जाणं ताणं ।	10
अत्ताईणं वत्थुपयाणं	जो वत्तारो सव्वपयाणं ।	
दिण्णं जेणं <sup>3</sup> अभयपयाणं	सासयसिवणयरस्स पयाणं ।	
भवहंतारं धीरं <sup>4</sup> हं तं	णमिउं देवं अरमरिहंतं ।	
तस्स भणामि चरित्तं चित्तं	जणियसुरासुरविसहरचित्तं ।	

यत्ता—जंबूदीवइ सुरगिरिपुव्वदिसासियइ ॥

पुव्वविदेहइ पविउलि केवलिभासियइ ॥ १ ॥

15

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:

आजन्म (?) कवितारसैकधिषणासौभाग्यभाजो गिरां

दृश्यते कवयो विलाससकलग्नथानुगा बोधतः ।

किं तु प्रौढनिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदन्तेन भोः

साम्य विभ्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्रं तत. प्राकृते ॥ १ ॥

AP read विगाल in the second line; A reads प्रौढनिगूढ<sup>o</sup> in the third line, and AP read कविना, A reads शीघ्रं तत प्राकृतैः, P reads शीघ्रं त्वतः प्राकृतेः in the fourth line.

1 १ A समियचित्त. २ A अत्ताईण, P अत्थाईणं. ३ A तेण. ४ AP वीर.

1 सउच्चइ पूर्वयुक्तानि, भयवइहि भगवत्याः श्रुतदेवतायाः चतुर्दशपूर्वयुक्तानि एकादशा-  
ज्ञानि. 3 a<sup>o</sup> स वा सो स्वग्रह वल्लं च, b णीसासो नृणां शासः शिक्षा यस्मात्, अथवा नृणा सा लक्ष्मी.  
सा स्वा निजा यत्य, नीसा वा मुकुटवद्वराजादयः स्वा निजा यत्य, सुरहियवासो सुरभितगन्व.  
4 a<sup>o</sup> संणास सर्वसङ्गतागम्. b चउसण्णासं आहारादिसंज्ञासुखम्. 5 b णा पुरुषः, स सुखम्.  
6 a भीममुहा वेनाला., वग्घाइणवासा व्याघ्रचर्मवल्गाः, b स वा सा प्रेतरक्षकाः पादायुक्ता वा. 7 b  
अणंतखमाणं अनन्ताक्रादाप्रमाणम्. 8 b भिल्लणिहाणं भिल्लसदशानाम्. 10 a अत्ताईणं आता-  
मैनाम्, वत्थुपयाणं जीवादिवस्तुपदानाम्. 13 b जणिय... चित्तं जनिताश्चर्यम्.

2

सीयहि उत्तरकूलि रवणणइ  
खेमणयरि धणवइ पुहईसरु  
णंदणाहृत्थयरसमीवइ  
अप्पउं तेण णिओइउं राएं  
चत्तकुपंथें जाणियसत्थें  
जाउ जयंताणुत्तरि सुरवरु  
आउ तासु तेत्तीसमहोयहि  
तप्पमाणविकिरियातेएं  
भुंजंतहु सुहुं अहमिंदाणं

कच्छाणामदेसि चित्थिणणइ ।  
रुवें रमणीसरु वम्मीसरु ।  
बुज्झिवि धम्मु णाणसम्भावइ ।  
समैणु हवेप्पिणु मणवयकाएं ।  
किउ पाओवगमणु परमत्थें । 5  
कायमाणु तहु एक्कु जि किर करु ।  
लोयणाडि सो पेक्खइ सावहि ।  
वीरिणण संजुत्तु अमेएं ।  
आउहि थिउ छम्मासपर्माणं ।

घत्ता—सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपरयमइहि ॥

10

तहिं कालिहिं आहासइ सुरवइ धणवइहि ॥ २ ॥

3

एत्थु भरहि कुरुजंगलि जणवइ  
राउ सुदंसणु तहु गुणजलसरि  
एयहं दोहं वि होसइ जगगुरु  
ता तं जाइवि जक्खें रइयउ  
णिसि सुहुं सुत्तइ पियकमणीयइ  
करि करोइ पंचाणणु गोमिणि  
सफरुल्लय दो कलस सुहायर  
सीहासणु विमाणु णायालउ  
जायवेउ दीहरजालावलि

कुंजरपुरवरि मारुयधुयधइ ।  
मित्तसेण णामेण घरेसरि ।  
तुहुं करि ताहं तुरिउ कंचणपुर ।  
पट्टणु रयणकिरणअइसइयउ ।  
सिविणयपंति दिट्ठ रमणीयइ । 5  
मालाजुयलु चंदु णहयलमणि ।  
विमलसलिलकमलायर सायर ।  
मणिणुउरंबु मऊहकरालउ ।  
इय जोइवि ताए सिविणावलि ।

घत्ता—देविइ सुत्तविउद्धिइ अक्खिउ णरवइहि ॥

10

तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ॥ ३ ॥

2 १ A बुज्झवि णाणु धम्मु. २ AP णिओविउ. ३ AP सवणु. ४ AP पायोगमरणु.  
५ AP अहमिंदाणं. ६ A °पवाण; P °पमाणं. ७ AP तहिं जि कालि आहासइ.

3 १ AP तुरिउ ताहं. २ A सुहसुत्तइ. ३ AP मयूह°. ४ A °विवुद्धइ.

2 2 a धणवइ धनपतिर्नाम, b रमणीसरु स्त्रीणा स्वामी. 4 a णिओइउ प्रेरित. 7 b  
सावहि अवधिज्ञानयुक्तः. 8 a तप्पमाणं लोकनाडिप्रमाणेन, b अमेएं अमर्यादेन. 11 धणवइहि  
धनदस्य.

3 1 b धुयधइ °कम्पितध्वजे 2 b घरेसरि गृहिणी. 5 a पियकमणीयइ प्रियत्य मनो-  
शायः, भर्तृचरणलीनाया वा. 6 a करोइ वृषभ, b णहयलमणि आदित्य. 7 a सफरुल्लय मत्तरी,  
b कमलायर पद्मसर. 8 b मऊहकरालउ किरणयुक्तः. 9 जायवेउ अग्निः.

4

जो जाणइ तिहुयणि परु अप्पउ  
 तं णिसुणिंवि हरिसिय सीमतिणि  
 कंति कित्ति सइ बुद्धि भडारी  
 जा छम्मास ताम घरि चंदिरु  
 फग्गुणि चंदविसुद्धहि तइयहि  
 थिउ गब्भंतरालि जो धणवइ  
 थुउ अमरिंदचंदधरणिंदाहिं  
 बुद्धउं विसरिसेहि वसुहारहिं  
 परिवद्धंतइ दिणसंताणइ  
 थक्कइ कुंथुणाहणिन्वाणइ  
 वैरमग्गसिरमासि सिसिरिहु भरि

सो तुह सुउ होसइ परमप्पउ ।  
 आइय घरु सिरि दिहि हिरि कामिणि ।  
 गब्भसुद्धि कय सुहइं जणेरी ।  
 धत्तिउं जक्खें लोयाणंदिरु ।  
 णिसिपच्छिमसंझहि रेवइयहि । 5  
 सो अहमिंदु जवेप्पिणु सुहमइ ।  
 तहु दिवंसहु लग्गिावि जक्खिदहिं ।  
 अट्टारहपक्खंतरमेरहिं ।  
 वरिसकोडिसहसेण विहीणइ ।  
 पल्लवउत्थभायपरिमाणइ । 10  
 पूसजोइ चउदहमइ वासरि ।

घत्ता—सग्गमग्गसंखोहणु बुहयणदुरियहरु ॥

णाणत्तयसंजुत्तउ णासियजम्मजरु ॥ ४ ॥

5

सत्तमचक्कवट्ठि हयपरमउ  
 मंदरसिहरि तूरणिग्घोसहिं  
 णामु करेप्पिणु परमेसहु अरु  
 गउ पोलोमीवइ णियमंदिरु  
 हेमच्छवितणु दहदहधणुतणु  
 एकवीसवारिसहं सहसइं सिसु  
 एकवीससहसइं मंडलवइ  
 चउदह रयणइ णव वि णिहाणइं  
 सारयच्चु पविलीणु णियच्छिवि  
 जीविउ देहु असारु वियप्पिवि

संभूयउ जिणु अट्टारहमउं ।  
 णहविउ पुरंदरेहिं वत्तीसहिं ।  
 अम्महि करि अप्पिउ आविवि घरु ।  
 वड्डइ पुण्णवंतु जिणु सुंदरु । 5  
 गरुयारउ गुणगणरंजियजणु ।  
 लीलइ थिउ डिंभयकीलावसु ।  
 एकवीससहसइं पुणु महिवइ ।  
 भुंजिवि पीणिवि दविणें दीणइं ।  
 लच्छिविहोउ असेसु दुग्गुच्छिवि ।  
 अरविंदहु महिरज्जु समप्पिवि । 10

4 १ AP तिहुवणु. २ P सुणिवि. ३ A खित्तउ, P घित्तउ. ४ A देवसहु, P दिवहइ.  
 ५ AP परिवद्धंतइ. ६ AP दिणि. ७ P सियमग्गसिर°. ८ A सिसिहरभरि, P सिसिरहे भरि.

5 १ K मंदिरसिहरि. २ P एकवीससहसहसइ.

4 1 a परु पुद्दलादिकम्. 3 b सुहइं जणेरी सुखोत्पादिका. 5 a चं दिरु कनकम्. 5 b  
 णि सि प च्छि म सं झ हि प्रभातसंघ्यायाम्. 8 a वि सरि से हिं अनुपमैः, b अ ट्टार ह प क्ख त र मे र हिं न व-  
 मासान् यावन्. 11 b पूस जो इ रेवतीनक्षत्रे.

5 1 a हयपरमउ हतमिथ्यामतः. 4 a पो लो मी व इ इन्द्र. 7 b महिवइ चक्री. 9 a  
 सारयच्चु शरत्कालाभ्रम्; b लच्छिवि होउ लक्ष्मीविभोगः. 10 अरविंदहु अरविन्दनाम्नः पुत्रस्य.

घत्ता—खीरवारिपरिपुष्णहिं तारहारसियहिं ॥  
 ष्हाइवि मंगलकलसहिं सुरपल्हात्थियहि ॥ ५ ॥

6

णिसुणिवि सारस्सयसंवोहणु  
 करिवि सहेउयवणु तं जेत्तहि  
 मियासिरजुत्तमासि दहमइ दिणि  
 अवरण्हइ छट्टेणुववासं  
 लुंच्चिवि कुंतल णिमोहालउं  
 मणपज्जयधरु सुद्धिणिरिक्खहि  
 चक्कणयरि अवराइयणरवें  
 तहु घरि पंच वि चोज्जइं घडियइं  
 तवतावें णियतणु तावंतउ

वइजयंतसिवियहि आरोहणु ।  
 गउ तुरिएण महापहु तेत्तहि ।  
 चंदिणि रेवइरिक्ख सुसोहणि ।  
 णिक्खंतउ सहुं रायसहासं ।  
 लिगु असंगु लेवि णिच्चेलउं । 5  
 वीयइ दियहि पइट्टउ भिक्खहि ।  
 पाराविउ अमरासुरसुरवें ।  
 कुसुमइं रयणइं गयणहु पडियइं ।  
 सोलहवरिसइं महि विहरंतउ ।

घत्ता—दिक्खावणु आवेण्णिणु कत्तियमासि पुणु ॥

10

सियवारहमइ वासरि सुरवरणवियगुणु ॥ ६ ॥

7

अवरण्हइ अंबयतलि थक्कउ  
 जायउ केवलि केवलदंसाणि  
 धरणु वरणु ससि तरणि धणेसरु  
 थुणइ अणेयहिं थोत्तपउत्तिहिं  
 तेत्थु णिसण्णणं तं सिट्टउ  
 चउ णिरूवि अज्जीव पयासिय  
 मग्गणगुणठाणाइं समासिय  
 सत्तपंचणवच्छविहभेयइं

छट्टुववासिउ मोहें मुक्कउ ।  
 आयउ भेसइ अंगारउ सणि ।  
 पवणु जलणु भावेण सुरेसरु ।  
 समवसरणु फिउ विविहविहत्तहि ।  
 जं अवरोहिं मि देवहि दिट्टउ । 5  
 रूविखंधेसाइ वि भासिय ।  
 जीव सकाय अकाय वि दरिसिय ।  
 एयइं अवरइं कहियइं णेयइं ।

6 १ A सारयस्स. २ AP तावतहु. ३ AP विहरंतहु.

7 १ A भेसउ. २ AP अंगारय. ३ AP णीरूवि.

6 1 a सारस्सयं लौकान्तिका देवा. 3 a मियसिरजुत्तमासि मार्गर्गायें, b चंदिणि शुक्ले. 5 a णिमोहालउ निर्मोहयुक्तम्. 6 a सुद्धिणिरिक्खहि शुद्धनिरोधायाम्. 7 a णरवे नरपतिना राजा; b सुरवे गोभनगन्धेन.

7 1 a अवयतलि आम्रवृक्षतले. 2 b भेसइ वृहस्पति. 4 b विहत्तहि विमन्निमिः. 6 a चउ णिरूवि चत्वारो रूपरहिता धर्माधर्माकाशकालाः. 5 b णेयइ प्रमेयाणि जेयवत्तुनि.

तहु संजाया तहिं मउलियकर  
गणमि दहुत्तर वम्महदमणहं

गणहर तीस रिद्धिदुद्धीसर ।  
तिणिण तिणिण सय सिक्खुय सवणहं । 10

घत्ता—पंचंतीससहसइं भणु अडुसयइं कियइं ॥

तीसणित्तइं जाणसु मुणिहिं वयंक्रियइं ॥ ७ ॥

## 8

एत्तिये ओहिणाणि तहु ह्यकलि  
जिणवरचरणुण्णामियसीसइं  
मणपज्जयधराहं वरचरियहं  
सोलहसयइं परागमहारिहिं  
सावयाहं पुणु लक्खु भणिज्जइ  
लक्खइं तिणिण गेहधम्मत्थहं  
संखावज्जिएहिं गिञ्जाणहिं  
एक्कवीससहसइं ध्रुवुं माणइं  
भूयलि भमिवि भव्व पहि लाइवि  
सहुं रिसिसहसे थिय संमेयइ  
फग्गुणपुरिममासि कस्सणंतिमि  
पुञ्जाणिसागमि णिक्कलु जायउ

दुसहस वसुसय साहिय केवलि ।  
दोसहसइं पणवण्णविमीसइं ।  
चउसहसइं तिसयइं विक्कियहं ।  
सट्ठिसहासइं संजमणारिहिं ।  
सुण्णचउक्क छडग्गइ दिज्जइ । 5  
महिलहं मंगलद्वविहत्थहं ।  
सगंमृगेहिं पुव्वुत्तयमाणहिं ।  
वरिसहं सोलहवरिसविहीणइं ।  
मासमेत्तु णियजीविउ जोइवि ।  
मुइवि दिव्वेतणु पडिमाजोयइ । 10  
दियहि चंदि कयरेवइसंगमि ।  
गउ तहिं जिणु जहिं गयउ ण आयउ ।

घत्ता—चउविहदेवणिकायहिं जयजयकारियउ ॥

अरु अग्गिदकुमारहिं तहिं साहुंकारियउ ॥ ८ ॥

## 9

अरु अरविंदगीभकयचारउ  
अरु अरमाणिहीहिं णउ रच्चइ

अरु अरुहंतु अणंगवियारउ ।  
अरु अरहिह्लु तच्चु जग्गि सुच्चइ ।

४ AP वनणहं. ५ P पंचवीस.

8 १ AP एत्तिय तीयणाणि; T तइयणाणि. २ AP तिणेहि. ३ AP पुद्धुत्तनाणहिं.  
४ A जुयणाणइ. ५ A वरिसइं हीणइं. ६ T जोइवि. ७ AP क्कलेव. ८ A क्कलवलि. ९ AP  
सकारियउ.

9 १ AP जग्गि.

9 a रिद्धिदुद्धीसर पूर्वशः. 10 a दहुत्तर तिणिण तिणिण सय वसोत्तरणुत्तवलि.

8 2 a उण्णामियसीसइं उलान्तिवन्तवलि. 4 a परागमहारिहिं निम्बन्तहराणां  
वादिनाम्. 9 a पहि लाइवि नोञ्जाने प्रेरणित्वा. 11 ७ कयरेवइसंगमि चन्ने कयरेवइसंगमे सति.

9 2 a अरनाणिहीहिं अरमा वारिच्चं निदिनिवानं देयां त्रेयां दाउत्तान्ः ७ अरहिह्लु  
प्रकटः उच्चइ भूयने.

अरु अरसिल्लु अगंधु अरुअउ  
 अरु अरईरईहिं णउ छिप्पइ  
 अरु अरवें गुणेण संजुत्तउ  
 अरु अरुयाणिवासु अजरामरु  
 अरु अरुहक्खरोहिं जगि भाणित्त  
 सो संसारि भमंतु ण थक्कइ  
 अरु अरिहर आवरणु महारउ

अरु अरामु अविрамउ हूयउ ।  
 अरु अरोसु किहं पावें लिप्पइ ।  
 अरु अरुणें पवणें पहु वुत्तउ । 5  
 अरु अरुद्धु विहुरेण सुहायरु ।  
 अरु अरु वप्पं जेण णउ जाणित्त ।  
 अरुथुइ करहुं ण सक्कु वि सक्कइ ।  
 णिहणउ दंसणणाणिवारउ ।

घत्ता—अरतित्थंकरि णिव्वुइ रंजियविउससह ॥

10

हूई णिसुणि सुंभउमहु चक्किहि तणिय कह ॥ ९ ॥

### 10

एत्थु भरहि लंविधयमालइ  
 पहु भूवालु णाम भूमंडणु  
 बहुयहिं आहवि एक्कु णिरुज्झइ  
 खज्जइ बहुयहिं भरियभरोलिहिं  
 बहुयहि मिलिवि माणु तहु खंडित्त  
 लोहमोहमयभयजमदूयहु  
 भोयाकंखइ करिवि णियाणउं  
 सोलहसायराउ सो जइयहुं  
 कालें कालु जाम पल्लइ  
 पवरिक्खाउंवंसु सियमंदिरि  
 दुद्धरवइरिवीरसंघारउ

रयणसिहरघरि णयरि विसालइ ।  
 तहु जायउं परेहिं सहं भंडणु ।  
 बहुयहिं सुत्तहिं हत्थि वि बज्झइ ।  
 विसहर विसदारुणु वि पिपीलिहिं ।  
 तेण वि पुरु कलत्तु घरु छंडित्तं । 5  
 रिसिंत्तउ लइउ णियडि संभूयहु ।  
 मुउ लद्धउं महसुक्कविमंणउं ।  
 अच्छइ सुरवर सहं दिवि तइयहुं ।  
 एत्थु कहंतुरु अवरु पवट्टइ ।  
 सहसबाहु णरवइ कोसलपुरि । 10  
 कण्णाकुज्जहि राणउ पारउ ।

घत्ता—णाम विचित्तमइ सइ तेण मुणालभुय ॥

सहसबाहुंणरणाहहु दिण्णी णियय सुय ॥ १० ॥

२ क्रिम. ३ A अरएं. ४ AP वरुणें. ५ A अरुयाणिवासु. ६ AP जेण वप्प. ७ P सुभोमहु.

10 १ AP भूवालु. २ P छडित्त. ३ AP रिसिवउ. ४ AP विवाणउ. ५ AP वंसि तहु मंदिरि. ६ AP सहसबाहुं.

3 a अरसिल्लु तिकादिरससहितः, b अरामु स्त्रीरहित, अविरामउ विनाशरहितः. 5 a अरवें गुणेण संजुत्तउ अशब्देन गुणेन युक्तः, तस्य गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इत्यर्थः. 6 a अरुयाणिवासु आरोग्यनिवासः. 9 b णि हणउ हन्तु.

10 1 b विसालइ विशालनाम्नि. 4 a भरियभरोलिहिं भृतवल्मीकामि., भरोलि वल्मीकः. 10 a सियमदिरि उज्ज्वलसौधयुक्ते गृहे. 11 b कण्णाकुज्जहि कन्याकुञ्जपुरे; पारउ पारतनामा.



## 11

सुंदरु लक्खणलक्खियकायउ  
 वीणालावहि मज्जे खामहि  
 सयविदुं णरिंदकुलहंसं  
 सिंसु जमयग्गि णाम उप्पण्णउ  
 वाल्लत्तम्मि तेण सेविउ वणु  
 अवरु ताहिं जि दढगाहिणरेसरु  
 वेण्णि मि समउं सोक्खु भुंजेप्पिणु  
 णिउ जिणवररिसि सोत्तिउ तावसु  
 मित्तं मित्तु वुत्तु णउ जुज्जइ  
 विप्पे तासु वयणु अवहेरिउ  
 जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु  
 खत्तिउ मरिवि जाउ सोहम्मइ

तहि कयवीरु णाम सुउ जायउ ।  
 पारयंविहिणिहि सिरिमइणामहि ।  
 णियजसससहरधवलियवंसं ।  
 जणणिमरणसोरं णिच्चिण्णउ ।  
 जागि जायउ तवतिव्वु तवोहणु । 5  
 तासु मित्तु हरिसम्म सुदियवरु ।  
 जइ जाया इच्छिउ वरुं लेप्पिणु ।  
 ह्यउ मोहमंदुं मिच्छावसु ।  
 तावसमग्गे जम्मु ण छिज्जइ ।  
 उत्तरु किं पि वि णेय समीरिउ । 10  
 वेण्णि मि मुय संणासु करेप्पिणु ।  
 वंभणु पुणु जोइससुरहम्मइ ।

यत्ता—चित्तिउ पत्थिवदेवे सुहि वसुमलमइहि ॥

तउ अण्णाणु चरेप्पिणु हुउ जोइसगइहि ॥ ११ ॥

## 12

मइं सयणेण वि णउ उत्तारिउ  
 इय णिज्जाइवि दुक्कउ तेत्तहिं  
 णेहपरव्वसेहिं भुयमंडिउ  
 अवलोइवि जोइसु मउलियकरु  
 पइं जिणवयणु वप्प अवगण्णिउ  
 णच्चइ देउ गेयसरु गायइ  
 उहइ पुरइं रिउवग्गु वियारइ

जायउ वंधुं दीहसंसारिउ ।  
 अच्छइ सुरवरु जोइस जेत्तहिं ।  
 दोहं मि एक्कमेक्कु अवरुंडिउ ।  
 आहासइ विहसिवि कप्पामरु ।  
 अण्णाणु जि गुरुयारउं मण्णिउ । 5  
 महिलउ माणइ वज्जउ वायइ ।  
 एहउ किं संसारहु तारइ ।

11 १ A सुदर°. २ AP °वहिणिहि. ३ A वाल्लत्तणि जि. ४ AP तउ तिव्वु. ५ AP वउ.  
 ६ A °वरसिरि सोमित्तिउ P °वररिसि सोमित्तिउ ७ P मेहमंदु.

12 १ दीह वंधु. २ A जोइससुरवरु. ३ AP गरुवारउ.

11 1 a त हि तस्या विचित्रमत्याम् ; कयवीरु कृतवीरः. 2 b पारयविहिणिहि पारतभगि-  
 न्यां श्रीमतीनाम्याम्. 3 a सयविदु शतविन्दुना. 4 a जमयग्गि जमदग्निः. 5 a णिउ नृपः. 11 a  
 जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु मुनिना जिनपादाना स्मरणं कृतं तापसेन हरपादानाम्. 12 b जोइस-  
 सुरहम्मइ ज्योतिष्कविमाने. 13 वसुमलमइहि शङ्काद्यष्टदोषमतौ.

12 1 a मइं इत्यादि छट्टिदेवश्चिन्तयति स्वचित्ते. 3 a भुयमंडिउ भुजौ प्रसार्य. 6 b  
 देउ रुद्रः.

णिकल्लु कि सिद्धंतु समासइ  
सहें विणु कहिं सँत्थपरिगगहु  
तं णिसुणिवि इयरेण पवुत्तउं

विणु वयणेण सहु कहिं होसइ ।  
पइं कुमग्गि किं किउ णियणिग्गहु ।  
मइं ण सिवागमि इहु तउ तत्तउं । 10

घत्ता—गउरीमुहकमलालिहि वरगोवइगइहि ॥

भासिउ किं पि ण वुज्झिउ देवहु पसुवइहि ॥ १२ ॥

### 13

ता पभणइ सुरु सम्माइट्टिउ  
सो दावहि तावसु जो गयमलु  
सुहिणा उत्तउ मयणणिवारउ  
ते वेण्णि वि जैण गुणगणसिक्खहि  
गय कलविकमिहुणु होएण्णिणु  
कणु चुणंति कीलंति भमंति वि  
अण्णाहि दिणि जंपइ चिडउल्लउ  
गच्छमि लग्गउ एत्थु जि अच्छहि  
ता चिडउल्लियाइ पडिवोल्लिउ  
पइं विणु पक्कु वि दिवहु ण जीवमि  
करंहि सवह जइ परइ ण आवहि

जो तुम्हारइ णिड्डइ णिट्टिउ ।  
आउ आउ वच्चहुं धरणीयलु ।  
पेच्छंहि रिंसि जमयग्गिभडारउ ।  
सज्जण लग्गा धम्मपरिक्खहि ।  
थिय मुणिमीसियवासु रएण्णिणु । 5  
तावसमासुरवासि रंसंति वि ।  
कंति कंति हउं भर्मणपियल्लउ ।  
कल्लइ आयहु महु मुँहुं पेच्छहि ।  
हियवउ णाह महारउ संल्लिउ ।  
अज्जु वियालइ जमपुरि पावमि । 10  
तो मइं णिच्छंउ मुइय विहावहि ।

घत्ता—भणइ पक्खि हलि पक्खिणि परइ ण एमि जइ ॥

हउं एयहु जमयग्गिहि दुक्किउ लेमि<sup>११</sup> तइ ॥ १३ ॥

### 14

तं णिसुणिवि सयविंदुहि णंदणु  
अरि अरि पिसुण पक्खि किं वुक्कउं

पभणइ रोसजलणजालियतणु ।  
महुं गुणवंतहु कि किर दुक्किउं ।

४ AP सह°.

13 १ AP वचहं. २ P पच्छहि. ३ A जिण. ४ A तावसमासुर. ५ A रमति. ६ A भवण°, P भणमि. ७ महुं. ८ A डोल्लिउ. ९ A करहु. १० A णिच्चउ. ११ A लेवि.

14 १ A पक्खि पिसुण. २ AP वुक्किउ.

S a णि कल्लु सदाशिव., b वयणेण वदनेन. 10 a इयरेण विप्रचरेण ज्योतिष्कदेवेन. 11 गउरी-  
मुह° पार्वतीमुखम्; वरगोवइगइहि वृषभोपरिगतेः. 12 पसु वइहि रुद्रस्य.

13 5 a कल विक° चट्क., b मुणि मीसियवासु मुनिश्मश्रुकूर्चे वासः. 6 b तावसमासुर-  
वासि तापसश्मश्रुवासिनौ, रसति शब्द कुर्वन्ति. 7 b भमणपियल्लउ भ्रमणप्रिय.. S b आयहु महु  
आगतस्य मम. 10 b वियालइ संख्यायाम्. 11 a सवह शपथान् b मुइय मृतान्.

14 2 a वुक्कउं उक्तम्.

जइ दुक्किउ तो पइं संघारमि  
एव चवेप्पिणु कयसंकीलणु  
पेहुणिल्ल थिय अंवरि जाइवि  
तवहु ण जुत्तउं जीवविणासणु  
ता भासइ छारेणुद्धल्लिउ  
कि मइं क्रियेउं पाउ तवचरणे  
ता घरपक्खि कहइ लइ चंगउं  
परं किं वेयवयण ण वियाणिउं  
सुयमुहकमल्लु ण कहि वि णिहालिउं  
णत्थि अपुत्तहु गइ विप्पागामि

हत्ये णिहसिवि पेहुं समारमि ।  
करहि णिहिट्टउ सउणिणिहेलणु ।  
पभणिउ तवसि तेणं पोमाइवि । 5  
खमहि ताय खम मुणिहिं विहूसणु ।  
हउं तुम्हहिं किं ज्ञाणहु चालिउ ।  
गणवइतिणयणपूयाकरणे ।  
पइं तवतावे त्ताविउं अंगउं ।  
णवउ कलत्तु ण कत्थु वि माणिउं । 10  
दुरिपं अप्पाणउं किं मइलिउ ।  
ता संजाय चित जइपुंगमि ।

घत्ता—अण्णाणिउ तवभट्टउ मायावयणहउ ॥

सो तहु पारयणामहु मामहु पासि गउ ॥ १४ ॥

## 15

तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ  
वेयालु व वियरालु जडालउ  
थेरु जराजजरिउ ण लज्जइ  
कीलंती अण्णेक्क पियारी  
रेणुय भणिवि तेण हक्कारिवि  
वइसारिय अंचोलिहि लुद्धे  
णिसुणि ससुर एयइ हउं इच्छिउ  
एह देवि लहुई किं चुच्चइ

कज्जलकंचणमरगयवण्णउ ।  
अवल्लोएप्पिणु णट्टउ बालउ ।  
धरधरिणीवापं किह भज्जइ ।  
कुयरि रेणुधूसर लहुयारी । 5  
कयलीहल्लु दंसेवि पयारिवि ।  
भणिउं अणंगसरोहणिरुद्धे ।  
मुद्धइ पंतु मणेण पडिच्छिउ ।  
जाहि महारउ वोल्लिउ रुच्चइ ।

घत्ता—णासउ तणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियहं ॥

वड्डियजोव्वणगव्वहं मज्झु विरत्तियहं ॥ १५ ॥

10

३ AP पिट्टु. ४ AP तहिं. ५ AP कयउ. ६ A सुरपक्खि, T घरपक्खि. ७ AP पइं.

15 १ AP घरि घरिणी°. २ P °धूसरि. ३ A वियारिवि, PT पवियारिवि. ४ A अचो  
लिहि. ५ AP देहि. ६ लहुधी, P लहुवी. ७ P वडगरुय°.

3 b पेहु चूर्णम्. 4 a कयसंकीलणु कृतसंकीडम्, b णि हि ट्टउ निघृष्टम्, सउणिणिहेलणु पक्षि  
नीडम्. 5 a पेहुणिल्ल पक्षिणौ. 6 a छारेण भस्मना. 8 b गणवइ गणेश.; तिणयण रुद्रः. 9 a  
घरपक्खि ग्रामचटक..

15 1 a तणुरुहकारणि पुत्रनिमित्तम्, b कज्जल° श्यामलवर्णा. 2 b णट्टउ बालउ कन्याः  
नष्टा. 4 a कुयरि कुमारी. 5 b पयारिवि प्रतार्य 6 a अचोलिहि उत्सङ्गे. 9 णासउ तणुगरु  
यत्तणु नश्यतु तनुत्तुत्वम्, कुञ्जा भवन्त्वित्यर्थ .

16

कण्णउ खुज्जियाउ तहु सावें  
कण्णाकुज्जणयरु तं घोसिउ  
पयहं पासिउ एह रवण्णी  
गउ वणवासहु महिहरकंदरि  
जाया तणुरुह दोण्णि महाभुँयें  
दोहि मि णिहियें जयजसधामइं  
रेणुयभायरु साहु अरिजउ  
आउ णिहालिवि ससइ णमंतिइ  
जइयहुं महु विवाहु किउ तापं  
अज्जु देहि बंधव जइ भावइ

जायउ तिब्बतवोहपहावें ।  
देवहिं जइचरित्तु उवहासिउ ।  
देहि मज्जु ता तापं दिण्णी ।  
तहि णिवसंतहं ताहं सणिज्जरि ।  
दोण्णि वि चंद सूर णं णहचुय । 5  
इंदसेयरामंतइं णामइं ।  
रिद्धिवंतु तवतत्तु सुसंजउ ।  
मग्गिउ किं पि हसंतहसंतिइ ।  
तइयहुं धणु ण दिण्णु पइं भापं ।  
जेण दुक्खु दालिहु वि णावइ । 10

घत्ता—भणइ मुणीसरु सुंदरि लिंदहि कुमयमइ ॥  
दंसणणाणचरित्तइं रयणइं तिण्णि लइ ॥ १६ ॥

17

ता सम्मत्तु वियारें सहियउ  
तुट्टु भडारउ सुट्टु वियक्खणु  
परसुमंतु पैरिक्खणु देंते  
हई रेणुय ताइ कयत्थी  
तुम्हारिसहं सजीउ वि देंतहं  
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु  
कामधेणु हियइच्छिउ दुब्भइ  
अण्णाहि वासरि सुरगिरिधीरें  
गहणणिहेलणु लुहु जि पइट्टउ

सावयवउ मुद्धइ संगहियउ ।  
करुणें करिवि सबहिणिणिरिक्खणु ।  
दिण्णी कामधेणु भयवंतें ।  
पभणइ भिक्खुहि पंजलिहत्थी ।  
दीणुद्धरणु सहाउ महंतहं । 5  
गउ रिसि धम्मविद्धि पभणेप्पिणु ।  
तं तावसकुडुंनु तहि रिज्जइ ।  
सहसवाहु संजुउ कयवीरें ।  
राउ तवोहणेण तें दिट्टउ ।

घत्ता—अब्भागयपडिवत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥ 10  
हियेंउं भिण्णउं दोहं मि कुँअरहु पत्थिवहु ॥ १७ ॥

16 १ AP कण्णाखुज्जु. २ A तहु घोसिउ. ३ A कुडचरित्तु. ४ A महन्भुय. ५ A दिण्णइ. ६ A जं भावइ. ७ A दालिहु ण आवइ, P दालिहु वि ण आवइ. ८ P छडुहि.

17 १ A सुद्धे. २ P परक्खणु. ३ P ते. ४ P तहिं. ५ AP हियवउ. ६ A कुमगट्टु.

16 1 b तवोहं तप.समूह. 2 b देवहि देवान्याम्. 6 b इंदसेयरामतइं इन्द्ररामः श्वेताराम इति. 8 a आउ णिहालिवि आगत दृष्टा, ससइ भगिन्या रेणुक्या. 9 b भाएं भ्रात्रा.

17 1 a वियारे ज्ञानेन. 4 b सहाउ स्वभावः. 7 b रिज्जइ ऋद्धि प्राप्नोति. 9 a गहण- णिहेलणु वनस्थगृहं तापसगृहम्. 11 भिण्णउ साश्रयं जातम्.

## 18

णियजणणीसस णविवि णियच्छिय  
अम्मि अम्मि भोयणु भल्लारउं  
एहउं नृवहं मि णउं संपज्जइ  
अक्खिउ रेणुयाइ विहसेप्पिणु  
ताइ बुत्तु अम्हहं चित्तिउ फलु  
जं अंवाइ एम आहासिउं  
रयणइं होंति महीयलवालहं  
तासु वि तहिं जि चित्तु आसत्तउं  
चउरासमगुरु रयणिहिं अंचहि

माउच्छिय कयवीरें पुच्छिय ।  
जहिं चक्खिज्जइ तहिं रससारउं ।  
तुम्हहं तावसाहं किह जुज्जइ ।  
गउ वंधवु सुरघेणुय देप्पिणु ।  
णं तो पुणु वणि भुंजहुं दुमहलु । 5  
तणएं तं णियेपिउहि पयासिउ ।  
णउ तवसिहिपसरियजडजालहं ।  
कयवीरें कर मउलिचि बुत्तउं ।  
दिव्वगाइ दिय देहि म वंचहि ।

घत्ता—गाइ ण देमि म पत्थहि अरितरुणियरसिहि ॥

10

विणु गाइइ अम्हारइ ण सरइ होमविहि ॥ १८ ॥

## 19

ता तं सुणिवि तेण महिणाहें  
इ त्ति अमरवरसुरहि महड्डिय  
भुयहिं धरइ जमयग्गि ण संकइ  
तवसिहि करु करेण अच्छोडिउ  
णीसारिय णांदिणि मढवांसहु  
उद्धावद्धाणिविडजडमंडलु  
सोत्तरीयउववीययउरयलु  
वद्धतोणु परिवड्डियअमरिसु  
दोणिण तिण्णिण चउ पिच्छंचिय वंर

गोहणलुद्धें णं वणवाहें ।  
कंचणदामइ धरिवि णियड्डिय ।  
रेणुय कलयलु करहुं ण थक्कइ ।  
णिच्चलु मेइणियलि सौ पाडिउ ।  
णं णियेजीयावित्ति तणुदेसहु । 5  
सव्वणोलंविद्यतं वयकुंडलु ।  
धूलिधवंलु अवलोइयभुयवलु ।  
धाइउ सर मुयंतु राणि तावसु ।  
पंच सत्त णव दह चंचलयर ।

18 १ AP णिवहं. २ P ण वि. ४ AP दुमफल. ४ णियपियहि. ५ A तवसियपसरिय°.

19 १ P ता तें सुणिवि. २ AP महिड्डिय. ३ A तहिं पाडिउ. ४ AP add after this चलिउ लेवि जाम णिववासहु ( A णियदेसहु ). ५ A omits this foot. ६ P तणु देतहु. ६ A समणोलंविद्य°. ८ A सोत्तरोउ. ९ A धवल. १० AP सर.

18 1 b माउच्छि य मातृषसा. 6 a अंवाइ लघुमात्रा मातृषसा. 7 b तव सि हि पसरिय-जडजालहं तपोग्निना प्रसारित जटाजालं येषा तेषा रत्नानि न भवन्ति. 9 a चउरासमगुरु चतुर्णामाश्रमाणा गुरु राजा, b दिय हे यते. 10 °सि हि हे अग्ने. 11 सरइ सपद्यते.

19 1 b वणवाहें भिल्लेन. 2 a अमरवरसुरहि कामधेनु., b णियड्डिय आकृश. 4 a तव सि हि करु यतिहस्त., अच्छोडिउ मोचित्तः. 5 b णियजीयावित्ति, निजजीवप्रवृत्तिः तणुदेसहु शरीरप्रदेशात्. 6 a उद्धावद्ध° ऊर्ध्वं वद्धम्, °जडमंडलु जटामण्डलम्.

वारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह बाण मुक्क सत्तारह । 10  
 णहयल्लु सरसंछणु ण दीसइ सहसबाहु णियरहियहु भासइ ।  
 घत्ता—वाँहि वाहि रहु तुरिपं संघारमि कुमइ ॥  
 एहा महियलि जइ जइ तो केहा णिवइ ॥ १९ ॥

20

बाणहि बाण हणेपिणु विद्धउ णं चंदणतरु णायहिं रुद्धउ ।  
 जइ विचित्तमइदइएं घाइउ सयबिंदुहि तणुरुहु विणिवाइउ ।  
 णाहमरणि दुक्खेण विसइइ गाइ ण जाइ हयवि पलइइ ।  
 महिपलोडु णियसामि णिहालइ पुच्छि विजइ जीहइ लालइ ।  
 दुद्धं सिंचइ वयणु समिच्छइ ओरसंति णियहुँल्लइ अच्छइ । 5  
 जाम ताम णियवईरिहिं चप्पिवि रोवइ रेणुय विहुरु वियप्पिवि ।  
 हा हा कंत कंत किं सुत्तउ किं ण चवहि महुं काइं विरत्तउ ।  
 मुच्छिओ सि किं तवसंतावें कि परवसु थिउ ज्ञाणपहावें ।  
 लइ कुसुमाइं घट्टु लइ चंदणु करहि भडारा संझावंदणु ।

घत्ता—उट्टि णाह जल्लु ठोवहि तण्हाणिरसणउं ॥ 10  
 करि सहवासियहरिणहं करयलफंसणउं ॥ २० ॥

21

दावहि एयहु कुवलयकंतिहि जल्लु होमावसेसु सिसुदंतिहि ।  
 उट्टि णाह तुहुं एक्कु जि जाणहि तणयहं वेयपयइं वक्खाणाहि ।  
 तेहि वि अल्लु काइं सुइराविउं अवरु कि पि किं दुग्गि विहाविउ ।  
 जहिं गय कंदमूलफलगुंछहं तहिं किं कामि णिवडिय खलमेच्छहं ।

११ A णहयल्लु संछणुणउ णउ दीसइ, P णहयल्लु छणु ण बाणहिं दीसइ. १२ बाहु बाहु.

20 १ AP चदणतरु णं. २ A णियडुल्लिय, P णियडुल्लइ. ३ A णियवइउरि.

21 १ A दुग्गु. २ AP ०गोँछइ.

11 a सरसछणु बाणैराच्छादितम्, b ०रहियहु सारथेः. 12 वाहि वाहय. 13 एहा ईदशा., जइ यदि; जइ यतय, केहा कीदशाः.

20 2 a जइ यतिः, विचित्तमइदइएं विचित्रमत्या भर्त्ता सहस्रबाहुना. 3 b हयवि शृङ्गादिना हत्वा. 4 b विजइ वीजयति 5 b णियडुल्लइ निकटे. १ a घट्टु घृष्टम्.

21 1 a सिसुदतिहि बालागजस्य. 2 b वेयपयइ वेदपदानि. 3 b दुग्गि वने. 4 b कामि णिवडिय हस्ते पतितौ.

णउ मुणंति जं जणैयहु जायउ  
 आर्यणवि तहिं जणणिहि रुण्णउं  
 जाइवि दोहिं मि थीयणसारी  
 भणु भणु केण ताउ संघारिउ  
 कुलिसिहि कुलिसु केण मुसुमूरिउ  
 केसरिकेसरग्गु किं छिण्णउं  
 केण सदेहु हुणिउ कालाणणि

ता तहिं सुयजुवल्लुउं आयउ । 5  
 पिउमडउल्लुउं वाणविहिण्णउं ।  
 पुच्छी अम्मापवि भडारी ।  
 केण संपाणणासु हक्कारिउ ।  
 सेसफडाकडप्पु किं चूरिउ ।  
 केण गरल्लु हालाहल्लु चिण्णउं । 10  
 को पइहु वइवसमुहघंघाले ।

घत्ता—इज्जइ कहिउ ख्यंतिइ भोयणरिद्धिभरि ॥

सहसवाहु कयवीरु वि भुंजिवि मज्झु घरि ॥ २१ ॥

## 22

जहिं भुत्तउं तहिं भाणउं भिदिवि  
 गय रिउ हरिवि महारिय धेणुय  
 गज्जिवि पुणु वि रोसरसभरियउ  
 ता जेदुहु उवइदुउ मायइ  
 गय वेणिण मि जण वीरं महाइय  
 करि तुरंगु रहवरु णरु णावइ  
 लंबिरकेसइं भउहाभीसइं  
 णासंत वि खत्तिय णिक्खत्तिय  
 जो भूर्आल्लु णाम चिरु राणउ  
 देउ महासुकंतरि जायउ  
 समउं तेण गब्भेण पलाणी

कंतु महारउ कंडहिं छिंदिवि ।  
 ता संथविय संपुत्तिहिं रेणुय ।  
 णयणजुयलजल्लु जणणिहि पुसियउ ।  
 परसुमंतु दिण्णासीवायइ ।  
 तं साकेयणयरु संप्राइय । 5  
 दसदिसु चहुल्लु परसु परिधावइ ।  
 पिउपुत्तहं खणि छिण्णइं सीसइं ।  
 वइवसमुहकुहरंतरि घत्तिय ।  
 जो तउ चरिवि मरिवि सणियाणउ ।  
 जो पुणरवि जम्मंतरि आयउ । 10  
 सइ विचित्तमइ णामे राणी ।

घत्ता—णियपइपुत्तहं मरणे सोयविसंहुलिय ॥

सुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥ २२ ॥

३ AP जणणहु. ४ A आयणिवि तहिं, P आयणंतहिं. ५ A जोयवि. ६ P ताउ केण. ७ A सुपाण-  
 णासु. ८ A जिं छित्तउ. ९ AP भुत्तउ. १० AP ०हरि.

22 १ AP गउ. २ AP महारी. ३ A सपुत्तिहि. ४ P धीर. ५ AP सपाइय. ६ AP  
 भूपाळ. ७ AP सो.

5 a जं जण यहु जायउं तातस्य मरणम्. 6 b पिउमडउल्लुउं पितुर्मृतकम्. 7 a थीयणसारी  
 स्त्रीजनमध्ये उत्तमा. 9 कुलिसिहि इन्द्रस्य. 10 b चिण्णउं भक्षितम्. 11 b ०घघलि ०विघ्नप्राये.  
 12 इज्जइ मात्रा; ०रिद्धिभरि ०रुद्धिभृते मम गृहे.

22 2 a महारिय मदीया, b सपुत्तिहिं स्वपुत्राभ्याम्. 3 b पुसियउं मार्जितम्. 4 b  
 दिण्णासीवायइ दत्ताशीर्वादया मात्रा. 6 a णावइ अभिसुख नागच्छति. 7 a भउहाभीसइं भृकुटि-  
 भीषणानि. 8 a णिक्खत्तिय निपातिता; b वइवसमुह ० यमसुखम्. 9 a भूर्आल्लु भूपालो विशाल-  
 नगरपतिः. 13 a सुंदरि विचित्रमतिः.

23

सा गुरुहार दिदृ संडिल्ले  
अप्यि सा सुबुद्धिणिगंथहु  
वसैइ जिणालइ गइ रणयालइ  
पुत्तु पसुई देवहिं रक्खिउ  
पुच्छिउ साहु समंजसु घोसइ  
सोलहमइ पत्तइ संवच्छरि  
देवीभायरेण ह्यसल्ले  
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थइं  
एत्तहि रिसिजमयग्गिहि पुत्ते

तावसेण संसयणवच्छल्ले ।  
सुद्धसहावहु कहियसुपंथहु ।  
फुल्लियकाणणि तहिं मिगमेलइ ।  
मायइ कुलउच्चरणु णिरिक्खिउ ।  
णंदणु छक्खंडाहिउ होसइ । 5  
तुहुं पेच्छिहिसि चिंधु तणुरुहवरि ।  
णिउ णियभवणहु सिंसु संडिल्ले ।  
परिपालिउ सिक्खिउ सत्थत्थइं ।  
जयसिरिरइरसलंपडचित्तं ।

घत्ता—जणणमरणु सुअरंते मारिय रायवर ॥

10

परसुमंतंमाहणं रणि करवालकर ॥ २३ ॥

24

एक्कवीसवारउ णिक्खत्तिवि  
वड्ढियवेयवयणमाहप्पहं  
जाया रिद्धिइ सक्कसमाणा  
जहिं दीसइ तहि पसु मारिज्जइ  
सोमपाणु महुमहुरउ पिज्जइ  
विउलजण्णमंडवसिरि दावइ  
णिच्चमेव संठियपडिहारइ  
पयडियदंतपंतिवियरालइं  
ताराणियरसिसिरकरधवलइं  
जायउ सर्व्वभोमभूवालउ  
गुरुहारहि कह कह व चलंतहि

खत्तिय सयल्लु वि छारु परात्तिवि ।  
पुहइ असेस वि दिष्णी विप्पहं ।  
जहिं दीसहि तहिं दियवर राणा ।  
पियरहं ढोपप्पिणु पलु खज्जइ । 5  
सामवेयपउ मणहरु गिज्जइ ।  
होमहुयासधूसु णहि धावइ ।  
परसुरामदेवेसंदुवारइ ।  
खांभि खांभि कीलियइं कवालइं ।  
णं जसवेल्लिहि फुल्लइं विमलइं ।  
कि वण्णिज्जइ तावसवालउ । 10  
मायहि पसवणवियणफिलंतहि ।

23 १ A सिंसुजणवच्छल्ले, P सुसुयणि वच्छल्ले. २ AP सह सुबंधु. ३ A नेत्यु सा वि जा वसइ जिणालइ, P वसइ जिणालइ गव रणयालइ. ४ A सचिंधु तणु. ५ A विरिजम. ६ AP सुम-रते. ७ A मतिमाहणं रण.

24 १ A सयल वि. २ AP पवत्तिवि. ३ A सुदुवारइ. ४ A सव्वभूमिभूवालउ.

23 1 a गुरुहार गभिणो, b संसयणं निजस्वजनं. 3 a गइ रणयालइ न्यापणे गते सति. 5 a समंजसु न्यापवान्. 6 b चिंधु ध्वजम्.

24 1 b परत्तिवि भल्लोत्तय. 8 b कीलियइ कवालइ विल्लिहि रणाणा रणा कत्तवन्ति. 10 a सव्वभोमभूवालउ सर्व्वपृथ्वीपरिपालकः.



उप्पज्जइ सो को वि सुणंदणु  
जामयग्गिणरणहँ जेहउ

किज्जइ जेण वइरिसिरछिदणु ।  
अण्णहु जयविलासु कँहु एहउ ।

घत्ता—भरहु असेसु वि भुत्तउ हय रिउ तायवहि ॥  
पुष्पदंत तहु तेएं सभय चरंति णहि ॥ २४ ॥

15

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे अरतित्थंकरणिच्चाणगमणं  
परसुरामविहववण्णणं णाम पंचसद्धिमो  
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६५ ॥

५ A कहिं. ६ A सुभूमचकवट्टिउप्पत्ती.

11 a गुरुहार हि गर्भिण्याः. 14 हय रिउ ता यव हि पितृवधे रिपवो हता . 15 a तहु तेएं तस्य  
इन्द्ररामस्य तेजसा.

एतहि गिरिगहणि तावसघरि वड्डइ सुंदरु ॥  
लक्खणचेंचइउ णहणिवड्डिउ णाइ पुरंदरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

करताडियवरफणिफेणकडप्पु  
लीलाइ धरियकेसरिकिसोरु  
दियसिहिं वड्डिउ णं बालयंदु  
सत्तुहि छिंदंतहु अमरसेण  
णं सहसबाहुकुलजसणिहाउ  
चक्कंकियकरयल्लु पायपउमु  
विहवत्तणदुक्खोहरियछाय  
सांडिल्लु मामु तुडुं जणणि माइ  
विणु तापं पुत्तु ण होइ जेण

उड्डालियवणमायंगदप्पु ।  
तरुंकीलिरकिंणरिचित्तचोरु ।  
णं सो णिववंसहु तणउ कंदु । 5  
उच्चरिउ कहिं मि जो विहिवसेण ।  
णं परसुरामसिरकुलिसघाउ ।  
हक्कारिउ मामें सो सुभूउमु ।  
अण्णहि दिणि पुच्छिय तेण माय ।  
पर ताउ ण पिच्छमि महुरवाइ । 10  
महु संसउ वड्डइ कहहि तेण ।

घत्ता—भंणु हउं कासु सुउ महियलि मंडणउ पहिल्लउं ॥

भणु किं कारणेण तुह हत्थि णत्थि कडुंल्लउं ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

यस्येह कुन्दामलचन्द्रोचि समानकीर्तिं ककुभां मुखानि ।  
प्रसाधयन्ती ननु बम्भ्रमीति जयत्वसौ श्रीभरतो नितान्तम् ॥ १ ॥

पीयूषसूतिकिरणा हरहासहार-  
कुन्दप्रसूनसुरतीरिणिशक्रनागा ।  
क्षीरोद शेष बल याहि निहंस चैव  
किं खण्डकाव्यधवला भरत स्थ यूयम् ॥ २ ॥

A reads in the third line: बलयासिति हंस चैव, P reads बलसत्तम हंस चैव, AP reads in the fourth line भरतस्तु यूयम्. K has a gloss या हि त्व गच्छ, निहंस नितरा हंस त्वमपि गच्छ । यूय किं भरतः अतिशयात् खण्डकाव्यवत् धवला वर्तध्वे, अपि तु न । तर्हि गच्छन्तु.

1 १ AP णहि णिवड्डिउ. २ P °फणिफड°. ३ P उड्डालिय°. ४ A णिरु कीलिरकिंणर°. ५ P omits ण. ६ AP °सिरि कुलिस°. ७ A सुभूसु. ८ A °दुक्खे हरिय°. ९ A भणु कासु सुउ हउं महिलहि मंडणउ. १० AP कडउल्लउ.

1 1 तावसघरि शाण्डिल्यग्रहे. 2 °चेंचइउ भूपित. 7 a °कुलजसणिहाउ कुलयमः-समूहः. 9 a °दुक्खो हरियछाय °दु.खेन अपहृता शोभा यस्या..

## 2

तावम्महि अंसुजलोल्लियाइं  
जाणिवि णियतणयहु तणिय सत्ति  
सुणि सुय जो सुव्वइ परसुरामु  
तावट्टवीसधणुदंडतुंगु  
तं णिसुणिवि णं जमरायदूउ  
चूडामणिकिरणालिहियमेहि  
दिउ णारायणकमकमलभसलु  
सो पुच्छिउ तेण कयायरेण  
सहसयरसिरुप्पललूरणेण

णयणइं णं कमलइं फुल्लियाइं ।  
पडिलवइ सहसभुयरायपात्ति ।  
तें मारिउ तुह पिउ अतुलथासु ।  
वण्णे कणयच्छवि राणि अहंगु ।  
आरुदु अरिहि सिहिचुरुलिभूउ । 5  
तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि ।  
संपत्तउ कैहिं मि णिमित्तकुसलु ।  
उद्धरियसंधरधरगुरुभरेण ।  
णियजणणिमणोरहपूरणेण ।

घत्ता—पइं विप्पेण जगि जीवहं भवियव्वु पमाणियं ॥

10

महु कइयहुं मरणु भणु भणु जइ पइं फुडु ज्जाणियं ॥ २ ॥

## 3

तं णिसुणिवि विप्पे वुत्तु एम  
भोयणकालइ रसरसियभावि  
रिउदसण असणभावेण जासु  
ता राएं णयरि महाविसाल  
संणिहिय णिओइय दिण्णु दाणु  
पीणिवि देसिय तित्तिइ डेरंत  
दसदिसिपहहि पसरिय एह वत्त  
अइदीहरपंथे मंथिएण  
भो भो कुमार लहु जाहि जाहि

रायाहिराय भो णिसुणि देव ।  
अग्गइ दक्खालिइ कयसरावि ।  
णिव परिणमंति तुहुं वज्जु तासु ।  
काराविय तक्खणि दाणसाल ।  
घियं दुद्धु दहिउं इच्छापमाणु । 5  
णिच्चं चिय दाविज्जांति दंत ।  
कयवीराणुयसुइसुसिरु पत्त ।  
वेणि जंतं वुत्तउ पंथिएण ।  
साकेयणयरि भुंजंतु थाहि ।

घत्ता—किं वणतरुहलेहिं खद्धेहिं मि तित्ति ण पूरइ ॥

10

पेच्छिवि तुज्जु तणु महुं भायर हियवउं जूरइ ॥ ३ ॥

2 १ AP ता अम्महि. २ AP रिउहि. ३ A कह व. ४ A सधरगुरुभायरेण. ५ A पूरण. ६ A विप्पेण वर जगि, P विप्पे वर जगि. ७ AP पमाणियउं. ८ AP जाणियउं.

3 १ AP पीणिय. २ A फुरत. ३ A दहदिसिपह°, P दसदिसिपह°. ४ A कुमारहु अक्खिउ ता पंथिएण.

2 1 a असुज लो ल्लिया इं अश्रुजलार्द्राणि. 2 b पत्ति विचित्रमतिः. 5 b सि हिं चुरुलि भूउ अग्निज्वालासदृशः. 7 a दिउ द्विज. 9 a सहसयर° सहस्रबाहु. 11 कइयहु कदा.

3 2 a रसरसियभावि रसज्ञायको रसिक. भावः परिणामस्तत्र, b कयसरावि स्थापित-शरावे. 3 a असणभावेण ओदनभावेन, शरावे ये शत्रूणा दन्ता स्थापिता ते यस्य पुरुषस्य दर्शनेन ओदनो भविष्यति तेन त्वं वध्य इत्यर्थः. 5 a णिओइय किंकराः. 6 a देसिय यात्रिका; डरत भीताः. 7 b कयवीराणुय° सुभौमः, °सुइसुसिरु कर्णविवरम्.

4

जहि रायहु केरुं अत्थि दाणु  
भोयणपत्थावइ मुहरुहोहु  
सो जासु कूरु होही सुरामु  
तहिं गच्छहि पेच्छहि चोज्जु वप्प  
तं णिसुणिवि मणि चिंतइ कुमारु  
दुज्जणकरगाहगलत्थियाइं  
दरिसावियवंधवलोयवसण  
सो णिहयंजणणिजोव्वणवियारु  
वरिसहं परमाउसु जमदुगेज्जु  
लइ णियइ ण दुक्कइ अंतरालि  
अह वा जइ मरमि ण तो वि दोसु

जहिं जणवउ भुंजइ अप्पमाणु ।  
जहिं दरिसिज्जइ ससिअंतसोहु ।  
तहु हत्थे मरिही परसुरामु ।  
कि अच्छइ काणणि णिव्वियप्प ।  
डहु डहु णैरु जंगलपुंजु फौरु । 5  
जे दिट्ठइं सयणइं दुत्थियाइं ।  
जेणायणिय णंदंत पिसुण ।  
अम्हारिसु जीवइ भूमिभारु ।  
धुवु सट्ठिसहासइं आउ मज्जु ।  
रिउ चूरमि मारमि कलहकालि । 10  
लइ अज्जु करमि हउं सहलु रोसु ।

घत्ता—तायवियारणउं जं वइरु रिणु य चिरु दिण्णउं ॥

तं हउं तासु राणि लइ अज्जु देमि उच्छिण्णउं ॥ ४ ॥

5

इय भणेवि वीरो<sup>१</sup> धुरंधरो  
कायकंतिधवैलियदिसावहो  
धरणिविजयसिरिविजयलंपडो  
दंडपाणिपोत्थयपरिग्गहो  
कुसपवित्तयंकियकरंगुली  
सहयेरेहिं सह लच्छिमाणणो  
दाणमंडवं खणि पइट्ठओ

समरभारवहणेक्ककंधरो ।  
चिकरंतंछक्कणुपाणहो ।  
कसणकुडिलधम्मिल्लइं पडो ।  
रत्तचीरचेच्चइयविग्गहो ।  
कोसलं पुरं पत्तओ बली । 5  
वेयघोसबहिरियदिसाणणो ।  
तं णिउत्तमणुपहिं दिट्ठओ ।

4 १ P °पत्थारह. २ A मरही. ३ A णरजंगल. ४ AP भारु. ५ AP णिहियजणणिहि जोव्वण°. ६ AP समरकालि. ७ A वइरु रिणु चिरु ण दिण्णउं, P वइरु रिणु व चिरु दिण्णउं.

5 १ AP धीरो. २ AP °कविलिय°. ३ A चिकरंतं छक्कणुपाणहो, P चिकरु छक्कणुपाणहो.

4 1 b अप्पमाणु अतिबहुलम्. 2 a भोयणपत्थावइ भोजनप्रस्तावे, मुहरुहोहु दन्त-समूहः, b ससिअंतसोहु चन्द्रकान्तसदृशः. 2 a सुरामु मनोहर. 4 a चोज्जु आश्चर्यम्. 5 b जंगल-पुजु मासपुञ्जः. 8 a णिहयजणणि जोव्वणवियारु निहत. जननीयौवनविकारः कुचानामध.पतना-धेन स..

5 2 b छक्कणुपाणहो °षट्कर्णोपानद्युक्तः. 3 b °धम्मिल्लइं पडो मुक्तकेश. 5 a कुस-पवित्तय° दर्भमुद्रिका.

तेहिं तस्स णविऊण णीरयं  
आसणे णिविडुंस्स णिम्मलं

पायपोमपक्खालणं कयं ।  
णीलदब्भंखंडं पुणो जलं ।

घत्ता—पुणु अहियारिणहि ढोएप्पिणु मिट्टुउ भोयणु ॥

10

दसणुक्केरु तहु दक्खालिउ जायउ ओयणु ॥ ५ ॥

## 6

जं दंत जाय णवकलमसित्थ  
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग  
परमेसरु ते णउ गणइ केव  
जो दसणपुंजु तं<sup>३</sup> कूरु जाउ  
उट्टिवि दिट्ठिइ चप्परिय सव्व  
विण्णविउ तेहि पहु परसुधारि  
आएसपुरिसु संपत्तु भीमु  
सपसाहणेण हरिवाहणेण  
आवंतु दिट्ठु वालें अणेण  
जइ अत्थि को वि सुक्कियपहाउ  
इय चिंतिवि तेण सुंकम्मवाउ  
भामिउ णहि जायउ णिज्जियक्कु

तं उट्ठिय भड रणभरसमत्थ ।  
वालहु अक्खत्तधम्मेण लग्ग ।  
कंठीरउ वणि गोमाउ जेव ।  
तं जोयइ णं णियजसणिहाउ ।  
गय णासेप्पिणु भड गलियगव्व । 5  
भो पुहइणाह रिउ जीवहारि ।  
तं णिसुणिवि णिग्गउ इंदरामु ।  
संणज्झिवि लहु सहं साहणेण ।  
भुयदंड तुलिय हरिसियमणेण ।  
तई एउ जि पहरणु मज्झु होउ । 10  
तं दंतं कूरुपूरिउ सराउ ।  
आरासहासविप्फुरियउ चक्कु ।

घत्ता—रिसिसुउ तेण हउ मारिउ गउ णरयाणिवासहु ॥

दुग्गइ सावडइ सव्वहु वि लोइ कयहिंसहु ॥ ६ ॥

## 7

दुइसय कोडिहिं वरिसहं गइयहं अरतित्थे

राउ सुभोमउ रामाकामउ हुउ सुत्थे ।

४ AP णमिऊण. ५ A आसणोपविट्ठस्स. ६ A णीलडब्भं.

6 १ A भड समत्थ २ P अक्खत्तधम्मेण. ३ AP तहिं कूरु. ४ A चप्परिवि. ५ A adds after this: बोळ्ळिउ पडिमडडडभंजणेण. ६ A तइ एउ, P ता एउ. ७ A सकम्मवाउ. ८ A दंतंत-कूरु. ९ AP विप्फुरिउ.

7. १ A दुइसय वरिसहं गइयहं कोडिहिं, P दुइसय वरिसहं कोडिहिं गइयहं. 2 AP सुभउ-मउ. ३ A हुवउ सुत्थे, P हुउ सत्थे.

8 a णीरयं धूलिरहितं यथा भवति तथा. 11 दसणुक्केरु दन्तसंघातः.

6 2 b अक्खत्तधम्मेण अक्षत्रधमेण अन्यायेन, स एक. ते बहवः इति अक्षत्रत्वं जातम्. 3 a परमेसरु सुभौम, b गो माउ शृगालः. 5 a चप्परिय उत्सारिता. 8 a सपसाहणेण शृङ्गारितेन; हरिवाहणेण अश्ववाहनेन. 10 b एउ ओदनशरावः. 11 a सुकम्मवाउ सुकर्मपाकः. 13 रिसिसुउ इन्द्ररामः. 14 सावडइ संपद्यते, लोइ लोके.

7 2 सुत्थे प्रशस्ते अरतीर्थे.

माणु मलेप्पिणु दुँडुहं धिडुहं दुज्जणहं  
 हित्तइं छत्तइं चमरइं चिंधइं बंभणहं ।  
 रहजंपाणइं पिउंसंताणइं लद्धाइं 5  
 चउदहरयणइं णव वि णिहाणइं सिद्धाइं ।  
 छक्खंड वि महि जयलच्छीसहि भुत्त किह  
 असिणा तासिवि णाएं भूसिवि दासि जिह ।  
 एक्कहि वासरि उग्गइ दिणयरि उत्तसिउ  
 विरइयभोयणु अमयरसायणु भाणसिउ । 10  
 कयलालाजल णावइ कोमल झंडुलिय  
 तेण सिरीधरि दिण्णी णिवकरि अंबिलिय ।  
 सा भंक्खंतं रसु चंक्खंतं सिरु धुणिउं  
 रीएं तं रूसिवि तहु गुण दूसिवि जं भणिउं ।  
 तं खलसंदहि णिरु दुवियडुहिं पोसियउं 15  
 जीविउ धीरहु तहु सूवारहु णासियउं ।  
 मरिवि सतामसु जायउ जोइसु दुक्कु तहि  
 छण्णं रोसें वणिवरवेसें राउ जहिं ।  
 तं महिवालहु जीहालोलहु ढोइयइं  
 फलइं अणेयइं बहुरसेंभेयइं जोइयइं । 20  
 गइं पक्खंतरि अह मासंतरि रहइ खलु  
 वणिउ सराएं मग्गिउ राए देहि फलु ।  
 तेण पवुत्तउं देव णिहत्तउं णिट्टियइं  
 णिरु दूरंतरि परदीवंतरि संठियइं ।  
 घत्ता—फलसंदोहु मइं सुरवरहुं पसाएं लद्धउ ॥ 25  
 णिच्छउ णिट्टियउ लइ पइं जि भडारा खद्धउ ॥ ७ ॥

8

सच्चउं वसुहाहिव कहमि तुज्जु  
 तुह पुणु पहु अवलोयणि तसंति

एवहि ते देव ण देति मज्जु ।  
 इयरहं कह महिमंडलि वसंति ।

४ AP धिडुहं दुडुहं. ५ A चमरइ छत्तइं चिंधइ, P चमरइं चिंधइ छत्तइ. ६ जाणइं सयणइ लद्धाइं.  
 ७ P असिय°. ८ A झिडुलिय. ९ A भक्खतइ. १० A चक्खंतइ. ११ A राए रूसिवि. १२ P राइ-  
 यइ. १३ AP बहुविहभेयइ. १४ P ढोइयइ. १५ P गहपक्खतरि. १६ A णिउत्तउ.

8 णाए न्यायेन. 11 झडुलिय अम्बिका चिद्धा. 18 छण्णं प्रच्छन्नेन. 22 सराएं सराणेण. 26 णि-  
 ट्टियउ समाप्तिं गतम्.

राएं पंडिवण्णउं वयणु तासु  
णिउ णरपरमेसरु तेण तेत्थु  
जीहिदियविसयं वसेण खविउ  
चहुवविहत्थु रोसेण फुरिउ  
पभणिउ मइं जाणहि किं ण पाव  
चिचिणिहलत्थि दप्पिह दुट्ठं  
इय कहिवि तेण सयखंडु करिवि

भणु भुवाणि ण हुक्कइ णियइ कासु ।  
करिमयरभयंकरु जलहि जेत्यु ।  
तहिं सिहरि सिलायलि णिवइ थविउ ।<sup>5</sup>  
सूयारवेसु देवेण धरिउ ।  
खलवयणणडिय रे कूरभाव ।  
हउं पइं जम्मंतरि णिहउ कट्ठं ।  
मारिउ गउ णरयहु भउमु मरिवि ।

घत्ता—गोत्तमु वज्जरइ मगहाहिव चारु चिराणउं ॥

10

अण्णु वि णिसुणि तुहुं वलणारायणहं कहाणउं ॥ ८ ॥

## 9

इह खेत्ति णिसेविवि जइणमग्गु  
तहि एक्कु सुकेउ सहुं ससल्लु  
इह भारहंति संपुण्णकामु  
इक्खाउवंसगयणयलि चंदु  
तहु देवि पढम पिय वइजयंति  
जइयहुं सुभउमि मुइ जाणियाहं  
तइयहुं संचुउ सोहम्मदेउ  
अण्णेक्कु लच्छिमइयहि ससल्लु  
तहिं एक्कु पकोक्किउ णंदिसेणु  
णामइं हक्कारिउ पुंडरीउ  
ते वेण्णि वि णीलसुपीयवसण  
दोहं मि चिच्छिण्णउ आवयाउ

दो पत्थिव गय सोहम्मसग्गु ।  
किं वण्णमि मूढंउ मोहगिल्लु ।  
चक्कउरि णाहु वरसेणु णामु ।  
दाणोल्लियकरु णं सुरकरिंदु ।  
लच्छिमइ वीय णं ससिहि कंति ।<sup>5</sup>  
छहसयसमकोडिहि झीणियाहं ।  
हुउ पुत्तु जयंतिहि सोक्खहेउ ।  
किं वण्णमि अप्पडिमल्लमल्लु ।  
अण्णेक्कु वि दुत्थियकामधेणु ।  
कि थुणमि वइरिसृग्गपुंडरीउ ।<sup>10</sup>  
ते वेण्णि वि भायर धवलकसण ।  
दोहं मि संसिद्धउ देवयाउ ।

घत्ता—सीरिहि साहियइं छप्पणसहासइं वरिसहं ॥

चक्किहि णाहियइं परमाउसु एवं सुपुरिसहं ॥ ९ ॥

8 ३ A वडिवण्णउं. २ AP<sup>o</sup> विसयविसेण. ३ A चहुवविहत्थु, P चहुअविहत्थु. ४ A दुट्ठं.  
५ A कहु.

9 १ A सुउ. २ A मोहे मूढगिल्लु. ३ A चक्कउरणाहु. ४ AP अण्णेक्कु वि लच्छिमइहि. ५ AP  
अप्पडिमल्लु. ६ AP मिग<sup>o</sup>. ७ AP read a as b and b as a. ८ P संछिण्णउ. ९ AP एउ.

8 3 b णियइ भवितव्यता. 5 a खविउ धित. 6 a चहुवविहत्थु चाटुकारेण व्याकुल.  
8 a चिचिणिहलत्थि चिच्छिणीफलनिमित्तम् b णिहउ मारित..

9 3 a भारहंति भरतमध्ये. 4 b दाणो ल्लियकरु दानार्द्रकरः. 6 b छहसयसमकोडिहि  
पट्टमनमर्षकोटिभि. 7 b जयंतिहि वैजयन्त्याः. 10 b पुटगीउ व्यात्र. 12 a आवयाउ आपद.  
11 णाहियइं न अधिकानि, तत्समानि एव पट्टमं चामर्षसहस्रानि.

## 10

छव्वीसचाव देहहु पमाणु  
 इंदउरि णरिदु उविदसेणु  
 तहु तेण धीय दामोयरासु  
 तं हरहुं पराइउ पहु णिसुंभु  
 जायउं रणु विज्जहि लग्ग वे वि  
 पडिहरिणा घल्लिउ धग्गधगंतु  
 तेणाहउ उरयलि पडिउ वेरि  
 गउ णरयहु णियमणगहियखेरि  
 हरि हलहर रज्जु करंत थक्क  
 सब्भंतरि णिवाडिउ चक्कपाणि  
 सिवघोसगुरुहि उवएसएण

तहिं ताहं पहुत्तणु जाणमाणु ।  
 जो देवहिं गेज्जइ धरिवि वेणु ।  
 पोमावइ दिण्ण कयायरासु ।  
 चिरभवि सुकेउ सो रिउणिसुंभु ।  
 अवरोप्परु णउ सक्किय हणेवि । 5  
 धारियउं कण्हेण रहंगु पंतु ।  
 अइभीसणु कयधम्मावहेरि ।  
 महि सांहिवि पहयाणंदभेरि ।  
 ता कालें अणुयहु दिट्ठि मुक्क ।  
 हलिणां विरइय कम्मावहाणि । 10  
 सिद्धउ मुक्कउ मोहें मएण ।

घत्ता— भरहणराहिवहिं मणभरियभत्तिपइरिक्कहिं ॥

वंदिउ विसहरेहिं खगपुप्फयंतगहचक्कहि ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुभउमचक्कवट्ठि-  
 वलएववासुएवपडिवासुएवकहंतरं णाम  
 छसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६६ ॥

10 १ AP सहिवि. २ AP हलिणा पुणु विरइय कम्महाणि. ३ A °रिसिहि. ४ AP omit पडिवासुएव°. ५ P adds सत्तमचक्कवट्ठि अर स एव तित्थयर अट्टमचक्कवट्ठि सुभौम छट्टवलएव णंदिसेण, वासुदेव पुडरीय, पडिवासुएव णिसुभ एतच्चरिय सम्मत्त, K gives this in margin.

10 5 b ण विसक्कियहणेवि हन्तु नैव शक्तौ. 7 b कयधम्मावहेरि धर्मनिरादर. 8 a °गहियखेरि गृहीतकलह. 9 b कालेअणुयहु दिट्ठिमुक्क कालेन यमेन अनुजस्योपरि दृष्टिः मुक्ता, अनुजो मृत इत्यर्थः. 10 a सब्भतरि श्वभ्रमध्ये. 12 °भत्तिपइरिक्कहि भक्तिप्रणुणै 13 °गहचक्कहिं ग्रहसमूहै.



तिहुवणसिरिधरो सल्लविवज्जिओ ॥  
जो परमेसरो सयमहपुज्जिओ ॥ ध्रुवकं ॥

1

जेण हओ णीहारओ	रुइणिज्जियणीहारओ ।	
सुजसोधवलयहंसओ	जस्स भुवणसरहंसओ ।	
जा कंती मयलंछणे	संपुण्णा जाय छणे ।	5
सा वि जस्स मुहपंकए	इर मज्जेइ णिप्पंकए ।	
मोत्तूणं महिवइवलं	चित्तं सोदामणिचलं ।	
गाढं जेण वसं, कयं	मुणिमग्गे णीसंकयं ।	
हिंसायारो वारिओ	जो कोवाणलवारिओ ।	
कामभोर्येआसी हया	सरहस्स व वणसीहया ।	10
णट्टा जस्स विवाइणो	अइवहुकम्मविवाइणो ।	
सोउं जस्स सुआमयं	हंतूणं मोहामयं ।	
पुरिसा णिक्कलधामयं	पत्ता णाणसुधामयं ।	
आयंबुज्जलकरणहं	भयवंतं णियकरणहं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं  
इह लिखितमजसं लेखकैश्चारु काव्यम् ।  
गतवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते  
भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ १ ॥

1 १ A सिरिवरो. २ K reads a *p*: मिज्जइ इति पाठे मीयते. ३ A महिवइवलं. ४ T reads a *p*: कामभोइआसी इति पाठे काम एव भोगी सर्पस्तस्य आसी दंष्ट्रा.

1 3 *a* णीहारओ नृणामीहारज. मिथ्याचेष्टाजनितं कर्म, *b* °णीहारओ हिमाशु. 4 *a* सुजसोधवलयहंसओ शोभनेन यगसा धवलित. हस आदित्यः येन, *a* भुवणसरहंसओ भुवनसरसि हसवद्रमते ( यश ). 5 *b* छणे पौर्णमास्याम्. 6 *b* इर किल, मज्जेइ बुडति, णिप्पंकए निर्मले. 7 *a* महिवइवलं राजलक्ष्मीम्. 8 *b* °वारिओ मेघ.. 9 *a* कामभोयआसी हया कामभोग एव आशी सर्पस्य दंष्ट्रा हता येन, अथवा कामभोगानामासी प्रार्थना सा हता येन: *b* सरहस्सव अष्टापदस्येव. 10 *a* विवाइणो मिथ्यावादिनः, *b* °कम्मविवाइणो कर्मविपाकवन्त. 11 *a* सुआमयश्रुतामृतम्, *b* मोहामय मोहव्याधिम्. 12 *a* णिक्कलधामयं सिद्धस्थानम्. 13 *a* आयंबुज्जलकरणहं आताम्रो-ज्ज्वलहस्तनरम्, *b* णियकरणहं निजेन्द्रियघातकम्.

णिम्मलत्तणिरसियणहं तं मल्लिं णमिउंण हं । 15  
वोच्छं तस्सेव य कहं इयरह मोक्खविही कहं ।

घत्ता—पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्वइ ॥  
कच्छादेसइ सोहादिव्वइ ॥ १ ॥

## 2

वीयसोयणयरेसरो रायां रूवी विव सरो ।  
धीरो जियपरमंडलो विहवेणं आहंडलो ।  
कोसेणं वइसवणओ णामेणं वइसवणओ ।  
अण्णसिं स दियहे घणं गंतूणं कीलावणं ।  
पंकेरुहरयधूसरो रमइ जाम पुहईसरो । 5  
ताम पवासियदिहिहरो सुरधणुमंडियजलधरो ।  
थोरथेभंथिप्पिरणहो पच्छाइयदसदिसिवहो ।  
फुल्लियफुडयकयंबओ वियसावियदालिवओ ।  
णीरपूरपूरियधरो किडिकरडीण सुहंकरो ।  
पत्तो वासारत्तओ दूरं कंको मत्तओ । 10  
णच्चावियसिहिउलणडो विज्जुजलणजलिओ वडो ।  
पर्यलियपल्लवराहयं हुयवहपउलियसाहयं ।  
दट्टूणं तं पायवं चितइ णिवइ णवं णवं ।  
होइ जयं पुणु णासए णिच्चं चिय ण हु दीसए ।

घत्ता—जिह णग्गोहओ दाणिं दिट्ठओ ॥ 15  
तडिदंडाहओ सहसा णट्ठओ ॥ २ ॥

## 3

णासिंहिंति तिह हय गया विंघलत्तवामरचया ।  
देहो जो रसपोसिओ रयणाहरणविहसिओ ।

५ A णविऊण.

2 १ A राय रूवे जियसरो. 2 AP वीरो. ३ AP अण्णस. ४ AP °जलहरो. ५ AP °धिभं.  
६ A पयडिय°. ७ A णरवइ.

3 १ A °चामरधया.

15 a णिम्मलत्तणिरसियणहं निर्मलत्वेन तिरस्कृतं गगन येन. 16 b इयरह अन्यथा.

2 1 b सरो स्मर कामः. 6 a पवासियदिहिहरो पथिकधृतिहरो वर्षाकालः. 7 a °धिभं  
विन्दुः, °धिप्पर° क्षरत्. 8 b °दालिवओ गोमयच्छत्रं शिलीन्ध्रकम्. 9 b किडि° स्करः, करडी गजः.  
10 b कको वकः. 11 b विज्जुजलणजलिओ विद्युदग्निना भस्मीकृतः. 12 a पयलियपल्लवराहयं  
प्रगलितपल्लवगोभं वटवृक्षम्, पउलिय° प्रज्वलिता दग्धा.

3 1 b °चामरचया चामरसमूहा

सिंभवसापित्तासओ	सो वि ण होही सासओ ।	
इय भणिउं दाउं सिरि	णियतणयस्स गओ गिरिं ।	
सिरिणायं सिहरुण्णयं	दरितरुकीलियपण्णयं ।	5
संवोहियवहुवणयरं	सिरिणायंकं मुणिवरं ।	
णैविऊणं जाओ जई	सामंतेहिं समं वई ।	
एयारह वि सुयंगइं	पढिऊणं अविहंगइं ।	
धरिऊणं हिययं दढं	चिण्णं चरियं णीसढं ।	10
इंदचंदकयकित्तणं	वद्धं तित्थयरत्तणं ।	
अहमिंदेहिं विराइए	संभूयउ अवराइए ।	
तेत्तीसंबुहिकालए	गइ थिइ छम्मासालए ।	

घत्ता—तम्मि कालए अमल्लिणवेसहो ॥

सोहम्माहिवो कहइ धणेसहो ॥ ३ ॥

## 4

सुणि इह भरहे अंगए	विसए धम्मवसंगए ।	
मिहिलौउरणयराहिवो	दीणेसुं य पसरियकिवो ।	
रिसहगोत्तवंसुब्भवो	कुंभो णाम महौणिवो ।	
किं किर कहमि महासई	देवी तस्स पैयावई ।	5
णिक्कंदप्पो णिब्भओ	होही ताणं अब्भओ ।	
भुवि हिरण्णगब्भो गुणी	जं थुणंति देवा मुणी ।	
कुणसु तस्सें णयरं तुमं	ता धणएण अणोवमं ।	
सहसा रइयं तं पुरं	रयणजालफुरियंवरं ।	
पुण्णाणं पिव संचए	पासाए मणिमंचए ।	10
राइविरामे सुत्तिया	पेच्छइ पंकयणेत्तिया ।	
साहियसिरियणुभवणए	एए सोलह सिविणए ।	

घत्ता—पूणं मत्तयं धोरेयं सियं ॥

सारंगाहिवं गोवद्धणपियं ॥ ४ ॥

२ A णमिऊणं. ३ P पढिऊणं.

4 १ A महिलावर°. २ A दीणेसुं, P दीणेसु पसरिय°. ३ AP महाहिवो. ४ AP पहावई.  
५ A तासु.

3 a °पित्तासओ पित्ताश्रय. 5 a सिरिणाय श्रीनागपर्वतम् 6 b सिरिणायं कं श्रीनागाङ्कम्.  
7 b वई स्फुटम्. 8 b अविहगइ परिपूर्णानि 9 b णीसढं निष्कपट शठत्वरहितम् 12 b छम्मा सा-  
लए पण्मासकाले स्थिते सति.

4 5 b अब्भओ अर्भकः. 7 b अणोवम अद्वितीयम्. 11 a साहियसिरिअणुभवणए  
साधित श्रिया. अनुभवने अनुभवो यैस्तादृशान् स्वप्नान्. 12 पूण गजम्, धोरेय वृषभम्. 13 सारंगाहिव  
सिंहम्, गोवद्धणपियं गोवर्धनो विष्णुस्तस्य प्रिया लक्ष्मी ताम्

## 5

मालाओ कयजणदिहिं  
भावभरियवम्महरसं  
धवलघडाणं जुयलयं  
पुलिणणिलीणवलाययं  
सरिरायं रसणारवं  
अच्छरणाइणियेयए  
हरियं पीयं तंवयं  
दट्टूणं मरुजालियं  
पडिबुद्धा परमेसरी  
मइं विइण्णलोयणरइं

अमयरुहं सररुहसुहि ।  
अणिमिसमिहुणं रइघसं ।  
हंसीचुंविक्कुवलयं ।  
सजलं कमलतलाययं ।  
मणिवीढं हरिभइरवं ।  
इंदफणिदणिकेयए ।  
रयणाणं णिउरुंबयं ।  
अग्गिं जालामालियं ।  
कहइ सपइणो सुंदरी ।  
दिट्ठा सिविणयसंतइं ।

5

10

घत्ता—तिस्साँ तं फलं कहइ नृसारओ ॥

तुह होही सुओ देवि भडारओ ॥ ५ ॥

## 6

धरिही जो रयणत्तयं  
लहिही जो छत्तत्तयं  
डहिही जो णिब्भंतयं  
सो ते होही डिंभओ  
अमरविलासणिसत्थओ  
सुविसुद्धे गम्भासए  
पढममासि पढमे दिणे  
राणौउ जो रइकंदओ  
गयरूवेणवइण्णओ  
सो सुरेहिं अहिणंदिओ

णविही जस्स जयत्तयं ।  
जाइजरामरणत्तयं ।  
जाही मोक्खमणंतयं ।  
सुहिजणलग्गणखंभओ ।  
पत्तो मंगलहत्थओ ।  
धणधारावारिसे कए ।  
आँसिणिगइ हरिणकणे ।  
वइसवणो अहमिंदओ ।  
राणीगब्भि णिसण्णओ ।  
फणिक्किणरणरवंदिओ ।

5

10

5 १ A °वलालय. २ A तडालयं. ३ A तस्सा. ४ AP णिसारओ.

6 १ A सो तव होही. २ A अस्सिणि°. ३ A राओ जो. ४ AP रुइरुदओ.

5 1 b अमयरुह चन्द्रम्, सररुहसुहिं सूर्यम्. 2 b अणिमिसमिहुण मत्स्ययुग्मम्.  
4 a °वलालयं बलाका, b °तलालय तडागम्. 5 a सरिराय सरिता राजान समुद्रम्, रसणारव  
जलमानुषशब्दयुक्तम्, b हरिभइरव सिंहैर्मयानकम्. 11 नृसारओ नृषु प्रधानो राजा.

6 1 b णविही नमस्यति. 3 a णिब्भंतयं भ्रान्तिरहितम्. 7 a पढमेत्यादि चैत्रप्रतिपदा-  
याम्, b आसिणिगइ हरिणकणे चन्द्रे अश्विनीगते. 8 a रइकंदओ सौख्यकन्द.. 2 a तुहिणायरे  
चन्द्रे.

णिव्वाणं पत्ते अरे	वरिसकोडिसहसंतरे ।
मग्गसिरे तुहिणायरे	सियणयारसिवासरे ।
आसिणिरिक्खे जायओ	तित्थयरो हयरायओ ।
एकुणवीसमओ इमो	णररूवेण व संजमो ।
अहिसित्तो अमरायले	हरिणा पंडुसिलायले ।

15

घत्ता—मल्लियमालागंधो जाणिओ ॥

इंदेण जिणो मल्ली भाणिओ ॥ ६ ॥

## 7

अणुअत्थं पवियप्पिओ	जणणीहत्ये अप्पिओ ।
घणडंवरघल्लियपया	देवा णियवासं गया ।
बुहमुहपोमाणं इणो	वड्डइ कालेणं जिणो ।
जाओ जायरूवाहओ	पंचवीसधणुदीहओ ।
आउसु तस्स सहासइं	वरिसहं पणपण्णासइं ।
वरिससए वोलीणए	आरूढो सुरपूणए ।
कुणइ विवाहपवट्टणं	पेच्छइ कुंअरो पट्टणं ।
परिहापाणियदुग्गमं	वहुदुवारकयणिग्गमं ।
हेमघडियपायारयं	पवरट्टालयसारयं ।
पोमरायंकयभारुणं	उन्मियधुयधयतोरणं ।
हसियणिसावइकंतियं	पेच्छंतो घरपंतियं ।
सरइ प्हू अवराइयं	सुकयं मज्झु पुराइयं ।
खीणं तेण विमाणयं	मुक्कं अहमिंदाणयं ।
एण्हि होही किं थिरं	णरजम्मे णयरं घरं ।

5

10

घत्ता—छत्तायारयं सिवमहिमंडलं ॥

15

करामि तवं परं लहमि धुवं फलं ॥ ७ ॥

५ A अस्सिणि°.

7 १ A अणुअत्थं and gloss आश्चर्यम्, T अणुअत्थ आश्चर्यम्. 2 A °धणुदेहओ. ३ A सुरथूणए. ४ AP कुमरो. ५ AP पोमरायकिरणारुणं.

13 b हयरायओ वीतराग . 15 a अमरायले मेरौ.

7 1 a अणुअत्थं अन्वर्थम्, 2 a घणडंवर° आकाशम्. 4 a जायरूवाहओ सुवर्णाभः. 6 b सुरपूणए सुरगजे. 10 b °धुय° आन्दोलिता . 12 a अवराइयं अपराजितं अनुत्तरविमानम्. 15 छत्तायारयं सिवमहिमंडलं छत्राकारं शिवाना सिद्धाना महिमण्डल मोक्षस्थानम्.

## 8

ता सारस्सयभासियं  
कुंभणिवस्स य तणुरुहो  
इंद्रेणं ससहरमुहो  
जयणे जाणे थक्कओ  
कामेसुं सुविरत्तओ  
जम्मदिणे णक्खत्तए  
णिववरतिसयइए जुओ  
सायण्हे सुतवे थिओ  
घित्तं पच्चक्खाणयं  
विहि दिवसेहिं गणहि सो  
णिण्णेहो णीसंगओ  
णंदिसेणवररौइणा  
भुत्तं तणुणिव्वाहणं

सोऊणं सुइमीसियं ।  
तरुणिणं विवरंमुहो ।  
ण्हविओ दिक्खासंमुहो ।  
कुवलयकुमुयमियंकओ ।  
सरयवणं संपत्तओ ।  
पक्खे तम्मि पउत्तए ।  
मोहणिवंधाओ चुओ ।  
णाणचउक्केणंकिओ ।  
मोत्तुं भत्तं पाणयं ।  
दसादिसिवहपसरियजसो ।  
मिहिलाए भिक्खं गओ ।  
दिण्णं भत्तं जोइणा ।  
संजमजत्तासाहणं ।

5

10

घत्ता—पुणु दिक्खावणे सुरहियपरिमले ॥

थक्कु असोयहो तलि धरणीयले ॥ ८ ॥

15

## 9

दिणि छक्के विच्छिण्णए  
हुउ देवाण वि देवओ  
रिसिविज्जाहरसंसिओ  
समवसरणि आसीणओ  
जीवमजीवं आसवं  
वंधं मोक्खं भासए  
थवइ तस्स णिसुणियड्डुणी

भिण्णे मिच्छादुण्णए ।  
लद्धो खाइयभावंओ ।  
इंदपडिदणमंसिओ ।  
अरिसुयणे वि समाणओ ।  
संवरणिज्जरणं तवं ।  
लोयं धम्मविसेसए ।  
अट्टवीस जाया गणी ।

5

8 १ A सुयमीसिय. २ A °तिसईए, P °तिसइएण. ३ P घेत्तु. ४ A मोत्तं. P ५ °राइणो.  
६ A भिक्ख, P भक्खं. ७ जोइणो.

9 P adds after this पूसकिण्हकीयए तओ, पंचसु णाणुप्पणओ. २ A अरिसयणे,  
P अरिसयणा.

8 1 a सारस्सय° लौकान्तिकाः, b सुइमीसियं आगमयुक्तम्. 2 b विवरंमुहो पराइमुखः.  
4 a जयणे जयननाम्नि, b कुवलय° भूमण्डलम्.

9 1 a दिणि छक्के पारणानन्तरम्, तृतीये दिने पारणं जात तदनन्तर द्वितीय पारणं न जात-  
मित्यर्थः.

सयइं पंचपण्णासइं  
पङ्कणतीससहासइं

पुव्वधराहं णिरासइं ।  
सिक्खुयाहं मलणासइं ।

घत्ता—दुसहसदुसयइं सावहि हयकलि ॥

10

तँहि जेत्तिय ते तेत्तिय केवलि ॥ ९ ॥

## 10

चउदहसय वाईसहं  
णवसय दोणिण सहासइं  
मणजाणहं सत्तारह  
पंचावण्णसहासइं  
सावयलक्खु अहीणउं  
सुर असंख उम्मोहिवि  
भवसमुदतडपाविण  
पंचसहासहिं जुत्तओ  
संमेण सिरहयणहे  
भरणीरिक्खे मुक्कओ

विकिरियहं वि रिसीसहं ।  
कुच्छियणयविद्धंसइं ।  
सयपण्णास समीरह ।  
विरइहि मुक्कसवासइं ।  
सावईहिं तं तिउणउं ।  
पसु ससंख संवोहिवि ।  
माससेसथियजीविण ।  
रिसिहिं णाहु तमचत्तओ ।  
फग्गुणि सियपंचमियहे ।  
अट्टमपुहँइहि थक्कओ ।

5

10

घत्ता—हरउ भयंकरं भवविन्भमदुहं ॥

मल्लिमुणीसेरो देउ सुहं महं ॥ १० ॥

## 11

मल्लितित्थसंताणे कयपडिवक्खवहं

बुहयणसुइसुहयरणं णिसुणह चक्किहं ।

जंवूदीवसुरांयलि पुव्वविदेहँवरे

विउलि सुकच्छाजणवइ सिरिहरि सिरिणयरे ।

तडिकरालअसिधारातासियसयलखलो

पयपालो पुहँसो पोसियपुहँइयलो ।

३ A सिक्खुवाह, P भिक्खुयाह. ४ AP तँहि हुय जेत्तिय तेत्तिय.

10 १ A पण्णावण्ण°. २ A मुक्कसवासइं, P मुक्कभवासइं. ३ A समोहिवि. ४ AP मास-  
सेसि थिइ जीविण. ५ AP °पुहँविहि. ६ AP महं सुहं.

11 १ A °सुहँजणणी, P °सुहँजाणण. २ A सुरालए. ३ A विदेहि वरे.

10 साव हि अवधिज्ञानसहिताः.

10 3 b समीरह प्रतिपादय, कथय त्वम्. 5 a अहीणउ परिपूर्णमेकलक्षम्, b तिउणउं  
त्रिगुणम्. 9 a सिरहयणहे मस्तकेन हतनभसि. 12 देउ ददातु.

11 2 ° सुइसुहयरणं श्रुतिसुखकारकम्. 3 °सुरायलि मेरौ. 5 तडिकराल° विद्युता रौद्रः.

णिसिसमए ददूणं उक्कं ण्हहसियं  
 सिवगुत्तस्स समीवे सुकियं तेण कियं ।  
 वारहविहतवचरणं इंदियमयहरणं  
 मुक्काहारसरीरं सल्लेहणमरणं । 10  
 जायउ अच्चुयकप्पे अमरो मरिऊणं  
 सग्गसिहरभवणाओ पुणु ओयरिऊणं ।  
 इह भरहे कासीए वाणारसिणाहो  
 आइदेवकुलतिलओ पडु पंकयणाहो ।  
 मज्जे खामा सामा रामा तस्स सई 15  
 जाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई ।  
 तीसवरिससईसउ धणुवावीसतणु  
 णयसंणिहियणरोहो पडु णं चरममणु ।  
 गंगासिंधूणविओ साहियमहियमरो  
 णिहिरयणालंकारो णवमो चक्कहरो । 20  
 घत्ता—पुहईसुदरीपमुहउ धीयउ ॥  
 अडु वि सिद्धंउ सुडु विणीयउ ॥ ११ ॥

## 12

णेहे णिउत्ताण विण्णाणजुत्ताण	दिण्णाउ ताओ सुकेयस्स पुत्ताण ।
णिच्छिज्जमाणेण दीहेण कालेण	रज्जं करंतेण भूचक्कवालेण ।
देवेण सव्वावणीरिद्धिरिद्धेण	दिट्ठो घणो खे पणट्ठो खणद्धेण ।
कम्मारिचारित्ततत्ती कया जाम	दुब्भंतिणा मंतिणा जंपियं ताम ।
जायंति भूयाण संजोयभावेण	जीवा ण वज्झंति पुण्णेण पावेण । 5
दिक्खाइ भिक्खाइ कि होउ हे राय	णाहेण सो उत्तु भो बुद्ध णिण्णाय ।
जं णत्थि णो तस्स उप्पत्तिसंताणु	णो जम्मु णो कम्मु णो कस्सं णिव्वाणु ।
कूराण कउलाण कंकालंविधाण	कीलालमत्ताण कंतारयंथाण ।

४ A उक्कं उल्हसियं. ५ A रामा सामा तस्स. ६ A सहसाज. ७ A सिद्धउ.

12 १ A दिण्णाउ ता ताउ. AP सुकेउस्स. ३ A पिच्छिज्जमाणेण. ४ A खं पणट्ठो. ५ A अत्थि. ६ P धम्मणिव्वाणु. ७ A ककालगिद्धाण.

7 णहहसिय गगनात् च्युताम्. 14 पंकयणाहो पद्मनाभ. 15 रामा रामानाम्नी. 16 पोमो पद्मनामा चक्री. 18 णयसंणिहियं न्याये स्थापितः.

12 1 a णेहे णिउत्ताण स्नेहयुक्तानाम्, b ताओ ता अष्टापि पुत्रीः. 2 a णिच्छिज्जमाणेण निश्चिद्यमानेन गच्छता. 3 b घणो मेघः. 4 a कम्मारिचारित्ततत्ती कर्मशत्रुजिनस्तस्य चारित्रस्य तत्ति-  
 श्रिन्ता, b दुब्भंतिणा दुष्टभ्रान्तिना चार्वाकमतानुसारिणा 5 a भूयाण भूताना पृथ्वादीनाम्. 7 a जं  
 णत्थि यद्वस्तु खपुष्पादिक नास्ति 8 b कीलालमत्ताण मद्यमत्तानाम्, कंतारयथाण, स्त्रीरतान्धानां  
 भार्यारमणान्धानाम्.



सुत्तेण किं मज्झु किं बंधुणेहेण  
एवं पवोत्तूण तच्चाइं णाऊण  
सूरिस्स तिव्वं समाहीइ गुत्तस्स  
सोमो व्व सोमेण णिम्मुकपोमेण  
संहुं इसी जायया णिक्कसाएण  
खीणां तवेणं खरं णिक्कलत्तेण

सार्हामि सोक्खं धुवं एण देहेण ।  
पुत्तस्स भूमिं असेसं पि दाऊण । 10  
काउं तवं पायमूले सुजुत्तस्स ।  
राया सुकेऊं वि अण्णे वि पोमेण ।  
णिल्लोहणिम्मोहिणा णिव्विसाएण ।  
मोक्खं गया संठिया णिक्कलत्तेण ।

घत्ता—एत्थइ तित्थइ जे हयवइरिणो ॥

15

जाया भाणिमो ते हरिसीरिणो ॥ १२ ॥

## 13

ससहरधवलहरे धणरिद्धे  
मंदरधीरो वीरो राया  
एए किर दुम्मइपइरिक्का  
लग्गा ते ण हु पिउणो चित्ते  
लक्खियतच्चे रक्खियजीवे  
धम्मणाहतित्थे हयमारा  
णो समियं णियचित्तं कुद्धं  
जइ वयवेल्लिहलं पावामो  
एम भरंतो णिग्गयप्राणो  
पढमे कप्पे पिहुल्लविमाणे  
पिसुणंमहंतो ता संसारे  
उत्तरसेढीमंदिरणामे  
जाओ धरणीवइ खयरिंदो

इह भरहे साकेयपसिद्धे ।  
पुत्ता रामविरामा जाया ।  
पिसुणमंतिवयणेण विमुक्का ।  
भाउं वि णिहियउ जुवराइत्ते ।  
गुरुणो सिरिसिवगुत्तसमीवे । 5  
ते पावइया रायकुमारा ।  
अणुजाएण णियाणं वद्धं ।  
तां तं खलमंतिं णिहणामो ।  
अणसणेण जाओ गिवाणो ।  
जेट्ठो वि हु तत्थेय विमाणे । 10  
अणुहविऊणं दुक्खपयारे ।  
णयरे कामिणिकामियकामे ।  
वल्लिवलणासो णाम वल्लिंदो ।

घत्ता—चंडा राइणो असिणा दंडिया ॥

तेण तिखांडिया मेइणि मंडिया ॥ १३ ॥

15

८ AP सारम्मि. ९ P मोमो ण. १० A सुकेऊविइण्णेण. ११ A सुद्धं इसी जायओ, P सक्क इसी जायया. १२ A खीण तवेणं.

13 १ P साकेयए पसिद्धे. २ A रामविराम विजाया. ३ A भाऊ णिहिओ. ४ A लक्खिय-चित्ते. ५ A तो. ६ AP ०पाणो. ७ AP ०विवाणे. ८ P तत्थेअ समाणे, K records' तत्थेअ समाणे इति पाठे पृज्जामहिने. ९ P पिसुणु. १० A णरिंदो.

१० a सुत्तेण आगमेण चार्वानाशनाम्. 12 सोमो व्व सोमेण चन्द्रवस्तीग्गेण, णिम्मुकपोमेण सुत्त-न्यधीग्गेण. 13 सुद्धं सारम्मि. 14 a णिक्कलत्तेण खीरहित्थेन; b णिक्कलत्तेण निःशरत्तेन.

13 ३ a ०पट्टिका प्रचुन., b पिसुणं मन्त्रिनामेदम्. 7 a अणुजाएण एणुभासा णियाणं. 11 b दुक्खपयारे दुक्खप्रयाणम्. 13 b वल्लिवलणासो वल्लिइणा वल्लिइणा.

## 14

पत्थंतरण	सिरिसुंदरए ।	
खेत्तविचित्ते	भारहखेत्ते ।	
कासीदेसे	सज्जणवासे ।	
बहुगुणरासी	वाणारासी ।	
उण्णयहम्मा	णयरी रम्मा ।	5
पडिभडमल्लो	अग्गिसिहिल्लो ।	
सत्तिसहाओ	तस्सि राओ ।	
सिसुहंसगई	अवराइय ई ।	
णं पच्चक्खा	कयरयसोक्खा ।	
अलिकेसवई	थी केसवई ।	10
वीया सरसा	पियघरसरसा ।	
विस्सुयणामो	जो चिररामो ।	
कयजिणसेवो	आयउ देवो ।	
थक्को गन्धे	रवि व सियब्भे ।	
जाओ तीए	पढमसईए ।	15
रमियरईए	केसवईए ।	
अवरो हूओ	वम्महरूओ ।	

घत्ता—लीलागामिणो णाइ मरालया ॥  
णवजोवणसिरि पत्ता बालया ॥ १४ ॥

## 15

तहि पहिल्लओ णंदिमिच्चओ	वीयओ वि णामेण दत्तओ ।
खरपयावभरतसियवासवा	वे वि ते णिवां सीरिकेसवा ।
वे वि सिद्धहरिरहविहंगया	वे वि कासकज्जलणिहंगया ।

14 १ A गिरिसुंदरए. २ P खेत्ति विचित्ते. ३ A °गुणवासी. ४ A उगयहाम्मा. ५ AP आओ.

15 १ A हुवा.

14 2 a खेत्त वि चित्ते धान्यक्षेत्रैः विचित्ते. 6 b अग्गि सिहिल्लो अग्निशिख.. 8 b ई लक्ष्मी. प्रत्यक्षा. 9 b कयरयसोक्खा कृतरतिसौख्या. 10 a अलिकेसवई भ्रमरसमानकृष्णकेशयुक्ता, b केसवई केशवतीनाम्नी. 11 b पियघरसरसा भर्तृगृहतडागलक्ष्मी. 15 b पढमसईए अपराजितायाम्.

15 ३ a सिद्धहरिरहविहंगया सिद्धा सिंहस्थवाहिनी विया बल्ल्य, गरुडस्थवाहिनी कृष्णस्य, b कास° श्वेतपुष्पम्.

विहिं मि अत्थि महिपंसुपिंजरो  
 मग्गिओ यं सो रायराइणा  
 अट्टहासहिमरासिवण्णओ  
 दूयवयणविहिवहिओ कली  
 चारु अमरकंतरवासिणा  
 वद्धणेहरसमुणियसाउणा  
 सहिय वे वि वंधू वि णिग्गया  
 जाययं रणं वलियसंमुहा  
 चूरिया रहा दारिया हरी  
 णच्चिया णहे अमरसुंदरी  
 अंतरे भडो संठिओ हरी

खरिसायरो णाम कुंजरो ।  
 धीरवइरिसंतावदाइणा ।  
 तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ ।  
 सह चमूइ आर्यउ णिवो वली ।  
 दाहिणिल्लसेढीखगीसिणा ।  
 माउलेण केसवइभाउणा ।  
 सह वलेण समराइरं गया । 10  
 सीरिणा हया वइरितणुरुहा ।  
 लूरिया धया मारिया करी ।  
 वद्धमच्छरो धाइओ अरी ।  
 तेण दांछिओ खयरकेसरी ।

घत्ता—दोहिं मि जं कयं विज्जापहरणं ॥

15

को तं वण्णए वहरूवं रणं ॥ १५ ॥

## 16

जं दिणयरविंवु व विष्फुरिउ  
 सुहडत्तदीउ णं संचरिउ  
 हउ वइरि तेण मारिउ तुमुलि  
 इह एव एहु थिउ गंपि जहिं  
 तहिं अवसरि सील्लु परिग्गहिउं  
 संभूयजिणेसरु सेवियउ  
 सहियइं वावीसपरीसहइं  
 अणयार महाकेवलिपवरु  
 ससहावें तिहुवणसिहरु णिउ  
 सो बुद्धु सिद्धु णिद्धूरउ

पडिवक्खें चक्कु मुक्कु तुरिउ ।  
 तं दत्तएण हत्थें धरिउ ।  
 गउ णिवडिउ सत्तमधरणियलि ।  
 महि भुंजिवि कण्हु वि गर्यँउ तहिं ।  
 हलिणा हियउल्लउं णिग्गहिउं । 5  
 तँवतावें अप्पउ तावियउ ।  
 माहियइं चउकम्मइं दुम्महँइं ।  
 जायउ कालेण अजरु अमरु ।  
 वीयउ परमेट्ठि हवेवि ठिउ ।  
 धुंवकेवलदंसणणाणमउ । 10

२ AP वि. ३ AP वीर°. ४ AP आइओ. ५ A दाहिणल्ल°. ६ A दुच्छिओ.

16 १ A पडिचक्कें. २ AP तेण वइरि. ३ A इह एम गंपि थिउ एहु जहिं. ४ A जाम तहिं, P तेम तहिं. ५ AP तवभावे. ६ A दुम्मयइं. ७ AP बुउ.

4 a °पसु पिंजरो धूलिधूसर 5 a रायराइणा प्रतिवासुदेवेन. 8 a अमरकंतर° नगरस्य नामेदम्.  
 10 b समराइर संग्रामाङ्गणम्. 14 b दांछिओ भस्मितः. 15 a विज्जापहरणं विद्याभिः संग्राम.

16 1 पडिवक्खें शत्रुणा. 7 चउकम्मइ चत्वारि घातिकर्माणि. 8 a अणयार मुण्ड-  
 नेयली. 9 b परमेट्ठि सिद्धः.

मयरद्दयचावसमुल्ललियं

णिसियं<sup>१</sup> संधिंदउ आवलियं ।

घत्ता—भरहणमंसिउ महं देहाणियं ॥

सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणियं ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे  
 मल्लिणाहंपउमचक्किणांदिमित्तदत्तयवल्लिपुराणं णाम  
 सत्तसद्धिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६७ ॥

---

८ A णिसि पासिउ छिंदिउ आवडिय. ९ A महु. १० A मल्लिणाहणिव्वाणगमण णाम सत्तसत्तिमो.

---

11 ७ णि सि यं तीक्ष्णाम् , आ व लिय कामवाणपक्तिमित्यर्थः. 12 दे हा णि यं देहानीतामं. 13 सु कु सु म-  
 यं त उ सुष्ठु कुन्दवत्कान्तिः, कु सु म स रा णि य पुष्पवाणमयीम् .

जो तित्थंकरु वीसमउ वीसु विसयविसवेयणिवारणि ॥  
जोईसरु जोइहि णमिउ जो वोहित्थु भवणवतारणि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो दिव्ववाणिगंगापवाहु	जो रोसहुयासणवारिवाहु ।	
जो मोहमहाघणगंधवाहु	जो मोक्खणयरवेहसत्थवाहु ।	
तणुगंधं जो समु चंदणासु	पउणइ जो तेपं चंदणासु ।	5
जो पणमिउ रामे लक्खणेण	धम्मेण अहिसालक्खणेण ।	
जणु जेण णिहिउ सग्गापवग्गि	जो सरिसच्चित्तु रिउवंधुवग्गि ।	
जे मिच्छतुच्छधीरंगरत्त	दप्पिट्टु दुट्ठ तिट्ठागरत्त ।	
जे घुम्मिरच्छ पीयासवेण	जे वद्धा गुरुकम्मासवेण ।	
जे कयलालस मासासणेण	जे विरहिय परहियसासणेण ।	10
जे णारिहिं वसें आया रएण	ते मुक्क जासु आयारएणं ।	
सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम	वयणेण विणिज्जिय जेण भीम ।	
तिहुयणि ण कोइ दीसइ समाणु	सण्णाणु जासु आयासमाणु ।	
णिच्चलपरिपालियसुव्वयासु	पणवेप्पिणु तंहु मुणिसुव्वयासु ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

चञ्चन्द्रमरोचिचञ्चुरचुराचातुर्यचक्रोचिता  
चञ्चन्ती विचटच्चमत्कृतिकवि प्रोद्दामकाव्यक्रियाम् ।  
अञ्चती त्रिजगन्ति कोमलतया वान्धुर्यधुर्या रसै  
खण्डस्यैव महाकवेः सभरतान्नित्यं कृतिः शोभते ॥ १ ॥

P reads अर्चन्ती, A reads तृजगन्ति, and P त्रिजगत्र in the third line; and AP read सभरता in the fourth line.

1 १ AP णविउ. २ A °वहे सत्थ°. ३ AP पणविउ. ४ AP जो. ५ AP घुम्मिरच्छि. ६ AP add after this: जे विरहिय ( P रहिय ) सया वि आयारएण. ७ A वसु जाया. ८ A जे मुक्क. ९ AP add after this तेलोइयसुद्धायारएण. १० P तुहु.

1 1 वीसु वीनामीगो गरुड , °वेय° वेग आतङ्को वा. २ वोहित्थु नौ . 3 a दिव्ववाणिगंगापवाहु दिव्यवाण्येव गङ्गाप्रवाहो यस्य, b °वारिवाहु मेघ . 4 a °गंधवाहु वायु , b °वह° मार्गः . 5 b चंदणासु चन्द्राभिभव., चन्द्रतिरस्कार जनयतीत्यर्थः . 8 a मिच्छतुच्छधीरंगरत्त ये मिथ्या च तुच्छधीरागरक्तास्ते यस्य भगवत आचारेण मुक्ताः, b तिट्ठागरत्त तृष्णाविषार्ता . 9 a घुम्मिरच्छ घूर्णितनेत्रा पीतमन्त्रेण. 10 b परहियसासणेण पर यद्धितं तदर्थं शासनं, जैनमतमित्यर्थ . 11 a रएण रत्या, b आयारएण अनुष्ठानेन. 12 a सुद्धोयणि सौगतः, सुरगुरु वृहस्पतिश्चार्वाक , b वयणेण वचनेन. 13 b सण्णाणु सम्यग्ज्ञानम् , आयासमाणु आकाशप्रमाणम् , अनन्तमित्यर्थः .

घत्ता—तहु जि कहंतरु वज्जरमि जेण विमुच्चमि दुग्गइदुक्खहु ॥ 15  
अदु वि कम्मइं णिट्ठविवि देहु मुएप्पिणु गच्छमि मोक्खहु ॥ १ ॥

2

एत्थेव य कयकूरारिकंप  
तहिं असिजलधारइ हरियछाउ  
सो एकहि दिणि उज्जाणु पत्तु  
अणगार णाणि परमत्थसवणु  
सत्तंगसंगु सुइ णिहिउ रज्जु  
तत्तउं तउ सहं बहुपत्थिवेहि  
होइवि एयारहअंगधारि  
तणुं चाएं मुउ हुउ प्राणइंदु  
तहु आउ वीससायरइं तेत्थु  
सियलेसु चित्तपाडिचारवंतु  
णीससइ देउ दहमासएहिं

भरहंगदेसि पुरि अत्थि चंप ।  
जगु जेण कियउ हरिवम्मराउ ।  
दिट्ठउ अणंतवीरिउ विरत्तु ।  
वंदेप्पिणु णिसुणिवि धम्मसवणु ।  
अप्पणु पुणु कियउं परलोयकज्जु । 5  
णिग्गंथमग्गपत्थियसिवेहिं ।  
अरहंतपुण्णपवभारकारि ।  
हरिवम्म सुकंतिइ जित्तचंदु ।  
तणु भणु विहत्थि पुणु तिउणु हत्थु ।  
अवहीइ णियइ पंचमधरंतु । 10  
पुणु वीसहिं वैरिससहसगएहिं ।

घत्ता—देउ मणेण जि आहरइ सुहमइं पोग्गलाइं रसरिइइं ॥  
अयणमेत्तु जीविउ थियउ पयइइं जायइं कालहु विधइं ॥ २ ॥

3

ता तहु चरित्तु णिच्चप्फलेण  
इह भरहि मगहरायंगिहि दित्तु  
जिणपायपोमजुयरेणुलित्तु  
अप्पडिमसत्ति णं सिद्धमंतु  
एयहं णंदणु जिणु सोक्खहेउ  
भो धणय धणय कल्लाणमित्त

धणयहु भासिउ आहंडलेण ।  
पुरि वसइ राउ णामे सुमित्तु ।  
हरिवंसकेउ कासवसुगोत्तु ।  
कि वण्णामि सोमापविकंतु ।  
होही प्राणयत्तुउ देवदेउ । 5  
एयहं दोहं मि करि पुरि विचित्त ।

2 १ AP कयउ. २ P हरिवम्म. ३ A तणु चइवि मुउ. ४ AP पाणइदु. ५ A वाससहा-  
एहिं, P वाससहसगएहिं.

3 १ AP णिच्चफलेण. २ A ०रायगिहु. ३ AP पाणयत्तुउ.

2 2 a हरिय छाउ हतमाहात्म्यः. 4 a परमत्थसवणु परमार्येन श्रमण. 5 a सत्तंगसगु  
सत्ताङ्गैः सह, सुइ पुत्रे. 9 b विहत्थिपुणु तिउणु हत्थु वित्तियुक्तास्त्रयो हस्ता.. 10 a ०पडि या रं  
मनःप्रवीचारः, b पंचमधरंतु पञ्चमनरकपर्यन्तम्. 13 अयणमेत्तु षण्मासान्, कालहु मरणस्य.

3 1 a णिच्चफलेण निश्चपलेन. 2 a दित्तु दीप्तिमान्. 4 a अप्पडिमसत्ति अप्रतिम-  
शक्तिः.

ता रइय णयरि दविणाहिवेण  
पासायपंतिरहचच्चरेहिं  
सरिसरणंदणवणजिणघरेहिं

दिप्पंतं तवणिज्जे णवेण ।  
गयणयललगवरगोउरेहिं ।  
रक्खिज्जंती णिर्यक्किरेहिं ।

घत्ता—तहिं सँउहहु सत्तमि तलि घणथणमंडलहारविलंविणि ॥ 10  
सुहुं सोवंती सयणयलि पेच्छइ सिविणय रायणियंविणि ॥ ३ ॥

## 4

मत्तसिंधुरं  
हरिणराययं  
फुल्लदामयं  
चंदविंययं  
चंडकिरणयं  
कुंभजुयलयं  
कमलवासयं  
अमयमाणिहिं  
सीहभूसणं  
सिहरसुंदरं  
धुयधयालयं  
णिहियंतिमिरयं  
कविलचलसिहं

सियधुरंधरं ।  
लच्छिकाययं ।  
दिट्टिकामयं ।  
उययतंवयं ।  
मीणमिहुणयं ।  
दलियकमलयं ।  
सुरहिवासयं ।  
अमरवारिहिं ।  
दिव्वमात्तणं ।  
इंदमंदिरं ।  
विसहरालयं ।  
रयणणियरयं ।  
जलियहुयवहं ।

5

10

घत्ता—इय जोइवि सिविणय सइइ सुत्तविबुद्धइ भासिउं दइयहु ॥

तेण वि तं तंहि अक्खियउं जं फल्लु होसइ पुव्वविरइयहु ॥ ४ ॥ 15

## 5

तुह कुच्छिहि इच्छियगुणमहंति  
सुरधणधारंचिइ रायणेहि

होसइ सुउ तिहुवणणाहु कंति ।  
अच्छरहि पसाहिइ देविदेहि ।

४ P तवणिज्जे तवेण. ५ P °यले लग्ग°. ६ P णिवक्किरेहि. ७ AP सउहहि.

4 १ A लच्छिकामयं. २ A धरियकमलयं. ३ A सीहभूसियं. ४ A विहिय°, P विहय°. ५ A तहु.

5 १ A जिणु.

7 b तवणिज्जे सुवणेन. 11 रायणियंविणि सोमादेवी.

4 1 b सियधुरंधरं श्वेतवृषभम्. 2 b लच्छिकाययं लक्ष्मीमूर्तिम्. 6 b दलिय° विकसितम्. 7 a कमलवासयं पद्मसरः. 6 b अमरवारिहिं क्षीरसमुद्रम्. 15 a पुव्वविरइयहु पूर्वोपार्जितपुण्यस्य.

5 1 b कंति हे कान्ते भायें.

सावणतमवीयहि सवणरिक्खि  
 देविइ दिट्ठउ समुहारविदि  
 हरिवम्मु राउ जो प्राणइंदु  
 आयउ वंदइ सयमेव इंदु  
 गइ मल्लिदेवि हयमोहजालि  
 उप्पणउ णिउ सक्केण तेत्थु  
 अहिसिचिउ पंडुसिलायलगि  
 आणंदे णच्चिउ कुलिसपाणि  
 सुव्वउ मुणिसुव्वउ भणिवि णाहु

पंडुरु करि आयउ अंतरिक्खि ।  
 पइसंतु संतु रयणिहि अणिदि ।  
 सइगम्भवासि थिउं सो जिणिंदु । 5  
 किर कवणु गहणु तहिं सूरचंदु ।  
 चउपण्णलक्खवरिसंतैरालि ।  
 तं मेरुमहागिरिसिहरु जेत्यु ।  
 घेरु आणिउ णिहिउ समाउअग्गि ।  
 तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि । 10  
 गउ णिययणिवासहु तियसणाहु ।

घत्ता—वड्डइ देउ लहंतु पय लक्खणवंतु जणंतु सुहं जणि ॥

सालंकारु कंतिई सहिउ कव्वविवेउ णाइ वरकइयणि ॥ ५ ॥

## 6

पहु वीससरासणमियसरीरु  
 परिणयमऊरवरकंठवण्णु  
 सत्तद्धवरिससहसाइं जाम  
 दहपंचसहासइहं धरिति  
 आहारु ण गेण्हइ णेय चारु  
 करि पुव्वतालपुरि आसि राउ  
 बंभणहं दिंतु मणिकणयदाणु  
 सुंयरइ सल्लइपल्लवदलाइं  
 सुंयरइ करिणीकरलालियाइं  
 सुंयरइ सिंसुमयगलकीलियाइं

पियवयणभासि गंभीरु धीरु ।  
 दहदहदहसहससमाउ वण्णु ।  
 थिउ किं पि बालकीलाइ ताम ।  
 भुंजिवि जोइवि करिवरहु वित्ति ।  
 पइ णरविंदहु वज्जरइ चारु । 5  
 कुच्छियमइ जणियकुपत्तभाउ ।  
 मुउ काणणि हुउ गउ गलियदाणु ।  
 सुंयरइ सीयलसरिसरजलाइं ।  
 गिरिगेरुयरयउद्धूलियाइं ।  
 करतालवट्टहिदोलियाइं । 10

घत्ता—एवं कहेप्पिणु मुक्कु गउ गउ सो विंशहु कहिं मि सइच्छइ ॥

अगइ सयणहं परियणहं णरणाहेण पवोल्लिउ पच्छइ ॥ ६ ॥

२ AP पाणइदु. ३ P सो थिउ. ४ AP add after this. वइसाहमासि पहु कसणपक्खि, दहमइ दिणि ससि थिइ सवणरिक्खि. ५ P घरि. ६ A कंतिसहिउ.

6 १ AP सत्तद्धसहसवरिसाइ.

10 b समाउअग्गि स्वमातुरमे. 11 b तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि इन्द्रस्य सुखाद् दिव्यवाणी निर्गता तथा नाम कृतं गृहीतं सुव्रतः मुनिस्वव्रत इति. 14 कव्वविवेउ काव्यविवेकः.

6 2 a परिणयं तरुण, b दहेत्याहि त्रिंशत्सहस्रसममायुः प्राप्तः. 5 a चारु तृणकवलम्; b चारु शोभनम्. 8 a सुंयरइ स्मरति.



## 7

जहिं णरणाह वि होंति गय  
 तहि किं किज्जइ सिरिधरणु  
 किंज्जइ काणोंणि पइसरिवि  
 सुररिसिहिं वि सो तहि संथविउ  
 विजयहु रज्जु समप्पियउ  
 गउ सिवियइ अवराइयइ  
 ओईण्णउ जिणु णीलवणि  
 वइसाहइ दसमीदियहि  
 सवणि सहासें सहं णिवहं  
 छट्ठुववासें तवु गहिउं  
 भिक्खहि मुणि गउ रायगिहु  
 वसहसेणरायस्स धरि  
 जं पासुययरु लद्धु जिह  
 भुंजिवि पुणु तेत्थाउ गउ  
 खरतवतावें तत्ताहो  
 णव झीणइं णिम्मच्छरइं  
 आयउ पुणु तं तरुगहणु  
 दिक्खारिक्खि पक्खि कहिय  
 णवमीदिणि चंपयहु तलि  
 पोसहजुयलें गलियमलु  
 केवलविमलु अणंतयरु

कालेण ह्य ।  
 जिणतवचरणु ।  
 थिह मणु धरिवि ।  
 सक्के ण्हविउ ।  
 तिणु कंप्पियउं ।  
 सुविराइयइ ।  
 तरुवेत्तिघणि ।  
 णिच्चंदवहि ।  
 जगबंधवहं ।  
 अमरहिं माहिउ ।  
 विच्छिण्णच्छिहुं ।  
 थिउ पुण्णभरि ।  
 तं भोज्जु तिह ।  
 कयसुंहिविजउ ।  
 सुविरत्ताहो ।  
 संवच्छरइं ।  
 वम्महमहणु ।  
 मासें सहिय ।  
 थिउ धरणियलि ।  
 ह्यउ सयलु ।  
 सुरखोहयरु ।

5

10

15

20

घत्ता—कोमलकरयलत्रैत्तियहिं कुसुमहिं चित्तलंतु गयणंगणु ॥

णं चित्तवहु पसारियउ जलि थलि मैहियलि माइ ण सुरयणु ॥ ७ ॥

## 8

सहसक्ये विरइउ समवसरणु

उवविट्ठु भडारउ तिजगसरणु ।

चरु अचरु असेसु वि जणहु कहइ

तहिं पसु वि चारु चारित्तु वहइ ।

7 AP क्राइ. २ A काणणु. ३ AP मणु थिरु. ४ AP कप्पियउ. ५ A रुइराइयइ, K omits  
 नुतिराइयइ. ६ AP उवइण्णउ. ७ A णिच्चंदयहि. ८ A सवणसहासे. ९ A विच्छिण्णच्छिहु. १० A सुहवि-  
 जतो. ११ तत्तयहो. १२ A सुविरत्तयहो. १३ AP षट्ठिवहि. १४ AP चित्तवट्ठु. १५ AP णहयलि.

7 5 b तिणु कंप्पियउं नृगपरमेकस्वित्तम्. 7 a ओइण्णउ अवतीर्णः. 8 b णिच्चंदवहि  
 निगंतधन्द्रपयो वन. 9 a सवणि श्रवणनधरे. 11 b विच्छिण्णच्छिहु गतस्वृह. 13 a पासुययरु  
 प्रासुययम्. 14 b तवसुहिविजउ नुत्तां कृत्तियय. 15 b सुविरत्ताहो सुविरत्तय. 17 b  
 वम्महमहणु वम्महयम्. 18 a दिक्खारिक्खि श्रवणनधरे. 21 a अणतयरु अनन्तानन्तम्.  
 22 विजयणु विजयणु. 23 विजयणु विजयणु.

जाया देवहु रिसिवित्तिअरुह  
 दहदोअंगइं रिसि जे धरंति  
 सिक्खुयहं सहासइं एकवीस  
 वइकिरियहं दुसहस दोसयाइं  
 णियणयविद्धंसियपरमयाहं  
 पणदहसय पुणु मणपज्जयाहं  
 पण्णाससहासइं संजईहिं  
 मंदिरवयणारिहिं तिण्णि लक्ख  
 हिडेप्पिणु एव महीयलंति  
 फग्गुणतमदसमिहि सवणजोइ  
 रिसिसहसें सहं संमेयकुहरि

अट्टारह गणहर मल्लिपमुह ।  
 पंचसयइं ताहं वि वज्जरंति ।  
 तेत्तिय केवलि ओहीविहीस । 5  
 भुवणंतपसिद्धिहि संगयाइं ।  
 वाइहिं वारहसय संजयाहं ।  
 णासियसुप्पयरिउसंपयाहं ।  
 सावयह लक्खु हयदुम्मईहिं ।  
 सुर तिरिय असंख णिरुद्धसंख । 10  
 मासाउसेसि थिइ जीवियंति ।  
 णिसि पच्छिमसंझहि मुक्ककाइ ।  
 सिद्धउ थिउ जाइवि तिज्जगसिहरि ।

घत्ता—अरसु अंगंधु अवणमउ फाससद्वज्जिउ गयरूवउ ॥

मुणिसुव्वउ महं दय करउ सुद्धु सिद्धु हुउ णाणसहावउ ॥ ८ ॥ 15

## 9

णिव्वुइ सुव्वइ जो णिज्जियारि  
 हरिसेणु णाम तहु तणउं चरिउं  
 वरभारहवरिसि अणंततित्थि  
 णरपुरवरि णाहु णराहिरामु  
 सुविसालविमंणि विमाणसारि  
 इह खेत्ति भोयपुरि दीहवाहु  
 तहु देवि किसोयरि सुद्धसील  
 एयहं सो सुर अंगरुहु जाउ  
 सुहलक्खणु वीसधणुप्पमाणु  
 गउ तेण समउं पिउ पुहइवीरु

इह जायउ महिवइ चक्कधारि ।  
 णिसुणह पवित्तु परिहरिवि डुरिउं ।  
 गंथियकुंगंधबंधणवाहित्थि ।  
 तउ करिवि हरिवि कलि कोहु कामु ।  
 संभूयउ अमरु सणक्कुमारि । 5  
 इक्खाउवंसि णिउ पउमणाहु ।  
 अइरा एरावयगमणलील ।  
 हेमाहु समाजुयपरिमियाउ ।  
 कंतीइ चंदु तेएण भाणु ।  
 मणहरवाणि णाविवि अणंतवीरु । 10

8 १ A ओहीविमीस. २ A महि डिडेप्पिणु इम महियलति. ३ A सिद्धसिहरि.

9 १ A °कुगंधिबंधण°. २ AP °विवाणि विवाण°. ३ AP पुहइवीरु.

8 3 a °अरुह योग्या., 4 a दहदो° द्वादश. 5 b ओ ही वि ही स अव धि वि धी शा अव-  
 धिज्ञानवन्तः. 8 b णा सि य सु प्प य रि उ सं प या हं नाशिता शोभनपदस्य मोक्षपदस्य रिपवो मिथ्यादर्शना-  
 दयः तेषां सपद. यै 10 a म दि र व य णा रि हिं गृहस्यत्रतस्त्रीणा श्राविकाणामित्यर्थ, b णि रु द्ध स ख  
 संख्याताः. 14 ग य रू व उ मूर्तपदार्थस्वरूपरहितः.

9 3 b ग थि ए त्या दि जैनाभासग्रन्थिकाना मिथ्यादृष्टीना कुत्सितग्रन्थस्य चन्वनं रचन तस्माद्  
 बहिःस्थे बाह्ये. 7 b अ इ रा नामेदम्. 8 b स मा जु य प रि मि या उ अयुतवर्षप्रमाणायु, समाजुय दशवर्ष  
 सहस्राणि.

रिसि ह्यँउ पडु पंकरुहणाहु

पुत्तं आयण्णिवि धम्मं साहु ।

घत्ता—लइयइं पंचाणुव्वयइं पंचं वि इंदियाइं णियमंतं ॥

आवेप्पिणु पुरं रज्जि थिउ पुण्णपहावें कालें जंतं ॥ ९ ॥

## 10

उप्पण्णउं पहरणु घरि रहंगु  
णित्तिसु तहिं जि धवलायवत्तु  
जणणहु केवलसिरि देहुं पत्त  
जाइवि जिणु वंदिवि रसियवज्ज  
मंदिरवइ थवइ पुरोहु अवरु  
करितुरयणारिरयणाइं जाइं  
उल्लंघियाइं सायरजलाइं  
काराविय किंणरखयरसेव  
महि हिंडिवि खांडिवि वइरिमाणु  
कत्तिइ पंदीसरि सरकयंतु  
उववासिउ छणवासरि पसण्णु

पविदंहुं चंडु रिउदिण्णभंगु ।  
सिरिहरि कागाणि मणि चम्मजुत्तु ।  
एक्कहिं खाणि तणपं णिसुय वत्त ।  
घरु आविवि विरइय चक्कपुज्ज ।  
सेणावइ णिज्जियवीरंसमरु । 5  
विज्जाहरेहिं दिण्णाइं ताइं ।  
संसाहियाइं धरणीयलाइं ।  
वसिकय अणेय गणवद्धदेव ।  
आवेप्पिणु तं पुणु णिययठाणु ।  
अहिसिच्चिवि अंचिवि अरुहु संतु । 10  
जावच्छइ णिसि णरवइ णिसण्णु ।

घत्ता—इंदणीलणीलंगण चंदविंबु ता गिलिउं विडप्पें ॥

णहभायणयलि संणिहिउ घोट्टिउ दुडु व कसणें सण्पें ॥ १० ॥

## 11

णं ढंकिउ अलिजूहेण कमलु  
संणिहिय विहाएण व विवित्ति  
चिंतइ पहुं विहु गहगत्यु जेम  
लइ जामि हणामि दुक्कम्मजोणि  
गउ पुहइणाहु वेरगभूरि

णं पावें सुक्किउ छइउ विमलु ।  
मयणाहि धोयकलहोयवत्ति ।  
कालें कउलेवउ हउं मि तेम ।  
महसेणहु ढोइवि सयलखोणि ।  
सिरिमंतसेलि सिरिणायसुरि । 5

४ AP जायउ. ५ A धम्मलाहु. ६ P पंचेदियाइ. ७ P omits पुर. ८ A जंतं कालें.

10 १ A देहि. २ A ०धीरसमरु.

11 १ A कलहोयपत्ति. २ A इहु. ३ AP महिसेणहु.

11 b धम्म साहु धर्ममाकर्ण, साधु यथा भवति तथा.

10 2 a णि त्तिसु असि, b सिरिहरि भाण्डागारे. 4 a रसियवज्ज शब्दितवाद्यः.  
5 a मंदिरवइ गृहपत्तिः. 10 a सरकयंतु सरस्य कृतान्तः. 11 a छणवासरि पौर्णमास्याम्.  
12 विडप्पें राहुणा. 13 घोट्टिउं पीतम्.

11 1 a अलिजूहेण भ्रमरसमूहेण, b सुक्किउ छइउं पुण्य स्थगितमिव. 2 a विहाएण  
विधात्रा, विवित्ति विशेषेण वृत्ते वर्तुले, b मयणाहि कस्तूरिका; धोयकलहोयवत्ति रूप्यमये पात्रे.  
3 a विहु चन्द्रः, गहगत्यु राहुणा ग्रस्त.

पणवेष्णिणु लइयउ तवोविहाणु  
 तें दिण्णउं जीवदयालुण  
 विसहेवि भीमु रविकिरणताउ  
 तवदंसणणाणचरित्तरिद्धि

तसथावरजीवहं अभयदाणु ।  
 गिरिसिहरि सुइरु लंविभुएण ।  
 विद्धंसिवि मिच्छामोहभाउं ।  
 आराहिवि गउ सव्वत्थसिद्धि ।

घत्ता—हरिसेणहु भरहाहिवहु अहमिंदत्तणु तं तहु सिद्धउ ॥ 10  
 दिव्वसोक्खसंदोहयरु जं ण पुप्फदंतेहिं वि लद्धउं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिव्वौणं हरिसेण-  
 कंहंतरं णाम अद्वसद्विमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ ६८ ॥

४ P विसहेवि मुणिवरु रवि°. ५ A °णिव्वाणगमण. ६ P adds another पुप्पिकाः मुणिसुव्वय-  
 जिणदसमचक्रवद्वि हरिसेण एतच्चरियं सम्मत्तं; K gives it in the margin in second hand.

मुणिसुव्वयजिणतित्थि तोसियसुररामायणु ॥  
हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु ॥ छ ॥

1

णियवुद्धिपवित्थरु णउ रहमि  
णिव्वाहमि भरहैब्भत्थियउं  
कलिकालें सुट्टु गलत्थियउ  
सामग्गि ण एक वि अत्थि महु  
कइराउ सयंभु महायरिउ  
चउमुहहु चयारि मुहाइं जहिं  
महु एकु तं पि मुहुं खंडियउं  
मइं छंदु ण लक्खणु भावियउं  
वुहहियवइ जइ वि ण पइसरमि  
महु खमउ भडारी विउससह

लइ तं पि किं पि एवहिं कहमि ।  
परिपालमि पडिवण्णउं थियउं ।  
जणु दुज्जणु अण्णु वि दुत्थियउ । 5  
किर कैवण लीह चिरकइहिं सहुं ।  
सो सयंणसहासहिं परियरिउ ।  
सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं ।  
विहिणा पेसुण्णउं मंडियउं ।  
अप्पउं जणि हासउ पावियउ । 10  
धिद्वत्ते तइ वि कव्वु करमि ।  
आयण्णहु रहवइरायकह ।

घत्ता—सुकइपयासियमग्गि मणि दहमुहु वि चैमकइ ॥  
रामधम्मगुणसहि अमुहु पिसुणु कहिं दुक्कइ ॥ १ ॥

2

जिणचरणकमलभंसलें झुण्डिउं  
सुइपेसलु कण्णविइण्णसुहु  
सैइं लग्गइ चित्ति वियक्खणहु  
वइदेहिसइत्तणु भूसियउं

मइं एउं णिरत्थु वि रुणुरुण्डिउं ।  
वियसावियमाणिण्डिंभमुहु ।  
जसु रामहु पोरिसु लक्खणहु ।  
जलविंदु व पोमपत्ति थियउं ।

1 १ P °वुद्धिइ वित्थरु. २ P भरहअब्भत्थियउ. ३ P कमण. ४ AP चिर कहहि. ५ A सुयणसहासे, A सुयणसहासेहिं. ६ P सीसइ. ७ P चक्कवइ. ८ A समुहु.

2 १ AP °भमरे. २ AP एत्थु. ३ A लइ. ४ P पोमवत्ति.

1 1 °सुररामायणु सुरस्त्रीगण स्त्रीजनो वाः 2 रामायणु रामचरितम्. 4 b पडिवण्णउ अङ्गीकृतम्. 6 b चिरकइ हि चिरकविभिः. 7 a सयंभु महायरिउ स्वयंभूः महाचार्यः, दीहरसमास-  
णालं सद्दल अत्यकेसग्गवियं । बुहमहुयरपीयरसं सयंभुकव्वुपलं जयउ. 8 a चउमुहहु चतुर्मुखनाम्नः  
कवेः. 9 b पेसुण्णउ मंडियउं दुर्जनत्वं कृतम्. 12 a विउससह विद्वजनसभा. 13 सुकइ° सुकविः  
वानरक्ष, दहमुहु गवण, चमकइ विभेति. 14 रामधम्मगुणसहि रामस्य धर्मगुणयोर्वर्णने, रामस्य  
वा धर्मो धनुस्तस्य गुणो दोरस्तस्य शब्दे ट्कारे, अमुहु पिसुणु अनुखा. खरदूपणादयः.

2 2 a कण्ण विइण्ण सु हुं कर्णयो. वितीर्णसुखम्. 4 a वइदेहिं सीता.

मुक्ताह्वयगुणु ममुज्याह	आसयगुणेण कव्वु वि सहइ ।	5
अं विरः उं मंमंमंमंमंमं	अम्हारिसेहि जगि जडकईहिं ।	
अं जगि पग्निः सु नीयाह्वयगु	अं अंजणेयगुणाविथरणु ।	
अं विडमुग्गीवरायमरणु	अं तारावइअम्भुद्धरणु ।	
अं लयणममुहंममुत्तरणु	अं णिसियरवंसहु खयकरणु ।	

यत्ता—भरतहु भन्तिभरान्तु वरुणमभावजणेरउं ॥ 10  
तं आहासमि जुज्जु रीवणरामहु केरउं ॥ २ ॥

3

जिणचरणजुयलमंणिहियमह	आउच्छइ पहु मगहाहिवइ ।	
णिरु मंसयसहिउं मज्जु मणु	गोत्तमगणहर मुणिणाह भणु ।	
किं दहमुहु महं दहमुहिं हुउ	किं जम्मं गरुयउ तासु सुउ ।	
जो मुम्मइ भीसणु अतुलवल्लु	किं रक्खसु किं सो मणुयै खलु ।	
किं अंचिउ तेण सिरेण हरु	किं वीसणयणु किं वीसकर ।	5
किं तहु मरणावइ रामसर	किं दीहर थिर सिरिरमणकर ।	
सुग्गीवपमुह णिसियासिधर	किं चाणर किं ते णरपवर ।	
किं अज्जु वि देव विहीसणहु	जीविउ ण जाइ जमसासणहु ।	
उम्मासइं णिहं णेय मुयइ	किं कुंभयणु घोरइ सुयइ ।	
किं महिससहासहिं धउ लहइ	लइ लोउ असच्चु सव्वु कहइ ।	10
वम्मीयवासवयणिहिं णाडिउ	अण्णाणु कुम्मगकूवि पडिउ ।	

यत्ता—गोत्तम पोमंचरित्तु भुवणि पवित्तु पयासहि ॥  
जिह सिद्धत्थसुणण दिट्ठउं तिह महं भासहि ॥ ३ ॥

५ A °समुहं उत्तरणु. ६ P मत्तियरासु. ७ AP रामण°.

3 १ P किं जम्मं. २ AP सो मुम्मइ. ३ A मणुवकुळ ४ AP णेय णिह. ५ APT पउम°.

5 b आसयगुणेण आश्रयगुणेण स्थानमाहात्म्येन. 7 b अंजणेय° हन्नुमान्. 8 a विडसुग्गीवराय° चालिनरेन्द्रस्य, b तारावइ° मूलसुग्गीव. 9 b णिसियर° राक्षसाः.

3 1 b पहु श्रेणिक. 3 a दहमुहु रावणः किं दशभिर्मुखैर्जनितः; b जम्मि गरुयउ तासु सुउ इन्द्रजित् किं रावणाद्वर्षेणैः. 4 b खल्लु स्फुटम्. 5 a तेण रावणेन. 6 a मरणावइ मरणकराः; b सिरिरमण° लक्ष्मणः. 7 a णिसियासिधर तीक्ष्णखड्गधराः. 9 b सुयइ स्वपिति. 10 a धउ वृत्तिम्. 11 a वम्मीय° वाल्मीकिः, वास° व्यासः, णडिउ वञ्चितः. 12 पोमंचरित्तु रामचरितम्. 13 सिद्धत्थसुण ण श्रीवीरेण.

## 4

ता इंदभूइ गंभीरञ्जुणि  
इह भरहि भवावहारिणिलइ  
मायंदगोदगोदलियसुइ  
णिष्पीलिउच्छरससलिलवहि  
मलरहिय मलयदेसंतरइ  
तहिं वसइ पयावइ पयधरणु  
जें सथें जित्त सरासइ वि  
जें रिद्धिइ जित्तउ सुरवइ वि  
तहुं रायहु णयणसुहावणिय  
रूवेण सरिच्छी उव्वसिहि  
सुउ चंदचूलु चंदु व उइउ

सेणियराहु कहं कहइ मुणि ।  
फुल्लियकणयारवउलतिलइ ।  
महमहियकलमकेयारजुइ ।  
संतुट्टुपुट्टुपंथियणिवहि ।  
स्यणउरि भवणरुइहयसरइ ।  
जें दंडें जित्तउं जमकरणु ।  
जें वुद्धिइ जित्तउ भेसइ वि ।  
जें भीएं जित्तउ रइवइ वि ।  
णं वाणावलि मयणहु तणिय ।  
गुणवंत कंत कंति व ससिहि ।  
सिसु मंतिमित्तु तेण वि लइउ ।

5

10

घत्ता—सो विजयंकु पंसिद्धु णं ससिरावि गयणंगणि ॥  
वेण्णि वि सह खेलंति वद्धणेह घरपंगणि ॥ ४ ॥

## 5

तरुणीकडंक्खोहविक्खेवमूढाइ  
णिण्णदुदप्पिट्टुणिकिद्धुतुट्टीइ  
णं तावसा के वि अरहंतदिक्खाइ  
अण्णम्मि तव्वासरे तम्मि णयरम्मि  
गोत्तमवणिदेण वइसवणघरिणीइ  
विण्णाणवंतस्स संसारसारस्स  
करधरियभिंंगारचुयवारिधारेण  
वाल्लेण वालालयं झ त्ति गंतूण

जोव्वणसिरीए सरीराहिरूढाइ ।  
घोराण जाराण चोराण गोट्टीइ ।  
ते वे वि ण चरंति रायस्स सिक्खाइ ।  
णिद्धणजणे दिण्णवहुदविणणियरम्मि ।  
जायस्स कलहस्स णं चारुकरिणीइ ।  
सिरिदत्तणामस्स वणिवरकुमारस्स ।  
णियधीय रमणीय दिण्णा कुवेरेण ।  
णमिऊण जय देव देव त्ति वोत्तूण ।

4 १ AP सइ. २ A भवावहारि. ३ A °कणियार°. ४ A मायंदगोच्छ°; P मायंदगोदि°. ५ A केयारहुए. ६ A °उच्छु°. ७ A बुद्धे. ८ P रूए. ९ P omits पंसिद्धु.

5 १ A कडकसेवविक्खोह°, P °कडकखोहविक्खेय° २ A °बुद्धीइ. ३ AP ता वासं. ४ A णविज्जग.

4 2 a भवावहारिणिलइ सर्वज्ञानभूते. 3 a मायंदगोद° आम्रवृक्षसमूहः, °गोदलियसुइ शक्तिमुक्ते. 5 a °उच्छु° शकुन्त. 5 b भवणरुइहयसरइ सौधशोभाभिर्हता निरस्कृता शक्तान्-शोभा यस्मिन्. 7 a सस्ये शान्तेण, b भेसइ वृहस्वति.. 8 b रइवइ मदनः. 11 a चदचूलु भवि-पत्तमः, उइउ उदितः.

5 1 a °कडकखोहविक्खेवमूढाइ वृक्षसमूहविशेषमूढता. 1 a तव्वासरे तम्मिन् वासं एवमिन् दिने. 2 a वासं वासं चन्द्रन् चन्द्रम्.

केणावि पावेण रइरहसजुत्तीइ  
 रेहंतराईवदलदीहणेत्ताइ  
 तं सुणिवि सिरु धुणिवि विद्धर्थधम्मणेण  
 वणिभवणि पइसरिवि बहुसहसहाएण  
 रोवंति वेवंति वरइत्तहत्थाउ  
 रूवं वरं वणिणयं वणियउत्तीइ ।  
 ती<sup>१</sup>संणिहा का कुवेराइदत्ताइ । 10  
 संचरिवि वियडं तुरं कूरकम्मेण ।  
 हित्ता कुमारी धराणाहजाएण ।  
 णट्ठाउ गारीउ विलुलंतवत्थाउ ।

घत्ता—णिव परिताहि भणंतं पुरि अण्णाउ कुमारहु ॥

गय तरुसाहाहत्थ वणिवर रायदुवारहु ॥ ५ ॥ 15

6

आउच्छिउ रापं पउरयणु  
 तुह तणुरुहु परदविणइं हरइ  
 पइसरउ भडारा वियणु वणु  
 ता रापं पुरवरतलवरहु  
 सिरकमलु विलुंचवि णिट्ठुरहु  
 अण्णाणु णायविद्धंसयरु  
 जो दुट्ठु कट्ठु णिद्धम्मयरु  
 हियउल्लउं दुक्खे सल्लियउं  
 विण्णवइ णवंतु तसंततणु ।  
 परिणियउं कलत्तु ण उव्वरइ ।  
 अण्णेत्ताहि जीवउ जाउ जणु ।  
 आप्सु दिण्णु असिवरकरहु ।  
 पेसहि तणुरुहु वइवसपुरहु । 5  
 खलु सो<sup>३</sup> किं तुच्चइ रज्जधरु ।  
 सो खंडमि हउं अप्पणउं करु ।  
 ता पउरें मंतिहि<sup>४</sup> वोल्लियउं ।

घत्ता—णंदणु हणहुं ण जुत्तउं जइ सो मणहु ण रुच्चइ ॥

गिरिदुग्गमि कंतारि तो<sup>१</sup> दूरंतरि मुच्चइ ॥ ६ ॥ 10

7

पहु भणइ जाउ कि तेण महुं  
 गुणदूसणु अप्पपसंसणउं  
 णडदूसणु णीरसंपेक्खणउं  
 हउं णंदमि चिरु धम्मणेण सहं ।  
 तवदूसणु मिच्छादंसणउं ।  
 कइदूसणु कव्वु अलक्खणउं ।

५ A थी सणिहा. ६ A विद्धत्थकामेण. ७ A सहावेण. ८ P तट्ठाउ. ९ AP भणंता.

6 १ AP तसंतमणु. २ A परसरणु, P पइसरह. ३ P किं सो. ४ A महिवइ. ५ A ता.

7 १ AP णीरसु.

10 a रेहंतराईव<sup>०</sup> शोभमानकमलम्, b ती स्त्री, संणिहा सदृशी, कुवेराइदत्ताइ कुवेरदत्ता.

11 b तुर शीघ्रम्. 12 a बहुसहसहाएण बहुभि. सहैः समर्थै. सह. 13 a वेवति वेपमाना कम्माना.

6 2 b परिणियउ कलत्तु परिणीता स्त्री. 3 a पइसरउ प्रविशतु; वियणु वणु विज्जन वनम्

7 a कट्ठु निन्द्यः 9 मणहु चित्तस्य.

7 2 a अप्पपसंसणउ आत्मप्रशसनम्. 3 b अलक्खणउ व्याकरणरितम्.



धणदूसणु सढंखलयणभरणु  
रइदूसणु खरभासिणि जुवइ  
सिरिदूसणु जहु सालसु णिवइ  
गुरुदूसणु णिकारणहंसणु  
ससिदूसणु मिगमलु मसिकसणु

वयदूसणु असमंजसंमरणु ।  
सुहिदूसणु पिसुणु विभिण्णमइ । 5  
जणदूसणु पाउ पत्तकुगइ ।  
मुणिदूसणु कुसुइसमम्भसणु ।  
कुलदूसणु णंदणु दुव्वसणु ।

घत्ता—लइ जं तुम्हहं इट्टु मइं वि तं जि पडिवण्णउं ॥

जाइवि कुलवुहेहिं वालहं उत्तर दिण्णउं ॥ ७ ॥

10

## 8

किं परकलत्तु उद्दालियउं  
किं वप्प सुदप्प कुसंगु किउ  
कुद्धउ पिउ एवहि को धरइ  
तं णिसुणिवि सिसु चवंति गहिरु  
को रक्खइ आवंतउं मरणु  
कु वि अग्गइ कु वि पच्छइ मरइ  
मंतीसैं करपल्लवधरिया  
तरुवरविलग्गचलदवदहाणि  
गणणाहहु हयवम्महवलहु  
रायागमणायवियाणएण  
परमेसर ए णर भव्व-जइ

उज्जलु अप्पाणउं मइलियउं ।  
परयारचोरकीलाइ थिउ ।  
तुम्हारउं जीविउ अवहरइ ।  
अत्थंतु णिवारइ को मिहिरु ।  
जगि कासु ण दुक्कइ जमकरणु । 5  
वइवसदंतंतरि पइसरइ ।  
सुय वेण्णि वि किंकरपरियरिया ।  
पइसारिय वेण्णि वि गिरिगहणि ।  
दक्खविय णंवंत महावलहु ।  
कुच्छियमइ धाडिय राणएण । 10  
वर एवहिं तुहुं उद्धरहि तइ ।

घत्ता—दुम्मइमलमइलेहिं कुंअरिहिं कहि जाएवउं ॥

भणि भवियव्वु भयवंत एहि काइं पावेवउं ॥ ८ ॥

## 9

मुणि भणइ एत्थु दिहि<sup>१</sup> करिवि तवे  
णामेण रामलक्ष्ण विजई

होहिति सीरि हरि तइयभवे ।  
तं णिसुणिवि जाया तरुण जई ।

२ A सह खलयर<sup>०</sup>. ३ AP असमंजसु. ४ A <sup>०</sup>भसणु. ५ A जि.

8 १ A सदप्पु. २ A उदयतु. ३ AP <sup>०</sup>पल्लवि धरिया. ४ AP णमंत. ५ AP कुमरहिं.  
६ P भयवंतहिं.

9 १ P विहि.

4 a सढं सर्वत्र वक्रहृदया, b असमंजसमरणु सशल्यमरणं आत्मघातो वा. 6 a सिरि<sup>०</sup> राज्यलक्ष्मीः  
b पाउ पापम्. 7 b कुसुइसमम्भसणु मिथ्याशास्त्राभ्यास. 8 a मिगमलु मृग एव मलः.

8 2 b परयार<sup>०</sup> परदाराः. 4 b अत्थंतु अस्तं गच्छन्, मिहिरु सूर्यः. 5 b जमकरणु रोगः.  
10 a रायागम<sup>०</sup> नीतिशास्त्रम्, b कुच्छियमइ कुमती द्वौ पुरुषौ. 12 कुअरिहिं कुमाराभ्याम्.

9 1 b सीरि हरि बलदेवो वासुदेवश्च.

गउ मंति णिहेल्लेणु पय णवइ  
 वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि  
 कासु वि सकम्मउग्गुगमहो  
 विसहावियदंडणमुंडणंइं  
 णिवणयणइं मुक्कंसुयजलइं  
 हा हा मइं रुसिवि किं कियउं  
 अइरहसें किज्जइ कज्जरइ  
 मणु मंतें परियाणिवि पइहि  
 जिह दोहिं मि लइयउं तववरणु  
 कोमलतणु णीसारिवि घरहु

णरणाहहु वइयरु विण्णवइ ।  
 आरणिण णिहिय वणवासिघरि ।  
 तणुदुक्खलक्खविहिंसंगमहो । 5  
 पंचिदियदप्पविहंडणइं ।  
 ओसासित्ताइं व सयदलइं ।  
 कि बालजुयलु दुक्खे हयउं ।  
 जा सा णिदहइ ण कासु मइ ।  
 अक्खिउ जिह पासि णिहिय जइहि । 10  
 ता जायउं तायहु सिसुकरुणु ।  
 णंदण पइंवि वि वणंतरहु ।

घत्ता—डहु बुहणिंदिरु रज्जु रज्जु जि पाउ णिरुत्तउं ॥  
 रज्जमएण पमत्तउ ण सुणंइ जुत्ताजुत्तउं ॥ ९ ॥

## 10

णियंणोत्तिउ णियकुलि संणिहिउ  
 भरहेण व अहिवंदिवि रिसहु  
 गउ मोक्खहु अक्खयसोक्खमइ  
 खग्गउरहु वहि कयधम्मकिसि  
 थिय जइयहुं तइयहुं महि जिणिवि  
 सुप्पह पुरिसोत्तम दिट्ठे पहि  
 दीसइ णरणाहहु जेरिसउं  
 मुंउ सणंकुमारु हुउ रिसि विजउ  
 कमलप्पहि विमलविमाणवरि  
 मणिचूलु देउ जायउ पवरि

वणु जाइवि रायं तवु गहिउ ।  
 पणवेवि महावल्लु मुणिवसहु ।  
 थिउ णाणदेहु णिव्वाणपइ ।  
 आयावणजोपं वालरिसि ।  
 महसूयणु समरंगाणि हणिवि । 5  
 ससिचूलं चित्तिउं हिययरहि ।  
 महु होउ पहुत्तणु तेरिसउं ।  
 सुरु णामु सुवण्णचूलु सइउ ।  
 णिवतणउ मणिप्पहि अमरघरि ।  
 कलहंसु व विलसइ कमलसरि । 10

घत्ता—जं अणिमाइगुणेहि वहुंविहवेण णिउत्तउं ॥

तं दिवि दीहर कालु चिहि मि दिव्हु सुहुं भुत्तउं ॥ १० ॥

२ A णिहेल्लेणु पइ. ३ A उग्गुगमहो. ४ A दिहि°. ५ AP उट्ठण°. ६ P मुडणहो. ८ AP णिडुहइ. ९ A पइविय. १० AP पमत्तु. ११ AP मुणइ.

10 १ AP णियणत्तिउ. २ A दिट्ठि. ३ A मुए. ५ AP सणकुमारो. ५ A वहिविहवेण.

4 b वण वा सि° सुनयो भिल्ला वा. 5 a सकम्मउग्गुगमहो स्वकर्मण.. उत्र नेत्र उदयन्तन्नात्. 7 b ओ सा सि त्ता इ अवश्यायावसिक्तानि. 9 a अइरहसे अतिग्भमेन उत्तुग्गेन. 10 a पइ हि गण.

10 1 a कयधम्मकिसि कृतधर्मकर्षणौ. 5 a जइयहु इत्यादि पूरे यदा गते अनन्तदि-  
 नीये चन्द्रचूलेन सुप्रभपुरोत्तमौ चतुर्भ्रवलक्रेणवौ मार्गे दृष्टौ. 6 b हिययरहि मनेग्गे. 8 b नदउ द-  
 सहित.. 9 b णिवतणउ चन्द्रचूलः.

## 11

सरवरमरालर्चाक्खियभिसइ  
 जहिं सालिरमणकीलाहरइं  
 जहिं सालिकमलछणणइं सरइं  
 सिसुहंसपयइं मयरंदरइ  
 रोमंथतैइं संतुट्टाइं  
 उच्छुरसु जंतणालील्लहसिउ  
 ओयणु सीयल्लु दहिओल्लियउं  
 जहिं जिम्मइ पहिययणाहिं पवहि  
 ओहामियअलयाउरिसिरिहि  
 तहि दसरहु दसदिसिणिहियजसु

इह भरहवरिसि कासीविसइ ।  
 जहिं सालिधण्णछेत्तंतरइं ।  
 जहिं सालिहियाइं व अक्खरइं ।  
 गोहणइं चरंतइं पइ जि पइ ।  
 दीसंति हरियतणपुट्टाइं । 5  
 दक्खारसु पिज्जइ मुहरसिउ ।  
 फणिवेल्लिपत्तपत्तलि थियउं ।  
 देसियढक्करिजंपणरवहिं ।  
 जणभरियहि वाणौरसिपुरिहि ।  
 णिवसइ णिउ जियरिउ थिरु सवसु । 10

घत्ता—कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायरु जायउ ॥

जो इक्खाउहि वंसि णरवइरूढिइ आयउ ॥ ११ ॥

## 12

करगेज्जु मज्जु उत्तुंगथाणि  
 सिविणंतरि पेच्छइ उग्गमिउ  
 ससि कुमुयकोसवित्थारयरु  
 सुविहाणइ कंतहु भासियउं  
 तुह होसइ तणुरुहु सीरहरु  
 अण्णहिं दिणि सग्गहु अवयरिउ  
 मघरिक्खयंदि णीरयदिसिहि  
 देविइ णवमासहि सुउ जणिउ  
 करिवरलोहियपंन्वालियउ

तहु सुवेल णाम वल्लह धरिणि ।  
 रवि सहसकिरणु णहयलि भमिउ ।  
 गज्जंतु जलहि जुज्झियमयरु ।  
 तेण वि तहु गुज्जु पयासियउं ।  
 हलि चरमदेहु णं तित्थयरु । 5  
 सुंरु कणयचूलु उंयरइ धरिउ ।  
 फग्गुणि तमकालिहि तेरसिहि ।  
 तणुरामु रामु रापं भणिउ ।  
 सिविणंतरि सीहु णिहालियउ ।

11 १ A °चालियभिसए. २ P रोमंथतइ पसुसुट्टाइ. ३ AP वाराणसि°. ४ A °रूढिं आयउ.

12 १ A सुकल. २ AP रमणि. ३ AP सुउ. ४ A उयरे, P उवरें. ५ A °रिक्खे चंदे, P °रिक्ख इंदे. ६ P °पंचालियउ. ७ P सुविणंतरि.

11 1 a °च क्विय भिसइ °आस्वादितपद्मिनीकन्दे. 2 a सालिरमणकीलाहरइं स्त्रीपुरुषयुक्तक्रीडाग्रहाणि. 3 a सालिकमल° सभ्रमराणि कमलानि, b सालिहियाइं लक्ष्मीलिखितानि. 4 a मयरंदरइ मकरन्दरजसि, b पइ जिपइ पदे पदे. 8 a पवहि प्रपायाम्. 11 दोसायरु चन्द्र°, दोषाणामाकरश्च.

12 1 a करगेज्जु मुष्टिग्राह्यम्. 7 a मघरिक्खयंदि मघानक्षत्रस्ये चन्द्रे, णीरयदिसिहि निर्मलदिशायाम्. 8 a तणुरामु शरीरेण उज्ज्वलः. 9 a °पंचालियउ लिप्त.

माहहु मासहु सियपढमदिणि  
मणिचूलु देउ दसरहरयइ  
जोइउ लक्खणलक्खंफियउ

सविसाहि जसाहिउ पहु भुवणि। 10  
सुउ अवरु वि जायउ केक्कयइ।  
सो ताए लक्खणु कोक्कियउ।

घत्ता — बेणिण वि ते गुणवंत भुयबलतासियदिग्गय ॥

णाइं सियासियपक्ख पत्थिवगरुडहु णिग्गय ॥ १२ ॥

## 13

रेहांति वे वि बलएव हरि  
णं गंगाजउणाजलपवह  
णं पुण्ण मणोरह सज्जणहं  
अवरोप्परु णिरु णिममच्छराहं  
सहसाइं विहि मि णिदेसियेइं  
पण्णारहचावइं तुंगतणु  
पुरवाहिरि उववणसंठियहु  
अवलोइवि रामहु सरपसरु  
करि आउहु जं लक्खणु धरइ

णं तुहिणगिरिंदंजणसिहरि।  
णं लच्छिहि कीलारमणवह।  
णं वम्मवियारण दुज्जणहं।  
तेरहवारहसंवच्छराहं।  
परमाउसु जइवरभासियेइं। 5  
ते सत्थु सुणांति गुणांति धणु।  
विद्धंतहु जयउक्कंठियहु।  
मउ चेय मुयंति ण वइरि सरु।  
तहु परपहरणु जि ण संचरइ।

घत्ता — कंपइ महिसंचारें ससरसरासणहत्थहं ॥

10

संकइ जमुं जमदूउ को णउ तसइ समत्थहं ॥ १३ ॥

## 14

रिसहाहिवसंताणाइयहं  
संखापरिवज्जिय पुरिस गय  
ताहिं अण्णहु कहि जीवियकहइ  
सव्वत्थसिद्धि हरिसेण गइ  
सुयसुइदिणाउ जायविजइ

सिरिभरहसयररायाइयहं।  
अहमिद वि जहि कालेण मय।  
लइ अत्थेमियइ पत्थिवसहइ।  
दिणमाणें वरिसहं संहसहइ। 5  
पुण्णइ पंचुत्तरवरिससइ।

८ AP सविसाहु. ९ AP भवणि. १० P जायउ अवरु वि.

13 १ AP तुहिणगिरिंदं नीलसिहरि. २ A °जलपवाह, P °जलणिवहु. ३ A °रमणगह;  
P °रवणवहु. ४ A णिदेसियउ. ५ A भासियउ. ६ A जम.

14 १ A अण्ण वि कहिं, P अण्णहिं किं. २ A अइ अत्थेमिए, P लइ अत्थेमिए.  
३ P दिणमाणहं. ४ A सहासरुए, P °सहसि हए. ५ AP °दिणाउ जायवि लए.

10 b स वि सा हि विशाखानक्षत्रयुक्ते. 14 सि या सि य प क्ख शुक्कृण्णपधौ.

13 1 b °अज ण सि हरि नीलपर्वतः. २ b कीलारमणवह कीडारमणमार्गो. S b सरु  
शब्दं बाणं वा. 10 ससर बाणयुक्तम्.

14 3 b पत्थिवसहइ पार्थिवसभया. 5 a सुयसुइदिणाउ पुत्रोत्पत्तिदिवसान्.

असुरिंदे विद्धंसियसयरि  
परियाणिवि तणयहुं तणउं वलु  
सहुं पुत्तहिं जायधरारइहिं  
तहि सुहुं णिवसंतहु णरवइहि  
अण्णेक्कहि भरहु पसण्णमणु  
महिवइ संपुण्णमणोरहहिं  
सोहइ पुत्तहिं सकयायरहिं

दहरहु पँइहु उज्झाणयरि ।  
हुउ महियालि सयलु वि खलु विवलु ।  
सुपरिड्डिउ पहु णियसंतइहिं ।  
उप्पणउं संतोसु व जइहि ।  
अण्णेक्कहि घरिणिहि सत्तुहणु । 10  
चउहिं वि जणेहिं परवलमहहिं ।  
णं भूमिभाउ चउसायरहिं ।

यत्ता—मिहिर्लाणयरिहि ताम णामे जणउ णरेसरु ॥

पसुवहकम्मं सग्गु चिंतइ जण्णहु अवसरु ॥ १४ ॥

## 15

महु मेरउ रक्खइ को वि जइ  
तं णिसुणिवि मंते जंपियउं  
सो जासु ण जाउहाणु गहणु  
सो रक्खइ धुवु काकुत्थु तिह  
ता राएं पेसिय दूयवर  
उज्झहि दसरहहु णिवेइयउं  
जो रक्खइ अद्धर परमंक्खय  
णामेण सीय वेल्लहलभुय  
तं बुद्धिविसारएण भणिउं  
कउकरणुं णिहालणु रक्खणु वि

वसुहासुय दिज्जइ तासु तइ ।  
जसु णामे तिहुयणु कंपियउं ।  
जसु लहुवभाइ भइ महमहणु ।  
खेयरहिं ण हम्मइ होमु जिह । 5  
गय ते बहुपाहुंडलेहकर ।  
आलिहियउं पण्णउं वाइयउं ।  
तहु दिज्जइ णं पच्चक्ख सूर्य ।  
किर कहु उवमिज्जइ जणयसुय ।  
इहरत्ति परत्ति चारु झुणिउं ।  
लइ रक्खउ राहुउ लक्खणु वि । 10

यत्ता—कारावय होआयार हुणिय पसु वि देवत्तणु ॥

जेण लहंति णरिद तं करि जण्णपवत्तणु ॥ १५ ॥

६ AP दसरहु. ७ A सुपहड्डउ. ८ A महिला°.

15 १ A णाउहाणु. २ A रक्खइ वंधुसमेउ. ३ A पाहुड लेवि कर. ४ P णिवेवियउ.  
५ A अद्धर परमंक्ख, P अद्धर परमक्खिय. ६ AP सिय. ७ P कणु. ८ A कारावय होयारहुणिय,  
P कारावयोआयारि.

6 a असुरिंदे इत्यादि इयं कथा अग्रे कथयिष्यते. 9 b जइहि वते: 10 b सत्तुहणु शत्रुघ्न. 11 b  
परवलमहहिं शत्रुघ्नमथकै. 12 a सकयायरहिं त्वेषु द्रव्येषु जातिषु वा कृत. आदरो यै. पुत्रैः,  
सागण्ये तु स्वर्ग्यै आकरै .

15 1 a महु मग्गो यज, b वसुहासुय सीता. 2 a मंते जनकमन्त्रिणा. 3 a जाउहाणु  
गदग्गो गण्ण, b महमहणु मधुग्गदन्. 4 a काकुत्थु राम. 6 b पण्णउं णं पवम्. 7 a परमंक्खय  
परमंक्खिणा. b नवल्लहलीः. 8 a वेल्लहल्ल° क्रोमेली. 9 a बुद्धिविसारएण दशममन्त्रिणा. 10 a  
रहुउं सत्तुहणु, b राहुउ गग्गो गम.. 11 कारावय यजे धनव्ययकारिणः, होआयार होतारः  
धीउत्तरव्ययं कर्तारं, हुणियपसु वार्तितः पशुगति यजेन कृत्वा देवत्वं प्राप्नोति.

## 16

जं जुंजिवि' सग्गहु सयरु गउ  
तं नृव रक्खिज्जइ किज्जइ वि  
जगि धम्ममूलु वेउ जि कहिउ  
ते हुंति देव दिव्वंगघर  
रक्खेवि जणु सा घणथणिया  
ता अइसयमइणा ईरियउं  
सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि  
तहि अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि  
सुय सुलस सुलक्खण जहिं जि जहिं  
तहि णिरुवमु रूउ गुणग्घविउं

सहुं सयणहिं तणयहिं मुक्करउ ।  
भावे वित्थारहु णिज्जइ वि ।  
सो जेहिं महापुरिसहिं गहिउ ।  
लहु पेसहि कुलसरहंसवर ।  
सिसु परिणउं सुय जणयहु तणिया । 5  
पइं वप्प असच्चु वियारियउं ।  
जिणधम्मपहाउज्जियविहुरि ।  
महएवि तासु णामे अतिहि ।  
दीसइं भल्लारी तहिं जि तहि ।  
णिउणे विहिणा कहिं णिम्मविउं । 10

घत्ता—णडवेयालियछत्तबंदिणघोसाऊरिउं ॥

ताहि सयंवरु जाउ सर्यरु राउ हक्कारिउ ॥ १६ ॥

## 17

सो कोसल मेल्लिवि णीसरिउ  
दप्पाणि अवलोइउ सिरपैलिउं  
राएण वुत्तु किं परिणयणु  
थेरत्तणि परिहउ पेम्मविहि  
ता तहु धाईइ किसोयरिइ  
सियकेसें चंगउ दीसिहइ  
ते वयणे महिवइ पुणु चलिउ  
दियहेहिं पराइउ तं णयरु

पहंपरहरि मज्जणि संचरिउ ।  
णवचंपयतेल्ले विच्छुलिउं ।  
एवहि किं छिप्पइ तरुणियणु ।  
विसहिज्जइ वर तवतावसिहि ।  
पडिवयणु दिणु मंदोयरिइ । 5  
तुंह सिरिहरि संपय पइसिहइ ।  
गरुडइउ णहयलि परिघुलिउ ।  
ससुरग्गइ संथुउ णिवसैयरु ।

16 १ A जुंजवि, P हुजेवि. २ AP णिव. ३ A कज्जइ व. ४ A णिज्जइ व. ५ A महिउ.  
६ P. परणउ. ७ AP अवलोइय मारइ तहिं जि तहिं. ८ AP सयरगउ.

17 १ A पहु पुरिवहि. २ AP सिरि पलिउ. ३ A पेम्मणिहि. ४ AP तहु. ५ A णिउ  
सयरु; P णिउ सगरु.

16 1 a जुजिवि कारयित्वा, b मुक्करउ मुक्तपाप. 2 b वित्थारहु णिज्जइ विस्तार नीयते.  
6 a अइसयमइणा अतिशयमतिमन्त्रिणा. 7 a चारणजुयलि नगरस्य नामेदम्, b °उज्जियविहुरि  
°त्यक्तदुःखे. 11 °छत्त° छात्राः.

17 1 b पहंपरहरि प्रभा परामुक्कणां धरति यो दर्पणः स प्रभापग्घ, अथवा प्रभा माहात्तं  
परेषा हरतीति, मज्जणि स्नानावसरे, सचरिउ प्रतिविम्बितम्. 2 b विच्छुलिउ भ्रक्षितमभ्यक्तम्,  
3 b छिप्पइ स्पृश्यते. 4 a परिहउ परिभव. 6 b सिरिहरि श्रीगहे.

जाइवि धाइइ मंदोयरिइ

सइं दिण्ण कण्ण तुच्छोयरिइ ।

घत्ता—कण्णइ गुणसंदोहे हियवउं सयारि णिहिर्त्तउं ॥

10

मायइ विहसिवि ताम अवरु पडुत्तरु वुत्तउं ॥ १७ ॥

## 18

सुणि देसि सुरम्मइ सहलवणि  
 चाहुवल्लिणराहिवसंतइहि  
 तिणपिंगु तासु पिय सुजसमइ  
 तहि तणउ तणउ णं कुसुमसरु  
 महपिंगु णामुं तुह मेहुणउ  
 अण्णेत्तहिं म करहि रमणमइ  
 णियभाइणेज्जु वरु इच्छियउ  
 सासुयइ पइत्तु समारियउं  
 अण्णेक्के सयरहु साहियउं  
 जं कण्णारयणु समहिलसिउं

पोयणपुरि धणपरिपुण्णज्जणि ।

जायउ महु वंधु कुलुण्णइहि ।

वीणारव णं मणसियहु रइ ।

तरुणीयणलाइयविरहजरु ।

सुइ अच्छइ आयउ पाहुणउ ।

5

तुह जोग्गु जुवाणउ सो जि लइ ।

अण्णेक्कु असेसु दुगुंछियउ ।

पडिवक्खागमणु णिवारियउं ।

जं आहरणेहि पसाहियउं ।

तं दुल्लहु वट्टइ विहिवसिउं ।

10

घत्ता—अतिहीदेविहि वंधु जो तिणपिंगलु राणउ ॥

महुपिंगलु तहु पुत्तु आयउ मयणसमाणउ ॥ १८ ॥

## 19

देहिंति तासु सुय जाहि तुहुं  
 गुरु चवइ एउ किर कित्तउं  
 जइ णउ परिणावमि कण्ण पइं  
 इय भणिवि कब्बु कइणा विहिउ  
 तं कासु वि कहि मि ण दावियउं

ता पहुणा जोइउं मंतिमुहुं ।

महुं तिहुंयण सरिसव जेत्तउं ।

तो मंतित्तणु किउं काइं मइं ।

वरलक्खणु दलसंचइ लिहिउ ।

मंजूसहि तेण छुहावियउं ।

5

६ AP गिरत्तउ.

18 १ A णउ तसु पेहणउ. २ A अण्णहे तहे. ३ A रमणरइ. ४ A सवारियउ, P सवारियउ.

19 १ A कित्तउं, P केत्तउं. २ A तिहुवणु सरिसउ.

१) b दिण्णकण्ण कणो दत्त., सुलसया सगरगुणा श्रुता .

18 1 a तहितणउ तणउ तत्याः संवन्धी तनय. पुत्रः. 5 a मेहुणउ मातुलपुत्रः;  
 b पाहुणउ प्रानूर्णकः. 6 a अण्णेत्तहिं अन्यत्र सगराटी. 7 a भाइणेज्जु भ्रातृपुत्र., b अण्णेक्कु  
 अग्नितीयः. 8 a सासुयइ मातुलान्या अतिथिदेव्या, पइत्तु प्रयत्न., b पडिवक्खागमणु प्रतिपञ्चरस  
 सगरागमनम्.

19 2 a कित्तउउ विजन्मात्रम्, b सरिसव जेत्तउउं सर्पमात्रम्. 1 b दलसंचइ  
 पत्रगुटे. 5 b दुहावियउं निजितम्.

वहुवण्णविचित्तवीरपिहिउं  
हलियहिं हलि हत्यु जेत्यु णिहिउ  
कउं वड्ढियतणकट्टयरहिउ  
वावारिय कम्मु करांति जहिं  
आयड्ढिवि णीय णिहेलणहु  
उग्गाडिय पोत्थउं जोइयउं

णिवउवणमहियलि संगिहिउं ।  
जहिं छुडु भूभाउ समुल्लियउ ।  
जहिं पग्गाहि धवलु परिग्गाहिउं ।  
णंगेरि मंजूस विलग्ग तहिं ।  
दक्खालिय पहुहि सुजोहणहु । 10  
अण्णेक्कं भल्लउं वाइयउं ।

घत्ता—दियवरवेसें दुक्कु कई पच्छण्णु सरायइ ॥

वरइत्तहु सामुहु भासइ कोमलवायइ ॥ १९ ॥

20

काणकुंठपिंगलाहं  
णिद्धणाहं णिव्वलाहं  
माणलज्जवज्जियाहं  
कुट्टणट्टुकाययाहं  
णीयकम्मकारयाहं  
णिग्घिणाहं णिहयाहं  
वहुमाणदुज्जसाहं  
बुद्धकुंच्छियंगयाहं  
गोत्तवित्तवत्त जा वि

अंधमूयपंगुलाहं ।  
बुद्धिहीणवेभंलाहं ।  
रोयभावणिज्जियाहं ।  
छिण्णपाणिपाययाहं ।  
इत्थिडिंभमारयाहं । 5  
साहुकम्मणिंदयाहं ।  
दुक्कुलाहं सालसाहं ।  
दीणभावणं गयाहं ।  
दिज्जप ण कण्ण सा वि ।

घत्ता—मंडवमज्झि विवाहि पिंगलु जो पँइसारइ ॥

10

सो<sup>f</sup> विहवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्थारइ ॥ २० ॥

21

ता सो महुपिंगलु लज्जियउ  
एक्किल्लउ लिहक्किवि बंधवहं

गउ चामरल्लत्तविवज्जियउ ।  
लग्गउ दहदुविहहं जिणतवहं ।

३ A चीर पिहिउ. ४ AP समुल्लिहिउ. ५ A omits this foot. ६ P adds after this :  
वंसाल्गा रइ णिरु गहिउ. ७ A लगलि, P लंगलि. ८ A कहकयपच्छण.

20 १ A ०विन्मलाह, P ०विंभलाहं. २ A दुज्जणाहं. ३ A दुग्मुहाहं. ४ A कुच्छियारयाहं.  
५ A वइसारइ. ६ P omits सो.

21 १ AP एक्किल्लउ.

7 a हलिय हिं कर्षकै; b समुल्लियउ समुल्लिखित. 8 b पग्गा हि प्रग्रहे रश्मौ, धवलु वलीवर्दः.  
9 b णंगरि लङ्गले हले 12 कह स एव मन्त्री, सरायइ रागपूर्विकया वाचा. 13 सामुहु लक्षणम्.

20 2 b ०वे भलाह विह्वलानाम्.

21 2 a लिह क्कि वि तिरोभूत्वा.



सेवइ हरिसेणगुरुहि पयइं  
एत्तहि सो सयर वि वालियइ  
अणुहुंजिवि तहिं णववहुसुरउ  
उज्झाउरि जाइवि पाणपिउ  
महुपिगु भडारउ कहिं मि पुरि  
जा तावेकें विण्णें कहिउ  
रिसिसीलु एण अवलंविउं  
अवरेकें ता तहिं भासियउं

णिक्खवइ अणंतइं दुक्कियइं ।  
वरु लइउ सयंवरमालियइ ।  
पुणु आमेल्लेप्पिणु सासुरउं । 5  
सिरि सुलसइ सहं भुंजंतु थिउ ।  
पइसइ भिक्खहि चउवण्णघरि ।  
सामुहु असेसु सच्चरहिउ ।  
लच्छीमुहु काइं ण चुंविउं ।  
पइ लक्खणु किं किर णिरसियउं । 10

धत्ता—सुणि पोयणपुरि राउ होंतउ एहु महीसरु ॥

गउ सुलसावरयालि चारणजुयलउं पुरवरु ॥ २१ ॥

## 22

पिउसससुय परिणइ जाम किर  
पोत्थइ वित्थारिवि दक्खंविउ  
सासुयससुरहं मणु हारियउं  
अप्पुणु पुणु खलु वरइत्तु थिउ  
तं णिसुणिवि हियवइ कुब्हु जइ  
पाविट्ठु दुट्ठु खलु खुइमइ  
रिसि रोसु भरंतु भरंतु मुउ  
सो सट्ठिसहसमहिसाहिवइ

ता सयरमंतिकयक्खडगिर ।  
विवरिवि बहुसइसमग्घविय ।  
इहु पिंगदिट्ठि णीसारियउ ।  
तेणेयहु दुक्खणिहाँणु किउ ।  
जिणदेसिउ तवहलु अत्थि जइ । 5  
मइं पुरउ हणेव्वउ सयरु तइ ।  
असुरिंदहु वाहणु देउ हुउ ।  
किं वण्णामि महिसाणीयवइ ।

धत्ता—जिणवरधम्म लहेवि खमभावें परिचत्तउ ॥

खणि सम्मत्तु हणेवि सुरदुग्गइ संपत्तउ ॥ २२ ॥

10

## 23

पुणु तक्खणि असुरें जाणियउं  
जिह मामिहि मामहु हित्त मइ

जिह कब्बु करेप्पिणु आणियउं ।  
जिह पिंणें पडिवण्णी विरइ ।

२ A अणुहुंजहि; P अणुभुजिहि. ३ AP पइसरइ. ४ A जा ता विण्णें एके. ५ A सुणि.

22 १ A दिक्खविय. २ A °णिहाउ.

5 b आ मेहेप्पिणु त्यक्त्वा, सासुरउं अशुरकुलम्. 7 b चउवण्णघरि चतुर्वर्णाणा गृहा यत्र पुरे.  
12 सुलसावरयालि सुलमाया विवाहकाले.

22 1 a पिउसससुय पितृभगिन्या. पुत्री. 2 b विवरिवि विस्तारिकृत्य. 1 a यलु दुर्जनः.  
7 a भरंतु स्मरन्. 7 b °अणीयवइ मेनापत्ति..

जिह गहिय तणूयरि मंदगइ  
सहुं मंतिहि साकेयाहिवइ  
ईय चिंतिवि तंबिरलोयणउ  
मुहकुहरविणिगयवेयञ्जुणि  
सुलसावइजीवियसिरिहरहु  
जायउ सहाउ जो दुम्मयहु  
उत्तंगसत्तधरणियलघरि  
विस्सावसु राणउ विमलजसु

तिह एवहि धुउ पावमि कुगइ ।  
कहिं एवहिं वच्चइ लद्ध लइ ।  
जायउ सो सालंकायणउ । 5  
हिंसालउ दूसियपरममुणि ।  
तहि तासु महाकालासुरहु ।  
आयणहु तहु कैह पव्वयहु ।  
एत्थेव खेत्ति साँवत्थिपुरि ।  
तहु सिरिमइदेविहि पुत्तु वसु । 10

घत्ता—णामें खीरकलंबु दियवरु सत्थवियारउ ॥

तासु चट्टु वसु जाउ पव्वउ अवरु वि णारउ ॥ २३ ॥

## 24

सहुं सीसहिं सो परमायरिउ  
अन्भावयासणिद्विवियणिसि  
उज्झाएं पणविवि पुच्छियउ  
तीहिं वि दियवरुत्तहं तणउ  
वसु पव्वय णारयधरणियलि  
जिणणाणंसुणिच्छउ मणि वहइ  
तं णिसुणिवि गुरु उव्विग्गंमणु  
खेळंतु दिपसें धाडियँउ  
कंपंतदेहु सुहदाइणिहि

एक्कहिं दिणि काणणि अवयरिउ ।  
उवविट्टउ दिट्टउ तेत्थुं रिसि ।  
भवियँव्वमग्गु सुणियच्छियउ ।  
आहासइ मुणि पणट्टपणउ ।  
पडिहिंति दो वि कयजण्णफलि । 5  
णारउ सब्वत्थिसिद्धि लहइ ।  
आयउ पुरु थिउ भूसिवि भवणु ।  
अण्णाहिं दिणि लँट्टिइ ताडियउ ।  
वसु विसइ सरणु उज्झाइणिहि ।

घत्ता—पत्थिन्नि रक्खिउ ताए कंत म तासहि बालउ ॥

10

पत्थिवपुत्तु सुसीलु कमलगम्भसोमालउ ॥ २४ ॥

23 १ A अच्छइ लद्ध जइ. २ P तं चिंतिवि. ३ A कयकव्वयहु. ४ AP उत्तुग°. ५ A सावत्थपुरि; P सावित्थिपुरि.

24 १ A तेण. २ A भवियणु मग्गु. ३ A °णाणि विणिच्छउ, P °णाणु विणिच्छउ. ४ A उव्विण्णमणु. ५ AP पीडियउ. ६ A लद्धे ताडियउ.

23 3 a तणूयरि कुओदरी. 5 a सालंकायणउ सालङ्कायणनामा विप्ररूप.. 8 a सहाउ सहाय; b आयणहु आकर्णयत. 12 चट्टु शिष्य.

24 1 a परमायरिउ परमाचार्य. 2 a अन्भावयास° अन्भावकाशे माले. 3 a उज्झाएं उपाध्यायेन; b सुणियच्छियउ सुधु निरीक्षित.. 5 a णारयधरणियलि नरकभूमौ. 8 b लट्टिइ यथ्या. 10 पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा.



सिहिणीउ सत्त इह एकू सिहि  
बहुबुद्धिगहीरें पीलुरय  
पयमगें जाणिय हत्थिणिय  
पुच्छिवि पव्वउ पुरि पइसरिवि

ओसैरिउ सरहु जो पिछणिहि ।  
पयलंतपेम्मजलसित्तरय ।  
अवर वि आरूढणियंविणिय ।  
गउ तक्खणि मच्छैरु मणि धरिवि ॥ 10

घत्ता—अक्खइ मायहि गेहि णिरु तापं संताविउ ॥

हउं ण पढाविउ किं पि णारउ चारु पढाविउ ॥ २६ ॥

## 27

सो जाणइ अम्मि अंसिद्धां  
करिकरिणिहिं पयविबइं कहइ  
सहुं कंतें पयडियगरहणउं  
पइं काइं वि पुत्तु ण सिक्खविउ  
तं णिसुणिवि भट्टे घोसियउं  
मयरंदगंधमीणाहरणु  
सुउ तेरउ सुंदरि मंदु जहु  
इय पभणिवि पिट्टे मेस कय  
ए वच्छ लपपिणु तरुगहाणि  
जहिं को वि ण पेक्खइ धुवु मुणिवि  
तं णिसुणिवि जाइवि विविणपहि  
कर मउलिवि जोइणि का वि थुय

वणि मोरिंगियइं अदिद्धां ।  
ता बंभणि रोसु चित्ति वहइ ।  
विरइउ कोणीहल्लकलहणउं ।  
परडिभु जि सत्थमग्गि थविउ ।  
अलिकंकहं केणुववेसियउं । 5  
हंसहं वि खीरजलपिहुकरणु ।  
णारउ पुणु ससहावेण पहु ।  
सुय भासिय जणणें णवियपय ।  
पइसरिवि दूरु पंविमुक्कजणि ।  
तहिं आवहु विहिं वि कण्णु लुणिवि ॥ 10  
पच्छण्णं थाईवि रुक्खरहि ।  
पव्वइण उरब्भहु कण्ण लुय ।

घत्ता—इयरें पइसवि दुग्गें चित्तिउं चंददिवायर ॥

इह णियंति पसु पक्खि किंणर जक्ख णिसायर ॥ २७ ॥

## 28

जहिं गच्छमि तहिं तहिं अत्थि परु  
किह कण्णं उरब्भहु कत्तरमि

जइ णरु णउ तो पेक्खइ अमरु ।  
घरु गंपिणु तायहु वज्जरमि ।

५ AP ओसरइ. ६ AP मणि मच्छरु.

27 १ AP अदिद्धाइ. २ AP कोलाहल°. ३ AP परिसुक्कजणि. ४ AP कण्ण. ५ AP जायवि णिसुणिवि. ६ AP वियणवहि. ६ AP आइवि. ७ A किवायर.

28 १ AP कण्णु.

7 a सि हिणीउ मयूर्यः, b सरहु जलात्. 8 a पीलुरय गजरता, b °पे म्म जल° शुक्रम्, °रय धूलि..

27 1 a अ सिद्धा इं अकथितानि, b मो रिं गिय इं मयूराणामिद्धितानि चिह्नानि. 3 b कोणी-हलकलहणउं कोपरघातकलह रात्रौ करोति. 5 b अलिकंकहं भ्रमरवकानाम्. 6 a °नीणा हरणु मत्स्याहारः; b °पि हुकरणु पृथकरणम्. 11 a विविणपहि अरण्यमार्गं, b रुक्खरहि एकान्ते रहस्ये कुहरे वा. 12 उरब्भहु मेषस्य.

गय वेण्णि वे पेसणु अप्पियउ  
विप्पेण वुत्तु हलि हंसगइ  
जहिं गम्मइ तहिं असुणु णिलउ  
सुरगुरु वि समाणु ण पारयहु  
सुय धरिणि वि तासु समाप्पियइं  
तवचरणु जिणागामि संचरिवि  
वहुकाले विहि वि हेउभरिउ  
णारउ अयं जव तिवरिस चवइ  
अय पसु भणंतु सो वारियउ  
गउ मच्छरेण थरहरियतणु

घत्ता— तहि दिववरवेसेण पव्वणण सो दिट्टउ ॥

असुरसुईउ पढंतु तरुत्तलि सिलहि णिविट्टउ ॥ २८ ॥

## 29

मणपणयपसंगुप्पायणउं  
बुहेण वि पडिअहिवाउ किउ  
सुय जायउ जाणिउ किं ण पइं  
दोहिं मि सुभउमु गुरु सेवियउ  
आयउ किर जोइहुं तासु मुहुं  
लइ जणमहाविहिकारियहं  
सयराइराय अब्भुद्धरहि  
हउं कंरुइ अज्जु परइ मरमि  
दियतरुणि ता तहु इच्छियउं  
पुरदेसहं बल्लिउ मारि जरु  
गय वेण्णि वि तं कांसलणयरु

घत्ता— हणिवि तुरंग मयंग दणुणं दाविय मायइ ॥

कुंडलमउडंफुरंत दिट्टु देव णहभायइ ॥ २९ ॥

णारयकिउ चारु वियप्पियउ ।  
अवलोयहि तुहु णंदणहु मइ ।  
पसुसवणहं किह विरइउ विलउ । 5  
लइ एहु वि जोगउ गुरुवयहु ।  
वसुराएं सहं जंपिवि पियइं ।  
दिउ मुउ थिउ दिव्ववोदि धरिवि ।  
पारइ विवाउ पवित्थरउ ।  
तं पव्वउ वयणु अइक्कमइ । 10  
अवरोहिं बुहेहिं णीसारियउ ।  
संपत्तउ णीलतमालवणु ।

तें तासु कयउं अहिवायणउं ।  
पुणु वुत्तु होउं तुज्जु जि विणउ ।  
चिरु खीरकलंवे अवरु मइं ।  
सत्यथु असेसु वि भावियउ ।  
ता पवसिउ सो सुउ दिट्टु तुहुं । 5  
सहसाइं सट्ठि पसुवहरियहं ।  
मंहु महियलि कारावहि कराहि ।  
णियविज्जइ पइं जि अलंकरमि ।  
तं विजादाणु पडिच्छियउं ।  
पहु को वि गवेसइ संतियरु । 10  
दोहिं वि संवोहिउ णिउं सयरु ।

२ A गुरुगुरु. ३ AP नउ. ४ AP बहुकालहिं. ५ AP पवित्थरिउ. ६ A अइजव.

29 १ A मणे. २ A न तट्ट. ३ P अभिमायणउं. ४ A पडिपतिवाउ. ५ AP होइ  
६ A णित्तं. ७ A नहु. ८ A वुत्तु अहु. ९ P ने विज्ज. १० AP णिउ मगर. ११ A हणिवि.  
१२ A णित्तं.

28 १ a असुणु णिलउ न अन्नें निरं रयानम्. b पसुसवणहं मेपत्तणो. 6 b गुरु  
वयहु उज्जणवत्तम्. 8 c दिव्ववोदि देवगगम्. 9 a हेउ नरिउ मेणुवत्तु बुनिपत्तणं; b विमउ  
विमउ. 11 पसुसवणउं असुत्थु.

29 1 a मणेत्तदि विणे लोत्तणत्तद्वम्; c अहिवायणउं अभिमायणम्. 2 a पडि  
अहिवाउं पवित्थरम्. 5 a जोइहुं द्रुम्. 6 a उणमहाविहिका विमउ वक्कमत्तं अविमत्तम्.  
7 a वुत्तु वरिवि पसुसवणम्. 7 b महत्तम्. 8 a वुत्तु इ वुत्तु. 12 हणिवि अणे हुत्ता.

30

अप्पाणउं तहिं जि' हुणावियउं  
सत्तच्चिणिहित्तं चउपयहं  
मायारण जणु मोहियउ  
हारावलिरुइरंजियथणिय  
गोसवि णियजणणि वि अहिलसिय  
विप्पहं वंभणिवरंगु विहिउं  
वहु वंचिय धुत्तेणेव जड  
घरु जाइवि तणु घल्लिवि सयणि  
हा सुलसि काइं मइं तुज्जु किउ  
तां तहि जि पराइउ पवरजइ  
किं धम्मु भडारा पसुवहणु

देवत्तु णहंगणि दावियउं ।  
णिट्टियइं सट्टिसहसइं मयहं ।  
संतीइ सुहेण पयासियउं ।  
सुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय ।  
सउयामणिमहि मइर वि रसिय । 5  
महुणा लित्तउं जीहइ लिहिउं ।  
अवलोयवि होमिज्जंतं भड ।  
पहु सोयइ हा हा मिगणयणि ।  
किह जीवियव्वुं णिड्डुहिवि णिउ ।  
पुच्छइ पणामु विरइवि णिवइ । 10  
कि सव्वजीवदयसंगहणु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि करुणेण तेण मुणिदे वुत्तउं ॥  
होइ अहिंसइ धम्मु हिंसइ पाउ णिरुत्तउं ॥ ३० ॥

31

पहु जंपइ पच्चउ दक्खवहि  
रिसि भासइ णहयलरंगणडि  
णिवडेसहि णरइ मं भंति करि  
तं रापं रइयणरावयहु  
तेण वि वोल्लिउ मलपोट्टलउ  
असुरिंदे दरिसिय देवि णहि

अप्पाणउ किं मुहिइ खवहि ।  
तुह सत्तमि दिणि णिवडिहइ तडि ।  
कि सग्गुं जंति पसुं खंत हरि ।  
आवेप्पिणु अक्खिउ पावयहु ।  
कि जाणइ सवणउं विट्टलउं । 5  
विउणारउ लग्गउ पुणु वि म्हि ।

30 १ P तहिं तो. २ P णिहित्तं. ३ P सोयामणि°. ४ A होमिज्जति. ५ A जीवियत्थु.  
६ P तो.

31 १ A पइ जंपइ सच्चउ. २ A ण. ३ AP सग्गि. ४ A पसु खति. ५ AP पव्वयहु;  
but T पावयहु. ६ A म्हि, P महो.

30 1, a अप्पाणउं सालङ्कायनेन स्वजीवोऽग्नौ क्षेपितः. 2 a सत्तच्चि° अग्नि', चउपयह  
चतुष्पदानाम्. 5 a गो स वि गोवधयज्ञे, b सउयामणिमहि सौत्रामणीयज्ञे, मइर मदिरा. 6 b °वरगु  
योनिः. 12 करुणेण कारुण्येन.

31 1 a पच्चउ प्रत्यक्षम्, b मुहिइ मुखैव. 2 a °णडि नदी, b तडि विद्युत्. 3 b पसु  
खंत हरि मृगादीन् खादन्त. सिंहा. 4 a रइयणरावयहु रचिता नराणामापदो येन, b पावयहु  
पर्वतस्य. 6 a देवि सुलसा, b विउणारउ द्विगुण.

सो असणिणिहाँएं घाइयउ  
भणु पावें को व ण मारियउ  
जं पिंगलु हउं पइं दूसियउ  
जं वरलक्खणु महं कयउ छलु

वालुयपहमहि संप्राइयउ ।  
रिउणा जाइवि पच्चारियउ ।  
जं णियकरु कण्णइ भूसियउ ।  
भुंजहि एवहिं तहु तणउं फलु । 10

घत्ता—पुणु असुरें णहमग्गि मायारूवें हरिसियइं ॥

सा सुलस वि सो सयरु विण्णि वि मंतिहिं दरिसियइं ॥ ३१ ॥

## 32

ता खद्धकंदेण  
गउ णारओ सेउ  
तेणुत्तु दियसीह  
वणयरइं मारंतु  
चम्माइं छिंदंतु  
इसिदिट्ठु सुपसत्थु  
तइ खग्गु किं णेय  
जइ पोरिसेओ वि  
वण्णज्जुणी गयणि  
अक्खरइं कहिं विंदु  
कयमणपयत्तेण  
कहिं हेउं कहिं वेउ  
कहिं गयणि अरविंदु  
वेयम्मि कहिं हिंस  
हिंसाइ कहिं धम्मु  
कत्तार दायार  
जहिं होंति होयार  
तो सूणगारा वि  
पसुंखद्धवद्धा वि ।  
अमरा ण किं होंति<sup>५</sup>

सह तवसिंविंदेण ।  
तं णयरु साकेउ ।  
पव्वय दुरासीह ।  
अट्ठियइं चूरंतु ।  
वम्माइं भिंदंतु ।  
जइ वेउ परमत्थु ।  
जज्जाहि कुविवेय ।  
णउ होइ भणु तो वि ।  
किं फुरइ णरवयणि ।  
कहिं अत्थु कहिं छंडु ।  
विणु पुरिसवत्तेण ।  
कहिं णाणु कहिं णेउ ।  
णीरूवि कहिं सहु ।  
दिय गिलियपरमंस ।  
जड मुयहि तुहुं छम्मु ।  
जण्णस्स णेयार ।  
सुरणारिभत्तार ।  
मीणावहारा वि ।  
जइ जण्णि णिवडंति<sup>६</sup> ।

5

10

15

20

७ P °णिवाएं. ८ AP सपाइयउ. ९ P जीयवि.

32 १ A तवसिंविंदेण. २ AP देउ. ३ A अविचार, PT अत्रियार. ४ AP omit this foot. ५ AP add after this: किं दुग्गईं जंति. ६ A णिवडंत.

7 a अस णि णि हा एं अशनिघातेन. 8 b रिउणा कालासुरेण. 10 a छलु वच्चना.

32 2 a सेउ श्वेतं आवासैः कृत्वा (सौधैः). 3 a तेणुत्तु नारदेन उक्तः; b दुरासीह दुराशा चेष्टा. 8 a पोरिसेओ पौरुषेयः. 11 a कयमणपयत्तेण कृतमनःप्रवर्तनेन, b °वत्तेण वक्त्रेण.

पसु सग्गु गच्छंति ।

दीसंति सकयत्थ तो अप्पयं तत्थ ।

होमेवि मंतेहिं सहं पुत्तकंतेहि ।

गम्मिज्जए सग्गु भुंजिज्जए भोग्गु ।

घत्ता—जलमद्वियचम्मेण दब्भे सुद्धि कहेप्पिणु ॥

25

भङ्गे खद्धउ मासु खगमिगकुलइं वहेप्पिणु ॥ ३२ ॥

### 33

जइ सच्चउ विष्प पवित्तु जलु

जइ गंगाण्हाणु जिं दुरियहरु

जइ मद्वियमंडणि तमु गलइ

जइ हरिणाइणु धम्मुज्जलउं

किं वंभणु उत्तमु तुहुं कहहि

जइ दब्भे पुण्णु पवित्थरइ

तं रत्तिदियहु दब्भे जि चरइ

गोफंसणपिप्पलफंसणइं

जइ पाउ हणंति हुंत पउर

किं बहुवे पुणु वि मंति भणइ

णिगंथु णियत्थु वि परिभमउ

सो पावइ तं सिद्धत्तुं किह

तो किं तं जायउं मुंतु मलु ।

तो झस वि लहांति वि मोक्खु पर ।

तो कोलु विमाणे संचरइ ।

तो हरिणउलु जि जगि अगलउं ।

तं मौरिवि मासगासु महहि । 5

तो किं मयउलु भवि संसरइ ।

किहं इंदविमाणि ण पइसरइ ।

सुत्तुट्टियाहं घयदंसणइं ।

तो वसहकायराया वि सुर ।

जो पर अप्पाणउं समु गणइ । 10

छुहु मोहु लोहु मच्छरु समउ ।

रसविद्धु घाउ हेमत्तु जिह ।

घत्ता—हिंसारंभु वि धम्मु वयणु असञ्चु वि सुंदरु ॥

जंणु धुत्तहिं दढमूहु किज्जइ कालउं पंडुरु ॥ ३३ ॥

### 34

जवहोमे संतियम्मु कहिउ

अय जव जि पयरिय हुंति णउ

जं तं पइ छेलएहिं गंहिउ ।

पइं लंघिउं तायहु वयणु कउ ।

७ A गच्छंत. ८ A होमेहिं.

33 १ AP मुत्तमलु. २ A वि. ३ A सोक्खु. ४ P मरिवि. ५ AP दब्भु. ६ A किं.  
७ AP अप्पाणे. ८ AP लोहु मोहु. ९ A सिद्धंतु. १० AP जगु.

34 १ P कहिउ.

21 b तत्थ यजे. 22 a होमे वि हुत्वा. 25 मासु मासम्, वहेप्पिणु हत्वा.

33 2 a दुरियहरु पापविनाशकम्. 3 a मद्वियमंडणि मृत्तिकया शरीरलेपने, b कोलु  
सूकरः. 4 a हरिणाइणु हरिणचर्म, b अगलउ श्रेष्ठम्. 9 b वसहेत्यादि वृषभाणा गोशरीरस्पर्शात्  
काकानां पिप्पलस्पर्शात्. 11 a णियत्थु निर्वचनः परिधानरहितः. 12 a सिद्धत्तु सिद्धत्वम्, b हेमत्तु  
सुवर्णत्वम्.

34 1 b छेलएहिं छागेषु. 2 a पयरिय उता.



गिरि घोसइ गुरुणा पिसुणियउं  
 ता णारउ पव्वउ रुहँधय  
 पव्वयजणणिइ अब्भत्थियउ  
 जइ सुंअरहि भासिउं अप्पणउं  
 तं अम्महि भासिउं परिगणिउं  
 जं चविउ असच्चु सुदुच्चरिउ  
 मँहिकंपे ठाणहु विहँडियउं  
 णहँफलिहखंभच्चु चूरियउ

ते तँइयहुं वसुणा णिसुणियउं ।  
 तावस सावित्थिहि झ त्ति गय ।  
 वरकालु एहु पहु पत्थियउ । 5  
 तो थवहि वयणु भाइहि तणउं ।  
 अय जव ण हँति तेण वि भणिउं ।  
 तं सधरु धरायलु थरहरिउ ।  
 आयासहु आसणु णिवडियउं ।  
 वसु चुण्णु चुण्णु मुसुमूरियउ । 10

घत्ता—णियमित्तहो मरणेण पव्वउ थिउ विच्छायउ ॥

पडियउ णरयणिवासि वसु असच्चु संजायउ ॥ ३४ ॥

## 35

पुणु दणुपं मायाभाउ किउ  
 ता सयरमंति आणंदियउ  
 पुणु तेण वि रायसूउ रइउ  
 णिवमासहोमु विद्धंसियउ  
 णारयंहियउल्लउ तोसियउं  
 मा णासहि पव्वय कहिं मि तुहुं  
 जिणविंवइ चउदिसु थवहि तिह  
 ता तँ सिद्धउं तेहउं करिवि  
 महिसिंदे लोयहु भासियउं  
 देहिहि दुक्खावहु धम्मु कहिं  
 तंवचरणे जालिवि मयणपुरि  
 अज्ज वि अच्छइ जिणगुण महइ

वसु दाविउ सग्गविर्माणि थिउ ।  
 मूढेहिं जणु किं णिंदियउ ।  
 दिणयरदेवे खयरें लँइउं ।  
 महकालवियंभिउ णासियउ । 5  
 अमरारें पुणरवि घोसियउं ।  
 मंतीसर माणहि अमरसुहुं ।  
 खेयरविज्जाउ ण एंति जिह ।  
 गय णरयविवरि विणिण वि मरिवि ।  
 अप्पाणउं वइरु मइ साहियउं ।  
 पलु खज्जइ पिज्जइ मज्जु जहि । 10  
 णारउ अहमिंद विर्माणवरि ।  
 अइंसयमइ दसरहासु कहइ ।

२ A त. ३ A रुद्धवय. ४ A भासिउप्पणउ. ५ A महिकंपह. ६ A वियडियउ. ७ A फलिहमउ  
 समु धुउ चूरियउ.

35 १ P ०विवाणि. २ AP जि. ३ A लविउ. ४ A णरयघोरि. ५ AP तवजल्लणं.  
 ६ A विमाणु धरि, P विवाणुवरि. ७ AP इय सयमइ.

3 a गिरि पर्वतः, पिसु णिवउ कथितम्. 1 a रुद्धवय रुद्राक्षचिह्नास्तापसाः. 5 a अब्भत्थियउ  
 गमुन प्रातः. 6 a सुअरहि स्मरणि, b भाइहि पर्वतस्य. 10 b मुसुमूरियउ चूर्ण. सजातः.

35 3 b लल्लउं भक्तु स्वीकृतः. 1 a णिवमासहोमु नृपमासहोमः, b महकालवियंभिउ  
 मणियाणुगवितृग्भिमतम्. 5 b अमरारें देव्येन महियाणुगेण. 9 a महिसिंदे देव्येन महियेन्द्रेण.  
 10 a देहिहि जीस्य. 11 b विमाणवरि विनिष्टे विमाने.

घत्ता—भरहकुमारजणेर हो हो जणु किं किज्जइ ॥  
जगमहंतु अरहंतु पुप्फदंतु पणविज्जइ ॥ ३५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए  
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रामलक्खणभरहसत्तुहणुप्पत्ती  
णाम जांगणिवारणं णाम एक्खूणहत्तरिमो  
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६९ ॥

८ AP ण. ९ A रामभरहलक्खण°. १० A जण्णणिवारण. ११ A एकसत्तिमो, P णवसट्ठिमो.

13 भरहकुमारजणेर भरतकुमारपितः हे दशरथ.

आयणिावि मंतिसुहासियंइं मिच्छादंसणु णिट्ठिउं ॥  
दसरहहियउल्लउं मेरुथिरु जिणवरधम्मि परिट्ठिउं<sup>३</sup> ॥ ध्रुवकं ॥

## 1

अवरोहिं मि अरुहि णिहित्तु चित्तु  
चमुवइणा मारियपरवलेण  
तंवारवारु सो जणुणु जाउ  
झसमुसलगयासणिधणुहरोहि  
विण्णाणणणणंयविहयमोहु  
भणु भणु तणयहं महिरयणरिद्धि  
ता वुत्तु णिमित्तवियक्खणेण  
तहि तहि गोमिणि संमुहिय थाइ  
ए अट्टम मंइं णिसुणिउं पुराणि  
जगतावणु रावणु रणि हणेवि  
बलएव जणदण सुय ण भंति

संथुउ समंति कल्लाणमित्तु ।  
एत्थंतरि उत्तु महावलेण ।  
णिव जोयहि णिर्येणंदणपयाउ । 5  
जिप्पंति ण जिप्पंति व परेहिं ।  
ता रापं आउच्छिउ पुरोहु ।  
तं गमणं होइ ण होइ सिद्धि ।  
जहिं जाइ रामु सहुं लक्खणेण ।  
दामोयरु मुइवि ण पउ वि जाइ । 10  
संठिय सलायपुरिसाहिठाणि ।  
महि भुंजिहिति खगं जिणेवि ।  
दससंदणु पुच्छइ विहियसंति ।

घत्ता—महुं कहहि पुरोह लद्धविजउ भुवणत्तयविकखायउ ॥  
दंहगीउ दसासापत्तजसु केण सुंपुण्णं जायउ ॥ १ ॥

## 2

जसु आसंकइ जमु वरुणु पवणु  
ता कहइ विप्पु महुरइ गिराइ  
आरामगामसंदोहसोहि  
रंभंतगोउलावासरम्मि  
गोवालवालकीलाणिवासि

तहु एयहु भणु सियचिंधु कर्वणु ।  
सुणि धादइसंडहु पुव्विल्लभाइ ।  
खरदंडसंडमंडियसरोहि ।  
जवणालसालिजवछेत्तसोम्मि ।  
तहिं सारसमुच्चइ णाम देसि । 5

1 १ A °सुहासियउं. २ AP णिट्ठियउं. ३ AP परिट्ठियउं. ४ P णिवणंदण°. ५ A °णय-  
विहियमोहु, P °णयणिहियमोहु. ६ AP णिसुणिउं मंइं. ७ P भुंजिहंति. ८ A omits लद्धविजउ.  
९ A दहगीव, P दसगीउ. १० P सपुण्णं.

2 १ P कमणु. २ AP °कीलणणिवासि.

1 1 °सुहासियइ सुभापितानि सुवचनानि. 5 a तंवारवारु नरकद्वार क्षयम्, b °पयाउ  
°प्रतापः. 7 a °विहयमोहु °विहताज्ञानः. 10 गोमिणि लक्ष्मी..

2 1 b सियचिंधु श्रियो निमित्तं चिहं वा. 3 b खरदंड° कमलानि, °सरोहि तडागसमूहे.  
4 a रंभंत° शब्दं कुर्वन्त..

णायउरि अत्थि णरदेउ राउ  
संतइहि थवेप्पिणु भोयदेउ  
विज्जाहरु पेच्छिवि चवलवेउ  
बद्धउ णियाणु महु जम्मि होउ  
सुररमणीरमणविलासमग्गि  
इह भरह्वरिसि वेयड्ढसेलि  
दाहिणसेट्ठिहि हयवइरिजीउ

वंदिवि अणंत गुरु वीयराउ ।  
जइ जायउ मेल्लिवि वंधहेउ ।  
णहयलि आवंतु विचित्तकेउ ।  
एहउ मणहरु खेयैरविहोउ ।  
मुउ उप्पणउ सोहम्मसग्गि । 10  
गयणग्गलग्गमणिमोह्वेलेलि ।  
पुरि मेहसिहरि पडु सहसगीउ ।

घत्ता—उच्चेयउ केण वि कारणिण अंतरंगि णिहं जायउ ॥

कलहणउं करिवि सहुं बंधवहि सो तिकूडगिरि आयउ ॥ २ ॥

## 3

लग्गइ अकंडि दुब्बयणकंडु  
किं किज्जइ पिसुणाणिवासि वासु  
तहिं गम्मइ जहिं तरुवरहलाइं  
तहि गम्मइ जहिं गुणाणिरसियाइं  
इय चित्तिवि धैत्तिवि दुट्टसंक  
उप्परिथियगिरिह्वत्थिहि विहाइ  
णं सण्णइ एहिं जि पुणु वि एम  
सिह्वेरें णं भिंदिवि विउल्लमेह  
जोयइ पुत्तलियाणयणएहिं  
परिवित्थारिवि किच्चीमुहाइं

मउलाविज्जइ सुहि तेण तुंडु ।  
तहिं गम्मइ जहिं कंदरणिवासु ।  
तहि गम्मइ जहि णिज्जरजलाइं ।  
सुव्वंति ण खलयणभासियाइं ।  
काराविय राएं णयरि लंक । 5  
चल्लियधयहत्थहि णडइ णाइं ।  
कि सग्गे मइं जोयंतुं देव ।  
ससि पावइ कि घरतेयरेह ।  
णं हसइ फुरंतहिं रयणएहिं ।  
दावइ पारावर्यरवसुहाइं । 10

घत्ता—जहि चंदसाल चंदंसुहय चंदकंतिजलु मेल्लइ ॥

कामिणिपर्यपहउ असोयतरु उववाणि वियसइ फुल्लइ ॥ ३ ॥

३ A खेयरहु होउ. ४ A °वरिस° ५ A °मऊह°. ६ AP णिउ.

3 १ AP °वरफलाइं. २ AP सुम्मति. ३ A पावियदुट्टसक. ४ A °हत्थिय विहाइ. ५ A जोयंति. ६ AP सिह्वेरेहिं वि. ७ AP णील्लमेह. ८ A °इसुहाइ. P °रयसुहाइं. ९ A °परहयउ.

6 a णायउरि नागपुरनगरे. 7 b बंधहेउ पापबन्धकारणम् 9 a जम्मि आगामिभवे, b °विधोउ विभोग ऐश्वर्यम्. 11 b °मोहमेलि किरणसंधाते. 13 उच्चेयउ उद्धिम. कलुपित. 11 नो रएउत्तीव..

3 1 a अकडि अप्रस्तावे, °कंडु वाण., b सुहि सुहद. 1 a गुणनिर्मिताइ सुण-  
शेदेकानि. 7 a सण्णइ सज्ञया. 8 b घरतेयरेह गृहतेजस नोभाम्. 10 किच्चीमुहाइ चित्तिदुत्त-  
शिखराण्येव. 11 चंदसाल शिरोग्रहमाच्छादितोपरितनभूमि., चंदसुहय चन्द्रनिर्गमिता. 12 °परहउ  
पादप्रहतः-

4

सा पुरि परिपालिय तेण ताव  
सयगीउ खगाहिउ पंचवीस  
णिहलिवि वहरि भूभंगभीस  
दसपंचसहासइ वच्छराहं  
सुंदरि तहु पणइणि मेहलच्छि  
अंकगि चडिउ चंडंसुमालि  
आहासिउ दइयहु फलपयासि  
संभूयउ सयणहं सुहु जणंतु  
णिवरूवें आणंदु व पयाहं

गय वरिसहं वीससहास जाव ।  
थिउ विहवंतु णाणामहीस ।  
पण्णासगीउ मुउ जिइवि वीस ।  
संठिउ पुलथि राइयधराहं ।  
सां पेच्छइ घरि पइसंति लच्छि । 5  
सिबिणंतरंति परिगलियकालि ।  
णरदेव देव थिउ गम्भवासि ।  
णं वहुरूविणिवासियरणमंतु ।  
आवासु व णहयरसंपयाहं ।

वत्ता—कुलधवल्लु धुरंधरु दहवयणु जायउ मायहि जइयहुं ॥ 10  
मंदरगिरिदुग्गु पुरंदरिण महं भावइं किउ तइयहं ॥ ४ ॥

5

णवतरणि व सुरकुमुयायराहं  
कढिणंकुसु णं दिग्गयवराहं  
णं मत्तभमरु णंदणवणाहं  
पवहंतमहासरिजलगलत्थु  
वण्णेण गरलभसलउलकालु  
जायउ जुवाणु जमजोहजूर  
णं विसमविसंकुरु विसविसित्तु  
तज्जियदासि व भउ धरइ चरइ  
जसु सत्तसत्तसहसाइं आउ

पडिमल्लु व गज्जियसायराहं ।  
मणमत्थइ सल्लु व अरिवराहं ।  
णं कामवासु तरुणीयणाहं ।  
महिमहिहरसंचालणसमत्थु ।  
आयंवणयणु पडिवक्खकालु । 5  
दुइंसणु णं मज्झण्णसूरु ।  
णं पलयकालु हुयवहु पलित्तु ।  
जसु असिधरइ धर मरइ तरइ ।  
वरिसहं जो सुव्वइ वज्जकाउ ।

4 १ AP तीससहास. २ AP ओहामियरूवें जाइ लच्छि ( A जायलच्छि ), ३-P पडि-  
गलिय<sup>०</sup>. ४ AP णरदेउ देउ. ५ A भावहि.

5 १ A कुमुयावराहं. २ AP मणि मत्थय. ३ AP कामवाणु. ४ A णं सविसु विसकुरु  
विसपसित्तु, PT णं समविसमंकुरु, K records a p: समविसमंकुरु. ५ P करइ डरइ. ६ P धारहि.

4 4 b राइयधराहं राजिता धरा येषु वर्षेषु. 6 a चडसुमालि सूर्यः, b परिगलियकालि  
गलित्तराज्यवसरे, प्रभाते इत्यर्थः.

5 1 a ०तरणि सूर्य. 2 b मणमत्थइ चित्ते मस्तकेच. 3 b कामवासु कामपाशः.  
6 a जमजोहजूर यमभदाना चूरकः. 7 a विसमविसंकुरु विसपसित्तु विप्रमविप्रस्याङ्कुरो विषेण  
विषिक्तश्च, समविसमंकुरु इति पाठे सह मया लक्ष्म्या वर्तन्ते इति समा राजानः तेषां विषयाङ्कुरः; विगतः  
समः उपशमः कोपः तस्याङ्कुरो वा. 8 a मउ धरइ भयं धरति, b धर भूः पृथ्वी.

घत्ता—जसु भइएं रवि णं अत्थवइ चंदु व चंदगहिल्लउ ॥ 10  
फणि पुरिसरुवु परिहरिवि हुउ दीहदेहु कीडल्लउ ॥ ५ ॥

## 6

खयरेण कण्ण इच्छियजएण	मंदोर्यरि तहु दिण्णी मएण ।	
आरुहिवि चारु पुप्फयविमाणु	सहुं कंतइ णहयलि विहरमाणु ।	
रययायलि अलयावइहि धीय	विज्जासाहणि संजमविणीयं ।	
जोइवि मणिवइ झाँणाणुलगा	मइ रायहु मयणवसेण भग्ग ।	
पारहु विग्घु परिगलियतुट्टि	उववाससोसकिसकायँलट्टि ।	5
वारहसंवच्छरपीडियंगि	कुद्धी कुमारि णं खयभुयंगि ।	
णासिउ वीयक्खरलीणु झाणु	इहु खगवइ चिंधे जाउहाणु ।	
महु वणु होउ मइं राणि हरउं	आयामि जम्मि महुं कज्जि मरउं ।	
णिक्किउ विरत्तु विवरीयचित्तु	जाणिवि रोसंगिउं रत्तणेत्तु ।	
गउ दहमुहु खेयरि मरिवि कालि	थिय मंदोर्यरिगम्भंतरालि ।	10

घत्ता—उप्पणी धीय सलक्खणिय कंपावियकेलासहु ॥  
णं लंकाणयरिहि जलणसिह णाइं भवित्ति दसासहु ॥ ६ ॥

## 7

दिणि पडिउ जलिउ उक्काणिहाउ	अप्पंपरि जायउ णरणिहाउ ।
महि कंपइ जंपइ को वि साहु	किह चुक्कइ एवहिं पुहइणाहु ।
एयइ धीयइ संभूइयाइ	खज्जेसइ णाइं विसूइयाइ ।
खयकाले ढोइय मरणजुत्ति	वणि णिज्जाणि घिप्पइ कहि वि पुत्ति
सुइसुहहराउ विहुणियसिराउ	आयण्णिवि णोमित्तियगिराउ ।

७ AP जसु रवि णं भइयए अत्थमइ.

6 १ मंदोवरि. २ A °विलीय. ३ A महिवइ. ४ P झाणेणुलगा. ५ A °कायजट्टि.  
६ P खए भुयंगि. ७ A हरइ. ८ A मरइ. ९ P रोसें इगिउं रत्तु णेत्तु.

7 १ A ताइं वि; P तासु वि. २ A °सुहयराउ.

10 अत्थवइ अस्त याति.

6 1 b मएण मयनाम्ना असुरेण. 3 a अलयावइहि धीय अलयापुणंननेन्द्रस्य पुत्री.  
4 b मइ मतिश्चित्तम् 6 b खयभुयंगि कालसर्पिणी. 7 a वीयक्खरलीणु वीजाज्जलीनम्; b णउ-  
हाणु राक्षस. 9 a णिक्किउ निष्कपः. 10 a खेयरि मणिवती खेन्नरो. 12 भवित्ति मरणात्.

7 1 a उक्काणिहाउ उक्कासमूहः, b अप्पंपरि स्वप्नेव, णरणिहाउ नगरन्दो घाराणः.  
3 b विसूइयाइ विपूचिकया वमनेन. 5 a सुइसुहहराउ मरुत्तुहरा.

खगभूगोयरसिरिमाणणेण  
किं गरुडवारिमरियइ सरीइ  
बंधवयणहिययवियारणीइ  
णवकमलकोसकोमलयराउ  
णिम्माणुसि काणणि धिवहि तेम  
मारियउ पवुत्तु दसाणणेण ।  
किं सविसकुसुममयमंजरीइ ।  
किं जायइ धीयइ वइरिणीइ ।  
उहालिवि मंदोयरिकराउ ।  
पाविट्टु दुट्टु णउ जियइ जेम । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि तें मारीयण भणिय देवि वररुवउं ॥

तुह गन्धि भंडारी धीरयणु गोत्तखयंकरु हूयउं ॥ ७ ॥

## 8

मुइं मुइ दहमुहखयकालदूय  
वाहापवाहओहलियणयण  
मारीयय णवतरुफलरसहि  
घल्लिज्जसु कत्थइ पुत्ति तेत्थु  
अह एयइ काइं जियंतियाइ  
गिरिदारणीइ कि गिरिणईइ  
आलिहिउं पत्तु मँच्छरकराल  
बहुदुक्खजोणि बंधुहुं असीय  
इय भासिवि मंजूसाहे णिहित्त  
दहणीवजीवरक्खणकएण  
चंपयचँवचंदणचूयगुज्झि  
तें होंतें होसइ अवर धूय ।  
ता तरुणि चवइ ओहुल्लवयण ।  
कीलंतपक्खिरमणीयसहि ।  
रविकिरणु ण लग्गइ देहिजेत्थु ।  
कूरइ णियतायकयंतियाइ । 5  
हो हो किं एयइ दुम्मईइ ।  
रावणदेहुम्भव एह वाल ।  
सुविसुद्धवंस णामेण सीय ।  
सहुं रयणहिं वरराईवणेत्त ।  
णिय णिविसँ णहि मारीयण । 10  
वहि मिहिलाणयरुज्जाणमज्झि ।

घत्ता—मंजूसइ सहुं छणयंदमुहि सरिसरणिज्झरसीयलि ॥

णं रहुवइसिरिलयकंदसिरि णिक्खय सुय धरणीयलि ॥ ८ ॥

## 9

गउ विज्जापुरिसु णहंतरेण  
आरामुहच्छित्तधुरंधरेण

तिक्खें महि दारिय लंगलेण ।  
मंजूस दिट्टु पामरणेण ।

३ A मारीयउ वुत्तु. ४ A गरुडवारि°. ५ A णिसुणंतें मारीयण. ६ P भंडारिए धीरयणु.

8 १ A सुय सुय. २ A वाहपवाह°. ३ A घल्लिज्जइ. ४ P अच्छर°. ५ P रावण°. ६ A णिविसँ. ७ AP धवचंदण°.

7 a सरीइ नद्या. 9 a ° को मलयराउ कोमलतरात् हस्तात्. 11 वररुवउं विशिष्टरूपं स्त्रीरत्नम्.

8 1 a मुइ मुच्च; b तें होंतें राजा जीवता. 2 a वाहापवाह° वाहपप्रवाह; °ओहलियं द्यपिते; b ओहुल्लवयण म्लानमुखी. 5 b °कयंतियाइ यमरूपया. 8 a असीय संतापकारिणी अश्लीला. 10 b णिविसँ निमिषेण.

9 1 a विज्जापुरिसु मन्त्री. 2 a आरामुहच्छित्त° हलारामुखाकृष्टा, b पामरणेण करकेण.

वणवालहु अप्पिय तेण पीयं  
वाइवि वइयरु बुज्झिय विणीय  
वड्डइ परमेसरि दिव्वदेह  
णं ललिय महाकइपयपउत्ति  
णं गुणसमग्ग सोहग्गथत्ति  
लायणवत्त णं जलहिवेल  
थिर सूहव णं सँपुरिसकित्ति

रायाँलउ रापं दिट्टु सीय ।  
णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण धीय ।  
णं वीयाँयंदहु तणिय रेह । 5  
णं मयणभावविण्णाणजुत्ति ।  
णं णारिरूवविरयणसम्मत्ति ।  
सुरहियं णं चंपयकुसुममाल ।  
बहुलक्खण णं वायरणावित्ति ।

घत्ता—जसवेल्लि व अट्टमराहवहु अमरदिण्णकुसुमंजलि ॥ 10  
पुरि वहिय जणयणरिंदसुय रार्मणरामहं णाइं कलि ॥ ९ ॥

## 10

पयकमलहं रत्तत्तणु जि होइ  
गुंफहं पुणुं गूढत्तणु जि चारु  
जंघाबलेण जायउ अजेउ  
णालोइउ जाणुहुं संधिठाणु  
ऊरुयलच्चितइ ह्यसररि  
कडियल्लु गरुयत्तणुं गुणाणिहाणु  
गंभीरिम णाहिहि णवर होउ  
पत्तलउं उयरु सिंगारु करइ  
सकयत्थउ मुँडिहि मज्झु खीणु  
वालियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि

इयरह कह रंगु वहंति जोइ ।  
इयरह कह मारइ तिजगु मारु ।  
इयरह कह वग्गइ कामपउ ।  
इयरह कह संघइ कुसुमवाणु ।  
इयरह कह जालंधरियसार । 5  
इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।  
इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ ।  
इयरह कह मुणिपत्तत्तु हरइ ।  
इयरह कह दंसणि विरहि रीणु ।  
इयरह कह तिहुयणहिययहारि । 10

घत्ता—रोमावालिमग्गु मणोहरउ कण्णहि केरउ संघइ ॥

इयरह कह सिहिणसिहरिसिहरु मयरकेउ आसंघइ ॥ १० ॥

9 १ A सीय. २ AP रायालइ. ३ AP वीयाइंदहु. ४ A °समग्गि. ५ A लायणवण्ण.  
६ P सुरहिय णवचंपय°. ७ P सुपुरिस°. ८ A णं रामह रावण कलि, P रावणरामह णाइ कलि.

10 १ A गुप्फहं, P गुप्फहं. २ A omits पुणु. ३ A जण्णुहि, P जं तुहु. ४ AP गरुयत्तणु.  
५ A मुडिहि. ६ AP कह विरहें विरहि.

4 a वाइवि वयरु वाचितो व्यतिकर पत्रम्, b णियपियहि वसुधाया., पडिवण्ण धीय पुत्रिकात्वेन  
प्रतिपन्ना. 5 b °वीयायंदहु द्वितीयाचन्द्रस्य. 6 a °पयपउत्ति पदप्रयुक्तिः. 7 b °विरयणसमत्ति  
विरचना निर्माण तस्याः समाप्ति. परमोत्कर्षः. 10 अट्टमराहवहु अष्टमत्रलभद्रस्य.

10 1 b इयरह इतरथा अन्यया योगीकथमेतस्या दर्शने रागं वहति. 5 b जालंधरियसार  
जालधरी कदली असारा. 8 b °पत्तत्तु पात्रता. 11 संघइ श्लाघते. 12 निदिणनिहरिसिहरु स्तन-  
गिरिशिखरम्; आसंघइ आश्रयति.



## 11

देविहि थण रहरसपुण्णकुंभ  
 भुय मयणपाससंकास गणामि  
 कंधरु वंधुरु रेहाहिं सहइ  
 तंबउ विंवाहरु हरइ चक्खु  
 दियदित्तिइ जित्तइं घत्तियाइं  
 मुहससिजोण्हइ दिस धवल थाइ  
 लोयणहिं वि दीहत्तणु जि जुत्तु  
 भालयलु वि अद्धिंदु व वरिंदु  
 कौतलकलाउ कुडिल्लत्तु वहइ

इयरह पुणुं कामतिसाणिसुंभ ।  
 इयरह कह मणबंधणु जि भणमि ।  
 इयरह कह कंबु रसंतु कहइ ।  
 इयरह कह तग्गहणेण सोक्खु ।  
 इयरह कह चिद्धइं मोत्तियाइं । 5  
 इयरह कह ससि झिज्जंतु जाइ ।  
 इयरह कह पत्तइं जणमणंतु ।  
 इयरह कह तहु मयणांस दिंदु ।  
 इयरह कह माणववंदु वहइ ।

घत्ता—जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणिय सीय काइं वण्णिज्जइ ॥ 10  
 रक्खेवि जणु जणयहु तणउ रामे धुवु पंरिणिज्जइ ॥ ११ ॥

## 12

ता कुलजयलच्छिसुहावहेण  
 बलणाहें समउं महावलेण  
 गरुं ससुरणयरु सुर सणर तसिय  
 भड रहं करि तुरिये तुरंग चलिय  
 घरु आयहें मामे कुसलु कयउ  
 गय कइवय दियह मणोरेहेहिं  
 चलपंचवण्णधयधुव्वमाणु  
 दिज्जइ दीणहं आहारदाणु  
 खज्जइ मासु वि किज्जइ विहाणु

पेसिय णियतणुरुह दसरहेण ।  
 परिवारिय चउरंगे बलेण ।  
 चलवलिय मयर मयरहरव्हसिय ।  
 दसदसिवह एकहिं णाइं मिलिय । 5  
 प्रंगणि जयमंगलु तूरु हयउ ।  
 हा पहु वेहाविउ पसुवहेहिं ।  
 मंडउ णिहित्तु जोयणपमाणु ।  
 धिप्पइ कंपतहं मृगहं प्राणु ।  
 महं मिद्धउं पिज्जइ सोमपाणु ।

11 १ AP कह. २ A कबुरु. ३ A कंठ रसंतु. ४ A इहरहं. ५ A धवलि. ६ AP खिज्जु.  
 ७ AP मयणासु. ८ A कुडिल्लंतु. ९ P माणवविंदु. १० A परणिज्जइ.

12 १ A गउ. २ A सुरसेण तसिय, P सुर सणर तसिय. ३ AP करि रह. ४ A तुरय.  
 ५ आयउ. ६ AP पंगणि. ७ A मंगलतूरु, P मंगलतरु. ८ AP मणोरेहेहिं. ९ AP मिंगहं पाणु.

11 3 b कंबु रसंतु शंख. शब्दायमानः. 5 a दि य दि त्ति इ दन्तकान्त्या; घत्तिया इ तिर-  
 स्कृतानि. 6 a था इ तिष्ठति, भवति. 7 b जणमणतु लोकमन.पर्यन्तम्. 8 b मयणास मृगनाशो  
 मदनाशश्च. 9 b वहइ हन्ति.

12 3 a सुर सणर तसिय तयो प्रयाणे नरसहिता. सुरा अपि त्रासप्राप्ताः, b मयर मत्त्याः;  
 मयरहरव्हसिय समुद्राद्वहि. पतिताः. 6 b वेहाविउ अनुरञ्जितो गृद्धि वा नीत. 9 a विहाणु यज्ञविधिः.

इय णिव्वत्तिउं कउ रिच्छिण्हिं  
हिंसाइ धम्मु पावासवेण

भणु को ण वि खद्धउ सोत्तिण्हिं । 10  
अण्णाहि वासरि जयजयरवेण ।

घत्ता—घणुकोडिचडावियघणुगुणहु दरिसियवइरिविरामहु ॥

णियधीय सीय णवकमलमुहि जणएं दिण्णी रामहु ॥ १२ ॥

## 13

वइदेहि धरिय करि हलहरेण  
णं तिहुयणसिरि परमप्पण  
णं चंदे वियसिय कुसुममाल  
दुव्वारवइरिवारणभुएण  
अच्छइ दासरहि सुहेण जाम  
आणिउ विणीयपुरि सरिधारि  
अहिसिच्चिवि जिणपडिमउ घएहिं  
णिव्वत्तिय जिणपुज्जा महेण  
अवराउ सत्त कण्णाउ तासु  
सोलह तहु महिलच्छीहरासु  
गंभीरधीरसाहसधणाहं  
कोणाहयतूरइं रंसमसंति  
संमाणवसइं सयणइं णडंति

णं विज्जुल धवलें जलहरेण ।  
णं णायवित्ति पालियपण ।  
गोविंदे णं सिरि सारणाल ।  
सहुं सीयइ सहुं केक्कयसुएण ।  
पिउणा णियदूयउ पहिउं ताम । 5  
सकलत्तु सभाउ दुहावहारि ।  
दहियहिं दुद्धहिं धारापएहिं ।  
सिसुणेहें तूसिवि दसरहेण ।  
दिण्णाउ मुसलकरपहरणासु ।  
अलिकुवलयकजलसामलासु । 10  
रइयउ विवाहु दोहं मि जणाहं ।  
मिहुणाइं मिलंतइं दर हसंति ।  
पिसुणइं चिंतासायरि पडंति ।

घत्ता—काणीणहुं दीणहुं देसियहुं दिण्णइं दाणइं लोयहुं ॥

तहिं समइ पराइउ महुसमउ णं विवाहु अवलोयहुं ॥ १३ ॥ 15

## 14

सोहइ वसंतु जगि पइसरंतु  
महुकारि व महु धारहिं सवंतु

अहिणवसाहारहिं महमहंतु ।  
हेमंतपहुत्तणु णिड्वंतु ।

१० A णिव्वत्तिउ. ११ A दाणगुणहु, P घणुगुणहु.

13 १ A पालियवएण ५ P कुमुयमाल. ३ AP पिहिउ. ४ P धारवएहिं. ५ A समसंति.  
६ AP पराइयउ.

10 a रिच्छिण्हिं ऋत्विग्भिः. 11 a पा वा स वेण निन्द्यमध्येन 12 °घणुगुणहु °निविडदोरस्य.

13 2 b णायवित्ति न्यायवृत्ति, पालियपएण राज्ञा. 3 b सारणाल कमलेन सहिता.  
4 b केक्कयसुएण लक्ष्मणेन 5 b पहिउ प्रेषित. 6 a विणीयपुरि अयोध्यायाम्. 7 b धारापए हिं  
धाराजलैः. 10 a महिलच्छीहरासु लक्ष्मणस्य. 12 a कोणाहयं कोणो वीणादिवादन तेन हतानि.  
15 महुसमउ वसन्तः.

14 1 b °साहारहिं आम्ने. 2 a महुकारिव कल्पालीव, कलालीव, महुधारहि सवतु  
मकरन्दो माक्षिक मद्य च तस्य प्रवाहैः, b हेमन्त° शीतकालः.

णियचिंधं दसदिसु पट्टवंतु  
 सारंतु सुवाविहि वारिचीरु  
 खरकिरणपर्याउ वि णेसरासु  
 पयडंतु असोयहु पत्तरिद्धि  
 वडलहु वउ सुच्छायउं करंतु  
 तिलयहु दलतिलयविलासु देंतु  
 वल्लहकामुयवम्मइं हणंतु  
 माणिणिहिं माणगिरि जज्जरंतु  
 उत्तंगमड्ढि दियहइं गमंतु ।  
 मंदारकुसुमरयमहमहंतु

अंकुरंफुरंतु पल्लवचलंतु ।  
 दावंतु णीलसेवाँलतीरु ।  
 अवरु वि दीहत्तणु वासरासु । 5  
 मोक्खयहु दुफग्गुणमोक्खसिद्धि ।  
 वणलच्छिहि ओसासुय हरंतु ।  
 वेल्लीकामिणियहं रसु जणंतु ।  
 कण्यारफुल्लरयधूसरंतु ।  
 हिंदिरभसलावलिगुमुगुमंतु । 10

रमणाहिलासविन्मसु भमंतु ।

घत्ता—जो मोणे चिरु संचरइ वणि सो संपइ महुसेविरु ॥

कलकोइल्लु पुण वि पुण वि लवइ मत्तउ को ण पलाविरु ॥ १४ ॥

## 15

वज्जइ वीणा पिज्जइ पाणं  
 गिज्जइ महुं सत्तसरालं  
 परिमलपउरं पोसियरामं  
 गंधकयंबयल्लडयवियारे  
 सुप्पइ दवणयविरइयगेहे  
 संघइ कामो कुसुमखुरप्पं

पियमाणुसचित्तं साहीणं ।  
 दढपेम्मं पसरइ असरालं ।  
 वज्जइ फुल्लियमल्लियदामं ।  
 णेवरकलरवणच्चियमोरे ।  
 पुष्पत्थरणे भमियदुरेहे । 5  
 णासइ तावसतवमाहप्पं ।

14 १ A फुरत. २ A ललंतु. ३ AP सेवालणीरु. ४ AP पयाउ दिणेसरासु. ५A सुच्छायउ. ६ AP ओसंसुय. ७ AP कणियार°. ८ AP उत्तुंगमड्ढि ९ AP add after this: मजंतपक्खिकुल्लुमुगुमंतु; K writes it but strikes it off. १० AP read this line as: रमणाहिलासविन्मसु भमंतु ( A° रमणीहि विलासविन्मसि भमंतु ), मायंदकुसुमरयमहमहंतु. ११ A °कोकिड.

15 १ A गंधकुडंबय°. २ AP णेउर°. ३ A सुप्पय°. ४ P °खुरप्पं.

4 a सारंतु सुवाविहि वारिचीरु सुवापीनां जलमेव चीरु वल्लमुत्सारयन्. 5 a णेसरासु सूर्यस्य. 6 a मोक्खयहु दुफग्गुणमासरिद्धि मोक्षकनामा वृक्षविशेषः, तस्य फाल्गुनमासे पत्राणि क्षरन्ति, तेन कारणेन फाल्गुनमासस्तस्य वृक्षस्यानिष्टः, तेन दुःफाल्गुनः कथ्यते, तस्य फाल्गुनस्य मोक्षं विनाशं कुर्वन् वसन्तः. 7 a वउ वपु. शरीरम्; b ओसासुय अवश्याय एव अश्रूणि. 8 a तिलयहु तिलकवृक्षस्य दलेषु पत्रेषु तिलकविलासं ददत्. 11 a उत्तंगमड्ढि मड्ढि वृक्षविशेष. तस्य दिनै. गमयन्, स वृक्षस्तदाकाले न विकसति किं त्वग्रे. 13 महुसेविरु मधुनो मद्यस्य मकरन्दस्य च सेवकः.

15 2 b असरालं अपर्याप्तम्. 3 a पोसियरामं पोषिताः प्रचुरीकृता रामाः त्रियो येन. 4 a गंधेत्यादि श्रीखण्डादिगन्धद्रव्यस्य कदम्बकं समूहः तेन कृताद्रष्टविकारे पुष्परहे लतामण्डपे, b णेवरं नूपुरम्. 5 a सुप्पइ शयनं क्रियते, दवणयं दमनकपुष्पम्. 6 a कुसुमखुरप्पं कुसुमवाणम्.

अणुणिज्जइ रूसंति पियल्ली  
सरजलकेलीसित्तसरीरो  
तिम्मई पणइणिसुहुमकडिल्लो  
कुवलयमालाताडणललियँउ  
इच्छाँमाणियकंताकंतो

दाविज्जइ कंदप्पसुहेल्ली ।  
जंतविमुक्कसकुंकुमणीरो ।  
दिट्ठावर्यँववूढरसिल्लो ।  
फुल्लपलासँदुमिहिं पज्जलियउ । 10  
एव वियंभइ जाम वसंतो ।

घत्ता— ता दसरहपयपंकय णविवि विहसिवि रामे बुच्चइ ॥  
संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि किं मुच्चइ ॥ १५ ॥

## 16

णासिज्जइ किं सो कासिदेसु  
गुरुगय णियगय णिव दुविह बुद्धि  
दीसंति जाइ सच्छिद्वेरे  
विहुरे वि हु अणिहालियदिसेण  
पहुसत्ति कोसंदंडेहिं देव  
जाणेवाँ अवर अलद्धलाह  
वोल्लिज्जइ पहिलारउ जि सामु  
वीयउ पुणु सीक्किज्जंति किच्च

सुणि ताय रायसत्थोवपसु ।  
बुद्धीइ पंचविह मंतसिद्धि ।  
सा मंतसत्ति साहंति सूरि ।  
उच्छाहसत्ति पुणु पोरिसेण ।  
एयइ विणु महियलु वहइ केव । 5  
चत्तारि उवाय धरत्तिणाह ।  
पियवयणु जीवजणियाहिरामु ।  
संमाणिवि वइरिविरत्त भिच्च ।

घत्ता—ते थद्ध लुद्ध अवमाणणिहि भीरु कहंति विवक्खहु ॥  
णियरायहु केरउ दुच्चरिउ वियँलियपह परिरक्खहु ॥ १६ ॥ 10

## 17

उवदाणु वि हरि करि हेमं रयणु  
अवयारु देसपुरगामडहणु  
जिण्पंति हरिस मय कोह काम

दिज्जइ जइ लब्भइ को वि सयणु ।  
सो दंड भणंति वरारिमहणु ।  
रिउ माण लोह दुक्कम्मधाम ।

५ A णिम्मिय°, P तिम्मिय°. ६ P °वयवसुवुडूरसिल्लो. ७ A ललिओ. ८ A °दुमेहिं ण जल्लिओ,  
P °दुमेहिं णं जल्लियउ. ९ A इच्छिय°, P इच्छए.

16 १ A कोसु दंडेहिं. २ A जाणेवा, P जाणेव. ३ AP धरत्तिणाह. ४ A वियडिय°.

17 १ AP हेसु.

9 a ति म्म इ आद्रीक्रियते, °सु हु म क डि ल्लो सूक्ष्मं कटीवल्गम्, b °वूढ° धृतो वर्धित .

16 1 b रायसत्थोवपसु नीतिशास्त्रोपदेशः. 2 a गुरुगय गुरुगता आहार्या. 3 a सच्छिद्वेरे सच्छिद्रो वैरी. 4 a विहुरेवि कष्टेऽपि, संकटेऽपि, अणिहालियदिसेण किकर्तव्यतामूढत्वरहितेन. 8 a सीक्किज्जति स्वीक्रियन्ते; किच्च कृत्या भेद्याः. b वइरिविरत्त शत्रुविरक्ताः. 10 परिरक्खहु माहात्म्यरक्षणस्य.

17 2 a अवयारु अपकारः. 3 b रिउ अभ्यन्तरज्ञत्रवः.

जउ वक्खाणिउ इंदियजएण  
सावहि गिरवहि इच्छंति के वि  
विग्गहु विरइज्जइ दोसडुडु  
आसणु गुरु कहइ असक्ककालि  
जाणु वि सलाहु परिवारपोसि  
जा किर विग्गहसंधाणवित्ति  
जहि ण वहइ णियकरहत्थियारु  
णरवइ अमच्चु जणठाणु दंहु  
सत्त वि पयईउ हवंति जेण

घत्ता—तं णिसुणिवि जणसंतावहर ताएं चावविहूसिय ॥

णं जलहर वे वि धवल कसण सुय वाणारसि पेसिय ॥ १७ ॥

संधि वि मित्तत्तणसंगएण ।  
पट्टणइं वत्थु वाहणइं लेवि । 5  
दोसेण होइ वंधु वि अणिट्टु ।  
अवरोहि विउलि रणंतरालि ।  
किज्जइ वज्जियदुंदुहिणिघोसि ।  
तं दोहीअरुणु ण का वि भंति ।  
असरणि रिउसेव वि किं ण चारु । 10  
धणु दुग्गुं मित्तु संगामचंडु ।  
उज्जउं णउ मुच्चइ ताय तेण ।

## 18

णियतायपसायपसण्णभाव  
देहच्छविदूसियरवियरोह  
मणिमउडसुपट्टांलिगियंग  
सेविज्जमाण णरखेयरोहिं  
जोइज्जमाण जणवयजणेहिं  
अलिकसणपीयणिवसणणिउत्त  
दियहेहिं वंधु ते जंत जंत  
पहचोइय गय सुहजणणपत्त  
धयमालातोरणमंगलेहिं  
णाणाणायरियहिं दीसमाण

सविणय पर्णमंत विमुक्काव ।  
जुवरायत्तणसिरिलद्धसोह ।  
णं सुरमहिहर उत्तंगंसिग ।  
विज्जिज्जमाण चलचामरोहिं ।  
पेल्लिज्जमाण कामिणिथणेहिं । 5  
सुंदर सुबलाकेक्कयहिं पुत्त ।  
रमणीयपएसहिं थंत थंत ।  
वाणारसि विणिण वि वीरं पत्त ।  
दहिदोवहिं सियकलसुप्पलेहिं ।  
पईसंति णयरि णं कामवाण ॥ 10

घत्ता—जणु वोल्लइ दसरहजेडसुउ इहु संसहोयरु आवइ ॥

कंचीकलाव गुप्पंतुं पहि पुरणारोयणु धावइ ॥ १८ ॥

२ A दोहीकरण, P दोहीअरुणु. ३ A दुग्ग मित्त. ४ A जलहर धवल वे वि कसण.

18 १ A पणवत, P णयवंत; K records a *p*: णयवंत. २ A °भूसिय°. ३ P सुप्पहा°. ४ AP उज्जुंग°. ५ P रवणीय°. ६ P वाराणसि. ७ P धीर. ८ A दहिदूवहिं. ९ A पयसंति. १० A एहु सहोयरु. ११ A गुप्पंति पहे. १२ AP पुरेणारो°.

4 A जउ जयः. 7 a आसणु दुर्गाश्रयणम्. 8 a जाणु गमनम्, सलाहु श्लाघ्यः, b वज्जियदुदुहिणिघोसि प्रच्छन्नतया गन्तुपरि गम्यते. 9 a विग्गहसंधाणवित्ति स्वल्पो विग्रहः स्वल्पश्च सधिरिति मिश्रत्वं द्वैधीकरण कथ्यते, सधानपूर्वको विग्रहो द्वैधीकरणम्. 10 b असरणि रिउसेव यदा गरणं न दृश्यते तदा रिपोरपि सेवा क्रियते. 11 a जणठाणु राष्ट्रदेशः, b धणु कोशः. 12 a पयईउ प्रकृतयः, b उज्जउ उच्चम्.

18 2 a °दूसियरवियरोह °तिरस्कृतरविकिरणसमूहौ. 3 b °सिग °शिखरौ. 5 a जोइज्जमाण विलोक्यमानौ. 6 a अलीत्यादि कृष्णपीतवलयुक्तौ. 8 a °पत्त °वाहनौ. 9 b °दोवहिं दूर्वाभिः. 10 a णायरियहिं नागरिकैः.

## 19

क वि मेल्लइ कौतलफुल्लदामु  
काइ वि थणजुयलउं विहलु गणिउं  
क वि दावइ कंकणु का वि हारु  
पर्यलंतउं क वि परिहाणु धरइ  
क वि सिंचइ पेम्मजलेण भूमि  
जइ इच्छइ कह व धरितिसामि  
दारें भत्तारु ण जाहुं देइ  
मणि का वि विसूरइ चंदवयण  
णं तो जोयमि उब्भिवि करग्ग  
कर मउलिवि सण्णइ का वि पोमु  
क वि णेरु पहि णिवडिउ ण वेइ  
जोयंति रायसुयजुयलतोइ

णीससइ का वि जोयंति रामु ।  
हाँ एउ ण लक्खणणहहिं वणिउं ।  
क वि ऊरुयलु क वि मुहबिंबयारु ।  
क वि कट्टदिट्टि जोयंति मरइ ।  
क वि चिंतइ एवहिं घरु ण जामि । 5  
तो जियमि माइ सच्चउं भणामि ।  
पायारु किं पि अंतरु करेइ ।  
तल्लहत्थि ण जाया मज्झु णयण ।  
गच्छंतु सुहय सुहसारमग्ग ।  
आवेसमि जावहि सुवइ पोमु । 10  
क वि भिक्खाचारिहि भिक्ख देइ ।  
अण्णेत्तहिं घल्लइ कूरपिंडु ।

घत्ता—क वि विहसिवि बोल्लइ चंदमुहि सीयइ काइ वउत्थउं ॥  
जेणेहउं लद्धउं पहरयणु दरिसियकामावत्थउं ॥ १९ ॥

## 20

अण्णेक्कइ वुत्तउं जाहि माइ  
वयणें बहुणेहपवत्तणेण  
जइ एहु ण इच्छइ विउलरमणि  
इय पुररमणीयणजूरणेण  
देहिअक्खयबहुसेसाउ लेवि  
पियवयणें कि वि कि वि पाहुडेण  
कि वि सुहिसंवंधपयासणेण  
कि वि णेहें कि वि भुयवल्लिण घित्त

लग्गेज्जसु णाहहु तणइ पाइ ।  
हरि आणहि महु दूयत्तणेण ।  
तो मारइ मारु मरालगमणि ।  
सज्जणहं मणोरहपूरणेण ।  
रायालइ भाइ पइट्टु वे वि । 5  
कि वि दुव्वयणेण णुब्भडेण ।  
कि वि वसिकय वित्तिविहसणेण ।  
वणवाल चंड मंडलिय जित्त ।

19 १ A मुणित्, २ A हो, ३ AP उरयल्ल, ४ A पयल्लु का वि, ५ A मणि स विसूरइ  
क वि चंद°, P मणि सुविसूरइ क वि चद°. ६ AP हलि हत्थि ण, ७ A गच्छंत, P गच्छति, ८ AP  
अण्णहिं सा घल्लइ, ९ AP पयरयणु.

20 १ AP सिद्धत्थक्खयसेसाउ, २ A वल्लवाल.

19 4 b कट्टदिट्टि अस्पन्दलोचना, 7 a दारें इत्यादि द्वारे कान्त स्थितः रामावलोकनार्थं  
गन्तु न ददाति 8 b तल्लहत्थि हस्ततले, 9 a उब्भिवि करामूर्ध्वं कृत्वा, b सुहसारमग्ग शुभस्य  
सुखस्य वा उत्कृष्टमार्गो, 10 b जावहि सुवइ पोमु यस्या वेलया पद्म स्वपिति, 11 a णवेइ न  
जानाति, 13 वउत्थउ व्रतमाचरितम्.

20 1 a माइ हे मातः, हे दूति, 2 b हरि लक्ष्मण, 3 b मारु काम, 8 b वणवाल  
भिल्लादिका.

घत्ता—मयरहरहु मल्लु दूसणु जिणहु अमयहु विसु किं सीसइ ॥  
गुणवंतहं दसरहतणुरुहहं दुज्जणु को वि ण दीसइ ॥ २० ॥ 10

## 21

अच्छंति वे वि ते तेत्थु जाव	एत्तहि लंकहि दहवयणु ताव ।
वरकणयवीढसंणिहियपाउ	सीहासणग्गि रायाहिराउ ।
अत्थाणि णिसण्णउ सामवेहु	अवइण्णु महिहि णं काममेहु ।
करखालियाइं चमरइं पंडंति	कप्पूरपउरधूलिउ घुलंति ।
पाढय पढंति तहिं णड णडंति	वाइत्तताल तेत्थु जि घंडंति ।
गिज्जंति गेय सरठाणलग्ग	णच्चंति असेस वि देसिमंग्ग ।
पडिहारहिं अणिवद्धउं चवंतु	णियमिज्जइ लोउ वियारवंतु ।
विण्णप्पइ भण्णंइ जीय देव	अमर वि करंति कमकमलसेव ।

घत्ता—दसकंधरु दुद्धरु धरियंधरु तेयविहूसियदिसवहु ॥  
जहिं अच्छइ भरदधरत्तिवइ पुष्पयंतसंकावहु ॥ २१ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे सीयाविवाहकलाणं णाम  
सत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७० ॥

21 १ A P णवकणय°. २ AP चलति. ३ A घुलति. ४ A देसमंग. ५ P जणवइ.  
६ A धरियकरु. ७ AP °वरित्तिवइ.

१) मयरहरहु समुद्रस्य.

21 ३) a सामदेहु कृणवर्ण. 6) b देसिमंग देशीभाषागीतानुसारेण. 7) a चवनु वदन  
प्रत्यय. १) °दिसवहु दिशा मार्ग. 10) पुष्पयंतसंकावहु चन्द्रगूरुमयजनक.

णरसिरंकरखंडणु कहिं तं भंडणु एम भणंतु जि संचरइ ॥  
तहिं विप्पियगारउ आंयउ णारउ अत्थाणंतरि पइसरइ ॥ धुवकं ॥ ७ ॥

1

उद्धावैद्धपिंगजडमंडलु  
तारतुसारहारपंडुरतणु  
विमलफलिहमणिवलयालंकिउ  
दीसइ एंतउ रायहु केरुं  
कडियलणिहियेहेममयमेहलु  
सोत्तरीयउववीर्यउरुज्जलु  
कयदेवंगवत्थकेवीणउ  
दिट्ठउ रावणेण पडिवत्तिइ  
पुच्छिउ पहुणा परमणसूलउ  
तं णिसुणिवि संगामपियारउ

पोमरायरयणमयकमंडलु ।  
णं ससहरु णावइ सारयघणु ।  
णं जसुं पुरिसरूवु विहिणा किं । 5  
रणकायरभडभयइं जणेरउं ।  
हसणु भसणु सवसणु सकलुसु खलु ।  
हिंडणसीलु समीहियकलयलु ।  
जुज्झु अपेच्छमाणु णिरु झीणउ ।  
वइसारिउ आसणि गुरुभत्तिइ । 10  
कहहि वत्त को महु पडिकूलउ ।  
आहासइ दहगीवहु णारउ ।

घत्ता—सुरगिरिसिरि णिवसइ महिहि ण विलसइ संचइ धणयहु तणउं धणु ॥  
णिसि णिइ ण पावइ सयमहु भावइ णावइ तुज्झु जि भीयमणु ॥ १ ॥

2

सिहि णं करइ तुहारउं भाणसु  
णेरिउ णेरियदिस ता रुंभइ  
रयणायरु जं गज्जइ तं जहु  
वाउ वाइ किर तुह णीसासें  
चंदु सूरु किरं तुह घरदीवउ  
ससुरु सणरु खगु जगु तुह बीहइ

उहु वइवसु वइरिहिं तुहुं वइवसु ।  
नाव ण तुज्झु पयाउ वियंभइ ।  
तुहुं जि एक्कु तइलोकि महाभइ ।  
वज्झइ फणिवइ तुह फणिपासें ।  
सीहु वराउ वसउ वणि सावउ । 5  
पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ ।

1 १ AP णरकरसिरं. २ A बोळइ णारउ, P आइउ णारउ. ३ P उद्धावहु पिंगु जडमंडलु.  
४ P पडरं. ५ A जसरूउ पुरिस विहिणा. ६ A एतहो, P एत्तउ. ७ P केहउ. ८ AP वसणु.  
९ A उरज्जलु. १० A रामणेण.

2 १ AP णेरियदेसि. २ AP किह.

1 4 b सारयघणु शरन्मेषः. 6 a एंतउ आगच्छन्. 7 b सवसणु युद्धाशक्तियुक्तः.  
10 a पडि वत्ति इ प्रतिपत्त्या स्वागतेन.

2 1 a भाणसु सपकारत्वम्. b उहु भस्मीभवतु, वइवसु यम.. 5 b सावउ श्वापदः.



दसरहतणउ मुसलहलपहरणु  
परयलपवलसलिलवडवामुहु  
लकखणु सुहडलकखविकखेवणु  
जणएं कण्णारयणु विइण्णउं

दूरमुक्कपररमणीपरहणु ।  
जासु भाइ रणरसावियसियमुहु ।  
अण्णु वि जासु पँवरपीणत्थणु ।  
तोसु रुवि थिउ विहिणेउण्णउं । 10

घत्ता—सा तुज्जु जि जोग्गी लयललियंगी हिप्पइ मड्डुई किंकरहं ॥

सुरसरि झसमुद्दहु होइ समुद्दहु णउ जम्मि वि पंकयसरहं ॥२॥

## 3

विष्फुरियाणणु णं पंवाणणु  
धीर विमुक्ककेर करिकरभुय  
रामसाम गयसाम सहोयर  
हरमि धरिणि गुणमणिसंचयखाणि  
पभणइ णारयरिसि किं गावें  
सरह सीह को वणि संघारइ  
चंद सूर को खलइ णहंगाणि  
केसरिकेसँछटा को छिप्पइ  
चवइ राउ विरइयअवराहहं  
सिरकमलइं खंडेसामि जइयहुं

तं गिसुणिवि पँडिलवइ दसाणणु ।  
खल बलपँवल चवल दसरहसुय ।  
मारमि सुहड तुमुलि भूगोयर ।  
अहिणवहरिणणयण मयणावणि ।  
रावँण विहलें वीरपलावें । 5  
काल कयंत वे वि को मारइ ।  
हरि वल को णिहणइ समरंगाणि ।  
जाणइ केण णराहिव हिप्पइ ।  
वालहं वार्णारसिपुरिणाहहं ।  
तुहुं वि तेत्थु आवेसहि तइयहुं । 10

घत्ता—तेलोकैभयंकरु वइरिखयंकरु धणुगुणटंकारु जि झुणइ ॥

खेयरउरदारणि महुं सरधोरणि रणि रामहु वम्मइं लुणइ ॥३॥

## 4

ता परियाणवि कलहहु कारणु  
गउ णारउ णियमणि संतुट्टुउ

अवसें होसइ एत्थु महारणु ।  
वीसपाणि मंतणइ पँइट्टुउ ।

३ AP पीणपीवरयणु. ४ AP ताहि. ५ AP मड्डु. ६ P ससमुद्दहु.

3 १ AP रणपवल. २ P रामण. ३ A °केसरसड, P °केसरसड. ४ AP किं. ५ AP धिप्पइ. ६ AP वाराणसि°. ७ A तइलोक°.

4 १ A परितुट्टुउ. २ A P वइट्टुउ.

8 b भाइ भ्राता. 9 a °विकखेवणु हन्ता. 10 b विहिणेउण्णउं विधिनैपुण्यम्. 11 मड्डुइ हठात्.  
12 सुरसरि गङ्गा; झसमुद्दहु समुद्रस्य.

3 2 a विमुक्ककेर अवधीरिता आज्ञा याभ्या तौ. 3 a रामसाम श्वेतकृष्णवर्णौ द्वौ, गयसाम  
सामवचनरहितौ, b तुमुलि रौद्रसंप्रामे. 4 b मयणावणि कामभूः. 5 b जाणइ जानकी सीता;  
धिप्पइ हियते. 11 झुणइ कथयति.

4 2 b वीसपाणि रावणः.

दुष्टु अणिष्टु विसिष्टु णं सिष्टुउ  
तणुलायणवणजलवाहिणि  
मारिज्जंति भाइ ते भीसण  
तं णिसुणिवि मारीयं वुत्तउं  
परवहुरमणु धम्मणिळूरणु  
परवहुरमणु कित्तिविद्धंसणु  
परवहुरमणु पराहवगारउं

घत्ता—परयारु सुविट्टुलु दुक्खहं पोट्टुलु दुग्गमु दुज्जसपरियरु ॥ 10  
बहुभवसंसारणु सिवगइवारणु पावासवविहिवासघरु ॥ ४ ॥

5

दुत्तरमोहमहण्णवि छूढउ  
तुहुं धंइ बहुसत्थत्थवियाणउ  
जो पडिकूलु होइ सो हम्मइ  
भणइ दसाणणु जणसोमण्णहं  
थीयणसारी णयणपियारी  
सेलसिहरसंचालणचंडहिं  
तो सकयत्थु महारउं जीविउ  
जइ तहि तं मुहकमलु ण चुंवमि  
कम्मणिवंधणेण णिकेज्जे

घत्ता—हरिणाञ्छिहि वत्तइ सुइसुहमेत्तइ उप्पाइउ मणि कलमलउ ॥ 10  
रइकायरु कंपइ पुणु पुणु जंपइ दहमुहु विरहविसंडुलउ ॥ ५ ॥

मंतिउं मंतु सवुद्धिइ दिट्टुउ ।  
हिप्पइ रहुकुलणाहहु गेहिणि ।  
भणु मारीयय भणइ विहीसण । 5  
परवहुरमणु णरिइ अजुत्तउं ।  
परवहुरमणु सयणसयजूरणु ।  
परवहुरमणु विमलकुलदूसणु ।  
परवहुरमणु णरयपइसारउं ।

परवहुरमणु करइ जो मूढउ ।  
अण्णु वि सयलहि पुहइहि राणउ ।  
परवहु पुणु सिविणि वि ण रम्मइ ।  
जणयं जाणिवि दिण्णी अण्णहं । 5  
चंपयगोरी हियैयवियारी ।  
सो अवरुंडमि जइ भुयदंडहिं ।  
तो मइं णरभवफलु संप्राविउं ।  
तो अप्पाणउं काइं विडंवमि ।  
कि महुं महियलेण किं रजें ।

6

घुत्तिवि अंतरंगु दहगीवहु  
कामवाणसंताणहिं भग्गउ

वाय विणिग्गय मुहि मारीयहु ।  
जइ तुहुं महिवइ सीयहि लगउ ।

३ AP वसिष्टउ. ४ AP मतिए.

5 १ AP सह. २ A °सावण्णहं. ३ AP हियपियारी. ४ AP omit मा. A अयण्णवि  
५ AP सपाविउ. ६ A णियकजे. ७ A सुयसुह°.

3 a विसिष्टु ण सिष्टुउ विद्वान्मन्त्री न पृष्ट, b मतिउ मंतु मन्त्र. त्वदुलगा मन्त्रि. [10 पररर  
परकलत्रम्.

5 2 a घइ पादपूरणे. 1 b जणए जननेन गणा. 5 a थोयणसारी कोणमणे उक्कुरा.  
9 a णिकेजे नि.कारेण निष्प्रयोजनेन. 10 वत्तइ वार्तया. मुहकमलेन र्णिकेज्जेण अरतिः.  
अरतिः. 11 °विसिट्टुलउ शिपिलगात्र.

तो वि मयणु मग्गे माणेवउ  
 तं जाणिज्जइ विविहपयारें  
 अंसयदेसिजाइपरइत्थहु  
 कामिणीउ जो महियलि जाणइ  
 भइ मंद लय हंसि चउत्थी  
 भइ भणमि सव्वंगसुरूविणिं  
 लय दीहरतणु लय जिह पत्तल  
 रिसिविज्जाहरजक्खपिसायहं  
 तावसि उज्जुय भुंभुलभोली  
 जक्खिणि धणकणलोहपरव्वस

रत्तविरत्तचित्तु जाणेवउं ।  
 विडगुरुभासिएण सुयसारें ।  
 इंगियसत्तभावरसंगुत्थहु । 5  
 सो लंकाहिव रइसुहुं माणइ ।  
 चउविह महिलाजाइ पसत्थी ।  
 मंद थूलगुरुपेढालत्थणिं ।  
 खुज्जी गारि मरालि समासल ।  
 अंस होंति रमणीसंघायहं । 10  
 खेयरि मइराकुसुमरसाली ।  
 अडण पिसल्ली भणिय सतामस ।

घत्ता—सारसि मिगि रिट्ठिणि ससि धयरट्ठिणि महिसि खरी मयरि वि जुवइ ॥  
 सत्ते दीसत्ते<sup>१०</sup> रइसइकत्ते वसुविह कहिय णिसुणि णिवइ ॥ ६ ॥

7

वच्छत्थलु धणकलसहिं पेळइ  
 मिगि<sup>१</sup> णियबंधवदाणे मण्णइ  
 पुत्तहंडट्टुक्खिणि वायसरव  
 ससि णिस्मीलियच्छि दुहभायण  
 धयरट्ठिणि सररुहसरकीलिणि  
 खरि खेळंति हसइ कहकहसरु  
 मयरि मासगासिणि दढगाहिणि

सारसि पिययमसंगु ण मेल्लइ ।  
 तज्जिय तसइ गेउ आयण्णइ ।  
 रिट्ठिणि ठाणु मुयइ रणभइरव ।  
 णिग्घिण परहरगासालोयण ।  
 महिसि कराल रोसरसवालिणि । 5  
 सहइ पायपहरु वि घल्लिउ करु ।  
 कयसाहस कुकम्मणिव्वाहिणि ।

6 १ AP माणिव्वउ. २ P जाणेव्वउ. ३ A °जाईपयओ, P °जाइपयइत्थउ. ४ A °स-  
 गुइपउ. ५ P adds after this: णरवर मदा णिसुणि णियविणि. ६ P जाणि थूलगुरुपोढविलासिणि.  
 ७ AP add after this: णउ सेविज्जइ सा वि यलक्खणि. ८ AP भुंभुलभोली, T भुभुर°. ९ AP  
 धयरिट्ठिणि. १० AP दीसत्ते.

7 १ A मृगि णिवबंधव°.

6 4 b विडगुरु° कामाचार्य; सुयसारें कामशास्त्रेण. 5 a असयइत्यादि हंसकादिभिरुप-  
 लक्षितस्य; परइत्थहु परस्त्रीसमूहस्य सवन्धि रत्तविरत्तचित्तु इति संवन्धः, b इंगियेत्यादि इङ्गितसत्त्व-  
 भावरसैखुविद्धस्य. 7 a भद्रेत्यादि भद्रा मन्दा लता हंसीति चतुर्विधा स्त्रीजातिः. 8 b °पेढालत्थणि  
 विस्तीर्णस्तनी. 9 b मरालि हंसी, समासल मांसला. 11 a भुभुलभोली अव्युत्पन्ना b मइराकुसुम-  
 रसाली मद्ये पुष्पे चासक्ता. 12 b अडण पर्यटनशीला. 15 रइसइकत्ते रतिरेव सती तस्याः कान्तेन  
 भर्त्रा कामेनेत्यर्थः, वसुविह अष्टविधा.

7 2 a मण्णइ मानयति; b तज्जिय भर्त्सिता. 3 a पुत्तहंड° पुत्रभाण्डम्. 5 b रोमरसवालिणि  
 रोपरसपालिनी निर्वाहकारिणी.

सुंणि देसीउ णिहिलदेसाहिव  
ससहावें लंपाडि खरभासिणि

इह मालविणि होइ इच्छियसिव ।  
वाणारसिसंभव वणवासिणि ।

घत्ता—अंबुइ जा कामिणि मंथरगामिणि सा पहिलउं जि दवु हरइ ॥ 10  
दिणमेर णिबंधिवि रइरसु संधिवि पच्छइ सरकीलणु करइ ॥ ७ ॥

8

सिंधुवि पुणु पियगेयहु रण्णइ  
मायाबहुलु भाउ कोसलियहि  
द्विविडि दंतणहछेयहु सकइ  
ललियालावें लाडि लइज्जइ  
कालिगी उवयारु पँउंजइ  
सोरट्टिय आउंवणतुट्टी  
अवरु महारट्टी जइ सीसइ  
कोंकणियहिं जइ काइं वि दिज्जइ  
दरिसियहरिसियवम्महलीलउ  
करइ किं पि चंगउं ववसायउं  
हिमवन्ती वि मंतबीयक्खरु  
मज्झएसणारीउ कलालउ

प्राणु वि दविणु वि दइयहु अप्पइ ।  
लब्भइ रइगुणेणं सिंघलियहि ।  
अंध्रिणिं णिभररयहु चमक्कइ ।  
उट्टि रमणविण्णाणं भिज्जइ ।  
रक्खसु सुक्कउ रुक्खु वि रंजइ । 5  
गुज्जरि णिच्चसयज्जहु लट्टी ।  
ता तहि धुत्तत्तणु पर दीसइ ।  
तो तं चित्तवंति सा झिज्जइ ।  
पाडलिउत्तियाउ करणालउ ।  
पारियत्तपणइणि पुरिसाइउं । 10  
जाणइ जेणं पडइ पायहिं वरु ।  
होति राय सयदलसोमालउ ।

घत्ता—देसंसयजुत्तहं जाइहिं सत्तहं सयलहं पयइणिवासु किह ॥

गिरिसरिहरैटाणहं अमरविमाणहं मयरहरहं तेलोक्कु जिह ॥८॥

२ AP मुणि. ३ A अच्छए. ४ AP सुरयकील.

8 १ AP सेधवि. २ A पियणेहहु, P पियगेहहु. ३ AP पाणु ४ P धणेण. ५ AP दिविडि.  
६ AP अधणि. ७ AP पवजइ. ८ AP सुक्खउ. ९ P रुक्ख. १० A भिजइ. ११ AP जेहि.  
१२ AP मज्झदेस°. १३ AP °महि°.

8 a देसीउ देशोत्पन्नाः, b इच्छियसिव वाञ्छितसौख्या 9 b वणवासिणि वनक्रीडा. 10 अचुइ  
अर्बुदाचले. 11 दिणमेर दिनमर्यादा दिनसख्या, सरकीलणु स्मरक्रीडा.

8 1 a पियगेयहु प्रियगीतश्रवणात् रण्णइ रज्यते 3 a दविडि द्राविडा; b चमक्कइ  
विभेति. 4 b उट्टि उद्देशजा. 5 a उवयारु उपचार. 6 a आउवणतुट्टी चुम्बनतुष्टा b मयजहु  
लट्टी स्वकार्ये दक्षा. 8 a काइवि किमपि तुच्छमपि 9 b करणालउ ऊर्वोरुपरि ऊरुनिवृत्तन कण  
तच्छीला. 10 b पुरिसाइउ पुरुषागतं रत विपरीत वा. 12 a मज्झएसणारीउ टेलीदेशोत्पन्ना.  
कलालउ कलायुक्ता. 13 सत्तह अष्टभेदमत्त्वानाम्, पयइणिवासु प्रकृतिवै निवास स्थानम्.  
14 मयरहरह समुद्राणाम्.

## 9

सा वि तिविह णरजम्मि णिवंज्झइ  
 पित्तपयइ आरूसइ खणि खणि  
 गोरी बुद्धिवंत णहपिंगल  
 उण्णयसिहिणवरंगु मुणेज्जसु  
 सीयल्लु गंधु सेउं पंगुरणउं  
 सिंभपयइ सामल वण्णुज्जल  
 दिट्ठइ दोसि णिरुत्तउ चुक्कइ  
 सच्चं विणएं दाणं घिप्पइ  
 रइजल पोंभल मउ सोणीयल्लु  
 आयंवरिणह सोहियकमकर  
 कसण फरुस मरुपयइ विलासिणि

पित्तसिभमारुयहिं णिरुज्झइ ।  
 संतोसेवी धुत्ते दिणि दिणि ।  
 मउएं किज्जइ सा रइभिंभल ।  
 सीयल्लु तहि आलिंगणु देज्जसु ।  
 सीयल्लु ताहि जि सुरयारुहणउं । 5  
 अहिणवकयलीकंदलकोमल ।  
 पुणु जम्मि वि ण संमुहु दुक्कइ ।  
 इयरह पुणु तहि अंगु ण छिप्पइ ।  
 णिप्पडियंध चारु तणुपरिमल्लु ।  
 सुंदरि साहारणसुरयायर । 10  
 बहु आहारु लेइ बहुभासिणि ।

घत्ता—करकढिणपहारहिं सद्गहीरहिं पयडउं पहु विहु जइ रमइ ॥

परिभमणपरिक्खहि कालकडक्खहि तां कामग्गि ताहि समइ ॥ ९ ॥

## 10

जहिं पयइइ पयइइ फुहु भिण्णी  
 जिह पयइउ तिह विहिं विहिं जायइं  
 जाइउ देसिउ तिह मइं बुद्धउ  
 पहिलारउ संवत्तिसहवासं  
 आसंकइ चामीयरलोहं  
 वहइ असुद्धभाउ णारीयणु  
 आलोयंतहं संमुहुं जोयइ

सा तोंतडिय देहिं संकिण्णी ।  
 अंसयसत्तइं मइं विण्णायइं ।  
 भाउ दुविहु अविस्सुद्धु विस्सुद्धउ ।  
 वयपरिणामे दीहंपवासं ।  
 अंवरेहिं वि कारणसंदोहं । 5  
 तेण वि वेयारिज्जइ जडयणु ।  
 मुहुं वियसाँवइ करयल्लु ढोवइ ।

9 १ A P विवज्झइ. २ AP रइवेंभल. ३ AP उण्हय°. ४ A सीठ. ५ AP सीयल्लु सुरयाहरणउं. ६ APT णिप्पडियम्म, K णिप्पडियंध but records a p: णिप्पडियम्म इति पाठे संस्काररहितः. ७ AP °भवण°. ८ A तो.

10 १ A पइओ. २ P जणुउ. ३ AP सवित्ति°. ४ AP °पयासे. ५ AP अवरेण. ६ AP जडमणु. ७ AP विहसावइ.

9 3 b मउएं मृदुत्वेन, रइ मिंभल रतिविह्वला. 4 b सीयल्लु मन्दं मन्दम्. 5 b सेउ श्वेतम्. 6 b सिंभपयइ श्लेषप्रकृतिः, b °कंदल° आर्द्राङ्कुरः. 8 b इयरह अन्यथा. 9 a पोंभल प्रचुरम्, b णिप्पडियंध दुर्गन्धरहिता. 10 b साहारणसुरयायर साधारणे मन्दनिष्ठुरत्वरहितसुरतादरा. 11 a मरुपयइ वातप्रकृतिः. 13 परिभमणपरिक्खहि परिभ्रमणे आलिङ्गनचुम्बनकरणविशेषादिलक्षणे परीक्षा चतुरत्वं यस्याः, कालकडक्खहि कालेन तुल्यः कदाश्चो यस्याः.

10 1 b तोंतडिय मिश्रा. 4 b वयपरिणामे यौवनवयसा. 6 b वेयारिज्जइ विकार्यने.

सो वि देव विउसहि पालिज्जइ बुद्धिइ संकिण्णत्तणु णिज्जइ ।  
 मंडु तिक्खु तिक्खयरु पउत्तउ सुद्धभाउ तिहिं भेयहिं जुत्तउ ।  
 घत्ता—भल्लारउं णिवसणु रयणविहूसणु जोव्वणु णारिहिं हरइ मणु ॥ 10  
 तं पुणु पियदूएं णियडीहूएं मयणहुयासें डंइइ तणु ॥ १० ॥

11

ता तहि दूवि का वि पेसिज्जइ	ताइ भावसंभवु जाणिज्जइ ।
इंगिएहि देहुब्भवलिगहिं	कयणिण्णेहसणेहपसंगहिं ।
भुक्खइ भग्गी अण्णहु लग्गी	घणलंपडि कयखलसंसग्गी ।
गमणकंख णिहालस मत्ती	सुहिसोयाउर परगयचित्ती ।
रुद्धी णिट्टुर कट्टुपलाविणि	एही णउ सेविज्जइ भाविणि ।
सीयं विसोसिं परकुलउत्ती	एक्क वि एत्थु जुत्ति णउ जुत्ती ।
तो वि जाउ चंदणहि सुदेहिहि	मणअवहरणु करउ वइदेहिहि ।
ता पेसिय सो राएं तेत्तहि	तं वाणारसिपुरवरु जेत्तहि ।
गय गयणंगणेण सा खेयरि	पंडुरभवणावलि जोइवि पुरि ।
जोयंइ चित्तकूडु णंदणवणु	णं महिमहिलहि केरउं जोव्वणु ।

घत्ता—महुधारहिं सित्तउं णावइ मत्तउं मलयाणिलसंचालिउं ।  
 णवतरुवरसाहहिं पसरियवाहहिं णं णच्चंतु णिहालिउं ॥ ११ ॥

12

रुक्खमूलरोहियंधरायलं	कुसुमधूलिधूसरियणहयलं ।
कीलमाणसाहामयालयं	गंयणलग्गतालीतमालयं ।
विल्लचिल्लवेइल्लसद्वलं	हरिणदंतदरमलियकंदलं ।
सच्छविच्छुल्लुच्छलियजलकणं	अयरुदेवदारुयहिं घणघणं ।
विडविणिहसणुग्गामियहुयवहं	सुरहिधूमवासियदिसामुहं ।

८ A सा वि. ९ P तें पुणु. १० AP दहइ.

11 १ सीलविसेसिं. २ AP राएं सा. ३ AP वाराणसिं. ४ AP जोइय.

12 १ A सोहियं. २ AP बहुमाणहिंतालतालय. ३ P दरदरियं. ४ AP धूवं.

S a सो वि अशुद्धभावोऽपि, b संकिण्णत्तणु सर्वथा अशुद्धस्वरूपता परित्याज्य शुद्धाशुद्धरूपत्व नीयते.  
 10 भल्लारउ णिवसणु उत्तम वल्लम्.

11 4 b सुहिसोयाउर सुहिल्लोकदु खार्ता. 7 a चंदणहि शूर्पणखा, चन्द्रनखा द्वितीयं नाम, सुदेहिहि सुश्रुतीरायाः.

12 1 a रोहियं रुद्रम् 2 a साहामयं मर्कटाः. 3 a विल्लं चिन्ता. 4 b अरु अरुः कृष्णचन्दनः. 5 a णिहसणं निघर्षणम्.

परिशुलंतकंकेलिपल्लवं  
वालवेल्लिविलपहि णवणवं  
अलयवलयविलुलंतअलिउलं  
केयईरउक्खुसियमाणवं

पवणचलियमहिलुलियमहुलवं ।  
कीरकुररकारंडकलरवं ।  
विविहकीलणावासपविउलं ।  
रमियखयरजभिवददाणवं ।

यत्ता—तहिं पयडियभावइ बहुरसदावइ सिमुमाणिणिमणमोहणइ ॥ 10

जणइच्छियकोमलि वरवणुजालि णाइ कव्वि सुकइहि तणइ ॥ १२ ॥

## 13

उग्गयचंदणि उरगयचंदणे  
लोहियकंदइ सुहितरुकंदो  
वहियमोयइ कयरइमोयो  
लग्गपियाले णिच्चपियाला  
खगरावाले बहुरावाला  
महुयरगीए मणहरगीयेइ  
वहुपुहईरहि पुहइसमेया  
पइरिक्कामइ कामियकामा

उण्णयचंदणि कयजिणचंदणे ।  
गुरुमाइदइ जियमाइदो ।  
फुल्लासोयइ वियलियसोर्या ।  
कीलासेले धीर व सेला ।  
सरकमलाले गुरुकमलाला ।  
छोहियसीयइ ते सइ सीयेइ ।  
सिवए सिवढोइयरिउमेया ।  
लक्खणरामइ लक्खणरामा ।

५ A °कारडकुल्लवं. ६ A °रउ उक्खुसिय°.

13 १ AP °चदणे. २ AP °वदणे. ३ AP °कंदए. ४ AP °भायंटए. ५ AP °मोयए.  
६ P °सोया. ७ P °पियाले. ८ P वीर व सेला; T वीर वसेला वशा इला ययोस्तौ वगेलौ. ९ AP  
°गीयइ. १० A °गीया. ११ AP छाही°; T छाहिय°. १२ A सीया. १३ AP पयरिकीमए.

6 b °महुलवं °वसन्तलता यत्र. 8 a अलयवलय° अलकवलयवत्; °अलिउल भ्रमरकुल्लम्.  
9 a °उक्खुसिय° लिताः.

13 1 a उग्गयचंदणि उद्गतचन्दनवृक्षवने, उरगयचंदण हृदयलम्बचन्दनौ रामलक्ष्मणौ;  
b उण्णयचंदणि उन्नतरक्तचन्दने. 2 a लोहियकंदइ रक्तकन्दे वने, सुहितरुकंदा सुहृद्बुद्धेषु मेघौ  
b गुरुमाइदइ प्रचुराम्रवृक्षे वने; जियमाइदा लक्ष्मीः किल चन्द्रे कमले च वसति; लक्ष्मीसहितचन्द्रसदृशा  
राजानः ते जिता याम्यां तौ जितलक्ष्मीचन्द्रौ. 3 a वहियमोयइ मोचा कदलीवनम् तद्वर्धितं यस्मिन्  
कयरइमोया कृतरतिहर्यौ; b वियलियसोया विगलितनोकौ. 4 a लग्गपियाले गगनलम्बचारवृक्षे  
निच्चपियाला नित्यं प्रियायुक्तौ भार्यायुक्तौ; b कीलासेले क्रीडागिरौ; धीरवसेला पर्वताविव धीरो  
अथवा वसेला वशा इला पृथ्वी ययोस्तौ. 5 a खगरावाले पक्षिशब्दवति, बहुरावाला बहु प्रचुर रा  
द्रव्यं तस्य पालकौ, b सरकमलाले सरकमलयुक्तेः गुरुकमलाला गुरुकमयोर्लालकौ वाञ्छकौ. 6 a महु-  
यरगीए भ्रमरस्य गीतं शब्दो यत्र; मणहरगीयइ मनोहरग्रीवया सीतया सह प्रविष्टाविति संवन्व,  
b छाहियसीयइ छाहिका छाया शीतला यत्र वने. 7 a बहुपुहईरहि प्रचुरमहीरुहे वने, पुहइसमेया  
लक्ष्मणस्य पृथ्वी नाम महादेवी तथा सहितौ, b सिवए शिवदे सौख्यदे वने, सिवढोइयरिउमेया  
शिवानां शृगालीनां दक्षरिपुमेदसौ. 8 a पइरिक्कामइ पइरिक्कं प्रचुर असयं जलं यस्मिन्वने, कामिय-  
कामा अनुभूतवाञ्छितार्थौ, b लक्खणरामइ लक्ष्मणाः सारसास्तौ रामे रमणाये.

पंदणवणि छुडु छुडु जि पइटा  
सहुं अंतेउरेहि कीलारय

लंकेसरवरवहिणिइ दिट्टा ।  
गहियणवल्लुफुल्लमंजरिय ।

10

घत्ता—कयकिसलयकण्णउ कुसुमरवण्णउ णं देविउ वण्णवासिणिउ ॥

दुमसाहंदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायविलासिणिउ ॥ १३ ॥

14

काइ वि जणणयणहं रुच्चंतिइ  
सोहइ कमलु दुवासिहिं धरियउं  
णाइं कंडु रइणाहहु केरउ  
काइ वि समंउं वि हंसु चमकइ  
काहि वि ल्पणउ लग्गउ करयलि  
काहि वि णियडउं णं ओलग्गइ  
काइ वि उप्पल्लु सवणि णिहित्तउं  
कुवलयकिकिणिमालाजुत्तउं  
काइ वि जाइवि मंडुइ धरियउ  
संझाराणं णं मयलंछणु  
जाइहुल्लु अण्णइ तहु ढोइउं  
जाइवंत कि जाइ भणिज्जइ  
तो वि भडारी सीसें वज्झइ

मोरें सहुं सहासु णच्चंतिइ ।  
णालंतालिपिंछविच्छुरियउं ।  
दावइ सुरणरहिययवियारउ ।  
गइलीलाविलासि सो चुक्कइ ।  
जडु अण्णउं मण्णइ थिउ सयदलि । 5  
एणउ दीहकडक्खिउं मग्गइ ।  
कुम्माणउं णं णयणिहिं जित्तउं ।  
काइ वि वडु वेल्लिकडिसुत्तउं ।  
कुसुमरणेण रामु पिंजरियउ ।  
तेर्णं य सोहइ णं सारयघणु । 10  
अण्णइ सरसु वयणु संजोइउं ।  
जा महुरसरहिं माणिज्जइ ।  
अण्णकज्जि जणु सयलु वि मुल्लइ ।

घत्ता—सव्वंगहिं सुरहिउ वरमरुवउ पिउ रुणुहंटेप्पिणु धुत्तडिय ॥

मोग्गरउ मुण्णपिणु अंगु धुणेप्पिणु तासुंप्परि महुररि चडिय ॥१४॥ 15

१४ A उववण°.

14 १ AP दुवासिहिं. २ P दावइ ण सुर°. ३ AP समउं हसु चम्मकइ. ४ को माणउ त णयणहिं. ५ P मथइ, K मत्थइ but corrects it to मडुइ. ६ AP तेण जि ७ A धुत्तलिया. ८ AP जासुप्परि.

9 b लंकेसरवरवहिणिइ शूर्पणखया. 10 b °रय रतौ. 11 कयकिसलयकण्णउ कर्णे कृतकर्णपूरा. कुसुमरवण्णउ पुष्पैर्मनोहराः.

14 2 a दुवासिहि द्वयो. पार्श्वयोः, b णालंतालिपिंछविच्छुरियउ नालावसाने ये भ्रमरास्त एव पिच्छानि तैर्विस्फुरित्तम्. 3 a कडु काण्डो बाण.. 4 a चमकइ गच्छति. 5 b जडु मूर्खो भ्रान्त.. 6 b एणउ मृगः. 7 b कुम्माणउ स्थानम्. 8 a कुवलयकिकिणि° कुवलयान्येव किङ्किण्य. 10 a मयलंछणु चन्द्रः. 11 a जाइहु ह्यु जातीपुष्पम्. 12 a जाइवंत कुलीना विगिष्टपुष्पजातिः, जाइ जातिपुष्पम्. 13 b अण्णकज्जि आत्मन. कार्ये प्रयोजन यत्र वस्तुनि. 14 मव्वगहिं डाल्यासा-दिभिः, मरुवउ मरुवकः, धुत्तडिय धूर्ता भ्रमरी. 15 मोग्गरउ मोग्गरपुष्पम् तासुंप्परि तस्य मरुवकस्योपरि.



## 15

का वि कुंदकुसुमइं णियदंतहिं  
 वउल्लु परिकखइ णियतणुगंधं  
 क वि फुल्लिउ साहारु णिरिक्खइ  
 जंपमाणु णवकलियइ मत्तउ  
 धरिउ ताइ रूसिवि मणदूसउ  
 का वि उच्छुकरयल सुहकारिणि  
 का वि फुल्लमालउ संचोरइ  
 का वि पलासपसूयइं वीणइ  
 णिद्धइं रत्तइं कुडिलइं तिकखइं  
 काइ वि कोइल कसण णिरिक्खिय  
 संपहिं एहं वि वोळ्ळणसीली  
 एयहि सहु महुरु महुरउ विसु  
 जइ मैहं लक्खणु अज्जु रमेसइ  
 घत्ता—लयमंडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसंपण्णरइ ॥

जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहि ।  
 विंवीहल्लु अहरहु संवंधं ।  
 वाली हरिसांहारणु कंखइ ।  
 खरसंताउ ण मुणइ सइत्तउ ।  
 अग्गिवण्णु जायउ मुहि पूसउ । 5  
 णौवइ विसमसरासणधोरिणि ।  
 सरुं सरपंतितउ णं दक्खालइ ।  
 केकयंतणयहु पाहुडु आणइ ।  
 णाइ वसंतमइंदहु णक्खइं ।  
 पुंच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय ।  
 जणविरहाणलधूमं काली ।  
 दोहिं मि हम्मइ पवसितु माणुसु ।  
 ता हलि कल्लपलविउं सुहुं देसइ ।

णं<sup>3</sup> करिवरु करिणिहिं सहुं णियघरिणिहिं सरि पइसंति णराहिवइ ॥१५॥

## 16

सीयापंजलिपाणियसित्तहु  
 दीसइ रामहु उरि णालुप्पल्लु  
 कसणं हरिणा का वि महासइ

णं दप्पणयलि पुण्णपावित्तहु ।  
 सोहइ णं ल्लणचंदहु मयमल्लु ।  
 सित्ती णं महेण वणासइ ।

15 १ A ववल्लु. २ K<sup>1</sup> record a *p*: अथवा हरियासायणं चुम्बनम्. २ AP मुहि जायउ. ३ AP ण विसमसरसरा°. ४ A °धोरिणि. ५ AP संचालइ. ६ AP सर. ७ A केकइतणयहु, P केइयतणयहु. ८ A अच्छिय अवरइ विहसिय अक्खिय, P अच्छिय अवरइ विरमिवि अक्खिय. ९ P एह जि. १० AP वोळ्ळण°. ११ AP मह. १२ A कल्लवियउ. १३ P omits ण.

16 १ AP पाणियपंजलि°. २ A ल्लणयंदहु, P ल्लणइंदहु.

15 2 *a* वउल्लु वकुल्लपुणम्. 3 *b* वाली तरुणी, हरिमाहारणु वामुदेयेन सह वाहणुदम्. 4 *b* खरसंताउ विरहोसन्नस्तीव्रतायः; सइत्तउ नि.प्रयत्नितः. 5 *b* अग्गिवण्णु रत्तणं; मुहि मुहि, पूसउ शुकः. 6 *b* उच्छुकरयल इक्षुधृतकग, *b* विसमसरासणं कामयतुः. 7 *b* सरु हम्म. काम. 8 *a* °पसूयइं पुष्पाणि. 9 *b* वसंतमइंदहु वसन्त एव मृगैः सिंहस्य. 10 *b* दोहिं मि शत्रुवर्गि शुकमोक्षिलान्यां हन्यते परदेशं प्राप्नो नर. 11 *b* कल्लपलविउं कौशल्याया मधुमन्द.. 12 माणिवि भुक्त्वा, कील समाणिवि श्रीदां वृथा. 13 सरि मनेवरे.

16 1 *b* दप्पणयलि दर्पणसदृशे रुद्रे निर्मते इत्यर्थ. 2 *b* वणासइ वनस्य.

पं रोमावलिअंकुर मेल्लइ  
क वि घणथणफलसंपय दावइ  
सिंचिय सिंचिय हसइ सलीलउं  
काहि वि पियकरजलविच्छुलियहि  
अल्लउं परिहणु ढैलिउ विहाविउ  
काइ वि महुमहकंतिइ कालिउं  
सहियहु दांसिवि कँहिवि वियप्पिउं  
सिंचहि ललिय एह पोमावइ  
कुंकुमपिंडउ एयहि घल्लहि

मुहकमलेण णाहं पफुल्लइ ।  
सुंदरि वेल्लि अणंगहु णावइ । 5  
उच्छलंतकप्पूरकणालउं ।  
सुत्तजालु तुट्टुं कंचुलियहि ।  
लज्जइ सलिलि अंगु ल्हिक्काविउं ।  
रत्तउं सयदल्लु कण्हु णिहालिउं ।  
कण्णालगाइ काइ वि जंपिउं । 10  
विरहिणि जेण भडारा जीवइ ।  
एह देव वच्छयलें पेल्लहि ।

घत्ता—तं सुणिवि कुमारें माणवसारें एक्क धरिय चीरंचलइ ॥

अण्णेक्कहि जंतें दरविहसंतें मुक्कउं सलिलु थणत्थलइ ॥ १६ ॥

17

तं हारावलि तिम्मिवि<sup>३</sup>, पडियउं  
कहिं लब्भइ पियसंगे आयउं  
काइ वि वल्लहहत्थ गलत्थिय  
णहणिवडंत धरिय धवलामल  
का वि णियंविणि णाहहु णासइ  
सरि परिघोलिह सण्हउं पंडुरै  
का वि उरत्थलि चडिय उविदहु  
पत्तिणिपत्तइ पेच्छिवि जलकण  
क वि हियउल्लइ विभिय मंतइ  
का वि ण इच्छइ जलपक्खालणु

विहिणा किं णउ तेत्थु जि जडियउं ।  
काहि वि मणि उच्छल्लउं जायउं ।  
देहतावहंय ते जि समत्थिय ।  
तोयविंदु णावइ मुत्ताहल ।  
वणि णिम्मज्जइ दूरहु दीसइ । 5  
पाणियल्लि व कडइ अंवर ।  
णावइ विज्जुल अहिणवकंदहु ।  
हारु ण तुट्टुं अवलोइय थण ।  
अलयहं अलिहिं मि अंतरु चितइ ।  
कज्जलतिलयपत्तपक्खालणु । 10

३ AP पफुल्लइ. ४ AP पुल्लं, K records a ष पुल्लं. ५ A ण्हसिउ, P ल्हसिउ. ६ AP किण्हु.

७ A कह व. ८ AP एह ललिय. ९ A जेम भडारा णीवइ.

17 १ AP णं. २ P णिम्मिवि. ३ AP उच्छुल्लउं. ४ P °हत्थि. ५ AP °तावहर.  
६ P णहणियडत. ७ P पडरु. ८ AP तुट्टइ. ९ A जलपक्खालणु.

7 a °विच्छुलियहि स्नापितायाः. 8 a अल्लउं आर्द्रम्. 9 a महुमहकंतिइ मधुमथनो हरिस्तस्य कान्त्या पद्मं कृष्णं जातम् 10 b कण्णालगाइ कर्णे लगित्वा. 12 b वच्छयले वक्ष स्थलेन. 11 जंतें जलयन्त्रेण.

17 1 तिम्मिवि आर्द्रकृत्य. २ b उच्छल्लउ उत्सुकत्वम्. 3 b तेजि तावेव रस्तावेव 5 b वणि जले. 6 a सरि तडागे, सण्हउं श्लक्ष्ण सूक्ष्मम्, b पाणियल्लि व जलस्य त्वचा इव. अंवरु वल्लम् 7 a उविदहु लक्ष्मणस्य, b अहिणवकंदहु कृष्णमेवस्य. 8 a पत्तिणिपत्तइ पद्मिनीपत्रे. 9 a विभिय विस्मिता, मतइ विचारयति, b अलयह चूर्गकुन्तलानाम्, अलिहिं भ्रमरेणु.

उड्ड अंतरि करइंदीवरु  
चवलरहलिजलोहियकेली

तहु णवणोलु व थिउ धारासरु ।  
एम करोप्पिणु चिरु जलकेली ।

घत्ता - सरि ण्हाइवि णिग्गय णावइ दिग्गय थण्यलघुलियहारमणिहिं ॥

पयलियरसधारहु तलि साहारहु सहं णिसण्णु णियपणइहिं ॥१७॥

## 18

णावइ सीयसुरूवें णिज्जिय  
तहि अवसरि कंचुइ होएप्पिणु  
जोयइ सीय पसाहिज्जंती  
भालयलहु कलंकु परि किज्जइ  
का वि ण वंधइ मोत्तियकंठिय  
का वि कवोलइ पत्तु लिहेप्पिणु  
चित्तइ खेयरि माणणिसुंभहं  
रूवें सीयाए वि गुरुक्की  
हा हा हय किं कर्यउ पयावइ  
जासु एह कुल्लहरि कुलउत्ती  
णिच्छउ होसइ जित्तमहाहउ

विजाहरि तारुणें लज्जिय ।  
सा चंदणहिं तेत्थु आवेप्पिणु ।  
कवि संकइ तिलउल्लउ देंती ।  
एणं णं महं हासउ दिज्जइ ।  
कंबु पलोइवि णिहुणियं संठिय । 5  
जूरइ किं पह पहयं णिहेप्पिणु ।  
उव्वंसिगोरितिलोत्तमरंभहं ।  
पुरिसहं वम्महभल्लि व दुक्की ।  
दुक्करु रामेणु जोइवि जीवइ ।  
रिद्धि विद्धि तहु तहु जि धरिन्ती । 10  
धण्णउ पुण्णवंतु जगि राहउ ।

घत्ता—जरधवलियकेसइ कंप्पिरसीसइ मायारूवें भावियउं ॥

मणहरणवियंइइ खेयंरिवुड्डइ तरुणीयणु पहसावियउ ॥ १८ ॥

## 19

ता तहिं एक्क भणइ नृवरण्णी  
हलि हलि कंचुइ काइं णियच्छसि

का तुहुं किं कारणु अवइण्णी ।  
भणु भणु किं लिहिया इव अच्छसि ।

१० AP णालु थविउ. ११ P थणयलघुलियं.

18 १ सीयारूवें, P सीयासुरूवें. २ A चंदणवि. ३ P जोइय. ४ AP कंबु. ५ AP णिहुवी संठिय. ६ AP णिहिय पिहेप्पिणु. ७ A उव्वंसिगोरीं, P उव्वंसिमीणी. ८ AP कियउं. ९ A रावणु. १० A कुल्लहर. ११ A होसइ तहि जि मझाजउ. १२ A विसइइहे. १३ P खेयखुड्डइ.

19 १ A णिरवण्णी, P णिवरण्णी.

11 b तहु इन्दीवरस्य, धारासरु धाराजलम्. 12 a र्हलिं लहरी, कल्लोला. 14 सा हारहु आम्रवृक्षस्य.

18 1 b विजाहरि शूर्पणखा. 2 a कंचुइ वृद्धा; b चंदणहिं शूर्पणखा. 3 a पसाहिज्जंती विभूष्यमाणा, b कवि पुष्पदन्त., संकइ उच्चैश्चते. - 5 b कंबु ग्रीवा णिहुणिय निभृता निश्चला. 6 b पह पहय णिहेप्पिणु प्रभा प्रहता दृष्टा. 7 b गोरिं पार्वती. 9 a पयावइ हे हतविवे. 11 a जित्तमहाहउ जित्तसग्राम., b राहउ रामः. 13 वियइइ विदग्धया चतुरया.

19 1 a नृवरण्णी राज्ञी. b अवइण्णी अवतीर्णा आगता.

तं णिसुणिवि वोळ्ळैइ मायारी  
 तुम्हिहिं परभवि जं व्रैउं चिण्णउं  
 लद्धा जेण णाह हलहर हरि ।  
 तं मज्झु वि उवइसह वइत्तणु  
 ता तं सीयइ झ त्ति दुगुंछिउं  
 रयसलवासरि चंडालत्तणु  
 अण्णहि कुलि कत्थइ उप्पज्जइ  
 सयणविओयवसेण रुयंती  
 मंतिंकेज्जि णउ कासु वि भावइ  
 दूहउ दुट्ठु दुगंधु दुरासउ  
 असहणु अहणु कुडिलु जाणेव्वउं  
 घत्ता—जइ सइं चक्केसरु अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णरु जणणसमु ॥  
 चिंतेव्वउ णारिहिं कुलगुणधारिहि णउ लंघेव्वउ गोत्तकमु ॥१९॥

हउं मायरि वणवालहु केरी ।  
 जेणेहउं जायउं लायण्णउं ।  
 जेण लच्छि एही सवसुंधरि । 5  
 साहमि सर्वसा हं वि जुवइत्तणु ।  
 महिलत्तणु किं किज्जइ कुच्छिउं ।  
 णउ पावइ णियवंसपहुत्तणु ।  
 वड्ढंती अण्णेण जि णिज्जइ ।  
 बहलवाहविंदुयइं मुयंती । 10  
 जा जीवइ ता परवस जीवइ ।  
 अंधु बहिरु वाहिल्लु अभासउ ।  
 जो भत्तारु सो जि माणेव्वउ ।  
 चिंतेव्वउ णारिहिं कुलगुणधारिहि णउ लंघेव्वउ गोत्तकमु ॥१९॥ 15

20

विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं  
 रक्खइ पिउ अव्वत्तसिसुत्तणि  
 रक्खइ बुडुत्तणि तणुरुहु तिह  
 परवसहिंडण सयणाहारहु  
 बुद्धिइ बुद्धयालि णिब्भग्गिउ  
 किज्जइ जिणवरिदभासिउ तउ  
 रहिररसावहु अट्टियपंजरु  
 जहिं इंदियइं ण इच्छियकामइं  
 तं मग्गिज्जइ मोक्खमहासुहुं  
 हियवउं भिण्णउं तक्खणि एयहि  
 जाणियतच्चहि सच्चहि संतहि

अप्पउं तवचरणे दंडेव्वउ ।  
 रक्खइ तृयं पैइ पुणु पोढत्तणि ।  
 ण करइ किं पि वि कुलविप्पिउ जिह ।  
 महिल ण मुच्चइ कारागारहु ।  
 डज्जउ महिलत्तणु कि मग्गिउ । 5  
 तं मग्गिज्जइ जहि णउ संभउ ।  
 तं मग्गिज्जइ जहिं ण कलेवरु ।  
 जहि सुव्वंति ण जारहं णामइं ।  
 तं णिसुणिवि बुद्धिहि मउलिउं मुहुं ।  
 भरइं सीलु को खंडइ सीयहि । 10  
 जहिं एहउ वियण्णु गुणवंतहि ।

२ P भासइ. ३ AP वउ. ४ AP रामसामि°. ५ A मतकज्जि ६ P परवसि.

20 १ A डडेवउ. २ A अच्छत्तसिसुत्तणि. ३ AP तिय. ४ AP पुणु पइ. ५ A बुद्धिइ.  
 ५ A भणइ, 'I' भरइ चिन्तयति.

३ b मायरि माता. ४ b एहउ ईदग्गम्. 6 b साहमि साधयामि, सवसा त्ववशा जुवइत्तणु न्नीत्वम्.  
 8 a रयसलवासरि रजस्वलादिने. 10 b बहलवाह° प्रचुरवापम्. 11 a अनहणु डे'क'उ,  
 अहणु निर्धन.

20 2 a पिउ पिता. 3 b कुलविप्पिउ कुललाञ्छनम्. 4 a बुद्धिइ बुद्धया धरा, णिब्भ  
 ग्गिउ निर्भाग्य भाग्यरहितम्. 6 b जहिं यत्र मोक्षे, संभउ संभवो जन्म 10 b भरइ स्मरति  
 11 b वियण्णु स्त्रीजन्मनिन्दालक्षणो विकल्पः.

तहिं मइं धुत्तिई काइं करेव्वउं पासहिं हिंडिवि णवर मरेव्वउं ।  
 घत्ता—इय चितिवि सुंदरि णिवसैं णहयरि चंचलगय गयणंगणइ ॥  
 थिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लंकाहिवघरप्रंगणइ ॥ २० ॥

## 21

अंजणसामहु लच्छिविलासहु	णविवि ताइ विण्णविउ दसासहु ।
देव दियंतदंतिदंतच्छवि-	जसपसरणयर जगपंकयरवि ।
पइं इच्छइ सा जइ सिहि सीयलु	जइ ठाणाउ चलइ धरणीयलु ।
जइ णियमेण वसंति ण सायर	जइ पडंति सिसिरयर दिवायर ।
जइ जिणु राएं दोसैं छिज्जइ	तो पइं सीय खगिद रमिज्जइ । 5
तं णिसुणिवि दहवयणें वुच्चइ	अवसु वि वसि किज्जइ जं रुच्चइ ।
किं विसभइयइ फणिमणि मुच्चइ	अलसहु सिरि दूरेण पवच्चइ ।
सुहिसयणत्तणु पुरिसपहुत्तणु	गिरिर्मसिणत्तणु सइहि सइत्तणु ।
दूरयरत्थु सुणंतहं चंगउं	पासि असेसु वि दरिसियभंगउं ।
हरमि सीय किं पडरपलावें	ता सा पुणुं वि कहइ सम्भावें । 10
दहमुह एउ अजुत्तु अकित्तणु	इय वोळंति संति मंतित्तणु ।

घत्ता—चंदणहि णिवारिवि असिवरु धारिवि सुरसंमरओहिं असंकियउ ॥  
 भरहद्धणरेसरु सुरकरिकरकरु रीवणु पुष्पयंति थियउ ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वमरहाणुमणिणए  
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे णारयआगमणं रीवणमणखोहणं  
 णाम एकहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७१ ॥

६ A धुत्ते, ७ P णिविसैं. ८ AP ०पंगणइ.

21 १ A ०दतहो छवि. २ A ०पसरणजगवणपंकय०, P ०पसरणपर. ३ A इच्छइ पइं जइ  
 सा. P इच्छइ पइं सा जइ. ४ A ससिरयर. ५ A पय. ६ AP गिरिहि महत्तणु. ७ AP कहइ पुणु वि.  
 ८ P अखत्तणु. ९ A ०समरेहि असं, P समरउहे असं. १० P रामणु. ११ AP रामणखोहणं.

13 णि वसैं निमेषेण.

21 2 b ०छ वि जसपसरणयर शुक्कयज्ञःप्रसरणकर. 3 a जइ सि हि सीयलु चेदमिः  
 शीतलः तहिं सीता त्वा वाञ्छति, b ठाणाउ स्थानात्. 4 b सि सिरयर गिशिरकरश्चन्द्रः. 5 a छिज्जइ  
 क्षीयते. 6 b अवसु अवशमपि वस्तु. 7 a ०भइयइ ०भवेन. 8 a सुहिसयणत्तणु सुहदा सुहत्वं दूरस्य-  
 मेव श्रूयते, b गिरिमसिणत्तणु गिरेर्मसृणत्वं क्रौमलत्व रम्यत्वम्. 9 a दूरयरत्थु दूरतरत्यानाम्.  
 11 b वोळंति संति वृवाणा सती 12 सुरसंमरओ हिं अमकियउ सुरसंमरसमूहान्न भीतः. 13 पुष्प-  
 यंति पुष्पकविमानमध्ये.

सहुं मारीयण पदु मुक्कदेसजइसंजमु ॥  
पुप्फविमाणे थिउ गउ सीयहरणकयउज्जमु ॥ ध्रुवकं

1

कामवाणोहविद्धेण मुद्धेण णो किं पि आलोइयं  
ता विमाणं विमाणे णहे राइणा तेण संचोइयं ।  
तारयाऊरियायाससंकासवद्धुज्जल्लोवयं  
हेमघंटाविसट्टंतटंकारसंतासियासागयं ।  
चारुचंदकभाभारि माणिककंसमुक्कञ्जुवुक्यं  
वाउधुव्वंतकेऊलयालोलणाइण्णदिच्चक्यं ।  
तुंगसिगगणिच्चिण्णणीलव्वसच्छंघुधारोल्लियं  
वोमपोमायेरे हंसवत्तम्मि पोमं वै पप्फुल्लियं ।  
दिण्णध्रुवं रयक्खं गवक्खंतलंवर्तंभिगंचियं  
पक्खिसेहीरंसारंगमायंगउक्किण्णरूवंकियं ।  
वद्धसोहिल्लकप्पंधिर्बुद्धयपत्तावलीतोरणं  
इंदणीलंसुकालं असीयंसुसीयंसुणिव्वारणं ।  
तेयवंतं णहुम्मिल्लकंतिल्लदिव्वत्थसोहावहं  
भम्मपिगं पलित्तं व सत्तच्चिणा रंजियासावहं ।  
कित्तिवेल्लेइ फुल्लं व सेयं दसासालिणा माणियं  
जायवेयं कुधीरेण धीरेण वाणारसी आणियं ।

5

10

15

घत्ता—दिट्टउ तेत्थु वणु अण्णेक्क वि सीयहि जोव्वणु ॥

रावणु चितवइ विहि समसंजोयवियक्खणु ॥ १ ॥ 20

1 १ P °विवाणे. २ P सीयाहरण°. ३ AP माणिक्कणिम्मुक°. ४ A हसवंतम्मि. ५ P च  
पुप्फुल्लियं. ६ AP गवक्खंतलगत°. ७ A °सीहीर°. ८ AP °धिउव्वभूय°. ९ P omits सुसीय°.  
१० A धीरेण.

1 2 °कयउज्जमु कृतोद्यमः. 3 आलोइय विचारितम्. 4 विमाणे विगतमाने अनन्ते  
नभसि. 5 तारयेत्यादि तारकापूरिताकागसदृश बद्धोज्ज्वलचन्द्रोपकम् ( °वितानम्). 6 °विसट्टतटंकार-  
संतासियासागय विसर्पन्तः टकाराः तै सत्रासिता दिग्गजा येन 7 °च दकभाभारि मयूरपिच्छ सुवर्णे  
वा तस्य प्रभाधारि, °ञ्जुवुक्य °स्तब्रकम्. 8 वाउधुव्वंतकेऊलया° वातान्दोलितध्वजलता. 9 °धारो-  
ल्लिय धाराद्रम्. 10 वोमपोमायेरे गगनसरोवरे, हसवत्तम्मि सूयवति. 11 रयक्ख रक्ताक्षमासक्ते-  
न्द्रियम्, °भिगचिय °भृङ्गसहितम्. 12 °सेहीर° सिंहः. 14 इंदणीलंसुकाल इन्द्रनीलकिरणकृष्णम्,  
असीयसुसीयसुणिव्वारण सूर्यचन्द्रकिरणनिषेधकम्. 15 °दिव्वत्थ° दिव्यास्त्राणि दिव्यप्रहरणानि.  
16 सत्तच्चिणा अग्निना. 17 दसासालिणा दशास्यो रावण स एव भ्रमरस्तेन. 18 जायवेयं जात-  
वेगम्; कुधीरेण कुबुद्धिदायकेन.

## 2

वणु दीसइ णच्चियणीलगलु  
 वणु दीसइ णिम्मलभरियसरु  
 वणु दीसइ संचरंतकमलु  
 वणु दीसइ ललियलयाहरउं  
 वणु दीसइ कालालिंगियउं  
 वणु दीसइ अलयतिलयसहिउ  
 वणु दीसइ फुल्लाओयतरु  
 वणु दीसइ दुग्गउं कंचुइहिं  
 वणु दीसइ तरुकीलंतकइ  
 वणु दीसइ मूलणिरुद्धरसु  
 वणु दीसइ वड्डियधवलवलि  
 हियउल्लउं कामसरहिं भरिउं

सीयहि जोव्वणु मणमीणगलु ।  
 सीयहि जोव्वणु णिरु महुरसरु ।  
 सीयहि जोव्वणु वरमुहकमलु ।  
 सीयहि जोव्वणु विवाहरउं ।  
 सीयहि जोव्वणु सालिंगियउं । 5  
 सीयहि जोव्वणु विहलीसहिउ ।  
 सीयहि जोव्वणु परसोययरु ।  
 सीयहि जोव्वणु धरकंचुइहिं ।  
 सीयहि जोव्वणु वण्णांति कइ ।  
 सीयहि जोव्वणु कयमयणरसु । 10  
 सीयहि हारावलि धवलवलि ।  
 लंकालंकारे संभरिउं ।

घत्ता—इय एयहि तणउ णरु माणइ जो णउं जोव्वणु ॥

मंदिह परिहरिवि रिसि होइवि सो पइसउ वणु ॥ २ ॥

## 3

अहो कयत्थो भुवणंतरे हली  
 पलोयए लोयणएहिं संमुहं

महेलिया जरस धरम्मि मेहली ।  
 मुहेण मल्लंति विउंवए मुहं ।

2 १ A मणिणीलगलु. २ A धर. ३ P °णिवद्धरसु. ४ A वल्लियधवल°. ५ AP ण वि.

3 १ P लोयणेहिं. २ A विओवए, P विउवए.

2 1 a °णीलगलु मयूरः, b मणमीणगलु मनोमत्स्यस्य बन्धने गलो लोहकण्टकः.  
 2 a °भरियसरु °भृतसरोवरम्, b महुरसरु मधुरशब्दयुक्तम्. 3 a संचरतकमलु प्रवहजन्मं.  
 4 a ललियलयाहरउं मनोहराणि लतागृहाणि यस्मिन्वने, b विवाहरउं विम्ब पकतुण्डीरकं तज्जुल्योऽध-  
 रोष्ठो यत्र यौवने. 5 a कालालिंगियउ कालाश्च ते अलयश्च तेषामिद्धित चेष्टितं यत्र, b सालिंगियउ  
 लक्ष्म्या चिह्नितमालिङ्गितं वा. 6 a अलयतिलयसहिउं अलमत्यर्थे तिलकवृक्षसहितम्, b विह-  
 लीसहिउं विशेषेण हलीशस्य रामस्य हित सुखदम्. 7 b परसोययरु परेषा शोककारकम्. 8 a कंचु-  
 इहिं सर्पैः; b धरकंचुइहिं गृहमहल्लङ्घनैः. 9 a °कइ कपयः, b कइ कवय. 10 a °रसु जलं पृथ्वी  
 वा; b कयमयणरसु कृतकामरसम्. 11 a वड्डियधवलवलि वर्धिना धवाश्च लवल्यक्षन्दनलनाक्ष  
 यस्मिन्; b धवलवलि धवला कण्ठे वलिता च. 12 a कामसरहिं कामवाणं, b लंकालंकारे लक्ष्म्या  
 अलंकारभूतेन रावणेन; संभरिउं विन्तितम्.

3 1 b मेहली मैथिली सीता. 2 b मल्लंति हर्षमाणा, विउंवए चुम्बति.

हरामि पयं कवडेण संपयं  
 उयार मारीयय होहि तं मथो  
 कुकम्मए मंतिवरो णिवेसिओ  
 जसो ण जाओ भुवणंतमेरओ  
 भणामि किं सिभजरे पयं पियं  
 तओ विसाएण वियारियंगओ  
 णिसण्णिया जत्थ धरासुया सई  
 कुरंगओ वालतणंकुरासओ  
 णियच्छिओ दिट्ठिमओ खण्णओ  
 महीरुहाए भणियं हिया सयं  
 णरिद हे राम पुलिंदकायरं  
 अणेयमाणिक्कमयं मयं महं

करेइ मंती महिणाहसंपयं ।  
 खुरेहिं सिगेहिं जवेण तम्मओ ।  
 विचितए हा विहिणा णिवे सिओ । 5  
 कहं परत्थीरमणे तमे रओ ।  
 दुलंगमेयं पट्टणा पयंपियं ।  
 खणेण होऊण मथो तहिं गओ ।  
 पिए मणो जीटं समप्पिओ सइं ।  
 सुयाहिरामंकियरामरासओ । 10  
 विचित्तपिट्ठोहमऊरवण्णओ ।  
 इमं महं लोयर्णलोलणासयं ।  
 रण्णं गंतुं धरिऊण कायरं ।  
 कुलीण दे देहि णिर्यच्छिमो महं ।

घत्ता—णिसुणिवि प्रियवयणु सो रामे दीसइ केहउ ॥ 15  
 सावउ चित्तलउ चलु मणु काउरिसइं जेहउ ॥ ३ ॥

4

पविरलपएहिं लंघंतु महि  
 थोवंतरि मणहरु जाइ जवि  
 पहु पाणि पसारइ किर धरइ  
 दूरंतरि णियतणु दक्खवइ

लहु धावइ पावइ दासगहि ।  
 फह कह व करंगुलि छित्तु ण वि ।  
 मायामउ मउ अग्गइ मग्ग ।  
 गेलइ दरिसावइ मंद्गइ ।

३ AP हरेमि. ४ A स्मणतमेरउ. ५ A जाउ. ६ A लोउणणेयगाम्म. ७ A गएण गुण. ८ T णिउ  
 स्थियामह पदवाम्यहं, पदवामि तेजः ( उल्लव. ? ). ९ AP पियवयणु.

3 a सपय संप्रति इदानीम; मणिणाहसपय मरीनायम्य मयदम्. 4 a उयार उयार भयान, मथो मथ, b तम्मओ तन्मयस्तदाकृति.. 5 a कुकम्मए कुत्तिगममि. 6 णिवेसिओ, णिवे सिओ णिवे सिसओ, 6 a जसो ण जाओ म्म इण न जातम् भुवणतमेरओ णि पत्तान्तमेरओ ( म्म ) 7 मंतिवरो जरे रओ रत्त. 7 a सिभजरे पय पिय श्रेयसाके पय पियम् 8 विसाएण प्रणियण कियण, 9 a विहाए ण वियारियंगओ विसाडेण नेडेण वियारियङ्ग; 9 मणे म्म 10 सुयाहिरामंकियरामरासओ, 10 a सुयाहिरामंकियरामरासओ, 11 इमं महं लोयर्णलोलणासयं, 11 a विचित्तपिट्ठोहमऊरवण्णओ, 12 a महीरुहाए भणियं हिया सयं, 12 a महीरुहाए भणियं हिया सयं, 13 a णरिद हे राम पुलिंदकायरं, 13 a णरिद हे राम पुलिंदकायरं, 14 a अणेयमाणिक्कमयं मयं महं, 14 a अणेयमाणिक्कमयं मयं महं.

4 1 a उयार उयार, 2 a उयार उयार, 3 a उयार उयार, 4 a उयार उयार



णवदूचाकंदकवलु भरइ  
कच्छंतरि सच्छसलिलु पियइ  
सुयचंचुघायपरियलियफलि  
खणि वेळिणिहेलणि पइसरइ  
ओहच्छइ अइकोडुवणउ  
इय चिंतिवि राहउ संचरइ  
धरिओ वि करगहु णीसरइ  
णिइइयहु किं करि चडइ णिहि

तरुवरकिसलयपल्लव चरइ । 5  
वंकियगलु पच्छाउहुं पियइ ।  
खणि दीसइ चंपयचूयतलि ।  
अण्णणपर्वसहिं अवयरइ ।  
लइ माणमि णयणसुहावणउ ।  
पसु पुणु धरणास तासु करइ । 10  
कहिं वेसायणु कहिं णीसरइ ।  
कहिं कवडहरिणु कहिं बंधविहि ।

घत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु णं कुवाइहत्थहु रसु ॥

थिउ दसरहतणउ समणीससंतु विंभियवसु ॥ ४ ॥

## 5

भयणभूमिआयासगामिणो  
दवंदेव जयलच्छसंगमो  
ता ससकैतेल्लोक्करामेणो  
कासकुसुमसंकासदेहओ  
कसणवाससोहियणियंबओ  
झ त्ति जणयतणयासमीचयं  
वइरिमाणणिम्महणसत्तिणा  
दूरयं पि मणपवणवेययं  
आणियं मए हरिणपोययं  
ता सईइ अवलोइओ मओ

मंतिणा वि कहियं ससामिणो ।  
वंचिओ रहरायपुंगमो ।  
राम एव रूवेण रावणो ।  
चावधारि णं सरयमेहओ ।  
हत्थणिहियमणिमयसिलिंविओ । 5  
आगओ कयाणंगमावयं ।  
भासियं कुसीलेर्णं णं तिणा ।  
पंचवण्णमाणिक्कतेययं ।  
कुणसु देवि कीलाविणोययं ।  
णं सुदूसहो दुक्खसंचओ । 10

4 १ AP °कमलु. २ AP तरुवरपल्लवकिसलय. ३ AP पच्छासुहुं. ४ AP °परिगलिय°. ५ P °चूययलि. ६ P पवेसहिं. ७ P इहु अच्छइ. ८ A णिइइयहु कहिं करि, P णिइइवहु करि कहिं.

5 १ A गयणभूमि°, T भयणभूमि°. २ A वणि वइइ रहुवसपुंगमो, P वणि पइइ रहुवसपुंगमो. ३ A ससक°. ४ P तइल्लोक्क°. ५ AP °रावणो. ६ A °सिलिंविओ, ७ A °तावयं, ८ A कुसीलेण संतिणा. ९ A दूरियं.

6 a कच्छतरि वनमद्ये, b पच्छाउहु पश्चान्मुखम्. 7 a सुयेत्यादि शुक्रचञ्चुवातपरिगलितफले आम्राद्ये. 9 a ओहच्छइ एए तिष्ठति. 10 b धरणास धारणास्याजाम्. 11 b वेसायणु वेश्याजन., णीसरइ नि.त्वानां दरिद्राणा रति. क. 12 a णिइइयहु निर्भाग्यस्य. 13 रसु पारद. 14 सम° श्रमेण विंभियवसु विस्मितस्य विदमयस्य वशः.

5 1 a भयणभूमिआयास° नक्षत्रसमूहाधिष्ठानमाकाशम्. 3 a °रामणो °आनन्दन., 4 a °सकासदेहओ °उज्ज्वलनरीर. 5 b °सिलिंविओ मृगः. 6 b °भावयं अभिलाषणम्. 7 b तिणा रावणेन. 9 a हरिणपोययं हरिणत्रालकम्.

विष्पुरंततणुकिरणमालओ  
विंभियाबलायाणमाणिया

विरहसिहि व वित्थिण्णजालओ ।  
रयणिगमणाचिंघेण भाणिया ।

घत्ता—पिए जरदिवसयरु अत्थंगउ दीसइ रत्तउ ॥

जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थहु को णासत्तउ ॥ ५ ॥

## 6

उज्झिऊण इंदियसमं  
सव्वत्थ वि भंइं सियं  
बुद्धं कि पि णवं च णं  
तं धरणीयलरूढिया  
उववणवासविणिग्गयं  
दहवयणेण विलासिणा  
तीए पुरओ दावियं  
सा तुरियं लंकं णिया  
सारसजुयमाणियवाणि  
माणवाहिरामं गओ  
पयडीकयससरीरओ  
इर भुवणयले विस्सुओ

सविमाणं सिवियासमं ।  
तीए तेणं दंसियं ।  
णं हु खलरइयं वंचणं ।  
अमुणंती आरूढिया ।  
अप्पाणं हरिवरगयं ।  
रिउकित्तीयविलासिणा ।  
वइयालियसदावियं ।  
वम्महधणुगुणकणिया ।  
संणिहिया णंदणवणि ।  
दूरमुक्करामंगओ ।  
भूहरभेइसरीरओ ।  
रक्खकेउ माहिवइसुओ ।

5

10

घत्ता—कालउ दहवयणु णवमेहु व दुहयरु सीयइ ॥

पियविरहाउरइ दिट्ठउ कंठट्ठियजीयइ ॥ ६ ॥

१० A भासिया.

6 १ A महासिय. २ P तहु खल°. ३ AP पुरउ. ४ P वम्महु. ५ AP इह.

11 वि त्थि ण्ण जाल ओ विस्तीर्णज्वाल 12 a वि भि या विस्मिता, अबला सीता, अयाण मा णि या मायापुरुषमजानती, b रयणि ग म ण चिं घे ण राक्षसध्वजेन रावणेन. 13 पिए हे प्रिये. 14 णा सत्तउ न आसक्त .

6 1 a इ दियसम इन्द्रियखेद शरीरश्रमम्, b सि वि या स म शिविकाकृति. 3 a-b बुद्धं किं पि णव च ण नव जन्म अपूर्वं विमान च ण एतत् ण हु न खलु बुद्धम्, b वंचण मृगलक्षण वञ्चनम्. 4 a धरणी यल रूढिया भूमण्डले प्रसिद्धा सीता. 5 b हरिवरगय अश्वारूढम्. 6 a विलासिणा विलासयुक्तेन, b रिउकित्तीयविलासिणा रिपुकीर्तिरेव अविला मेढिका, गडुरिका इत्यर्थः, तस्याः असिना खड्गेन. 7 b वइयालियसदाविय वैतालिकशब्दवर्णितम् 8 b °कणिया त्राणविशेषः. 9 a °वणि जले. 10 a मा ण वा हि रा म ग ओ मनुष्यरमणीयता प्रात b °राम ग ओ रामशरीरवेप., भूहरभेइसरीरओ भूधरभेदिनी चासौ सरेच्च तद्वद्रयो वेगः शब्दो वा यस्य. 12 a इर किल प्रसिद्धौ; b रक्खकेउ राक्षसध्वज ; म हि व इ सु ओ पुलस्तिपुत्रः. 14 कंठट्ठिय जी य इ कण्ठस्थितजीवितया सीतया.

7

चित्तं मउलंतं मउलियउं  
 आपंडुरंतु गंडत्थलइ  
 कढकढकढंति ससहरपहइं  
 कां दिसि केणाणिय कँव कहिं  
 इय चितवंति मोहेण ह्य  
 पइवय परपइवयभंगभय  
 भत्तारविओयविसंतुलियं  
 णं कामभल्लि महियलि पडिय  
 सुहिसुंयरणंपसरियवेयणिय  
 परिहाणु ण तो वि ताहि ढलइ

लोयणंजुयलंसुउ पयलियउं ।  
 विलसिउ विलसिइ विरहाणलइ ।  
 अंगइं लायण्णवारिवहइं ।  
 को पावइ एवहिं रामु जहि ।  
 परपुरिसु णिहालिवि मुच्छ गय । 5  
 णं पवणं पाडिय ललिय लय ।  
 विहिवस सिलसंकडि पक्खलिय ।  
 णं वाउल्लिय कंचणघडिय ।  
 सा जइ वि थक्क णिच्चेयणिय ।  
 चल जारदिट्ठि कहि परिघुलइ । 10

घत्ता—दढणिवसणु सइहि सुहडहु करासि ण वियट्टइ ॥

मराणि समावडिइ परियरिविहि विहिं वि ण फिट्टइ ॥ ७ ॥

8

परदारलुहु दुक्कंतु खलु  
 रावण किं आणिय परजुवइ  
 वणु णाईं करइ साहुद्धरणु  
 अलि कण्णासण्णउ रुणुरुणइ  
 इच्छइ दससिरु पररमणिसुहुं  
 णं सो वि णिवहु उव्वेइयउ  
 दुज्जसु महु महणिहु महहि जइ  
 हंसावलि लवइ व लोयपिय  
 मा मइलहि माणिवि एह तिय  
 अंवउ लोहियपल्लवल्लिउ

किं लज्जइ कहिं मि गामकमलु ।  
 तरु चुयसिण्हंसुएहिं खवइ ।  
 हा पत्तउं णारिरयणमरणु ।  
 पहु एउं अजुत्तु णाईं भणइ ।  
 कणइल्लउ वंकिवि जाइ मुहुं । 5  
 कोइल्लु विलवंतु व आइयउ ।  
 वइदेहि भडारा रमहि तइ ।  
 मइं जेही तेरीं कित्ति सिय ।  
 मा णासहि लंकाउरिहि सिय ।  
 णं णिवअण्णायसिहि जल्लिउ । 10

7 १ P °जुउ असुय. २ A आपंडुरत्थु. ३ AP का दिस. ४ A विसडुलिया. ५ A सुहि-  
 सुअरण°, P सुहिसुमरण°. ६ AP परियरविहि.

8 १ P रामण. २ A त सो ३ A कोकिल. ४ A तेही कित्ति.

7 1 a मउ लियउ नेत्रमपि मुकुलितम्. 3 a कढ कढ कढ ति अतिशयेन दहन्ति; ससहर-  
 पहइं चन्द्रकिरणप्रहतानि अङ्गानि. 6 a पइवय पतिव्रता. 7 b सिलसकडि शिलामकटे प्रदेशे.  
 8 b वाउल्लिय पुत्तलिका. ९ a °मुयरण° स्मरणम्, b णिच्चेयणिय अचेतना. 10 a परिहाणु  
 परिधान वस्त्रम्. 12 परियरिविहि परिकरयन्वः.

8 1 b गामकमलु श्वा पुश्रल. कुक्कुरः. 2 b चुयसिण्हंसुए हिं च्युतो'णाशुभिः. 1 a कण्णा-  
 सण्णउ कर्णसमीपस्थः. 5 b कणइल्लउ शुकुः. 6 a णिवहु नृपात्. 7 a महुमएणिहु मत्तेज-  
 सहस्रं, कृणमित्यर्थः, महहि वाञ्छसि. 10 a अवउ आम्रवृक्षः, b °सि हि °अग्निना.

चंदणु पुणु विसहर दक्खवइ  
रामाणीरमणकम्मतुरिउ

पडिवक्खंवाणमाणु व थवइ ।  
खर्यरिदं मणु मडुइ धरिउ ।

घत्ता—परवस परमसइ जइ छिवमि करं थणु पेळ्ळिवि ॥  
अंबरयारिणिय तो जाइ विज्ज मइं मेळ्ळिवि ॥ ८ ॥

## 9

इय णिज्जाइवि पंकयकरिहिं  
जीवावहु भावहु कंह वि तिह  
ता तरलइ तारइ णाइणिइ  
अंविउलइ अंवइ अंवालियइ  
पियछंदइ णंदइ णंदिणिइ  
कप्पूरपूरपरिमलजलइं  
सीयहि अंगंगि रमंति किह  
णियपत्थिवपेसणकारिणिहिं  
दहमुहवहदाइणि कालणिह  
उट्टिय परणरणिट्टुरहियय

आपसु दिणु विज्जाहरिहिं ।  
मइं इच्छइ सुंदरि अज्जु जिह ।  
चंपयमालइ मंदाइणिइ ।  
मयमत्तइ मल्लणसीलियइ ।  
रइरुंदइ चंदइ चंदिणिइ । 5  
पल्लत्थियाइ हिमसीयलइं ।  
सीयइं रहुवइअंगंगं जिह ।  
लहु विज्जिय चामरधारिणिहिं ।  
संधुक्किय णं खयजलणसिह ।  
संचितइ हा हउं कि ण मय । 10

घत्ता—हा रहुवंसपहु हा लक्खण कंहिं पइं पेच्छमि ॥  
दावहि तां व मुहुं जांवज्जु जि मरेवि ण गच्छमि ॥ ९ ॥

## 10

चउपासिहिं थियउ णियच्छियउ  
भणु भणु संदेहु मज्जु हुयउ

पुणु खंयरपुरंधिउ पुच्छियउ ।  
णिवु कालउ जमु कि वा मणुउ ।

५ पडिवक्खमाणमाणु व. ६ AP खर्यरिदं. ७ A मडइ. ८ P ता जाइ विज्जु.

9 १ A कह व. २ AP अवलोइय अवं बालियए. ३ AP रुइरुंदइ. ४ AP कप्पूरपउर°. ५ A पइ कंहिं पेच्छमि. ६ AP मरेवि.

10 १ AP खर्यरे°.

11 b थ व इ स्थापयति. 12 a रा मा णी° रामभार्या. 14 a अ व र या रि णि य आकाशगामिनी, विज विद्या.

9 1 a प क य करि हिं कमलसदृशकरयुक्तानाम्. 2 a जी वा व हु जीवापयत, भा व हु मा भाव-  
यन्तु, मसोपरि रुचिं कारयन्तु इत्यर्थः. 3 a तर ल इ तरलानाम्. 6 b प ल ह त्थि या इ आवर्जितानि.  
7 a अं गं गि शरीरावयवेषु, b सी य इ शीतलानि. 9 a °व ह दा इ णि व ध दा त्री. 10 a उ ट्टि य  
सावधाना जाता.

10 2 a णि वु युष्मन्नृपः

पुरि एह कवण किं जमणयरि  
जसु तलवरु जमु किर भणइ जणु  
जसु इंदु वि संगरि थरहरइ  
जसु वांसइ वइसाणरु धुवइ  
जसु अगइ णडइ सरासइ वि  
जसु पंगणि मेहहिं दिण्णु छडु  
सो एयहि लंकहि एहु पइ  
भत्तारु समिच्छहि माइ तुहुं

तावेक पजंपइ तहि खयरि ।  
जसु देइ णिच्च वइसवणु धणु ।  
जसु मारुउ घरक्यारु हरइ । 5  
दिक्करिउल्लु णामें मउ मुयइ ।  
कुसुमंजलि धिवइ वणासइ वि ।  
जसु को वि णात्थि पडिमल्लु भइ ।  
रावणु णामें तिहुवणविजइ ।  
अणुभुंजहि इच्छियंकामसुहुं । 10

घत्ता—सामिणि राणियहं णीसेसहं होइवि अच्छहि ॥

महएवित्तणयहु परमेसरि पट्टं पडिच्छहि ॥ १० ॥

## 11

किं किज्जइ हरिणु अधीरमइ  
किं किज्जइ दीवउ तुच्छछवि  
किं किज्जइ वाइसु जइ गरुल्लु  
किं किज्जइ खरु जइ दुद्धरहु  
किं किज्जइ पिप्पलु सलसलिउ  
किं किज्जइ राहँउ मुद्धि तइ  
ता सीयइ उत्तरु मणि थविउ  
जहिं कंकु रायहंसु व गणिउ  
जहिं गुणवंतु वि दोसिल्लसमु  
ते विउस पसंसिय विउँसजाणि

जइ लब्भइ सीहकिसोरु पइ ।  
जइ अंधयारु णिट्ठवइ रवि ।  
सुपसण्णु होइ बहुवाहुवल्लु ।  
पाविज्जइ कंधरु सिधुरहु ।  
जइ दीसइ सुरंतरुवरु फलिउ । 5  
रावणमहिलत्तणु होइ जइ ।  
एयइ अण्णाणिइ किं लविउ ।  
एरंडु कप्परुक्खु व भाणिउ ।  
तहिं जे विरयंति वयणविरमु ।  
णिक्खिवइ बुद्धि को मुक्खयणि । 10

घत्ता—पेयहु तणउं मुहुं वियसावइ को जगि चुंघिवि ॥

इय चिंतिवि हियइ मोणव्वउ थिर्य अवलंविवि ॥ ११ ॥

२ A घरु क्यारु. ३ AP वत्थइ. ४ A omtis this foot. ५ A इच्छिउ काम°. ६ A महएविहि तणउ, P महएवीए पहुत्तणहु. ७ A पडु.

11 १ A सीहु किसोरु. २ AP वायनु. ३ P गरु. ४ AP सुरक्करु. ५ AP गमैं. ६ AP विउसयणि. ७ A मुक्खमणि. ८ A थिउ.

5 b घरक्यारु गृहकचवरपुञ्जः. 6 a वासइ वज्राणि, b मउ मउम्. 7 b वणासउ वनस्सतिर्दन-देवता. 12 महएवित्तणयहु महादेवीत्वत्य महादेवीपदत्य.

11 1 b सिधुरहु गजत्य. 5 a सलसलिउ शब्दं कुर्वाणः कर्मानानी वा. 6 a गहउ राम°. 8 a कंकु वक.. 9 b विरयंति वयणविरमु वित्तयन्ति वचनविगमं मौनम् 10 a विउस विद्वांसः; b गिक्खिवइ प्रेरयति. 11 पेयहु प्रेतत्य मृतकत्य.

## 12

जयजसरामहु रामहु तणिय  
 जइहुं पेसियलेहेण सहं  
 णं तो पुणु जिणवरिंदु सरणु  
 एत्तहि जक्खाहिर्वरक्खियउं  
 पहरणपरिपाले रक्खियउं  
 आउहसालहि खँयरविसरिसु  
 ता णिर्वह हियउं रोमंचियउं  
 णिवमंतिहिं इय वोळ्ळिउ वयणु  
 संभूयउं भवणि चक्करयणु  
 जं तं कलत्तु रामहु तणउं  
 उप्पाउ णयरि भीयरु हँवइ  
 उप्पणु चक्कु सीयागमणि

णिसुणेसविं वत्त सुहावणिय ।  
 तइहुं आहारपवित्ति महुं ।  
 संपज्जउ सल्लेहणमरणु ।  
 पहवंतु फुरंतु णिरिक्खियउं ।  
 पणाविवि दहगीवहु अक्खियउं । 5  
 उप्पणुउ चक्कु जणियहरिसु ।  
 तं जाइवि कुसुमहि अंचियउं ।  
 एवंहि केहिं चुक्कइ दहवयणु ।  
 आणुउं अण्णेक्कु वि मिगणयणु ।  
 अप्पिज्जउ घणचक्कलयणउं । 10  
 तं णिसुणिवि णहयरिंदु लवइ ।  
 किं तुम्हहुं अज्ज वि भंति मणि ।

घत्ता—छिंदिवि<sup>१२</sup> अरिसिरइं असिकंपावियदेवासुरु ॥

भरहहु हउं जि पहु सिरिपुप्फयंतभाभासुरु ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसड्ढिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए  
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकच्चे सीयाहरणं णाम  
 दुसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७२ ॥

12 १ AP जइयहुं लक्खणरामहु तणिय. २ AP जइयहुं. ३ AP तइयहुं. ४ K records  
 a p: आरक्खियउ इति पाठे औरैः क्षितं प्राप्तं अराणां वा निवास. ५ AP खररवि°. ६ AP महिवह-  
 वउ. ७ A जोइवि. ८ AP सुदरु पडिवज्जइ दह°. ९ AP भवणि वि. १० P अप्पिज्जइ.  
 ११ AP वइइ. १२ AP छिंदमि. १३ AP वइत्तरिमो.

12 1 a जयजसरामहु जयश्च यशश्च ताम्या रामस्य रमणीयस्य, b सुहावणिय क्षेमकुशला.  
 4 b पहवंतु प्रभावत् चक्रम्. 6 a खयरविसरिसु प्रलयकालसूर्यसदृशम्. 10 b घणचक्कलयणउं  
 घननिविडस्तनम्. 14 सिरिपुप्फयंतभाभासुरु चन्द्रसूर्यवत्तेजाः.

मायारउ किं माणिकमउ जो रहूसीहहु णेंडुउ ॥  
महुं णावई भावइ सो हरिणु चंदहु सरणु पइडुउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—एत्तहि रामसामि मृगपँच्छइ गउ दूरंतरं वणे ॥

एत्तहि णीय सीय दहवयणें एत्तहि सोउ परियणे ॥ छ ॥

एत्तहि दिणंति <sup>३</sup> अत्थइरिसाणु	संपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु ।	5
णरतिरियणयणपसरणु हरंतु	चक्कउलहं तणुतावणु करंतु ।	
णं दिसइ लइउ रइरसणिहाउ	णं णिण्णेंडुउ रावेंणपयाउ ।	
णं रइउ समुहें रयणसंगु	णं महिइ गिलिउ रईरहरहंगु ।	
देउ वि वासुणिसंगेण पडइ	णं इय भणंतु पक्खिउलु रडइ ।	
गच्छंतु अहोमुहु तिमिरमंथु	णं दावइ णरयहु तणउ पंथु ।	10
रामहु कलत्तु इह हित्तु जेण	जापसइ सो मग्गेण एण ।	
गउ अत्थवणहु कंदोदुजूरु	करसहसेण वि णउ धरिउ सूरु ।	

घत्ता—णिवडंतु जंतु हेट्टामुहउ रवि किं एक्कु भणिज्जइ ॥

जगलच्छीमंदिरणिग्गयहिं मंदहिं को रक्खिज्जइ ॥ १ ॥

2

दुवई—माणवभवणभरहखेत्तोवरि वियरणगामियवासरो ॥

सीयारामलक्खणाणंदु व जामत्थमिओ दिणेसरो ॥ छ ॥

पच्छाइयसयलायासतीरु	णं संझारयकोसुंभवीरु ।	
णहसिरि परिहइ रंडिज्जमाण	दिणवइविओउं अइअसहमाण ।	
सिसुससि भग्गेंउ णं वलयखंह	मउलियउं कमलु णं ताहि तुंडु ।	5

1 १ AP भावइ णावइ. २ AP मिग°. ३ A दिवन्ति, K दिणति, corrects it to दिवन्ति but has a gloss दिनत्यान्ते. ४ AP णिड्डिउ. ५ AP रामणभुय°. ६ A रविरह°.

2 १ A P जामत्थमिउ णेसरो. २ A संझाराएं. ३ A °विओयअइ°. ४ AP ण भग्गउ.

1 1 किं मा णिकमउ कथं स्तनमयः सारभूतः, अपि तु नि.सारः. 5 a अत्थइरिसाणु अस्ताच्चलतटम्. 7 a रइरसणिहाउ गतिग्गसमूह.. 8 b °रहरहगु रथक्कम्. 9 a वावणि° पथिम-दिशा मय च. 10 a तिमिरमथु स्यं. 12 a कंदोदु° उल्लम्. 14 जगेत्तादि जगलक्ष्मीमन्दिर जगदेव पद्मं तस्मान्निर्गतैः किरणैः, अन्यत्र जगति लोके लक्ष्मीरुग्गनिर्गते पुत्रीः, मं द हि जटै. मन्दप्रतापैर्वा.

2 1 मा णव भव ण भर हं नराणा गृह भग्नक्षेत्रम्. 3 a पच्छाइयसयलायासतीरा प्रच्छा-दितसकलगगनतटः. 4 a परिहइ पण्णित्ते, रडिज्जमाण वैषयं प्राप्ता. 5 a सिसुससि बालनन्तः भग्गयलयरत्तमिभिव.

विक्रिण्णौउ पत्तु दियंतपारु  
 गय णिसि उययायलकरिहि चडिउ  
 उग्गउ उण्णहं पहरेण पत्तु  
 दिणयरु विहडावियपउमसीउ  
 णं सीयाविरहहुयासचंड  
 णं दिर्सकामिणिसिरि रत्तु फुल्लु

तारायणु णावइ तुट्टु हारु ।  
 तमवइरिणरिंदहु समरि भिडिउ ।  
 परिपालियखत्तु व रायउत्तु ।  
 सोहइ णावइ दहवयणु वीउ ।  
 णं तियसाणीकरघुसिणुपिंहु । 10  
 णं खयररायतणुरुहिरतल्लु ।

घत्ता—हयँसीयउं कयरणागमणु अइरत्तउ सउंहाइयउ ॥  
 दीहरपंहराणं राहविण रवि परवारुं व जोइयउ ॥ २ ॥

3

दुवई—पुच्छिउ तेण तेत्थु णियपरियणु वालमरालगामिणी ॥

कहि सा सीय भणसु भो लक्खण सइगुणरयणसामिणी ॥ छु ॥  
 तं णिसुणिवि भायरु कहइ पंव जावहिं हउं अच्छिउ सरवरंति  
 विण्णवइ पंव भिच्चयणु सव्वु पंवहिं जाणइ दीसइ जियंति  
 तं णिसुणिवि मुच्छिउ पडिउ रामु सीयल्लु विसु विसु व ण संति जणइ  
 णालिणु वि सूरहु सयणत्तु वहइ पियविरहुं जलइइ सिहि व जलइ  
 जावहि तुहुं गउ मृगमग्गि देव ।  
 तावहि जि ण दिट्ठी उववणांति ।  
 कंदइ उब्भियकरु गालियगव्वु । 5  
 जइ तो तुहुं पुण्णाहिउ ण भंति ।  
 जलसिंचिउ उट्ठिउ खामखामु ।  
 हरियंदणु सिहिकुल्लु अंगु छणइ ।  
 सयणीयलि घित्तउ देहु डहइ ।  
 चमराणिल्लु तासु सहाउ घुलइ । 10

घत्ता—सरु गेयहु वइरिविमुक्कसरु कव्वु कायकव्वासउ ॥  
 विणु सीयइ भावइ राहवहु णाडउ णाडयपासउ ॥ ३ ॥

५ APT विक्रिण्णउ पत्तुदियंतरालु. ६ A दिसिकामिणिकरत्तु फुल्लु. ७ AP हिय°. ८ A सविहायउ, P सउहाइउ. ९ P °पहरेण. १० AP परिवारु वि जोइउ.

3 १ A सयगुण°. २ AP गउ तुहुं भिग°. ३ A सरवणाति. ४ P तइ. ५ A विरइजलइइ. ६ A सहासु.

6 a विक्रिण्णउ विक्रीणीं यत्र तत्र पतितः, दियतपारु दिगन्तपर्यन्त प्राप्तः. 8 a उण्णइ पत्तु उन्नतिं प्राप्त. 9 a °पउम सीउ पद्धानां शीतं येन, अन्यत्र, वियोग प्राप्ते रामसीते येन. 10 b तियसाणी° इन्द्राणी. 11 b °तल्लु तडागः. 12 °रण्णा° आदित्यमार्या, पक्षे अरण्यागमनम्, सउहाइयउ समुखं धावित सूर्यः. 13 परवारु परदार रावण इव.

3 2 सइगुण° सतीगुणाः. 8 a विसु जलम्, विसुव विषमिव, b सिहिकुल्लु अंगु छणइ अग्निकुलं अङ्ग दहति चन्दनकाष्ठजातित्वात्. 10 a जलइइ जलार्द्रवस्त्रेण, b सहाउ सहायः सखा. 11 कायकव्वासउ शरीरमासभक्षकम्, 12 णाडउ नाटकम्, णाडयपासउ नाटकवन्धनम्.



## 4

दुवई—जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकंदरणिवासण ॥

जोयंह कहिं मि घरिणि जइ जाणह बहुदुग्गमपवेसण ॥ छ ॥

अवियाणिउं जगि को कहइ कासु  
सइं काणाणि रहुवइ हिंडमाणु  
रे हंस हंस सा हंसगमण  
चंगउं चिम्मक्कहुं सिक्खिओ सि  
रे कुंजर तुह कुंभत्थलाइं  
सारिक्खउं लइयउं एउ काइं  
सारंग कहहि महु जणयधीय  
अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर  
ण वियाणाहि कंतहि तणिय वत्त  
णच्चंति दिट्ठ भणु कहिं मि देवि  
रे कीर ण लज्जहि जंपमाणु

पेसिय किंकर दससु वि दिसासु ।  
पुच्छइ वणि मिगइं अयाणमाणु ।  
पइं दिट्ठी कत्थइ विउलरमण । 5  
महुं अकहंतु जि खल किं गओ सि ।  
णं महं महिलाइ थणत्थलाइं ।  
भणु कंतइ कहि दिण्णइं पयाइं ।  
णयणाहिं उवजीविय पइं मि सीय ।  
णिसि सररुहदलकयबंधणार । 10  
रे णीलगीव घणरामवत्त ।  
इयरह कहिं णच्चहि भाउ लेवि ।  
जइ दिट्ठउं पइं मुद्धहि पमाणु ।

घत्ता—णिरु विरहें झीणउ दासरहि देविहि अज्जु जि सुच्चहि ॥

णीसेसजीवसंतावहर मेह दूर्खउ तुहुं वच्चहि ॥ ४ ॥

15

## 5

दुवई—अइउक्कंठिएण धरणीसें सज्जणदिण्णजीययं ॥

ता दिट्ठं मयच्छिथणकुंकुमपिंजरुं उत्तरीययं ॥ छ ॥

दीसइ वंसग्गाविलंबमाणु  
णं दावइ कंतहि तणिय वट्ट  
णं उब्भिय सीयइ सइवडाय

णं रिउं गयगयणंगणणिवाणु ।  
इह दहमुहमारियइं पयट्ट ।  
तं लेप्पिणु किंकर इ ति आय । 6

4 १ A जोवहु. २ A वणमिगइं. ३ A कत्थवि. ४ P चिमक्कहं. ५ A णं महु महिलाहि  
घणथणत्थलाइं. ६ A किं. ७ A घणरावमत्त, P घणरामपत्त; T घणरावमत्त अतिशयेन रमणीयपिच्छ.  
८ AP दूउ.

5 १ AP °पिंजरि. २ A णं रिउ गयणगणि णिज्जमाणु. ३ AP °मारीयय.

4 6 a चिम्मक्कहुं गन्तुम्. 9 a जणयधीय जनकपुत्री सीता; b उवजीविय सादृश्यं  
प्रापिता. 10 a °णिद्धत्त° स्निग्धकान्ति., b °बंधणार बन्धनयुक्त. 11 b घणरामवत्त अतिशयेन-  
रमणीयपिच्छः. 13 b पमाणु वचनम्, चिह्नम्.

5 - 3 b °णिवाणु निदानं कारणं चिह्नम्. 1 a वट्ट मार्गं, b पयट्ट प्रवृत्तौ गन्तुम्. 5 उब्भिय  
कर्षीकृता, सइवडाय सतीत्वपताका.

आलिङ्गितं रामं णीससेवि  
जंपितं णिय सुंदरि खेयरोहिं  
सहं लक्खणेण संदेहि छूडु  
तावायउ दूथउ दसरहासु  
उच्चाइवि तं सहसा सिरेण  
दसरहु जिणंवरणंभोयभसलु  
मइं दिट्ठुं सिविणउं हयविलासु

पुणु बाहुल्लइं णयणइं पुसेवि ।  
मायाविण्हिं रणदुद्धरेहिं ।  
जामच्छइ पडु किंज्जमूडु ।  
तं धित्तु पत्तु आलिहिउ तासु ।  
इय वाइउं देवें हलहरेण ।  
उवइसइ सुयहं णियदेहकुसलु ।  
हिय राहुं रोहिणि ससहरासु ।

10

घत्ता—एकल्लउ ससि णहयलि भमइ अवलोइवि अवहारिउं ॥

वज्जरिउं पहाइ पुरोहियहु तेण वि मज्जु विरारिउं ॥ ५ ॥

6

दुवई—जो दिट्ठउ विडप्पु सो रावणु जा णिसि पइं विलोइया ॥

रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोइय सा तुह सुयविओइया ॥ छ ॥

परमत्थें जाणसु राय सीय  
जा हिप्पइ सां पुणरवि णिरुत्तु  
जे<sup>२</sup> चक्कवट्ठि पालइ सजीव  
तहिं सायरि लंकादीवु अत्थि  
पुरि लंक राउ दहवयणु णाम  
आयण्णिवि विसरिसविसम वत्त  
हिंसंततुरय गज्जंतणाय  
आवेण्णिणु तणयासोक्खहेउ  
दुम्मणु जोइवि रिउमहणेण

अज्जु जि खयरिंदें घरहु णीय ।  
ता किज्जइ णियदेहहु पयत्तु ।  
भरहंतरालि छप्पण दीव ।  
अण्णु वि तिकूडु गिरि मणिगभत्थि ।  
णिय तेण सीय रामाहिराम ।  
ते वे वि भरह सत्तुहण पत्त ।  
सामंत सुहड दसदिसिहिं आय ।  
ससुरेण णिहालिउ रामपउ ।  
गलगज्जिउ तेत्थु जणहणेण ।

5

10

घत्ता—रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्वैयकेसरु ॥

जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारामि लंकेसरु ॥ ६ ॥

४ P रणि दुद्धरेहिं. ५ AP जिणकमलभोय<sup>०</sup>. ६ A राहें. ७ AP विवारियउ,

6 १ A सो. २ A जो. ३ उद्वैयकेसरु.

6 b बाहुल्लइं वाष्पैराद्राणि. 8 a संदेहि छूडु संदेहे पतितः. 12 b राहुं राहुणा, ससहरासु चन्द्रस्य. 13 अवहारिउ अवधारित चित्ते धृतम्.

6 1 विडप्पु राहु. 2 सुयवि ओइया सुतवियुक्ता सीता. 4 a जा यावत्, हिप्पइ आनीयते. 5 a सजीव जीवसहिता., b छप्पण दीव रत्नद्वीपसुवर्णद्वीपलङ्काद्वीपप्रभृतयः. 6 b मणिगभत्थि मणिकिरण. 7 b रामाहिराम स्त्रीणा मनोहरा. 9 a <sup>०</sup>णाय गजा. 12 आवडइ आभासते; हरि सिंहः.

## 7

डुवई—सीयागुणविसेससंभरणचुयंसुयसित्तवसुमई ॥

उम्मोहिउ विओयविसघारिउ कह व णिवेहिं मंहिवई ॥ छ ॥

पियंविष्पओयकहमणिमण्णु  
तावाय वेण्णि खग विमलदेह  
णं सीयामग्गपयासदीव  
संमाणिय हरिणा संणिसण्ण  
बोलाविय वेण्णि वि दिव्वकाय  
तं णिसुणिवि भासइ जेडु खयरु  
णामें किलिकिलु कलहंससहिय  
तहिं मँहु बलिंदु माणियपियंगु  
सामल सलोण उडुणिएणहालि  
हउं लहुयारउ सुग्गीउदेव

जांवच्छइ सेज्जायलि णिसण्णु ।  
णं रामसासथिरकरणमेह ।  
वेण्णि वि पणवेप्पिणु थिय समीव । 5  
सुहिदंसणरुहरोमंचभिण्ण ।  
कहुं तुम्हइं किं किर एत्थु आय ।  
खगदाहिणसेढिहि अत्थि णयरु ।  
जहिं विविहवास चोरारिरहिय ।  
तहु धण पियंगंसुंदरि पियंगु । 10  
तहि पढमपुत्तु णामेण वालि ।  
अणवरउ करमि णियपियरसेव ।

यत्ता—ता तेत्थु मरंतें पुरि पिउणा वालि राज्जि वइसारिउ ॥

हउं जुवराणउ कउ मइ जर्णाणि दाइएण णीसारिउ ॥ ७ ॥

## 8

डुवई—सुणि रायाहिराय हे हलहर मंणिमयसिहरमंदिरे ॥

तित्थु जि रययसिहरि खगसेढिहि खणरुइकंतपुरवरे ॥ छ ॥

विज्जाहरु णामें अत्थि पवणु  
तहु अंजण मणरंजणवियार  
इहु मेरउ सहयरु गयगईहि  
पांडेउ पडु भडु विज्जाणिकेउ  
एक्कहिं दिणि कोक्किवि खयरलवख

लीलाणिहि वेयविजित्तपवणु ।  
महपवि वूढसिगारभार ।  
तहि जायउ गब्धि महासईहि । 5  
जगि वुच्चइ एहु जि मयरकेउ ।  
एणं दिण्णी विज्जापरिक्ख ।

7 १ A वसुपई. २ P has ता before पिय°. ३ P णिसण्णु. ४ A पहु. ५ AP पियगु-  
सुंदरि. ६ A जणेण.

8 १ A रमणिगणदित्तमदिरे, P रमणियसियमदिरे.

7 3 a °विष्पओय° वियोग.. 4 b °सास° सत्यं उच्छ्वासश्च, 'मँहू मेघो मेधा च. 6 b °दमण  
रुह° दर्शनोत्पन्नाः. 7 b कहु केयाम्. 9 b °वास आवासाः गृहाणि. 10 a मह मम पिता, नाणिय-  
पियगु भुक्तप्रियाशरीरः, b धण भार्या, पियगु प्रियदुस्त्रिव ग्यामा. 11 a उडुणि एणहाणि नक्षत्र  
सदशनखपक्ति.. 14 मह जणणि मूने पितरि, दाइएण भ्रात्रा.

8 2 सणरुइकत° त्रिगुल्कान्तम्. 3 b वेय° वेगः 5 a गयगईहि गजगाभिन्ना..

गिरिसिहरि णिवेसिउ एक्कु पाउ  
 दीहुद्ध पसारिउ गयउ ताम  
 पुणु रूवु धरिउ तसरेणुमेत्तु  
 पेक्खिवि सहायसाहसु अभेज्जु  
 कालें जंतें तं हित्तु पुणु वि  
 गय वेणिण वि जण माणिककचूड

अण्णेक्के दिण्णु उहंडवाउ ।  
 गयणंगणि सासि दिवसयरु जाम ।  
 अणुमेत्तु मिलिवि खयरोहिं वुत्तु । 10  
 वालें महु दिण्णउं जउवरज्जु ।  
 आसंकिवि तें सहं ण किउ रणु वि ।  
 संमेयजिणालउं सिद्धकूड ।

घत्ता—तसथावरजीवहं दय करिवि धम्मि थवेप्पिणु अप्पउ ॥

तहिं देहिदेहदुहणासयरु वंदिउ जिणु परमप्पउ ॥ ८ ॥

15

## 9

दुवई—जय देविंदचंदखयरिंदफणिंदणारिंदपुज्जिया ॥

जय णिट्ठुवियदुट्ठकम्मट्टहारहदोसवज्जिया ॥ छ ॥

ण भोएसु कंखा ण णिहा ण भुक्खा ।

ण तण्हा ण सोओ ण राओ ण रोओ ।

ण चावं ण वेरी ण तांणं ण मारी ।

ण कायं ण चेळं ण सीसं सिहालं ।

ण णिंदा ण थोत्तं ण मुद्दापवित्तं ।

ण हिंसाइ सग्गो ण सोंडालमग्गो ।

ण गोभूमिदाणं ण वेओ पमाणं ।

ण चम्ममुत्तरीयं ण जण्णोववीयं ।

उरे णत्थि सप्पो मणे णत्थि दप्पो ।

पसूणंतयालं करे णत्थि सूळं ।

सिरे णत्थि गंगा जडंगोवियंगा ।

भवाणी ण देहे रई णो संणेहे ।

पुरारी ण कामी तुमं मज्झ सामी ।

5

10

15

२ P adds वि after अण्णेक्कु. ३ A जुउविरज्जु, P जुउवरज्जु.

९ १ AP °पुज्जिय. २ AP °वज्जिय. ३ AP पाओ. ४ AP ताव. ५ A ण काय सुचेळं; P ण काये सुचेळ. ६ AP ण मुद्दा ण वित्त. ७ A ण सो जण्णमग्गो. ८ AP ण वेउप्पमाण. ९ A वंसुत्तरीय. १० P जडंगोवियंगा. ११ AP सणाहे.

8 b उहंडवाउ उहण्डपातः. 11 b वालें वालिना, जउवरज्जु यौवराज्यम्.

९ 4 b रोओ रोगः. 5 b ताण हरवत्सृष्टिरक्षणम्. 6 a ण कायं सिद्धत्वादशरीरः, b सिहालं जटायुक्तम्. 7 b मुद्दापवित्तं मुद्रिका पवित्रीदर्भादिका. 8 a सग्गो स्वर्ग, b सोंडालमग्गो कल्पपाल-मार्गः. 12 a पसूणतयाल पशूनामन्तकालम्. 13 b जडंगोवियंगा जटायं गोपितशरीरा. 14 a भवाणी पार्वती. 15 a पुरारी त्रिपुरशत्रुः.

जिणो मोक्खहेऊ भवंभोहिसेऊ ।

घत्ता—जय परमणिरंजण जणैसरण वीयराय जोईसर ॥

जलि पत्थरि पाणिइ धम्मु णउ तुहुं जि धम्मु परमेसर ॥ ९ ॥

## 10

दुवई—दिणयरु हरइ तिमिरु साल्लु वि तिस खगवइ विसवियंभियं ॥

जिण तुह दंसणेण खणि णासइ गुरुदुरियं णिसुंभियं ॥ छ ॥

इय वंदिवि जिणवरु सेस लेवि

खणु एक्क जाम तहिं थक्क वे वि ।

ता तेयवंतु णं विञ्जुदंडु

णं सुरवरसरिडिंडीरपिंडु ।

वियडजडजूहु विवरीयवाणि

मणिरयणकमंडलु दंडपाणि । 5

खणखणियमणियगैणियक्खसुत्तु

कोवीणकणयकाडिसुत्तजुत्तु ।

ससहरु व विसाहारुडगत्तु

असुरसुरसमरसंणिहियचित्तु ।

सोत्तरियफुरियउववीयवंतु

ता दिट्ठउ णारउ गयणि एंतु ।

अरहंतु णवेप्पिणु सुहुं णिविट्ठु

अम्हहिं संभासणु करिवि दिट्ठु ।

तुहुं जाणहि णिसुयसुयंगरिद्धि

पुच्छिउ पावेसहुं किह सरिद्धि । 10

मुहुं वंकइ संकइ वालि कासु

को देसइ कुलरज्जावयासु ।

ता दाणवमाणवरणरण

विहंसेप्पिणु वोळ्ळिउं णारणण ।

घत्ता—भो खेयरपहु भूगोयरु वि धुउ तिजगुत्तमु भावहि ॥

सेवहि रामहु पयपंकयइं जइ तो कुलसिरि पावहि ॥ १० ॥

## 11

दुवई—अण्णु वि हरिणणयण णियपणइणि तासु दसासराइणा ॥

विरसियअमरडमराडिडिमरवरिउवहुतासदाइणा ॥ छ ॥

दुक्खेण ण याणइ दियहु रत्ति

जो दावइ कंतहि तणिय थत्ति ।

१२ P जगसरण.

10 १ AP विज्जदंडु. २ AP मणिरइय°. ३ A °गलियक्ख°. ४ A सहु. ५ A विहसेविणु.

18 पाणि इ जले.

10 1 खगवइ गरुडः; विसवियंभियं विप्रविजृम्भितम्. 2 णिसुंभियं चूर्णितं सत् नश्यति. 6 a गणियक्खसुत्तु गणितजपमाल. 7 a विसाहारुडगत्तु विशाखानक्षत्रारुडश्चन्द्रः; पादुकारुडो नारदः. 13 खेयरपहु विद्याधरप्रभो.

11 1 दसासराइणा दशात्यंन रावणेन. 2 विरसियेत्यादि विभेपेण रसितः शब्दितः स चासी अमराणा डमरो भयानको डिण्डिमरवः; तेन रिपूणां बहुतासदायिना.

सो जाणमि जिह भमरहु सुगंधु  
लब्भइ मणोज्जकज्जेण कज्जु  
तं णिसुणिवि आया पत्थु राय  
ते णहयर पुज्जिय राहवेण  
हणुमंतं मग्गियपेसणेण  
भो दसरहणंदण णंद णंद  
णियरामालोयणकयपयत्त

तिह रामहु होसइ परमबंधु ।  
सो देसइ तुह सुग्गीव रज्जु । 5  
जलयग्गिसिंसिगसंणिहियपाय ।  
संभासिय तोसिय माहवेण ।  
जंपिउ णवजलहरणीसणेण ।  
मा झिज्जहि सज्जणकुमुयचंद ।  
हउं आणमि सीयहि तणिय वत्त । 10

घत्ता—सुग्गीवहु मुहं पप्फुल्लियंउं मित्तवयणु पडिवण्णउं ॥  
अहिणाणु लेहु अंगुत्थलउं रामे हणुयहु दिण्णउं ॥ ११ ॥

12

दुवई—ता णविउं पयाइं हलहेइहि णवदलणालिणाणिहमुहो ॥  
उल्लिओ णहेण पवणो इव चलगइ पवणतणुरुहो ॥ छ ॥  
तओ तेण जंतेण दिट्ठो समुट्ठो पधावंतकल्लोलमालारउहो ।  
जलुम्मग्गणिम्मग्गवोहित्थवंदो अथाहंभपब्भारसंकंतचंदो ।  
झसप्फोडफुट्ठंतसिप्पीसमूहो णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो । 5  
दिसादुक्कणक्कुग्गयंतं करालो चलुप्पिच्छपल्हत्थवेलाविसालो ।  
पवालंकुख्खेरराहिल्लरूहो पगज्जंतमज्जंतमायंगजूहो ।  
सुभीसो असोसो असेसंबुवासो विडिंदु व्व पीयाहरो ढंकियासो ।  
सरीसंगतुंगत्तणालीढरिक्खो अलंकारओ कूलकीलंतजक्खो ।  
फरिंदो व्व गाढं गहीरं रसंतो अहिंदो व्व पायालमूले विसंतो । 10  
णरिंदो व्व धीरो समज्जायवंतो रिसिंदो व्व अंतोमलं णिग्गहंतो ।  
गिरिंदो व्व रेहंतमाणिक्कमोहो सुरिंदो व्व देवासिओ दिण्णसोहो ।

11 १ A °कजाण कज्जु. २ P तुग्गहं. ३ A पप्फुल्लियउ, P पप्फुल्लियउं.

12 १ P has गउ before उल्लिओ. २ A झसुप्फाल°. ३ P चलप्पत्थ°. ४ A असेसो.  
५ AP °रिखो. ६ AP वीरो.

6 b जलयग्गिसिंसिग° मेघमस्तके 7 b माहवेण हरिणा.

12 1 हलहेइहि हलप्रहरणस्य रामस्य. 4 a °वोहित्थ° नौः, b संकतचंदो प्रतिविम्बित-  
चन्द्र. 5 a झसप्फोड° मत्स्यानामास्फालन सघट्ट, °सिप्पी° शुक्तिका, b भाणुरोहो किरणरोध..  
6 a दिसादुक्कणक्कुग्गयत दिशासु ढौकितनकैरुग्रक भीष्मं अन्तं मध्ययथा भवति तथा, b चलुप्पिच्छ-  
पल्हत्थवेलाविसालो ऊर्ध्वोच्छलितव्याघुटितवेलाविशाल. 7 a °राहिल्लरूहो गोभमानतट.  
8 b पीयाहरो पीताधर., अन्यत्र पीता व्याप्ता आसमन्ताद्वरा येन, ढंकियासो प्रच्छादितमुख प्रच्छा-  
दितदिशश्च. 9 a सरीत्यादि नदीसङ्गतुङ्गत्वेन स्पृष्टनक्षत्रः, b अलंकारओ न विद्यते लङ्काया रदो विनाशो  
यस्मात्. 12 a °मोहो °मयूखः °किरण.

घत्ता—गंभीरु घोरु आवत्तहरु लीलाइ जि आसंघिउ ॥  
संसारु व परमजिणेसरिण सायरु हणुणं लंघिउ ॥ १२ ॥

13

दुवई—खेरिचरणघुसिणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ॥  
दीसइ तहि तिकूडु गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ॥ छ ॥

लंवंतरत्तपत्तोहतंबु	गुरुसिहरालिंगियसूरविंबु ।	
वेलापक्खलणाविसट्टकंबु	किणरसुंदरिसेवियणियंबु ।	
णाइणिणेउरबहिरियदियंतु	णच्चियजक्खिणिरसभाववंतु ।	5
करिमयकद्दमखुप्पंतहरिणु	गुमुगुमियभमिरंलच्चरणसरणु ।	
हिंडंतकालणाहलकुडंबु	खेल्लंतसरहसरहससिलिंबु ।	
णउलउलफणिउलाढत्तसमरु	चमरीमयचालियवारुचमरु ।	
हरिकुंजरकलहकलालंबंतु	चुयरत्तलित्तमोत्तियफुरंतु ।	
दुमणियरगालियमहुंवारिथेंभु	सवरीपरियंदणसुत्ताडिंभु ।	10
हयमुंहाकिलिकिंचियसइरम्मु	महियरदुग्गमु णहयरहं गम्मु ।	

घत्ता—णावइ णिउणइ महिकामिणिइ एइ सग्गपरिच्छंदहु ॥  
गिरिणियकरु उब्भिचि णिहिय तहिं दाविय लंक सुरिंदहु ॥ १३ ॥

14

दुवई—परिहादारतोरणट्टालयधयजयलच्छिसंगमा ॥  
लंकाणयरि दिट्ट हणुमंतें मणिपायारदुग्गमा ॥ छ ॥

दीहत्तें बारह जोयणाइं	वित्थारें णव हियलोयणाइं ।	
बत्तीस विसालइं गोउराइं	मोत्तियमरगयघडियइं घराइं ।	
जहिं घुलइ रेणु कप्पूररेणु	सुरतरु तरु धेणु वि कामधेणु ।	5

७ AP आसघियउ. ८ AP लंघियउ.

13 १ a °भमिय°. २ AP हिंडंतकोल°. ३ AP सल्लाइयतरुदलसूरविंबु. ४ A °किलाल-  
वतु. ५ AP °महुपाणथिंभु. ६ AP हयमुहि°. ७ पडिच्छदहु.

14 १ AP हणवत्तें.

13 3 a °पत्तोहतंबु पत्रसमूहेन ताम्र. 4 a °विसट्टकंबु °भयशखः. 6 b °भमिर° पर्य-  
टनशीला, °सरणु गृहम्. 7 a °णाहल° भिल्लाः, b °सिलिंबु °वालकः. 9 a °कलहकलालवतु  
°कलहद्वारेण कल मनोज्ञ आलपन् वदन्, b चुयरत्त° च्युत रुधिरम्. 10 b °परियदण° आन्दोलनम्.  
11 a °किलिकिंचिय° सुरतशब्दः. 12 सग्गपरिच्छदहु स्वर्गस्य प्रतिविम्बं एति. 13 गिरिणियकरु  
गिरिरेव निजहस्तः.

वणु णहवणु वेळि वि णायवेळि  
 जरु विरहजरु जि णउ अत्थि अणुणु  
 घरु सिरिघरु चोरं वि चित्तचोर  
 वउ णववउ रूवु वि णिरु सुरूवु  
 रिणु तिलरिणु बंधणु पेम्मबंधु  
 कामिणि खगकामिणि अलिवमालु  
 दीव वि जलंति माणिक्कदीव  
 गुणुं जिणगुणु घम्मु अहिंसघम्मु  
 किं वण्णामि भूमि वि भोयभूमि

रणु रडरणु भल्लि वि मयणभल्लि ।  
 बहुवण्णच्चित्तु णउ चाउवण्णु ।  
 बज्झंति केस रोवंति मोर ।  
 रिसि खीणदेहु वम्महु विरूवु ।  
 जलु चंदकंतजलु दलु सुगंधु । 10  
 धूमु वि कालागरुधूमु कालु ।  
 जीव वि वसंति जहिं भव्वजीव ।  
 फलु पुण्णफलु जि कम्मु वि सुकम्मु ।  
 सामि वि दहमुहु खयरायसामि ।

घत्ता—एक्केक्कउ जो गुण संभरइ सो तहु अंतु ण पेक्खइ ॥ 15  
 जैगसुंदरत्तु लंकहि तणउं कवणु कईसरु अक्खइ ॥ १४ ॥

15

दुवई—कलरवु रणुरुणंतमाणिणिमुहमंडणु जणमणिट्टओ ॥

छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पइट्टओ ॥ छ ॥

चक्केसरु वरलक्खणपसत्थु  
 णं गिरिसिहरासिउ णीलमेहु  
 चामीयरवीढि णिहित्तचरणु  
 विज्जिज्जइ चलचमरीरुहेहिं  
 गाइज्जइ सरगयभावपहि  
 दीसइ णवक्कप्पहुमफलेहिं  
 मउडग्गरयणमहियललिहेहिं  
 चित्तइ मारुइ उव्विण्णचित्तु

दिट्टउ दहमुहु सीहासणत्थु ।  
 पण्णारहचावपमाणदेहु ।  
 वलवंतकालु वलहीणसरणु । 5  
 वण्णिज्जइ वरवंदिणमुहेहिं ।  
 सलहिज्जइ सुरणरसेवपहिं ।  
 माणससरवररत्तुप्पलेहिं ।  
 पणविज्जइ सुरवइसंणिहेहिं ।  
 हा एण णिहित्तं परकलत्तु । 10

घत्ता—एसज्ज एउं एवहु कुलु तो वि कैयउं सकलंकणु ॥

हयविहि सुवण्णभिगारयहु खप्परु दिण्णउं ढंकणु ॥ १५ ॥

२ AP विरहजरु णउ. ३ A बहुवण्णु चित्तु गउ वाउवण्णु, P बहुवण्णु चित्तु णउ वाउवण्णु.  
 ४ AP चोरु वि चित्तचोर. ५ A णिरूवु. ६ A गुण जिणगुण ७ AP जगि सुदरत्तु.

15 १ A ओविण्ण°. २ AP वि हित्तउ. ३ P कयं सकलंकणु.

14 6 a ण ह व णु नखत्रणम्, न तु कत्य शब्दघात . 9 a वउ वपु. वयो वा. 10 a तिल-  
 रि णु स्नेहक्रणम्. 11 a अ लिव मालु भ्रमरकोलारलः.

15 1 जणमणि ट्टओ जनमनसि इष्ट २ छडयणं भ्रमरः. 5 b वलवतकाट वन्वतां  
 यमः. 11 एसज्ज एउ ऐश्वर्यमेतत्, सकलंकणु सकलक्त्वम्. 12 दवणु आच्छादनम्.



## 16

दुवई—पुणु णिवसवणपूरकत्थूरियपरिमलगहणकुसलओ ॥

दहमुह देहि सीय मा णासहि णं गुमुगुमइ भसलओ ॥ छ ॥

सो सइं जि कामु णं कामवाणु  
कोमलकरयलवारिज्जमाणु  
थणजुयलि णाहिमंडलि घुलंतु  
कुडिलालयपंतितु दरमलंतु  
थिउ दारि सहइ णं इंदणीलु  
थिउ उरि पियपहरकिणंकु णांइं  
थिउ कण्णमूलि णं मम्मणाइं  
थिउ उरुयलि सइइ सुराहि

तरुणीविंवाहरि दुक्कमाणु ।  
चमराणिलेण पेरिज्जमाणु ।  
पिंछहि कवोलैपत्तइं दलंतु । 5  
मुहकमलवांससासहु चलंतु ।  
थिउ भालि गहियवरतिलयलीलु ।  
थिउ मणि सरसरपुंखु व सुहाइं ।  
वोल्लइ मणिर्याइं घणघणाइं ।  
णं किंकिणि कामिणिमेहलाहि । 10

घत्ता—सो महुयरु वम्महु किं भणामि णारिहि वयणंइं चुंवइ ॥

जाइवि खयरिंदहु रयणमइ कुंडलकमालि विलंवइ ॥ १६ ॥

## 17

दुवई—वुज्झिवि णयणवयणतणुलिंगहिं सीयारइवसं गयं ॥

दहवयणं विमुक्कणीसासरुहाणलतावियंगयं ॥ छ ॥

गउ अलि पुरपच्छिमगोउरगु  
दिट्ठी वणसिरि सहं खेयरीहिं  
वणु देइ ससाहिहिं रामविरहु  
वाणि लोहियाउ पत्तावलीउ  
वाणि पमयइं फलसारं गयाइं  
वाणि एत्ताहि तेत्ताहि वेल्लिवलय  
वाणि खेल्लइ हरिसिज्जइ वि हंसु

आरूढउ जोयंइ वणु समग्गु ।  
सीय वि परिवारिय खेयरीहिं ।  
सीयहि पुणु वट्टइ रामविरहु । 5  
सीयहि पुसियउ पत्तावलीउ ।  
सीयहि झीणंइं सारंगयाइं ।  
सीयहि थिय पसिठिल वाहुवल्लय ।  
सीयहि वट्टइ जीवियविहंसु ।

16 १ P भसलओ. २ A विंवाहरं. ३ A कवोलि. ४ AP ०सासवासहु. ५ AP हारि.  
६ A भाइ, P जाइ. ७ AP विहाइ. ८ AP मणियाइं व घणं. ९ AP वत्तइं.

17 १ P जोइय. २ P झीणाइं.

16 2 मा णासहि विनाअ मा गच्छ. 6 a कुडिलालयं कुट्टिलालका., b ०सासहु  
०श्वासस्य. 7 b भालि ललाटे S a पियपहरकिणंकु भर्तृकृदत्तनसकणिका, b ससरपुग्गु समयाण-  
पुंखवत्. 10 a सुगहि सुओभमानायाः.

17 2 ०णीसासरुहाणलं नि.श्वासोत्तन्नोऽग्निः. 1 a गेयरी हि पजिर्गाभि. 5 a ससाहि वि  
स्वशात्याभिः, गमविरहु रामाणा न्नीणा विशिष्ट ग्दः प्रच्छादनमेतान् वा. 6 b पुसियउ पमयइ.  
7 a पमयइं मर्कटा, b सारंगयाउ सारभूतगरीणाणि. 9 b जीवियविरहु जीवियविरहु.

वणि दिसमुहि सोहइ लग्गु तिलउ  
 वणि तरुवंदइं रूढंजणाइं  
 वणि साहारु जि मारइ पियत्थि  
 भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण  
 तं सीसवितलु खगभमरु आउ

सीयहि णिडौलु णिल्लुहियतिलउ । 10  
 सीयहि णयणइं विगयंजणाइं ।  
 सीयहि साहारु ण को वि अत्थि ।  
 जहि अच्छइ परमेसरि णिसण्ण ।  
 णं वइदेहीजीवियहु आउ ।

घत्ता—पडिंविंविउ दहहिं वि पयणहहिं आसण्णउ परिघोलइ ॥ 15  
 सो छप्पउ सीयहि कमकमलु पसरियपत्ताहिं लोलइ ॥ १७ ॥

## 18

दुवई—सीयासावभाउ णं भीसणु णं हुयवहु समिद्धओ ॥

असरिससुहडचक्कचूडामणि पावणि मणि विरुद्धओ ॥ छ ॥

सीयहि केरउ दुवैरित्तरहिउं  
 णियहियवइ चिंतइ अंजणेउ  
 मरु मारमि अज्जु जि रणि दसासु  
 पइवय णीरय पइवद्धपणय  
 णं णं हउं दूयउ राहवेण  
 किंकरु पहुवयणुल्लंघणेण  
 अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त  
 इय चिंतिवि अवसरु मग्गमाणु  
 अत्थमिउ सूरु ता उइउ चंदु  
 आपंहु गंडमंडलि घुलंतु  
 अरुणच्छवि णं रामणहु कुट्टु  
 अहवा लइ ससहरु किं ण चारु

तणुचिंधु पलोइवि रामकहिउं ।  
 परणारिदेहसंतावहेउ ।  
 गालि लायमि कालकियंतपासु । 5  
 वाणारसि पावमि जणयतणय ।  
 पट्टुविउ मज्जु किं आहवेण ।  
 णिंदिज्जइ हियकारि वि जणेण ।  
 मा मरउ महासइ चारुणेत्त ।  
 जा णिहुयंगउ थिउ कुसुमवाणु । 10  
 णं सीर्यहि दुहवल्लरिहि कंदु ।  
 तहु तेउ डहइ अग्गि व जलंतु ।  
 णहसरि णं सियसररुहु विउट्टु ।  
 णहसिरिकरदप्पणु अमयसारु ।

३ AP णिलाडि. ४ P ते.

18 १ AP °भाव. २ A दुचरित्तु. ३ AP °देहु संताव°. ४ P पर. ५ AP कालकयंत°. ६ A सीयादुह°.

10 a दिसमुहि दिशामुखे. 12 a साहारु आम्रवृक्षः, पियत्थि प्रियार्थिनः, b साहारु साधार धीरत्वदाता. 13 a बलविहडणविसण्ण बलस्य चातुरङ्गस्य बलभद्रस्य वा विघटन वियोजन वा. 14 a सीसवितलु शिशपावृक्षतलम्. 16 °पत्ताहिं पक्षैः.

18 1 °सावभाउ °शापभाव. २ असरिस° अनुपमा., पावणि हनुमान्. 6 a णीरय नि.पापा, पइवद्धपणय पतिवद्धस्नेहा. 10 b णिहुयंगउ निभृताङ्ग. 11 b कदु कन्दो मेघो वा. 13 a अरुणच्छवि उदये सति रक्तवर्णो भवति, b णहसरि नभ.सरसि, विउट्टु विकसितम्.

मिगंमुहइ मुह्ण्डं कंतिपिह  
मेहलियहि णं संतोसकारि

पियलेहहु केरउ णं करंडु ।  
खेयरणाहहु णं पाणहारि ।

15

घत्ता—जणलोयणणियरणिवासघरु सुहणिहि अमयकलालउ ॥

ससि सीयं वि रामणतणु डहइ णं खयसिहिसिहमेलउ ॥ १८ ॥

## 19

दुवई—णं सहइ हसइ रसइ परु पुच्छइ माणिणिविसयसंगहं ॥

ढंकइ दोसणिवहु गुण पयडइ अहणिसु करइ संकहं ॥ छ ॥

सिरु धुणइ कणइ णीसासु मुयइ  
परिममइ रमइ णउ कहिं मि ठाणि  
णायणणइ गेउ मणोज्जवज्जु  
णउ ण्हाइ ण परिहइ दिव्वु वत्थु  
णउ वंधइ णियसिरि कुसुमदामु  
ण विलेवणु सुरहिउ अंगि<sup>३</sup> देइ  
णउ भूसइ तणु णउ महइ भोउ  
जहिं जाइ तहिं जि सो सीय णियइ  
अंधारण वि संमुहउं घडिउं  
पाणिउं वि पियइ सो तहिं ससीउ  
करदीवदित्तु उववणहिं चलिउ

सयणयलि पडइ अलियउं जि सुयइ ।

पियमित्तभवणि उज्जाणि जाणि ।

ण पउंजइ कि पि वि रायकज्जु । 5

णउ ढोयइ विविहाहारि हत्थु ।

णउ मण्णइ खगकामिणिहि कामु ।

विरहाउरु णउ अप्पउं विवेइ ।

णउ रुच्चइ तहु एक्कु वि विणोउ ।

वारिज्जइ दुक्की केण णियइ । 10

सीयहि मुहुं पेक्खइ दिसहिं जडिउं ।

परवसु वट्टइ वीसद्धगीउ ।

पियविरहहुयासें णां जलिउ ।

घत्ता—जहिं अच्छइ णियंडपरिद्वियउ अंजणतणुरुहु वालउ ॥

तहिं दहसुहु रइसुहु कहिं लहइ वम्महु जहिं पडिकूलउ ॥ १९ ॥ 15

## 20

दुवई—अह अणुकूलु होउ मयरद्धउ सीयहि सीलदूसणं ॥

किज्जइ कहि मि वण्य खज्जोर्णं किं रवियरविहसणं ॥ छ ॥

थिउ सीयहि पुरउ खगिंदु केम

णियमरणभविच्छिहि जीउ जेम ।

७ A मृग<sup>०</sup>. ८ AP णं खेयरणाहहु ९ A सीउ; P सीयल.

19 १ A तसइ ण हसइ सरइ परु. २ A दिव्ववत्थु. ३ AP देहि. ४ A णियडि परि<sup>०</sup>.

15 a मि ग मुहइ हरिणलाञ्छनेन. 16 a मे ह लि च हि मैथिल्याः. 18 सी य वि शीतोऽपि, ख य सि हि-  
सि ह मे ल उ प्रलयकालाग्निशिखामेलापक .

19 1 ण सहइ अन्यं न सहते. 2 संकहं तस्याः समीचीना कथाम्. 3 b सुयइ स्वपिति.  
4 b जाणि वाहने. 5 b विवेइ वेत्ति जानाति. 12 a ससीउ शीतयुक्त सीतायुक्तं च, b वीसद्धगीउ  
दशग्रीवो रावण.

पभणइ सत्तमु दिणु जइ वि पत्तु  
 वित्थिण्णु मयरहरु कवणु तरइ  
 दुग्गमु तिकूड गिरि कवणु चडइ  
 पायालपरिह जणजणियसंक  
 जइ चितहि कुलु तो तुहुं जि कासु  
 जइ चितहि परिहउ तो सलग्घु  
 जइ चितहि एवहिं रामपेम्मु  
 जइ चितहि सिरि तो हउं जि राउ  
 हलि वीणालाविणि मणाविमदि

पिइ तो वि ण कि संवरहि चित्तु ।  
 तिमिगिलतंगिलगिलियंगु मरइ । 5  
 कक्करि सयसक्करु होवि पडइ ।  
 भूगोयरु पइसइ कवणु लंक ।  
 पोसिय जणएं जणवैयपयासु ।  
 हउं उत्तमु भुवणत्तइ महग्घु ।  
 तो तहु दंसाणि तुह अण्णु जम्मु । 10  
 कि लग्गउ तुज्जु सइत्तवाउ ।  
 महएवि महारी होहि भदि ।

घत्ता—हलि सीय महारइ खग्गजलि आहंडलु वि णिमज्जइ ॥

आलिगहि मइं सुललियभुयहि रामे कि किर किज्जइ ॥ २० ॥

## 21

दुवई—करिसिररत्तलित्तमोत्तियणियरंचियकेसरालओ ॥

संतइ सीहि सीय ससहरमुहि कि रम्मइ सियालओ ॥ छु ॥

अच्छउ स रामु लक्खणु हयासुं  
 किं किज्जइ चरणविहूसणत्तु  
 किकरमहिलाहि किं तणुंगुणेण  
 महु दासि वि तुहुं महएवि होहि  
 उरयलु मेरउं लालउ विसत्थु  
 अणुवसहुं एहि महु पंजलीइ  
 महु खग्गघायलंछणहरेण  
 मा वहउ विणेउरु चरणजुयलु  
 थिय सइ णियपिययमलीणाचित्त

दसरहु वि महारउ ताम दासु ।  
 जइ लब्भइ हलि चूडामणित्तु ।  
 किं पाउयाहि मणिमंडणेण । 5  
 लच्छिहि पंतिहि कोप्परु म देहि ।  
 मा मुसलकिणांकिउ होउ हत्थु ।  
 मा सलिलु वहहि फणित्तुंभलीइ ।  
 खंडे रहुवइसिरखप्परेण ।  
 करमरि कालायसलोहणियलु । 10  
 उत्तरु ण देति पहुणा पउत्त ।

घत्ता—पइं सीइ अज्जु तिलु तिलु करमि भूयहं देमि दिसावलि ॥

पर पच्छइ दूसह होइ महुं विरहजलणजालावलि ॥ २१ ॥

20 १ A °तगिल° २ AP जणवए पयासु. ३ AP हलि अण्णु

21 १ AP किं किर गुणेण. २ P मुसलु किणकिउ.

20 4 a पि इ प्रिये सीते, सवरहि रामस्योपरि सकोचय. 5 b तिमि गिलेत्यादि तिमि-  
 र्मत्स्यविशेषः स गिल्यते येन स तिमिगिल., सोऽपि गिल्यते येन स तद्विलः, तेन गिलिताङ्गः. 6 b कक्करि  
 गिरिदन्ते, सयसक्करु शतखण्डः. 8 b जणवयपयासु लोकप्रसिद्धिः. 11 b सइत्तवाउ सतीत्ववातः.

21 2 सतइ सीहि सिंहे विद्यमाने सति. 8 a अणुवसहु एहि निवास कुरु. 9 a °लंछण-  
 हरेण चिह्नधरेण. 10 a विणेउरु विगतनूपुरम्, b करमरि हे दासि.

## 22

दुवई—ता मंदोयरीइ दिण्णुत्तरु जंपासि सुयणगरहियं ॥  
किं तियसिंदवंदकंदावण रावण जुत्तिविरहियं ॥ छ ॥

हा पुरिस हुंति सयल वि णिहीण	घरघरिणि जइ वि उव्वसिसमाण ।
कामेण तइ वि ते खयहु जंति	परघरदासिहि लग्गिावि मरंति ।
कहिं काइहि रत्तउ रायहंसु	कहिं खरि कहिं सुरकरिहत्थफंसु । 5
कहिं भूगोयरि कहिं खेयरिंदु	हा मयणजोग्गपरिणाणि मंडु ।
दीसइ विद्धंसियतिमिरवंदु	जिहै गंगहि तिह वाहलहि चंडु ।
महिलंतरु णर ण मुणांति किं पि	कामुय करंति दुच्चरित्तु जं पि ।
ता णियघरु गउ लज्जिवि दसासु	मयसुय दुक्की जाणइहि पासु ।
अचलोइय सीयाएवि ताइ	णं जलहिवेल ससहरकलाइ । 10
णं विउसमईइ सुकईत्तलीलै	णं स जि ताइ सुविसुद्धसीलै ।
ओलक्खिय पयजुयलंछणेण	जा चिरु घल्लिय णिदिय जणेण ।
मंजूसइ सहं कत्थइ वणांति	सरिसरसीयलसिंचियदियंति ।

घत्ता—हा अँघडिउं घडिउं विहायएण इंदीवरदलणयणहु ॥  
आणिय सा मेरी एह सुय कालरत्ति दहवयणहु ॥ २२ ॥ 15

## 23

दुवई—जणणसुयाहिलासणियवइखयचिंतामउलियच्छिया ॥  
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मंदोयरि दुस्सहदुक्खमुच्छिया ॥ छ ॥

पच्छाइय कामिणिकरयलेहिं	सिंचिय सुयंधसीयलजलेहिं ।
विज्जियै पडिचमरुक्खेवपहिं	आसासिय चंदणलेवपहिं ।
कह कह व देवि सज्जीव जाय	भणु कासु अवँच्छल होइ माय । 5
मुहकुहरहु वियलिय महुर वाय	हा सीय पुत्ति तुहुं महुं जि जाय ।

22 १ A °परियाणि, P °परिमाणि. २ A तिमिरचदु. ३ P omits जिह. ४ P सुकइत्तणेण.  
५ P adds after this: णं जिणवरधम्म अहिसणेण. ६ P adds after this: णं सुरसरोइ मयर-  
हरलील. ७ P अयडिउं.

23 १ A जणणि. २ A omits दुस्सह°. ३ AP विजिय. ४ A ण वच्छल.

22 5 a का इ हि काकभार्यायाम्; b सुरकरिहत्थफंसु ऐरावणकरस्पर्शः. 6 b मयण जोग्ग-  
परिणाणि कामशास्त्रपरिज्ञाने. 7 b वाहलहि नगरजलवाहिन्याम्. 9 b मयसुय मयराजः पुत्री मन्दो-  
दरी. 10 a सीयाएवि सीतादेवी. 11 b स जि सा सीता एव. 14 विहायएण विधात्रा.

23 1 जणणसुयाहिलास° पितुः पुत्रीवाञ्छा.

हा विलसिउं किं विहिणा खलेण  
तुञ्जुप्परि रत्तउ तायचित्तु  
इय सोयभावणिम्मोयणाइं  
पेच्छिवि सीयाइ सर्दुक्ख रुण्ण

वोलीणुं जम्मु दुक्कियफलेण ।  
हा दइवें विहरंतरि णिहित्तु ।  
वाहुल्लकणोल्लइं लोयणाइं ।  
मंदोयरिथणणीसरिउ थण्ण । 10

घत्ता—आसण्णइ थिइ विहवत्तणइ एंतउं सीयइ जोइंउं ॥

थण मेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीरु पंधाइं ॥ २३ ॥

## 24

दुवई—णिम्मलसीलसलिलभरवाहिणि णिच्छहं णिययदेहए ॥

जाणइ तेण सीयदुद्धोहें जिणपडिमं व्व रेहए ॥ छ ॥

तं किं सीयल्लु रहुवइअसंगि  
खगवइकंतइ पुणरवि पवुत्तु  
हउं जणाणि तुहोरउ जणणु एहु  
वुत्तउं पइवयगुणादिण्णल्लाइ  
सच्चउं दहमुहु महु होइ वप्पु  
मइं पेत्तहि रामहु पासि ताम  
जणणीइ पवोल्लिउ रामरामि  
आहारें अंगु अणंगधामु  
इय भणिवि देवि गय णियणिवासु  
महिवइभिच्चहं घल्लिवि रउइ  
समरंगणि णिज्जियअरिवरेण

णिवउंतु दुद्धु सिमिसिमइ अंगि ।  
मा इच्छहि पुत्ति पुलत्थिपुत्तु ।  
ता सीयहि रोमंचियउ देहु । 5  
सच्चउं तुहुं मेरी माय माइ ।  
णासिवि तहु केरउ दुक्कियप्पु ।  
कुडि मेल्लिवि जाइ ण जीउ जाम ।  
कुरु भोयणु पुत्तिइ मज्झखामि ।  
अंगे होंते पुणु मिलइ रामु । 10  
हियवउ हरिसिउं अंजणसुयासु ।  
चेयण चप्पंति महंत णिइ ।  
लहुं धरिउ वाणरायारु तेण ।

घत्ता—अविहियण्णाणाहि णिरु णिरत्तणाहि मल्लिणहि मइलियवत्थहि ॥

सो सीयहि रोमविओइयहि गंडयलासियहत्थहि ॥ २४ ॥ 15

५ AP विहिणा कि. ६ A वोलीणजम्मि, P वोली णुजम्मि. ७ AP वाहुल्लकणोल्लइं. ८ A सुदुक्खरुण्णु, P सुदुक्खु रुण्णु. ९ AP थण्णु. १० P जोइयउ. ११ P पधाविउं.

24 १ AP णिच्छिह. २ A णियइ. ३ AP सित्त तेण दुद्धोहें ३ A जिणपडिविद्व.

४ A तुहारी. ५ P रामविल्लइयहि.

9 a १णिम्मो यणा इं निर्गन्तमोदानि हर्षरहितानि, b वाहुल्लकणोल्लइ वाक्कणाद्वानि. 10 b थण्णु दुग्गु.  
11 विहवत्तणइ विधवात्त्वे.

24 1 णिच्छह निरुत्ता निज्जगणिएवि. २ जाणइ नीना. सीयदुद्धोहें पंतदुग्गुययणि.

3 a रहुवइअसंगि नधवत्त्यासगने सत्ति. 4 a खगवइकंतइ मन्दोदय S ७ कुडि मरीत्त.

9 a रामरामि हे रामभार्ये. 15 मंडयलासिय गण्डनलानि.

## 25

दुवई—लक्खणु पेक्खमाणु भारहियहि सणियं पयइं देंतओ ॥

दुक्कई कइवरिंदु तहि णियडइ कइगुण अणुसरंतओ ॥ छ ॥

पत्तलवट्टुलयरतंवकणु

णवकणयकंजकिंजक्खणु ।

सिहिविप्फुलिगचलपिंगलच्छु

णीरोमभउहु लवंतपुच्छुं ।

संसिकंतिवंततिक्खग्गदंतु

कयकरजुयलंजलि बुक्करंतु । 5

अवलोइउ देविइ पमउ एंतु

थिउ अग्गइ पयपंकय णमंतु ।

तेणंवाहि दाविउ दइयणेहु

सहुं अंगुत्थलियइ धित्तु लेहु ।

परमेसरि मइं रंजियमणासु

परियाणहि पुत्तु पहंजणासु ।

रामहु दूयउ हणुवंतणामु

विज्जाहर वरु वीसमउ कामु ।

तुह विरहइणीणु मायंगगामि

पइं सुमरइ अणुदिणु रामसामि । 10

घत्ता—णउ वोळइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयइ ॥

जोईसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइं पई णिज्झायइ ॥ २५ ॥

## 26

दुवई—दहमुहकुइयचित्तु अवलोयइ असिद्धसपरुसपहरणं ॥

लक्खणु खणु वि माइ णउ मेल्लइ तुह कमकमलसुंयैरणं ॥ छ ॥

ता सीयइ चिंतिउ णियमणेण

णिल्लक्खण हउं किं लक्खणेण ।

महु हयरामहु कहिं मिलइ रामु

कहिं वाणरु कहिं भत्तारु णामु ।

कहि वाणरु कहि भिच्चत्तु पत्तु

आलिहियउं कहि आणियउं पत्तु । 5

परिचिंतिवि महु भोयणउवाउ

रिउरइउ एहु मायासहाउ ।

जाणिवि वइदेहिहि अंतरंगु

पुणु भासइ सुइसुहयरु अणंगु ।

सुणि रामदूउ हउं कह ण होमि

गूढइं अहिणाणवयाइं देमि ।

25 १ A सणियइ. २ A दुक्कउ. ३ P °पुंछु. ४ AP संसिकंतकति. ५ A तेण तहि. ६ AP दाविय°. ७ A हणुमंतु; P हणवंतु. ८ P पइ पणइणि ज्ञायइ.

26 १ AP °परसु°. २ A सुमरणं. ३ AP भत्तार. ४ P परिचिंतइ. ५ P आणिवि.

25 1 भारहियहि भरतनामजनकस्यापत्य भारतिः तस्याः सीताया वाण्याश्च; सणियं ग्रनेः. 2 कइवरिंदु कविर्वानरश्च कइगुण कविगुणान् कपिगुणाश्च. 3 a °वट्टुलयर° वर्तुलतगै. 6 a पमउ प्रमृगो वानरः. 9 b वीसमउ विंगतित्तमः. 12 पइ पतिः.

26 1 °कुइय° कुपितम्. 2 °सुंयरणं स्मरणम्. 4 a हयगमहु हतरमणीयतायाः. 5 b अहिणाणवयाइं अभिज्ञानपदानि.

एकहिं दिणि पइं किउ पणयकोउ  
वलउल्लउ चँप्पिउं सहं करेण

छिंकिउं राहवु अणुहुत्तभोउ ।  
पइं णिद्धणाहणेहायरेण ।

10

घत्ता—हारावलि थणयलि संजमिय णयणइं वि सताविच्छइं ॥  
पइं वियसियकुसुमइं सिरि कयइं पईजीवियणेवत्थइं ॥ २६ ॥

## 27

दुवई—णियंवइ चित्ति धंरिवि पसरियजसु कउं मिसु णिसुउ रहुसुओ ॥  
मंदिरपंजरत्थु जयजीवरवेण पसोइओ सुओ ॥ छ ॥

अंभणंतिइ रहुपहुजीयभहु  
थिरु चियंउ ससवणि कणयवत्तु  
णासाणालिहि परिमलु पियंतु  
फलघणंथणाउ अंकुरणहाउ  
पल्लवकराउ महुरत्तियाउ  
तइयहं तुह मणं ईसाविहिण्णु  
पंरिहिउ पणामवित्थारपण  
परिपालियधम्मसउच्चसच्चु  
करपल्लवेण पियलेहु गहिउ  
मणु पसरइ कर पसरंति णेयं  
दूरत्थ वि गाढउं देवि खेसु  
मणवासिणि दहरहरायंसुण्हि

पुणु रइउ तिलउ कुंकुमरसहु ।  
जइयहुं थिउ पिउ उववणि रमंतु ।  
दल्लवेल्लहलउ वेल्लिउ णियंतु । 5  
फुल्लंघयलीलालयसुहाउ ।  
णावइ वसंतरायहु तियाउ ।  
णाइद्धउ कंचुउ दइयदिण्णु ।  
फुट्टउं पुलपं गंरुआरण ।  
ता सीयइ बुज्झिउ रामभिच्चु । 10  
मेल्लेप्पिणु वाइउ कवडरहिउ ।  
को जाणइ दुज्जयकम्मभेय ।  
णियकुसलवत्त हउं कहमि रामु ।  
लइ सव्वु चारु सरयंदंजोण्हि ।

घत्ता—धीरी होज्जसु हलि जणयसुए भडरणरंगि भिडेप्पिणु ॥

ढोएथी तुहुं महुं वंधविण दससिरसीसु खुडेप्पिणु ॥ २७ ॥ 15

६ A छक्किउ, P छिक्किउ. ७ A चंपिउ. ८ P पयजोवियं.

27 १ A णियपइ. २ P वरिवि. ३ AP पसाहिओ. ४ A अभणति पगु. ५ A थवियउ. P थविय. ६ हलवेल्लहलउ, P दल्लवेल्लहलउ. ७ AP ०णयणाउ अंकुरणहाउ. ८ AP फुल्लघयलीलालयसुहाउ. ९ AP मणु. १० P ईसाविहिह्णु. ११ A पगहिउ. १२ P वित्थारण. १३ A णण. १४ A ०सुण्ह. १५ A ०जुण्ह.

11 सताविच्छइ सकज्जलानि कृतानि. 12 पइजी वियणेवत्थ र अविशवाभूतगानि.

27 1 णियवइ निजपतिः राम कउं मिसु रामचन्द्रे मत्तत्तव्ठोमाणत्तवाउ हुनः णिसुउ न्णु मध्ये श्रुतो विख्यातः, पळे नि अतिगयेन सुअ रे हुन. 2 पकात्तओ तुओ मन्थित मन्थ पिय. 4 a चियउ स्थापितम्, नववणि स्वर्णो. 5 a णासाणादिणि नाम एउ कटिणा कय. 6 ०वेल्लहलउ कोमला. 6 b फुल्लघयलीलालयं भगवत्तसा अत्तयाः नै. सुण्णु मन्थ ज. 7 b तियाउ त्तिर. 8 b णाइद्धउ न परिहितम्. दइयदिणु भवेत्तम्. 11 नेणे पिय उवावइ. 13 a नेनु आलिज्जनम्.



## 28

दुवई—अणुदिणु लच्छिणाहु पइं सुमरइ तसियकुरंगलोयणे ॥  
 ज्ञायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कइवय दिवह परयणे ॥ छ ॥  
 तूसेप्पिणु सीयइ अहुईउ ता कउ अंगुलियहिं अंगुलीउ ।  
 कइ पुच्छिउ लंघियविउलखयलु तेण वि अक्खिउ वित्तंतु सयलु ।  
 विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु विणु तेण ण थक्कइ मणुयंप्राणुं । ७  
 तं तासु वयणु पडिवणु ताइ गउ पावणि सूरुगामि पहाइ ।  
 सीयासुंदरिहिं खगोयरीइ उवयरिउं चारु मंदोयरीइ ।  
 अइरावयलीलागामिणीहिं मज्जणउं भरिउं खगकामिणीहिं ।  
 पल्हत्थियाइं तत्तइं जलाइं किं तावियाइं जइ णिम्मलाइं ।  
 णियकुलु वि उहइ णिग्घिणु हुयांसु कइ खमइ विवक्खहिं जणियतासु ॥ 10  
 तिलमुक्कं तेल्लं मुक्कं केस विणु तिलसंवंधं सुहिं वि वेसं ।  
 किं पुणु धम्मिल्लय कुडिलभाव हरिणीलणील ह्यभमरगाव ।

यत्ता—सण्हइं चोक्खइं ससहरसियइं राहवजससंकासइं ॥

दीहरइं सुविउलइं सुहयरइं देविहिं दिण्णइं वासइं ॥ २८ ॥

## 29

दुवई—थिय परिहिवि मयच्छि ण पसाहणु नेण्हइ पियविओइया ॥  
 ताव रसोइ सव्व तहिं आणिय मंदोयरि पराइया ॥ छ ॥  
 वंदिईं जिणि मणि समसुहपयट्टि आसीण भडारी रयणपट्टि ।  
 कलहोयथालकच्चोलेपत्त णं धरणिवीटि णक्खत्त पत्त ।  
 उण्हण्हउं दिण्णउं पढमपेउ णं दाविउ दहंमुहिं विरहवेउ । ७  
 णं तिकखु मिट्ठु मलदोसणासु णं भासिउं परमजिणेसरासु ।  
 पुणु दिण्णइं णाणासालणाइं णं दहमुहरइआसालणाइं ।  
 आणेप्पिणु घल्लिउ दीहु कूरु णं दहंमुहिं सीयाभाव कूरु ।  
 ढोइयइं ससूवइं रसवहाइं णं दहंमुहिं सीयारइवहाइं ।  
 उवणिय धियधार महासुयंध दहंमुहिं सीयादिट्ठि व सुअंध । 10

28 १ A सुअरइ. २ A परवणे; P परियणे. ३ P लूत्तेप्पिणु. ४ AP मणुअपाणु. ५ AP add after this: आहारं अणु अणंगवामु अंगं होतं पुणु मिल्लइ रामु. ६ A द्यालु. ७ AP सेस. ८ A वीहयरइं.

29 १ A परिहवि. २ AP पराणिया. ३ AP वंदिवि जिणमणि. ४ AP धित्त. ५ A दहसुहं.

28 1 तसियकुरंगलोयणे चकितहरिणलोचने. 2 परयणे परजनमव्ये. 3 a अहुईउ अद्वितीयम्. 6 b पहाइ प्रभाते. 10 a णियकुलु काष्ठम्. 11 b वेस ट्रेप.

29 1 पसाहणु कुङ्कुमकर्पूरचन्दनादिमण्डनम्. 2 पराइया प्रेषिता. 3 a समसुहपयट्टि समतासुखप्रवर्तके. 7 b रइ आसालणाइं रत्याशावन्वनानि. 9 a ससूवइं शोभना दालिविद्योपासयुक्ता. 10 b सुअंध अतिगयेनान्या.

णिण्णेहवंतु णिरु मंदु तक्कु  
उवणिउ माहिसु दहि र्थहु गव्वु  
उवणिउ बहुविहु वोराइपाणु  
अइसरसइं भक्खइं चक्खियाइं  
कइकव्वु व कयमत्तापवाणु  
अच्चंविउं पुणु मुद्धहि विहाइ

णं दहंमुहि सीयामणवियक्कु ।  
णं दहंमुहि सीयामाणगव्वु ।  
णं दहमुहरमणहु कोसपाणु ।  
णं दहंमुहि सर सइं भक्खियाइं ।  
भोयणु भुत्तउं खीरावसाणु । 15  
पाणिउं दिण्णउं दहमुहहु णाइ ।

यत्ता—पूयफलेण सच्चुण्णएण पत्तगुणेण समग्गउ ॥  
तंवोलराउ रामु व सइहि छज्जइ अहरविलग्गउ ॥ २९ ॥

30

दुवई—इय भुंजेवि भोज्जु भूमीसुय सीलगुणंबुवाहिणी ॥  
थिय णंदणवणांति सीसंवतलि सीरहरस्स गेहिणी ॥ छ ॥

एत्तहि हणुंमंतु वि पत्तु तित्थु  
हा सीय सीय सकलुणु कणंतु  
वोलाविउ मारुइ तं कयत्थु  
भणु कि दिट्ठउं सिसुहरिणणेत्तु  
कि मुच्छिउ णिवडइ जीवचत्तु  
तं णिसुणिवि हणुणं उत्तु एव  
दिट्ठउ रावणु णं कलिकयंतु  
दिट्ठी मंदोयरि पिउ चवंति  
अवरु वि दिट्ठउं आरामहंतु

अच्छइ दुग्गंतरि रामु जेत्थु ।  
णियकरयलेण उरु सिरु हणंतु ।  
मउडग्गचडावियउं हयहत्थु । 5  
कि णउ कुमार मेरउं कलत्तु ।  
कि महुं विरहं पंचत्तु पत्तु ।  
दिट्ठी जाणइ जीवंति देव ।  
सीयहि सकामवयणाइं देंतु ।  
देविहि हियउल्लउं संथवंति । 10  
उप्पण्णउं चक्कु पहाँफुरंतु ।

यत्ता—सिरिमंतु सरूवु वि दहवयणु सीयहि मणु णासंवइ ॥  
भरहुप्परिगामिय तेयणिहि पुप्फयंतं को लंघइ ॥ ३० ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुग्गीवहणुवंतकुमारागमणं  
सीयादंसणं णाम तिसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७३ ॥

६ A यद्धुगव्वु. ७ P कोराइपाणु. ८ A कइमत्तावपाणु, P कयमत्तापमाणु ९ AP अंचवियउ.

30 १ P सीसवयलि. २ A हणवतु. ३ A रुयतु. ४ A उभयहत्थु. ५ AP महाफुरंतु.  
६ AP सुव्वु. ७ P पुप्फयतु ८ A हणवंतकुमारागमण णाम तिहत्तरिमो.

12 गव्वु गव्यम्. 13 a वोराइपाणु बदराम्लिकादिपानम्. 14 b सर कामानुबद्धवचनादीनि स्मर-  
सुखानि वा. 15 a मत्तापवाणु मात्राप्रमाणम्, b खीरावसाणु दुग्धपानमवसाने कृतम्. 16 a अच-  
वियउ हस्तमुखप्रक्षालनम्. 17 पूयफलेण पूसाफलेन पवित्रफलेन च.

30 2 सीरहरस्स हलधरस्य रामस्य. 5 a कयत्थु कृतार्थः कृतप्रयोजन. 11 a आरामहंतु  
आराभिर्महत् चक्रम्. 12 णासघइ न आश्रयति नाकलयति नानुरज्जयति च. 13 पुप्फयंत चन्द्रसूर्यौ.

परहु ण देइ मणु अवसें मउलइ सकलंकहो ॥  
फुल्लइ पउमिणिय करफंसें कहिं मि मियंकहो ॥ ध्रुवकं ॥

I

हेला—सीयादेवि देव दीहुण्ह णीससंती ॥

सुअरइ तुह पयाइं भत्तारभत्तिवंती ॥ छ ॥

सिरि व उविंदहु	सरि व समुंदहु ।	5
मेत्ति <sup>३</sup> व णेहहु	मोरि व मेहहु ।	
भमरि व पोमहु	संति व सोमहु ।	
करिणि व पीलुहि	करहि व पीलुहि ।	
विउसि व छेयहु	हरिणि व गेयहु ।	
णववणकंतहु	जेव वसंतहु ।	10
सुअरइ कोइल	धीरत्तें इल ।	
जिणंगुण जाणइ	तिह तुह जाणइ ।	
तुह सा राणी	खंतिसमाणी ।	
भव्वहं रुच्चइ	खणु वि ण मुच्चइ ।	
लक्खणचिंतइ	वहुजसवंतइ ।	15
वरकंविचित्ति व	धम्मपचित्ति व ।	
समसंपत्ति व	साहसथत्ति व ।	
कुलहरजुत्ति व	जिणवरभत्ति वं ।	
णिरु परलोइणि	तुह सुहदाइणि ।	
सा आणिज्जइ	रिउ मारिज्जइ ।	20

घत्ता—विरहहुयासहउ पियवत्तइ सुइवहुदुकइ ॥

वियसिउ रामदुमु णं सित्तउ अमियंजलकइ ॥ १ ॥

1 १ A मयकहु. २ P adds after this. महि व णरिदहु सइ व सुरिदहु. ३ A मित्तेव.  
४ A सोमहु. ५ AP हिरि व सुसीलहि. ६ AP णववहुकंतहु. ७ AP read a as b and b as a.  
८ A °जसवतिइ. ९ AP °कइ°. १० AP add after this: सज्जगमेत्ति व. ११ AP अमय°.

1 1 परहु चन्द्रस्य रावणस्य च मउलइ सकुचति. 7 b मति शान्तिः. 8 b ररि व  
पीलुहि उट्टीव पीलुवृक्षस्य. 9 a छेयहु छेकस्य चतुरस्य. 10 a णववणकंतहु नर्गनयनेन कान्तस्य  
मनोहरस्य वसन्तस्य कोकिला यथा स्मरति. 11 b इल भूमि. 12 b जाणइ जनने. 15 a लक्खण  
चिंतइ लक्ष्मणचिन्तया, पक्षे व्याकरणचिन्तया. 22 विरहहुयासहउ विगमिना दग्ग मुहवउकइ  
नर्गमारो प्राप्तया. 23 अमियंजलकइ अमृतभारया.

## 2

हेला—गाढालिंगिऊण रामेण पवणपुत्तो ॥

सीयासंगमो व्व हरिसेणेव वुत्तो ॥ छ ॥

तुह समु कि भण्णइ अवरु णरु  
तुहु मुहुं मणकमलहु दिवसयरु  
जलु थलु णहयलु तुह गम्मु जहि  
तहि अवसरि रूसिवि अतुलवलु  
वलएवहु पायपोमु णवइ  
मइं रवियरदारियतिमिरवलि  
जइ सायरु सलिलु दुग्गु कमइ  
तो कुंडलमंडियगंडयलु  
तुह गेहिणि देमि समेइणिय

अंजणिसुय तुहुं सुहिविहुरहरु ।  
विरहावडणिवडणधरणतरु ।  
वण्णेव्वउं सव्वु समत्तु तहिं । 5  
सिरिणाहें जोइउ भुयजुवलु ।  
कोवारुणच्छु लंखणु चवइ ।  
हणवंतु णेइ जइ गयणयलि ।  
जइ लंकाणयरिणियडि थवइ ।  
तोडेपिणु दहमुहासिरकमलु । 10  
णच्चावमि विड्डुर डाइणिय ।

घत्ता—दे आपसु महुं सँर करउ गमणु साहेज्जउं ॥

कंताहरणरुहु फेडमि अज्जु जि वयणिज्जउं ॥ २ ॥

## 3

हेला—ता सीराउहेण उवसामिओ अणंतो ॥

णं केसरिकिसोरओ रोसविप्फुरंतो ॥ छ ॥

भडयणु णिहिलु वि ओसारियउ  
सउंवाउ अवाउ सहाउ धणु  
आरंभ कम्मफलसिद्धि किह  
तं णिसुणिवि मंगलेण कहिउ  
दुग्गासिउ वलवंतु वि विजइ

पंचंगु मंतु अवयारियउ ।  
मंतिउ महुं किं<sup>३</sup> वइरिहिं वलु कवणु ।  
किह दइवु हवइ भणु मुणितं जिह । 5  
णिव णिसुणि मंतु विगईरहिउ ।  
खगराउ तिसुंडधराहिवइ ।

2 १ AP हरिसेण एम वुत्तो. २ AP अजणसुय. ३ A °धरणि°. ४ A माहउ, P माहडु.  
५ P हणुवतु. ६ T डावर भयानकं संग्रामो वा, विडुर इति पाठेऽप्ययमेवार्थ. ७ AP सरु.  
८ AP कंताहरणु र्हो.

3 १ A सउवायउ चाउ सहाउ वलु. २ AP महुं वइरिहिं कवणु वलु.

2 2 हरिसेणे व वुत्तो हणें एवमुक्तः. 4 b विरहेत्यादि विरहकूपपतनधरणवृक्षः. 5 b समत्तु  
समाप्तम्. 6 b सिरिणाहें लक्ष्मणेन. 7 a वलएवहु वलभद्रस्य गमस्य. 9 a कमइ उच्चारयति.  
11 a समेइणिय मेदिनीसहिता, b विडुर भयानका. 12 सग स्मरो हनुमान्. 13 °रुहु उत्पन्नम्.

3 1 सीराउहेण हलायुधेन रामेण, अणतो लक्ष्मणः. 4 a सउवाउ अवाउ उपायसहितोऽ-  
पायः. 6 a मंगलेण मङ्गलनाम्ना मन्त्रिणा, b विगईरहिउ अन्यथात्वरहित.

जइ सीय देइ राणि णब्मिडइ  
 तं<sup>३</sup> विहसिवि सुग्गीवें भणिउं  
 हणुवंतु सहाउ हउं वि पवलु  
 विज्जउ पहरणइं वि चिंतियइं  
 हलहर तुहुं राणउ देव जहिं  
 धुउं लक्खणहत्थे रिउ मरइ  
 भो मंगल मा किं पि वि भणहि

तो भल्लउं महु मणि आवडइ ।  
 पइं रावणजीविउं कि गणिउं ।  
 हरि पुण्णवंतु चालइ अचलु । 10  
 होहिति मंतविहिमंतियइं ।  
 पडिक्खु पसंसिउ काइं तहिं ।  
 णिहइवहु दुग्गु काइं करइ ।  
 तहु चक्कु कालचक्कु व गणहि ।

घत्ता—तेण जि तासुं सिरु छिदेव्वउं राणि गोविदें ॥  
 दिणयरि उग्गमिइ किं पयडिज्जइ चंदे ॥ ३ ॥

15

## 4

हेला—उत्तं रामसामिणा जइ अहं महंतो ॥

लच्छीहरपसाहिओ पउरपुण्णवंतो ॥ छ ॥

णियदूउ तो वि तहु पट्टवमि  
 णिय सो<sup>३</sup> किं देइ ण देइ वहु  
 भणु कवणु वओहरविहिकुसलु  
 सुग्गीउ कहइ रिउछिंदणहु  
 गुणवंत अत्थि णैर धरणियर  
 सुकुलीणु अदीणु दीणसरणु  
 एकिल्लेउ भल्लउ सेल्लवहि  
 सूहउ सूरुउ गंभीरु थिरु  
 णिट्टुरहं वि उप्पाइयपणउ  
 किं वण्णमि सहयरु अप्पणउ  
 ता रामे संचियणेहरसु  
 सुग्गीउ वंधु बुद्धिइ गहिउ

उप्पिच्छु समत्थु व णिट्टवमि ।  
 पेक्खहुं किं वोल्लइ पुहइपहु ।  
 जिणवरचरणारविंदभसलु । 5  
 जेड्डहु दससंदणणंदणहु ।  
 ते जंति ण खे ण होंति खयर ।  
 अग्गि व सीहु व दूसहफुरणु ।  
 राणि सरजालंचियसदिसवहि ।  
 पडिवण्णसूरु तेयंसि णिरु । 10  
 हियमियमहुरक्खरजंपणउ ।  
 दूयत्तजोग्गु अंजणतणउ ।  
 पुरिसुण्णउ पोरिसकणयकसु ।  
 विजाहररायत्तणि णिट्ठे ।

घत्ता—बंधिवि पट्टु सिरि हणुवंतु कियउ सेणावइ ॥

15

जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवलु णित्थयावइ ॥ ४ ॥

३ AP ता. ४ P मंत तिहि. ५ A ध्रुव. ६ P तालु जि निरु.

4 १ AP जइ वि अहं. २ AP किं सो. ३ A णक्खणिरु. ४ AP एकलउ. ५ AP तिहिउ.

8 a णब्मिडइ युद्ध न ज्ञेति. 11 b ° न निवदं निम्नितानि आरहितानि. 15 तेण मंत चनेण.

4 3 a उप्पिच्छु संयत्तं उट्ट उड्डित्तं, णिट्टवमि मान्गमि. 1 a वहु सीता. 5 a य भीट्ठि  
 त्तोत्तरे वृत्त. 9 a नेत्तवहि भल्लसत्ते. 10 b पट्टिक्खुसूरु अग्गीरसकणयकसु मन्त. 11 a ध  
 वेण्णमि. 13 b पुरिसुण्णउ पुण्णं मन्त उक्खी नरण. 14 कणयकय दूयत्तजोग्गु. 15 a तिहिउ  
 युद्ध, णित्थयावइ निम्नित्तं.

## 5

हेला—दिण्णा राहवेण हणुयस्स खर्यरंगया ॥

रविगयंविजयकुमुयपवणवेयया सहाया ॥ छ ॥

गरुयारइ मंतिकज्जि थविउ	वल्लहहें मारुइ सिक्खविउ ।	
जाएज्जसु भवणु विहीसणहु	परिपालियखत्तियसासणहु ।	
वोल्लेज्जसु मिट्ठु किं पि तिह	अप्पावइ सीयाएवि जिह ।	5
जइ सामें देइ ण दहवयणु	तो पुणु भणु दंहु चंडवयणु ।	
अम्हहुं विवरोक्खइ आवडिय	ललियंग भित्तवित्तिहि चडिय ।	
अण्णाणें रइरहसेण णिय	भण्णइ अप्पिज्जउ रामपिय ।	
गोविदमुक्कणुणमग्गणाहिं	दारियसरीरु संहुं ससयणाहिं ।	
सोणियजलसित्तच्छत्तंसहिउ	मा होहि कयंतणयरपहिउ ॥	10

घत्ता—वोल्लिउ लक्खणिण सूर्यं सीय वसुंधरि ढोयवि ॥

जइ दहमुहु जियइ तो जीवउ किंकरु होइवि ॥ ५ ॥

## 6

हेला—अहवा जइ ण देइ तो जाई किं जियंतो ॥

मइ कुद्धेण हणुय णउ हणइ कं कयंतो ॥ छ ॥

तेलोककचक्कजूरावणहु	इय जाइवि साहहि रावणहु ।	
जइ तिण्णि वि एयउ देइ णउ	तो तासु महु वि किर संधि कउ ।	
जइ जुज्झइ तो कालाणलहु	जइ णासइ तो पुणु काणणहु ।	5
पेसमि दहगीउ ण दूय जइ	रहुवइपयजुवल्लु ण णवमि तइ ।	
तो हल्लि हरि जयकारिवि चलिउ	तणुभूसणमणियरसंवलिउ ।	
तारावलिहारावलिउरहि	उत्तुंगहि तुंगपयोहरहि ।	
पंविमलपसण्णदिसवयणियहि	चंदक्कमणोहरणयणियहि ।	
आहं डलधणुउप्परियणाहि	रंजियविज्जाहरगणमणाहि ।	10
णहलच्छिहि उवरि देंतु पयइं	पडिसुहडंहुं संजणंतु भयइं ।	

घत्ता—संखपंतिदसणु वडवाणलजालाकेसरु ॥

वेलापुंछवल्लु मणिगणणहु सीहु व भासुरु ॥ ६ ॥

5 १ AP खयरराया. २ AP रविगइ°. ३ P कुमुयवल्लवेयया. ४ AP बल्लहहें. ५ A भुवणु.  
६ AP चंडदंडवयणु. ७ A अम्हइ. ८ A ललियंगि. ९ A सहुं सज्जणेहिं. १० P omits छत्त.  
११ A सिय, P सीय.

6 १ P कि जाइ. २ AP हरि हलि. ३ AP °सुहडहु ण जणतु.

5 3 b मारुइ हनूमान्. 7 a विवरोक्खइ विपरोक्खे. 10 b °पहिउ पथिकः.

6 4 a तिण्णि वि एयउ श्रीः, सीता, भूः, b कउ कुत्त.. 13 मणिगणणहु रत्नान्येव  
नखा यस्य.

7

हेला—गंभीरो सरमेरुं गीढमयरमुद्दो ॥

मारुइणा तुरंतेणं लंघिओ समुद्दो ॥ छ ॥

भुवणंतरालि विक्खायएण  
 तिसिहरगिरिणालें उद्धरिउ  
 छुहधवलट्टालविउलदलु  
 देउलहंसावलपरियरिउ  
 कामिणिमुहरसमयरंदरसु  
 रावणरवियरवियसावियउ  
 वित्थरियकोसु सुभुयंगपिउ  
 णहि जंतु जंतु मारुइभसलु

दीहें जलणिहिसरजायएण ।  
 पायारकणिणयापरियरिउ ।  
 लच्छीमंजीररावमुहलु । 5  
 कणयालयकेसरपिजारिउ ।  
 जसपरिमलपूरियगयणदिसु ।  
 देवाहं वि भल्लुउं भावियउं ।  
 कह णिउणें विहिणा णिम्मविउ ।  
 संपत्तउ तं लंकाकमलु ॥ 10

घत्ता—जोयवि कुसुमसरु णारीयणु असेसु वि खुद्धउ ॥

कंपइ णीससइ हसइ व बहुणेहणिवद्धउ ॥ ७ ॥

8

हेला—कंदप्पं सुरुविणं णिएवि चित्तचोरं ॥

कां वि देइ सकंकणं चारुहारदोरं ॥ छ ॥

क वि जोयइ दिट्ठिइ मउलियइ  
 क वि चलियकडक्खहि विवैलियइ  
 काहि वि गय तुट्ठिवि मेहलिय

गुरुयणि सलज्जदरमउलियइ ।  
 क वि वियसियाइ क वि विलुलियइ ।  
 क वि मुच्छिय धरणीयालि घुलिय । १०

7 १ AP समेरु, K सरमेरु but records a *p*. अथवा समेरु समर्याद, T सरमेरु जलमर्यादः, अथवा समेरु समर्यादः. २ AP गाढमयरमुद्दो. ३ A णिसियर°. ४ A पायाले. ५ AP °हंसावलपंडुरउ, K पंडुरिउ इत्यपि पाठः. ६ A कणयालयकेसरि°. ७ A वित्थारिय°.

8 १ AP का वि हु देइ. २ P चौरहार°. ३ A गुरुयण°. ४ P विवालियइ.

7 1 सरमेरु जलमर्यादः, गीढमयरमुद्दो न्यस्तमकरमुद्द. 4 a तिसिहर° त्रिकूटः; ७ पायारकणिणया° प्राकार एव कर्णिका. 5 b मंजीर° नूपुरम्. 6 b कणयालय° सुवर्णगृहम्. 11 खुद्धउ क्षोभं प्राप्तः.

8 1 णिएवि दृष्ट्वा. 3 a मउलियइ मुकुलितादिदृष्टीना लक्षणं यथा । हिययन्मन्तरणिन्मरपहरिस-परिपेत्थिया य जा दिट्ठी । परिमउलियवित्थारा मउला णामेण सा दिट्ठी ॥ १ ॥ जारुइणिन्मरा वियसिऊण पियदिट्ठिवचणपयट्ठा । तद्दसणे सलज्जा डुलई मच्छो व्व सा लुलिया ॥ २ ॥ गुरुयणपुरओ लज्जकुत्सेण करिणि व्व रुद्धसचारा । जा घोलइ पियहुत्तं कडक्खवलियत्ति सा दिट्ठी ॥ ३ ॥ १० a मेहलिय कटिमेसला.

काहि वि रइजलझलक झलियँ  
काइ वि थणजुयलउं पायडिउं  
क वि भणइ एहु हलि दूउ जहिँ  
सइ सीय भडारी वज्जामिय  
हलि एहु वि पेच्छिवि पुरिसवरु  
पायगँ जइ थणग्गु छिवइ  
तो हउं सकियथी जगि जुवइ  
अप्पाणु परु वि ण सच्चंवइ

क वि उरयलु पर्हणइ झिंदुलिय ।  
काहि वि परिहाणु झत्ति पडिउं ।  
केहउ सो होही रामु तहिँ ।  
ण सइत्तणवित्ति अइक्कमिय ।  
जइ कह व महारउं एइ घरु । 10  
तंवोलु वि जइ उप्परि धिवइ ।  
क वि पेम्मपरव्वस मूढमइ ।  
हा मुइयं मुइय जणवउ चवइ ।

घत्ता—कामु हरंतु मणु पुरवरणारीसंघायहु ॥

वलइयउच्छुधणु गउ भवणु विहीसणरायहु ॥ ८ ॥

15

## 9

हेला—णियकुलकुमुयससहरो मुणियरायणाओ ॥

आओ तेण मण्णिओ अंजणंगजाओ ॥ छु ॥

रयणुज्जलु आसणु घल्लियउं  
पाहुणयवित्ति णिस्सेसं कय  
कि किज्जइ किं किउ आगमणु  
गुणवंतु भत्तिभाउंभवउ  
पइं जेहउ माणुसु जासु घरि  
लइ एत्थु विहीसण दोसु ण वि  
पत्थहि पउलत्थि देउ तरुणि

मणहारि समंजसु वोल्लियउं ।  
पुच्छिउ कहिँ अच्छिय कहिँ वि गय ।  
तं णिसुणिवि पभणइ रइरमणु । 5  
णयवंतु संतु महुरुल्लवउ ।  
किं सो लग्गइ परघरिणिकरि ।  
कालिंदिसलिलणिहदेहछवि ।  
पायालि म णिवडउ णिक्कराणे ।

घत्ता—गिरि गिरिययसरिसु गोप्पँउ जासु रयणायरु ॥

10

तँ सहुं कवणु रणु किं करइं गव्वु तुह भायरु ॥ ९ ॥

५ AP गलिय. ६ A पहरइ. ७ A हलि एहु. ८ AP सकियथी. ९ A संभरइ.  
१० AP मुयइ मुयइ.

9 १ AP णीसेस. २ A भाउत्तमउ. ३ A पहुलच्छि देव. ४ P गोप्पउ व जासु. ५ A करइ  
तुहारउ भायरु.

6 a ° झलक धारा, झलिय सुता, b झिंदुलिय कामविह्वला. 7 a पायडिउं प्रकटितम्. 9 a वज्ज-  
मिय वज्जघटिता. 10 a पुरिसवरु कामदेवरूपो हनूमान्.

9 1 °रायणाओ °राजनीतिः. 5 b रइरमणु कामो हनूमान्. 8 b कालिंदि° यमुना.  
9 a पत्थहि त्वं प्रार्थय, पउलत्थि पौलस्त्यो रावणः, देउ तरुणि सीता ददातु. 10 गिरियय° कन्दुकः  
गोप्पउ गोष्पदम्.





भो मंदेरसुंदरकयभैवण  
भो देव दसास दसासगय-  
लक्खणदामोयरणमियकमु  
जसु णामे संकइ विसमु जउं  
ते तुज्झ पांसि हउं संपहिउ

भो महिहरकंपावणपवण ।  
जसंधवलियजग रयणियरधय । 10  
अट्टमु हलहरु रणरसविसमु ।  
किर कवणु गहणु तहु देव हउं ।  
इय साहइ सो विणयं सहिउ ।

घत्ता—आणिय सीय जइ तो णत्थि दोसु पूणु दिज्जइ ॥

हरिविक्कमहरिणा सहं तुरियं संधि रइज्जइ ॥ ११ ॥

15

## 12

हेला—आरूढो गयाहिवे मोरु कुल्लमगं ॥

को मग्गइ रयंधओ एलयाण दुग्गं ॥ छ ॥

सायर किं मज्जायहि सरइ  
जइ दीवउ अंधारउ करइ  
जइ तुहुं जि कुकम्मइं आयरहि  
तो कासु पासि जणु लहइ जउ  
अण्णु वि णाणाविहदुक्खभरु  
तं णिसुणिवि लंकेसरु भणइ  
महु किंकरु ताव पढमु जणउ  
तहु दिण्णी हउं किं<sup>१</sup> किर खममि

महिवइ किं अण्णणारि हरइ ।  
तो किं पाहाणखंडु फुरइ ।  
मणु कुवहि वहतउं णउ धरहि । 5  
जहिं रक्खणु तहिं उप्पण्णु भउ ।  
परहरु इहरत्तपरत्तहरु ।  
को रंडकहाणियाउ सुणइ ।  
पुणरवि दसरहु दसरहतणउ ।  
घरलंजिय सीय किं<sup>३</sup> ण रममि । 10

घत्ता—पुव्व पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी ॥

सो छिदिवि मृगेणं मइं आणिय णयणरवण्णी ॥ १२ ॥

## 13

हेला—मइं चित्तेण छित्तिया कह अणुहवइ रामो ॥

हो हो मयरकेउणा एत्थं णत्थि सामो ॥ छ ॥

४ A सुदरमदर<sup>०</sup>. ५ P<sup>०</sup>भमण. ६ AP जगधवलियजस. ७ AP पासु.

12 १ AT एडयाण. २ AP किर किं. ३ AP ण किं. ४ P मिगेण.

13 १ AP मयरकेउणो. २ A इत्थ णत्थि, P इत्थ अत्थि.

9 a मदरसुदरकयभवण मन्दरे सुन्दरा कृता आवासा येन. 10 a-b दसासेत्यादि दशसु दिक्षु गतेन यशसा धवलित जगद् येन. 13 b विणए साम्ना. 15 हरिविक्कमहरिणा सिंहपराक्रमेण रामेण.

12 1 गयाहिवे गजाधिपे 2 को मग्गइ को मयूर मृगयते, रयंधओ पापान्ध. कोपान्धो वा, एलयाण दुग्गं छालकाना विषम गड्ढरकाणा दुग्गं च मृगयते स गड्ढरकै, कृत्वा स्वस्य रक्षा वाञ्छति.

3 a सरइ चलति. 7 b परहरु परकलत्रम् 10 b घरलंजिय गृहदासी. 12 छिदिवि छलयित्वा,

13 1 छित्तिया स्पृष्टा. 2 मयरकेउणा त्वया कामेन सह.

जं चंगउं तं तं अवठवइ  
मणिकारणि मुहि कवलउ अहि वि  
सयडंगु वि मगइ एउ खलु  
पुरि मगउ लगउ मञ्जु रणि  
तं पिसुणिवि सुँट्टु दुगुंछियउं  
णउं हसिउं देव पइं मणियउं  
सूर्यं सीय वसुंधरि देइ जइ  
सो लिहियउं तुह रूवु वि पुसइ  
हरि केव वि अम्हइं उवसमहुं

किंकरु सुद्धत्तणु दक्खवइ ।  
जइ मगइ तो मगउ महि वि ।  
सो संपहि वइइ वूढछलु ॥ 5  
किं अच्छइ तहिं हिंडंतु वणि ।  
दूएण राउ णिभंछियउ ।  
केसवजंपिउं णायणियउं ।  
परमत्थे इच्छइ संधि तइ ।  
णियभायहु उवरोहे सहइ । 10  
लंकाउरि णेय अइक्कमहुं ।

घत्ता—मुइ मुइ एह त्थं सुँहिणेहे कहइ कइद्धउ ॥

रावण वइइ पइं रणरंगि जणइणु कुद्धउ ॥ १३ ॥

## 14

हेला—ताव णिकुंभ कुंभ खरदूसणा विरुद्धा ॥

हणुहणुसइदारुणा मारणावलुद्धा ॥ छ ॥

कोवारुणणयण भणंति भड  
मयरद्धय धुवु लज्जइ रहिउ  
खज्जोएं किं रवि ढंकियउ  
किं भमरें गरुहु झडप्पियउ  
जेणेहउं बोहहि मुक्ख तुहुं  
तुहु एक्कु सहाउ वीय पिसुणु  
ते लक्खण राम दसाणणहु  
तो हरिणा इव चुक्कंति कहि  
तहिं पत्तलु दलु पइं किं थविउं  
तो रामहु तुम्हहं तं सरणु

गोवाल वाल दढमूढ जड ।  
किं झंखहि णं जरेण गहिउ ।  
किं सायरु गरुंले पंकियउ । 5  
किं दहमुहु अण्णे चंपियउ ।  
फोडिजइ तेरउ दुट्ट मुहुं ।  
सुग्गीउ वालिपावियवसणु ।  
जइ कमि पडंति पंचाणणहु ।  
वाएण जंति गिरिवर वि जहिं । 10  
जइ पयजुयलउं देवहु णाविउं ।  
णं तो आयउं एवाहि मरणु ।

घत्ता—हणुएं बोह्लिउं रणु धरि बोह्लंतहं चंगउं ॥

भडकलयलकलाहि पइसंतहिं कंपइ अंगउं ॥ ४ ॥

३ A तं तं अल्लवइ, P तं जि अवठवइ. ४ AP कहिं अच्छइ. ५ P सुद्धदुगु<sup>०</sup>. ६ A जणहसिउ.  
७ AP सिय. ८ AP लुहइ. ९ A वियभइं. १० AP तिय. ११ सुहिणिहे.

14 १ हणहणसइ. २ AP गरुले. ३ AP चप्पियउ.

3 a अवठवइ अवस्थापयति राजो निमित्तं धरतीत्यर्थ. 5 a स य ड गु शकटाङ्गम् b वूढ छलु धृतवलः  
वञ्चनं वा. 12 क इ द्धउ हनूमान्.

14 5 a खज्जोएं खद्योतेन; b पं कियउ दूषितः.

## 15

हेला—धणुजुत्ता भडा वि गज्जंति जेम मेहा ॥

तेम ण ते भिडंति वरिसंति सवणदेहा ॥ छ ॥

चिरु रिक्खपंतिसंणिहणहहि  
सरु ससरि तिविट्ठे समरि हउ  
जिह सो तिह तुहुं वि अणंगवसु  
दहवयण मरेसहि आहयणि  
सीहा इव कुडिलचहुंलणहर  
गज्जंतु पंतु तिणसमु गणित  
दुक्कह सयलहं सीसइं खुडमि  
ता भासिउ मग्गपयासणेण  
हम्मइ ण दूउ जंपउ विरसु  
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि

रत्तउ हयगीउ सयंपहहि ।  
मुउ सत्तमणरयहु णवर गउ ।  
लक्खणसरकड्डियरुहिररसु । 5  
रइ किं ण करहि मेरइ वयणि ।  
ता उट्ठिय खग हलमुसलकर ।  
मारुइणा सुहडसत्थु भणित ।  
तडिदंहु व पहुउप्परि पडमि ।  
अंतरि पइसेवि विहीसणेण । 10  
जाणेसहुं पोरिसु कणयकसु ।  
रिउहक्कारणमारणतुमुलि ।

घत्ता—राएं भासियउं मा मेरउ विहि विहरेज्जंसु ॥

राहवलक्खणहं संदेसउ एम कहेज्जसु ॥ १५ ॥

## 16

हेला—सरणं सुरंवरस्स पइसरइ जइ वि कामं ॥

तो वि अहं हणामि सहं किकरेहिं रामं ॥ छ ॥

धुवु पावमि भुक्खिउ कालकलि  
लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि  
णयरिउ मंदिरणिज्जियससिउ  
भडरुहिरमहासमुद्धि तरमि  
खलणीलहु णीलउं सिरु लुणमि  
दसरहदसप्राणइं णिडुवमि

तिलमेत्तइं खंडइं देमिं वलि ।  
वंदिग्गहि पुहइदेवि धरमि ।  
गेण्हवि कोसलवार्णारसिउ । 5  
सुग्गीवहु गीवभंगु करमि ।  
कुमुयहु कुमुयप्पएसु वणमि ।  
जणयहु जिउ जमपुरि पट्टवमि ।

15 १ °चवल°, P °चट्टल°. २ AP वि रहेज्जसु.

16 १ AP सुरवइस्स. २ P हणेमि. ३ P काल कलि. ४ AP देवि. ५ A छुहिवि वे वि.  
६ AP वाराणसिउ. ७ A °पाण विणिडुवमि, P° पाण वि णिडुवमि.

15 २ सवण देहा सवणदेहा. सजलदेहाश्च. ३ a रिक्ख प तिस णि ह ण ह हि नक्षत्रपंक्तिमदृश-  
नखायाम्; b सयंपह हि स्वयंप्रभावाम्. 6 a आहयणि समाने. 11 b जाणेसहु जात्यामः. 13 मा  
मेरउ वि हि वि हरेज्जसु विधि कर्तव्यं मा गोप्य कुरु.

16 1 कामं अतिशयेन. 4 b पुहइ देवी पृष्ठादेवी सीता. 7 a णीलउ कृष्णदेश-  
युक्तम्; b कुमुअप्पएसु नाभिकमलप्रदेशम्. 8 b जिउ जीवः.

कुंदहु कुंदाहइं अट्टियइं	जाणेज्जसु एवहिं णिट्टियइं ।	
कडूमि जंघाणलवस णलहु	ढोईवि छुहियहु ढंढरउलहु ।	10
हणुमंत तुज्जु हणु गिद्ध जिह	भक्खंति हणमि संगामि तिह ।	
जज्जाहि मित्तं मोक्कल्लियउ	ता पावणि णहयलि चल्लियउ ।	
ता चिंत पइट्ट विहीसणहु	को चुक्कइ कम्महु भीसणहु ।	
परमेसरु अद्धधरत्तिवइ	मारेव्वउ लक्खणेण णिवइ ।	
तहु दुम्मणु मुहुं अवलोइयउं	अप्पउं पहुणा पोमाइयउं ।	15
घत्ता—सभरह एंतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु ॥		
पुष्पयंत गयणे किं <sup>१०</sup> संमुहुं थंति विडप्पहु ॥ १६ ॥		

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे हणुमंतदूयगमणं  
णाम चउहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७४ ॥

८ AP णेय वि. ९ A हणवत. १० P मित्त तुहु मोक्कलिउ. ११ A कम्मविहीसणहु. १२ AP कुमुणि  
व कंदप्पहो; T कंदप्पहो कामस्य. १३ A कह संमुह थति, P किं सम्मु थति. १४ AP दूयकजं.

10 a जंघाणलवस जंघानलिकाया वसाम्; b छु हियहु बुभुधितस्य; ढंढरकुलहु राक्षसगमनस्य.  
16 सभरह भरनेन लघुभ्रात्रा; एंतु आगच्छन्तु; कुमुणियदप्पहु कीं पृथिव्यां मुनिनो जानो दपों सरह.  
17 विडप्पहु राहोः.

पवणंजयसुयहु समागमणि णं हरि हरिहि समावडिउ ॥  
रहुवइआपसें कुइयमणु लक्खणु वालिहि अब्भिडिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

हणुएण णवेप्पिणु भणिउ रामु  
दहवयणु ण इच्छइ संधि देव  
सामहु णामे जो वेउ सामु  
तं णिसुणिवि रोमंन्चिउ उविंदु  
रणि मारामि दससिरु कुंभयणु  
असिधारइ दारामि कुंभिकुंभु  
जीवावहाँहं खरदुसणाहं  
पहरंति केम हत्थेप्पहत्थ  
मारीयउ मारिहि देमि गासु  
विद्धंसैमि इंदइइंदजालु  
पेच्छेसहुं कइवयवासरेहि

भो णिसुणि भडारा हित्तरामु ।  
पर गज्जइ जिह वीहंति देव ।  
सो णायणइ वण्णेण सामु । 5  
गलगज्जइ हसियमुहारविंदु ।  
वणि लोहिउ दावामि कुंभयणु ।  
दलवट्टमि झ त्ति णिकुंभु कुंभु ।  
दारैमि उरु रहुवइदूसणाहं ।  
मइं मुक्कसरावल्लिण्णहत्थ । 10  
मउ णिम्मउ रणि कासु वि खगासु ।  
अरिपुरु पलित्तु लग्गिजालु ।  
परवल्लु पच्छाइउ महु सरोहि ।

घत्ता—मइं कुद्धे राहव सो जियइ जो तुह पयपंकय णवइ ॥

तुहु देव पयावँपसरतसिउ रवि वि णिरंतरु णउ तवइ ॥ १ ॥ 15

2

तहिं अवसरि आयउ वालिदूउ  
ते वुंत्तु देव अविल्लवधाम  
खेयरचूडामणिघँडियपाउ

घइसारिउ कज्जालाव हूउ ।  
सीयासइवल्लह णिसुणि राम ।  
अट्टंगु णवइ तुह वालिराउ ।

1 १ A वणलोहिउ. २ AP जीवावहारु. ३ A दावामि कयरहु°, T उरु महान्वक्षस्थलं वा.  
४ AP हत्यावहत्थ. ५ A विद्धंसिवि. ६ A इंदइ इंदजालु, P इदहो इदजालु. ७ A पयावइसरतसिउ.  
८ AP णवि.

2 १ AP भूउ. २ A तो वुत्तु. ३ A अविल्लवधाम. ४ A °चूलामणि°. ५ AP °घिड्डपाउ.

1 1 हरि सिंहः. 2 कुइयमणु कुपितमनाः. 3 b हित्तरामु हता रामा सीता येन स रावणः.  
5 a सामहु इत्यादि सामस्य नाम्ना सामवेदस्यापि नाम नाकर्णयति. 6 a उ विंदु लक्ष्मणः. 7 b कुंभ-  
यणु कुम्भैर्गणनीयम्. 9 b उरु महान् वक्षःस्थल वा. 12 a इंदइ इंदजालु इन्द्रजितः इन्द्रजालम्;  
b लग्गिजालु लग्नामिज्वालम्.

2 3 a घडि य पाउ °आरोपितपादः.

अण्णु वि विण्णवइ पडुल्लवत्तु  
तो णिद्धाडहि सुग्गीव हणुय  
णिवडंतु कूवि तिणधरि पडइ  
गरुपं सहं जायइ विग्गहेण  
तुह विरहखीण गुणवंत संत  
दासरहि पजंपइ लंक जाव  
मयगिल्लंगल्लु मित्तत्तहेउ  
पच्छइ जं इच्छइ तं जि करमि

जइ इच्छहि मेरउं किंकरत्तु ।  
रणभरु सहंति किं बालतणुय । 5  
णँगोहविलंविह उद्धु चडइ ।  
विहडिज्जइ हीरणपरिग्गहेण ।  
मारोप्पिणु रामणु हरमि कंत ।  
महुं समउ खगाहिउ एउ ताव ।  
करिवरं महामहेक्खु देउ । 10  
अहुणा तहु सुक्किउ काइं सरमि ।

घत्ता—लंइ इच्छउं केर महुंतणिय कुंजरु ढोइवि गिरिसरिसु ॥

इय भासिवि रापं पेसियउ सहं तहु दूपं णियपुरिसु ॥ २ ॥

## 3

किलिकिलिपुरु पत्तउ दिहु वालि  
मंतं पवुत्तु भो सच्छचित्त  
तूसंति राय सुद्धं मणेण  
जेणाहवखंधइ भग्गएण  
महुं भीपं कंड किक्किधि वासु  
कंहुयणि होइ पंडुरियं रेह  
जुज्जेसइ सीरि सिलिम्मुहेहिं  
मग्गणउ धम्मु गुणु मुइवि जाइ  
इय चित्तिवि बोल्लिउ रायमंति  
देसइ खयराहिउ असिपहारु

तेयाहिउ णं चंडंसुमालि ।  
करि ढोइवि करि पडुसमउं जत्त ।  
ता भणइ वालि संथुउ अणेण ।  
कायरणरमग्गविलग्गएण ।  
हा रामं पोसिउ पक्खु तासु । 5  
मणंगूढहु केरिय वित्ति एह ।  
अणउत्तु वि जाणिज्जइ बुहेहिं ।  
सुग्गीवहु हणुयहु उवरि थाइ ।  
भण्णइ ण देइ सो तुज्जु दंति ।  
तोडेसइ पइं सुग्गीवहारु । 10

घत्ता—ता झ त्ति वओहरु णीसरिउ आँविवि कण्णविवरक्खरउ ॥

आहासइ वलणारायणहं रिउदुव्वयणपरंपरउ ॥ ३ ॥

६ A तणुवारि, P तणधारि. ७ P णग्गोहि. ८ A दीण°. ९ A °गिल्लगिल्लमित्तत्त°. १० AP करि-  
वरु वि महा°. ११ P पेच्छइ. १२ A लइ इच्छउ, P सहं इच्छउ.

3 १ P °पुरि. २ A खंधं. ३ A किउ. ४ P पंडुरिव. ५ A मणगूढहं केरी; P मणमूढहं  
केरी. ६ A अणुउत्ति. ७ P आयणिवि कण्णविवरक्खरउ, T सुइविवर° श्रोत्रानिष्ट.

4 a पडुल्लवत्तु प्रफुल्लवदनः. 6 a णि वडतु इत्यादि कूपे पतन् तृणधारो तृणावलम्बकः पुमान्पतत्येव,  
वटवृक्षावलम्बकः पुनरुर्ध्वं चटति. 10 b देउ ददातु. 11 b सुक्किउ उपकार., सरमि स्मरामि.

3 2 जत्त यात्रा गमनम्. 4 a आहवखंधइ संग्रामधुरायाम्. 8 a मग्गणउ वाणो याचकश्च.  
11 वओहरु दूत, कण्णविवरक्खरउ श्रोत्रानिष्टाक्षरा. दुर्वचनपरपराः.

4

ता चिंताविउ मणि रामएउ  
 एक्कु जि रवि अण्णु जि गिंभयालु  
 एक्कु जि हरि अण्णु जि पक्खरालु  
 एक्कु जि विसिं अण्णु जि सविसदिट्ठि  
 एक्कु जि दहमुहु दुद्धरु विरुद्धु  
 मित्तयणु खीणु बलवंत सत्तु  
 विरइज्जइ एवहिं कवणु मंतु  
 ता विहसिवि वोल्लइ वासुएउ  
 केसरिकिसोरु किं मृगं छिंवांति  
 असमंजसु सज्जणपाणहारि  
 सुहडत्ताणंदियसुरवैरालि

एक्कुं जि सिहि अण्णु वि वायवेउ ।  
 एक्कु जि तमु अण्णु जि मेहजालु ।  
 एक्कु जि जमु अण्णु जि पुण्णकालु ।  
 एक्कु जि सणि अण्णु जि तहिं मि विट्ठि ।  
 अण्णेक्कु तहि जि बलिपुत्तु कुद्ध । 5  
 पाणिट्ठु सुट्ठु हित्तउ कलत्तु ।  
 णउ कुसलकारि एक्कु वि जियंतु ।  
 किं दीव जिणंति दिणेसतेउ ।  
 ते जगि जियंति जे पइं णवंति ।  
 परमेसर पच्छा कोवकारि । 10  
 अच्छउ रावणु ता हणमि वालि ।

घत्ता—मइं कुइइ रणंगणि ओत्थरिए भीरु महागिरिकंदरहु ॥  
 मा चिंतहि राहव किं पि तुहुं सूर जंति जममंदिरहु ॥ ४ ॥

5

ता पहुणा पेसिउ तक्खणेण  
 साहणु पहि उप्पहि णहि ण माइ  
 हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति  
 चूरियभुयंगं चैलविवलियंग  
 थिउ सिविरु धरेप्पिणु दुग्गमग्गु  
 आसोसियाइं सरिसरजलाइं  
 सिरणलिणारोहियणियकरेण  
 दुद्धरदीहरसुंडालसौहु  
 पडिवलु गयणयलविलगतालि

सुग्गीउ चलिउ सहुं लक्खणेण ।  
 गयघड मयवस मल्हंति जाइ ।  
 रैह चक्कधारदारियधरित्ति ।  
 भयकंपिय दिसमायंगं तुंग ।  
 उव्वेइंउ सससारंगवग्गु । 5  
 णिल्लूरियाइं णवदुमदलाइं ।  
 अक्खिउ वालिहि केण वि चरेण ।  
 रामे तुम्हुप्परि पहिउ दंडु ।  
 आवासिउ खइरवणंतरालि ।

4 १ P एक्कु वि. २ A विसु. ३ AP मिग. ४ A सुरवमालि. ५ A कुद्धइ, P कुइएण.

5 १ P उप्पहि पहि. २ AP णं णहि विलग साहणसुकित्ति. ३ AP चलवलियअग.  
 ४ A उव्वेयउ. ५ AP दीहरदुद्धरु.

4 1 b सि हि अग्नि, वायवेउ वायुवेग. 3 b पुण्णकालु पूर्णमायुः. 4 a वि सि सर्प..  
 5 b बलिपुत्तु बलिपुत्रो वाली. 6 b पाणिट्ठु प्राणेष्टम्. 9 a छिंवांति सृशन्ति. 11 a १ सुरव रालि  
 सुखश्रेणिः. 12 ओत्थरिए उच्छ्रिते सति, भीरु कातराः.

5 5 b सससारंगवग्गु शशमृगसमूहः. 7 a सिरेत्यादि मस्तकपद्मारोपितत्वहस्तेन, 8 b पहिउ  
 प्रषितः. 9 b खइरवणंतरालि खदिरवनमध्ये.



घत्ता—सुग्गीवें सेविउ सीरधरु लद्धउ सहयरु चक्कवइ ॥

10

तं णिसुणिवि रूसिवि सण्णहिवि णिग्गउ वालि खगाहिवइ ॥५॥

## 6

गंभीरतूरकोलाहलाइं  
अच्चिंभइइं कयरणकलयलाइं  
वणवियंलियपिच्छिललोहियाइं  
मोडियरहाइं फाडियधयाइं  
लुयदहगुडाइं हयगयघडाइं  
खयपेक्खराइं गयपक्खराइं  
तुट्ठच्छराइं बहुमच्छराइं  
वंत्रियपराइं पहरणपराइं  
ता तहिं रणंति पीणियकयंति  
कंतीइ चंदु रिद्धीइ इंदु  
तं भणिउं भाइ रे रे अराइ  
पहुमाणदहं खल दुन्वियहं

सुग्गीववालिखेयरवलाइं ।  
सरपसरपिहियपिहुणहयलाइं ।  
पयधुलियंतावलिरुहियाइं ।  
आसियणहाइं तासियगहाइं ।  
ताडियथडाइं पाडियभडाइं । 5  
चुयहरिवराइं कंपियधराइं ।  
मराणिच्छिराइं खणमुच्छिराइं ।  
मयणिभराइं हर्यभयभराइं ।  
सामंतकंति वेयालवंति ।  
किलिकिलिपुरिंदु धाइउ खगिंदु । 10  
विजाहराइं मेळ्ळिवि सजाइ ।  
वज्जियगुणहं सुग्गीव संढं ।

घत्ता—मेल्लेप्पिणुं सेव महुंतणिय वंधुणिवंधंइ तिलरिणइं ॥

पइसरिवि सरणु भूगोयरहं जीवेसहि भणु कइ दिणइं ॥ ६ ॥

## 7

मा पावहि आहवि पाणणासु  
तं वयणु सुणिवि सुग्गीउ चवइ  
तो लक्खणु भूगोयरु णिरुत्तु  
ते वे वि लग्ग विज्जावलेण  
पुणु तरुवरेण पुणु मारुएण

जज्जाहि पाव किक्किंधवासु ।  
पइं फेडिवि जइ मइ णाहिं थवइ ।  
अह णं तो पइं णिप्फलु पउत्तु ।  
पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जलेण ।  
पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण । 5

६ AP सण्णहिवि.

6 १ A आमिइइं. २ A° विहलिय°. ३ AP फाडियधयाइं मोडियरहाइं. ४ AP तासिय°. ५ A °पेक्खराइं. ६ A हियभय°. ७ A °दहु. ८ A दुन्वियहु. ९ A गुणहु. १० A चंदु. ११ मेळ्ळिवि सेवा. १२ AP वंधुणिवद्धइं.

7 १ A णिरुत्तु. २ AP मारुएण.

11 सण्णहिवि सन्नाहं कृत्वा.

6 2 b °पिहु° विस्तीर्णम्. 3 a वणवियलिय° व्रणविगलितम्; °पिच्छिल° जड सघनम्. 7 b मराणिच्छिराइं मृत्युवाञ्छकानि. 11 b सजाइ त्वजातीन्. 13 तिलरिणइं स्नेहकणानि. 14 कइ कति.

7 1 a आहवि रणे. 5 b विणयासुएण गरुडेन.

जुञ्जिय वेणिं वि पुणु भणइ जेट्टु  
ता भासइ तहिं राहवकणिट्टु  
हउं विट्टु देउ दसरहकुमारु  
णउं दिण्ण हत्थि रे देहि घाय

मइं कुद्धइ रक्खइ कवणु इट्टु ।  
तुहं ण मुणहि सिट्टु अणिट्टु विट्टु ।  
हउं विट्टु सदुट्टुट्टियकुठारु ।  
तुह एव्वहिं कुद्धा रामपाय ।

घत्ता—जइ जिणवरु सुमरिवि संतमणु चरहि सुदुद्धरु तवचरणु ॥ 10  
तो चुक्कइ महु रणि वइरि तुहं जइ पइसहि रामहु सरणु ॥ ७ ॥

8

ता हसिउ पंचलेण वलिरायपुत्तेण  
भूयरणरिंदस्स किं तस्स किर थामु  
जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितुंगु  
अक्खिवसि किं मुक्ख पक्खदवरपक्ख  
रत्तोवलित्तेहिं दरिसियपहारेहिं  
मारणकइच्छेहिं दुज्जणसमाणेहिं  
कोडीसरत्तेणं णिव्वूढगावाइं  
अण्णाइं गहियाइं अण्णाइं मुक्काइं  
धावंत वेवंत सरभिण्ण हिलिहिलिय  
गयघायकडयडिय रह पडियजोत्तार  
अग्भिट्टु ते वालि लक्खण महावीर  
तडिदंडसरलेहिं तरलेहिं खग्गेहिं  
खणखणखणंतेहिं उग्गयफुल्लिगेहिं

संगामपारंभपम्भारजुत्तेण ।  
तुहं गणिउ जगि केण अण्णेक्कु सो रामु।  
मइं जिणिवि रणरंगि अवहरहि मायंगु।  
कि कुणसि मइं कुइइ सुग्गीवि परिरक्ख  
गुणधम्ममुक्केहिं वम्मावहारेहिं । 5  
ता वे वि उत्थरिय विप्फुरियबाणेहिं ।  
छिण्णाइं चावाइं जमभउहभावाइं ।  
चिंधाइं रुद्धयंदेहिं लुक्काइं ।  
अंतावलीखलिय महिवाढि रुल्लुंघुलिय  
भड भीम थिय वे वि संगामर्कत्तार । 10  
थिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवराधीर ।  
संवरणपइसरणणीसरणमग्गेहिं ।  
जिगिजिगियधारापरंजियपयंगेहिं ।

घत्ता — रणसरवरि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥

अंसिचंचुइ लक्खणलक्खणिण तोडिउ वालिहि सिरकमलु ॥८॥ 15

३ AP दोणि. ४ AP णो दिण्ण.

8 १ बालेण. २ A अक्खवसि. ३ A परपक्खु, P परक्खु. ४ A कोडीसरत्तेहि. ५ AP रुद्धयदेहिं. ६ A मुक्काइ. ७ AP हय घुलिय. ८ AP °कत्तार. 9 A °धराधीर. १० A संवरण°. ११ A पराजिय°. १२ AP असिधाराचंचुइ लक्खणेण.

7 a राहव कणिट्टु लक्ष्मण., 7 b सिट्टु सायाः लक्ष्म्या इष्टो वल्लभः, सा लक्ष्मीर्वा इष्टा यस्य, अणिट्टु अनिष्टस्त्व शत्रुः, विट्टु विशेषेण इष्ट सुग्रीवस्य अहम्. 8 a विट्टु वासुदेव., b विट्टु वीनामिष्टो गरुडः; °अट्टियकुठारु अस्थिकुठारु.

8 4 a अक्खिवसि आक्षिपसि उत्पाटयसि, b परिरक्ख परिरक्षाम्. 5 b वम्मावहारेहिं मर्मापहारकैः. 6 b उत्थरिय युद्धार्थमुत्थितौ. 8 b रुद्धयदेहिं रौद्रार्धचन्द्रयाणै, लुक्काइ लुक्ताः. 10 a गयघायं गदाघातेन. 1१ a उग्गयफुल्लिगेहिं उत्पन्नामिकणै, b °परजियपयंगेहिं पराजित-पतङ्गैः पराजितसूर्यैः. 15 असिचंचुइ खड्गचञ्च्वा, लक्खणलक्खणिण लक्ष्मण एव सारसस्तेन.

9

फोडिवि रणि वइरिहि सिरकरोडि  
दिण्णी सुग्गीवखगाहिवासु  
मेल्लेप्पिणुं लक्खणु लच्छिधामु  
गहियइं णियकुलच्चिधइं वॅराइं  
पुरवरि घरि मंडलि णिहिय भिच्च  
आरुहिवि महाघणुवारणिंदु  
संपत्तु जणदणु पुण वि तेत्थु  
तहु पायपणइ सीसैं करेवि

किलिकिंलिपुरेण सहं गामकोडि ।  
एवडु फुरणु भणु भुषणि कासु ।  
सुपसणु महाजसु जासु रामु ।  
सीहासणल्लत्तइं चामराइं ।  
बहुवुद्धिवंत णिब्भिच्च सच्च । 5  
सहं सुग्गीवेण णरिंदचंडु ।  
णिवसइ वणंति बलहदु जेत्यु ।  
लक्खणु सुग्गीव चवंति वे वि ।

घत्ता—महिरूढउ वारियसूरकरु कामिणिवेल्लिविलासधरु ॥

तुहुं देव पयावहुयासणिण हेलइ दडुउ वालितरु ॥ ९ ॥ 10

10

ता पिसुणमरणसंतोसिपण  
जित्ताहवेण सहं माहवेण  
किक्किंधपुरहु दिण्णउं पयाणु  
महिणहयराहं रिउरोहिणीउ  
मंडलिय मिलिय वियलियसैगव्व  
णहु दीसइ णउ छायउं धपहिं  
करताडिय गज्जइ गमणभेरि  
उणिणहिय रामणगिलणमारि  
करिमयच्चिक्खिल्लद्र्हि णिमण्णु

मेल्लिवि तं उववणु ववसिएण ।  
सुग्गीवें हणुवें राहवेण ।  
संघट्टउं पॅहि जाणेण जाणु ।  
चलियउ चउदह अक्खोहिणीउ ।  
दिस पत्तहिं छत्तहिं छइय सव्व । 5  
हरिचरणपहयधूलीरएहिं ।  
भडहियवइ वहुइ वइरिखेरि ।  
गोविद कडक्खइ लच्छिणारि ।  
संदणसंदाणिउ वहइ सेण्णु ।

घत्ता—हरिणीलें कुंदें परियारिउ खगसारंगविराइयउ ॥ 10

किक्किंधसिहरि णियवंसधरु रामें रामु व जोइयउ ॥ १० ॥

9 १ P किलिगिलि°. २ A मन्नेप्पिणु. ३ P लच्छिवासु. ४ A चडाइ, P चलाइ.  
५ P महाघणुवारणिंदु.

10 १ AP संघट्टिउ. २ A पहु. ३ AP °सुगव्व. ४ AP °दहि. ५ A संदणि संदाणिए,  
P संदणसंदाणिए.

9 1 a °करोडि कपालम्. 5 b णि ब्भिच्च अव्यभिचारिणः. 7 a जणदणु लक्ष्मणः  
b बलहदु बलभद्रो रामः.

10 1 b ववसिएण कृतोद्यमेन. 5 a वियलियसगव्व विगलितस्वर्गा. 7 b °खेरि  
वैरक्रोधः. 3 a उणिणहिय जागरिता, b कडक्खइ कटाक्षेण विलोकयति. 9 a °द्रहि हृदे; b संदण-  
संदाणिउ अग्रेगतथै. सह रथान् बद्ध्वा आकर्षण क्रियते. 1॥ हरिणीलें गिरिपक्षे इन्द्रनीलमणिना, °सारग°  
पक्षे सारभूतमङ्गं धनुर्वा. 11 °सि हरि गिरिः, रामु व स्वस्य आत्मा इव.

## 11

पइसंतहिं हलहरकेसवेहिं  
 जहिं णिवसइ सो सुग्गीउ खयर  
 तोरणदुवारि सुपसत्थियाउ  
 णरचित्तसारधणं सामिणीउ  
 हल्लि धवलउ कालउ कवणु रामु  
 कि एहुं जि एहु ण एहु एहु  
 वररूवालुद्धइं जुंजियाइं  
 जणवयणयणइं कसणइं सियाइं  
 घरु आया कहिं लव्वंति इट्ठ  
 सिरपणमण्णहाणविलेवणेहिं  
 अविच्चितियसाहसकित्तितण्ह  
 सुग्गीवें वेण्णि वि सामिसाल  
 तहिं दियह जंति किर कइ वि जांव

अवरेहि मि बहुभूगोयेरेहिं ।  
 अवलोइउ तं किक्किधणयरु ।  
 दहिअवखयमंगलहत्थियाउ ।  
 वोळ्ळंति परोप्परु कामिणीउ ।  
 विहिं रूवहि किं थिउ देउ कामु । 5  
 दीसइ वण्णंतरभिण्णदेहु ।  
 अच्चंतपलोयणरंजियाइं ।  
 णं हरिवलतणुछायं कियाइं ।  
 णियमंदिरु पडिवत्तीइ दिट्ठ ।  
 देवंगहिं णिवसणभूसणेहिं । 10  
 भावें संमाणिय रामकण्ह ।  
 खलवलगल्लथल्लणबाहुडाल ।  
 संपत्तउ वासारत्तु तांव ।

घत्ता—घणगयवरि तडिकच्छं कियइ चडिउ धरेण्णिणु इंदधणु ॥

वरिसंतु सरहि पाउसणिवइ णं गिभें सहुं करइ रणु ॥ ११ ॥ 15

## 12

कायउलइं तरुघरि संठियाइं  
 सरवर संजाया तुच्छणल्लिण  
 णच्चंति मोर मज्जंति कंक  
 चल चायय तण्हाहय लवंति  
 पवसियपियाउ दुहसल्लियाउ

हंसइं सरमुंयणुकंठियाइं ।  
 दिसंभाय वि णवकसणब्भमल्लिण ।  
 पंथिय वहंति मणि गमणसंक ।  
 पउरंदरीउ जललउ पियंति ।  
 महमहियउ जाइउ फुल्लियाउ । 5

11 १ AP केसवहलहरेहिं. २ A °धणमाणिणीउ. ३ A हरि. ४ A थिउ किउ देउ.  
 ५ A एहु. ६ A °गल्लत्थण°.

12 १ A सरसुअणु°. २ A दिसभीय वि णं कसण°.

11 4 a णरचित्तसार° पुंसा चित्तमेव सार धनम्. 5 a हल्लि हे सखि, b विहिं रूवहिं  
 द्वाभ्यां शुक्लकृष्णाभ्याम्. 7 a अच्चंतपलोयण° अत्यन्तप्रलोकनेन. 8 b °तणुछायं कियाइं शरीरशोभा-  
 मयानि. 8 b पडिवत्तीइ प्रतिपत्त्या गौरवेण. 12 b गल्लथल्लण° गल्लहस्तदाने. 14 घणगयवरि  
 अभ्रपटल्लाजे, °कच्छ° वरत्रा.

12 1 a कायउलइं काककुलानि, b °मुंयणु° मोचने. 2 b णवकसणब्भमल्लिण नवीन-  
 कृष्णाभ्रेण मलिनाः. 4 a चायय चातकाः, b पउरंदरीय मेघसंवन्धि. 5 b जाइउ जातीलताः.

दिसँपसरियकेयइकुसुमरेणु  
वरिसंतें देवें भरिउ देसु  
एक्कहिं मिलियाइं दिसाणणाइं  
अवलोइवि रामु विसायगत्थु

चिक्खिल्लें तोसिय किडि करेणु ।  
जलु थलु संजायउं णिविसेसु ।  
पप्फुल्लकयंबइं काणणाइं ।  
थिउ णियकओलि संणिहियहत्थु ।

हत्ता—घणु गज्जउ विज्जु वि विप्फुरउ णडउ सिहंङि वि मूढमइ ॥ 10  
विणु सीयइ पावसुं राहवहु भणु किं हियवइ करइ रइ ॥ १२ ॥

13

पुणु सरउ पवणु सचंदहासु  
विमलासउ कुवलयभेयकारि  
परिसंतावियपोमंतरंगु  
णउ रुच्चइ रामहु वट्टमाणु  
ता सुग्गीवें वुत्तउ पहाणु  
मेलावहि सीयारामकामु  
वसुसयसंखा वरं दुण्णिारिक्ख  
वरवीर कौतकरवालहत्थ  
कयरयणकिरणपरिहँवविसुज्ज  
पडिविज्ञावारणि पुज्जणिज्ज  
संमेयमहीहरि सिद्धखेत्ति  
गुरुयणविहीइ आराहियाउ

वाणासणकयरिद्धीपयासु ।  
वहुबंधुजीवदोसावहारि ।  
णं रावणु दावियदुक्खसंगु ।  
पियविरहिउ किच्छें धरइ प्राणु ।  
केसव णिज्झायहि मंतझाणु । 5  
ता जाइवि सीयारामघासु ।  
चउदिसहिं णिउंजिवि देहरक्ख ।  
उच्चारिवि थुइमंगल पसत्थ ।  
सिवघोसमहामुणिपडिमपुज्ज ।  
कण्हें साहिय पणत्ति विज्ज । 10  
सुग्गीवें हणुवेण वि पवित्ति ।  
णाणाविहविज्जंउ साहियाउ ।

घत्ता—अण्णेक्कहिं अण्णाहिं गिरिसिंहंरि भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥

पणवंतिउ आयउ देवयउ पुष्कयंतरुइरिद्धियउ ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसड्डिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणप

महाकइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे वाँलिणिहणणं

रामलक्खणविज्ञासाहणं णाम पंचहत्तरिमो

परिच्छेओ समत्तो ॥ ७५ ॥

३ AP दिसि पसरिउ. ४ A चिक्खिल्लें. ५ AP °कलंबइं. ६ P पाउसु.

13 १ AP °जीवबंधु°. २ AP पाणु. ३ AP धर. ४ AP परिहवियसुज्ज. ५ AP विज्ञा.  
६ A गिरिवरहे. ७ P वालिणिहणं.

6 b कि डि सूकर. 9 a वि सा य ग त्थु विषादग्रस्तः. 10 सिंहंङि मयूर. 11 पा व सु मेघ.

13 1 a सरउ शरत्काल., सचंदहासु चन्द्रभासा चन्द्रदीप्या सह, b वाणासणं वाणा  
असनाश्च वृक्षविशेषाः, धनुश्च. 2 a विमलासउ निर्मलदिशः, विशिष्टमलचित्तश्च; b कुवलयभेयकारि  
कुवलयस्य भेदकारि विकाशकारी राजा चन्द्रश्च. 3 a °पोमंतरगु पद्मस्य रामस्य चान्तरङ्गम्.  
6 b सीयारामघासु सीतायां पृथिव्यां आरामस्थान शीतं वा आरामस्थानम्. 9 a कयेत्यादि कृतो  
रत्नकिरणैः परिभवो विशेषेणं सूर्ये यथा प्रतिमया सा. 10 a पडिविज्ञावारणि शत्रुविद्यानिषेधिका.  
13 भरहि भरतक्षेत्रे.

राहवलक्खणाहि जयजयघोसेण जयाणउं ॥

उप्परि दहमुहहु आरूसिवि दिण्णु पयाणउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

मलयमंजरी—उट्टिओ रउहो विविहतूरसहो भग्गवड्ढेरिधीरो ॥

चैलियसाहणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ छ ॥

संचल्लंति रामि महि कंपइ

धरभरणमिउ ण फणिवइ जंपइ । 5

गयपयकुडिय कुहिणि मयपंके

दुग्गम भावइ कयजणसंके ।

रहरहंगगइदारियविसहर

महिहर दलिय मलिय मय वणयर ।

पवणवसेण वलिर्य विलुलियधय

हयमुहफेणसलिलपसामियरय ।

वरभडथडचुण्णीकयमहिरुह

सेण्णाउण्ण सगयणासामुह ।

सोसिय सरि सर णिसुडिय जलयर

असिविप्फुरणगसिय ससिदिणयर । 10

रसिय भएण णाइं रयणायर

थिय देविद विसंडुल कायर ।

देसु विलंधिवि रणरहसुब्भइ

खंधावारु धरिवि जलणिहितइ ।

आवासिउ संचारिमभवणहिं

कंताकंतहि रइरसरमणहि ।

असियसियारुणपीयलहरियहिं

सोहइ वहुदूसहिं वित्थरियहिं ।

घत्ता—सिमिहं सुहावणउं परतरुणीसोहाखंडणु ॥

15

मेइणिकामिणिहि णं पंचवण्णुं तणुमंडणुं ॥ १ ॥

2

मलयमंजरी—रयणकंतिकंतं मयरकेउवंतं विजयलच्छिवासं ॥

सायरस्स णीरं णं विमुक्कमेरं रोहिउं<sup>१</sup> दसासं ॥ छ ॥

1 १ AP मलयमंजरी णाम. २ AP °वइरिवीरो. ३ P has कयपसाहणाणं before चलिय, K gives कयपसाहणाण in margin and in second hand ४ A संचल्लंतरामे. ५ AP °खुडिय°, K gives खुडिता वा as *p*. ६ AP चलिय. ७ AP सिविरु. ८ AP खंडणउं. ९ A पंचजणु. १० AP मंडणउं.

2 १ A रोहिओ.

1 1 जयाणउं जयस्य आनयनं जयनशीलमित्यर्थः. 6 *a* गयपयकुडिय गजपदैः क्षुभिता कम्पिता खुडिता वा आकुलिता विषमोन्नता इत्यर्थः, कु हि णि मार्गः, मयपंके मदजलकर्दमेन. 7 *b* मय मृताः. 9 सगयणासामुह गगनेन सह दिशामुखानि आपूर्णानि. 13 संचारिमभवणहिं गच्छद्गृहै. दूष्यादिभिः; *b* कंताकंतहिं स्त्रीकान्तैः.

2 2 विमुक्कमेर विमुक्तमर्यादम्, रोहिउं रुद्धं छादितम्.

गज्जिउ परवलु दुद्धरु दिद्धुं  
हणुमंतेण तरुणिकमणीयं  
रामु रामरमणीउ रमाहरु  
अच्छइ सायरतीरि णिसण्णउ  
सज्जणु अहिणवजलहरणीसणु  
विणविंसु वरखयरपहुत्तणु  
फार लच्छि देव वि धरि किंकर  
एंतु ण एंतु होंतु बलदप्पिय  
णिहिल जंति तिमिरु व दिवसयरहु  
एक्कु जि दोसुं णवर परमेसर

चारएहिं दहवयणहु सिट्टुं ।  
सहुं णियभायरेण सुग्गीवे ।  
खग्गपसाहियसयलवसुंधरु । 5  
अज्जु कल्लि दुक्कइ आसण्णउ ।  
तं णिसुणिवि विण्णवइ विहीसणु ।  
भुवणभायणिम्मलजसकित्तणु ।  
कवणु गहणु तुह किर पायड णर ।  
संगरि तुह करवालझडप्पिय । 10  
पइं होंतें कहिं दिहि रिउणियरहु ।  
जं पइं वाहिय परणारिहि कर ।

घत्ता—पूरइ तित्ति ण वि रइ पसरइ वंछइ संगहु ॥

परवहुरत्तमणु परि वडइ दिणेहिं णियंगहु ॥ २ ॥

## 3

भलयमंजरी—मयणवणियचित्तो परपुरंधिरत्तो मरइ साणुअंधो ॥

पडइ णरयंधे सत्तमे तमंधे वद्धकम्मबंधो ॥ छ ॥

विसहरसुरणरविरइयसेवहु  
हरिवाहिणिविज्जारहवाहहु  
वज्जावत्तसरासणहत्थहु  
चक्कपसूइ ण चंगउं दावइ  
अण्णहु किंकिंधेसु ण रप्पइ  
अण्णहु मारुइ किं घरु आवइ  
अण्णहु पंचयण्णु किं वज्जइ  
अण्णे धराणिधेणु किह वज्जइ

धीरहु वसुसंखावलएवहु ।  
भीमगयाहलमुसलसणाहहु ।  
दिज्जुं धरिणि देव काकुत्थहु । 5  
लक्खणु वासुएउ महुं भावइ ।  
अण्णहु किं रणि वालि समप्पइ ।  
किं पण्णत्तिविज्ज परिधावइ ।  
अण्णु एव किं लच्छिइ छज्जइ ।  
गारुडविज्ज ण अण्णहु सिज्जइ । 10

२ A रमणीयरमाहरु. ३ AP विणमिवसुंधर. ४ A भवणभाविणिम्मल°, P भुवणभाइ णिम्मल.  
५ A वर किंकर. ६ A यतु. ७ AP णवर दोसु.

3 १ A णरइरधे. २ A °विजाहर°. ३ A दिज्जइ. ४ AP देव धरिणि. ५ A अण्णु वि.  
६ A परिहावइ.

3 b चारए हिं दूतै.. 5 a रामरमणीउ स्त्रीणा मनोहर, रमाहरु लक्ष्मण.. 8 b भुवणभाय° भुवन-  
भागेषु. 9 b पायड णर सामान्यनराः. 10 b° झड पिय प्रहताः. 12 b वाहिय क्षिता अपहता इत्यर्थः.

3 1 °वणिय° व्रणितम्, साणुअंधो सातुवन्ध पुत्रकलत्रादिसहित.. 3 b वसुसंखावलएवहु  
अष्टमवलभद्रस्य. 5 b काकुत्थहु रामस्य. 6 a चक्कपसूइ द्वितीयचक्रप्रसृति. 7 a रप्पइ रागं करोति.  
9 a पंचयण्णु पाञ्चजन्यः.

परवहु इह पर परिहवगारी  
केवलिभासिउ देव ण चुक्कइ

अण्णु वि जाणइ धूयँ तुहारी ।  
देहि बलहु जा णियइ ण दुक्कइ ।

घत्ता—जंपइ दहवयणु भो जाहि जाहि जइ भीयउ ॥

पूरइ आहयणि भइ कुंभयणु महु बीयउ ॥ ३ ॥

## 4

मलयमंजरी—रे विहीसणुत्तं किं तप अजुत्तं मुयसु मंहिणिवासं ॥

हीणदीणवेसो चरणघुलियकेसो जाहि रामपासं ॥ छ ॥

हउं किं पुणु परिवोडि ण जाणमि

जो ण समिच्छइ सा णउ माणमि ।

एण म्मिसेण दंतपहविमलइं

खुडमि रामलक्खणसिरकमलइं ।

तणुसीयइ दंतं मलु फिट्ठइ

विणु सीयइ महु कि ण पर्यट्ठइ । 5

ता पणवंतु थंतु हेट्टामुहु

कसणाणणु णं गब्भिणिउररुहु ।

छेउ णिहालिउ बंधुसणेहहु

णिग्गउ बंधु गउ णियणेहहु ।

मंतिमईहिं मंतु अवलोइउ

भायरेण मणु णिच्छइ ढोइउ ।

एउं रहंगु खगिंदणिसुंभउं

जोयउं णाइ कुलीरहु डिंभउं ।

हा रावणु जियंतु णउ पेक्खमि

परहु जंति णियकुलसिरि रक्खमि । 10

बलवंतइ विवक्खि असहायहं

तंप्पएसु भल्लारउ रायहं ।

इय चितंतु णिसिहि णीसरियउ

दिट्ठु समुहु तेण जलभरियउ ।

घत्ता—झिजइ चंदु जइ तो सार्येजलु ओहट्ठइ ॥

पडिवणुणउं गुरुहुं आवइकालि ण फिट्ठइ ॥ ४ ॥

## 5

मलयमंजरी—जइ वि णिच्चवंको देहए ससंको तो वि एस चंदो ॥

सायरस्स इट्ठो माणसे पइट्ठो कंतियाइ रंदो ॥ छ ॥

हउं पुणु खलु चुक्कउ मज्जायहि

बंधुवइरि किं जायउ मायहि ।

इय जूरंतु जाम णहि वच्चइ

ता रामहु विसारि संसुच्चइ ।

७ P धीय. ८ A हो जाहि.

4 १ A मह णिवास. २ AP पुणु किं. ३ A पडिवाडि. ४ A जो. ५ A तणे सीयए. ६ AP दसणहं. ७ A पइट्ठइ. ८ A बंधसणेहहु. ९ A एहु. १० A जोयउ. ११ P तप्पएसु. १२ A सायर जलु. १३ P adds वि after कालि.

11 a पर परभवे. 12 b बलहु रामस्य. 14 आहयणि संग्रामे.

4 1 म हि णि वा स भूयासम्. 3 a परि वा डि अनुक्रमम्. 5 a त णु सी य इ तृ ण सी त या (?)

11 b त ण्प ए सु त स्मि न् वि प क्षे प्र वेश .

5 1 दे ह ए शरी रे, स सं को श श अ ङ्क रू पे ण. 4 b वि सा रि दू तः



देव विहीसणु दंसणु मग्गइ      तुह चरणारविंदु ओलग्गइ ।      5  
 पेक्खु पेक्खु णहि आयउ वट्टइ      जिह पडिवणु णेहु णोहट्टइ ।  
 तिह हरि<sup>१</sup> करि तुहुं वेण्णि वि पत्थिय      तेण दसासवित्ति अवहत्थिय ।  
 ता रामें सुग्गीवहु पेसणु      दिण्णउं आणहु तुरिउ विहीसणु ।  
 गय ते तंहिं सो वि सुपरिक्खिउ      णिरु णिन्भिच्चु मिच्चु ओलक्खिउ ।  
 आणेप्पिणु दाविउ हलधारिहि      पणविउ दाणविंदकुलवइरिहि ।      10  
 तें संमाणिउ रावणभायरु      किउ संभासणु सहारिसु सायरु ।

घत्ता—चित्तु चित्ति मिलिउं जगि परु वि बंधु हियगारउ ॥  
 बंधु जि परु हवइ जो णिच्चु जि वहियवइरउ ॥ ५ ॥

## 6

मलयमंजरी—पुरिससोक्खगाही अहियदेहवाही तिन्वदुक्खवल्लिं ॥  
 कुणइ कैह वि आयं सुण्णरणजायं ओसहं सुंहेल्लिं ॥ छ ॥  
 रावणरज्जदाणु वित्थिण्णउं      रामें तांसु तिवायइ दिण्णउं ।  
 गय कइवय वासर तंहिं जइयहुं      हणुणं वुत्तु हलाउहु तइयहुं ।  
 दे आणसु देव णउ थक्कमि      एवहिं लंकहि संमुहु दुक्कमि ।      5  
 भीमं वाणररूवें वड्डमि      डहमि घरइं भड्डंउणु कड्डमि ।  
 भंजमि वणइं लवलिदललंवइं      फलणवियंगइं पल्लवतंवइं ।  
 ता दसरहसुएण परवलहर      अरिकरिदंतंघट्टदीहरकर ।  
 कामरूवधर णावइ सुरवर      तासु सहाय दिण्ण विजाहर ।  
 वाणरविज्जइ वाणर होइवि      सयल वि गय लंकाउरि जोइवि । 10  
 गयणविलग्गदेह गिरिपहरण      वुक्करंत वगिय मग्गियरण ।  
 पुंछवल्लयवलइयतरुवरसिल      चरणचारचालियधरणीयल ।  
 छिन्वरणास दीहदंताणण      पिंगलणयण छोहभीसावण ।  
 घाइय पत्त दसासहु पट्टणु      मारुइणा जोइउ पंदणवणु ।

घत्ता—हरिकररुहवणिउं आलग्गसुरहिणवचंदणु ॥      15  
 वणु महु आवडइ णं लच्छिहि केरउं जोव्वणु ॥ ६ ॥

5 १ AP करि हरि. २ AP तंहिं जि सो.

6 १ A देववाही. २ A दुक्खमल्ली, P दुक्खवेल्लिं. ३ AP कहिं वि. ४ A सुहेल्ली.  
 ५ AP तासु वि वायइ. ६ P देहाणसु. ७ P भड्डंउणु. ८ A विल्लदललंवइं, P लवल्लिदललवतंइं.  
 ९ P करिकंत°. १० AP छिन्विरो.

7 a हरि हे विष्णो.

6 1 °सोक्खगाही सुखोद्दालक., अ हिय° न हितः. 2 सुहेल्लि सुखम्. 3 b तिवायइ त्रिवावचनेन. 6 b भड्डंउणु कड्डमि सुभट्संग्राममुत्पादयामि 13 a छिन्वरणास पृथुनासिकाः; b °छोहं क्रोधः. 15 हरिकररुहवणिउं विष्णुनखत्रणितम्. 16 आवडइ भासते.

मलयमंजरी—रूढवालकंदं देवदारुमंदं सूरकिरणवारं ॥

दिण्णकुसुमवासं दिव्वमिहुणवासं जणियमयणसारं ॥ छ ॥

इंदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धयं ।

वणमंजणसुएण लंगूलं चउहिं वि दिसहिं रुद्धयं ॥ १ ॥

सुरकरिसोंडं चंडभुयदंडवलेण चलेण पेह्लियं ।

5

मोडियमहिरुहोहसंघट्टणचुयचंदणरसोल्लियं ॥ २ ॥

करमरकडहकुडयकडयं डरवउड्ढावियविहंगयं ।

भग्गणवल्लुपल्लवदलगयगुमुगुमियभिं गयं ॥ ३ ॥

णिविडं वडालिवंदणुम्मूलणविहडावियरसोयलं ।

णिग्गयसविसफरुसफुक्कारभयं करसमणिफणिउलं ॥ ४ ॥

10

चूरियचारचूयचैवच्चिचिणिसमिलवलीलवंगयं ।

पायाहयपलोड्ढचंपयचैयदलवट्ठियं कुरंगयं ॥ ५ ॥

दलियलयाणिवासणिण्णासियसुरवरखयररइसुहं ।

सुकट्ठिणकरंतलप्पमुसुमूरियकीलागिरिगुहामुहं ॥ ६ ॥

पविमलमणिसिलायलुत्थल्लणदिग्गयजक्खकंतयं ।

15

सरवावीणिवद्धविद्धंसियकीलासलिलजंतयं ॥ ७ ॥

हयवित्थिण्णसाहिसाहाचुंयबहुमहुबिंदुतंबयं ।

पडियकवित्थभग्गकिंणरकरवीणालग्गतुंबयं ॥ ८ ॥

दुरुद्धरियविडविमूलुज्झियविवरणिलीणसावयं ।

पडिरवतसियंसियविवियाणणवाणरविरइयावयं ॥ ९ ॥

20

खंडियतुंगमड्ढसिहंरुंइयहंसविमुक्कसहयं ।

णिवडियणालिपरसालामलफलमालाविमहयं ॥ १० ॥

घल्लियसुक्करुक्खसंघट्टसमुग्गयजलणजालयं ।

दड्ढपियंगुपिगउच्छलियफुल्लिं गपलित्ततमौलतालयं ॥ ११ ॥

मुक्कतिसूलसेल्लसरधोरणिसव्वलभिं डिमौलयं ।

25

धाइयभिउडिभंगभीसावणभिडिउज्जाणवालयं ॥ १२ ॥

7 १ AP °चंडसुडभुय°. २ A करमरकुडयकडय, P करमरकुहडकुडयकडय°. ३ AP °कडय-डसरउड्ढा°. ४ A णिवडियडालि°, P णिवडवडालि°. ५ AP °रसालयं. ६ AP °चविचिचिणि°. ७ AP °चंपयरयदल°. ८ P वट्ठिय°. ९ A °खरतलप्प°. १० P omits बहु. ११ AP रसियतसिय°. १२ A °सिहरुडिय°. १३ AP omit तमाल. १४ A °भिंडमालय.

7 1°मद प्रचुरम्. 3 घणउलमिव मेघपटलवत्, णिद्धय स्निग्धकान्तिमत्. 7 °कडयडरव° कटकटाशब्दः. 9 °वडालि° वटवृक्षश्रेणि; °वदण° रक्तचन्दनः. १२ °चंपयचय° चम्पकवृक्षसमूहः. 14 °करतलप्प° करप्रहारः. 20 °विवियाणण° विकसितमुखाः. 25 °भिंडिमालय गोफणी.

घत्ता—विजाणिम्मियहिं अइंभीमहिं मायारक्खहिं ॥  
पावणि वेढियउ रात्रणणंदणवणरक्खहिं ॥ ७ ॥

## 8

मलयमंजरी—संगरम्मि कुद्धा पमयएहिं रुद्धा वूढवीरमाणा ॥  
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्खसा पलाणा ॥ छ ॥

अवर वि आया मायाणिसियर	लउडिमुसुंडिकुंतकंपणकर ।	
कुडिल वद्धमच्छर इच्छियकलि	जलियजलणजालाकेसावलि ।	
गुंजापुंजरत्तणेत्तुम्भड	दाढाचंडतुंड पललंपड ।	5
दीहैदीहजीहादललालिर	परवलघोलिर हूलिर सूलिर ।	
ताहं रणंगणि दावियखंडहिं	लग्गा वलिमुह गिरिसिलखंडहिं ।	
सरपुंखहिं भमरेहि व मंडिय	जिह वणि तरु तिह ते रणि खंडिय ।	
जिह वेळिउ तिह अंतइं छिण्णइं	जिह पत्तइं तिह पत्तइं भिण्णइं ।	
जिह ताडहलइं तिह रिउसीसइं	पाडियाइं धरणीयलि भीसइं ।	10
जिह उज्जाणहु णट्टइं चक्कइं	तिह रिउरहवरि भग्गइं चक्कइं ।	
जिह सर तिह विद्धंसिय रिउसर	लंकाणयरि पइट्टा वाणर ।	
घरि घरि चडिय जलंतहिं पुंछहिं	णीसारियउ जलणु पिंगच्छहि ।	
दइइं णायरभवणसहासइं	जालाहार व धाहामीसइं ।	

घत्ता—लगाउ वइरिपुरि हुयवहु हणुवंतें धित्तउ ॥ 15  
राहवकोवसिहि णं दुण्णयतणेण पलित्तउ ॥ ८ ॥

## 9

मलयमंजरी—छइयकेउसोहो णयणचरुरोहो जणियलोयवसणो ॥  
चडइ गयणि धूमो रावणस्स भीमो दुज्जसो व्व कसणो ॥ छ ॥  
धूमंतरि जालोलिउ जलियउ णं णवमेहमज्झि विज्जुलियउ ।

१५ AP अइभीयहिं.

8 १ A एम एहि रुद्धा. २ AP णेत्तरत्तुम्भड. ३ AP जीहदीह°. ४ A भमरिहिं ण,  
P भमरहिं णं. ५ AP पव्वइं, K पत्तइं and gloss वाहनानि. ६ A रिउ रहे रहे. P रिउं रह्वरे.

9 १ P चारुणेहो.

8 1 पमयए हिं वानरैः, वूढवीरमाणा धृतवीराहंकाराः. 2 जि त्त हरिण वे या जित्तहरिण-  
वेगाः, मृगवन्नष्टा इत्यर्थ . 6 a दीहदीह° अतिदीर्घा. 7 b वलिमुह वानराः. 9 b पत्तइं वाहनानि.  
16 दुण्णयतणेण सीतापहरणरूपान्यायतृणेन, पलित्तउ प्रदीप्तः.

9 1 छइयकेउसोहो आच्छादितध्वजशोभः. अन्यत्र, तिरकृतकेतुर्भ्रतविशेषः.

पुणु वि ताड सोहंति पईहउ  
संदाणियसीमंतिणिदेहउ  
घरसिरकलसु वलंतें छित्तउ  
सहयरु छंदगामि णउ मुणियउ  
उग्गु ण सज्जणपक्खु विहावइ  
गमणें जासु होइ काली गइ  
वरमंदिरजडियइं माणिकइं  
तेयँवंतु परतेउ ण इच्छइ  
डज्जंतहि चंदणकप्पूरहिं  
रयभमरइं उक्कोइयमयणइं  
जिणवरवेसणिसेहंकयत्यइं

णं चामीयरतरुवरसाहउ ।  
सिहिणा पसरियाउ णं वाहउ । 5  
सरिउणिवासु व पडलिवि धित्तउ ।  
धउ परिघोलमाणु किं हुणियउ ।  
उह्मगामि किहँ परु संतावइ ।  
तहु किर किं लब्भइ सुद्धी मइ ।  
उहँइ अल्लेयपहापईरिक्कइं । 10  
सइं जि पडुत्तणु विहवहु वंछइ ।  
पउरसुरहिपरिमलवित्थारहिं ।  
वासियाइं सयलइं दिसवयणइं ।  
दहइं मउदेवंगइं वत्यइं ।

घत्ता—घरदुवारु जलइ वरपोमरायविप्फुरियउं ॥

15

जालापल्लवेहिं णं दीसइ तोरणु भरियँउं ॥ ९ ॥

### 10

मलयमंजरी—दहमुहस्स कम्मं मुक्कणायधम्मं जाणित्तं व कुद्धो ॥

उक्कवाणजालं मुयइ णं विसालं सिहि सिहासमिद्धो ॥ छ ॥

होमदव्वरासिउ संपत्तउ  
हुरुहुरंतु णं संति पघोसइ  
होउँ संधि जीवउ महिमाणु  
एत्तहि अग्गिजाल पवियंभइ  
माय ण पुत्तहंहु संमंगगइ  
भवणारोहणु करिवि अभग्गउ

तिलजवघयकप्पासहिं तित्तंउ ।  
दिज्जंत रामहु सीय महासइ ।  
भुंजउ लच्छि अविग्घं दसाणणु । 5  
एत्तहि वाणरविंदु णिसुंभइ ।  
जणु हल्लोहलिहुउ कहि णिग्गइ ।  
णं वइसाणरु जोयहुं लग्गउ ।

२ A चंडंतें, P वलवंतें, but K वलंतें ज्वलता. ३ A किं परु. ४ AP कहिं. ५ A परवल्लु पेक्खिवि  
णावइ थक्कइं. ६ P परिथक्कइं. ७ P तेयमंतु. ८ A रइभवणइं. ९ A जिणवरभवणणिसेहं, P जिणवर-  
वेसणिवेसं. १० P सरियइं.

10 १ A सित्तउ. २ A दिज्जहो. ३ A होइ. ४ A अविग्गु. ५ AP सामग्गइ.

४ a पईहउ प्रदीर्घा. ५ a संदाणियं अग्निना वद्ध. ६ a वलंतें ज्वलता, b सरिउणिवासु स्वस्य  
अग्ने. रिपुः शत्रुर्जलं तस्य स्थानं कलशो घट तेन प्रज्वाल्य क्षितः. ७ a सहयरु अग्नेर्मित्र वायु. ९ a  
काली कृष्णा. १० b अल्लेयपहापईरिक्कइं अल्लेयप्रभाप्रचुराणि. 13 a रयभमरइ रता भ्रमरा चेषु,  
उक्कोइयमयणइं उत्पादितकामानि. 14 a जिणवरवेसणिमेहकयत्यइं नम्रत्वनिपेधकानि वल्लणाणि.  
16 भरियँउं वद्धम्.

10 ३ b तित्तउ वृत्त. ६ a पवियंभइ प्रविजृग्भते. ७ a पुत्तहंहु एव एव माण्डम्,  
समग्गइ संवृणोति.

केत्तिय लंकाउरि मइं दड्डी  
वाहिरपुरवरु एम डहेप्पिणु  
चल्लिउ पडीवउ पावणि तेत्तहि

णं विडेण कामिणि दुवियड्डी ।  
कित्तिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु ॥१०  
णिवसइ सँसिविर राहउ जेत्तहि ।

घत्ता—भरहँ लक्खणेण सहुं सीरपाणि अवेलोइउ ॥  
तेणंजणहि सुउ सियपुष्पयंतु पोमाइउ ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे णंदणवणमोडणं लंकाडाहं  
णाम छहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७६ ॥

६ A वल्लिउ. ७ A ससिवस, P ससिवह. ८ P omits लंकाडाहं.

9 b कामिणिदुवियड्डी अचतुरा वेश्या. 11 a पडीवउ प्रतीपं पश्चात्. 13 पोमाइउ प्रयंसित्तः  
श्लाघितः.

वणु भंजिवि पुरवरु णिडुहिवि हणुइ णियत्तइ जयसिरिकामें ॥  
अज्ज वि किं णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामें ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सो तेलोक्ककंटओ सहइ कि पराणं ॥  
धणुगुणरववियंभियं विलसियं सराणं ॥ छ ॥

ता भणइ विहीसणु भयणिरीहु  
तो करि कुरंग किं तँहिं चरंति  
महिँवइ लंकहि जइ होंतु देव  
तें जाणिउं तुहुं वालिहि कयंतु  
जसु भाइ अणंतु अणंतधामु  
इय चितिवि होइवि सुइसरीरु  
आइच्चपायमहिहरि दसासु  
अच्छइ विज्जासँहणपयत्तु  
तं णिसुणिवि आढत्ताहवेण  
धाइय ते दुद्धर विग्घकारि

जइ गिरिवरकंदरि वसइ सीहु । 5  
कायर तहु गंधेण जि मरंति ।  
जीवंत पंति तो भिच्च कँव ।  
रइवइसुग्गविसहायवंतु ।  
सो विज्जइ विणु कहिं जिणमि रामु ।  
इंदइ णियरँक्ख करेवि धीरु । 10  
थिरु विरण्णिणु अट्टोववासु ।  
णेरंतरु ज्ञाणारूढच्चित्तु ।  
विज्जाहर पेसिय राहवेण ।  
हलमुसलसंवालतिसूलधारि ।

घत्ता—णहि जाइवि दिणयरचरणगिरि मायावाणरेहिं कयरावहिं ॥ 15  
वेढिउ विंझु व जलहरहिं गज्जणसीलहि दरिसियचावहिं ॥ १ ॥

2

हेला—घोरणीलवण्णया छण्णगयणभाया ॥  
आहूया घणाघणा मुक्कधीरेणाया ॥ छ ॥

वाँओलिधूलिवहलंधयारु

गँडगडिय पडिय पाहाणफारु ।

1 १ P भुजिवि. २ A हणुवणियत्तइ. ३ A तिह्लोक्क°, P तइल्लोक्क°. ४ A तहि किम चरति.  
५ AP जइ महिँवइ लंकहि होंतु ६ P तो जाणिउं. ७ AP णियरक्खणु करिवि. ८ P °साहणि.  
९ A सवाणतिसूल°.

2 १ AP °वीर°. २ P वाउधूलियवहल°. ३ P गयघडिय°.

1 1 हणुइ हनूमति, णियत्तइ निवृत्ते सति. 5 a °णिरीहु नि.सुइ निर्भय. 6 a तेरावगेन,  
b रइवइ° हनूमान्. 9 a अणत्तु लक्ष्मण, अणत्तधामु प्रचुरतेजा. 10 सुइसरीरु पवित्रशरीर°,  
b इंदइ इन्दजित्. 11 a आइच्चपायमहिहरि आदित्यपादमिगै. 13 a आढत्ताहवेण प्रान्ध-  
संग्रामेण. 14 b b °सवाल° करवालेन खड्गेन सह. 15 दिणयरचरणगिरि आदित्यपादनामा पदंन.

2 2 आहूया संजाता., घणाघणा गव्दैर्निरन्तरा मेघा., 3 a वाओलि° चक्रवातो वात्सा.

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु  
जलुं थलु महियलु जलभरिउ सयलु  
दरिसिउ मंदोयरिकेसगाहु  
बंधवसिरकमलइं तोडियाइं  
कुद्धउ दसासु झाणाउ ढलिउ  
इंदइणा कहिउं खगेसरासु  
णीसेसु वियंभिउ एहु ताव  
ता रापं विज्जादेवयाउ  
आयाउ ताउ पंजलियराउ

वरिसाविउ तक्खणि मेहँजालु ।  
पइ ढोइउ आयसवल्यणियलु । 5  
भहु कुंभयणु फणिवद्धवाहु ।  
वच्छयलइं विउलइं फाडियाइं ।  
कहिं चंदहासु पभणंतु चलिउ ।  
परमेसर खगमायाविलासु ।  
तुहुं गिययणियमपब्भट्टु जाव । 10  
णिज्जाइयाउ णिहिर्यावयाउ ।  
पेसणु महंति पणमियसिराउ ।

घत्ता—भणु दसकंधर धरणिधर हरहुं जीउ अरिवरहु सणामहुं ॥

अम्हहं बलवंतहं हरिबलहं तर्सहुं णवर रणि लक्खणरामहुं ॥२॥

## 3

हेला—ता भणियं महेसिणा जाह जाह तुम्हे ॥

णियभुयजुयसहायया संगरम्मि अम्हे ॥ छ ॥

सक्कहुं सीरिहि लच्छीहरासु  
एत्तहि इंदइ अब्भिडिउ ताहं  
आवट्टइ लोट्टइ जायमणु  
दरमलइ थोट्टुंघोट्टुथट्टु  
पैरिखलइ वलइ हणु भणइ हणइ  
रुंभइ थंभइ तरवारिधार  
सीसक्कइ फोडइ तडयडत्ति  
असिवरइं खलंतइं खणखणंति  
पइसरइ तरइ कीलालवारि  
इंदइ णिरत्थ कयवूढगव्व

किं वसणि दीणु भण्णइ परासु ।  
मायावियाहं साहामयाहं ।  
संघट्टइ फुट्टइ वइरिसेणु । 5  
सूँडइ विसट्ट पडिभडमरट्ट ।  
उल्ललिवि मिलइ रिउसिरइं लुणइ ।  
णिहँणइ विहुणइ पवरासवार ।  
मुसुमूरइ छत्तइं कसमसंति ।  
कडियलकिकिणिउं झुणुझुणंति । 10  
पडिक्खहु पाडइ पलयमारि ।  
आयासयलि गय पर्मय सव्व ।

४ P मोहजालु. ५ A जलयलणहयल जलभरिय. ६ A वणदेवयाउ. ७ P आइयउ. ८ P तसहु धरणे सहुं लक्खण°.

3 १ A °दुग्घट्ट°. २ AP साडइ. ३ AP पडिखलइ. ४ P णिहुणइ. ५ AP खलखलति. ६ AP किंकिणियउ रुणुणंति. ७ A पडयमारि. ८ A पवय.

4 a गिरिखयालु पर्वतानां क्षयकालो मेघः. 5 b पइ पादे मन्दोदर्याः. 8 a ढलिउ च्युतः. 10 णिययणियमपब्भट्टु निजकनियमात्प्रभ्रष्ट. 12 b महंति श्लाघयन्ति. 13 सणामहुं प्रख्यातानाम्. 14 तसहुं भयं कुर्मः.

3 3 a सक्कहुं शक्नुमः. 4 b साहामयाहं वानराणाम्. 5 a जायमणु जातक्रोधः. 6 a थोट्टु समर्थाः; °दुग्घोट्टु दुर्धराः; b °मरट्टु गर्वः. 12 b पमय वानराः.

घत्ता—विहुरि वि धीरु अविस्णमणु ण चलइ किं पि सुहडहंकारहु ॥  
लंकैसरु लंकहि गंपि थिउ खंधु संमोडिवि गुरुरणभारहु ॥ ३ ॥

## 4

हेला—कयरिउविग्घविब्भमा कमियगर्गणभाया ॥

आया राममंदिरं विविहखयरराया ॥ छ ॥

ता इच्छियणियाणाहसिवेणं  
गिरिसंमेयसिहरसिद्धाओ  
विजाओ परसाहणियाओ  
दिण्णाओ दुल्लंघबलाणं  
पण्णत्तीए रइयं जाणं  
कूडकोडिसंघट्टियचंदं  
भित्तिणिरुवियचित्ति सुरूवं  
रणंझणंतमणिंकिंकिणिजालं  
णाणाविहदुवाररमणीयं  
आयणियणरखयरासीसो  
तत्थारूढो देवो रामो  
दरिसियहयमुसलंकुसपासं  
चलियं गगणे खयराणीयं  
णाणाहरणविहसियदेहं

हणुमंतं सुग्गीवणिवेणं ।  
अणिमाइहिं रिद्धिहिं रिद्धाओ ।  
केसरिखगवइवाहिणियाओ ।  
वीराणं गोविंदबलाणं ।  
रयणमयं मणहारि विमाणं ।  
दिव्वं कइवयजोयणरुंदं ।  
बद्धसिणिद्धचिंधचंदोवं ।  
हेममयं तोरणसोहालं ।  
पारंभियसुरसुंदरिगीयं ।  
अक्खयदहिदोवंचियसीसो ।  
हरि हरिसिल्लो अंजणसामो ।  
भूगोयरसेणं णीसेसं ।  
सामिकज्जि परिछेइयजीयं ।  
गयवरदंतवियारियमेहं ।

5

10

15

घत्ता—संदाणिय णंहि ससिदिवसयर पेह्णपेह्णि जाय खगरायहं ॥  
धयच्छत्तचलंतहं चामरहं हरिकरिरहवरभडसंघायहं ॥ ४ ॥

९ AP ण विसणमणु. १० AP समोडिवि.

4 १ AP गयण°. २ AP °सिहरि सिद्धाओ. ३ AP धीराण. ४ A दिव्वा कह°. ५ A भित्तिणिरुविय°. ६ AP चित्तसरुवं. ७ AP ण्णुणत°. ८ P omits हरि. ९ A °णहसि°. १० AP पेह्णवेह्णि. ११ P जाह.

4 5 a परसाहणियाओ शत्रुसाधनीयाः, b केसरिखगवइवाहिणियाओ सिंहगरुडवाहिन्य. 7 a रइय जाण रचित विमानम्. 8 a कूड° शिखराणि. 9 a भित्तिणिरुवियचित्ति भित्तिलिखितचित्रेण, b °चिंधचंदोव घ्वजचन्द्रोपकम्. 12 b °दोवंचियसीसो दूर्वाञ्चित्तमत्तक. 15 a खयराणीय खगसैन्यम्, b परिछेइय° संकल्पितम्. 17 सदाणिय वदा, पेह्णपेह्णिसषट्ठः.



## 5

हेला—णवणिच्चिससंणिहे णहयले चलंतं ॥

मंयगलमयजले वलं दीसए वहंतं ॥ छ ॥

करिछाहिहिं जलकरिवर विलग्ग	जलणर णरवरपडिर्विवभग्ग ।	
धावंति मयर पलगिल्लणकाम	झस सुंसुमार गंभीरथाम ।	
सीमंतिणिपडिरूवइं णियंति	जलदेवयाउ सीसइं धुणंति ।	5
उज्जलमोत्तियभायणधरेहिं	पवणुद्ध्युचलवीईकरेहिं ।	
गज्जइ समुद्दु वाहरइ णाइ	मरुकंपियंगु भयवसु व थाइ ।	
सायर लंघिवि परिहरिवि संक	वेढिय विजाहरणिवहिं लंक ।	
किउ कलयलु रैणपडहइं ह्याइं	भीरुंहुं चित्तइं विहडिवि गयाइं ।	
सत्त वि पायालइं थरहरंति	उम्मगलग्ग सायर तरंति ।	10
विसहर भयरसवस विसु मुयंति	कुंचियकर दिसकरि कुक्कंरंति ।	
दित्तइं णक्खत्तइं ढलढलंति	झुलंतइं णहि एक्कहिं मिलंति ।	

घत्ता—वाइत्तयसद्दसमुच्छलेण संखोहणु जायउ तेल्लोक्कहु ॥

किं जाणहुं णहि तडि तडयडिय पडिउ विंवु समियंकहु अक्कहु ॥५॥

## 6

हेला—ता भुवणुत्तुरडिणिवडणे किं हुओ णिघोसो ॥

आहासइ दसाणणो गाढजायरोसो ॥ छ ॥

भायर किं सुम्मइ घोरु णाउ	किं उडुइ धूलीरयणिहाउ ।	
दीसइ महिमंडलु महिहरेहिं	णहयलु संछण्णउं णहयरेहिं ।	
ता विहसिवि पभणइ कुंभयण्णु	अवयरिउं देव पडिवक्खसेण्णु ।	5
हा हरि आढत्तउ जंबुपहि	वइवसु जीवहिं जीवियच्चुणहिं ।	
सेरिहु मयमैत्तुरंगमेहिं	पक्खिवइ खलियउ उरजंगमेहिं ।	

5 १ मयरायले जले P मयरायलजले. २ A °गलिण°. ३ AP रणतूरइं. ४ P भीरहुं.  
५ A बुक्कंरंति, P कुक्कंरंति.

6 १ A °त्तकडिणिवडणे P °त्तुरडिणिवडणे. २ A महियलेहिं, P महियरेहि. ३ A मयमत्त.

5 1 ण व णि च्चि स सं णि हे नवीनखड्डसदृशकान्तिमति गगने. 3 a करिछा हि हिं गजप्रतिविम्भैः समुद्रजले गगने दृश्यमानैः. 4 a पलगिल्लणकाम मासगिल्ले कामो वाञ्छा येषाम्. 7 a वाहरइ व्याहरति आमन्त्रयतीत्यर्थः. 8 a संक भयम्. 10 b उम्मगलग्ग उन्मार्गल्लग्ग, तरंति वहन्ति. 12 b झुलंतइं दोलायमानानि. 14 समियंकहु मृगाङ्कसहितस्य चन्द्रसहितस्य.

6 1 °उत्तुरडि° उत्तरंडी इति भाषायाम्. 3 a भायर हे कुम्भकर्ण. 4 a महिहरेहिं भूगोचरैः. 6 a आढत्तउ वेष्टितः, जंबुए हिं शृगालैः. 7 a नेरिहु महिपः.

किं तुज्जु वि उप्परि पंतिं सत्तु  
लइ दुक्कउ दीसइ विहिविहाणु  
तं णिसुणिवि भणितं दसाणणेण  
अरिहरिण मिलेप्पिणु किं करंति  
धैव पावउ भुक्खिय पलयमारि

किं तुहुं वि समिच्छहि परकलत्तु ।  
भिहु एवहिं पीडिवि रणि क्वाणु ।  
जीवंते मइं पंचाणणेण । 10  
असिणहँरइण्डपिय धुउ मरंति ।  
पहणाविय लहुं संणाहभेरि ।

घत्ता—विरसंतइं णरकरयलहयइं तूरइं णाइ कंहंति दसासहु ॥  
राहवहु सीय णउ दिण्ण पइं कि उक्कंठिउ वइवसवासहु ॥ ६ ॥

## 7

हेला—कंचणकवयसोहिओ णवतमालवण्णो ॥

संझारायराइओ णं घणो रवण्णो ॥ छ ॥

संणज्झमाणु रिउतासणेण  
असिविज्जुइ विमलइ विप्फुरंतु  
भहु को वि णिहालइ वाणपत्तु  
भहु को वि पलोवइ तोणजुम्मु  
भहु को वि मुयइ संणाहभारु  
कासु वि पइसरइ ण पुलइयंगि  
किं घणुणा कयवहुसंकएण  
भहु को वि भणइ हउं कौतवाहु  
मायंगकुंभु णिहिकुंभुं जेव  
भहु को वि भणइ मँहिघत्तियाइं  
अवरु वि करिरयणहं देमि हत्थु

भहु सोहइ दिव्वसरासणेण ।  
जीविययरु जीवणु जणहु दिंतु ।  
लइ एयहु एवहि रिउ जि पत्तु । 5  
णं रणसिरिऊरुंजुयल्लु रम्मु ।  
किं कासु वि रुच्चइ लोहँसारु ।  
सो फुट्टइ पिसुणु व सुयणसंगि ।  
चरणेण वि आहववंकएण ।  
कौते वाहँमि रिउरुहिरवाँहु । 10  
हउं फोडमि अज्जु गयाइ तेव ।  
दक्खालमि थूलइं मोत्तियाइं ।  
णियणिवरिणमेह्लावणसमत्थु ।

घत्ता—दहवयणहु णिच्च विरत्तियहि को वि भणइ हियवउं संतावमि ॥

अणरसियहि सीयहि तणिय तणु राहवरत्तकुसुंभइ रावमि ॥७॥ 15

४ हुत्ति. ५ A हूकइ. ६ AP °णहयर°. ७ A धुउ, P धउ, K धव and gloss तृत्तिम्.

7 १ P °उरुजुयरम्मु. २ AP लोहभारु. ३ A थाहमि. ४ A °थाहु. ५ A कुभणिहि.  
६ P महिघत्तियाइं.

9 a वि हि वि हा णु पूर्वार्जितम्. 11 b असि ण हर° खङ्गनखाः, °झडपिय प्रहताः. 12 a धव तृत्तिम्.

7 2 °राइओ राजितः शोभितः. 4 b जीवणु ग्रासवृत्ति जल च 5 a वाणपत्तु वाणपुत्तम्.  
6 a तोणजुम्मु तूणीरयुगलम्. 8 a पुलइयंगि पुलकितशरीरे गात्रत्राणं न प्रविशति. 9 a कयवहु-  
सकएण स्वकार्यक्षमतया कृता वधूना ब्रहूना च गङ्गा येन. 10 कौतवाहु कुन्तधरः, b °वाहु प्रवाहः.  
14 अणरसियहि अरसिकाया. अरक्ताया, रावमि रज्जयामि रक्ता कग्गेमि.

## 8

हेला—आरूढा महासवारवाहिया तुरंगा ॥

कंचणसारिसज्जिया चोइया मयंगा ॥ छ ॥

पवणपहयं विलं वियधयवडं	विविहजाणजंपाणसंकडं ।	
सयडचक्कचिकरणपडिरवं	वद्धरोसभडभिजडिभइरवं ।	
विप्फुरंतकरवालधारयं	हणु भणंत दुक्कासवारयं ।	5
पणवतुणैवझल्लरिमहासरं	चित्तछत्तछण्णंवरंतरं ।	
चलियधूलिमइलियदिसामुहं	पलयकालकालगिसंणिहं ।	
इंदंचंदणाइंदतासणं	णं क्रयंतरायस्स सांसणं ।	
णिग्गयं वलं वहलकलयलं	रहियणहयलं पिहियमहियलं ।	
दुमुदुमंतरणरहसमईलं	जाययं च पडिसुहडगोदलं ।	10
खग्गघायविच्छिण्णसीसयं	हुंकरंतभूमंगभीसयं ।	
कौतकोडिसंघट्टेपेल्लियं	वणगलंतकीलालरेल्लियं ।	
विचलियंतगुप्पंतचरणयं	हयगयासंणीदिण्णकरणयं ।	

घत्ता—पणवियराहवरामणपयइं सीयाकारणि अमरिसपुण्णइं ॥

अब्भिइइं गिरितरुवरकरइं मायावाणरणिसियरसेण्णइं ॥ ८ ॥ 15

## 9

हेला—झंसमुग्गरमुसंडिहिं णिहयणरवरंगं ॥

जायं दंडसजुयं दूरमुक्कभंगं ॥ छ ॥

रंहिएहिं रहिय तुरएहिं तुरय	रणि रुद्ध एतं दुरएहिं दुरय ।	
पायालहिं वरपायाल खलिय	कम्मसंचालेण धरित्ति दलिय ।	
हरिखुरखणित्तखउं णं मरंतु	उट्टिउ धूलीरउ पय धरंतु ।	5

8 १ P °सारसज्जिया. २ AP °पहयपविलविय°. ३ A पवणरणय°. ४ AP° दणुइंदतासण.  
५ P गासणं. ६ A °मंदलं. ७ P भीमयं. ८ AP विवलियंत°. ९ P गयसिणी°.

9 १ A झसमुसलमुसंडिहिं णिहिय°. २ A रहएहिं. ३ AP यत. ४ AP °सचारेण.  
५ A णं खउ मरतु.

8 2 °सारि° पर्याणम्. 6 a °तुणव° करटा वाद्यविशेषः. 9 b रहिय° छादितम्.  
12 a वण° व्रणः, °कीलाल° रुधिरम्. 13 a विचलियंत° त्रुटितम् अन्त्रम्, b हयेत्यादि अश्व-  
गजारोहकदत्तकरणकम्. 15 गिरितरुवरकरइं वानरकरे गिरय राक्षसकरे वृक्षा.

9 1 °मुसंडि दण्डविशेषः परिघायुधं च. 2 दंडसजुय वलयोर्युद्धम्. 3 a रहिएहिं रथिकैः;  
b एत संमुखमागच्छन्तः, दुरएहिं गजैः. 4 a पायालहिं पदातिभिः. 5 a °खणित्तखउ खनित्रैः  
खनित्तः; b पय धरंतु मरणभयादिव पूर्वं पादे लग्नः.

आर्यासचडिउ णं पुहइप्राणु  
 चवलेण सुद्धवंसहु कएण  
 दीसइ पंहुंरु कविलंगु केव  
 खुंप्पइ मयथिप्पिरि करिकवोलि  
 महयरु पडिवक्खीहुयउ तासु  
 जंपाणि गवक्खहिं पइसरंतु  
 रंतु भावइ महुं णं बीउ जारु  
 असिसलिलि णिलीणु णं पंकु होइ  
 मउडगि पडंतु जि कुंडलासु  
 मइलइ मंडलियहं उरपएसु

संतारिविर तें पिहिउ भाणु ।  
 णिवडंतु णिवारिउ णं धएण ।  
 छत्तारविदि मयरंतु जेव ।  
 भणु को णं विलग्गइ दाणसीलि ।  
 किं पिच्छं फेडइ चियदिसासु । 10  
 पररमणिथणत्थलि मंदं थंतु ।  
 तें छाइउ दहमुहवहुवियारु ।  
 चमराणिलेण उल्ललिवि जाइ ।  
 धावइ मेहु व रविमंडलासु ।  
 ढंकइ सियहारावलिबिलासु । 15

ग्रन्था—रयमेलउ मइलिवि भुवणयलु कलिकालेण समाणउ ॥

करिगिरिवर्षणणिज्झरवियलियहि सोणियजलवाहिणियहि लीणउ ॥९॥

## 10

हेला—जा कोट्टं पलोट्टियं कवडवाणरेहि ॥

ता रविकित्ति णिग्गओ सहुं सक्किरेहि ॥ छु ॥

तओ तेण भूमीससेणाहिवेणं  
 रहत्थेण सामत्थधत्थाहिएणं  
 विहिजंतकंधच्छिरं छिण्णमुंडं  
 ललंतंतवेढंतथिप्पंतरत्तं  
 भिडंतं पडंतं रुसारत्तणेत्तं

पिसक्कासणुम्मुकुजीयारवेणं ।  
 तमोह व्व सारंगैविंवकिएणं ।  
 रसालुद्धभेरुंडखजंतंरुंडं । 5  
 सदप्पं खुंरप्पोह्वाछिजंतछत्तं ।  
 समुब्भूयपासेयधाराहि सित्तं ।

६ AP आयासि चडिउ. ७ AP पाणु. ८ A संताउ करतु विणिहिउ भाणु, P सताव करतं पिहिउ भाणु. ९ P पडुर. १० P मा खुप्पइ. ११ P करिकणेलि. १२ A को वि ण लग्गइ. १३ A मंदु. १४ A णउ भावइ. १५ P ण महु. १६ A दहमुहमुहवियारु. १७ AP णउ. १८ गिरिवरणिज्झर°.

10 १ AP सह. २ A धम्माहिएण. ३ A सारगचिधकएणं. ४ A रुण्णच्छिर. ५ A तुडं. ६ A खुरूपेहिं, P खुरूपोह°.

6 b सताविर तापकारी, ते रजसा. 7 b धएण ध्वजेन. 9 a मयथिप्पिरि मदक्षणेन, करिकवोलि गजकपोले. 10 b चियदिसासु व्यातदिग्गवदनम्. 12 रउ रज., b दहमुहवहुवियारु दशमुखवधु-विकार. 14 b मेहु व रविमंडलासु सूर्यस्य छादनायै अभ्रपटलमिव धावति. 15 a उरपएसु हृदय-प्रदेशम्. 16 रयमेलउ रज.समूहः. 17 करिगिरिवर्षणणिज्झरवियलियहि गजा एव पर्वता नैपा व्रणनिर्झरणाविगलिताया नद्याम्.

10 1 कोट्ट दुर्ग, पलोट्टियं पातितः. 2 रविकित्ति रावणस्य सेनापतिः. 3 b पिसक्कासणुं धनु. 4 a धत्थाहिएण ध्वस्तशत्रुणा, b सारगचिधकएण चन्द्रेण. 5 a रुण्णच्छिर विभेयमानम्. 6 a थिप्पंतरत्त क्षरट्टधिरम्. 7 b पासेय° स्वेदविन्दव..

गइंदुग्गादंतग्गभिज्जंतगत्तं  
 गयाघट्टुणुदुग्गिजालापलित्तं  
 समप्पंतइच्छं सरुब्भिण्णवच्छं  
 विरुज्जंतजुज्जंतपाइक्कचंडं  
 वर्राहिंदमाणेहिं वाणेहिं रुद्धं

दिसासुं विसंतं वसातुप्पलित्तं ।  
 थिरत्तेण साहारियासारमित्तं ।  
 महाघायमुच्छाविणिम्मीलियच्छं । 10  
 सकोदंडकंडं कयं खंडखंडं ।  
 रणे रामएवस्स सेण्णं णिरुद्धं ।

घत्ता—तद्दु परवल्लु किमिणुं व ओसरिउं मग्गणवंदु घुलंतउ पेक्खइ ॥

आवरणु करइ तणु संवरइ णवउ कलत्तु व अप्पउं रक्खइ ॥ १० ॥

## 11

हेला—ता विज्जाहराहिवो पउरकोवपुण्णो ॥

संणद्धो महाभडो अवि य कुंभयण्णो ॥ छ ॥

पहु कुंभु णिकुंभु अमेयसत्ति  
 इंदीवरलोयणु इंदवम्मु  
 महवंतु महामहु बुहमुहक्खु  
 खरदूसणु मउ हत्थप्पहत्यु  
 असिधेणु व केण वि दढ्ढणिवद्ध  
 रणदिक्खहि थाइवि दिट्ठिरम्मु  
 संधइ समाणसरकोडि केव  
 केण वि चित्तिवि णियंनूवहु कुसल्लु  
 केण वि असिवाणिइ णयण दिट्ठु  
 केण वि दरिसाविउ अद्धयंदु

इंदइ इंदाउहु इंदकित्ति ।  
 इयदेहु सूरु दुम्मुहु अगम्मु ।  
 वलकेउ महावल्लु धूमवक्खु । 5  
 संणज्जइ भडयणु रणसमत्थु ।  
 परसासाहारहु किर पर्यद्ध ।  
 केण वि धरियउ गुणवंतु धम्मु ।  
 परलोउ महइ वायरणु जेव ।  
 रिउकणकंडणु कट्ठियउं मुत्तल्लु । 10  
 मीणा इव वेण्णि रमंति इट्ठु ।  
 थिउ धरिवि णाइं णहंभायउंदु ।

७ AP °घट्टणुत्थमि° . ८ A धराहिंदमाणेहि . ९ A विरुद्ध . १० AP किंविणु .

11 १ A पवर° . २ P इदधम्म . ३ P अमम्म . ४ P महवतु . ५ A ददुग्गिवद्ध . ६ AP पद्ध . ७ AP °णिवहु . ८ AP णहभाइ चंदु ; K णहभायचदु but gloss सादस्यं , T णहभायउंदु नभोभागसादस्यं .

9 b साहारियासारमित्तं माभीपिताधीरितसारमित्तम् . 10 a समपतइच्छं समामपूर्णं चम् .  
 12 a वराहिंदमाणेहिं सर्पप्रमाणैः दीर्घैः वाणैः . 13 किमिणु कृपणम् .

11 1 पउर° प्रचुर . 3 b इंदाउहु इन्द्रायुधनामा . 4 b इयदेहु इतदेष्टनामा . 5 a वद-  
 सुहक्खु बुधसुवारात्थ . 6 b मउ मव . 7 b परसासाहारहु परधान्याहारं . परशानाणं च , पयठ  
 प्रयुक्ताः . 8 b गुणवतु धम्म धर्मो धनुश्च . 9 a समाणसरकोडि समाना . नचानीन . सप्रमाणाथ रयण  
 वाणाश्च ; b परलोउ सुभट्टपक्षे परलोप . व्याकरणपक्षे समानः सवर्गे दीर्घो भवति वक्ष्यते .  
 11 a अलिवाणिइ सन्नपानांयं . 12 णहभायउंदु नभोभागसादस्यम् ; नभोभागो णि प्रचिन्द  
 णण्डचन्द्रं धरति सुभट्टः पुनर्बचन्द्रं वाणवियोपमिति .

संगामखेत्तकरणुज्जमेण केण वि हलु गंहिउ सविक्रमेण ।  
केण वि गंहियउ फणिपासु सारु सोहइ णं संगैरसिरिहि हारु ।

घत्ता—मायंगतुरंगविमाणधयरहवरवाहणदूसंचारें ॥ 15  
संगद्ध कुद्ध जयलुद्ध भड उब्भड णिग्गय णयरदुवारें ॥ ११ ॥

12

हेला—अमरसमरभरुव्वहो थिरैकिणंकखंधो ॥  
कुलधवलो धुरंधरो वइरिवाहुबंधो ॥ छ ॥

रयणणिम्मवियरयणियरधयभीयरो  
विक्रमैकमियमहिवलयगिरिसायरो ।  
पवणवइसेवणजमवरुणबलभंजणो 5

असुरसुरखयरफणितरुणिमणरंजणो ।  
गरलतमपडलकालिदिजलसामलो  
सुरहिमयणाहिउच्छलियतणुपरिमलो ।  
कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो  
सरलरत्तच्छिच्छोहणिजियविसो । 10

वीरैपरिहवपरो रइयरणपरियरो  
मुक्कगुणरावधणुदंडमंडियकरो ।  
णिहिलजगगिल्लेणकालो व्व दुक्को सयं  
छत्तछण्णो महतो जणंतो भयं ।  
कट्ठिणभुयफलिहसयल्लिंदकंपावणो 15  
कसणघणकरिवरारूढओ रावणो ।

असमपरविसमसाहसणिही णिग्गओ  
विमलकमलाहिसेयस्स णं दिग्गओ ।  
हरिकरिकमाहया हल्लिया मेइणी  
रणरुहिरलंपडी णच्चिया डाइणी । 20  
कुलिसकुडिलंकुरारावलीराइयं  
धगधगंनं पुरो चक्कमुद्धाइयं ।

१ P गहिउ विक्रमेण. १० AP लह्यउ. ११ A सगरि.

12 १ AP थिर. २ P धिक्रमाकमिय°. ३ AP धीर°. ४ A गल्लिण°.

13 b स विक्रमेण निजपराक्रमेण. 15 °दूस चारें दुःस चारे ण.

12 S सुरहि मयणा हि° सुरभिवस्तुरिका. 10 °विच्छो ह° क्रोध, °णिजियविसो निजित्त-  
वृषभ.. 15 सयल्लिंदकपावणो शैलेन्द्रकम्पकरः. 18 विमलकमला° निर्मल्लश्रीः. 21 अंकुराग-  
वलीराइय अङ्कुरवदाराभेणिसोभितम्.

घत्ता—फेडियमुहवडधुयधयवडहं दावियदूसहगयघडघायहं ॥  
दलवट्टियहरिवरभडथडहं मुसुमूरियसामंतणिहायहं ॥ १२ ॥

13

हेला—विजावलरउडहं जायगारवाणं ॥  
वाहियरहविमडहं सहरउरवाणं ॥ छ ॥

जयकारियराहवरावणाहं	जयलच्छिरमणरंजियमणाहं ।
समुहागयाहं सपसाहणाहं	जुञ्जंतहं दोहं मि साहणाहं ।
असिणिहसणासिहिजालउ जलंति	गुडपक्खरपल्लाणहं जलंति । 5
णीवंति ताइं वणरुहजलेण	केण वि पइसिवि आहवि छलेण ।
परिमुक्कसंकु पिहुपिछफारु	लग्गउ णं गयवरगिरिहि मोरु ।
गंडयलि विलग्गउ वाणपुंखु	दीसइ णं छप्पउ दाणकंखु ।
केण वि गयणंगणि देवि करणु	करिकुंभवीढि थिरु थंवि वि चरणु ।
लोट्टिवि आरोहु णिवद्धकोहु	कंडिछुरियइ पहणिवि धित्तु जोहु ॥10
अरिणरकरधल्लिय लउडिदंडं	चूरिय संदण संगामंवंड ।
मणिजडिय पडिय मंडालियमउड	उच्छलिय रयणकरणियर पयड ।
केण वि कासु वि पविमुट्टिहयउं	सीसकं सहुं सिरु चुण्णु कयउं ।
गउ वियलियासु कंकालसिद्ध	कासु वि लोहियरसु रसिवि गिद्ध ।
उट्टेप्पिणु वच्चइ गयणमग्गु	णं पोरिसु वण्णइ गांपि सग्गु । 15
तहिं अवसरि वहुंतत्तिल्लपहिं	जायवि कयजणमणसल्लपहिं ।

घत्ता—णिउ णिग्गउ भरहद्धाहिवइ चारहिं रामहु काहिउ वियारिवि ॥  
थिउ ता रणदिक्खहि दासरहि पुष्पयंतु जिणवरु जयकारिवि ॥१३॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण  
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे राहवरावणवलसंणहणं  
णाम सत्तहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७७ ॥

13 १ A चञ्चति. २ १ पिच्छभारु. ३ A उग्गउ. ४ A देवि. ५ A करि छुरियइ.  
६ P °दंडि. ७ P °चंडि. ८ A बहुभत्तिल्लएहिं. ९ A उमभव्वलभिण्ण, P उमभव्वलभिण्ण.

24 °णि हा य ह समूहयो. द्वयो सैन्ययोः.

13 1 °गारवाण °गर्वाणाम्. 2 गुड° गुट. कुडागमनाहः. 6 a वणरुहजलेण रयिंण.  
7 a परिमुक्कसंकु परिमुक्कगडुः, गडुः नेल्लविणोप. 13 a पविमुट्टिहयउ वन्ननुप्पता हाम्.  
14 a वियलियासु नष्टाशः, कंकालसिद्ध कापालिकः. 16 a °तत्तिल्लएहिं निन्नापुर्नः नरे.  
17 भरहद्धाहिवइ रावणः.

पडिभडकालाणलु जोइयभुयबलु विप्फुरंतु मच्छरि चडिउ ॥  
महिकरिणिकयग्गहु पसरियविग्गहु कणहु दसासहु अब्भिडिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहलक्खणा ॥

संगज्झंति हणुव सुग्गीव मह्हापहुरामलक्खणा ॥ छ ॥

माणिकंसुजालविण्णासइं	चंदकवयचंदियसंकासइं ।	5
आणियाइं कवयइं रहुरायहु	णउ विसंति रोमंचियकायहु ।	
बाहुजुयलु पुलएण विसट्टइ	रिउसरीरबंधणइं व तुट्टइ ।	
आहवरोलहरिसपडहच्छहु	उरि संणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु ।	
माइ ण सीयाहि मणि णं रावणु	फुँट्टिवि गउ सयदलु णं दुज्जणु ।	
सुग्गीवहु गीयहु रणभरधुर	णिहिय करंति काइं किर परणर ।	10
संगज्झंतु काइं सो सुच्चइ	हणुवंतु वि वम्महु जहिं बुच्चइ ।	
तहिं जगु विधिवि मारिवि मेल्लइ	अंगंउ अंगइं वइरिहिं सल्लइ ।	
दहियदोव्वसिद्धत्थयमीसिउ	सीमंतिणिकरघित्तउ सेसउ ।	
विरसिउ जुज्झडिंडिमाडंवरु	बहिरिउ तेण विवरु दिसि अंवरु ।	
मत्ति विजयपव्वइ सइं माहउ	अंजणागिरिकरिवरि थिउ राहंउ ।	15
बलिपुत्तं तहु बलवित्थिणी	विज्ज पहरणावरंणि विइण्णी ।	
घत्ता — सइ का वि पजंपइ किं पि ण कंपइ पिययम परबलु णिट्ठवहि ॥		
हणु करिकुंभयलइं हिमकणधवलइं मोत्तियाइं महु पट्टवहि ॥ १ ॥		

2

दुवई—का वि पुरंधि भणइ किं बहुवें अणुदिणु हिययजूरणं ॥

णियसिरपंकएण पिय फेडहि णरवइपियविसूरणं ॥ छ ॥

1 १ A महिघरिणिकयग्गहु. २ A महपहु. ३ P आहवि रोल्. ४ A फट्टिवि. ५ P णियंति.  
६ A जगु तहि. ७ A अगउवगइ. ८ A राहउ. ९ A माहउ. १० A धरणि विदिण्णी.  
2 १ AP °सिरकप्पिएण. २ A °रिणविसूरण.

1 2 °कयग्गहु कृताग्रह. 5 a, °विण्णासइ विन्यासानि, रचनायुक्तानि, b च द क व य च दि-  
यसकासइ मयूरपिच्छचन्द्रकाकाराणि. 6 b विसति प्रविशन्ति. 7 a विसट्टइ स्फुटति, b ° सरोर-  
बंधणइ शरीरावयवग्रन्थानानि. 8 a °रोल् कोलाहल, °पडहच्छहु तृतस्य मृतस्य, b सिरिवच्छहु  
हरेः. 12 a अगउ सुग्रीवपुत्रोऽङ्गदः. 16 a बलिपुत्तं सुग्रीवेण.

2 1 बहुवें बहुनोक्तेन. 2 सिरपकएण मस्तकमलेन, णरवइपियविसूरण रामप्रियायाः  
सीतायाः खेदम्.



का वि भणइ एत्तडुं करेज्जसु  
 गयपडियागयपयपरिठवणं  
 का वि भणइ जं मइं थणमंडिउं  
 किं वच्छयलु णाह णंदेसइ  
 का वि भणइ रणि म करि णियत्तणु  
 किं पुणु महिमंडलु वित्थिण्णउं  
 देज्जसु पत्थिवचित्ठिणिवारउं  
 का वि भणइ पिययम पेयालइ  
 हउं दीवउ बोहेसमि जइयहुं  
 का वि भणइ पडिण वि पिंडे  
 कासु वि सिद्धहु आणइ थंभिवि  
 पइं मुए वि हउं णडिय रइच्छइ  
 घत्ता—सुहवत्तहु वंछहि णाह ण पेच्छहि चंडहि वेयालालियहि ॥  
 कयतुट्टिपरिगहु परकंठगहु खगलट्टिपुण्णालियहि ॥ २ ॥

पउ पच्छामुहुं णाह म देज्जसु ।  
 सहइ कइंदु ण भहु भयगमणं ।  
 तं गयदंतहं संमुहुं उड्डिउं । 5  
 पुणु आलिगणंसुहुं महु देसइ ।  
 सुयरिज्जइ पहुभूमिणियत्तणु ।  
 इच्छियचायभोयसंपण्णउं ।  
 खगसलिलु वहरिहिं तिसगारउं ।  
 वसतुप्पे रिउसीसकवालइ । 10  
 ओवाइउं महु पूरइ तइयहुं ।  
 महिवि पिसल्लउ मासहु खंडे ।  
 पासि धरिज्जसु वायइ थंभिवि ।  
 तं परिपुच्छिवि आवमि पच्छइ ।

15

## 3

दुवई—तुह एयं सुवंसयं पिययम पणविण विणीयं ॥

सज्जीयं सरासणं समरि हरउ वहरिजीयं ॥ छ ॥

णंदणवणु व णीलतालद्धउं  
 दीसइ णीसरंतु रइयाहउ

णरवेसें णं सइं मयरद्धउ ।  
 अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहउ ।

३ A ण गय<sup>०</sup>. ४ P आलिगणु सहं. ५ A सुमरिज्जइ. ६ A उववायउ. ७ AP थविज्जसु. ८ A आइवि.

3 १ A पणविय.

3 b पउ पाद.. 4 a गयेत्यादि आद्याक्षरादन्याक्षर यावत् अन्याक्षरादाद्याक्षर यावत् एका ( ताट ? ) दश एव वर्णरचनाविशेषोऽभिमुखपराङ्मुखपददान च गतप्रत्यागतपदप्रतिष्ठापनं तेन, b सहइ कइंदु शोभते कवीन्द्र., न तु सुभट. 6 a णदेसइ नन्दिष्यति वर्धय्यते. 7 a णियत्तणु पश्चान्निवर्तनम्; b पहु भूमि णियत्तणु राज्ञा पूर्वमुद्दालिता पश्चाद्दत्ता भूः. 8 b 'चाय<sup>०</sup> त्याग.. 9 a पत्थिव चित्ठिणिवारउं रामचिन्तानिवारकम्, b तिसगारउं तृषाकारकम्. 10 a पेयालइ प्रेतालये श्मशाने. 11 a बोहेसमि प्रज्वालयामि, b ओवाइउ उपयाचितकम्. 12 a पिंडे शरीरेण, b महिवि पूजयित्वा. 13 a आणइ आज्ञया, कमपि व्यन्तर त्व तव समीपे मरणावसरे रक्षेः, यस्मात्स तव वार्ता मम कथयतीति भावार्थः. 14 a सुए वि मृतेऽपि, णडिय कदर्शिता, रइच्छइ रतिवाञ्छया, b तं पिशाचम्, आवमि पच्छइ पश्चाद्दहमागच्छामि तव समीपम्. 15 सुहवत्तहु वंछहि हे नाथ त्वं सुभगत्वं किं वाञ्छसि, चंडहि प्रचण्डाया, वेयालालियहि वेगेन लालिताया. वाहितायाः यष्टेः. 16 खगलट्टिपुण्णालियहु पुश्रल्याः खङ्गयष्टे. परकंठग्रहण न पश्यसि.

3 1 सुवंसयं सुवंशोत्पन्नं धनुः, पणविणं प्रणमनशीलम्, विणीयं विज्ञातम्. 2 सज्जीयं सप्रत्यञ्चम्. 3 a 'तालद्धउ तालङ्गम्. 4 a रइयाहउ रचितसंग्रामः.

णं णवजलहरसिहरि ससंकुड  
 णं जसु तिजगसिहरिपंडुरतणु  
 कयसरसोहउ णाइ मरालउ  
 सीयाकंखउ विरहुण्हे हउं  
 एत्तहि लक्खणु रोसवियंभिउ  
 लच्छीललणालोलणलोहिउ  
 विजयमहीहरि कुंजरि चडियउ  
 मेहहु उवरि मेहु णं थक्कउ

णं अइरावइ इंदु अंसंकउ । 5  
 धम्मालोयलीणु णं मुणिमणु ।  
 सूरपहाहरु णाइ मरालउ ।  
 दाणालित्तपाणि णं दिग्गउ ।  
 णं रणसिरिणच्चणकरु उब्भिउ ।  
 पंचवण्णगरुडद्वयसोहिउ । 10  
 कालसलोणउ जणि आवडियउ ।  
 रिउहुं णाइं जमदूयउ दुक्कउ ।

घत्ता - चोइयमायंगं चलियतुरंगं वाहियरहं भयंकरं ॥  
 संणिहियविमाणं जरजंपाणं रोसुद्धाइयकिंकरं ॥ ३ ॥

## 4

दुवई—लग्गं रामरामणाणंदं बलं रुसांविसालं ॥

णरमुहकुहरमुक्कहुं कारुहीवियवाणजालं ॥ छु ॥

मुक्कमुसलहलपट्टिससेल्लं  
 लुयकरसिरउरजण्हुयजुत्तं  
 कलिकेलासवाससंतासं  
 मायाभावगाववित्थारं  
 किलिकिलिरवसोसियकीलालं  
 मिलियदलियपक्कलं पाइक्कं  
 अंतमिलंतथंतकायउल्लं  
 तणुवियलंतसेयसित्तंगं  
 मयगल्लमलणमलियधयसंडं  
 सुरहरधिवणधित्तखयरिदं

पसरियपाणिधरियधम्मेल्लं ।  
 मग्गणगणविच्छेइयल्लत्तं ।  
 वइरिविलासहासणिण्णासं । 5  
 हुयवहवरुणपवणसंचारं ।  
 दिसैविदिसुद्धउग्गवेयालं ।  
 वसकदमणिमण्णरहचक्कं ।  
 वालपूलणीलियधरणियलं ।  
 पक्खिपक्खमरुहयसमसंगं । 10  
 हित्तारोहजोहकोदंडं ।  
 खग्गकंपकंपावियचंदं ।

२ AP मयंकउ. ३ AP आसकउ. ४ A कयसरिसोहउ. ५ AP वियालउ. ६ A °कखउ णं उण्हालउ,  
 P °कखउ विरहु उण्हाहउ. ७ A adds after this: अण्णेसंतु रामु णं णिगउ, K also has  
 this line but scores it off. ८ A दाणविलित्त°. ९ AP °विवाणह.

4 १ P रोसविसालइ. २ P दिसिविदिसुद्धियउग्ग°. ३ P °पक्खल°. ४ P °गल्लचलणमलिय°.

5 a ससंकउ चन्द्र°. 7 a °सर° वाणस्तडागं च, मरालउ हस., b मरालउ मरो मलः कृष्णत्व तदन  
 आलयो मेघ. 8 a विरहुण्हे विरहोष्मणा, हउ हत. 10 a °लो हिउ लोभिष्ठ.

4 4 a °जण्हुयजुत्तं जानुयुक्तानि, b °विच्छेइय° छिन्नानि. 5 a कलि° यम, °केलास-  
 वास° शंकरः. 8 a °पक्कल° समर्था. 9 a °कायउल्लं काककुलानि, b वालपूल° वेदानिचय.,  
 10 b °समसंगइ °श्रमसङ्गानि. 12 a सुरहर° विमानम्, °धिवण° पतनम्.

घत्ता—असिदंडु लएप्पिणु देहि भणेप्पिणु परवलि परिसक्कइ वियडु ॥  
 फरपत्तविहत्थउ को वि समत्थउ जुज्झंभिक्ख मग्गइ सुहडु ॥ ४ ॥

## 5

दुवई—को वि भंडु करेहिं णिहएहिं कमिहिं वि हुंकरंतइं ॥  
 कोक्कइ मासगासरसियाइं पिसायइं गयणि जंतइं ॥ छ ॥

को वि सुहडु मुउ करिदंतंतरि	णावइ सुत्तउ णियजसपंजरि ।
को वि सुहडु अद्धिंदे मंडिउ	भूयहि रुहुं व णिविसु ण छंडिउ ।
को वि सुहडु सिरु पडिउ ण चितइ	असिवरु अरिवरकंठहु घत्तइ । 5
को वि सुहडु रत्तइहि ण्हायउ	सत्तु सिरत्थु णिएप्पिणु आयउ ।
कायरदोसिण हउं ण विहिण्णउ	पहरणु दीवु धरिवि उत्तिण्णउ ।
को वि सुहडु परिवड्डियसाहउ	णं पारोहएहिं णग्गोहउ ।
रिउवाणहि उच्चाइउ वट्टइ	पंखुत्तिण्णरुहिरु सिव चट्टइ ।
कासु वि सुहडु गुज्जु ण रक्खइ	कण्णालगु गिद्धु णं अक्खइ । 10
पइं सँमुहु पत्थिवरिणि छूढउ	लोहिउ णाइ कलंतरि वूढउ ।
देहमासु वायसहं विहित्तउ	उत्तमंपुरिसहं एउ जि जुत्तउ ।
कासु वि अंगि रहंगु पइडुउ	अव्वगग्भि रविर्विबु व दिट्टउ ।

घत्ता—संवहेणोसारिवि अवरं णिवारिवि जुज्झि वि मडु देहु छिवइ ॥

कासु वि सुरकामिणि लीलागामेणि माल सयंवरि सइं धिवइ ॥ ५ ॥ 15

५ AP करपत्त°. ६ P मग्गइ जुज्झंभिक्खइ.

5 १ P सुभडु. २ A खडिउ. ३ A रुहु व but gloss रु इव. ४ AP अरिवरणियरहु.  
 ५ A वण्णविहिण्णउ. ६ A °सोहउ. ७ A पंखुत्तिण्णु; P पुंखुत्तिण्णु ८ A समुहु ९ AP कलंतरु.  
 १० AP उत्तिम°. ११ A सरवहेण. १२ P अवरउ वारिवि.

13 परिसक्कइ विजृम्भते. 1. फरपत्तविहत्थउ खेटकभिक्षापानहस्तः.

5 1 करेहिं णिहएहिं हस्तैर्हतेऽश्चिन्नैः, कमिहिं पादैः. 4 a अद्धिंदे अर्धचन्द्रेण वाणेन.  
 5 b घत्तइ धिपति. 6 a रत्तइहि रक्तद्रुदे, b सिरत्थु शिरस्थम्. 7 a विहिण्णउ विभक्त.  
 8 a °साहउ शाखा कराश्च. 9 a रिउवाणहिं इत्यादि कोऽपि सुभट वाणैर्विद्ध. पतित. सन् वट-  
 वृक्षसदृशो दृश्यते, ये उपरि स्थिता वाणाः ते वटस्य शाखा इव दृश्यन्ते ये अधःस्थिता वाणास्तैर्जटाभि-  
 रिवोच्चलित इव दृश्यते, b सिव शृगाली. 11 a समुहु स्वमस्तकम्, पत्थिवरिणि छूढउ पार्थिव-  
 ऋणविषये क्षितम्, b कलतरिवूढउ व्याजे धृत रक्तम्. 13 अव्वगग्भि मेघमध्ये. 14 संवहेणो-  
 सारिभि शपथेन अन्या देवीस्तस्यै निवार्य, जुज्झि वि सग्राममध्येऽपि, मडु हठात्, देहु शवम्.

## 6

दुवई—जायइ संगरम्मि वरखयरकवालचुण वसारसे ॥

णरकंकालमहुरवीणासरगाइयरामसाहसे ॥ छ ॥

णवर जयसिरिहरो

अरिहरिणहरिवरो ।

कुलकमलदिणयो

अणयजणभययो ।

रणियगुणधणुरवो

जणियखलपरिहवो ।

5

अमियअमरिसवसो

तिजगपसरियजसो ।

सयणुकसणियदिसो

फणि व विसरिसविसो ।

कुइयवइवसणिहो

सिहि व विलसियसिहो ।

थरहरियमहियलो

धयपिहियणहयलो ।

करकलियपहरणो

पवरवलजियरणो ।

10

दढकढिणथिरं करो

पडिसुहडमयहरो ।

घत्ता—तिहुयणजूरावणु रूसिवि रावणु धाइउ रामहु संमुहु किह ॥

णवमेहु व मेहहु सीहु व सीहहु दिसहत्थिहि दिसहत्थि जिह ॥ ६ ॥

## 7

दुवई—ता करिकरसमाणकरकहियगुणधणुदंडमंडलो ॥

कणयपिसक्कपुंखंरुइरंजियमणिमयकण्णकुंडलो ॥ छ ॥

उक्खयदुक्खलक्खतरुकंदहु

इंदइ इंदसरिसु गोविंदहु ।

विडविचिंधु किक्किंधणिवासहु

वालिकंठकंदलजमपासहु ।

णिद्धहु णियकुलभवणपर्इवहु

भिडियउ कुंभयण्णु सुग्गीवहु ।

5

महिमाहिहरचालणवलवंतहु

रणि रविकित्ति वीरहणुवंतहु ।

खरकिरणु व तमतिमिरणिहायहु

णालिणकेउ लग्गउ खररायहु ।

अंगयमहु आहंडलकेउहि

णावइ मुणिवरिंदु हसकेउहि ।

इंदवम्मु कुमुयहु दूसीलहु

कयवहुदूसणु दूसणु णीलहु ।

संदणचलणवलणसफेडहि

लउडिघायजजरियकिरीडहि ।

10

6 १ AP रणियधणुगुणरवो. २ A °थियकरो.

7 १ A °मडणो. २ P °पुळरुइ°. ३ A लीलहु ४ A दंसणचलण°.

6 2 णरेत्यादि नरशरीरास्थितडतडाट एव वीणाशब्द . 4 b अणयजणभययो अनतानामनम्राणा भयंकर. 6 a अमिय° प्रचुर. 7 a सयणु° स्वशरीरम्, b °विसो विपं द्वेष्यः. 8 a कुइयवइवसणिहो कुपितयमसदृशः, b °सिहो सिंह. शिखा च 11 b °मयहरो मदहरः.

7 2 कणयपिसक्क° कनकवाणा. 3 a उक्खय° उत्खनिता. 4 a विडविचिंधु° वृक्षध्वजः कुम्भकर्णः. 7 a तमतिमिरणिहायहु महान्धकारसमूहस्य. 8 a आहंडलकेउहि इन्द्रकेतोः. 10 a संदणचलण° रथचक्रम्, °सफेडहि° संस्फोटकैः.

दंतिदंतसंघट्टणघोरहिं                      सेलसिलायलघित्तपहारहिं ।  
 सव्वलमुसलकुलिसझसकौतहिं            भिडिवालकरवौलफुरंतहिं ।  
 घत्ता—रयलइयदियंतहिं भडसामंतहिं जुञ्जंतिहि खयरामरहिं ॥  
 संचूरियमउडहिं णिवडियंसयडहिं महि मंडिय धयचामरहिं ॥७॥

## 8

दुवई—ता लंकाहिवेण हलहेइहि रिंछसुपिंछंसजिया ॥  
 पक्क दुवीस तीस पण्णास सरा सहसा विसजिया ॥ छ ॥  
 धरियलोह तेण जि ते गुणचुय                      उज्जय तेण जि ते मोक्खुज्जुय ।  
 चित्तविचित्त तेण ते चलयर                      पेहुणवंत तेण ते णहयर ।  
 धम्मविमुक्क तेण ते हयपर                      रोसवसिल्लु तेण ते दुद्धर ।                      5  
 तिकख तेण ते वम्मल्लूरण                      सहल तेण ते आसापूरण ।  
 रयगय तेण जि ते पलचक्खिर                      वहियजोह तेण जि जयकंखिर ।  
 दीहायार णाय णं आया                      पत्तदाण जिह सयगुण जाया ।  
 पंत णहंतें महंत भयंकर                      जिगिजिगंत पडिवक्खखयंकर ।  
 बाणहिं बाण हणिवि काकुत्थें                      रावणु विहसिवि भणुउ समत्थें । 10  
 घत्ता—णियघरिणिहि अग्गइ सयणसमग्गइ धरि बाणासणु गुणिउं जिह ॥  
 भडरुहिररसारुणि आहवि दारुणि को विंघइ दहवयण तिह ॥ ८ ॥

## 9

दुवई—हो हो जाहि जाहि तुहुं णासहि धणुसिक्खाविवज्जिओ ॥  
 मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्खणसरि परज्जिओ ॥ छ ॥  
 कहिं दिट्ठि मुट्ठि                      कहिं चावलट्ठि ।  
 कहिं वद्धु ठाणु                      कहिं णिहिउ बाणु ।  
 धणुवेयणाणु                      बुज्झहि पहाणु ।                      5  
 गुरुगेहु गंपि                      अण्णवउ किं पि ।

५ AP °करवाल मुयंतहिं. ६ A उञ्जिंहिति.

8 १ A हलएवहि. २ A °सुपुंछ°. ३ A दुतीसवीस. ४ A मोक्खुज्जुय. ५ AP पत्तदाणु.

9 १ P किह. २ A बुज्झउ. ३ A अण्णमउ, P अण्णविउ.

8 1 हलहेइहि हलायुधस्य. 3 b मोक्खुज्जुय मोक्षोद्यता.. 3 b सहल सफला. फलयुक्ताः.  
 7 a रयगय रजः पापं रयो वेगश्च तत्र तेन गताः, b वहियजोह हतयोधा. 8 a णाय नागा सर्पाः,  
 b पत्तदाण सुपात्रदानफलवन्तः. 9 a णहंतें नभोमन्धेन. 11 सयणसमग्गइ स्वजनपरिपूर्णै.

9 5 a धणुवेयणाणु धनुर्वेदज्ञानम्. 6 b अण्णवउ पुनरपि.

पुणु देहि जुञ्जु	महुं तुहुं सुसञ्जु ।	
सीयावहार	जजाहि जार ।	
तहिं रणवमालि	सुहडंतरालि ।	
खरकरपैवहु	दद्वेहु रुहु ।	10
णिद्विवियदुहु	इंदइ पइहु ।	
ता कुद्धपण	धूमद्धपण ।	
णं जलियजाल	णं विञ्जुमाल ।	
चलजलहरेण	वरिसियसरेण ।	
कयआहवेण	तहु राहवेण ।	15
धगधगधगंति	उर्मुक्क सत्ति ।	
वच्छयलि खुत्त	रत्तावलित्त ।	
णं रत्त वेस	मुच्छाविसेस ।	
पसँवणु कुणंति	हियवउं लुणंति ।	
घत्ता—जं इंदइ जित्तउ कोवपलित्तउ तं दहमुहुं णं खयजलणु ॥		20
ओत्थरिउ समत्थहि णाणासत्थहिं दुज्जयपडिबलपडिखलणु ॥ ९ ॥		

## 10

दुवई—पभणइ णत्थि एण इंदइणा तुह णिहएण रणंजओ ॥

भो भो राम राम मइं पहरहि संचोयहि महागओ ॥ छ ॥

हो हो एण सुहु लज्जिजइ	कुलसामिहि किह असि कड्ढिज्जइ ।
तुहुं वेहाविउ ताराकंते	अणु वि मुक्खएण हणुवंते ।
हउं देविंदेणं वि णउ छिप्पमि	तुम्हहिं माणुसेहिं किं जिप्पमि । 5
जाहि जाहि जा बंधवगत्तइं	णउ णिर्वडंति खुरुपविहत्तइं ।
जाहि जाहि जा चक्कु ण मेल्लमि	तुह सिरकमलु ण लुंचिवि घल्लमि ।
दप्पुम्भडभडवंदविमहे	तं णिसुणेवि पवुत्तु बलहहे ।
पररमणीथणसिहरणिरिक्खण	मरु मरु खल अयाण दुवियक्खण ।
किं सीहेणं सरहु दारिज्जइ	पइं मि काँइं लक्खणु मारिज्जइ । 10

४ P reads this line as जजाहि जार, सीयावहार. ५ P पधहु. ६ A पविमुक्क. ७ AP पसरणु.

10 १ AP रणजुओ. २ P मुक्कएण. ३ A देविंदे णविउ छिप्पमि. ४ AP विहडंति. ५ P °भडविंद°. ६ A सिंहेण. ७ AP पाव.

10 a °पवहु प्रसृष्टः. 11 b इंदइ इन्द्रजित्. 18 a णं रत्त वेस रत्तवेस्यावत्. 19 a पसवणु प्रसवणं क्षरणम्.

10 4 a ताराकंते सुग्रीवेण. 6 a बंधवगत्तइं लक्ष्मणगात्राणि.

रूत्रविसेसपरजियमेणइ      जामि जामि जइ अप्पहि जाणइ ।  
 जामि जामि जइ सेव समिच्छहि      महुं पयपंकय पणविवि अच्छहि ।  
 घत्ता—पइं रणउहि मारिवि भिच्च वियारिवि ढोइवि लंक विहीसणहु ॥  
 बोळ्ळिउं पालेसमि हउं जाएसमि सहं सीयइ सणिहेलणहु ॥ १० ॥

## 11

दुवई—ता दसकंधरेण मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥  
 छिण्णं असिसुयाइ णवणिसियइ सीयाएविसीसयं ॥ छ ॥

रूसिवि रामहु अग्गइ धित्तउ	पुणु सखारु खलखुदुं वुत्तउ ।
लइ लइ राहव घरिणि तुहारी	एह ण होइ कया वि महारी ।
मुय पिय पेच्छिवि मुच्छिउ रहुवइ	करपहरणु णिवडिउ ण विहावइ । 5
सित्तउ हिमसीयल्लजलधारहिं	आसासिउ चमरिरुहसमीरहिं ।
कह व कह व संजाउ सचेयणु	कण्णोमुहणिहिर्त्तथिरलोयणु ।
ताव विहीसणेण विण्णत्तउं	सीयामरणु ण देवँ णिरुत्तउं ।
खयरेदेण दिट्टतुहघाएं	इंदियालु दरिसाविउ भाएं ।
ता दहमुहेण भाइ दुब्बोळ्ळिउ	पइं णियवंसुम्मूलिवि घळ्ळिउ । 10
विणु अब्भासवसेण सरासइ	गोत्तकलिइ लच्छि धुंवु णासई ।
एउ ण चित्तिउ कुलविद्धंसण	दुम्मुह दुट्ट कट्ट दुइंसण ।
परहं मिलेवि काइं किर लद्धउं	पइं अप्पाणउं अप्पणु खद्धउं ।

घत्ता—आरुइइ करिवरि चलपसरियकरि जो आसंघइ वालतणु ॥  
 महिहरु मेल्लेप्पिणु महि लंघेप्पिणु मरइ मणुउ सो मूढमणु ॥११॥ 15

८ A °परिजिय° ९ A रणमुहि. १० AP बोळ्ळिउ.

11 १ AP दहकंधरेण. २ AP असिसुयाइ मायामयसीयाएवि°. ३ P वित्तउ.  
 ४ AP °सीययजल°. ५ AP कंतामुह°. ६ A °णिहत्त° ७ AP होइ. ८ AP इंदजालु. ९ A पइं  
 णियकुळ उम्मूलिवि. १० AP घुउ. ११ A adds after this: एवमेव अप्पउ संतासइ; K writes  
 the line but scores it off. १२ AP वइरिहिं. १३ A आरुइइ.

11 a °परिजियमेणइ तिरस्कृता मेनका यया, b जाणइ जानकी सीता. 13 रणउहि रणमुखे.

11 1 °गंडएसयं गण्डप्रदेशम्. 2 असिसुयाइ असिधेनुकया; णवणि सियइ नवीन-  
 तीक्ष्णया, सीयाएविसीसय सीतादेवीमस्तकम्. 3 b णविहावइ न विभावयति, न जानातीत्यर्थः.  
 9 a दिट्टतुहघाए दृष्टत्वद्घातेन: दृष्टत्वन्मरणेन, b इदियालु इन्द्रजालम्; भाएं मम भ्रात्रा.  
 11 a सरासइ गी.; b गोत्तकलिइ गोत्रकलहेन. 14 आरुइइ रुष्टे सति, वालतणु वालतृणम्.

## 12

दुवई—मइं कुद्वेण रामु किं रक्खइ भडहणहणरवालए ॥

भाइय आउ आउ जइ सक्कहि भिडु इह समरकालए ॥ छु ॥

तं गिसुणेप्पिणु	पहु पणवेप्पिणु ।	
णवघणणीसणु	भणइ विहीसणु ।	
जइ पिउ जंपहि	सीय समप्पहि ।	5
णिवणयजुत्तहु	दसरहपुत्तहु ।	
होसि सहोयरु	तो तुहुं भायरु ।	
सामि महारउ	सयणपियारउ ।	
णं तो लज्जामि	णंउ पडिवज्जामि ।	
तुज्जु सुहित्तणु	दुज्जसकित्तणु ।	10
होइ असारें	इट्टें जारें ।	
भमियकबंधइ	णिवडियचिंधइ ।	
महिचुयलुयभुइ	ता तहिं संजुइ ।	
कयवीराहवि	मेइणिराहवि ।	
वहुदाराहवि	लगाउ राहवि ।	15
भीसणु रावणु	परमारावणु ।	
रंजियसुरसह	बे वि महारह ।	
रणभरधुरखम	बे वि सविक्रम ।	
पडिहरि हलहर	घवलियकुलहर ।	
बे वि महाजस	णं औसीविस ।	20
फणिकालाणण	णं पंचाणण ।	
हिमसैमतमतणु	आयडियघणु ।	

घत्ता—कंपावियजलथल छाइयणहयल रणि मेलावियअमरयण ॥

सहरिस गलगज्जिय खयभयवज्जिय णाइ दिसागय कुइयमण ॥ १२ ॥

12 १ A हउ. २ P आसाविस. ३ AP हिमतमसमतणु. ४ AP मेलाविय°.

12 2 मिडु सग्रामं कुरु. 6 a णिवणयजुत्तहु राजनीतियुक्तस्य. 13 a महिचुयलुयभुइ महीपतितलूनभुजे. 4 a कयवीराहवि कृतो वीराणामाह्वय स्पर्शाशब्दो यत्र, b मेइणिराहवि मेदिन्या राधा शोभामवति रक्षतीति मेदिनीराधावस्तस्मिन्नीदशे राघवे. 15 a बहुदाराहवि बहुश्रासौ दारार्थमाहवो यस्य, बहूना दारण विदारण यस्मिन्नाहवे यस्य वा. 16 b परमारावणु शत्रूणा मारकः. 17 b महारह सग्रामादनिवर्तकौ महारथौ. 19 a पडिहरि रावण. 22 a हिमसमतमतणु हिमवर्णो रामः तमोवर्णो रावणः. 23 मेलावियअमरयण पुञ्जीकृतदेवगणौ युद्धदर्शनार्थम्.



## 13

दुवई—रावण राम वे वि जुञ्जंति सुँरोसवसा महाभडा ॥

छुडु छुडु दुक्क मुक्क वाणावलि छुडु छुडु छिण्ण धयवडा ॥ छु ॥

छुडु छुडु णाणाजाणइं भिण्णइं

छुडु छुडु धवलइं छत्तइं छिण्णइं ।

छुडु णरुंडखंडमंडिय महि

छुडु गय घट्टिय लोट्टिय सारहि ।

छुडु संदण मुसुमूरिवि घल्लिय

पडिमयंगल मायंगहिं पेल्लिय । 5

छुडु छुडु रामु थामु जा दावइ

जाव खगिंदु रहुंगु विहावइ ।

जाव जुञ्जि वावरइ सहोयरु

तावंतरि पइडु दामोयरु ।

पभणइ णिसुँणि देव सीराउह

वीर पउम चुँवियपउमामुह ।

राम राम रामामणहारण

सुवलासुय अरिविंदवियारण ।

हउं किंकरु कठोरपिहुकरयलु

भाइ तुञ्ज पँविरोलियपरवलु । 10

जीवमि जाम वइरिमारणविहि

जगि रयणियरविधणिवतरुसिहि ।

ताव एउ पइं पइविच्छुरियउं

सइं करेण कि पहरणु धरियउं ।

घत्ता—रक्खियकुलगिरिदरि हउं तेरउ हरि मुइ मुइ मइं आलद्धजउ ॥

पविखरसरणहरहिं अविरलपहरहि दारामि दहमुह मत्तगउ ॥ १३ ॥

## 14

दुवई—ता रामेण कण्हु मोक्कल्लिउ वोल्लिउ तेण दहमुहो ॥

रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि संमुहो ॥ छु ॥

विहिदुव्विलसिउं तुहं वि महीसरु

ओसरु ओसरु मा संघहि सरु ।

कुद्धइं तुह दहमुह णहईवइं

राहवरायपायराईवइं ।

अज्जु तुञ्जु परमाउसु पुण्णउं

जिह तय्यरयणु कुसील ण दिण्णउं । 5

मइं मुक्काइं दसास णियच्छहि

तिह एवाहिं पहरणइं पडिच्छहि ।

कयसमरेण गाहियरिउजीवें

तं णिसुणेवि बुत्तुं दहगीवें ।

13 १ AP सरोस°. २ AP छुडु छुडु णर°. ३ A लुट्टिय°. ४ AP पडिमयंग. ५ A देव णिसुणि. ६ AP कठोर°. ७ A परितोलिय°. ८ A जणरय°.

14 १ A मोक्कलिउ. २ AP तियरयणु. ३ AP धुत्तउ.

13 1 b घट्टिय संघट्टिना. 5 b पडिमयंगल अज्जुगजाः 7 a वावरइ व्यापार करोति, b दामोयरु इरिल्लमण 8 b चुँवियपउमामुह चुँम्यनलक्ष्मीमुख. 9 b सुवलासुय हे सुवलादेवीपुत्र. 10 b पविनेलिय° मथितम्. 11 b रयणियरविध° राक्षसध्वजाः. 14 पविखरसरणहरहिं यत्ररत्तठिनगन्गी..

14 4 a पइईवइं नगनीप्रानि, b °णयगईवइ पादमल्लानि.

तल्लरजलि कईलासु वि जलयरु  
खलसुग्गीवरामणलहणुयहं  
एयहं मज्झि तुहुं मि भडु भण्णहि  
मुइ मुइ तेरउ आउहु केहउं  
भणइ विहीसणु जुज्झसमत्थइं  
चित्तिहि तुहुं पण्णत्ति जणइण

अदुमगामि परंहु वि तरवरु ।  
तारकुंदकुमुयहं खगमणुयहं ।  
तेण वप्प मइं रणि अवगण्णहि । 10  
महु मयंगमसयंतरु जेहउं ।  
पहु मेह्लेसइ मायासत्थइं ।  
लहु करि मायावाहण पहरण ।

घत्ता—तं तेम करेप्पिणु भुय विहुणेप्पिणु अब्भिद्वउ दहमुहहु हरि ॥

कइयणवयणुत्तिहि महणपवित्तिहि णाइ समुद्वहु सुरसिहरि ॥१४॥ 15

15

दुवई—वेणिण वि पीयवास वेणिण वि णीलंजणगरलसामया ॥  
दोहिं मि कुलिसककसंकुसवस चोइय मत्तसामया ॥ छ ॥

वे वि कुद्ध वद्धठाण  
रामणेण मुक्कु णाउ  
रावणेण अंधयारु  
रावणेण मेरु चंहु  
रावणेण आसु आसु  
रावणेण वारिवाहु  
रावणेण चिच्चिजाल  
रावणेण दंति दीहु  
रावणेण रक्खसिंदु  
रावणेण रत्तिणाहु  
रावणेण मुक्कु रुक्खु  
पज्जलंतु जायवेउ

मुक्क तेहिं दिव्व बाण ।  
लक्खणेण पक्खिराउ ।  
लक्खणेण मुक्कु सुरु । 5  
लक्खणेण वज्जदंहु ।  
लक्खणेण सेरिहीसुं ।  
लक्खणेण गंधवाहु ।  
लक्खणेण मेहमाल ।  
लक्खणेण मुक्क सीहु । 10  
लक्खणेण खेउविंदु ।  
लक्खणेण मुक्क राहु ।  
लक्खणेण दुण्णिणरिक्खु ।  
दिग्गयग्गलग्गतेउ ।

घत्ता—सुरसमरसमत्थे विज्जासत्थे जेण जेण रावणु हणइ ॥

15

पडिवक्खीहूपं भासुररूवे तं तं लक्खणु णिल्लुणइ ॥ १५ ॥

४ A किकलासु, T किकलासु परेवक (? ) अथवा किकालसु कुइविल (? ), K records a p; अथवा किकलासु कुइविलजीव न तु गजमत्स्यादय . ५ P मयगसमयतरु.

15 १ A कुलिसककसकुस°. २ A सेरिहासु, T सेरिहेसु.

8 a तल्लरजलि अल्पतडागे, कईलासु करकन्दुकः कर्कटः. 11 b मयगमसयंतरु गजमशकयो-  
रिवान्तरम्. 12 b पहु रावण . 14 विहुणेप्पिणु आस्फाल्य. 15 महणपवित्तिहि मथनप्रवृत्ति-  
युक्तस्य जलधे. मेरुरिव.

15 2 मत्तसामया कृष्णवर्णो गजौ. 4 a णाउ सर्पः, b पक्खिराउ गरुडः. 7 a आसु  
शीघ्रम्, आसु अश्वः, b सेरिहीसु प्रचण्डमहिषः. 8 b गंधवाहु वायु . 9 a चिच्चिजाल अग्निज्वाला.  
11 b खेउविंदु क्षेमवृन्दः पूजाहोमादिशान्तिः. 14 a जायवेउ अग्निः.

## 16

दुवई—ता धगधगंघगंतु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणो ॥

खणि वहरूविणीइ वहरूवहिं उद्धाइउ दसाणणो ॥ छु ॥

गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि  
खेयरि अब्भिडंति पंवरामरि  
चउहुं मि पासहिं भहु भीसावणु  
वीसपाणिपरिभामियपहरणु  
गुंजापुंजसरिसणयणारुणु  
अग्गइ पच्छइ चंचलु धावइ  
गयकुंभयलइं पायहिं पेल्लइ  
परिभमंतकारिवरकरं वंचइ  
सारिउ कसमसंति मुसुमूरइ  
विल्लुलियकण्णचमर अच्छोइइ  
असिणा दारइ मारइ मयगल

रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि ।  
छत्ति विमाणि जाणि धइ चामरि ।  
जलि थलि महियलि णहयलि रावणु ।  
तिणयणगलतमालसंणिहतणु ।  
हणु हणु हणु भणंतु रणदारुणु ।  
मणहु वि पासिउ वेए पावइ ।  
इ त्ति दंत उम्मूलिवि घल्लइ ।  
रिक्खइं गेजावलिय णिलुंचइ । 10  
अंतरसेणासणिय वियारइ ।  
कच्छोलंबिय घंटिय तोडइ ।  
धिवइ णहंगणि चलमुत्ताहल ।

घत्ता—भीमाहंवचंडहिं दढभुयदंडहि चप्पिवि हुंकरेवि धरइ ॥

कारि रोहइ जोहइ करणहिं मोहइ दसणविहिण्णुं वि णीसरइ ॥१६॥ 15

## 17

दुवई—फोडिवि आसवारसीसक्कइं सिरइं सकवयगत्तइं ॥

छिदिवि पक्खराउ हय मारिवि परियाणइं विहित्तइं ॥ छु ॥

गयणयलि लग्गेवि कहकहरवं हसिवि  
तां रक्खधयलक्खणा गुलुगुलंतेहिं  
णवजलहरेहि व जललव मुयंतेहिं  
झणझणियमणिकिंकिणीसोहमाणेहिं

वहरूविणो रामकेसवहं गय तसिवि ।  
रिउदुज्जया लोहदढमंढियदंतेहिं ।  
चलकण्णतालेहिं सुरगिरिमहंतेहिं । 5  
अणवरयर्करडयलपरिगलियदाणेहिं ।

16 १ AP धगधगंतु. २ AP °रूवणीए. ३ A पउरामरि, P पउरपवरामरि. ४ P भीसा-  
मणु. ५ AP धावइ. ६ A °कारि वंचइ. ६ AP रिक्खे. ७ AP घंटउ. ८ A भीमाउह. ९ P °विहित्तु.

17 १ AP तोडिवि. २ A विहत्तइं. ३ A तारखधय°, P तो रक्खधयं. ४ P °गढिय°. ५ AP णुणुणिय°. ६ A अणवरयपरिगलियकरडयलदाणेहिं.

16 6 b तिणयणगल° रुद्रस्य कण्ठ. 8 b मणहु वि पासिउ वेए पावइ मनसः पार्श्वत्  
मनसः सकाशादपि वेगेनागच्छति. 10 b रिक्खइं तारका, गेजावलिय श्रीवाक्षुद्रघण्टिका.  
11 a सारिउ गजपर्याणानि, b अतरसेणासणिय सेनाया अन्तर्मध्ये ये आसनिनः गजाश्वाद्यारूढाः.  
15 करणहिं आवर्तनादिभिः

17 2 परियाणइं पर्याणकानि. 3 a कहकहरवं हसिवि यथा भवत्येवं हसित्वा.

सोवण्णसारीणिबद्धच्चिंधेहिं करणासियागाहियगयणाहगंधेहिं ।  
 दंतैग्गाभिण्णग्गखगरहतुरंगेहिं भड वे वि थिय गयणि मायामयंगेहिं ।  
 ता मुक्क दहंहुहिण पच्छइय णहभाय विसविसम गुरुविसहरायार णाराय ।  
 तप्पंजरे छूंदु तेणारिविद्वणु अलिकसणु हयवसणु वीभंवणु सिरिरमणु  
 पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियरु ज्जरिवि हुंकरिवि णीसरिवि ।  
 जा वीरु उत्थरिवि चप्परिवि पइसरइ स रहंगु तहिं ताम धरणीसरो सरइ ।  
 घत्ता—णवचंदणचच्चिउ कुसुमहिं अंचिउ रयणाराकिरणोहदलु ॥  
 णं रावणलच्छिहि कमलदलच्छिहि करयलाउ णिवडिउ कमलु ॥ १७ ॥

18

दुवई—रूसंतेण तेण महमहणमहासुहडे णिओइयं ॥  
 तं कुडिलयरचडुलतडिवलयणिहं गयणे पधाइयं ॥ छ ॥

ता दिट्ठु णहि पंतु	सहस त्ति णिवडंतु ।	
धाराकरालेहि	करवालसूलेहि ।	
इसमुसलसेल्लेहि	वावल्लभल्लेहिं ।	5
अरिणरकयंतेहिं	कंपणहिं कौंतेहिं ।	
कयकण्हपक्खेण	गवणं गवक्खेण ।	
कुमुएण कुंदेण	चंदे मँहिदेण ।	
सत्तुहणभरहेण	णीलेण सरहेण ।	
सुग्गीवणामेण	हँणुवेण रामेण ।	10
पडिखलिउ णँउ वलिउ	अमरत्थु संचलिउ ।	
रणसिरिहि कुंडलु व	णवरविहि मंडलु व ।	
जसवल्लरीदलु व	भुयजुयलतरुफलु व ।	
माणिकगणजडिउ	लक्खणहु करि चडिउ ।	

घत्ता—जं चक्कंसमिद्धउ कण्हें लद्धउं तं णारउ णहि णँच्चियउ ॥ 15  
 आणंदरसोल्लिउ सिरिथणपेल्लिउ राँउ रामु रोमंचियउं ॥ १८ ॥

७ A दतग्गिणिन्निण्णखगं ८ A दहवयणं. ९ P छट्टु. १० A धीभवणु.

18 १ A करवालवालेहिं. २ A मुसलसल्लेहिं. ३ A मयदेण. ४ A omits this foot.  
 ५ A णहवडिउ. ६ AP चक्कु. ७ AA णच्चिउ. ८ A रामु राउ. ९ AP रोमच्चिउ.

7 a °सारी° गजपर्याणकम्. 9 b °विसहरायार सर्पाकाराः, णाराय त्राणा.. 10 a तप्पंजरे नाराच-  
 पञ्जरे, b वी भवणु वीभत्सन., भयानक इत्यर्थः. 12 b रहंगु चक्रम्.

18 1 णिओइय नियोजित मुक्तम्. 7 b गवए गवयराजा. 11 अमरत्थु देवाधिष्ठित चक्रम्.  
 16 रोमंचियउ दृष्टः, कृष्णेन लब्धत्वात्.

दुवई—णिवडिय कुसुमविट्टि कउ कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥  
भामिवि चक्कु भणिउ गोविंदे विसरिस णिसुणि दसासिरा ॥ छु ॥

संदण तुरंग	मयमुइयभिग् ।	
करि गलियगंड	मेइणि तिखंड ।	
असि चंदहासु	लंकाणिवासु ।	5
ससहरंसमाणु	पुष्पयविमाणु ।	
वइदेहि देहि	मा खयहु जाहि ।	
तूसवहि रामु	कैरि पयपणामु ।	
जीवहि अतेउ	कंतासमेउ ।	
दट्टाहरेण	असिवरकरेण ।	10
असमंजसेण	अमारिसवसेण ।	
ता भणिउं तेण	णिसियरघरण ।	
पाइक्कतणय	णिम्मुक्कविणय ।	
तुम्हहं वराय	किं मज्जु राय ।	
णियजीवधरणु	सुग्गीवसरणु ।	15
पइसरहु जइ वि	णुंवरहु तइ वि ।	
विगयावलेव	देव वि अदेव ।	
भडभिडणसंगि	महुं जुज्जरंगि ।	
किं गणिउ रामुं	तुहुं हीर्णथामु ।	
जज्जाहि रंक	मगंतु लक ।	20
लज्जहि ण केव	हिय सीय जेव ।	
अवराउ तेव	परिचत्तसेव ।	
रामाणियाउ	रायाणियाउ ।	
लेसमि छलेण	णियभुयवलेण ।	
इय भणिवि भीमु	दुल्लंघधामु ।	25
आवर्द्धकोडु	मेल्लइ सरोहु ।	

19 १ AP मुइयसिंग. २ P ससहर. ३ A कयपय°. ४ A णउ उवरहु तइ वि; P णउ उवरहो तइ वि. ५ P adds after this: णिण्णट्टणामु, संगामकामु. ६ A तुहुं दिण्णधामु. ७ A परिचत्तसेव. ८ P आवहु.

19 2 दससिरा हे रावण. 3 b मयमुइयभिग् मदेन मुदितभृङ्गाः. 8 b करि कुरु. 9 a अतेउ निस्तेजाः सन्. 12 b णि सिय रघरण राक्षसध्वजेन रावणेन. 17 a विगयावलेव विगत गर्वाः. 22 A अवराउ अपराः (स्त्रियः); b परिचत्तसेव हे त्यक्तसेव राम. 23 a रामाणियाउ रामसंबन्धिन्यः; b रायाणियाउ राज्ञीः. 24 a लेसमि ग्रहीष्यामि. 26 b सरोहु वाणसमूहः.

आंइद्वचाउ	रायाहिराउ ।	
जां उग्गभाउ	वीसद्धगीउ ।	
ता तक्खणेण	तहिं लक्खणेण ।	
णं खयपयंगु	मुक्कउ रहंगु ।	30
आयउ तुरंतु	धाराफुरंतु ।	
अरितावणेण	तं रावणेण ।	
भुयखलिउ जइ वि	वलि मड्डु तइ वि ।	
वच्छयलि लग्गु	को किर ण भग्गु ।	
णिवसिरिपमत्तु	परणारिरत्तु ।	35

घत्ता—दहवयणहु केरउ दुहइं जणेरउ तिकखइ धारइ सल्लियउं ॥  
परघरिणीमंदिरु हियउ असुंदरु चक्के फाडिवि घल्लियउं ॥ १९ ॥

20

दुवई—ता दहवयणि पडिइ पडियइं सुरकुसुमइं सिरि उविंदहो ॥  
हउ दुंदुहि गहीरु जउ घोसिउ पसरिय दिहि सुरिंदहो ॥ छ ॥  
ता सुहडेहि दिड्डु रणमहियलु वणवियलियलोहियजलजंजलु ।  
भग्ग रहंग रहहि सहं रहियहि फट्ठयग्गहि वंसविरहियहिं ।  
चामर पडिय हंस णं मारिय घुलिय जोह पडिजोहवियारिय । 5  
मोडियदंडइं छत्तइं धवलइं दिड्डुइं णाइ अणालइं कमलइं ।  
छिण्णगुणइं महिलुलियइं चावइं णं खलचित्तइं भंगुरभावइं ।  
धम्मगुणुज्झिय सुद्धिइ जुत्ता वाण रिसि व्व मोक्खुं संपत्ता ।  
दाणवंत मत्थैयखणणुज्जय णावइ पिसुणं सढं गिरु दुज्जय ।  
कुडिल लोहणिम्मिय पडिअंकुस दिड्डा तुरय जंत तोडियकुस । 10  
खलिणइं णिवडियाइं पल्लाणइं दिड्डुइं विहडियाइं जंपाणइं ।  
दिड्डुइं णिवकवोर्लकंकालइं मासगासु लेंतइं वेयालइं ।  
कडयमउडकौडलकडिसुत्तइं दिड्डुइं दसदिसासु पविहत्तइं ।  
घत्ता — भड्ढालविणिहियइं विहिणा लिहियइं अचलइं भवियव्वक्खरइं ॥  
जांइवि गयचम्मइं संदणंरम्मइं कावालिउ वायइ वरइं ॥ २० ॥ 15

१ AP आइद्वचाउ. १० AP जामुगं. ११ A वल्लवड्डु, P वल्लिवड्डु.

20 १ A रणि महियलु. २ AP मोक्खु ण पत्ता. ३ A मथयं. ४ A पिसुणसत्थु.  
५ A विहलियाइं. ६ A कवालं ७ AP कुडलं. ८ P भडसालं ९ A जोइवि. १० AP दसणरम्मइं.

34 b वलि वल्लवत्, मड्डु वल्लत्कारेण. 37 मं दि र गृहभूत चित्तम्.

20 3 b लो हियजलजजलु लोहितस्य रक्तस्य तडाग. 6 b अणालइं नाल्लरहितानि.  
7 b भंगुरभावइ वक्काणि. 9 a दाणवंते त्यादि गजा दानवन्तः तेषा मस्तकखननोद्यता अङ्कुशाः,  
b सढ कपटत्वेन. 10 b तोडियकुस त्रोटिततर्जकाः. 15 वायइ वाचयति.

## 21

दुवई—पडिवारणविसाणजुयपेल्लियंघल्लियमत्तवारणे ॥

होही रिउहुं मरणु हरिहंत्ये सीयाकारणे रणे ॥ छु ॥

तहिं हिंडंतहिं विहिविच्छोइय  
काइ वि पिउ सरसयैणि पसुत्तउ  
काइ वि पिउ लुलियंतहिं रुद्धउ  
खंडंखंडु हुउ मुउ णोलक्खिउ  
उज्जएण पडिएण महाहवि  
का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु  
पायडियउं एवहिं किं किज्जइ  
का वि भणइ णियणियइ ण थाणिय  
उज्जउ सीय सुविप्पियगारिणि  
का वि भणइ उव्वसि पिउ मेल्लहि  
कण्णावरु इहुं णाहु महारउ  
कासु वि सिवपयगमणविसेसें

घरिणिहिं णियणियपिययम जोइय ।  
दिट्टउ णं रणलच्छिहि रत्तउ ।  
दिट्टउ णं जमसंकलवद्धउ । 5  
काइ वि पिउ पयखंडे लक्खिउ ।  
क वि अंगुलियउ भंजइ राहवि ।  
लक्खणेण महु रंडालक्खणु ।  
वर णियणाहे समउं मरिज्जइ ।  
पहुणा गोत्तमारि कहिं आणिय । 10  
खलदइवे संजोइय वइरिणि ।  
रंभि तिलोत्तमि किं पि म बोल्लहि ।  
अत्थंक्कइ किह होइ तुहारउ ।  
समरादिक्ख दक्खालिय सीसें ।

घत्ता—ता तहिं मंदोयरि देवि किसोयरि थण असुयधारहिं धुवइ ॥ 15  
णिवडिय गुणजलसरि खगपरमेसरि हा हा पिय भणांति रुयइ ॥२१॥

## 22

दुवई—हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जयपरक्कमा ॥

हा हा अमरसमरडिंडिमहर हा हरिणारिविक्कमा ॥ छु ॥

हा भत्तार हार मणरंजण  
हा मुहसररुहरसरयमहुयर  
हा सुहव सुरहियसिरसेहर  
हा थणकलसविहूसणपल्लव  
हा करफंसजणियरोमंचुय

हा भालयलतिलय णयणंजण ।  
हा रमणीयैणणिलय मणोहर ।  
हा रिउरमणीकरकंकणहर । 5  
हा हा हिययहारि णिच्चं णव ।  
अल्लिगणकीलाभूसियभुय ।

21 १ A पेल्लिवि. २ P हरिअत्थे. ३ AP सरसयणइ सुत्तउ. ४ P खंडखंड. ५ P लक्खि-  
यउ. ६ A उज्जएण. ७ A झूरइ. ८ A पहु. ९ A अच्छइ कह वि, P अथक्कए किह.

22 १ P जणरंजण. २ A बुहसररुह°. ३ AP रमणीमण°. ४ A हाल्लिणण°.

21 1 °वि साण° दन्ताः. 3 a °विच्छो इय वियोगं प्रापिताः. 5 a लुलियंत हिं लुलितैरन्व-  
जालैः. 6 b पयखंडे पादखण्डेन. 7 a उज्जएण सरलेन. 13 b अत्थंक्कइ इदानीं एवमेव वा.  
14 a सिवपय° शृगालीपदं मोक्षस्थान च.

22 2 हरिणारिविक्कमा हे सिंहपराक्रम. 3 a हार मनोज्ञ.

पेसलवयैणविहियसंभासण  
 हा पंवेदियविसयसुहावह  
 हा लंकाहिव खेयरसामिय  
 हा मंदरकंदरकयमंदिर  
 पइं विणु जगि दसास जं जिज्जइ  
 हा पिययम भणंतु सोयाउरु  
 घत्ता—ता णियकुलभूसणु दुक्क विहीसणु तहिं तक्खणि सुविसण्णमइ ।  
 जगकाणणमाणणु भडपंचाणणु जहिं णिवडिउ लंकाहिवइ ॥२२॥ 15

## 23

दुवई—अण्णउ रयणकिरणविप्फुरियइ छुरियइ हणइ जावहिं ॥

जीविउ विइवंतु कयसंतिहिं मंतिहिं धरिउ तावहिं ॥ छु ॥

हा हा कयउं कम्मु मइं भीसणु  
 अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ  
 जयसिरि पत्तं अज्जु विहवत्तणु  
 अज्जु इंदु भयवसहु म गच्छउ  
 अज्जु तिब्बु णहि तवउ दिणेसरु  
 अज्जु जलणु जालैउ वित्यारउ  
 णेरिउ अज्जु रिंछु आवाहउ  
 अज्जु वरुणु अण्णाणु पसंसउ  
 अज्जु कुबेरु कोसु मा ढोवउ  
 भायर पइं गइ णारयैठाणहु  
 णियतणु पहणिवि रुयइ विहीसणु ।  
 अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण वियरइ ।  
 गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु । 5  
 अज्जु चंदु सहुं कंतिइ अच्छउ ।  
 अज्जु सुयउ णिच्चित्तु फणीसरु ।  
 वइवसु अज्जु सइच्छइ मारउ ।  
 विक्रिउल्लु मा कासु वि वीहउ ।  
 अज्जु वाउ उववणइं विहंसैउ । 10  
 अज्जु कामु अण्णाणउं जोवउ ।  
 अज्जु णयरि णंदउ ईसाणहु ।

घत्ता—पइं मुइ धरणीसर खगपरमेसर सुरवरं जयदुंदुहि रसउ ॥

तृयं राहवचंदहु सूर्य गोविंदहु अज्जु णिरंकुंस उरि वसउ ॥ २३ ॥

५ AP विहियवयण<sup>०</sup>. ६ A <sup>०</sup>पोमदिंदिर.

23 १ A विच्छुरियइ. २ AP अज्जु पत्त. ३ A जालावित्यारउ. ४ A विहंजउ.

५ A णारयगमणहु. ६ A सुरवइ. ७ AP तिय. ८ AP सिय. ९ A णिरकुसि.

8 a पेसलवयण<sup>०</sup> मनोहरवचनम्. 12 a जिज्जइ जीव्यते.

23 2 विइवंतु मारयन्, भन्. 13 पइं मुइ त्वयि मृते सति.



## 24

दुवई—अज्जु मिलंतु मच्छ मंदाइणि वहउ ससंकपंडुरा ॥

पइं मुइ खेरिंद कैह होसइ सा णवधुसिणपिजरा ॥ छ ॥

णारउ णाउ आउ णासणविहि

रामु ण कुद्धु कुद्धु जगभक्खउ

चक्कु ण मुक्कु मुक्कु जमसासणु

वच्छु ण भिण्णु भिण्णु धरणीयलु

तुहुं णउ पडिउ पडिउ कामिणिगणु

चेट्टु ण भग्ग भग्ग लंकाउरि

हा भायर किं ण किउ णिवारिउ

लक्खण राम काइं णउ मण्णिणय

दुज्जसकारिणि णर्येणुणवंतहं

किह कुलिसु वि घुणेहिं विच्छिण्णउं

हा पइं विणु मइं काइं जियंतं

सीय णै हित्त हित्त परियणदिहि ।

लक्खणु ण भिडिउ भिडिउ कुलक्खउ ।

तं णउ लग्गउ लग्गु हुयासणु । 5

रुहिरु ण गालिउ गालिउ सज्जणवलु ।

तुहुं ण मुओ सि मुउ विहलियजणु ।

दिट्ठि ण सुण्ण सुण्ण मंदोयरि ।

किं महु तणउं वयणु अवहेरिउ ।

किं सुग्गीव हणुव अवगण्णिणय । 10

किं ण दिण्ण पणइणि मग्गंतहं ।

तुज्जु वि मरंणु केव संपण्णउं ।

हा हउं कवलिउ किं ण कयंतं ।

घत्ता—कायर मव्भीसिवि अभउ पघोसिवि विजयसंखु पूरिवि लहु ॥

तामायउ लक्खणु राउं वियक्खणु सुग्गीउ वि हणुएण सहं ॥२४॥ 15

## 25

दुवई—भासिउ राहवेण दहमुहु तुहुं सोयहि किं विहीसणा ॥

जासु खर्गिदवंदवंदारय विरइयपायपेसणा ॥ छ ॥

विलसियचंदसूरणक्खत्तइ

एक्कु जि णवर दोसु दमियारिहि

जइ ण वि किउ जिणधम्मवएसणु

रामाएसें जगकंपावणु

होइ सुरिंदु वि गयगुणसारउ

कंचणमइ विमाणि संणिहियउ

एयहु को समाणु भुयणत्तइ ।

जं अहिलासु गयउ परणारिहि ।

वारिवि कैरण रुवंतु विहीसणु । 5

चउहि जणहिं उच्चाइउ रावणु ।

परयारेण सव्वु लहुंयारउ ।

पेयभूसणायारु वि विहियउ ।

24 १ A कर्हि. २ A आउ णाइ. ३ A णिहित्त. ४ A णिय°. ५ AP केम मरणु. ६ P रामु.

25 १ A विरइयणिचपेसणा. २ A जेहिं ण किउ, P जइ णहिं किउ. ३ AP कडणु.  
४ A हल्लआरउ.

24 1 मंदाइणि गङ्गा. 3 a णारउ णाउ नारदो नागतः, किं तु नाशविधिरागतः.  
4 a जगभक्खउ यमः. 7 b विहलियजणु अर्थिजन.. 8 a चेट्टु गरीरचेष्टा. 11 b पणइणि  
सीता. 14 मव्भी सि वि यूयं मयं मा कुरुतेत्युक्त्वा.

25 7 b परयारेण परस्त्रीदोषेण. 8 b पेयभूसणायारु मृतकशृङ्गाराचारः.

उन्मिय कयलिखंभ सुहसुंभइ  
 धरियइं उप्परि वण्णविचित्तइं  
 पविलंबियउ पडायउ दीहउ  
 पसरिय चंदोवय णं खंलयण  
 बाहसलिलधारहि वरसंति व  
 घत्ता—हउं कट्टे घडियउ चम्मं महियउ परकरताडणु जं सहमि ॥  
 णं पउं सुजुत्तउं पडहें वुत्तउं तं दसासु महिवइ महमि ॥ २५ ॥ 15

26

दुवई—एमहिं तेण मुक्कु किं वज्जमि वज्जमि परणरिंदहं ॥  
 लक्खणरामचंदसुग्गीवहं णीलमहिंदकुंदहं ॥ छ ॥  
 रत्तउ णं विरहग्गे तत्तउ  
 बहुयउ काहलाउ तुरुत्तरियउ  
 भणइ व संखु अणाहु ण णीवमि  
 वंसु भणइ हउं काणणि पइसमि  
 उज्जउ महल्लु कूरें गज्जइ  
 कट्टहं मज्झि णिवेसिउ उत्तमु  
 दिण्णु हुयासु सिहालिउ वंकइ  
 णं पवणे कट्टिज्जइ लग्गउ  
 घत्ता—जो सीयासावें णियमणकोवें दूसहविरहें जालियउ ॥  
 सो राउ हुयासें पेयपलासें जालकरग्गे लालियउ ॥ २६ ॥

27

दुवई—जाणिवि मुउ णरिंदचूडामणि सव्वंगहिं समुग्गओ ॥  
 तहु सत्तच्चि सत्तधौऊहरु इ ति धग ति लग्गओ ॥ छ ॥

५ A दुज्जण. ६ A तं एउ ण जुत्तउ.

26 १ P किह. २ P omits वज्जमि. ३ P °सासाऊरिय. ४ A सीयासोएं. ५ AP तावि-  
 यउ. ६ AP °करग्गहिं जालियउ, T लालिउ स्पष्टः.

27 १ AP समग्गओ. २ P °धाहुहरु.

9 a सुहसुमइ सुखविध्वंसके. 11 b °साहउ शाखाः. 14 कट्टे काष्ठेन.

26 5 a अणाहु अनाथो रावणरहितः, b परसासाऊरिउ परश्वासपूरित. 8 b णासिउ  
 कमु नाशितः कुलक्रमो नीतिर्वा. 9 a सिहालिउ वंकइ ज्वालायुक्तो वक्रं गच्छति. 11 सीयासावें  
 सीताशापेन. 12 पेयपलासे प्रेतपिशितभक्षकेण, जालकरग्गहिं लालियउ ज्वालाएव कारात्रास्तै स्पष्टः.

27 1 सव्वगहिं सर्वस्मिन् शरीरे, समुग्गओ समुद्रतः. 2 सत्तच्चि अग्निः, धगति प्रज्वाल्य-  
 मानः.

वइरिविहंडणु कालें लद्धउ  
 तासु सरीरु तेण उवजीविउ  
 जं जासु वि तं तासु जि छज्जइ  
 ण्हाइवि सयणहिं दिण्णउं पाणिउं  
 एत्थंतरि असोयवणि पइसिवि  
 अंगंगयणलणीलविहीसहिं  
 पणविवि जणयवसुंधरिधीयहि  
 आणिय मिलियं देवि बलहइहु  
 हेमसिद्धि णावइ रससिद्धहु  
 दिव्ववाणि जाणियपरमत्थहु  
 चित्तसुद्धि णं चारुमुणिंदहु  
 णं वरमोक्खलच्छि अरहंतहु

तिहुयणकंटउ जलणें खद्धउ ॥  
 तो<sup>३</sup> वि ण पोरिसेण जगु दीविउ ।  
 करहचरणि किं णेउरु जुज्जइ । 5  
 दुत्थिउ बंधुविंदु समाणिउ ।  
 रामापसें देवि पसंसिवि ।  
 अंजणेयकिक्किंधणरेसिहिं ।  
 केसवविजउ समासिउ सीयहि ।  
 अमरतरंगिणि णाइ समुद्धु । 10  
 केवलणाणारिद्धि णं बुद्धहु ।  
 वरकइमइ णं पंडियसत्थहु ।  
 णं संपुण्णकंति छणयंदहु ।  
 बहुगुणसंपय णं गुणवंतहु ।

घत्ता—जं दिट्ठु समाहउ णियपइ राहउ तं सीयहि तणुकंचुइउ ॥ 15

पुलएण विसट्टउ उद्धु जि फुट्टउ पिसुणु व सयखंडइं गयउ ॥२७॥

## 28

दुवई—तोरणविविहदारपायारघरावलिसिहरसोहिण ॥

अरिवरपुरि पइट्ट हरिहलहर धयमालापसाहिण ॥ छु ॥

मंदोयरि रुयंति साहारिवि  
 बंधव सयण सयल हक्कारिवि  
 मंति महंतमंति संचारिवि  
 पढमजिणाहिसेउ णिव्वत्तिवि  
 सत्तु मित्तु मज्झत्थु वि चिंतिवि  
 अवणिदविणपुरलोहु विवज्जिवि  
 पवरपुरिसपरिहास समीहिवि  
 लोयदिण्णहियइच्छियकामें

इंदइ सोर्यविसंडुलु धीरिवि ।  
 णायरणरहं संक णीसारिवि ।  
 विग्घकारि सयल वि णीसारिवि । 5  
 होम विविहदाणाइं वत्तिवि ।  
 समइ सव्वसामंत णियंतिवि ।  
 गह वंभण णेमिच्चिय पुज्जिवि ।  
 पालिवि धम्मु अधम्महु बीहिवि ।  
 रामारामें राएं रामें । 10

३ A तो उण. ४ A बंधुवग्गु. ५ AP किक्किंधपुरेसिहिं. ६ AP देवि मिलिय. ७ AP णं जगपरम<sup>०</sup>.  
 ८ A णं तिहोक्कलच्छि.

28 १ P भोयविसंडुलु. २ AP वारिवि. ३ AP विग्घकारि णीसेस णिवारिवि. ४ A अवणि  
 दविणु पुरलोहु, P अवणिदविणपरलोहु. ५ A पुरि पइसेप्पिणु लक्खणरामे.

5 b करहचरणि उट्टपादे. 15 समाहउ माधवसहित.. 16 विसट्टउ विकसितः.

28 3 a साहारिवि धीरयित्वा, b सोयविसंडुलु शोकेन शिथिलः. 7 b समइ स्वमते  
 निजादेगे. 9 a पवरपुरिसपरिहास समीहिवि नर्महास्यं चिन्तयित्वा, मम वचनमन्यथा मा भवतु,  
 किं तु विभीषणस्य राज्यदाने सत्य वचो भवतीति भावः.

घत्ता—पविमलगलियंभर्हि कंचणकुंभर्हि ण्हाणिवि पट्टबंधु विहिउ ॥  
रणि मारिवि रावणु भुवणभयावणु रज्जि विहीसणु संणिहिउ ॥ २८ ॥

## 29

दुवई—इय को करइ भिडेइ वि भडगोंदलि भुवणंगणमरावणं ॥  
छज्जइ एम कासु णिव्वहइ वि सुहिपडिवण्णपालणं ॥ छ ॥

एह रूढि एहउं गरुयत्तणु	मेल्लिवि पउमु कासु सुयणत्तणु ।	
कोसु देसु सो तं पुरु परियणु	तं पणियंगणकुलु पीवरथणु ।	
ताइं आयवत्तइं वाइत्तइं	जाणइं जंपाणइं सुविचित्तइं ।	5
ताइं वणाइं अमरतरुगंधइं	ताइं जि जाउहाणनृवर्चिधइं ।	
ते असिंकर दुक्करकर किंकर	ते ह्यवर ते गयवर रहवर ।	
लंकादीउ तं जि सो जलणिहि	ते चामीयरभरिय महाणिहि ।	
णिहिलइं हियवइ तणु व वियप्पिवि	दहमुहाणुजायहु जि समप्पिवि ।	
मेइणिसाहणि तिजगजयाणउं	लक्खणरामहि दिण्णु पयाणउं ।	10

घत्ता—ते रामजणहण दणुयविमहण परिभमंति भुवणयलइ ॥  
आवाहियचलरह णावइ सभरह पुप्फयंत गयणयलइ ॥ २९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए  
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रावणणिहणं विहीसण-  
पट्टबंधो णाम अद्भुत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७८ ॥

६ P ण्हाविवि.

29 १ AP भिडेवि भड°. २ AP°णिव°. ३ A °णिगहणं. ४ AP °पट्टवधण.

29 1 अरावणं रावणरहितम्. 2 सुहिपडिवण्ण° सुहृत्प्रतिपन्नम्. 3 a रूढि प्रसिद्धिः;  
b मेल्लिवि पउमु राम मुक्त्वा. 4 b पणियंगण° वेद्याः. 6 b जाउहाणनृव° राक्षसनृपो रावण.  
9 b दहमुहाणुजायहु विभीषणस्य. 12 सभरह सनक्षत्ररथौ स्वेन नक्षत्रप्रच्छादकौ वा.

गिहणिवि भीमु रणि दुज्जउ रावणु मयमत्तउ ॥  
महि हिंडंतु पहु पीढइरि रामु संपत्तउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

गिरि सोहइ हरिणा भउ जणंतु	पहु सोहइ हरिणा महि जिणंतु ।	
गिरि सोहइ मत्तमऊरणाउ	पहु सोहइ णायमऊरणाउ ।	
गिरि सोहइ वरवणवारणेहिं	पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं ।	5
गिरि सोहइ उड्डियवाणरेहिं	पहु सोहइ खगधयवाणरेहिं ।	
गिरि सोहइ णववाणासणेहिं	पहु सोहइ भडवाणासणेहिं ।	
तंहिं पुव्वकोडिसिल दिट्ठ तेहिं	पुज्जिय वंदिय हंरिहलहरेहिं ।	
मंतिहिं पउत्तु भो धम्मरासि	उद्धरिय तिविट्ठं पहा आसि ।	
एवहिं जइ लक्खणु भुयहिं धरइ	तो देव तिखंडधरत्ति हरइ ।	10
तं णिसुणिवि पभणइ रामु एव	अज्जु वि तुम्हहं मणि भंति केव ।	
जांव वि रणि णिहलियउ दसासु	जांव वि सिरि दिण्ण विहासणासु ।	
तांव वि तुम्हहं संदेहवुद्धि	लइ किज्जइ सव्वहं हिययसुद्धि ।	

घत्ता—जो अतुलइं तुलइ बलवंत वि रिउ विणिवायइ ॥

सो हरि कुलधवलु सिल एह किं ण उच्चायइ ॥ १ ॥ 15

2

दढकटिणथोरदीहरकरासु	दहवयणवालज्जीवियहरासु ।
विहसिवि रामे लच्छीहरासु	आएसु दिण्णु णियवंधवासु ।
ता भाइवयणतोसियमणेण	उच्चाइय सिल लहु लक्खणेण ।

1 P पीयलइरि. २ A उड्डिय°. ३ AP सिलकोडिपुव्व तहिं दिट्ठ तेहि. ४ P omits हरि°. ५ A णं धम्मरासि. ६ AP पुणरवि सिरि.

2 १ A रामु.

1 2 पीढइरि पीठगिरिं कोडिशिलाम्. 3 a हरिणा सिंहेन, भउ भयम्, b हरिणा लक्ष्मणेन. 4 a मत्तमऊरणाउ मत्ता मयूरा नागा सर्पाश्च यत्र, b णायमऊरणाउ ज्ञातो मयूनां किंनराणा उरोनादो हृदयध्वनिर्येन. 5 a णवणवारणे हिं वनगजै, b वारिणिवारणे हिं जलनिवारणैश्चन्द्रैः. 6 b खगधयवाणरे हिं विद्याधरध्वजलिखितवानरैः. 7 a णववाणासणे हिं नवै व्राणवृक्षैः असनवृक्षैश्च, b वाणासणे हिं धनुर्मिः. 8 a पुव्वकोडिसिल पूर्वकोटिशिला इति नाम.

2 2 a लच्छीहरासु लक्ष्मणस्य.

पविउलभुयचालिय णं धरिन्ति  
 णं रामहु केरी विमल किन्ति  
 दीसन्ति लोयणयणहं सुहाइ  
 उप्परि सीरिहि कसणायवत्तु  
 सोहइ सिलग्गु कण्हेण धरिउं  
 उययम्मि अरुणकिरणोहतंबु  
 वीरेहिं वि मुक्कउ सीहणाउ  
 चक्किहि पय वंदिवि वइरितासि

घत्ता—लक्खणकयथुइहिं णरदेवहिं कणहु पउत्तउ ॥  
 सजलहेमघडहं अट्टुत्तरसहसें सित्तउ ॥ २ ॥

## 3

संचलिउ राउ अरितिमिरभाणु  
 कल्लोललुलियझससुंसुमौरु  
 हयगयंवरखंधाइण्णजोहु  
 हरिणा रहु वाहिउ जलहिणीरि  
 धणुगुणविमुक्कु सरु सुद्धिवंतु  
 तें देवहु दाणवमहणासु  
 कुंडलजुयलउं मणिकिरणणीहु  
 तहिं होंतउ गउ अणुजलहितीरु  
 केऊरमउडकंकणपवित्तु  
 तहि लहिवि विणिग्गउ गउ तुरंतु  
 संताणमाल सेयायवत्तु  
 पालेप्पिणु पुणु परिअलियगव्व

घत्ता—गउ वेयड्ढिगिरि खगसेड्ढिउ वे वि जिणेप्पिणु ॥  
 हयमायंगवरखेयरकण्णाउ लपप्पिणु ॥ ३ ॥

णावइ तिखंडमहिरायवित्ति ।  
 णं णिरु असज्झसाहणसमिन्ति । 5  
 भदियभुयदंहइरिउ णाइ ।  
 णं जयंजसवेह्लिहि तणउं पत्तु ।  
 बहुपोमरायकरजालफुरिउं ।  
 उययाचलभाणुहि णाइ विंबु ।  
 सउणंदउ णामें जक्खु आउ । 10  
 तें दिण्णु तासु सउणंदयासि ।

अणुंगंग पुणु वि दिण्णउं पयाणु ।  
 दियहेहिं पत्तु सुरसरिदुवारु ।  
 थिउ काणैणि बल्लुं दूसोहसोहु ।  
 पायालमूलपूरणगहीरि ।  
 संप्रायउ मागहु पय णवंतु । 5  
 दिण्णउ अहिसेउ जणहणासु ।  
 ससिकंतु हारु मणहरु किरीडु ।  
 साहिउ वरतणु पणवियसरीरु ।  
 चूडामणिकंठाहरणजुत्तु ।  
 सिंधुहि पइसरिवि पहासु जित्तु । 10  
 मुत्ताहलदामु मलोहचत्तु ।  
 साहिय वरुणासामेच्छ सव्व ।

२ P धरन्ति. ३ AP सवित्ति. ४ A जसजय°. ५ AP जालजडिउ.

3 १ P रामु. २ AP अणुमगै. ३ P सुसुआरु. ४ AP गयरहखंधा°. ५ AP उववणि.  
 ६ A बल्लुसोह°. ७ AP संपाइउ. ८ AP पावेप्पिणु गउ. ९ A परिगलिय°.

5 b असज्झसाहणसमिन्ति असाध्यवस्तुन साधने समाप्ति परमोत्कर्ष. 6 b भदियभुयदंहइरिउ णाइ विष्णुभुजदण्डोद्धृतं छत्रमिव. 7 a सीरिहि बलभद्रस्य. 8 b पोमराय° तत्र गिरौ पद्मरागमणयो वर्तन्ते. 11 a वइरितासि शत्रूणा भयानकः, b सउणदयासि सौनन्दकनामा असिर्दत्तः. 12 लक्खणकयथुइहिं लक्ष्मणस्य कृतस्तुतिभिः. 12 सजलहेमघडहं जलभृतसुवर्णघटानाम्.

3 3 a खंधाइण्ण° स्कन्धावतीर्णाः. 7 a णोडु गृहम्. 11 b मलोहचत्तु मलसमूहरहितः  
 12 a पालेप्पिणु कालक्षेप कृत्वा.

## 4

पुणु वसिकिउ सुरदिसि मेच्छखंडु  
 गय जइयहुं दोवालीस वरिस  
 साहिवि तिखंडमेशणि दुगिज्झ  
 हरिवीढि णिवेसिवि वरजलेहिं  
 मंडलियहि णं मेहहि गिरिंद  
 जैहिं दिव्वइं सत्थइं संचरंति  
 जहिं देव वि घरि पेसणु करंति  
 को वण्णइ हरिवलएवरिद्धि  
 जं विजयतिविट्ठुं तणउ पुण्णु  
 हो पूरइ वण्णावि काइं एत्थु

महिमंडलि हिंडिवि रांयदंहु ।  
 तइयहुं हरि हलहर दिव्वपुरिस ।  
 जयजयसहेण पइट्टु उज्झ ।  
 हयतूरहिं गाइयमंगलेहिं ।  
 अहिसित्त रामलक्षणणरिंद । 5  
 तहि अवसें रणि अरिवर मरंति ।  
 तहिं अवसें णर भयंथरहरंति ।  
 वाएसिइ दिण्णी कासु सिद्धि ।  
 तं एयंहुं दोहिं मि समवइण्णु ।  
 किं तुच्छवुद्धि जंपमि णिरत्थु । 10

घत्ता—सेविय गोमिणिइ रइलोहइ कीलणसीलइ ॥

रज्जु करंत थिय ते वे वि पुरंदरलीलइ ॥ ४ ॥

## 5

सुमणोहरणामि सयावसंति  
 सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं  
 वंदेप्पिणु पुच्छिउ परमधम्मु  
 मिच्छत्तासंजम चउकसाय  
 एयहिं ओहट्टइ णाणतेउ  
 वंधेण कम्मु कम्मेण जम्मु  
 इंदियसोकखे पुणु पुणु विसालु  
 मोहे मुज्झइ संसारि भमइ  
 णारयतिरिक्खदेवत्तणेहिं  
 संसरइ मरइ णउ लहइ वोहि

अण्णहिं दिणि णंदणवणवणंति ।  
 सिवगुत्तु जिणेसरु दिट्ठु तेहिं ।  
 जिणु कहइ उयांरवियारगम्मु ।  
 छंडंतहं सुहु रायाहिराय ।  
 ए दुस्सहदुहमबंधहेउ । 5  
 जम्मेण दुक्खु सोक्खु वि सुरम्मु ।  
 संपज्जइ जीवहु मोहजालु ।  
 अण्णण्णहि देहहिं देहि रमइ ।  
 बहुभेयंभिण्णमणुयत्तणेहिं ।  
 ण कयाइ वि पावइ जिणसमाहि । 10

4 १ P रायचंडु, २ A reads *a* as *b* and *b* as *a* in this line. ३ A भउ थर°; P भड थर° ४ P एवहं.

5 १ A सयवसंति. २ P ओयार°. ३ A बहुभोय°.

4 1 *b* रायदंहु राजसैन्यम्. 3 *a* दुगिज्झ दुर्गाह्या. 4 *a* हरिवीढि सिंहासने. 6 *a* सत्थइं शस्त्राणि 8 *b* वा एसिइ वागीश्वर्या सरस्वत्या. 9 *a* विजयतिविट्ठुं प्रथमवलकेशवयोः. 11 रइलोहइ रतिलोमिष्ठया.

5 2 *a* सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं श्रीविष्णुश्रीरामाभ्याम्. 6 *b* सोक्खु वि सुरम्मु कदाचित्तुखं च रम्य भवति विषयजं न त्वतीन्द्रियम्.

सम्मत्तु ण गेणहइ मंदमूढु  
आसंककंखविदिगिंछवंतु

लोइयवेइयसमएहिं छूँडु ।  
जहु मिच्छादिट्टि पसंस देंतु ।

घत्ता—चंगउ परिहरइ जं णिंदणिज्जु तहिं भत्तउ ॥

राहव जीवगणु जगि पउरु विहुरु संपत्तउ ॥ ५ ॥

## 6

अणुदिणु परिणामहु जाइ लोउ  
खणि खणि अण्णत्तहु जाइ केव  
उप्पत्तिवित्तिपलएहि गत्थु  
पज्जाउ जाइ दव्वु जि पयासु  
जं रुच्चइ तं तहिं होउ वप्प  
जो मणुयलोइ सो णत्थि सग्गि  
जो घरि सो किं णीसेसणांमि  
एवत्थिणत्थिणिव्वूढसञ्चु  
जइ जगि सब्बत्थ वि सब्बु अत्थि  
जइ एक्कुं जि सयल्लु जि जगु णियाणि  
को खंडिउ को वरइत्तु थक्कु

खणि आणांदिउ खणि करइ सोउ ।  
सिहिगहिउ तेल्लु सिहिभाउ जेव ।  
पेच्छहि अप्पउ पोग्गलपयत्थु ।  
घड मउंड सुवण्णहु णत्थि णासु ।  
णिज्जीवणिरण्णइ कहिं वियप्प । 5  
जो सग्गि ण सो पायालमग्गि ।  
जो गामि ण सो आरामथामि ।  
अरहंतं साहिउ परमतच्चु ।  
तो किं गयणंगणि कुसुमु णत्थि ।  
तो को णारउ को सुरविमाणि । 10  
सामण्णु अमरु को कवणु सक्कु ।

घत्ता—जइ खणि खणि जि खउ सइंउद्धं जीवहु दिट्टुउ ॥

ता चिह महिणिहिउ वसुसंचउ केण गविट्टुउ ॥ ६ ॥

४ AP मूढु.

6 १ AP अण्णणहु. २ A मउडि. ३ AP ०विण्णय. ४ AP णीसेसगामि.  
५ AP आरामि. ६ AP एक्कु वि सयल्लु वि. ७ AP सो.

11 b लो इ य वे इ य स म ए हिं छूँडु लौकिकवैदिकमतै क्षितः.

6 2 a अण्णत्तहु अन्यत्वम्, b सि हि ग हि उ तेल्लु सि हि भा उ जेव अग्निना वर्तिसयोगेन  
गृहीत तैल यथाग्निर्भवति तथा जीवपरिणामः अन्यत्वं गच्छति. 3 a ०वित्ति० ध्रौव्यम्, गत्थु प्रस्तः,  
a अप्पउ पुग्गलपयत्थु आत्मा पुद्गलपदार्थश्च. 4 a पज्जाउ जाइ पर्यायो विद्यते, पयासु प्रकाश  
स्फुटम्. 5 a ज रुच्चइत्यादि उत्पादादिरूपत्रयमध्ये जीवादिवस्तुनि यद्रूप रोचते विवक्षितुमिष्यते,  
b णिज्जीवणिरण्णइ जीवनिश्चयरहिते अन्वयरहिते, वियप्प उत्पादादिविकल्पा. कुत्र जायन्ते. 7 a  
णीसेसणामि सर्वपदार्थेषु, b आरामथामि आरामस्थाने. 8 a एवेत्यादि एव द्रव्यक्षेत्रकालभावै-  
रस्तिनास्तिताभ्यां निर्व्यूढ प्रमाणोपपन्न सत्य यस्य तत्त्वस्य. 10 a णियाणि अवसाने. 11 a खडिउ मृत-  
भार्य, वरइत्तु वर. 12 खउ क्षयो विनाश. 13 वसुसंचउ द्रव्यकुम्भः, गविट्टुउ दृष्टः.



7

जइ जाणइ सो किर वासणाइ  
जइ इंदजालु तिहुयणु असेसु  
सिविणोवमु जइ णीसेसु सुण्णु  
जिणपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु  
सयलु वि संसारिउ गोरिकंतु  
जो आहवि वइरिहिं मलइ माणु  
पुरु विद्धउ जेण रइवि ठाणु  
विणु वत्तारें सिद्धंतु केत्थु  
अप्पउं अंवरिं संजोयमाणु  
णिच्चेयाणि सुसिरि सिवत्तु थवइ  
परु मोहइ सइं तमणियरभरिउ  
णिवडइ रउइ घणि घणि तमंधि

तो ताइ केम्ब खणधंसणाइ ।  
तो किं किर चीवरधरणवेसु ।  
तो गुरु ण सीसु णउ पाउपुण्णु ।  
सिद्धु णिक्कलुं णिप्परिणामवंतु ।  
णच्चइ गायइ तो किं महंतु । 5  
धणुगुणि संधिवि अग्गेयवाणु ।  
किं तासु वयणु होसइ पमाणु ।  
सिद्धंतें विणु किह मुणइ वत्थु ।  
कउलु वि भावइ महु मुक्कणाणु ।  
पसुमासु खाइ महु सीहुं पिवइ । 10  
इंदियवसु णिंदियसाहुचरिउ ।  
णारयहणहणरवि णरयरंधि ।

घत्ता—झायहि जिणधवलु अण्णेण ण दुक्किउ जिप्पइ ॥  
करयलकंतिहरु पंकेण पंकु किं धुप्पइ ॥ ७ ॥

8

जइ काउ सरंतहं जाइ गरंलु  
जो सेवइ गुरु पाविहु दुहु  
सो सइं जि पाव पावहु जि सरणु  
सो गुरु जो मित्तु व गणइ सत्तु  
सो गुरु जो मुक्काहरणवत्थु  
सो गुरु जो तिणु कंचणु समाणु

तइ पावेण जि जणु होइ विमलु ।  
देउ वि णिट्ठुरु देट्ठोहु रुहु ।  
पइसउ ण लहइ संसारतरणु ।  
सो गुरु जो मायाभाववत्तु ।  
सो गुरु जो महिमागुणमहत्थु । 5  
सो गुरु जो गिरहुप्पणणाणु ।

7 १ A णो पाउ. २ A किं सो महंतु, P किं तो महंतु. ३ A अग्गेउ वाणु. ४ P पूणु विद्धउ. ५ A अंतरि. ६ A मज्जु. ७ A घणघणरउइ णिवडइ तमंधि. ८ AP किह धुप्पइ.

8 १ A गरुलु. २ A दुहुहु. ३ A omits this foot. ४ AP गुणमहिमामहंतु. ५ A तणकंचणसमाणु.

7 1 b ताईत्यादि तथा वासनयापि किं क्षणविष्वसनर्गालया. 2 b चीवरधरणवेसु बौद्धानां रक्तवस्त्रप्रहणवेपः. 3 a सि वि णो व मु स्वप्पोपमम्. 4 a जि णपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु जिनदुर्जनानां निजसिद्धान्तः बाधकं वा, स्वघचनेनैव ते बाधिता इत्यर्थः. 5 a सयलु सगरीर; गोरिकंतु पार्वतीभर्ता शिव. 6 b अग्गेय<sup>०</sup> आग्नेयः. 7 a अप्पउ अवरि संजोयमाणु परमब्रह्मदर्शनवशादशेषभेदविश्राविनाशादिति वेदान्तवादिनः; b कउलु वेदान्ती. 10 a सुसिरि आकाशे, b सीहु मयम्. 11 करयलकंतिहरु करे स्थित. कर्दमः हस्तकान्तिरुफेटक.; धुप्पइ प्रशाल्यते.

8 1 a काउ सरंतहं काकं स्मरताम्. 6 b गिरहुप्पणणाणु निःपायोत्तन्नान्..

णिञ्चलखमदमसंजमसमेण  
दूरुञ्जियदुज्जयरायरोसु  
तहु धम्सु अहिसालक्खणिल्लु  
अहवा सो भण्णइ सूणयारु

गुरुरयणु भणित् एपं कमेण ।  
अरहंतु देउ परिहरियदोसु ।  
मयमारउ विप्पु वि होइ भिल्लु ।  
जण्णे कहि लब्भइ सग्गदारु । 10

घत्ता—भेल्लिवि विसयविसु जिणभावे हियवउ भावह ॥  
पालिवि जीवदय सग्गापवग्गसुहु पावह ॥ ८ ॥

## 9

तं णिसुणिवि परिरक्खियमयाइं  
सम्महंसणविप्पुरियएहि  
लक्खणहियवउं दुणियाणसहिउं  
दसरहि मुइ णिहिय णिरूढसयरि  
गय भायर वाणोरसि तुरंत  
रामे सुउ जायउ विजयरामु  
अहिमाणणाणविण्णाणजुत्त  
गोविंदहु णंदणु पुहइचंदु  
अण्ण वि णं मत्तमहागइद्द  
गुणगणरंजियभुवणत्तएहिं

धरियंइं रामे सावयवयाइं ।  
अवरेहि मि भव्वपुंडरियएहिं ।  
तेण जि व्रंउ तेण ण कि पि गहिउं ।  
सत्तुहण भरह साकेयणयरि ।  
थिय रज्जु करंत हलो अणंत । 5  
सीयहि रूवे णं देउ कामु ।  
अवर वि संजाया सत्त पुत्त ।  
पुहइहि हूयउ पुहइसवंदु ।  
सुय संभूया जियरिउणरिंद ।  
परिवारिय पुत्तपउत्तएहिं । 10

घत्ता—थिय भुंजंत महि गर्ड कालु अकलियपरिवत्तउ ॥  
एक्कहिं णिसिसमइ हरे फणिसयणि पसुत्तउ ॥ ९ ॥

## 10

पेच्छइ सिचिणंतरि पर्याहिं मल्लिउ  
कवलेवि विडप्पे तिमिरजूरु

णग्गोहु दंतिदंतग्गदल्लिउ ।  
काह्विवि पायालि णिहित्तु सूरु ।

9 १ P सरियइं. २ AP वउ. ३ A दसरहसुयविहिय°. ४ AP वाराणसि. ५ P अवर वि जाया तहु सत्त पुत्त. ६ P गयउ. ७ A अहियपरिवत्तउ. ८ A फणिसयणयलि, P मणिसयणि.

10 १ A कवलियउ.

9 b मयमारउ मृगमारकः. 10 b जण्णे यजेन.

9 1 a परिरक्खियमयाइं रक्षितमृगाणि श्वापदवधरहितानि. 3 a दुणियाणसहिउं दुर्निदानयुक्तम्. 4 a णिरूढसयरि नृषु मध्ये रूढ प्रसिद्धः सगरो यत्र. 11 अकलियपरिवत्तउ अकलिताः असंख्याता अनवधारिता वा परिवर्ता यस्य. 12 फणिसयणि शेषशयने.

10 2 a विडप्पे राहुणा, तिमिरजूरु चन्द्र.

पासायसिहरणिवंडणु णियंतु  
 अक्खिउ दुहंसणु भायरासु  
 जिह वडतरुवरु चूरिउ गएण  
 जं अब्भपिसापं गिलिउ भाणु  
 तं संचियचिरुसुँकयावसाणु  
 जं णिवडिउं वरधवलहरसिंणु  
 माहउ पावेसइ देव मरणु  
 तवचरणु चरेव्वउं पइं रउहु  
 तं णिसुणिवि जर्यभीमाहवेण  
 अहिसित्तइं जिणविंवइं जलेहि  
 दहिण्हिं कुंभपल्लत्थिण्हिं

उट्ठिउ महिवइ अंगइं धुणंतु ।  
 ता भणइ पुरोहिउ दुक्कु णासु ।  
 तिह सिरिवइ भंजेव्वउ गएण । 5  
 चण्णिवि पाविउ महिविवरठाणु ।  
 परिपुण्णउं वट्टइ आउमाणु ।  
 तं धुवुँ पोमामुहपोमभिंणु ।  
 पइसेव्वउ जिणवरचरणसरणु ।  
 लंघेव्वउ भीसणु भवसमुहु ॥ 10  
 पुरि अभयघोसु किउ राहवेण ।  
 दुट्ठेहिं धवलधारुज्जलेहिं ।  
 वरकामिणिकरणिम्मत्थिण्हिं ।

घत्ता — णहवियइं पुज्जियइं जिणवरणडिविवइं रामे ॥

भत्तिइ वंदियइं परिवट्ठियसुहपरिणामे ॥ १० ॥

15

## 11

पुरु घरु परिहाणु हिरणु धणु  
 संति वि<sup>३</sup> विरयंतहं विहुरहम्मु  
 पुण्णक्खइ दुक्खु दुपेक्खु देतु  
 कइवयदिणेहिं सुहिदिण्णसोउ  
 उप्पाइयवंधवहिययसल्लि  
 काले कवलिउ महिअद्धराउ  
 णं णासिउ वंधवसोक्खहेउ  
 णं मोडिउ सुरतरुवरु फलंतु  
 रिउसीसणिवेसियपायपंसु  
 जहिं रावणु तहिं सो दुहपर्यसि

जे<sup>१</sup> जं मग्गइ तं तासु दिण्णु ।  
 दुक्कउं चिरसंचिउ घोरकम्मु ।  
 हयपरवल्लु भुयवल्लु णिक्खवंतु ।  
 लच्छीहरंगि संभूउ रोउ ।  
 माहम्मि मासि दिणि अंतिमिल्लि । 5  
 णं हित्तउ कामिणिरइणिहाउ ।  
 अल्लोडिउ णं रहुवंसकेउ ।  
 उल्लविउ पयावाणल्लु जलंतु ।  
 उट्ठाविउ जगसररायहंसु ।  
 उप्पणु चउत्थइ णरयवासि । 10

२ P °णियडणु. ३ A यमेण, P मएण. ४ A °सुकिया°. ५ AP धुउ. ६ AP जिय°. ७ A दहिएण.

11 १ P परिहणु. २ AP जं जे मग्गिउ. ३ A संतिहि. ४ AP °रयणिहाउ. ५ A °पयासि.

5 b सिरिवइ ल्क्ष्मणः, गएण गदेन रोगेण. 6 a अब्भपिसापं राहुणा. 7 b आउमाणु आयुः-  
 प्रमाणम् 8 b पोमामुहपोमभिंणु लक्ष्मीमुखकमलभृङ्गो माधवः. 9 b पइसेव्वउ प्रवेगः कर्तव्य .  
 11 a जयभीमाहवेण जगति रौद्रसंग्रामयुक्तेन.

11 1 a परिहाणु वल्लम्. 2 a संति वि विरयंतहं शान्तिमपि कुर्वताम् विहुरहम्मु  
 दुःखगृहम्. 4 b रोउ रोगः. 5 b दिणि अंतिमिल्लि पूर्णिमादिने. 6 b रइणिहाउ रतिसमूहः.  
 8 b उल्लविउ विष्मापितः. 9 a °पायपंसु पादरेणुः.

विहिणा सोसिर्द्ध गुणणिहिगहीरु  
सिंचिउ सलिले माणवमहंतु

सोएण पमुच्छिउ रामु वीरु ।  
उम्मुच्छिउ हा भायर भणंतु ।

घत्ता—हा दहमुहाणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर ॥  
हा रयणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरव ॥ ११ ॥

12

धाहावइ सीय मणोहिरामु  
हा हे देवर महु देहि वाय  
पूएँप्पिणु दहूउं हरिसरीरु  
करहयसिरु हाहारउ मुयंतु  
लक्खणभुउ णामेँ पुहइचंडु  
सत्तहिं जणेहि सीयासुएहि  
लहुयारउ ताहं पयग्गि णविउ  
साकेयणयरि सिद्धत्थणामि  
सीराउहेण मयमोहणासि

एक्कल्लउ छंडिउ काइं रामु ।  
पइं विणु जीवंतहं कवण छाय ।  
अवलंबिउ सीरेँ हियइ धीरु ।  
संबोहिउ अंतेउरु ख्यंतु ।  
सइं अहिंसिंचिवि किउ कुलि णरिंदु । 5  
ण समिच्छिय सिरि पीवरभुएहि ।  
अजियंजउ मिहिलाणयरि थविउ ।  
वणि परिभमंतचलभसलसामि ।  
तवचरणु लइउ सिवंगुत्तपासि ।

घत्ता—तहि रामेण सहं सुग्गीउ वि सुद्धविवेयउ ॥ 10  
हणुउ विहीसणु वि पावइयउ जायणिव्वेयउ ॥ १२ ॥

13

राएं जाएं इसिसीसएण  
सीयापुहइहिं सुयवइहि पाय  
भुवँणुट्टिउ तिट्ठावज्जियाउ  
पत्ता वेणिण वि णिम्महियकाम  
इयर वि संजाया रिद्धिवंत  
आहुडुसयाइं गयाइं तासु  
पंचहिं वरिसेहि विवज्जियाइं  
रामेँ चउकम्मइं घाइयाइं

तणयहं तउ लइउ असीसएण ।  
आसंधिय भावें चत्तराय ।  
जायाउ ताउ तहिं अजियाउ ।  
सुयकेवलित्तु हणुयंतु राम ।  
मुणिवर णिट्ठुरतवतावसंत । 5  
संवच्छराहं पालियवयासु ।  
जइयहुं तइयहुं भुवँ णिज्जियाइं ।  
अमरहिं कुसुमाइं णिवेइयाइं ।

६ A सोहिउ.

12 १ P हा देवर महु दे देहि वाय. २ A जूरेप्पिणु. ३ AP सिवगोत्ते. ४ P अइसुविवेयउ.

13 १ AP मुक्कमाय २ AP भवणुय तिट्ठाणिज्जियाउ. ३ AP बुउ

14 १ हरिणकंठीरव मृगत्य सिंह.

12 3 a पूए ष्पिणु पूजयित्वा, b धीरु धैर्यम्.

13 1 b असीसएण अशीत्यधिकशतेन. 2 a सुयव इति ध्रुवतनुक्तायाः आर्वायाः

उप्पण्णउं केवलु विमलणाणु  
खणि सुरयणु संप्रायउ णवंतु

दिट्ठउं तिहुयणु गयँणु वि अमाणु ।  
जय णंद चद्ध रहुवइ भणंतु । 10

घत्ता—एक्कु जि छत्तु तहु पोमासणु चमरइं चवँलइं ॥  
देवहिं णिम्मियइं तारातारावइधवलइं ॥ १३ ॥

## 14

मुसुमूरंतहु भववइरिवम्मु  
छसयाइं सयद्धविमीसियाइं  
संमेयसिहरि सो रामभिक्खु  
अवर वि सुग्गीवविहीसणाइ  
ते सयल भडारा वीयराय  
सा सीय पुहइ सा विमलगत्तु  
लच्छीइरु णरयहु णीसरेवि  
भासंति एव परमत्थवाइ  
हरिणा समाण नृवखयणिसीइ

जणवइ साहंतहु परंमधम्मु ।  
महियलि विहरंतहु तहु गयाइं ।  
हणुवंतें सहं संपत्तु मोक्खु ।  
चारित्तवंत जे दिव्वं जोइ ।  
अणुदिसणिवासि अहमिंद जाय । 5  
पत्ताउ कप्पि कप्पामरत्तु ।  
पावेसइ सिवपउ तउ चरेवि ।  
संपय कासु वि णउ समउं जाइ ।  
के के ण खद्ध महिरक्खसाइ ।

घत्ता—सुंयरह गुरुवयणु मा लक्खणपंथें वच्चह ॥

भरहणरिंदथुउ सिरिपुष्पयंतु जिणु अंचह ॥ १४ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए  
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयतित्थसंभूयहँरिसेण-  
चक्कवट्टिरामवलएवलक्खणवासुदेवरंरावणपडिवासुदेव-  
गुणकित्तणं णाम एक्कूणासीमो परिच्छेओ  
समत्तो ॥ ७९ ॥

॥ मुणिसुव्वयचरियं समत्तं ॥

४ A सयलु वि. ५ AP संपाइउ. ६ A णमतु. ७ AP धवलइं.

14 १ P परममग्गु. २ AP दिट्ठजोइ. ३ AP 'णिव'. ४ A सुमहुर, P समरहु.  
५ A omits हरिसेणचक्कवट्टिं ६ AP omit 'लक्खण'. ७ AP omit 'रावणपडिवासुदेव'.

12 °तारावइधवलइं चन्द्रवत् धवलानि.

14 1 a भववइरिवम्मु भववैरिणः स्थितिहेतुत्वान्मर्म कर्मोच्यते, b जणवइ जनपदे देशे.  
4 b जोइ योगिनः. 7 b सिवपउ मोक्षपदम्. 9 a नृवखयणि सीइ नृपक्षयनिशया कालरात्र्या.  
11 अचह पूजयत.

वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणधरहो ॥  
पणवेप्पिणु णमिजिणदिणयरहो जणमणतिमिरभारहरहो ॥ ध्रुवकं ॥

I

दुवई—जेण जिया रउद्द चल पंच वि वम्महमुक्कसाययां ॥	
भवसंसरणकरणविसवेयसमा विसमा कसायया ॥ छु ॥	
मुक्क मही णिवसंगया	समसिद्धंतवसंगया । 5
उज्झियजीवसवासणा	विहिया जेण सवासणा ।
जस्स सुधी पिसुणेहले	सरिसा सहले णेहले ।
छिण्णं जेणुद्दामयं	आसारइयं दामयं ।
णिच्चं वणयरकंदरे	जो णिवसइ गिरिकंदरे ।
ण महइ धम्मे मंदयं	इच्छइ सासयमं दयं । 10
जम्मि थिए सुइजाणए	जम्मजलाहिजलजाणए ।
किं पढंति मयमारया	कामंधा सामारया ।
सइ हंसम्मि सगारवं	कीस कुणंति वंगा रवं ।
तं णमिऊण णमीसरं	तवसिहिइयवम्मीसरं ।

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza—

लोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णावशे नीरसे  
सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।  
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ साप्रतं  
क यास्यस्यभिमानरत्निलय श्रीपुष्पदन्त विना ॥ १ ॥

1 १ P वहइ. २ A वि गारवं.

1 3 वम्महमुक्कसायया मन्मथमुक्तवाणा . 4 ० विसवेयसमा विपवेगसदृशाः. 5 a णिवसंगया नृपसंगता, b समसिद्धंतवसंगया उपशमसिद्धान्तयोर्वशं गता विहिता येन. 6 a उज्झियजीवसवासणा उज्झितं त्यक्तजीवैः मृतकभक्षणयया वासनया, b सवासणा निजत्वभावः. 7 a सुधी शोभना बुद्धि, पिसुणेहले दुर्जने अहले फलरहिते, b सहले सफले, णेहले स्नेहले, यत्र शोभना बुद्धि निःफले दुर्जने सफलेऽपि स्नेहले समाना वर्तते इति भावः. 8 a उद्दामय महत्, b आसारइय वाञ्छितम्, दामय बन्धनम्. 9 a वणयरकंदरे वनचरा भिद्धा कंदरा वन्दमूलग्राहका यत्र वनचराणा वन्ददायके वा. 10 मंदय क्षिथिलताम्, b सासयमं शाश्वतीं मा लक्ष्मीम्. 11 a जम्मि त्यादि वस्मिन् नमितीर्यकरे, सुइजाणए श्रुतान्नापके स्थिते सति मिथ्यादृष्टयः किं पठन्तीति संवन्ध, b ० जाणए ज्ञानपात्रे तरण्डके. 12 a मयमारया मृगमारकाः, b सामारया अप्रवृत्ता दयाना स्त्री तत्र स्ताः. 13 a सइ हसम्मि हसे सति यका रवं शब्द न कुर्वन्तीत्यर्थः.

घत्ता—पुणु तासु जि चरिउ किं पि कहमि सज्जणकोऊहलजणणु ॥ 15  
कहिणण जेण दिहि वित्थरइ सुहु उप्पज्जइ णाणतणु ॥ १ ॥

## 2

दुवई—जंवूदीवि भरहि सुच्छायउ वच्छउ विसउं बहुधणा ॥  
तहिं कोसंबि णयरि चउदारविलंबियरयणतोरणा ॥ छ ॥

घरगयमोरहंसआहरणाहि	कुंकुमंपंकपसाहियचरणहि ।	
मणिविक्कयमुत्ताहलहारहि	दोसियदंसियचीरवियारहि ।	
लोहहट्टलोहेण णिवद्धहि	विक्रमाणणाणारसणिद्धहि ।	5
वलयाारावणपयडियवलयहि	णिच्चभुयंगसंगकयपुलयहि ।	
विविहधयवहुप्परियणचवलहि	महिलायणकमणेउरमुहलहि ।	
मंदिरकणयकलसथणवंतहि	पविमलपाणियछायाकंतहि ।	
वंदियधवलजिणालयसेसहि	उव्वेणि णिवडियअलिउलेकेसहि ।	
देउलदंतपंतिदावंतिहि	णयरीकामिणीहि णंदंतिहि ।	10
जणि जाणिउ इक्खाउ पहाणउ	पत्थिउ णामे णिवसइ राणउ ।	
सइ कलहंसवंसवीणाञ्जुणि	णामेण जि तहु सुंदरि पणइणि ।	
वासपवेसु व पुण्णपसत्थहं	सुउ सिद्धत्थु सव्वपुरिसत्थहं ।	

घत्ता—ता णरेण णरिंदहु विण्णविउं विद्धंलियजणदुच्चरिउ ॥  
मणहरि णंदणवणि अवयरिउ मुणिवरु णामे आयरिउ ॥ २ ॥ 15

## 3

दुवई—ता सहं सुंदरीइ सहं तणएं सहं परिवाररिद्धिए ॥  
गउ णरवइ वणंतु वदिउ मुणि मणवयकायसुद्धिए ॥ छ ॥  
राएं भुवणंभोरुहणेसरु पुच्छिउ तच्चु कहइ परमेसरु ।

2 १ AP देसु. २ A कुंकुमंपंकहि सोहिय°, P कुंकुमंपंकपसोहिय°. ३ A वलयारोवण°. ४ A उववणणिवडिय°. ५ A तहु णामे सुदरि पणुपणइणि, P तहु णामे सुंदरि पियपणइणि. ६ A वासु पवेसु. ७ A मणहर°. ८ P आहरिउ.

2 1 बहुधणा बहुधनयुक्ता. 3 a °आहरणहि आभरणयुक्तायाम्; b °चरणहि °मार्गायाम्. 5 b विक्रमाण° विक्रीयमाणाः. 6 a वलयारावण° वलयकाराणणे, b °भुयंगसंग° भोगिलोक. कामी च. 7 a °उप्परियण° °उपरितनं उत्तरीयं वत्त्रम्; b °कमणेउर° चरणनूपुराणि. 13 a वासपवेसु अभिनवग्रहप्रवेशः, b सिद्धत्थु सिद्धार्थनामा. 14 णरेण केनचित्सुदयेण.

3 1 परिवाररिद्धिए छत्रचामरादिभिः.

अप्पु एक्कु णाणदंसणतणु  
 जोय तिण्णि गारव असुहिल्लइं  
 तिण्णिं गुणव्वय चउ सिक्खावय  
 चउ विण्णासवयइं चउ ज्ञाणइं  
 पंच महव्वयाइं आयारइं  
 समिदीउ पंच रइयगुणछायउ  
 जे लोउत्तमणाहें सिट्ठा  
 भासियाइं पंचासवदारइं  
 जीवणिकायभेय छावासय  
 तच्चइं सत्त सत्त णय सांसिय  
 कम्मइं अट्ट अट्ट मय कयमल  
 णव पयत्थ णव बलणारायण  
 एयारह सावयगुणठाणइं  
 बारह तव तेरह चारित्तइं  
 घत्ता—पायाँलु सग्गु णरवरभुवणु भयवंतेण पयासियउं ॥

जं किं पि जिणागामि लक्खियउं तं णीसेसु वि भासियउं ॥ ३ ॥

## 4

दुवई—राएं रायपट्टु सिद्धत्थहु भालयले णिवेसिओ ॥

णिसुणिवि चारु धम्म अरहंतहु अप्पुणु तवु समासिओ ॥ छ ॥

लइय दिक्ख जिणवरु पणवेप्पिणु  
 सिद्धत्थु वि घरवयअइसइयउ

पायपुज्जगुरुपाय णवेप्पिणु ।  
 थियउ सम्मत्तरयणच्चिचइयउ ।

3 १ P दुक्कियणु. २ P तिण्णि वि गुणवय. ३ P पंच जि. ४ A लोयतत्तणाहें. ५ A पायाल.

4 १ A समत्तु रयणु.

4 a णाणदसणतणु ज्ञानदर्शनस्वरूपः, b दु वि हु देशसकलभेदात्. 5 a जो य ति णि औपक्रमिक-  
 यथाकालनिर्जराभेदात्, मनोवाक्कायभेदाद्वा, b जी व ग ई उ पाणिमुक्तगोमूत्रिकालाङ्गलीभेदेन. 7 a वि ण्णा स-  
 वयइ नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्, b पंच सरीरइ औदारिकवैक्रियिकाहारकर्तृजसकार्मणभेदात्.  
 10 a लोउत्तमणाहें लोकोत्तमनाथेन जिनेन. 11 a पंचासवदारइं मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-  
 कप्राययोगा बन्धहेतवः. 12 b लेसासय लेश्यापरिणामः. 14 b अट्ट महीउ णारयभवणवामिय माणुउ-  
 जोएण कप्पवासी य । गेवेय सव्वसिद्धी मोक्खमई अट्टमी पुढवी.

4 2 अप्पुणु तवु समासिओ आत्मना स्वयं तपः समाश्रितम्. 3 b पायपुज्जं मुनिनामेदम्.  
 4 b °च्चिचइयउ शोभमानः.



जलणिहिजलवलइयजयसिरिसहि  
 णिसुय वत्त जिह जणणु जईसरु  
 तणयहु विणयपणयवित्थिण्णहु  
 वग्गुरवेदु गादु मणहरिणहु  
 तहिं जि मणोहरवणि तणुंताविउ  
 सो अप्पउं जिणभावे रंजइ  
 मँउणु करइ अह थोवउं जंपइ  
 विकहउ ण कहइ ण सुयइ ण सुणइ  
 जग्गइ इंदियचोरहं एंतहं  
 रत्तिदिवसु उब्भुब्भउ अच्छइ  
 देहि णहु किं पि वि ण समारइ  
 मलपविलित्तइं अट्टइं अंगइं  
 धीरेँ सच्चु तच्चु णिज्झायउं  
 सोलह थिर हियएण धरेप्पिणु

भुंजंतेण तेण सयल वि महि । 5  
 मुउ संणासें णिण्णासियसरु ।  
 ढोइवि णियकुलत्तिरि सिरिदिण्णहु ।  
 किउ तवचैरणु हरणु जमकरणहु ।  
 मुणिवरु गुरु सम्भावे सेविउ ।  
 लद्धउं कालि सुणीरसु भुंजइ । 10  
 बंधमोक्खु संसारु वियप्पइ ।  
 धम्मज्ञाणु रिसि णिविसुं वि ण मुयइ ।  
 सीलदविणु बलि महुँ हरंतहं ।  
 सत्तु वि मित्तु वि सरिसउ पेच्छइ ।  
 पुव्वभुत्तु मणि ण सरइ मारइ । 15  
 धरियइं तेण्यारह अंगइं ।  
 खाइउ दंसणु खणि उप्पाइउं ।  
 जिणजम्मणकारणइं चरेप्पिणु ।

घत्ता—सो अणसणु करिवि पसण्णमइ मुणि पंडियमरणेण मुउ ॥

अवराइउ ससहरकरधवलि मणिविमाणि अहमिंदु हुउ ॥ ४ ॥ 20

## 5

दुवई—वरणीहारहारपंडुरयर रयणिपमाणियंगओ ॥

णिप्पडियारसारसुहरसणिहि गयरमणीपसंगओ ॥ छ ॥

जो णीसासवाउ कयसंखहिं  
 माणियअमरालयसिरिहइइं  
 तेत्तियवरिससहासहि भोयणु  
 सुक्कलेसु मज्झत्थु महाहिउ  
 तइयहुं घरसिरिसंठियखयरिहि  
 इंदापसें धणपं रइयहु

मुयइ कहिं मि तेत्तीसहिं पक्खहिं ।  
 आउ जासु तेत्तीससमुइइं ।  
 जो अहिलसइ सोक्खसंपायणु । 5  
 तहु छम्मासकालु जइयहुं थिउ ।  
 वंगेदेसि वरमिहिलाययरिहि ।  
 विविहमहामाणिक्हिं खइयहु ।

२ P °जलइय°. ३ A तवयरणु. ४ AP तवताविउ. ५ AP मोणु. ६ A णिमिउ. ७ AP मड.  
 ८ P रणि. ९ P वीरे.

5 १ AP °रमणीयसंगहो. २ P खगसिरि°. ३ AP °मिहलो.

5 a °जय सिरि स हि जयश्रिय सखी. 6 b णिण्णा सि य सरु जितस्मर 7 b सिरि दि ण्ण हु श्रीदत्तस्य.  
 8 a वग्गुरवेदु वागुरावन्धः, b जमकरणहु रोगस्य. 15 b मारइ लक्ष्मीरतिः.

5 1 °णी हार हिमम्, °रयणिपमाणियंगओ हस्तप्रमाणशरीर. 4 a °सिरिहइइं भद्राणि  
 मङ्गलानि. 6 a महाहिउ महाधिकः. 7 a घरसिरिसंठियखयरिहि गृहशिखरसस्थितविद्याधर्याम्.

विविहहट्टेटारमणीयहि विविहमाणिणीयणसंगीयहि ।  
 विविहारामहि विविहणिवासहि विविहसिहरआलिहियायासहि । 10  
 घत्ता—तहि विजयराउ णामे नृर्वेइ णिवसइ णवणिसियासिकरु ॥  
 छायायरु जणसंतावहरु णं वरिसंतउ अबुहरु ॥ ५ ॥

## 6

दुवई—तहु घरि धरणि देवि परमेसरि वप्पिल चारुचारिणी ॥  
 हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहिं सेविय हिययहारिणी ॥ छ ॥

सुहुं सुत्ताइ ताइ अलिमालिउ सिविणइ णिसिहि विरामि णिहालिउ ।  
 करि करडयलगलियचुंयमयंजलु अणहुहु खरखुरजुयखयधरयलु ।  
 हरि हरिकुलिसकठिणणहहयगिरि गयकरकलससलिल्लेण्हावियसिरि । 5  
 पसरिय परिमलमहुयरसवलिय सर कुसुममय मिलिय णहविलुलिय ।  
 कुवल्यदलविल्लेसियकरु ससहरु मिहिरु गयणमर्हादिसिगयतमहरु ।  
 झस भमिर रमिर रइववसिय घड जलभरिय हरियकिसलयचिय ।  
 सरवरु सकमलु सरिवइ समयरु मणिहरियासणु जियसुरमहिहरु । 10  
 विसहरभवणु सुमहु सयमहघरु ।  
 रयणणियरु पहहयरवियरविहु हुयवहु कणयकविलदीहरसिहु ।  
 घत्ता—इय जोइवि सिविणय सोलह वि अक्खिउ मुँद्धइ णिर्यपइहि ॥  
 तेण वि देसावहिलोयणिण फलु विर्यरिउ गयवरगइहि ॥ ६ ॥

## 7

दुवई—सयलसुरिंदवंदु गुणगणणिहि णिरुवमु णिसुणि सुंदरी ॥  
 होही तुज्जु पुत्तु गुरुहुं मि गुरु कामंकरिंदकेसरी ॥ छ ॥

४ P णिवइ.

6 १ AP घरिणि. २ AP °चल°. ३ P °मयइल्ल ४ A °सुणहविसिरि, P °सुणहविय.  
 ५ P °वियसिययरु. ६ P सयमयघरु. ७ A सुद्धइ. ८ AP णियवइहि. ९ AP विवरिउ गरवर°.

7 १ P कालकरिंद°.

11 °णि सि या सि करु तीक्ष्णखङ्गहस्त . 12 छा या यरु छायाकर , अबुहरु मेघ .

6 1 चारुचारिणी सुन्दरगमना शोभनानुष्ठाना वा. 3 a अलिमालिउ भ्रमरयुक्तः.  
 4.b अणहुहु अनइवान् वृषभः. 5 a हरि सिंह., हरि° इन्द्रः. 6 a °सवलिय शवल्लिता मिश्रा,  
 b सर माला, मिलिय युगभूता. 8 a रइववसिय रतिविपये उद्यतौ, b हरियपल्लवचिय हरित-  
 पल्लवजटितौ, 9 b मणि हरियासणु रत्नसिंहासनम्. 10 a सुमहु सुतेजः. 11 a पहहयरवियरविहु  
 प्रमया हता रविकरविभा तेजो येन सः

हुउ अद्धं वरिसु	घरि रयणवरिसु ।	
सरयावयासि	भद्दवयमासि ।	
सँसिधवलपक्खि	आसिणिसुरिक्खि ।	5
वीयहि जिणिंदु	जगकुमुयचंदु ।	
थिउ गव्भवासि	संसारणासि ।	
आयामरेहिं	चलचामरेहिं ।	
झुल्लइ णहंतु	ढंकिउ दियंतु ।	
णहँणिवडमाणु	वसु अप्पमाणु ।	10
जोइउ णरेहिं	पणवियसिरेहि ।	
णिवभवाणि तांव	णवमास जाव ।	
मुणिसुव्वयम्मि	पालियवयम्मि ।	
भवभार्वच्चत्ति	णिव्वाणँपत्ति ।	
गय सँट्टि लक्ख	वरिसहं ससंख ।	15
तइयहुं अउण्ह-	आसाढकण्ह- ।	
पक्खंतरालि	कयअमररोलि ।	
आणंदपुण्णि	दिम्महि पसण्णि ।	
अइसुरहिवाइ	हुंदुहिणिणाइ ।	
चुंयगंधसलिलि	सुराधित्तकमलि ।	20
कंतीई कंति	दहमइ दिणंति ।	
सुहसंगमेण	जायउ कमेण ।	
तेलोक्कणाहु	अहयंदराहु ।	
पयपणयधणउ	वँप्पिलहि तणउ ।	

घत्ता—णिउ देवहिं मंदरमहिहरहु पुज्जाविहि संमाणियउ ॥ 25  
पहुपडहभेरिमंगरविण जयजयसहँ णहाणियउ ॥ ७ ॥

२ A अद्धवरिसु ३ AP अस्सणहु मासि. ४ AP ससिखीणपक्खि. ५ AP णहि णिवडमाणु.  
६ A ०वत्ते. ७ AP णिव्वाणु. ८ AP गय लेसलक्ख. ९ P कतीसकंति. 10 AP वप्पिलहि.

7 4 a सरयावयासि जलदावकागे, b भद्दवयमासि भाद्रपदे गते सति, आश्विनवदि  
द्वितीयायामित्यर्थः. a ससिधवलपक्खि अधवलपक्षे कृष्णपक्षे, b आसिणिसुरिक्खि अश्विनीनक्षत्रे.  
8 a आयामरेहि प्रातै देवै. 9 a झुल्लइ दोलायते नमः. 16 a अउण्ह° ज्योत्स्नारहिते.  
22 a सुहसंगमेण अश्विनीस्थितचन्द्रेण. 23 b अहयंदराहु पापमेव चन्द्र. तस्य राहु. 24 a ०धणउ  
धनदः कुवेरः.

## 8

दुवई—पुञ्जिवि ण्हविवि भणिउ णमिजिणवरु गुणमणिरुंहरवणओ ॥  
णाणत्तयसमेउ परमेसरु उज्जलकणयवणओ ॥ छ ॥

आणिवि पुणु वि णिहिउ जणणहु घरि	वड्डिउ जिणु कुमारु हंसु व सरि ।	
वड्डिउ तैवसंताउ व कामहु	वड्डिउ दाहु व इंदियगामहु ।	
वड्डिउ मेहु व कोवहुयासहु	वड्डिउ मंतु व भवभयतासहु ।	5
वड्डिउ हेउ व पवरसुहेल्लिहि	वड्डिउ णवकंदु व दयवेल्लिहि ।	
वड्डिउ देवदेउ वररुवउ	पण्णारहधणुदेहु पह्यउ ।	
दससहास वरिसहं परमाउसु	अट्टाइज्ज ताइं कीलावसु ।	
थिउ कुमारु कुमरत्तणलीलइ	पट्टु णिवद्धउ वियलियकालइ ।	
वरिसहं पंचसहासइं खीणंइं	रज्जु करंतहु तहु बोलीणइं ।	10

घत्ता—ता णवघणसमइ पराइयइ सुरधणु जणकोड्डावणउं ॥  
सोहइ उवरित्थु पयोहरहं णं णहसिरिउपरियणउं ॥ ८ ॥

## 9

दुवई—णाच्चियमत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहजालए ॥  
पवसियपियहि दीहणीसासरुहाणलधूमकालए ॥ छ ॥

तडिविप्फुरणफुरियपविउलणहि	वारिपूरपेल्लियदसदिसिवहि ।	
छुह जि छुह जि वप्पीहें घोसिउ	छुह जि छुह जि कैयइवणु वियसिउ ।	
छुह जि कैयंवगंधु उच्छलियउ	छुह पप्फुलउ मालइकलियउ ।	5
छुह पंथियपिययम उकंठिय	छुह छुह वायस वासपरिट्टिय ।	
हरियंतिणंकुरोहदिण्णाउसि	वरिसमाणि छुह पत्तइ पाउसि ।	
लीलाचरणचारवोइयगउ	वणकीलाविहारि पहु णिग्गउ ।	
कडयकिरीडहारकुंडलंधर	ता थिय सुरवर णहि मउलियकर ।	
विण्णवंति पणवंति कयायर	णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर ।	10
इह दीवंतरि पुव्वविदेहइ	तहिं वच्छावइविजइ सुगेहइ ।	

8 १ AP रुइवणओ. २ A आणेप्पिणु णिहिउ. ३ तणुसताउ. ४ AP झीणइ.

9 १ AP पवसियमुक्कीहं. २ AP केइयवणु. ३ P कमल्रांधु. ४ AP ०तणकुरोह.  
५ AP ०कुडलहर.

8 1 ०रुइर वणओ ०कान्त्या मनोहर. 2 उज्जलं निर्मलम्. 4 a तवसताउ तपस सताप.,  
11 पराइयइ प्राप्ते सति, जणकोड्डावणउं जनाना कौतुकोत्पादकम्. 12 उवरित्थु पयोहरह पयो-  
धराणां मेघानामुपरिस्थितम्, णहसिरिउपरियणउ नभोलक्ष्म्या उपरितनवस्त्रमिव.

9 2 पवसियपियहि प्रोषितस्त्रियाः. 4 a वप्पीहें चातकेन 5 a कयंवगंधु कदम्बपुष्पगन्ध.,  
6 a पंथियपिययम प्रोषितभर्तृकाः, 7 वायस वासपरिट्टिय काकाः मालके स्थिताः.

दविणणिवेइयकामुयकामहि  
आयउ वम्महवाणकयंतउ

णयरिहि सुहँलियसीमसुसीमहि ।  
अवराइयहु विमाणहु होंतउ ।

घत्ता—णिज्जियमणु तवसिहितत्तणु कम्मबंधणिण्णासयरु ॥

अवराइउ णामें लोयगुरु तहि उप्पणउ तिथयरु ॥ ९ ॥ 15

## 10

दुवई—असरिसविसमविरसविससंणिहदुक्कियजलणजलहरा ॥

आया तस्स चरणपणवणमण रँविससहरसुरासुरा ॥ छ ॥

अमरविलासिणिणच्चणतंडवि

जंपिउ केण वि तहु सहमंडवि ।

संपइ देहिदेहँहयमयजरु

जंवूदीवभरहि को जिणवरु ।

केवलणाणसमुग्गयणयणें

भणिउं जिणेण विणासियमयणें । 5

वंगदेसि कुसुमरयसुकविलहि

णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि ।

उप्पणउ अच्छइ जगसंकरु

णमिणामंकु भावितित्थंकरु ।

पवरविमाणहु हिमयरधामहु

अवइणउ अवराइयणामहु ।

भावाभावइं चित्तैइं जाणइ

देवविइणइं सुक्खइं माणइ ।

धाइसंडि दीवि तँउ चिण्णउं

दोहिं मि देवत्तणु संपणउं । 10

पढमि सग्गि सोहम्मि मणोहरि

रणकिरणजालंचियसुरहरि ।

तं णिसुणेप्पिणु मइमल धोयहुं

अम्हइं आया तुह पय जोयहुं ।

तं हियउल्लइ धरिवि णरेसरु

णयरि पइहु ललियगब्भेसरु ।

तहु जिणवरहु जम्मसबंधइं

सुर्यरेप्पिणु णियभवइं सच्चिंधइं ।

घत्ता—चित्तइ वसुहाहिउ णियहियइ बुद्धु सवोहिइ बुद्धउ ॥ 15

जगि जीउ जहिं जि हुउ तहिं तहिं जि रमइ सकम्मणिबद्धउ ॥ १० ॥

## 11

दुवई—हिंडइ भवसमुहि अण्णाणविलुंटियणाणलोयणो ॥

पुत्तकलत्तमित्तवित्तासापासणिरुद्धचेयणो ॥ छ ॥

६ A सुललिय°

10 १ AP णरविसहरसुरासुरा. २ AP देहि देउ. ३ AP चित्तइ. ४ AP वउ. ५ A तहि हिय°. ६ P सुमरेप्पिणु.

11 १ A °चित्तासापास°.

12 b सुह लिय सी म सु सी म हि सुफलिता सीमा यस्यः तस्या सीमा अवधिः.

10 १ तस्स अपराजितस्य. 6 a °सुकविलहि पीतरक्तवर्णायाम्. 7 a जगसंकरु जगतां सौख्यकरः. 9 a चित्तइ विचित्राणि.

11 1 °विलुटिय° विनाशितम्.

इय द्वायंतु देउ उम्मोहिउ  
 तणयहु वरसरीरसुहकारिणि  
 सुप्पहणामहु पट्टु णिवंधिवि  
 अमरवराहिसेउ पावेप्पिणु  
 सुमहिउ सयमहेण महिरूढउ  
 गउ आसाढमासि घणसामलि  
 दसमइ दिवसि मुहुत्ति पहाणइ  
 लइय दिक्ख सिद्धाण णवंते  
 मुक्कंवरइ विलुंचियकेसइ  
 लइयएण छट्ठेणुववासं  
 इंदचंदणोइंदणमंसिउ  
 वीरणयरि दत्तहु णरणाहहु  
 घरि पारणउं कयउं परमेसें

सारस्सयसुरवेरहिं संबोहिउ ।  
 दिण्ण तेण सधराधर धारिणि ।  
 धम्मज्ञाणु हियउल्लइ संधिवि । 5  
 धणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्पिणु ।  
 उत्तरकुरुसिवियहि आरूढउ ।  
 अस्सिणिरिक्खि पक्खिससिउज्जलि ।  
 फलपणविइ चित्तवणुज्जाणइ ।  
 घरपुरवरमहिमोहु मुयंतं । 10  
 पहु आलिगिउ दिक्खावेसइ ।  
 सहं सुसीलखत्तियहं सहासें ।  
 मणपज्जवणाणेण विहूसिउ ।  
 वीरलच्छिसुपसाहियवाहहु ।  
 सुरकयपंचच्छरियविलासें । 15

घत्ता—णववरिसइं दुद्धंरु तउ चरिवि तिण्णि वि सल्लइं वज्जियइं ॥  
 रसगंधफाससुइलोयणइं पंचिदियइं परज्जियइं ॥ ११ ॥

## 12

दुवई—वसुहं हिंडिऊण गउ पुणरवि तं दिक्खावणं घणं ॥

कुसुमियफलियललियतरुसाहाकीलियहंसवरहिणं ॥ छु ॥

तहि रिसि तवसंतावे रीणउ  
 मग्गासिरइ सिंसिरइ संपत्तइ  
 तइयइ सासिणिदियहि वियालइ  
 उप्पण्णेण णवियगिन्वाणं  
 सुहुमइं अवरंतरियइं दूरइं  
 पोग्गलाइं पूरियगलियंगइं  
 मल्लयमुरयवज्जणिहु तिहुवणु  
 कालु वि लक्खिउ जायपवत्तणु

वउलमहीरुहतलि आसीणउ ।  
 पक्खि मियंककरावलिदित्तइ ।  
 णिल्लूरियमहंततमजालइ । 5  
 दिट्ठइं देवे केवलणाणं ।  
 पच्चक्खाइं सुभेयंगहीरइं ।  
 गंधवैण्णपरिणामवसंगइं ।  
 ओग्गाहणलक्खणु गयणंगणु ।  
 अप्पउं सयणु अयणु च्चयणगुणु । 10

२ AP सारस्सयसुरेहिं. ३ A मुक्कवरपविलुचिय°. ४ AP °णायद° ५ AP दुद्धंरु चरिवि तउ.

12 १ P अवरतरियइ. २ A सभेय°. ३ AP वण्णगधपरि°.

3 a उम्मो हिउ त्यक्तमोहः. 4 b धारिणि भूमिः. 7 a सुमहिउ सुपूजितः. 8 b अससिउज्जलि कृष्णपक्षे दशम्यामित्यर्थ. 11 a मुक्कवरइ मुक्तवस्त्रया दीक्षावेद्यया श्लिष्टः.

12 2 °वरहिण °मयूरम्. 4 a सिंसिरइ हिमकाले, b मियंककरावलिदित्तइ चन्द्र-किरणश्रेणिदीप्ते, शुक्लपक्षे. 5 a सासिणिदियहि अश्विनीनक्षत्रे, वियालइ सध्यायाम्. 7 a अवरतरियइं अन्तरितानि. 8 a मल्लय° शरावः, °मुरय° मुरजः. 10 b सयणु सशरीरः ससारी, अयणु अतनुः सिद्धः.

धम्माधम्मु वे वि गइठाणइं बुद्धिय संतं सुद्धपमाणइं ।  
 ता दसदिसिवहेहिं आवंतहिं जय जय जय मुणिणाह भणंतहिं ।  
 घत्ता—पूपप्पिणु वियसियसुरहियहिं कुसुमहिं कुसुमसरत्तिहरु ॥  
 चउदेवणिकायहिं गमिउ गमि पसमपरिग्गहु परमपरु ॥ १२ ॥

## 13

दुवई—रेहइ तुज्जु णाह भुवणत्तयसीहासणविलासओ ॥  
 जस्साहोवयम्मि देविंदुं वि वइसइ णवियसीसओ ॥ छ ॥

दहंउ धणघरतिट्ठावाहिइ	जगु जीवइ तुह छत्तहं छाहिइ ।	
पइं दिट्ठइ पाविट्ठु वि सुज्जइ	तुह वायइ मृगुं मंदु वि बुज्जइ ।	
तुह धम्महु ण लील संपावइ	विज्जुंज्जोएं अंगउ दावइ ।	5
णिग्गुणधम्मं केत्तिउं गज्जइ	घणु तुह दुंदुहिरवहु ण लज्जइ ।	
जिण तुह भामंडलवित्थारं	लोउ ण धिप्पइ मोहंधारं ।	
तुह चामरहिं चलंतहिं पेल्लिउ	कम्मरेणु उट्ठाविवि घल्लिउ ।	
रंजिय कुसुमविट्ठिरुइरंगे	महुयर मत्ता तुज्जु जि संगे ।	
तुज्जु असोउ सोयणिण्णासणु	णंदउ णाह तुहारउ सासणु ।	10
घत्ता—जय जय परमप्पय परमगुरु जम्मि जम्मि तुहुं महु सरणु ॥ रिसिचरणमूलि सल्लेहणिण महुं देज्जसु समाहिरणु ॥ १३ ॥		

## 14

दुवई—इय संथुउ जिणिंदु देविंदहिं सेवियघोरकाणणो ॥  
 ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छ ॥

देउ एक्कवीसमउ जिणेसरु	उग्गउ णं गयणंगणि णेसरु ।	
सच्चु सधम्मु अहम्मु वियारइ	भवसमुद्धि बुद्धंतइं तारइ ।	
उवसंतइं पयपंकयणवियइं	पियवायइ संवोहियंभवियइं ।	5

४ A दसदिसिवहेण, P दसदिसिवहि णहि आवंतहिं. ५ P omits जय.

13 १ A देविंदु पइसई. २ A दह्वंधणघरं. ३ AP मिगु. ४ A विजाजोएं. ५ AP रइ-  
 रगे; K records a p रय इति पाठे रजः. ६ P परमपरु.

14 १ P सच्चु सुतच्चु सुधम्म. २ P संवोहइ.

13 1 भुवणत्तयसीहासणविलासओ भुवनत्रयसिंहासनस्य विलासः. 2 अहोवयम्मि  
 अध.पादे; वइसइ उपविशति. 3 a तिट्ठावाहिइ ० तृष्णान्याधिना, b छत्तहं छाहिइ छत्रत्रयाणां  
 छायाया. 5 a धम्महु धर्मस्य धनुषश्च, विज्जुज्जोएं विद्युतः त्रिधायाश्च तेजसा. 9 a रंजिय रञ्जिता  
 अकृष्णा जाता भ्रमराः; ० रुइरगे रुचिरागेण. 10 a असोउ अशोकवृक्ष.

14 1 a गविट्ठइं गणितानि.

तहु उप्पण्णा पुण्णमणोरह  
 पुव्वघरहं पण्णास समेयइं  
 उदुसयाइं वारहसहसालइं  
 पुणु छसयाइं वारहसहसालइं  
 तेत्तिय केवलणाणपहायर  
 पंचसयाइं एकसहसिल्लइं  
 साहहुं सहुं सहसेण गविट्ठइं  
 जिणवरमग्गि णिवेसियसीसहं  
 मंगिणिपमुहहं हर्यमइमइयहं  
 एकु लक्खु सावयहं समासिउ  
 अमर असंख संख खग मृग जहिं

सुप्पहाइ सत्तारह गणहर ।  
 चउसयाइं ससिदिणयरतेयइं ।  
 सिक्खुयरिसिहिं समुज्जलसीलइं ।  
 णाणत्तयवंतहुं सुणित्तइं ।  
 मुणिवरिंद तणुविकिरियायर । 10  
 मणपज्जवणाणिहि णिसिल्लइं ।  
 दोसयाइं पण्णास जि दिट्ठइं ।  
 एकु सहासु महावाईसहं ।  
 पण्वालीससहस संजइयहं ।  
 तित्तणउ सो सावइहिं पयासिउ । 15  
 अरुहरिद्धि वण्णिज्जइ किं तहिं ।

घत्ता—दोसहसइं पंचसयाहियइं महि विहरिवि संवच्छरहं ॥  
 पसुसुरणरखेयरविसहरहं धम्मु कहिवि मउलियकरहं ॥ १४ ॥

## 15

दुवई—णमि संमेयसिहरिसिहरोवरि दूरुज्झियणियंगओ ॥  
 अच्छिउ मासमेत्तु णिरु णिच्चलु पडिमाजोयसंगओ ॥ छ ॥

किरियाछिंदणु झाणु रएप्पिणु  
 थियउ अजोइदेहु आसंघिवि  
 रिसिहि सहासै सहुं णिवाणहु  
 महिमंडलि रविकिरणाहि तत्तइ  
 कसणचउइसिदिवसि समायइ  
 णिक्कलु जायउ चंदफणिंदहिं  
 पइयतूरवपूरिउं णहयलु  
 उब्भिय धय रयणइं विच्छिण्णइं  
 धरिय चारुचंदोवय चामर

तिण्णि वि अंगइं झ त्ति मुएप्पिणु ।  
 पंचमंतकालंतरु लंघिवि ।  
 गउ परमप्पउ अच्चुयठाणहु । 5  
 तहिं वइसाहमासि संपत्तइ ।  
 णिसिविरामि छुइ छुइ जि पहायइ ।  
 पुज्जिउ देवदेउ देविंदहिं ।  
 गेयथोत्तमुणि उट्ठिउ कलयलु ।  
 दीणाणाहहं दाणइं दिण्णइं । 10  
 णच्चिय धरणिरंगि विविहामर ।

३ AP गणहर सत्तारह. ४ P सीहुहुं. ५ AP जिणवयमग्गो. ६ AP गयमयमइयहं. ७ A पंचसद्वि-  
 सहसइं संजइयहं. ८ AP मिग.

15 १ P णियगओ. २ AP पचमत्त°. ३ AP सहासहिं. ४ A कसिण°. ५ AP पूरिय-  
 णहयलु. ६ AP विक्खिण्णइं.

14 a ह य म इ म इ य हं हतमतिमदिकानाम्.

15 ३ a किरिया छिंदणु उपरतक्रियानिवर्ति, b तिण्णि विअगइ औदारिकतैजस-  
 कार्मणानि, औदारिकमिश्रकार्मणानि इति गुणभद्रः. 7 b पहायइ प्रभाते. 10 a विच्छिण्णं इं  
 विकीर्णानि निक्षिप्तानि.



दरिसंतेहिं तेहिं तहिं णवरस  
छत्तीस वि दिट्टिउ पयडंतहिं  
णच्चिवि विविहणट्टरुवें वर  
समउ सुराहिवेण गय णहयलि

णवचालीसभावपसरियजस ।  
कर चउसट्टि तेत्थु दरिसंतहिं ।  
सिद्धखेत्तु पणवेप्पिणु सुरवर ।  
अरुण वरुण वइसवण सुणिम्मलि । 15

यत्ता—हरि सुरहं समासइ जंतु णहि णियचरिणं मुणिवच्छलिण ॥

उज्जोइउ भरहु जि णमिजिणिण पुष्पयंतकिरणुज्जलिण ॥ १५ ॥

## 16

दुवई—हुंइ णिव्वाणगमणि णमिणाहहु सासयसिवणिवासहो ॥

अक्खमि चरिउ चक्किजयसेणहु सयलजणाहिरामहो ॥ छ ॥

जंवूदीवि एत्थु सुमहंतइं  
अत्थि खेत्तु णामे अइरावउं  
बुहंमणोज्जु सिरिउरु तहिं पट्टणु  
तहिं णामे भूवालु वंसुंधरु  
पउमावइ णामे तहु गेहिणि  
तहि विओयसोएं णिव्विण्णउ  
मणहरि वणि धम्ममुणीसपासि  
जिणकहिइ विहिइ संणासु करिवि  
भासुरतणु पावियअवहिणाणु  
अह वच्छाविसइ विलासडाणु  
तहिं विजउ राउ अखलियपमाणु  
पिय तासु पहंकरि सुहणिवास  
वरकणयवण विच्छिण्णकाय

मेरुहु उत्तरेण गुणवंतइं ।  
जणधणकणगोसंपयअइरावउं ।  
अमरणयरसोहादलवट्टणु । 5  
अतुलपरक्कमु पवरघणुद्धरु ।  
रण व रविहि ससिहि णं रोहिणि ।  
रज्जु सुविणयंधरि सुइ दिण्णउं ।  
लइयउं तउ पावासवविणासि ।  
महसुक्कसग्गि हुउ अमरु मरिवि । 10  
सोलहसायरजीवियपमाणु ।  
कोसंवीपुरवरु सुहणिहाणु ।  
णियतेओहामियसरयमाणु ।  
सूहवगुणपूरियदसदिसास ।  
णं सग्गहु अर्च्छर का वि आय । 15

७ AP read in place of this line and the three following as follows:—

चवचंदणलवंगविरइयसल  
णाहहु पयपणामु विरयंतहिं  
दिण्णउ उरयलशोलिरहारहिं  
भर्पीभावजायतणुलट्टिहि

कुसुमगिवह णहगिवट्टिय सभसल ।  
जयजयजय अरहंत भणंतहिं ।  
चूडामणिसिहि जलगकुमारहिं ।  
वंदिवि देहभप्पु परमेट्टिहि ।  
( A वंदिवि डेउ मव्वपरनेट्टिहि )

16 १ A हुयं. २ AP ०गोसंपयलारउं. ३ बहुमणोज्जु. ४ P ०णवरं. ५ A णेसव.

६ A अंज.

16 4 b अदरावउ अतिरमगीयन्. 5 b ०दलवट्टणु चूर्णकरन्. 6 a वंसुंधर वंसुंधर-  
नामा. 7 b रण व रनादेरीवत्. 13 a अखलियपमाणु अन्वयवित्तमानः. 15 a विच्छिण्णकाय  
मन्वयवित्तमानः.

घत्ता—सग्गाउ चवेष्णिणु सो अमरु ताहि गाब्भि अवइण्णउ ॥  
परिओसिउ सयलु वि बंधुयणु सत्तुवग्गु अइण्णउ ॥ १६ ॥

## 17

दुवई—सोहणादिणि सुरिक्खि णवमासहिं पवरोयरविणिग्गओ ॥  
पुणु जयसेणु णामु तहु विहियउं णियगइविजियदिग्गओ ॥ छ ॥

णिच्छियतिणिणसंहसवरिसाउसु	सव्वपियारउ णं णवपाउसु ।	
वरइक्खाउवंसणहससहरु	बंदिणजणविहंगसुरतरुवरु ।	
कणयवणु करसट्ठि समुण्णउ	सयलकलाकलावसंपुण्णउ ।	5
राज्जि णिविट्ठु चक्कुप्पण्णउं	राविर्विबु व सेवइ अवइण्णउं ।	
परिसाहिय छक्खंड वसुंधर	सेव कराविय सुर वि सुदुद्धर ।	
एक्कहिं दिणि सउहयलि वसंतें	विज्जुवडंणु गयणाउ णियंतें ।	
कारणु तें वइरग्गहु पाविउ	सव्वु अणिच्चु मणेण परिभाविउ ।	
रज्जु पढमपुत्तहि ण वि मण्णिउं	जिह णिवेण तिह तें अवगण्णिउं ।	10
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि	सत्तुमित्तु सममइ संकप्पिवि ।	
केवलिवरयंतहु णिवणेसरु	जाउ समीवि साहु परमेसरु ।	
समेयइ कयसंणासुत्तमु	हुयउ जयंतदेउ लयंसत्तमु ।	

घत्ता—संणासमराणि भरहेसरहु णरसुरवरहिं अणेयहिं ॥

पुज्जाविहाणु णिव्वत्तियउं पुप्फयंतसमतेयहिं ॥ १७ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिणप  
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे णमित्थियरजंयसेणचक्कहर-  
कहंतरं णाम असीतिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ८० ॥

७ P चएष्णिणु. ८ AP आदण्णउ.

17 १ A वरिससहसाउसु. २ A समुगउ. ३ AP उवइण्णउं. ४ AP विज्जुपढणु.  
५ AP वरइत्तहु. ६ AP जयंति देउ. ७ A सयलुत्तमु. ८ AP पुप्फदत्त°. ९ AP णमिणाहणिव्वाण-  
गमणं. 10 A omits जयसेणचक्कहरकहंतर. ११ P °चक्कवट्ठि°.

17 अ इण्णउ म्लानिं प्राप्तः.

17 2 णियगइविजियदिग्गओ निजगमनेन जितदिग्गज . 4 b °विहग° पक्षिण ; सुर-  
तरुवरु कल्पवृक्षः. 5 a करसट्ठि पञ्चदश धनुषि. 12 a णिवणेसरु नृपभास्करः. 13 b लयसत्तमु  
अहमिन्द्रः.



## NOTES.

[The references in these Notes are to Samdhis in Roman figures and to Kadavakas and lines in Arabic figures. A brief summary of the contents of each Samdhi is given in the Introduction to enable the reader to follow the Text. These Notes supplement those in Sanskrit given at the foot of the page. T stands for the Tīppana of Prabhā-candra.]

### XXXVIII

1. 12b भवइजसोहो, having the beauty of the rays born of भवइ, the lord of stars, or नक्षत्रः. 26 पयासवि, 1 e., प्रकाशयामि, publish or manifest. Note v. 1. पयासमि which is simpler to understand, but K sometimes shows preference to such forms; compare समासवि in the following line; as also इच्छवि and अच्छवि in 5. 10, 11; पडिच्छवि & ओहच्छवि in 3. 8 below

2. 1b कइवयदियहइं कतिपयदिवसान्, for some days. 2a णिव्विण्णउ निर्विण्णः, dejected. णिव्विणोउ i. e., निर्विनोदः of K is an equally good reading and may mean काव्यकरणादिविनोदरहितः, but I have adopted णिव्विण्णउ in view of उव्वेउ जि वित्तरइ णिरारिउ in 4 9a below, and in view of the gloss. 9-10 खलसकुलि कालि etc. भरत who lifted up सरस्वती, the goddess of learning, going down on an empty, very empty or dangerous path (सुण्णसुसुण्णवहि) or in the empty sky in these (bad) times, full of wicked people (खलसकुलि), and full of people of bad character (कुसीलमइ), by covering her (सवरिय सवृतां कृत्वा) by means of his विनय, modesty.

3. 1a अइयणदेवियव्वतणुजाए, i. e., by भरत who was the son of अइयण or ऐयण and देवियव्वा. 2b दुत्थियमित्तै, by भरत who was the friend of दुत्थिय, persons in distress. 3a मइं उवयारभाउ णिव्वहणे, by भरत who accomplished, i. e., showered, obligations on me, i. e., poet पुष्पदन्त. How भरत put पुष्पदन्त under his obligations can be seen from MP I. 3-10 and Introduction to Vol I. pp xxviii-xxxii 10 तुह सिद्धहि etc., why don't you milch the milk of nine sentiments (णव रस) out of the cow, viz., your वाणी or poetic power which is सिद्ध or accomplished to you or is at your command.

4. 7a राउ राउ ण संझहि केरउ, the king is as (fickle as) the red glow of the evening, i. e., lasting for a short time 8b एक्क वि पउ वि रएवउ भारउ, to compose even one word is a heavy task 10 जगु एउ etc., the world is always crooked (वकउं) with the virtuous (गुणेण सह) as the bow is when strung with its string (गुण).

5. 2b-3a According to the poet, भरत excelled even king सातवाहन, i. e., सातवाहन, in that he (भरत) was a constant friend of poets (अणवरयइय-

कहमेत्तिह). 4a-b. The poet here refers to an anecdote that king श्रीहर्ष carried the famous poet कालिदास on his shoulders. Historically this reference is on par with several others, e g., those mentioned in the भोजप्रबन्ध. The date of the accession to throne of king श्रीहर्ष, the patron of बाण, is 620 A. D., while कालिदास is certainly older than Aihole Inscription of 634 A. D., than बाण (620 A.D) and above all than वत्सभट्टि's मन्दसोर प्रशस्ति of 473 A. D. 8a-b. Poet पुष्पदन्त who styled himself as कव्वपिसह्य, was honoured by some and was despised by others saying that he was a dullard (थच्छु). 11 देवीसुय, a son of देवी or देवियन्वा of 3.1a above, i e. भरत.

6. 3a-b. The poet here assures his patron भरत that his poetic genius manifests itself out of devotion for the feet of the Jinas, and not out of desire to earn his living (णउ णियजीवियवित्तहि). 10. करहु कण्णि कहकोडडु, place on your ear this ear-ring (कोडडु), viz., the narrative (कह, कथा) of अजित.

7. The narrative of अजित, the second तीर्थंकर, begins with this कडवक. I have already referred to the monotonous way in which lives of great men in Jain works are described (Vide MP Vol. I. p 599). We first get some information of the previous birth of a Jina wherein he acquires the necessary qualifications of becoming a Jina in the subsequent birth. In the case of Ajita, he was विमलवाहन, a king ruling in the town of सुसीमा of the वत्सदेश, situated on the southern bank of the river सीता in the पूर्वविदेह of जम्बूद्वीप. There one day he acquires disgust for the worldly life, practises penance, cultivates the sixteen भावनाs such as दर्शनविशुद्धि, secures तीर्थंकर नाम and गोत्र, dies by observing fast, is born in the विजय अनुत्तरविमान, has a life of 23 सागरोपम, there when only six months of this long life remain, सौधमेन्द्र comes to know that this अहमिन्द्र is to be born in अयोध्या in the भरतवर्ष as a son to king जितशत्रु and queen विजया, and orders कुवेर to bestow a shower of gold on this city. The six deities, श्री, ही, धृति, मति, कान्ति and कीर्ति, come to wait upon queen विजया. The queen then sees sixteen dreams, and on waking up describes them to king जितशत्रु who tells her that she would give birth to a जिन. When विमलवाहन completes his period of life as अहमिन्द्र he descends into the womb of विजया in the form of an elephant. Gods arrive on the scene and congratulate जितशत्रु. The Jina is born as त्रिशानिन् i e, possessed of मति, श्रुत and अवधिज्ञान, on the 10th day of the bright half of माघ. Gods headed by इन्द्र, arrive on the scene once more, go round the Jina three times, salute the parents, and handing over to the mother a मायावाल, take the Jina to the मन्दर mountain, give him a bath,

name him as अजित, offer him prayers, and, bringing him back to अयोध्या, hand him over to his mother. When अजित attained youth, he was married to thousand princesses. He was also crowned as prince, and enjoyed the earth for 19 lacs of पूर्वं. One night prince अजित saw a meteor falling, and gathering from it that his fortune was as fickle as the meteor, resolved to renounce the worldly life. Gods arrive on the scene once more and praise him for his resolve. He then placed his son अजितसेन on the throne, gods gave him a bath, and on the afternoon of the ninth day of the bright half of माघ he performed the केशलोच and took the दीक्षा. The hair of the monk अजित were picked up by इन्द्र in a golden plate and thrown in the क्षीरसमुद्र. One thousand princes renounced the world with him. In a short time the fourth knowledge, viz., मनःपर्यायज्ञान, was acquired by him. He took the vows with a fast of two days and a half (षष्ठोपवास). He broke the fast the next day at अयोध्या at the house of king ब्रह्मा, who was graced by five wonders. अजित practised penance for twelve years, and on the 11th day of the bright half of पौष, he secured केवलज्ञान under सप्तच्छद tree. इन्द्र and other gods arrived on the scene, praised him and built a समवसरण. There the Jina sat on a सिंहासन, called सर्वभद्र, had with him all the eight प्रतिहार्यस, and then delivered a discourse. He had his गण or followers divided into 12 groups, viz., गणधर, पूर्वधारिन्, शिक्षक, अवधिज्ञानिन्, केवलिन्, विक्रिया-ऋद्धिमत्, मनःपर्यायज्ञानिन्, अनुत्तरवादिन्, आर्यिका, श्रावक, श्राविका and देव, देवी, तिर्यञ्च etc. With such सच, the Jina wandered on the earth for a period of 53 lacs of पूर्वं less by 12 years. He then went to the समेदशिखर, and having lived the life of 72 lacs of पूर्वं, practised the प्रतिमास for one month, and attained emancipation on the forenoon of the fifth day of the bright half of चैत्र. Gods worshipped him on this occasion, his body was burnt by अमिकुमार, the ashes were respectfully collected by Indra and thrown into क्षीरसमुद्र.

I have given all the details of the life of अजित here. The same will be repeated almost in the same form with the change of names, dates etc, in the case of all the तीर्थकरs mentioned in this Vol. and therefore will not be described any more. I am giving these details in the tabular form to facilitate understanding.

7. 2a सीयहि दाहिणकूलि, we have a *v. l.* in K, उत्तर<sup>०</sup>, but is corrected in the Ms. to दाहिण, perhaps on the strength of गुणभद्र's उत्तरपुराण, which reads :

सीतासरिदपाग्भागे वत्साख्यो विषयो महान् ।—उत्तरपुराण, 48. 3.

where अपाग्भाग means south. 8b हल्लियहि, by farmers.

8. 8a-b जसु सोहगौ etc. God of love falls into background on account of the beauty of विसलवाहन, and therefore gave up his body and became अनङ्ग.

9. 2b पंचमहन्वयमायड, the mothers of five great vows, viz. the 25 भावनाs, five for each vow. 8a दंसणसुद्धिविणड, the sixteen भावनाs beginning with दर्शनविशुद्धि. For details see तत्त्वार्थसूत्र VI. 24. These भावनाs enable a soul to secure तीर्थकर नामगोत्र.

10. 9a सो अहममराहड, that अहमिन्द्र, who, in the previous birth, was king विसलवाहन. 11b कणयमयणिलयण, (अयोच्या) having houses of gold.

11. 1b माणवमाणिविसें, dressed as earthly ladies. 4a गम्भि ण थंतहु, even before the descent of the जिन; into the womb i. e., इन्द्र sent a shower of gold even before the जिन descended into the womb of queen विजया.

12. For sixteen dreams see my note in MP. Vol I, pp. 600-601.

13. 4a-b कुंजरवेसें etc. The अहमिन्द्र, on completion of his period of life at विजयविमान, entered into the mouth of the queen in the form of an elephant just as the sun enters into clouds. 9-10. These lines mention the interval between the निर्वाण of ऋषम and the descent of अजित into the womb of queen विजया; it is fifty lacs of crores of सागरोपमs.

14. 4-5 दसनकमलसरणच्चियसुरवरि etc. इन्द्र ascended his elephant ऐरावण on whose lotus-pond-like tusks gods were dancing. 8b सरसरसिर, talking full of devotion.

15. 6b मंतु पणवसाहा संजोइवि, using the मन्त्र “ ॐ स्वाहा.”

18. 9a वसुवइवसुमइकंताकंते, by अजित who was the lord of two wives, viz., wealth (वसुवइ) and the earth (वसुमइ).

19. 1b ईसमणीस समासमलीणी, the mind of lord अजित was completely engrossed in peace of mind (सम, उपशम, वैराग्य). 4b आड वरिसवरित्तेण जि खिजइ, man's life is lessened year by year.

20. 4a-b गइदुचरित्तकम्मसंताणइ संताणइ, for the continuation of his race which meant a series of acts (कम्मसंताण) such as गइ (देवमनुष्यादिगति) and misdeeds (दुचरित्त). The act of continuing the race involves a series of birth and death and several other acts which are misdeeds.

21. 6a-b कुसुमवरिडु etc. The five miraculous things are कुसुमवर्ष, a shower of flowers from heaven, सुरपट्टहनिनाद, beating of heavenly drums, षडुहारा shower of gold from heaven, चेडुक्खेव, erecting of flags, and अहोदाणं, divine sound praising the nobility of gift. Compare विवागसुयं page 78.

**23.** Description of समवसरण.

**24.** Description of eight प्रातिहार्यs, viz, अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामण्डल, देवदुन्दुभि and छत्र. 10-12 and the following कडवक mention the number of his गणs, for which see the Table

**26.** 1 a सिंहरिहि i. e; on mount Meru. 5 b दंडकवाङ्कुरजगजगपूरणु. describes the process by which the soul of a Jina proceeds to सिद्धसिला.

### XXXIX

The samdhi gives the story of सगर, the second चक्रवर्तिन् of the Jainas.

**1.** 2 मगहाहिव, i. e., श्रेणिक, the king of the मगध country who asked गौतम इन्द्रभूति to tell him the lives of sixtythree great men. 4 a For दाहिनयलि AK originally read उत्तरयलि but K corrects it to दाहिनयलि which agrees with गुणभद्र's उत्तरपुराण—

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापाम्भागभूषणे ।

विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिप. ॥ 48. 58.

12 घरचूलाहयणहयल, the capital पृथ्वीपुर which struck or scratched the surface of the sky with the tops ( चूल ) of its houses.

**2.** 9 b सिमुमोहणीउ मुणिहिं वि दुचार, affection to children is irresistible even to monks. 10 जिणवरवयणु रसायणु, the councillors of the king gave him the elixir, viz, the teachings of the Jinas to overcome his grief.

**4.** 3a इयर वि, i. e. महास्तमन्त्री. 5b किउ दोहिं मि पडिवोहणणिबंधु, god महाबल (formerly king जयसेन) and god मणिकेतु (formerly महास्त मन्त्री) made an agreement that whoever was born as a human being first, should be reminded by the other who continued to be अमर or god, of this fact.

**5.** 9-10 The fourteen jewels of the sovereign ruler.

**6.** 3a जिव भरहुहु तिव सयरहु जि होइ, i e, सगर got as much wealth as भरत, the first चक्रवर्तिन्.

**7.** 1a मयमउलवियणयण, elephants have their eyes closed on account of their मद, rut or rutting season 10a रयणकेउ, i. e., मणिकेतु.

**8.** 9b तरुणिहि कोक्किजइ हसिवि ताउ, young women laugh at him and call him papa, father ( ताउ, तात ).

**10.** 2a देवसाहु i. e., मणिकेतु, who, being a god, assumed the form of a monk.

**12.** Description of the descent of the गङ्गा.



14. 2a विहिं ऊणी सद्धि, sixty thousand sons, minus two, viz., भीम and भईरहि or भगीरथ who alone escaped death. 9b गड आवइ णड सरिसरतरंगु, waves of the river water, once gone, do not come back ( आवइ णड ).

16. 11a दढधम्महु पायंतिइ, at the feet of a sage named दढधम्म ( दढधर्मन् ).

17. 6b गड जेण महाजणु सो जि पंशु, Compare: महाजनो येन गतः स पन्थाः.

## XL

1. सासयसंभवु, source of eternal bliss ( शाश्वत+शं+भव ). संभवणासणु, one that puts an end to संभव, birth, i. e., संसार. 5b पुसियवंमहरिहरणयं, one that refuted ( पुसिय ) the doctrines ( णय ) of ब्रह्मा, विष्णु, and शिव. 20b असिआउसं. For note on this expression see MP. Vol I, page. 653. 23 अमिडं, पियह कण्णजलिहिं, drink the nectar, i. e., my poem, with the अञ्जलि of your ears. Compare कर्णाञ्जलि-पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः । तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे.

4. 10b सत्या i. e., स्वस्था, quiet, peaceful, happy.

5. 14a जित्तसत्तुए, son of जित्तशत्रु, i. e., अजित, the second तीर्थंकर. 18b जंमारिणा, by इन्द्र.

6. 4a सईइ सइ धारियउ, held or picked up by शची herself.

8. 12 किं जाणहुं सोसिउ उवहि, what do you think? The ocean became dry as gods were carrying water for the bath of संभवजिन.

9. 13 पइं मुइवि, त्वां मुक्त्वा, वर्जयित्वा, except yourself.

11. 7a कत्तियसियपक्खि i. e. कार्तिक+असित+पक्षे, कार्तिक कृष्णपक्षे. Compare गुणमद्र 49. 41 जन्मसै कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्णगः. 11 णाणं णेयपमाणं, his knowledge which was co-extensive with ज्ञेय, knowables, i. e., the केवलज्ञान.

13. 5a जक्खिदमउडसिहरुद्धरिउ, coming out from the top of the crown of यक्षेन्द्र, i. e., कुवेर.

14. 10b दहगुणिय तिण्णि सहस, i. e., thirty thousand. गुणमद्र however mentions twenty thousand.

15. 1a भवियतिमिउ, ignorance of the भव्य persons. 14 सिंगारंगहु i. e., शृङ्गाराङ्गस्य, i. e., शृङ्गारभूमेः.

## XLI

1. 1 णिदिदियइ णिवारउ, one who wards off or controls the base, निन्द्य, sense-organs, i. e., a तीर्थंकर, here अभिनन्दन. 18 जीहासहत्तेण विणु, in the absence

of one thousand tongues. The फणीश्वर has one thousand tongues and hence capable of praising all aspects of a तीर्थकर, but पुष्पदन्त, the poet, has only one tongue and hence unable to do justice to the qualities of a तीर्थकर.

3. 1b सणियउं वियरइ, walks gently so as to cause no injury to a living being. 5b तिणिण तिउत्तरसय, the expression is elliptic, but clearly refers to 363 doctrines of heretics, as the *lection faciliore* of AP indicates.

5. 7b सन्हु सवारिउ, he accomplished it completely.

6. 12 आसणथणहरणि, by the shaking of his seat. इन्द्र learnt, on account of the shaking of his seat, that a जिन was born.

8. This कडवक gives the list of ten deities invoked at the time of the bathing of a जिन. These deities or लोकपालs are इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्ऋत, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र, चन्द्र and फणीश; they are described here with a specific mention of their vehicle ( वाहन ) weapon ( प्रहरण ), wife ( प्रियरमणी ) and a characteristic feature ( चिह्न ), as line 23 says.

12. 13 भयलज्जामाणमयवज्जियउ जिणवउं पेम्मसमाणउं, the vow of a जिन is like the vow of love or behaviour of love, in as much as it ignores or is destitute of fear, shame, pride and self-respect. Just as a man in love ignores the feelings of fear etc, so a जिन ignores these feelings.

17. 9a जीवपक्खिखंबंदिग्गाहपजर, ( the dead body मुक्कलेवरु ) was a cage to catch the bird, viz., the soul.

## XLII

1. 18 समासइ वइयइ, the व्यतिकर, story or narrative is being abridged ( समासइ, समस्यते ).

2. 4b पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे ( in the country ) where the herds of elephants were reddened with the pollen of lotus flower. 5a दुक्खणिग्गमण etc. The region of पुष्कलावती was so charming that it bore the comparison with वनश्री from which the god of love, रहरमण, the lord of रति, would depart ( only ) with difficulty. 10b रमइ वइसवणओ आवणे आवणे, the lord of wealth, वैश्रवण, i. e., कुबेर, took delight in every shop, as it had plenty of wealth. 15 उवसमवाणिण, with the water ( वाणिअ, पानीय ) of tranquility of mind ( उवसम, उपशम ). 16 भोयतणेण, with the grass ( तण, तृण ) of enjoyments ( भोय, भोग ).

3. 17b हरिसुद्धदेहेण, with his body filled with horripilation ( उद्ध, ऊर्ध्वरोम ) due to joy.

4. 15a हूए हरिभणणे, when the orders of हरि, i. e., इन्द्र, were obeyed, i. e., when the town etc. was decorated at the command of Indra. 17 अणव-इण्णि अरुहे, even before the arrival or birth of the अर्हत्.

5. 21 छलंतवडायहिं, with flags ( वडाय, पताका ) fluttering ( झुलंत ).

7. 6b गिन्विघकामावहो, of the जिन who continually or uninterruptedly destroys the god of love or passions. 10b जडकसरदुग्गेण, hard to be practised by dullards and mischievous people. कसर literally means a mischievous bull. गिरिककरि पडइ etc. A wretched camel throws itself or wanders over a rugged cliff ( गिरिककर ) for the sake of sweet ( महुकारणि ) herbs where they cannot be had.

9. 5b इणे पच्छिमत्ये, when the sun turned towards the west, was about to set.

12. 15b घडिमालाहयहं, the पूर्व periods counted by the series of घटिका that elapsed. Compare हयदियहपाडीहिं in 5. 14a.

## XLIII

1. 5a गियायममग्गणिओइयसीसु, who directed his disciples ( सीस, शिष्य ) on the path prescribed by his holy texts ( निज+आगम ) or scriptures. 7b गलकंदळ bulblike ( tender ) neck.

2. 6a °णीड, nests or houses. 10a भाविणि° ( भामिनी ), women. 13 होड पहुचइ, पूर्णे भवतु, be accomplished. पहुचइ normally means प्रभवति, but the gloss explains it as पूर्णे. 14 जं पुरउ etc. If the town or capital is abandoned, then one can secure emancipation quickly. If the king leaves his kingdom he can secure release from संसार.

4. 1a-b गिहीगुणठाणवएहिं विमीस,...महोवहि वीस, the period of life of the अहमिन्द्र was twenty सागरोपम ( महोवहि ) mixed with or plus ( विमीस, मिश्र ) eleven which is the number of the प्रतिमास of a householder, in all thirtyone सागरोपम.

8. 10b दुमाणउ, wretched man.

10. 4b The line should be rather read: सवंधुसु वेरिसु गिचसमाणु, always equanimous towards his relatives and towards his enemies.

## XLIV

3. 8a परमारिसरिसहणवजायउ, born in the race ( अण्णव अन्वय=वंश ) of रिसर, the first तीर्थेकर who was परमारिस, परमर्षि, the great sage.

6. 11 परिमाणु here stands for परमाणु, atoms. All atoms or as many atoms as exist in the universe, were used to make up the body of the lord सुपार्श्व.

7. 5a उडुपल्लडुड, the falling of stars or meteors, which indicated the fickleness of संसार.

9. 5b जलहिमाणि किं आणिज्जइ घडु. Can we use or bring an earthen jar to measure ( the waters of ) the ocean ?

## XLV

1. 17b वयणणडुप्पलमालइ, by means of a wreath of fresh lotus flowers, namely, my poetic composition ( वयण, वचन ).

2. 16b कलहोयमइयाउ, made of gold ( कलधौत ).

3. 12a-b तूरवेँ दिस हम्मइ, the quarters ( दिस, दिशा ) were being beaten, i. e., filled, with the sound of trumpets ( तूर, तूर्य ), कण्णि वि पडिउ ण सुम्मई, even if a sound reaches our ears, it is not heard or understood owing to deep sound of trumpets.

6. 9b सरसेणा, army of सर ( स्मर ), god of love.

13. 13-14. The meaning of the lines is: पद्मप्रभ was born in the वैजयन्त heaven, and had a white complexion ( सियंगु ) and very bright lustre. On seeing this lustre of पद्मप्रभ, the wife or wives of पुष्पदन्त, i. e., of चन्द्र and सूर्य, felt that their lustre was nothing before his lustre and thus became blackened.

## XLVI

5. 9b सासेहिँ व चासपइण्णएहिँ, like crops ( चास, सस्य ) sown in series of plough share marks ( चास ) चास is a deśī word meaning a line drawn by the ploughshare ( हलविदारित भूमिरेखा ) and is still preserved in Maathi in the form of तास.

6. 12 जिणतणुहि कतिइ पयडु ण होंतउ, the milk which was used for bathing the जिन, could not be distinguished as its colour was identical with the complexion of the जिन; an instance of मीलितालंकार.

11. 5a बलदेवह अग्गइ देहि तिण्णि, put the figure 3 after 9, बलदेवs are nine. The whole passage gives the figure 93 which is the number of गणधरs of चन्द्रप्रभ. 10-11. These lines mention the eight प्रातिहार्यs such as

पिंडीद्रुम, i. e., अशोकवृक्ष. The position of these प्रातिहार्यs in the middle of the list of the followers of चन्द्रप्रभ is unusual.

## XLVII

4. 3a वच्छु जहिं रोसहुं, he avoids places where there is the tree (वच्छ, वृक्ष) of anger. The variant in P, 'वासु' is clearly an easier substitute for वच्छु.

6. 9a-b The child, looking at its mother and also at her reflected image, was comfounded and felt it had two mothers ( दोमायउं द्वैमातृकम् ) and so was unable to decide which was his real mother.

## XLVIII

1. 19 गुणभद्रगुणीहिं जो संथुउ, he i. e., the tenth तीर्थेकर who is glorified by the revered sage गुणभद्र We know that गुणभद्र is the pupil of जिनसेन the author of the Sanskrit आदिपुराण. जिनसेन's work was continued after his death by गुणभद्र, which is called the उत्तरपुराण. The expression गुणभद्रगुणीहिं may also be interpreted "by pious monks possessing auspicious qualities",

4. 14 तं पट्टणु कंचणु घडिउं, that city was made or built of gold. कंचणु stands for काञ्चनं, i. e., काञ्चनमयम्. AP read कचणघडिउं as the copyists did not understand the meaning above of कंचणु.

9. 1 a-b तं सइं etc. The line means: Even though the water used for the bath of शीतलनाथ flowed in a downward direction, it led the pious people in the upward direction, i. e., to heaven.

10. 5b उक्ताणाणु गन्वेण जाइ, a man, out of pride, goes or walks with his face or head up or erect. A proud man walks with his head stiff and erect.

13 1b सभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु, the gods brought to their minds the (apparent) contradictions in the life of the जिन. In the following lines we get a reference to these contradictions. For instance, the जिन is called गोपाल (cowherd boy, lord of the earth) and is very terrific to his own enemies (णियारिचंडु).

7. 1a मेहघोसु is another name of king विष्णु. 12-13. These lines give the interval between the निर्वाण of शीतल and the birth of श्रेयांस, it is

16625999 सागरोपमस. Jainism was totally eclipsed for a पत्योपमार्ध. After this श्रेयांस was born.

**18.** 5a-b He who makes gifts of cows etc, goes to विष्णुलोक in golden विमानस, and enjoys (माणइ) heavenly pleasures 11 सुज्झइ पिंपलफसणिण, is purified by touching the पिंपलवृक्ष.

**20.** 14 सइं विरइवि कव्वु, मुण्डसालायण himself composed some verses glorifying the gifts of cow etc. and brought them to the king. The king felt that these verses were as authentic as the Vedas

## IL

**1.** 15 कित्ति वियभउ महु जगगेहि, may my fame spread over the house of the whole world. The poet is conscious of his poetic powers which, as he says, would bring him a world-wide name

**3.** 3b गुणदेवह भवदेवहं ईसरु, the अनन्तजिन is said to be the lord of गणधरस and also of gods by birth such as इन्द्र etc.

**5.** 9 ता णज्झ etc. Owing to the shower of gold in the city it was very difficult for people to distinguish the night from the day The people therefore called that time to be the daytime when lotuses in ponds bloomed.

## L.

This sandhi and the two following narrate the story of the first वासुदेव (त्रिपुष्ट), first बलदेव (विजय) and first प्रतिवासुदेव (अश्वग्रीव) of the Jain Mythology. In order that the reader should understand the background of the friendship between त्रिपुष्ट and विजय, and the enmity between त्रिपुष्ट and अश्वग्रीव, the poet gives us the narrative of the two previous lives of all these three

**1.** 5a गोउलपयघाराघायपहिइ, where travellers were made to drink to their satisfaction (घाय) the streams of milk of cows. 11a जइणी i. e., जैनी which is a proper name here. 15 खलमित्तसणेहु, friendship with a wicked friend which lasts only for a short time.

2. 5a णिगोसइ ण वाय, words will not come out. The root णिग here and in 7b below corresponds to निघणे in Marathi and may be traced to निर्+गम् or गा.

3. 5b तरइ swims. The root तर् to swim is preserved in Marathi in this sense. There is another root तर् in Prakrit which means to be able ( शक् ).

4. 1b वणुत्साहिलासं should have been वणत्साहिलासं, the desire to have the garden वणुत्स is found in all the Mss. and hence retained. Or, are we to take वण+उत्स ( उत्सुक )+अहिलासं, keen desire for the garden? 12b तायाउ आराहणिज्जो, to be respected after ( the death of ) my father. You deserve the same respect as my father.

5. 13 दुग्गु भणेवि, saying or thinking that the stone pillar was like a fortress ( दुग्ग ). वहरिउ i. e. विशाखनन्दी.

8. 6a छइउ ( छादितः ) defeated.

9. 10 तुज्जु हसियहु करमि समाणउं, I shall equalize, i. e., repay your laugh which ridicules me and insults me.

10. 8b अवर i. e., विशाखनन्दी.

## LI.

1. 6a जायासीघणुतणु, They both ( विजय and त्रिपुष्ट ) grew to the height of 80 bows. 9b विहिं पक्खहिं णं पुण्णिमवासरु, like the day of the full moon which had on one side the bright half and on the other side the dark half, corresponding to विजय बलदेव who is white and त्रिपुष्ट वासुदेव who is dark in complexion.

2. 11a-b हलहरु, दामोयरु. Please note that बलदेव and वासुदेव will all be referred to by their various synonyms such as सीरि, हली, लालहर, सीराउह etc. for बलदेव, and दामोदर, माधव, श्रीवत्स, अनन्त, सिरिमणीस, लच्छीवइ, ( लक्ष्मीपति ) दानवारि, दानववैरिन्, विद्धरसव, विस्ससेण, etc. for वासुदेव; similarly अश्वमीव is mentioned under हयगीव, हयकंठ, तुरंगगल etc.

5. 4b प्यवयणहिं, note ऋ in प्य which has come in for प्रिय probably by extending the application of हेमचन्द्र's rule: अभूतोऽपि क्वचित्, iv. 399.

6. 13 जसु जसु, यस्य यशः whose fame.

7. 8b मृगवह्यहि जाएं, by the son of मृगावती, i. e., by त्रिष्टु. 9a संचालेवी, the potential passive participle. Compare also पालेवी जणेवी, परिणेवी etc. हेमचन्द्र under iv. 438 however gives एवा as substitute for तव्य in अपभ्रंश and does not mention एवी.

9. 13-14 गियजणविहण्णु etc. The lines mean that अर्ककीर्ति understanding the signs of the brows from his father prostrated before king प्रजापति and thus saluted him.

10. 1a हरिवलेहिं, by हरि i. e., त्रिष्टु, and by वल i. e., विजय. ससुरउ ( श्वशुरः ) the ( would-be ) father-in-law of त्रिष्टु.

11. 12-13 पुणु भणुउ etc. They again said to अणंत ( त्रिष्टु ): " Let us see; lift up the slab of stone, and show to us whether you would be the killer ( कयंतु, कृतान्तः ) of ह्यकंठ ( अश्वग्रीव ) or no.

15. 14 अह सो सामणु भणुहु ण जाइ, now he cannot be called an ordinary man ( सामणु, सामान्य ).

## ·LII.

1. 2 चिरभववहरवसु, under the influence of enmity of the previous birth, when both of them were विश्वनन्दि and विशाखनन्दि. 4 त्रिखंडयोगिपरमेसरु, the lord of the earth with three continents, i. e., an अर्धचक्रवर्ती. अश्वग्रीव was the अर्धचक्रवर्ती before त्रिष्टु.

5. 4b विजाहरभूयरभूमिणाहु, the lord of the विद्याधरभूमि and भूचरभूमि, i. e. the अर्धचक्रवर्ती, अश्वग्रीव.

7. 3a मा रसउ काउ चप्पिवि कवाडु, a crow sitting on the head of a person and crowing is considered to be an indication of approaching death.

8. 2 कणय etc, why do you require a mirror to see a golden bracelet which is put on your hand? A famous लोकोक्ति. 5a भरहहु लग्गियि, from the days of king भरत, the first चक्रवर्तिन्. 11 रणु बोछवहु चंगउ, the talk of fight is pleasant. Compare युद्धस्य कथा रम्या.

9. किंकर णिहणंतह णत्थिय छाव. there is no charm or pleasure in killing the servants. अश्वग्रीव was glad to fight with त्रिष्टु as he thought that there was no pleasure in fighting with the inferior or low people. 15 कणु is interpreted as कल्बत् in T. but it appears that त्रिष्टु, being a ब्राह्मण, should have a bow made of a horn विष्णु is called शार्ङ्ग in Hindu Mythology. The



other emblems of विष्णु in Hindu Mythology such as पाञ्चजन्य, कौस्तुभमणि, असि, कौमोदकी गदा, गरुडध्वज and लक्ष्मी, are also mentioned as emblems of वासुदेव in Jain Mythology and hence I think that सारगुधनु should also mean शार्ङ्ग धनुः.

**10.** 4 *a-b* This line mentions the weapons of बलदेव; they are. लाङ्गल, a plough, सुसल, a pestle, and गदा called चन्द्रिमा.

**11.** 2 खगाहिवो i. e. गरुड, eagle, who is the emblem on the banner of वासुदेव or विष्णु. *Sa* णिच्चिच्चुच्चै, thick and high. This expression, according to T seems to come from निस् and उच्च. It is likely that it can also come from नित्य, निच्च and उच्च+उच्च of which the second उच्च becomes उंच. The meaning would be "hair standing on end (रोमंच) which remain for ever high.

**12.** *Sa-b* मडु. etc. A warrior says : Even if my head falls, my trunk would kill the enemy and dance.

**15.** 2 कण्णाहरणकरणरणलगाइं, the armies that were engaged in a fight which was due to the giving away in marriage of the girl स्वयंप्रभा. 12-13 These two lines compare the two armies to loving couples, मिहुणइं, मिथुनानि, engaged in love-sport.

**16.** 2 सिरिहरिमस्तु, who is mentioned above in LI. 16. 9 *b*, as the minister of king प्रजापति. 25 माहववल्वइणा, i. e., by हरिमस्तु.

**17.** 14*b* णं अट्टमउ चंडु, the moon in the eight place in the horoscope indicates death. For a different view see मृच्छकटिक VI. 9:

कस्सइमो दिणअरो कस्स चउत्थो अ वट्टए चंदो ।

where the moon in the fourth place is said to indicate death.

**19.** 3*b* णीलंजणपहदेवीसुएण, i. e., by अश्वग्रीव.

**20.** 21*b* मीसुइउज्झिउ, free from fear.

**21.** 14*b* सिवकामिणीइ, by beloved, viz., the female jackal (शिवा). 16 मोल्लवणु, price or return.

**24.** 15*b* कुलालचक्रु, the wheel of the potter. When the discus of अश्वग्रीव did no harm to त्रिपुष्ट and remained on his hand, अश्वग्रीव said that it was like a wheel of the potter, quite useless in warfare, although त्रिपुष्ट and his party valued it so much. अश्वग्रीव abuses त्रिपुष्ट by saying that a begger may value a lump of oil-cake as a precious article of food, which would satisfy his hunger, but others do not think so.

**25.** 9 कामिणिकारणि कलहसमत्तो, engaged in fight or battle for the sake of a lady (स्वयंप्रभा).

## LIII

5. 5b कजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई, the sun who is the friend of lotus flowers and gives delight to lotus-plants in the lake.

6. 8b तिस्थणाहसखम्मि रिक्खए, on a नक्षत्र which is twentyfourth, i. e. शतमिषा or शततारका.

8. 5a अण्णहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ, he does not study the शास्त्रs with any teacher other than himself The तीर्थेकर is self-enlightened and does not require a teacher

13. 1a समयभिसहइ, with the शतमिषानक्षत्र, i. e., शततारका नक्षत्र.

## LIV

1. 14-15 The lines mean: If I (the poet) compare the face of गुणमञ्जरी to the moon, there will be no exhibition of my poetic powers, I would not be called a poet; for, the face of गुणमञ्जरी is not soiled or darkened by the deerspot as the disc of the moon is, nor is there reduction in size nor crookedness as it is in the moon.

3. 2 इहु कल्लोलणिवहु etc. The poet says that friendship between विन्ध्यशक्ति and सुषेण was so fast and intimate that it was impossible to draw any distinction between them; for who will be able to differentiate the ocean from a mass of waves? The तादात्म्य or identity between समुद्र and तरङ्ग is an accepted thing with philosophers.

8. 7b The birth of बलदेव and वासुदेव is heralded by the sun and the moon seen in dreams by their mothers.

8. 9b वीयउ उववादेविइ दढभुउ. The name of the mother of द्विपृष्ठवासुदेव is उववादेवी as given here गुणमद्र however gives it as उषा Compare:

तस्यैवासौ सुषेणाख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि ।

द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसमिता ॥ 58. 84.

9. 10b गलियसुयइ सुहइहि णयणइ, I shall kill अचल and make his mother सुमद्रा shed tears.

12. 10-12 रायत्तणु etc. There is a pun on राय which means राजन् as well as राग.

17 8a रासहु होइवि etc तारक compares द्विपृष्ठ to an ass and himself to an elephant 10a गोवालबाल, the son of a cowherd boy, is an epithet of

वासुदेव ( कृष्ण ), who, according to Hindu Mythology, lived and was brought up among the cowherds.

## LV

3. 6b तहु गुण किं वण्णह खंडकह, how can खण्डकवि ( पुष्पदन्त ) describe his qualities ? खण्ड means broken, incomplete, which is one of the nick-names of पुष्पदन्त.

7. 8b पायभव, नाकभवा i. e. gods. 16 गिंभें जिस्तु सियाळ, the season of summer ( गिंभ, ग्रीष्म ) defeated winter ( सियाळ, शीतकाल ). This was a निमित्त for विमलनाथ to realize the impermanence of the world.

## LVI

1. 6a धणु सुरधणु जिह तिह थिर ण ठाह, wealth, like the rainbow, does not remain perpetually with a person. 7a भायर णियमायहु अवयरंति, brothers misbehave ( अवयरंति, अपचरन्ति ) with their brother.

2. 8a-b चर etc. चर, गमण, छेज and कड्डण are different types of the play of dice which are a means of attacking the opponent and taking charge of his possessions. 9b एक्के उड्डिउ णियरञ्जु ताम, one of them ( सुक्केतु ) lost his kingdom. Note the use of उड्डिउ which word, in the form of उडवणे is preserved in modern Marathi.

6. 4a महुराउ भणहि महुघोह काह, how can you call king मधु a mouthful of honey ? How can you speak of king मधु in such light terms ? 7a णीलणियासणेण, by धर्मवलदेव who wears blue clothes. वलदेव is a नीलाम्बर. Compare नीलाम्बरो रौहिणेयः कालाङ्गो मुसली हली in अमरकोश.

7. 10a उविदुप्पणरोसु, उविदु+उप्पणरोसु, उपेन्द्र i. e, स्वयंभू ( वासुदेव ) got angry. 11a-b जह लोहिउ etc I swear by the feet of ( my elder brother ) धर्म, if I do not make the goblins drink the blood of king मधु. पायमि stand for पाययामि, make one drink, a causal form of पा to drink.

8. 1 वसुहासुउ, the son of वसुधा, i. e, स्वयंभू. The name of the mother of स्वयंभू is पृथिवी as we see from 4. 7b above; here the poet uses a synonym वसुधा for पृथिवी.

9. 4b, 6b सुंदरिहि तणुणण i. e. by मधु. 5a-b-6a विउसयणकयवयणविणुणण, by king मधु who was glorified in compositions or poems ( वयण, वचन ) composed by a body of learned men ( विउसयण, विद्वज्जन ). 36 महुमहसुक्के चव्वे, by the discus

discharged by the enemy of मधु. महुमह or मधुमथन is one of the names of विष्णु in Hindu Mythology.

## LVII

This samdhi gives the narratives of three persons, सजयन्त, मेरु and मन्दर with their several past lives. Of these मेरु and मन्दर are the two prominent गणधर of विमल. The table given below records chronologically the different previous births of persons mentioned in the narratives :—

( a ) संजयन्त—( १ ) सिंहसेन, ( २ ) अशनिघोष हस्ती, ( ३ ) श्रीधरदेव; ( ४ ) रश्मिवेग, ( ५ ) अर्कप्रभ; ( ६ ) वज्रायुध, ( ७ ) सर्वार्यसिद्धि अहमिन्द्र, and ( ८ ) सजयन्त. It is in this birth that he attained emancipation.

( b ) मेरु—( १ ) मधुरा, ( २ ) रामदत्ता, ( ३ ) भास्करदेव, ( ४ ) श्रीधरा in देवलोक, ( ५ ) रत्नमाला in the अच्युतस्वर्ग, ( ६ ) वीतभय, ( ७ ) आदित्यप्रभ, and ( ८ ) मेरु who is the गणधर of विमल.

( c ) मन्दर—( १ ) वारुणी, ( २ ) पूर्णचन्द्र, ( ३ ) वैदूर्यदेव, ( ४ ) यशोधरा, ( ५ ) रुचकप्रभ in कापिष्ठस्वर्ग, ( ६ ) रत्नायुध, ( ७ ) विभीषण, ( ८ ) द्वितीय नारकी, ( ९ ) श्रीधामा, ( १० ) ब्रह्मस्वर्गस्थित देव; ( ११ ) जयन्तधरणेन्द्र, and ( १२ ) मन्दर who is the गणधर of विमल.

There are two other prominent persons mentioned in the narrative; they are ( 1 ) सत्यघोष or श्रीभूति, the minister of सिंहसेन who became अगन्धनसर्प, चमरमृग, कुक्कुटसर्प, तृतीय नारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, सप्तमनारक, सर्प, नारकी, मृगशृङ्ग and विद्युद्दष्ट; ( 2 ) भद्रमित्र the merchant who became सिंहचन्द्र, प्रीतिकर देव and चक्रायुध.

1. 5b चिज्जह comes from चि to pluck, to collect, and then eat. The T gives भक्ष्यते which is only a secondary sense of the root.

6. 10 देवदिवायराहु, of god आदित्यप्रभ who in subsequent birth became मेरु.

9. 11a विष्णि वि एयहं, i e, यशोपवीत as well as मुद्रिका.

14. 1a णावइ वारुणि, like wine

15. 6a त्लिहि, on a mattress made of cotton ( तूल ).

18. 4b कम्मरउ, a labourer.

## LVIII

9. 1a पुणु तहु कह etc The line means Now for the sake of अनन्त ( तहु कह, तस्य कृते ) the royalty ( राज्यश्री ) suffered pangs of love; she fainted

( but was brought round ( सञ्चयेण कथं ) by fanning ) by means of chowries.

11. 8b सिहिरमहाहिय, superior in lustre ( मह, महस् ) to the sun( सिहिर ).

13. 12a अमवासाणिसियहि, on the night of अमावास्या. Both गुणभद्र and पुष्पदन्त do not mention the month which is चैत्र. Probably we are to borrow the name of the month from 11.1a.

16. 9b महसूयणु i. e. मधुसूदन the Mss use promiscuously महसूयणु and महसूयणु. In Hindu mythology मधुसूदन is the name of विष्णु. Are we to take मखसूदन to be the name, which is confounded with मधुसूदन ?

21. Note the दामयमक or शृङ्खलायमक throughout the कडवक.

22. 5b रहचरणु i. e. चक्र, the discus. 13a सरसलिलि रहंगसयाइं अरियि, there are hundreds of रथाङ्गs, i. e., चक्रवाक birds in lakes but can they catch a maddened elephant ?

## LIX

4. 7 सिविणय देतु सुहुं, giving delight to men who were modest or humble though rich. Note that the word सिविणय has no case-ending of the Genitive. See हेमचन्द्र iv. 345.

6. 3a पूसरिक्खि छणससिदिवसि, there is no mention of the name of the month here. Elsewhere, i. g. in गुणभद्र, the month of माघ is mentioned, but we cannot have पुष्यनक्षत्र on the full-moon day of माघ. The month therefore must be पौष. Is the confusion due to the difference in the method of naming the months in the northern and southern India ?

14. 1a सयडंगु ( शकटाङ्ग ), the wheel, i. e., discus, the weapon of a चक्रवर्तिन्.

19. 10 विसरिसजलझलज्झलं, the dripping of dirty rainwater.

## LX

2. 5b जहिं मणियरहिं ण दिट्ठु पयंगड, where the sun ( पयंगड, पतद्ग ) could not be seen because of the rays of gems. The gems were so numerous and vast that their rays even eclipsed the sun.

3. 5b कोटिसिलासचालणपवलहु, the line refers to the exploit of विट्ठु the first वासुदेव who lifted up the कोटिसिला. See LI. above.

4. 13b पाहुडगमणागमणपवाहें, by a series of gifts passing or exchanged between विजयभद्र and अमिततेजस्. 14 णिम्मिच्चिउ, नैमित्तिक; an astrologer.

5. 9b हउ पव्वइउ समउ हलीसहु, when हलीस, i. e., विजय बलदेव renounced the world, I ( the Brahmin astrologer says ) also became a monk with him.

6. 11a मामसमप्पिउ, given by my father-in-law ( माम ). Even in modern Marathi the father-in-law is called मामा

8. 2a असोहजीहु, the name of the astrologer. 7b जेणुव्वरसि by which you will survive the calamity.

11. 3b णिवद्धणाइं, the AP reading णिवंधणाइ is easier. The meaning of the expression is ' binding tissues. 9b वारउ turn. The word वार, meaning a turn, is preserved in Marathi.

18. 5a हरिसुउ, i. e., श्रीविजय the son of त्रिपृष्ठवासुदेव.

29. 10b समयसमियकलि, समतया स्वमतेन वा शामितः कलिः येन, who, by his equanimity or preaching, settled the quarrels of people.

## LXI

1. 9a-28b These lines give the list of विद्याs acquired by अमिततेजस्.

12. 6a दिह्लिदिलिए, हे बाले. दिह्लिदिलिअ is a deśī word meaning a boy & दिह्लिदिलिआ a girl. See देशीनाममाला V. 40.

15. 13 आउंचियारिपसरु, who stopped the progress of his enemies.

21. 11 धणवाहणहु, i. e., मेघरथस्य.

## LXII

2. 2a गरुडेण वि जिप्पइ एहु ण वि, this cock cannot be defeated even by an eagle.

5. 10b जाउडयजडिलमंडियथणिहि, whose breasts were decked by a thick paste of saffron.

7. 9a to 10. 2b We have here a description of the whole earth with its continents as seen from the sky.

17. 12b पक्खे ( पक्षिणा ), by the bird. Are we to have the word as पक्खि which would be the form of the Instrumental sing ?

## LXIII

2. 7a एरादेविइ, elsewhere the name of the mother of शान्ति is given as अहरा as for instance in 1. 16 and 11. 2b.

5. 5-6 These lines give the list of 14 gems which, as a चक्रवर्तिन्, शान्तिनाथ possessed.

11. 1-7 These lines give the previous births of शान्तिनाथ and चक्रायुध. शान्ति had in all twelve, viz., श्रीषेण, कुरुरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज्रायुध-चक्रवर्तिन्, देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, शान्ति; चक्रायुध also had the following: अनिन्दिता, कुरुर, विमलप्रभदेव, श्रीविजय, देव, अनन्तवीर्य वासुदेव, नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहस्रायुध, अहमिन्द्र, दृढरथ ( मेघरथभ्राता ), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध.

## LXIV

1. 7b जो ण करइ करि कत्ति क्वालु, ( कुंयु or a तीर्थेकर ) who does not hold in his hand human skull ( कपाल ) and ( tiger's ) skin ( कृत्ति ) as god शिव does The तीर्थेकर is thus far superior to god शिव.

2. 8b वयविहिअजोगु दिण्णु वि ण लेइ, while begging alms he does not accept things which, for his vows ( व्रतविधि ) he cannot accept.

8. 1b णियजम्ममासपक्खेतरालि, on the same day, month and fortnight on which he was born, i. e. on the first day of the bright half of वैशाख. 2b कित्तिणक्खत्तासिइ ससक्कि, when the moon was in conjunction with the नक्षत्र mentioned ( कीर्तित ) or कृत्तिका.

## LXV

3. 4b पट्टणु रयणकिरणअइसइयउ, the town that excelled in brightness or was extremely bright owing to the rays of gems.

4. 9b-10b वरिसकोडि सहसेण विहीणइ...पह्लचउत्थभायपरिमाणइ, when after the निर्वाण of कुन्नु onefourth of the पल्लोपम minus one thousand crores of years passed.

5. 5b दइदइधणुत्तणु, with his body twenty शरासन in height. गुगमइ however mentions thirty शरासन as the height of अर Compare: शिवासायननुत्तेवः चायचामीकरच्छविः—65. 26. Which seems to be more probable.

9. 1-8 Note the play on the term अर or अरु here.

11. 8a णिउ जिणवररिसि सोत्तिउ तावसु, the king became a Jain monk, while the Brahmin became a तापस ascetic, i. e., an ascetic following the teaching of the Vedic religion, particularly the teaching of devotion to god शिव.

12. 6-7 णच्चइ देउ etc. These lines give the characteristic behaviour of god शिव, who performs a ताण्डवनृत्य, sings, has a woman or women ( पार्वती and गङ्गा ), beats the उमरु, burns त्रिपुर, and kills demons. The Jain monk says that such a godhead will not save one from संसार.

13 6b तावसुमासुरवासि रसंति, the pair of sparrows, having formed their nest in the beard of the ascetic, used to warble.

16. 1-2 These lines give the origin of the name कण्णाकुब्जणयरु, the city of कान्यकुब्ज, because the girls in which, having refused to marry the sage, became dwarfish owing to his curse.

24. 1b खत्तिय सयल्लु वि झारु परत्तिवि, having burnt to ashes all the क्षत्रियस. परत्तिवि comes from परत्त a deśī root which is preserved in modern Marathi as परतणें.

## LXVI

1. 9a विहवत्तणहुक्खोहरियल्लाय, whose beauty or spirit was soiled by sufferings of widowhood ( विहवत्तण, विधवात्व ). 10b पर ताउ ण पिच्छमि, but I do not see or know my father ( सहस्रबाहु ).

5. 5b कोसलं पुरं, i. e., साकेत which is the capital of the कोसल country.

6. 3a परमेसरु, i. e. बुभौम, who was destined to be a चक्रवर्तिन् later. 10b एउ जि, this very earthen plate filled with the teeth of his father ( सहस्रबाहु ), which turned into a discus ( चक्र ).

10. 10a सन्धेतरि ( श्वभ्रान्तरे ), in a ditch, i. e., in a hell.

## LXVII

4. 6a हिरण्यगम्भो, i. e., a जिन. The term हिरण्यगर्भे is used to designate god ब्रह्मा in Hindu Mythology, but in Jain Mythology it is used to denote a तीर्थंकर.

9. 1a दिणि छक्के विच्छिण्णए, six days after his दीक्षा, i. e., on षष्ठ्या द्वितीया, महिष्ठ attained वैवलज्ञान. गुणभद्र also gives this date exactly in the same form. Compare: दिने पट्ठे गते तस्य छात्रस्ये प्राक्तने वने-66.51.



13. 11a पितुणमहंतो, i. e., the minister named पितुण, who gave a wrong report about राम and विराम to their father वीर, was born as बलि the अर्धचक्रवर्तिन् and a प्रतिवासुदेव.

14. 4b वाणारासि, i. e., वाराणसी; the lengthening of the third syllable is due to metre.

## LXVIII

2. 13 पयडइ जायदं कालहु चिधदं, the signs of (coming) death or fall from heaven became manifest.

9. 3b गंधियकुंगंधयचं वणवहिति, (अनन्ततीर्थ or teaching of अनन्तजिन) which kept off or made ineffective the systems of heretic schools.

## LXIX

1. 2 हरिहलहरगुणयोत्तु जं जायउं रामायणु. The रामायण is the glorification of the virtues or qualities of हरि (वासुदेव) and हलवर (बलदेव). 4a णिन्वाहमि भरहन्मत्तियउं, I (Poet) want to carry out the wishes of भरत, my patron. 6a सामगि ण एक वि अत्थि महुं, I possess no material or facilities for undertaking the task of composing a रामायण. 6b किर कवण लीह चिरकइहिं सहुं, how can I compete with older poets? 7a कहराउ सयंभु, the great poet स्वयंभू who wrote on the theme of रामायण had the help of a thousand friends. 8a चउमुहहु, the great poet चतुर्मुख स्वयंभू, as his name implies, had four mouths. 9a महु एकु तं पि मुहुं खंडियउ, the poet पुष्पदन्त says that he has only one mouth as against four of चतुर्मुख, and that even this mouth is broken (खण्डित). Elsewhere पुष्पदन्त calls himself to be खण्ड or खण्डकवि, and mentions that his face or mouth was वक्र. 13 सुकइपयासियमगि, on the path brightened by great poets like स्वयंभू and चतुर्मुख; or on the path, i. e., सेतु, built or manifested by the good monkey, i. e. हनुमान्.

3. 3-10. These lines record some strange notions or superstitious beliefs about persons figuring in the रामायण. King श्रेणिक asks गौतम इन्द्रभूति to explain to him the truth about them. They are: (1) रावण (दशमुख) has ten mouths or faces; (2) his son इन्द्रजित् was older in age than his father, or, in other words, इन्द्रजित्, though a son of रावण, was born before him; (3) रावण was a demon and not a human being; (4) he had twenty eyes and twenty hands and that he worshipped god शिव with his heads; (5) रावण

was killed by the arrows of राम; (6) the arms of श्रीराम, i. e., लक्ष्मण, were long and unbending (थिर), (7) सुग्रीव and others were monkeys and not human beings; (8) विभीषण is still living or is a चिरंजीविन्, (9) कुम्भकर्ण sleeps for six months and feels satiated only by eating one thousand buffalos. Those that are conversant with the Hindu version of the रामायण will see that except No. 2, all other beliefs have some sort of support in the various versions of Hindu रामायण. About No 2 I have not come across any support for it. But before we proceed further we have to note a basic difference in the conception of personalities of राम and लक्ष्मण with the Hindus and the Jainas. राम, according to Hindu version and the Jain version is the elder of the two sons, राम and लक्ष्मण, of दशरथ, but राम who is the eighth बलदेव of the Jainas, has white complexion as against the dark complexion according to Hindus. On the other hand, लक्ष्मण who is the eighth वासुदेव of the Jainas, has dark complexion as against white complexion according to Hindus. Besides लक्ष्मण, being a वासुदेव with the Jainas, kills रावण who is a प्रतिवासुदेव with them. Other differences in the two versions will be noted as we proceed. 11a-b All Jain versions known to us say, as here, that व्यास and वाल्मीकि are responsible for creating wrong notions about the personalities of रामायण. It is clear from this statement that Jain poets, one and all, who tried their hands on the story of रामायण, have been acquainted with the versions of व्यास and वाल्मीकि, and think that they gave an altogether new interpretation of the lives of राम and लक्ष्मण.

4. 2-13 These lines mention the तृतीयभव of राम and लक्ष्मण. In the city of रत्नपुर in the मलयदेश, there was a king named प्रजापति. His queen, कान्ता by name, gave birth to a son who was called चन्द्रचूल (who is destined to be लक्ष्मण subsequently). विजय, the son of the king's minister, was a friend of चन्द्रचूल.

5. 5b कलहस्त ण चारुकरिणीइ, like a young elephant (कलह, कलभ) born of a beautiful she-elephant. A merchant named गोत्तम had a son, श्रीदत्त by name, by his wife वैश्रवणा. This श्रीदत्त was married to कुबेरदत्ता, daughter of कुबेर. 10b ती संणिहा का कुबेराइदत्ताइ what lady (ती, स्त्री) is comparable (संणिहा, संनिमा) to कुबेरदत्ता in beauty? चन्द्रचूल carried off this कुबेरदत्ता by force.

8. 4a सिखु चवति गहिरु, the two boys, चन्द्रचूल and विजय said in deep voice, i. e., full of repentance. These two were destined to be लक्ष्मण and राम in their third subsequent birth.

9. 9a अइरहसें, rashly, in haste.

**10.** 4b बालरिसि, the young monks चन्द्रचूल and विजय. Of these चन्द्रचूल formed a निदान on seeing सुप्रभवलदेव and पुरुषोत्तम वासुदेव to enjoy prowess similar to theirs. 9-10 विजय was born in the सनत्कुमार heaven and was called सुवर्णचूल, and चन्द्रचूल was born in the कमलप्रभ विमान and was named मणिचूल.

**11.** 11 कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायर जायउ, although king दशरथ ( णाहु ) was a friend ( बन्धु ) to the whole earth, he was not a seat or source ( आयर, आकर ) of faults ( दोस, दोष ) like the moon who is a friend of night lotuses ( कुवलय ) and is the maker of night ( दोषा ).

**12.** Note that राम ( in former births विजय and सुवर्णचूल ) is the son of king दशरथ of वाराणसी ( and not अयोध्या ) by his queen सुवला ( and not of कौसल्या ) and that the day of his birth is फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी, मघा नक्षत्र ( and not चैत्र-शुक्ल नवमी ); and that लक्ष्मण ( in former birth चन्द्रचूल and मणिचूल ) is the son of कैकेयी ( and not of सुमित्रा ) and is born on माघ शुक्ल प्रतिपद्, विशाखानक्षत्र. It is only subsequently that king दशरथ went over to अयोध्या as mentioned in 14. 6b below.

**16.** 1a जं जुंजिवि सगहु सयर गउ, king सगर went to heaven by performing a sacrifice According to Jain version of the story of सगर there is no mention of this sacrifice. 5b सिसु i. e. राम.

**20.** 10 पिंगल, i. e., मधुपिङ्गल, the son of तृणपिङ्गल and अतिथीदेवी. In 22. 3b he is called पिंगदिट्टि.

**28.** 10a णारउ अय जव तिवरिस चवइ, नारद says that अज means the जव ( यव ) corn three years old. This is the famous explanation of अज ( goat ) according to Jainas.

**33.** 8-9 These lines mention गोस्पर्श, पिप्पलस्पर्श etc., as meritorious acts according to superstitious beliefs; but the poet says that if they secure merit, a bull who touches the body of the cow and the crow that sits on the पिप्पल tree would be gods.

## LXX

**1.** 11a-b ए अहम, these two sons of yours are the eighth बलदेव and वासुदेव, as I heard in the पुराणस and will occupy a place among the शलाकापुरुषस.

**2.** This कडवक and the two following give the history of the past life of रावण. There was in the city of नागपुर a king called नरदेव. He renounced the world and practised penance. On seeing a विद्याधर he formed a

निदान that he should have the fortune similar to that विद्याधर. He was then born as a god in the सौधर्म heaven. King सहस्रग्रीव of the city of विद्याधर, got somehow displeased with his relatives, quarrelled with them and shifted to त्रिकूटगिरि. There he built the city of लङ्का. After him came शतग्रीव and पञ्चाशद्ग्रीव. His son was पुलस्ति whose wife मेघलक्ष्मी gave birth to दशग्रीव. He married मन्दोदरी, the daughter of मय.

6. 7a-b The line means that मणिवती got disturbed in her meditation on the बीजाक्षरमन्त्र, and thought that दशग्रीव, though a विद्याधर, had characteristics ( चिह्न, चिह्न ) of a demon. 8a-b मणिवती formed a निदान that he should be her father in her next birth, carry her off in the forest and die on her account This मणिवती becomes सीता in her next birth.

8. 1b तैं होंतैं होसइ अवर धूय, if दशग्रीव is alive, you ( मन्दोदरी ) will have another daughter. मारीच asked मन्दोदरी to abandon सीता as she was destined to bring calamity on the family.

9. 11 रामणरामह गाइं कलि, a source of quarrel between रावण and राम.

12. 3a ससुरणयर, i. e., मिथिला, the city of राम's father-in-law.

13. 9a अवरउ सत्त कण्णाउ, Over and above सीता, राम was married to seven other girls. 10a लक्ष्मण was married to sixteen girls. Note that राम in the Jain mythology has eight wives and not one.

16. 6b जाणेवा ( ज्ञातव्याः ). For this form see हेमचन्द्र iv. 438.

## LXXI

1. 1 कहिं तं भडणु एम भणंतु जि सचरइ, नारद, wanders over the earth finding out places where there is, or has a chance of, a quarrel. This characteristic of नारद is well-known to Hindu Mythology. Here he is approaching रावण to start the quarrel

2. 6b पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ, but one, i. e., राम, desires to obtain fame by conquering you

5. 6a सेलसिहरसचालणचंडहिं, with my arms, terrific in shaking the mountain peaks. This is a reference to the belief that रावण shook the कैलास mountain with his arms.

6-10. These कवकस refer to the description of the characteristics of ladies as mentioned in कामसूत्र of वात्स्यायन.

11. 7a चंदणहि ( चन्द्रनखी ), otherwise known as शूर्पणखा.

**15.** 2a बउलु परिकखइ णियतणुगंधे, a lady compares the scent of बकुल<sup>1</sup> flower to see if it is similar to the scent of her body. 11a संपहिं एह वि बोळण-सीली, now in this spring, this (cuckoo) also has become talkative.

**18.** 2a कचुइ होएप्पिणु, assuming the form of a कचुकिन् or rather कञ्चुकिनी an old lady.

**20.** 1a विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं. It appears that Jainism recommends the shaving of the head by widows.

## LXXII

**1.** 1 मुक्कदेसजइसजमु, abandoning the restraint which a householder ( देसजइ, देशयति, गृहस्य ) should practise, namely स्वदारसंतोष. रावण now starts in his पुष्पकविमान to carry off सीता against the rules of a Jain householder, for सीता is not his wife. He is not still aware of the fact that सीता is his own daughter. 19 दिड्डउ तेत्थु etc. रावण saw there the forest and also one more thing, viz., the bloom of youth of सीता. The next कडवक compares these two in similar terms.

**4.** A fine description of the movements of an antilop.

**5.** 5a कसणवाससोहियणियंबओ, who wore a blue or dark garment. बलदेव is called नीलाम्बर in Hindu as well as in Jain Mythology.

**8.** 11-12 These lines mean · If I ( ( रावण ) touch this lady who is now helpless but chaste, the lore which enables me to move through the air ( अम्बरचारिणी विद्या ) will go away from me. रावण was unwilling to dally with the unwilling सीता, as in that case he would lose all the prowess he had.

**12.** 4-6 These lines mention that रावण became an अर्धचक्रिन् about the time of the arrival of सीता at लङ्का.

## LXXIII

**1.** 3 एत्तहि etc. Three things occurred simultaneously, viz, राम followed the deer in the forest, सीता was carried off, and the attendants of सीता were filled with grief on her account.

**2.** 3b-6b It appears that the Jain society recommends the wearing of red-coloured saris for widows, breaking of bracelets, and not wearing ornaments like a necklace.

5. 9a According to the Jain version, इशरथ is still living when सीता was carried off by रावण. He saw a dream just at that moment that रोहिणी, the consort of the moon, was carried off by राहु, which dream indicated that a similar calamity had befallen राम.

6. 11a जणदणेण, by लक्ष्मण.

7. 4a बेणिण खग, i. e., सुग्रीव and हनुमत् who were विद्याधर and not monkeys.

8. 6b हनुमत् is in Jain Mythology the 20th कामदेव and hence he is mentioned as मयरकेउ ( मकरकेतु ) and by its synonyms. Compare 25. 9b below.

10. 3a सेस लेवि, having taken the शेषा, i. e., flowers etc, offered to the deity. When a devotee visits a temple, he takes home with him some portion of the निर्मात्य or ashes or some article dedicated to the deity.

15. 2 पावणि, i. e., हनुमान्. 12 सुवण्णभिगारयहु खप्पर दिण्णउं ढंकणु, broken earthen plate is placed as a cover to close the mouth of a golden vessel. भिगार is भृङ्गार, known as झारी in Marathi.

22. 12a ओलक्खिय पयजुयल्लणेण, मन्दोदरी recognised सीता as her daughter by signs or marks on her feet.

24. 13b वाणरायार, हनुमत् who was a विद्याधर, assumed the form of a monkey and stood before सीता This explains, according to Jain Mythology, the reason for the belief that हनुमत् was a monkey.

26. 8b गूढह अहिणाणवयाहं देमि, I shall mention certain very confidential happenings between you and राम so that you will recognise me to have come from him. This अभिज्ञान is supplied in the following lines of this कडवक and a few lines of the next कडवक.

28 10a-b णियकुळ वि etc. When fire burns its own race, i. e. trees or wood from which it is born, how can it forgive its enemy, i. e., water ? Water is heated by fire on this account.

29. 13b णं दहसुहरमणहु कोसपाणु, as if सीता swore that she would never dally with रावण. कोशपान is a शपथ or दिव्य, ordeal, which one solemnly undertakes. Compare गाथासप्तशती, 448, सद्भासमए जलपूरिअंजलिं विहडिएक्कवामअर, गोरीअ कोसपाणुअ व पमहाहिव णमह.

## LXXIV

4. 16 जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवल, हनुमत् was again asked to go to लङ्का as a दूत, and the poet humourously compares him to a bull ( धवल ) that is

yoked to a cart a second time. According to Hindu Mythology अङ्गद was the दूत of राम.

6. 4b तिष्णि वि एयउ, i. e., श्रीः, सीता and वसुंधरा ( पृथ्वी ) as mentioned in 5. 11 above, and 13. 9b below.

8. 15 बलहयउच्छुषणु, God of love bears a bow made of sugar-cane.

15. 3b रत्तउ हयगीउ सयंपहहि, a reference to अश्वग्रीव the first प्रतिवासुदेव who made love to स्वयंप्रभा and was killed by त्रिपुष्ट the first वासुदेव of the Jain Mythology.

16. 7a नील, one of the friends of सुग्रीव; b कुमुय, another friend of सुग्रीव. 9 and 10 mention कुन्द and नल who are allies of सुग्रीव.

## LXXV

1. 8b णिकुमु कुमु, names of रावण's followers.

2. 9b महु समउं खगाहिउ एउ ताव, Let first वालि ( खगाहिउ ) come with me to लङ्का. 10b करिवर महामेहक्खु देउ, Let him give me the excellent elephant called महामेघ.

3. 7b अणउत्तु वि, even though it is not expressly said.

4. 1b एकु जि सिहि अणु जि वायवेउ, there is already one calamity, viz., fire, and to add to it there comes the gust of wind. 12 मइ कुइइ, when I am angry.

6. 10b किलिकिलिपुरिंदु, the lord of the किलिकिलिपुर. i. e., वालि.

9. 2b एवडु फुरणु, such valour or activity.

## LXXVI

2. 6b अज्जु कलि डुकइ, will reach this place ( लङ्का ) today or tomorrow. 8a विणविवंसु, रावण was born in the विद्याधर race founded by विनमि ( विणवि ) who was the brother of नमि. See MP. Vol I, pp 121-137.

3. 5a वजावत्तसरासणहत्यहुं, The name of the bow of रामे is वजावर्त. 9a पंचयणु, the conch पाञ्चजन्य of वासुदेव, here of लक्ष्मण. 14 कुंभयणु महु वीयउ, रावण says to विभीषण that if विभीषण leaves him, he ( रावण ) will have कुम्भकर्ण to help him.

4. 5a तणुसीयइ, by a blade of grass one cleanses one's teeth. The form तणु for तृण is irregular.

6. 10a वाणरविजह वाणर होइवि, All विद्याधरस assumed the form of monkeys and then visited लङ्का.

9. 9a गमणें जासु होइ काली गइ, fire, the movements of which leave a black passage or smoke, अग्नि is often called धूमध्वज.

## LXXVII

2. 8b चदहासु, the sword of रावण. 14 अम्हें बलवतह हरिबलहं तसहुं, we are afraid of हरि ( लक्ष्मण ) and बल ( राम ) who are very strong.

3. 13 विहुरि वि धीर, रावण was full of courage ( धीर ) even in adversity ( विहुरि, विधुरे सति, सकटकाले सति ).

6. 1 भुवणुत्तुरडिणिवणे किं हुओ णिघोसो, Is there a noise of falling of worlds standing one upon the other ? There are several भुवनस which stand one upon the other and thus form an उत्तुरडि, उतरंड, as it is called in Marathi. 6b वइवसु, god of death ( यम ).

9. 5-17 A fine description of the dust raised by the fight.

13. 5a असिणिहसणसिहिजालुड, flames of fire produced from the clashing of swords. 13b सीसकें सहुं सिह, head along with the crown or cap ( शिरत्राण ),

## LXXVIII

1. 2 कण्हु, कृष्ण, i. e., लक्ष्मण who has a dark complexion. 15a-b विजय-पर्वन् and अञ्जनगिरि are the names of elephants of लक्ष्मण and राम. See also 3. 4b and 3. 11a below.

5. 11a-b पइ समुहु etc. A warrior says to another warrior, " You have given your head ( as capital ) in paying the debt of your master, and are using your blood as interest on the capital."

8. 3a धरियलोह तेण जि ते गुणचुय, the arrows are धरियलोह, i. e., have an iron edge or have greed ( लोह, लोभ ) and therefore they are गुणचुय, discharged by bow-string ( गुण ) or are destitute of virtues ( गुण ).

9. 21 ओत्यरिड, arrived on the scene.

10. 14 बोह्लिडं पालेसमि, I shall keep my word.

11. 3b सखाद, jarring words, words mixed with salt as it were, Compare क्षते क्षारनिक्षेपणम्.



**13.** 8b वीर पद्म, राम who had a white complexion similar to that of a white lotus, is called पद्म (पद्म) and पुराणसु describing his story are called पद्मचरित, पद्मपुराण etc.

**14.** 8a-b तह्हरजलि etc. The line records two popular sayings that in a small lake a crab is called a जलचर although the term means मकर, while in a place where there are no trees, एरण्ड becomes a big tree. Compare: निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते.

**15.** 1 वेणिं वि पीयवास, Both रावण and लक्ष्मण wore yellow garments. In Hindu mythology कृष्ण is called पीताम्बर.

**16.** 6a वीसपाणि, i. e., रावण, although रावण according to Jain Mythology had only two arms, still he is called वीसपाणि owing to the influence of Hindu Mythology.

**18.** 1 महुमहणमहासुहडे, on the great warrior who killed मधु. Note there are two प्रतिवासुदेवस, viz., मधु and मधुसूदन or महसूयण.

**20.** 14 भडमालविणिहयहं...भवियव्वक्खरइं, writings about the future of warriors which were written on their forehead. 15 जाइवि (याचित्वा), having obtained by begging.

**21.** 7b अंगुलियउ भंजइ राहवि, cracking of fingers on some one indicates disrespect for him. बोटें मोडणें is found in modern Marathi. 13a कण्णावर इहु णाहु महारउ, this husband of mine has married me when I was quite young; so our love is unbroken, Compare : यः कौमारहरः स एव हि वरः.

**23.** 4a अजु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, today the goddess of learning (सरस्वती) will not remember or recite the शास्त्र, owing to the death of रावण. रावण is known for his learning. In Hindu Mythology he is the son of a famous sage पुलस्त्य who is a Brahmin.

**24.** 3a णारउ णाउ आउ णासणविहि, It was not नारद who arrived (and induced your mind to carry off सीता), but it was your destiny bringing death upon you that had come. Note that रावण made up his mind to carry off सीता on the mischievous advice of नारद. 12a कुलिसु वि बुणेहिं विच्छिण्णउं, even hard adamant (वज्र) was bored by insects. Death of रावण from the hand of लक्ष्मण is as unexpected as the boring of वज्र by insects.

**25.** 1 दहसुहु तुहं, राम says to विभीषण that he should now take the place of दशमुख (रावण). 6b-12b These lines describe the removal of the dead body of रावण, on a palanquin decked by columns of plantain trees, with umbrella held over it.

**29.** 3b मेहिवि पउमु काउ सुयणत्तणु, who but राम is so noble ?

## LXXIX

2. 11b सउणदयासि, a sword called सौनन्दक because it was a gift from सौनन्दयक्ष. Of the seven gems which a वासुदेव as अर्धचक्रिन् possesses, sword is one and it is called सौनन्दक as the गदा is called कौमोदकी. According to Jain Mythology वासुदेव and बलदेव have seven and four marks respectively. They are given in the following verses :

असि शंखो धनुश्चक्रं शक्तिर्दण्डो गदामवत् ।  
 रत्नानि सप्त चक्रेशे रक्षितानि मरुद्गणैः ॥  
 रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुशल गदा ।  
 महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्वृतेः ॥

गुणभद्र—उत्तरपुराण—62. 148-149.

3. 8a तर्हि होंतउ गउ, he went from that place. Note the use of होंतउ with तर्हि rather than तहां. Compare हेमचन्द्र, iv. 355.

6. 10b को णारउ को सुरविमाणि, who will, in that case, be born in hell and who will be born in heaven? 12 जइ खणि खणि जि खउ etc. This is the famous doctrine of क्षणिकत्व of the Buddhists. सहंबुद्धे, by self-enlightened Buddha.

9. 6-9-These lines tell us that राम had eight sons विजयराम and others, and लक्ष्मण had several, पृथ्वीचन्द्र and others, from his wife पृथिवी.

11. 4b लच्छीहरणि, in the body of लक्ष्मीधर, i. e., लक्ष्मण.

## LXXX.

3. 4a अप्पउ एक्कु etc. For detailed notes on this passage see Vol. I, pp. 628-632.

9. A fine description of the Rainy Season.

15. 12-13. For details of नवरस, छत्तीस दिङ्गिउ and चउसट्टि कर see Vol I, pp. 603 and 609.

16. 7b रण्ण व रविहि, the name of the wife of the sun is रण्ण or as. T says रनादेवी.

APPENDIX I

( Adapted from Mr. G. H Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5 )

दिगम्यरजैनमतेन  
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

१ क्रमाङ्कः	२ तीर्थकरनाम	३ वर्णः	४ लाञ्छनम्
१	ऋषभः	काञ्चनः	वृषभः
२	अजितः	काञ्चनः	हस्ती
३	संभवः	॥	अश्वः
४	अभिनन्दनः	॥	वानरः
५	सुमतिः	कुङ्कुमः	धर्मचक्रम्
६	पद्मप्रभः	॥	कमलकलिका
७	सुपार्श्व	काञ्चनः	पञ्चफणः सर्पः
८	चन्द्रप्रभः	श्वेतः	चन्द्रः
९	सुविधिः ( पुष्पदन्त )	॥	कर्कटः
१०	शीतलः	काञ्चनः	धर्मचक्रम् ( भीवृक्षः )
११	श्रेयांसः	॥	हरिणः
१३	वासुपूज्यः	रक्तः	वृषभः
१३	विमलः	काञ्चनः	ब्रह्म.
१४	अनन्तः	॥	ऋक्षः
१५	धर्मः	॥	वज्रम्
१६	शान्तिः	॥	कच्छपः
१७	कुन्धुः	॥	अजः
१८	अरः	॥	हरिणः
१९	सहिः	नीलः	घटः ;
२०	मुनिसुव्रत.	कृष्णः	कच्छपः
२१	नमिः	काञ्चनः	अशोकवृक्षः
२२	नेमिः	कृष्णः	शंखः
२३	पार्श्वः	नीलः	सप्तफणः सर्पः
२४	महावीरः	काञ्चनः	गिद्दः

APPENDIX I (Contd.)  
(Adapted from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन  
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

५ यक्षः	६ वाहनम्	७ यक्षिणी	८ वाहनम्
गोमुखः	हस्ती	चक्रेश्वरी	गरुडः
महायक्षः	हस्ती	रोहिणी	गोधा
त्रिमुखः	मयूरः	प्रज्ञप्तिः	हंसः
यक्षेश्वरः	हस्ती	वज्रशृङ्खला	हंसः
तुम्बुरुः	गरुडः	पुरुषदत्ता	हस्ती
कुसुमः	वृषभः	मनोवेगा	अश्वः
वरनन्दी	सिंहः	काली	वृषभः
विजयः	हंसः	ज्वालामालिनी	मार्जारः
अजितः	कच्छपः	महाकाली ( अजिता )	वृषभः
ब्रह्मेश्वरः	कमलकलिका	मानवी	पद्म
ईश्वरः	वृषभः	गौरी	वृषभो गोधा वा
कुमारः	मयूरः	गान्धारी	सर्पः
षण्मुखः	कुक्कुटः	वैरोटी	सर्पः
पातालः	नक्रः	अनन्तमतिः	हंसः
किंनरः	मत्स्यः	मानसी	सिंहः हंसो वा
किंपुरुषः	वृषभः	महामानसी	मयूरः सिंही वा
गन्धर्वः	हरिणः	जया-विजया	मयूरः
केन्द्रः	मयूरः	अजिता	हंसः लोहपीठ वा
कुबेरः	हस्ती	अपराजिता	हंसः
वरुणः	वृषभः	बहुरूपिणी	सर्पः
भुकुटी	वृषभः	चामुण्डा	नक्रः
सर्वाहः	देवालयः ( अश्वः )	कूष्माण्डिनी	सिंहः
धरणेन्द्रः	कच्छपः	पद्मावती	हंसः
नातकः	हस्ती	सिद्धायिनी	हंसः

APPENDIX II  
तीर्थकरवर्णना

१ तीर्थकरनाम	२ तृतीयभवः, नगर	३ द्वितीयभवः	४ पूर्वतीर्थान्तरालम्	५ जन्मस्थानम्
१ ऋषभः	वज्रनाभ, पुंडरिक्किणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	—	अयोध्या
२ अजितः	विमलवाहन, सुसीमा	अनुत्तरदेव	पञ्चाशल्लक्षकोटिसागरोपम	अयोध्या
३ संभवः	विमलवाहन, क्षेमपुर	त्रैवेयकदेव	त्रिंशल्लक्ष ॥ ॥	श्रावस्ति
४ अभिनन्दनः	महाबल, रत्नसंचय	अनुत्तरदेव	दश ॥ ॥ ॥	साकेत
५ सुमतिः	रत्तिषेण, पुंडरिक्किणी	वैजयन्तदेव	नव ॥ ॥ ॥	॥
६ पद्मप्रमः	अपराजित, सुसीमा	त्रैवेयकदेव	नवतिसहस्रकोटि ॥	कौशांबी
७ सुपार्श्वः	नन्दिषेण, क्षेमा	सध्यमत्रैवेयकदेव	नवसहस्रकोटि ॥	वाराणसी
८ चन्द्रप्रमः	श्रीवर्मादयः—	अच्युतदेव	नवशतकोटि ॥	चन्द्रपुर
९ सुविधिः पुष्पदन्तो वा	महापद्म, पुंडरिक्किणी	प्राणतदेव	नवतिकोटि ॥	काकन्दी
१० शीतलः	पृथ्वीपाल, सुसीमा	आरणदेव	नवकोटि ॥ ॥	राजमद्र भद्रिला वा
११ श्रेयांसः	नलिनप्रम, क्षेमपुर	अच्युतेन्द्र	—	सिंहपुर
१२ वासुपूज्य	पद्मोत्तर, रत्नपुर	महाशुक्रदेव	५४ सागरोपम	चम्पा
१३ विमलः	पद्मसेन, महानगर	सहस्रारदेव	३० ॥	काम्पिल्य
१४ अनन्तः	पद्मरथ, अरिष्टनेमि	षोडशस्वर्गदेव	९ ॥	साकेत
१५ धर्मः	दशरथ, सुसीमा	सर्वार्थसिद्धिदेव	४ ॥	रत्नपुर
१६ शान्तिः	भैरव, पुंडरोकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	३ ॥	हस्तिनापुर
१७ कुन्धुः	सिंहरथ, सुसीमा	अनुत्तरदेव	१ ॥	॥
१८ अरः	घनपति, क्षेमा	जयन्तदेव	१९ लक्षकोटि	हस्तिनापुर
१९ महिः	वैश्रवण, वीतशोक	अपराजितदेव	१ सहस्रकोटि	मिथिला
२० सुमनः	हरिवर्मा, चम्पा	प्राणतेन्द्र	५४ लक्ष	राजगृह
२१ नमिः	पार्थिव, कौशांबी	अपराजितदेव	६० ॥	मिथिला
२२ नेमिः	—	जयन्तदेव	५ ॥	सौरपुर
२३ पार्श्वः	आनन्द, अयोध्या	प्राणतदेव	८३७५० वर्ष	वाराणसी
२४ महावीरः	नन्द, छत्रपुर	षोडशस्वर्गदेव	२५० वर्ष	कुम्भभूम



## APPENDIX III

### गणधरसंख्या

[ The No of gods and goddsses is infinite and that of lower animals finite  
for all Tirthamkaras and hence not tabulated ]

१ तीर्थकरनाम	२ गणधरा गणप्रमुखश्च	३ पूर्वधरा	४ शिक्षका	५ अवधिज्ञानिनः	६ केवलिन
१ ऋषभः	८४ वृषभसेन	४७५०	—	९०००	२००००
२ अजित.	९० सिंहसेन	३७५०	२१६००	९४००	२००००
३ संभवः	१०५ चारुमेनः	२६५०	१२९३००	९६००	१५०००
४ अभिनन्दनः	१०३ वज्रनाभि	२५००	२३००५०	९८००	१६०००
५ सुमतिः	११६ अमर.	२४११	२५४३५०	११०००	१३०००
६ पद्मप्रभ	११० वज्रचामरः	२३११	२६९०००	१००००	१२०००
७ सुपार्श्वः	९५ बल	२०३०	२४४९२०	९०००	११०००
८ चन्द्रप्रभः	९३ दत्तः	२०००	२००४००	८०००	१००००
९ सुविधिः, पुष्पदन्तो वा	८८ विदर्भः	१५००	१५५०००	८४००	७५००
१० शीतलः	८१ अनगारः	१४००	५९२००	७२००	७०००
११ श्रेयासः	७७ कुन्थु	१३११	४८२००	६०००	६५००
१२ वालुपूज्यः	६६ धर्म.	१२००	३९२००	५४००	६०००
१३ विमल	५५ मन्दरः	११००	३६५३०	४८००	५५००
१४ अनन्तः	५० —	१०००	३९५००	४३००	५०००
१५ धर्मः	४३ अरिष्टमेनः	९००	४०७००	३६००	४५००
१६ शान्ति	३६ चक्रायुध	८००	४१८००	३०००	४०००
१७ कुन्थु	३५ स्वयभूः	७००	४३१५०	२५००	३२००
१८ अर.	३० कुम्भः	६१०	३५८३५	२८००	२८००
१९ महिष्ठ	२८ विशाखा	५५०	२९०००	२२००	२२००
२० सुप्रभ	१८ महिष्ठ.	५००	२१०००	१८००	१८००
२१ नमि	१७ सुप्रभ	४५०	१२६००	१६००	१६००
२२ जेनिः	११ कदम	४००	११८००	१५००	१५००
२३ पार्श्वः	१० स्वयभू	३५०	१०९००	१४००	१०००
२४ महावीर	११ इन्द्रभूति	३००	९९००	१३००	७००

APPENDIX III (Contd.)

गणधरसंख्या

[ The No. of gods and goddesses is infinite and that of lower animals' finite for all Tirthankaras and hence not tabulated ]

७	८	९	१०	११	१२
विक्रियर्षिदादिनः	मनःपर्ययजानिनः	अनुत्तरवादिनः	आर्थिकाः प्रमुखा च	श्रावकाः	श्राविकाः
२०६००	१२६५०	१२६५०	३००००० ब्रह्मी-सुन्दरी	३५००००	५ लक्ष
२०४००	१२४५०	१२४००	३२०००० प्रकुब्जा	३ लक्ष	५ लक्ष
२९८००	१२९५०	१२०००	३३०००० धर्मा	३ "	५ लक्ष
२९०००	११६५०	११०००	३३०६०० मेरुषेणा	३ "	५ "
१८४००	१०४००	१०४५०	३३०००० अनन्तमति	३ "	५ "
१६८००	१०३००	९६००	४२०००० रतिषेणा	३ "	५ "
१५३००	९९५०	८६००	३३०००० मीना	३ "	५ "
१४०००	८०००	७६००	३८०००० वरुणा	३ "	५ "
१३०००	७५००	६६००	३८०००० घोषा	२ "	५ "
१३०००	७५००	५७००	३८०००० धारणा	२ "	५ "
११०००	६०००	५०००	१२०००० धरणा	२ "	४ "
१००००	६०००	४२००	१०६००० सेना	२ "	४ "
९०००	५५००	३६००	१०३००० पद्मा	२ "	४ "
८०००	५०००	३२००	१६००० सर्वश्री	२ "	४ "
७०००	४५००	२८००	६२४०० —	२ "	४ "
६०००	४०००	२४००	६०३०० हरिषेणा	२ "	४ "
५३००	३३००	२०५०	६०३५० भाविता	२ "	३ "
४३००	२०५५	१६००	६०००० यक्षिला	१६० सदस्य	३ "
३९००	१७५०	१४००	५५००० बन्धुषेणा	१ लक्ष	३ "
३३००	१५००	१२००	५०००० पुष्पदत्ता	२ "	३ "
३२००	१३५०	१०००	४५००० मंगिनी	१ "	३ "
३१००	९००	८००	४०००० बन्दी	१ "	३ "
३०००	७५०	६००	३६००० सुलोचना	१ "	३ "
२९००	५००	४००	३६००० चन्दना	१ "	३ "



APPENDIX IV

चक्रवर्तिनः

१ नाम	२ तीर्थम्	३ पूर्वभवः	४ जन्मस्थानम्	५ मातापितरौ
१ भरतः	ऋषभः	सर्वार्थसिद्धिदेवः	अयोध्या	ऋषभः—यशोमति
२ सगरः	अजितः	अच्युतदेवः	साकेतम्	समुद्रविजयः—विजयादेवी
३ मधवान्	धर्मः	ग्रैवेयकदेवः	साकेतम्	सुमित्रः—भद्रादेवी
४ सनत्कुमारः	धर्मः	अच्युतेन्द्रः	विनीतपुरम्	अनन्तवीर्यः—महादेवी
५ शान्तिः	शान्तिः	सर्वार्थसिद्धि- अहमिन्द्रः	हस्तिनापुरम्	विश्वसेनः—अहिरादेवी
६ कुन्थुः	कुन्थुः	अनुत्तरदेवः	”	शूरसेनः—श्रीकान्ता
७ अरः	अरः	जयन्तदेवः		सुदर्शनः—मित्रसेना
८ सुभौमः	अरः	—	साकेतम्	सहस्रबाहुः—विचित्रमतिः
९ पद्मः	मल्लिः	अच्युतदेवः	वाराणसी	पद्मनाभः—श्यामादेवी
१० हरिषेणः	मुनिसुव्रत	सनत्कुमारदेवः	भोगपुरम्	पद्मनाभः—अहिरादेवी
११ जयसेनः	नमिः	महाशुक्रदेवः	कौशाम्बी	विजयः—प्रभंकरि
१२ ब्रह्मदेवः	नेमिः	सौधर्मदेवः	कास्पिल्यम्	ब्रह्मराजः—चूलादेवी

APPENDIX IV (Contd.)

चक्रवर्तिनः

६ देहमानम्	७ वर्णः	८ आयुःप्रमाणम्	९ निर्वेदकारणम्	१० गतिः
५०० शरासन	काञ्चनः	अशीतिलक्षपूर्वाणि	पलितदर्शनम्	मोक्षः
४५० ”	”	५४ लक्षपूर्वाणि	पुत्रनाशः	”
४२ $\frac{१}{२}$ ”	”	५ लक्ष	—	”
४२ $\frac{१}{२}$ ”	”	३ ”	देहच्छविनाशः	”
४० ”	”	१ ”	पलितदर्शनम्	”
३५ ”	”	—	मुनिदर्शनम्	”
३०(२०) ”	”	८४ सहस्र वर्षाणि	शरदभ्रविनाशः	”
—	—	६० ”	—	नरकः
२२ ”	काञ्चनः	३० ”	अभ्रविनाशः	मोक्षः
२० ”	”	१० ”	चन्द्रग्रहणम्	”
१५ ”	”	३ ”	विद्युत्पतनम्	”
७ ”	—	७ शतानि	—	नरकः

APPENDIX V

बलदेववासुदेवाः

( Only Eight of the Nine are Tabulated )

१	२ तीर्थम्	३ नाम	४ तृतीयभवः	५ वैकारणम्
I { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	श्रेयांस ” ”	विजय त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव	विशाखभूति विश्वनन्दि विशाखनन्दि	नन्दनवन — —
II { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	वासुपूज्य ” ”	अचल द्विपृष्ठ तारक	वायुरथ सुषेण विन्ध्यशक्ति	गुणमञ्जरीवेश्या — —
III { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	विमल ” ”	धर्म स्वयंभू मधु	नन्दिमित्र सुकेतु बलि	द्यूत — —
IV { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अनन्त ” ”	सुप्रभ पुरुषोत्तम मधुसुदन	महाबल वसुषेण चण्डशासन	नन्दादेवीहरण — —
V { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	धर्म ” ”	सुदर्शन पुरुषसिंह मधुक्रीड	नरवृषभ सुमित्र राजसिंह	पराजय — —
VI { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अर ” ”	नन्दिषेण पुण्डरीक निशुम्भ	— — सुकेतु	— — —
VII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मल्लि ” ”	नन्दिमित्र दत्त बलि	राम विराम पिशुनमन्त्री	यौवराज्यस्यालामः — —
VIII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मुनिसुव्रत ” ”	राम ( पद्म ) लक्ष्मण रावण	विजय चन्द्रचूल —	— — —

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

६	७	८	९	१०	११
द्वितीयभव	मातापितरौ	देशः नगर	वैरकारणम्	देहप्रमाणम्	गतिः
महाशुक्रस्वर्ग	प्रजापति-जयवती	सुरभ्यदेश-पोदनपुर	—	८० शरासन	मोक्ष
”	प्रजापति-मृगावति	”	स्वयंप्रभाविवाह	”	नरक
—	मयूरग्रीव-नीलाजनप्रभा	अलका	—	—	नरक
प्राणतकल्प	ब्रह्मा सुभद्रा	भारत-द्वारवती	—	७० ”	मोक्ष
”	ब्रह्मा उववा or उषा.	”	गन्धहस्ती	”	नरक
कल्पामर	श्रीधर-श्रीमती	भरत, भोगवर्धन	—	—	नरक
अनुत्तरविमान	रुद्र-सुभद्रा	द्वारवती	—	६० ”	मोक्ष
लान्तयस्वर्ग	रुद्र पृथिवीदेवी	”	कल्पदान	६० ”	नरक
कल्पामर	समरकेसरी-सुन्दरी	रत्नपुर	—	—	नरक
सहस्रारदेव	सोमप्रभ जयवती	द्वारवती	—	५० ”	मोक्ष
सहस्रारदेव	सोमप्रभ-सीता	”	कल्पदान	५० ”	नरक
—	विलास-गुणवती	वाराणसी	—	—	नरक
सहस्रारदेव	सिंहसेन-विजया	खगपुर	—	४५ ”	मोक्ष
माहेन्द्रसुर	सिंहसेन-अम्बिका	”	कल्पदान	४५ ”	नरक
—	—	हस्तिनापुर	—	—	—
सौधर्मस्वर्ग	वरसेन-वैजयन्ती	चक्रपुर	—	२६ ”	मोक्ष
—	वरसेन-लक्ष्मीमति	—	—	२६ ”	नरक
—	—	—	पद्मावतीविवाह	—	नरक
सौधर्मस्वर्ग	अग्निशिख-अपराजिता	वाराणसी	—	२० ”	मोक्ष
”	अग्निशिख-केशवती	”	क्षीरसागर हस्ती	२० ”	नरक
—	—	मन्दिरनगर	—	—	नरक
मणिचूलदेव	दशरथ सुवला	वाराणसी	—	१५ ”	मोक्ष
सुवर्णचूल देव	दशरथ-कैकेयी	अयोध्या च	—	१५ ”	नरक
—	पुलस्ति मेघलक्ष्मी	लङ्काद्वीप	सीताहरण	—	नरक

ADDENDA ET CORRIGENDA

पृष्ठम्	कडकवम्	पक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	१	१२	'भवद् जसोही	भवद् जसोहो
४	१	१६	सण्णाणवहं	सण्णाणमहं
२३	७	१	मय मडल <sup>०</sup>	मयमडल <sup>०</sup>
२६	१२	११	मदिर <sup>०</sup>	मंदर <sup>०</sup>
३१	१८	२५	भइरहि	भईरहि
४१	१२	२५	अहंगया	अहं गया
४३	१४	५	एकूणवीस	एकूणतीस
७३	७	१२	पणावेवि	पणवेवि
७४	१०	४	सुबंधु सुवेरि सुनिच्च <sup>०</sup>	सबंधुसु वेरिसु निच्च <sup>०</sup>
७९	३	७	सुरपुरसाणहि	सुरपुरसणिहि
८८	५	१	चूडामणि सरिस	चूडामणिसरिस
८९	५	१२	पंकणेत्तहु	पकयणेत्तहु
९२	१०	१	पक्खमेत्तद्	पक्खमेत्तए
१२२	८	१४	धोयंदति <sup>०</sup>	धोयदंति <sup>०</sup>
१३२	५	५	<sup>०</sup> सुंहरि	<sup>०</sup> सुहरि
१५०	६	५	पर पराह्य	परपराह्य
१५१	७	१	पुरएवहु	पुरुएवहु
१५४	१२	१	कणहु	कण्हहु
१५८	१	१०	धणु लंगूलहु	धणुलंगूलहु
२४३	१४	९	वण्णामि	वण्णामि
२६२	१७	२	छहववलि	छुहववलि
३१३	३	२	छम्मा सताम	छम्मास ताम
३१७	९	५	जाय	जाया
३७०	४	१	सेणियराहु	सेणियरायहु
३७०	४	११	सिसु मंतिमित्तु	सिसुमति मित्तु
३७१	५	१२	धराणाह <sup>०</sup>	धरणाह <sup>०</sup>
३८४	२८	३	वेण्णि वे	वेण्णि वि
४१७	१	१	<sup>०</sup> सिगग <sup>०</sup>	<sup>०</sup> सिगग <sup>०</sup>
४२०	५	२	दवेदेव	देवदेव
४६१	८	९	महिवाढि	महिवीढि
४७४	२	१४	अम्हह	अम्हइ
४८६	५	१४	मडु डेहु	मडु देहु
५१६	४	१५	देहि णहु	देहि णेहु

Notes

536-37 Notes on कडक 6 here are those of Samdhi II.

